



ओ३म

# ऋग्वेद-संहिता

भाषा-भाष्य

( पञ्चम खण्ड )

भाष्यकार—

श्री परिडित जयदेव शर्मा,  
विद्यालङ्कार, मीमांसातीर्थ.

प्रकाशक—


आर्य साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर

प्रथमावृत्ति

२०००

सन् १९३५ ई०

संवत् १९९२ वि०



आर्य-साहित्य मण्डल लिमिटेड अजमेर के लिये  
सर्वाधिकार सुरक्षित.

मुद्रक—

दी फ़ाइन आर्ट प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर.

# ऋग्वेद विषय-सूची

पञ्चमाष्टके पञ्चमोध्यायः

सप्तमे मण्डले चतुर्थोऽनुवाकः

( एकषष्टितमसूक्तादारभ्य )

सू० [ ६१ ]—मित्र और वरुण । परस्पर वरण करने वाले स्त्री-पुरुषों को उपदेश । उनके प्रति सूर्यवत् तेजस्वी विद्वान् का कर्त्तव्य । ( २ ) उत्तम जीवन व्यतीत करने का उपदेश । ( ३ ) राज्य में प्रजापालक, दुष्टवारक मित्र, वरुण दोनों वर्गों के कर्त्तव्य । ( ४ ) मित्र, वरुण का महान् सामर्थ्य । ( ५ ) दोनों विद्वानों के वचन, उत्तम ज्ञान से पूर्ण हों । ( पृ० १-४ )

सू० [ ६२ ]—( १-३ ) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष के कर्त्तव्य । सब का भार अपने पर ले, समान रूप से देखे, उत्तम कर्म करे । किरणोंवत् सज्जनों सहित उदय को प्राप्त हो । ( ३ ) विद्वान् स्नेही, शासक जन प्रजाओं को नाना सुखजनक सम्पदाओं से पूर्ण करें । ( ४ ) आकाश-भूमिवत् माता पिता का कर्त्तव्य । प्रजा का हित । ( ५ ) बाहुओंवत् स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य । ( ६ ) विद्वान् शासकों के कर्त्तव्य । ( पृ० ४-७ )

सू० [ ६३ ]—( १-५ ) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष के कर्त्तव्य । ( २ ) यन्त्रचक्र में लगे अश्व या एंजिनवत् वा राशिचक्र के बीच स्थित सूर्यवत् विद्वान् का सर्वसञ्चालन । ( ४ ) सर्वप्रेरक सूर्यवत् ज्ञानी से प्रेरित जनों की सदर्थ-प्राप्ति । ( ५ ) सूर्यवत् सन्मार्ग में गति, मित्र और वरुण का आदर । ( पृ० ७-११ )



सू० [ ६४ ]—सूर्यवत् राजा के कर्त्तव्य । ( २ ) राजा रानी, राजा सेनापति के कर्त्तव्य ( ३ ) वायु मेघवत् राजाओं के प्रजापतिवत् कर्त्तव्य । ( ५ ) वायुवत् श्रेष्ठ जन का कर्त्तव्य । ( पृ० ११-१४ )

सू० [ ६५ ]—मित्र और वरुण, राजा-प्रजा वर्ग के कर्त्तव्य । ( २ ) उन के गृहपति-गृहपत्नीवत् कर्त्तव्य । ( पृ० १४-१६ )

सू० [ ६६ ] ( १-३ )—मित्र, वरुण, स्त्री-पुरुषों के परस्पर कर्त्तव्य । ( ४-१३ ) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुषों के कर्त्तव्य । ( १२-१३ ) उनसे ज्ञानैश्वर्य की याचना । ( १४ ) सूर्यवत् तेजस्वी शासक का वर्णन, उसके कर्त्तव्य । ( १७-१९ ) उत्तम स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य । ( पृ० १६-२३ )

सू० [ ६७ ]—दो अश्वी, राजा-रानीवत् स्त्री-पुरुषों के कर्त्तव्य । ( २ ) सूर्य-उषा दृष्टान्त से गुरु-शिष्य के कर्त्तव्य । अध्यात्म में आत्मा और बुद्धि का वर्णन । ( ३ ) जितेन्द्रिय नर-नारियों के कर्त्तव्य । ( ४ ) उनका आचार्य के अधीन वास, भैक्ष्य, मधुकरी वृत्ति । ( ५ ) अश्वी, जितेन्द्रिय शिष्य-शिष्या जनों का गुरु से ज्ञान-याचना का कर्त्तव्य । उनके उद्देश्य और कर्त्तव्य । विद्याध्ययनशील जनों को उपदेश । ( पृ० २३-२९ )

सू० [ ६८ ]—अश्वी, रथी-सारथिवत् स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य । शिष्य-शिष्याओं के कर्त्तव्य । ( ७ ) दुर्मित्रो से त्यक्त, निःसहायों का सहाय करना कर्त्तव्य है । अश्वियों का भुज्यु को समुद्र से पार करने का रहस्य । ( ८ ) स्त्रियों, कन्याओं की रक्षा का कर्त्तव्य । ( ९ ) विद्वान् का कर्त्तव्य उपदेश करना, ज्ञान बढ़ाना । ( पृ० २९-३३ )

सू० [ ६९ ]—दो अश्वी, ( १ ) राजा और विद्वान्, गृहस्थ के कर्त्तव्य । रथवत् गृहस्थाश्रम । ( २ ) रथी-सारथिवत् पति-पत्नी के कर्त्तव्य । ( ३ ) राजा-प्रजा आदि सहयोगी जनों को उपदेश । मधुमान् निधि का रहस्य । ( ४-८ ) वर-वधू के कर्त्तव्य । ( ७ ) अश्वियों का

भुज्यु को समुद्र से पार करने का गृहस्थ वर-वधूपरक स्पष्टीकरण ।  
( पृ० ३३-३८ )

सू० [ ७० ]—गृहाश्रम की श्रेष्ठता । परस्पर वरण करने वाले स्त्री-पुरुषों के कर्त्तव्य । वर और राजा के समान कर्त्तव्य । ( ४-७ ) वर-वधू दोनों को उत्तम उपदेश । ( ५ ) ज्ञान प्राप्त्यर्थ प्रेरणा । ( पृ० ३८-४१ )

सू० [ ७१ ]—‘अश्वी’ उत्तम स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य । रात्रि-सूर्यवत् स्त्री-पुरुषों के व्यवहार-निदर्शन । ( २ ) विद्वान् स्त्री-पुरुषों, शिक्षकों के कर्त्तव्य । ( ३ ) रथवत् गृहस्थसंचालन का आदर्श । ( ४ ) रथ की पुरुष से तुलना । उत्तम स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य । ‘नासत्य’ का स्पष्टार्थ । ( पृ० ४२-४५ )

सू० [ ७२ ]—विद्वान् स्त्री-पुरुषों के कर्त्तव्य । ( पृ० ४५-४७ )

सू० [ ७३ ]—उत्तम स्त्री-पुरुषों का वर्णन । उन के कर्त्तव्य और उपदेश । ( पृ० ४८-४९ )

सू० [ ७४ ]—अश्वी, सभापति, सेनापति, वा राजा-रानी । उन के कर्त्तव्य । ( २ ) उत्तम नायकों, स्त्री-पुरुषों के कर्त्तव्य । ( ३ ) उत्तम नृपालों का वर्णन । ( पृ० ४९-५२ )

सू० [ ७५ ]—उपा के नाना दृष्टान्तों से उत्तम स्त्री वा वधू के कर्त्तव्यों का उपदेश । ( ४ ) पत्नी के कर्त्तव्य । ( ५ ) पक्षान्तर में सभा, सेनादि का वर्णन, । ( ६ ) उत्तम विवाह-विधि द्वारा स्त्री को स्वीकार करके पुत्रोत्पादन का उपदेश । गृहस्थों के कर्त्तव्य । पुरुषों के कर्त्तव्य । ( ८ ) स्त्रियों के कर्त्तव्य । ( पृ० ५२-५६ )

सू० [ ७६ ]—उपा रूप से परमेश्वरी शक्ति का वर्णन । सविता प्रभु । पक्षान्तर में गृहपति सविता । ( ३ ) दिन-रात्रि विज्ञान के साथ साथ सूर्य उपा के दृष्टान्त से वर-वधू के कर्त्तव्यों का वर्णन । ( ४ )

सौभाग्यवान् पुरुषों का लक्षण । ( ५ ) सत्पुरुष विदुषी स्त्री को उपदेश । ( ७ ) उसके कर्त्तव्य । ( पृ० ५७-६१ )

सू० [ ७७ ]—सूर्य, उषा के विज्ञान के साथ २ परमेश्वर का वर्णन और गृहपत्नी युवति के कर्त्तव्य । ( २ ) दिनों की नायिका उषावत् परमेश्वरी शक्ति और उत्तम युवति, नायिका के कर्त्तव्यों का वर्णन । ( ३ ) सौभाग्यवती का लक्षण । ( ४ ) स्त्री और राजशक्ति का वर्णन । उनके कर्त्तव्य । ( ६ ) गृहपत्नी के कर्त्तव्य । ( पृ० ६१-६५ )

सू० [ ७८ ]—उषा के दृष्टान्त से गृहपत्नी के कर्त्तव्य । ( २ ) अग्नि-उषा व विद्वान्-विदुषी के कर्त्तव्य । स्त्रियों का सत्-आचार । ( ४ ) सौभाग्यवती का वर्णन । ( ५ ) उन का स्नेहयुक्त होने का कर्त्तव्य । ( पृ० ६५-६७ )

सू० [ ७९ ]—उषावत् गुणप्रकाशक वधू के कर्त्तव्य । ( २ ) नव-वधुओं के उज्ज्वल दीपकों और सूर्यकिरणों के तुल्य कर्त्तव्य । पति-पत्नी का शरीर में दो बाहुओं के तुल्य कर्त्तव्य । ( ३ ) पत्नी घर की रानी । ( ४ ) मेघ-विद्युत् वत् पुरुष-स्त्री की स्थिति । ( ५ ) स्त्री को उत्तम ज्ञान और वचन वाली होने का उपदेश । ( पृ० ६७-७० )

सू० [ ८० ]—उषावत् वधू के कर्त्तव्य । गर्भिणी के गर्भ पर उत्तम संस्कार डालने का उपदेश । साथ ही सृष्ट्यनुमुख प्रकृति का वर्णन । ( २ ) पत्नी के गृहोचित शिष्टाचारों का वर्णन । पक्षान्तर में उषा, सेना का वर्णन । ( पृ० ७०-७२ )

### पष्ठोऽध्यायः

सू० [ ८१ ]—उषा के दृष्टान्त से गृहपत्नी विदुषी के कर्त्तव्य । ( २ ) उषावत् तैत्तिरीय स्त्री का रानी-स्वरूप । ( ४ ) विदुषी स्त्री का मातृपद । माता के कर्त्तव्य । ( पृ० ७२-७५ )

सू० [ ८२ ]—इन्द्र-वरुण, शत्रुहन्ता. श्रेष्ठ पुरुष का प्रजा के प्रति कर्त्तव्य । ( २ ) इन्द्र-वरुण का स्वरूप एक वसुपति दूसरा प्रजापति । सम्राट् और साम्राज्य । ( ३ ) उन के कर्त्तव्य । नाना मार्ग निर्माण, और प्रजा की समृद्धि-वृद्धि । ( ५ ) आधिदैविक दृष्टान्त से इन्द्र-वरुण का रहस्य । सूर्य-मेघवत् कोश और दण्ड के अध्यक्षों के कर्त्तव्य । ( ६ ) इन्द्र, वरुण, दण्डकर्त्ता और दण्डपति । ( ७ ) पाप, दुराचार, पीड़ा, संताप से रहित उनका शासन । ( ८ ) दोनों प्रजा के बन्धु हों । ( ९ ) दोनों अग्रयोद्धा ( १० ) और प्रजा को उत्तम बलदाता हों । ( पृ० ७५-८१ )

सू० [ ८३ ]—इन्द्र, वरुण, वायु, विद्युत् वत् शत्रुहन्ता और शत्रुवारक अध्यक्षों के कर्त्तव्य । कृपकों वत् सैन्यों के कर्त्तव्य । ( २ ) संग्राम के दो नायक इन्द्र, वरुण । ( ३ ) युद्ध आदि संकट के विकट अवसरों में उन के कर्त्तव्य । ( ४ ) भेदनीति और सदुपाय का उपदेश । ( ५ ) प्रजा की त्राण की प्रार्थना । उन दोनों का महान् सामर्थ्य । दश राजा, सुदास, तृप्सु उनका रहस्य, सभा-सेनाध्यक्षों के कर्त्तव्य । ( पृ० ८६-८८ )

सू० [ ८४ ]—स्त्री पुरुषवत् प्रजा और राजा का परस्पर सम्बन्ध । ( २ ) सम्पन्न राष्ट्र में प्रजा का कर्त्तव्य । उत्तम शासकों के कर्त्तव्य । ( पृ० ८६-८८ )

सू० [ ८५ ]—इन्द्र, वरुण-उत्तम शासक तथा वायु जल और स्त्री-पुरुषों के कर्त्तव्यों का वर्णन । इन्द्र, वरुण राजा के कर्त्तव्य । ( पृ० ८९-९१ )

सू० [ ८६ ]—वरुण, परमेश्वर का वर्णन । परमेश्वर की भक्तिपूर्वक प्रार्थनोपासना । ( ३ ) बन्धन की जिज्ञासा । मोक्ष की प्रार्थना । ( ४ ) पाप-मोचन की प्रार्थना । ( ५ ) बन्धन-मोचन की प्रार्थना ।

( ६ ) दुःख मार्ग में जाने के कारणों की विवेचना । ( ७ ) सन्मार्ग पर नायक प्रभु ( पृ० ९१-९५ )

सू० [ ८७ ]—वरुण परमेश्वर के महान् दर्शनीय कार्य । प्रभु परमेश्वर का व्यवस्थित शासन । ( ४ ) प्रभु की व्यवस्था में विद्वान् का कर्त्तव्य । ( ५ ) जगत्त्रष्टा की अद्भुत सृष्टि । ( ६ ) परमेश्वर का वर्णन । ( ७ ) दयालु प्रभु । ( पृ० ९५-१०० )

सू० [ ८८ ]—वरुण परमेश्वर का वर्णन । निष्पक्षपात प्रभु । ( २ ) श्लेष से अन्नवत् प्रभु का वर्णन । ( ३ ) शिष्य-गुरु, भक्त-उपास्य के स्नेह की पति-पत्नी के स्नेह से समता । ( ४ ) वाणी रूप प्रभु का निष्ठ भक्त को तारना । शिष्य के लिये तीर्थ गुरु किस प्रकार है । ( ५ ) भक्त-उपास्य का सखाभाव । ( ६ ) हम पापी हो कर ईश्वर के दिये धन का भोग न करें । ( ७ ) कर्मबन्धन को काटने हारा प्रभु । कर्म-बन्धन के छेदन का प्रकार । ( पृ० १००-१०३ )

सू० [ ८९ ]—देह-बन्धन से मुक्ति की प्रार्थना । ( २ ) दुःखी जीव की विनीत प्रार्थना । ( ४ ) भवतृष्णा से मोचन की प्रार्थना । ( पृ० १०४-१०५ )

सू० [ ९० ]—बलवान् सेनापति के कर्त्तव्य । ( ३ ) सभापति के कर्त्तव्य । प्रजाजन स्त्री-पुरुषों के भव्य कर्त्तव्य । ( ४ ) विद्वानों के कर्त्तव्य । ( ५ ) स्वामियों, शासकों के कर्त्तव्य । ( ६ ) ब्रह्मचारियों के कर्त्तव्य । ( पृ० १०५-१०६ )

सू० [ ९१ ]—बलवान् का स्थापन । ( २ ) बलवानों के कर्त्तव्य । ( ४-६ ) विद्युत्-वायुवत् दो नायकों के कर्त्तव्य । ( पृ० १००-११२ )

सू० [ ९२ ]—वायुवत्, विवेकी विद्वान् - निर्णायक के कर्त्तव्य ।

( २ ) उत्तम शासक के कर्त्तव्य । ( ३ ) विवेकी वीर जनों के कर्त्तव्य ।  
( पृ० ११२-११४ )

सू० [ ९३ ]—इन्द्र अग्नि माता-पितृवत् ऐश्वर्यवान् और ज्ञानी-  
जनों के कर्त्तव्य । ( ३ ) विद्युत् और अग्नि के तुल्य अध्यापक, आचार्य  
और सभापति, सेनापति के पद । अग्रणी नायकों, वीरों के कर्त्तव्य ।  
( ७ ) शासकों के कर्त्तव्य । ( पृ० ११५-११६ )

सू० [ ९४ ]—इन्द्र-अग्नि, विद्वान् गुरु शिष्यों के कर्त्तव्य ।  
( ३ ) नायक नायिका जनों के कर्त्तव्य । ( १२ ) दुष्टाचारी को उचित  
दण्ड । ( पृ ११९-१२३ )

सू० [ ९५ ]—सरस्वती । नदीवत् पत्नी या स्त्री के कर्त्तव्य ।  
श्लेषमय वेद का अपूर्व चमत्कार । ( ३ ) सरस्वान् नरश्रेष्ठ का वर्णन ।  
उसके कर्त्तव्य । ( ४-६ ) स्त्री को उपदेश । ( पृ० १२३-१२७ )

सू० [ ९६ ]—( १-३ ) वेदवाणी सरस्वती का वर्णन । ( ४-६ )  
ज्ञानवान् प्रभु सरस्वान् से प्रार्थना । ( पृ० १२७-१२९ )

सू० [ ९७ ]—प्रभु की उपासना । प्रार्थना स्तुति । बृहस्पति  
प्रभु । ( पृ० १२९-१३४ )

सू० [ ९८ ]—मनुष्यों को यज्ञ का उपदेश । ( २ ) उत्तम राजा  
के कर्त्तव्य । ( ३ ) विजिगीषु राजा के कर्त्तव्य । ( ४ ) वीर जनों के  
कर्त्तव्य । ( ५ ) राजा के कर्त्तव्य । पक्षान्तर में प्रभु की उपासना ।  
( पृ० १३४-१३७ )

सू० [ ९९ ]—सर्वव्यापी प्रभु की महिमा का वर्णन । ( ४ ) इन्द्र,  
विष्णु, विद्युत् पवनवत् स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य । ( ५ ) राजा-सेनापति के  
कर्त्तव्य । ( पृ० १३८-१४१ )

सू० [ १०० ]—विष्णु, व्यापक प्रभु की स्तुति-उपासना । ( पृ० १४१-१४४ )

### सप्तमोऽध्यायः

सू० [ १०१ ]—पर्जन्य । मेघवत्-विद्वान् के कर्त्तव्य । उसका शिष्य को वत्सवत् ज्ञान रस से वर्धन । ( २ ) मेघ सूर्यवत् जगत् के स्वामी से वेदमय ज्ञान और सुखद देह की प्रार्थना । त्रिवर्त्तु ज्योति और त्रिधातु शरण का रहस्य । ( ३ ) मेघ के अप्रसूता और प्रसूता गौ के तुल्य रूप । उस के साथ सम्बद्ध भूमि सूर्यवत् प्रभु के दो रूप और प्रकृति पुरुष के विज्ञान का स्पष्टीकरण । ( ४ ) मेघविज्ञान । प्रकृति-परमाणुओं का तीन प्रकार की गति । तीन कोशों का वर्णन, अध्यात्म तत्त्व । ( ६ ) गौ वृषभ के दृष्टान्त से जगत्-स्रष्टा के आधार पर समस्त जगत् । ( पृ० १४४-१४८ )

सू० [ १०२ ]—पर्जन्य । मेघवत् सर्वोत्पादक प्रभु के गुणों का वर्णन । अग्निहोत्र-यज्ञ से प्रभु की प्रार्थना और मेघोत्पत्ति । ( पृ० १४८-१४९ )

सू० [ १०३ ]—मण्डूकों के दृष्टान्त से ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी और नाना विद्याओं के विद्वानों के कर्त्तव्यों का वर्णन । ( पृ० १४९-१५४ )

सू० ( १०४ )—दुष्टों का दमन । राजा और पुरोहित के कर्त्तव्य । दण्डविधान का आदेश । ( ४ ) दुष्टों के दमन के नाना साधनों का उपदेश । ( ५ ) दण्ड योग्य अपराधियों का निर्देश । ( १३ ) सत्यासत्य का विवेक करने का उपदेश । ( १३-१४ ) सत्यवादी को दण्ड न देकर पापी को दण्ड देने का उपदेश । ( १५ ) पीड़ादायियों को दण्ड । असत्यारोपी को दण्ड । ( १७ ) दुष्ट स्त्रियों को दण्ड । ( १८-१९ ) दुष्टों को कठोर दण्ड । दण्ड के लिये आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग ।

( २१-२४ ) कुटिलाचारी जनों पर दण्डपात् । ( २५ ) इन्द्र सोम, राजा और न्यायपति के कर्त्तव्य । ( पृ० १५४-१६५ )

### अष्टमं मण्डलम्

सू० [ १ ]—एक मात्र उपास्य प्रभु का वर्णन । उस के अनेक गुण ( ५ ) उपास्य को धन के लिये न त्यागें । ( ६ ) ईश्वर का मातृसम पद । ( ८ ) पुरन्दर ईश्वर बन्धनमोचक । वीर सेनापति से तुलना । ( १० ) प्रभु की दुधार गौ से तुलना । ( ११ ) सेनापतिवत् प्रभु की स्तुति । ( १२ ) अद्भुत कारीगर प्रभु । ( १३-१६ ) प्रभु से उत्तम २ प्रार्थनाएं । ( १७ ) उत्तम कर्त्तव्योपदेश । ( १८-२४ ) प्रभु से प्रार्थनाएं । ( २५ ) सेनापति के कर्त्तव्यों का भी वर्णन । ( २६ ) प्रभु से प्रार्थनाएं । सत्पुरुषों के कर्त्तव्य । ( ३२-३४ ) आसङ्ग श्लायोगि का रहस्य । ( पृ० १६६-१८० )

सू० [ २ ]—प्रजापति, राजा और गृहपति के कर्त्तव्य । ( २ ) राजा के प्रति प्रजाओं के कर्त्तव्य । ( ४ ) अद्वितीय स्वामी इन्द्र । ( ६ ) उस की उपासना । ( ७ ) प्रभु की राजा से समानता । ( ९ ) अभिषेक का अभिप्राय । ( १० ) आश्रय-याचना । ( ११-१७ ) राजा के कर्त्तव्य । प्रजा की प्रार्थना । प्रभु के प्रति भक्त की याचनाएं और कर्त्तव्य । ( १७-३६ ) प्रभु परमेश्वर से बल ऐश्वर्य की याचना ( ३७ ) स्तुत्य प्रभु । उससे प्रार्थनाएं । ( पृ० १८०-१९५ )

सू० [ ३ ]—प्रभु से प्रार्थना और उस की स्तुति । पक्षान्तर में राजा के कर्त्तव्य । ( पृ० १९५-२०४ )

सू० [ ४ ]—इन्द्र, प्रभु परमेश्वर का वर्णन । पक्षान्तर में राजा के कर्त्तव्यों का वर्णन । ( ३ ) आत्मा का वर्णन । ( ८ ) राजा प्रजा का गृहस्थवत् व्यवहार । राजा के राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य । ( पृ० २०४-२१५ )



### अष्टमोऽध्यायः

सू० [ ५ ]—उषा और अश्वियुगल । गृहलक्ष्मी उषा देवी । जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषों को गृहस्थोचित उपदेश । वीर विद्वान् एवं राजा और अमात्य-राजावत् युगल जनों के कर्त्तव्य । ( ३७, ३८, ३९ ) वैद्य प्रभु के दान और उसको अध्यात्म व्याख्या । ( पृ० २१५-२२८ )

सू० [ ६ ]—पर्जन्यवत् ज्ञानप्रद प्रभु की उपासना । ( २ ) विद्वानों के कर्त्तव्य ! ( ५ ) वीर पुरुषवत् ईश्वर का अद्भुत कर्म । ( ६ ) सूर्य, वायु, विद्युत्त्वत् राजा के कर्त्तव्य । ( ७-९ ) विद्वानों के गुण और कर्त्तव्य । ( १० ) प्रभु से प्रार्थनाएं । ( १२-१३ ) गुरुवत् प्रभु । ( १४ ) पापनिवारणार्थं दण्ड-प्रयोग का उपदेश । ( १५ ) अपरि-मेय सब से बड़ा प्रभु । ( १६ ) प्रसुप्त प्रकृति का ईश्वर से सम्बन्ध । ( १७ ) तम दूर करने की सूर्यवत् प्रभु से प्रार्थना । ( १८ ) गौओं के तुल्य ऋषियों का प्रभु के प्रति भाव । ( २० ) सर्व-शक्तिप्रद प्रभु । ( २१ ) पिता प्रभु । प्रभु और राजा से अनेक स्तुति-प्रार्थनाएं । ( ४६ ) सर्वोत्तम सुख प्रभु का है । 'तिरिन्दिर' का रहस्य । ( ४७ ) समदर्शी को बड़ा लाभ । ( पृ० २२८-२४५ )

सू० [ ७ ]—मरुद्गण । वायुओं के तुल्य बलवान् वीरों और विद्वान् पुरुषों के कर्त्तव्यों का उपदेश । ( ३-७ ) मेघ और वृष्टि लाने वाले वायुगण का वर्णन । उन की तुलना से सज्जनों, वीरों के कर्त्तव्य । ( पृ० २४५-२६० )

सू० [ ८ ]—अश्वी अर्थात् जितेन्द्रिय स्त्री-पुरुषों के कर्त्तव्य । राष्ट्र में राजा और सचिव जनों के कर्त्तव्य । ( ६-१५ ) ब्रह्मचारी-ब्रह्मचारिणी जनों के कर्त्तव्य । ( पृ० २६०-२७० )

सू० [ ९ ]—जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य । पक्षान्तर में ( १० ) राजा और सेनापति के कर्त्तव्य । ( १६-१८ ) उत्तम देवी विदुषी के

गुण और कर्तव्यों का वर्णन । शिक्षा, आतिथ्य और ज्ञानप्राप्ति सम्बन्धी अनेक उपदेश । ( पृ० २७०—२७९ )

सू० [ १० ]—जितेन्द्रिय स्त्रीपुरुषों के कर्तव्य । वेग से जाने वाले साधनों से सम्पन्न पुरुषों के कर्तव्य । ( पृ० २७९—२८१ )

सू० [ ११ ]—व्रतपा अग्नि । राजा, विद्वान् व अग्रणी नायक आचार्य के कर्तव्य । सर्वशासक तेजोमय प्रभु का वर्णन । ( पृ० २८१—२८४ )

## षष्ठोऽष्टकः



### प्रथमोऽध्यायः

सू० [ १२ ]—विश्वस्रष्टा की स्तुति । ( २ ) राजा के कर्तव्यों का वर्णन । ( पृ० २८५—२९८ )

सू० [ १३ ]—परमेश्वर की स्तुति । पक्षान्तर में राजा के कर्तव्यों का निदर्शन । ( पृ० २९८—३१० )

सू० [ १४ ]—ईश्वर से ऐश्वर्यादि की प्रार्थनाएं । ( २ ) गोपति होने की प्रार्थना । ( ३ ) सर्व सम्पदा के दाता प्रभु । यज्ञमय प्रभु की महिमा । ( ७ ) उदारचेता प्रभु । ( ८ ) गुरुवत् प्रभु । ( ९ ) प्रभु के स्थायी कार्य । ( १० ) आनन्द-सागर प्रभु । ( ११ ) मङ्गलकारी प्रभु । ( १२ ) 'अपां-फेन' से नमुचि के नाश का रहस्य । ( १३—१५ ) दुष्टों के नाश का उपदेश । ( पृ० ३१०—३१५ )

सू० [ १५ ]—सर्वशक्तिमान् ईश्वर की उपासना । ( २ ) सर्व-धारक प्रभु । ( ३ ) जगत् का एक अद्वितीय शासक । ( ४ ) सर्व-शक्तिमान् जगत्-कर्ता । ( ५ ) प्रकाशों का दाता । ( ७ ) बुद्धिमय प्रभु का बल, ऐश्वर्य और ज्ञान । ( ८ ) उसका महान् ऐश्वर्य । ( १० )

उत्पादक, पालक प्रभु । ( ११ ) सर्वविघ्नहारी प्रभु । ( १४ ) सर्वोपास्य । ( पृ० ३१५-३२० )

सू० [ १६ ]—परमेश्वर का स्तवन । ( ३ ) ज्येष्ठराज प्र ( ५ ) सर्वाध्यक्ष का वर्णन । ( ६ ) सर्वेश्वर्य स्वामी का वर्णन । स्तु योग्य प्रभु के गुणों का वर्णन । ( पृ० ३२०-३२४ )

सू० [ १७ ]—प्रभु की स्तुति । उस का हृदय में आह्वान व धारण । ( ५ ) गुरु का शिष्य को दीक्षित करना । उसको वेदोपदेश आचार्य शिष्य के कर्त्तव्य । वृत्रघ्न इन्द्र का वर्णन । विघ्नविनाश परमेश्वर । ( ९ ) जगत् का स्वामी । ( १०-१५ ) उपास्य उपासक गुरु शिष्य का सा भाव । ( १२ ) शक्तिशाली प्रभुवत् राजा । ( १४ ) वास्तोष्पति शासक इन्द्र । ( पृ० ३२४-३३० )

सू० [ १८ ]—विद्वानों से उत्तम ज्ञान की याचना । आदि विद्वानों का वर्णन । ( ४-७ ) विदुषी माता के कर्त्तव्य । ( ८ ) चित्सत्सकों के कर्त्तव्य । ( ८-९ ) रोगनाशक पदार्थ अग्नि वायु और सू ( १० ) विद्वानों से अज्ञान और पापनाश की प्रार्थना । ( २०-२२ ) विद्वानों से नाना कल्याण-प्रार्थनाएं । ( पृ० ३३०-३३७ )

सू० [ १९ ]—प्रभु-स्तुति का उपदेश । ( २ ) अग्निवत् ज्ञान-प्रक की स्तुति और आदर करो । अग्नि के दृष्टान्त से परमेश्वर का वर्णन । ( ५-६ ) उपासक यज्ञकर्त्ता को सत्फल की प्राप्ति । ( ७ ) सेनापति कर्त्तव्य । प्रकारान्तर से स्वामी, राजा और प्रभु का वर्णन । ( ९ ) अग्रणी वीर नायक के कर्त्तव्य । ( १३ ) विद्वान् का वर्णन । उस संस्कार का विधान । ( १४ ) नेता के कर्त्तव्य । ( १८ ) यज्ञ आदि उपासकों को उत्तम फल । ( १९ ) दान आदि का फल । ( २० ) नवा प्रभु से प्रार्थना । ( २१ ) प्रभु की स्तुति । ( २२ ) आहुत अग्नि

गुण विद्वान् का रूप । ( २३ ) अग्नि विद्युत् वा सूर्य के तुल्य नायक, विद्वान्  
 अथु का रूप और उस के कर्त्तव्य । उत्तम यज्ञकर्त्ता का सदाचारमय  
 अक्षण । ( २५ ) उपास्य-उपासक की अनन्यता की भावना । ( २६ )  
 वाप के निमित्त भगवान् का परित्याग न हो, स्तोता वा शास्ता मूर्ख और  
 अपी न हो । ( २७ ) पितावत् प्रभु । भगवान् की भक्ति । ( ३० ) सखा  
 प्रभु । ( ३१ ) प्रभु के अग्निरूप की व्याख्या । ( ३२ ) सम्राट् प्रभु ।  
 २. ( ३३ ) परम अग्नि प्रभु । ( ३४ ) आदित्य विद्वानों का वर्णन । उनके  
 कर्त्तव्य । ( ३६-३७ ) पौरकुत्स्य का दान । पुरुकुत्स सेनापति । उसका  
 वर्णन । अध्यात्म रहस्य । ( पृ० ३३७-३५२ )

सू० [ २० ]—मरुतों अर्थात् वीरों, विद्वानों के कर्त्तव्य । वायु और  
 जल लाने वाले वायु-प्रवाहों के वर्णन । ( २२ ) उत्तम अध्यक्ष  
 मरुद्-गण । ( २५ ) देह में मरुद्गण प्राणगण । ( पृ० ३५३-३६४ )

### द्वितीयोऽध्यायः

सू० [ २१ ]—स्वामी के अद्भुत गुणों का वर्णन । आत्मा, प्रभु  
 और विद्वान् का वर्णन । ( ४ ) बन्धुमान् प्रभु की शरण । ( ५ )  
 आश्रय वृक्षवत् प्रभु का आश्रय । ( ६ ) ईश-विनय के प्रयोजन । सर्व-  
 हो प्रभु । ( १० ) प्रभु का परमैश्वर्य । ( ११ ) सदा सहयोगी और  
 सहायक प्रभु । ( १२ ) प्रभु या राजा की सहायता से दुष्टों को  
 मित्र करने का संकल्प । ( १४ ) व्यसनी, धनाभिमानी का प्रभु मित्र  
 हो । भक्तों का पिता प्रभु । ( १५ ) भक्तों की चरम इच्छा । ( १६ )  
 शिष्यप्रद प्रभु । ( १७ ) प्रभु का सरस्वती-रूप । ( १८ ) मेघवत् दाता,  
 विहाराज प्रभु । ( पृ० ३६५-३७२ )

सू० [ २२ ]—सेनापति और वैद्यवत् स्त्री-पुरुषों का वर्णन ।  
 २ ) गृहस्थ रथ का वर्णन । ( ४ ) गृहस्थ-रथ के दो चक्र । ( ५ )

जितेन्द्रिय स्त्रीपुरुषों के कर्त्तव्य । ( ६ ) कृषकवत् उत्तम गृहपति और गृह-  
पत्नी के कर्त्तव्य । कृषि का उपदेश । ( ६ ) उत्तम नायक की स्थापना ।  
( ९ ) वेगवान् यान आदि साधन सम्पत्तियों के कर्त्तव्य । ( १० ) रोगी  
की सेवा का उपदेश । ( ११-१२ ) अन्यान्य नाना कर्त्तव्य । ( पृ०  
३७७-३८० )

सू० [ २३ ]—अग्नि-उपासना के साथ २ अध्यात्म उपासना । प्रभु  
परमेश्वर की अग्निवत् स्तुति । पक्षान्तर में अग्निवत् राजा और विद्वानों  
का वर्णन । उस के कर्त्तव्य । उसके प्रति प्रजा जनों का कर्त्तव्य ।  
अग्नि तुल्य गुणों वाले प्रभु से प्रार्थनाएं । ( पृ० ३८०-३९१ )

सू० [ २४ ]—सर्वशक्तिमान् प्रभु के गुणों का वर्णन । ( ४ )  
दुष्टहन्ता प्रभु । ( ४ ) ऐश्वर्यप्रद प्रभु । ( ६ ) परम शरण प्र  
( ७ ) शास्ता प्रभु । ( ९ ) सर्वसंचालक प्रभु । ( १० ) उसकी न  
प्रकार से उपासनाएं वा भक्तिप्रदर्शन और स्तुति । ( २४ ) सर्वज्ञ  
प्रभु की स्तुतियां । ( २५-२७ ) दुष्टों के नाश की प्रार्थना । ( २८ )  
सत्पात्रों में दान देने वाले को प्रभु भी देता है । ( २९ ) सत्पात्र में  
दान का उपदेश । सब से परे अगम्य प्रभु । ( पृ० ३९१-४०१ )

सू० [ २५ ]—उत्तम, आदरणीय, स्त्रीपुरुषों का वर्णन । उनके  
कर्त्तव्य । उत्तम माता पिता से रक्षा की प्रार्थना । ( १२-१५ ) उत्तम  
पुरुषों के कर्त्तव्य । विश्वपति राजा के प्रभु और सूर्यवत् कर्त्तव्य ।  
( १७-१८ ) महान् सम्राट् । विश्वपति ब्रह्मण, प्रकाशस्वरूप ईश्वर ।  
( २१-२२ ) प्रभु की स्तुति । ( २२-२५ ) सत्पुरुषों से प्रार्थना ।  
( पृ० ४०१-४०९ )

सू० [ २६ ]—उत्तम नायक, राजा प्रजा, वा पति-पत्नी जों के  
गुणों और कर्त्तव्यों का वर्णन । राजा-सचिव ( ४ ) माता-पिता, गुरु ज  
के कर्त्तव्य । ( ५ ) सैन्य-सैन्यपति के कर्त्तव्य ऐश्वर्ययुक्त सत्यवान्

स्त्री-पुरुषों के कर्त्तव्य । जितेन्द्रियों के कर्त्तव्य । ( १३ ) दिन-रात्रिवत् पति-पत्नी जनों के कर्त्तव्य । ( २१-२२ ) भावी जामाता के प्रति आदर । ( २२-२७ ) प्रभु से ऐश्वर्य की याचना । ( पृ० ४०९-४१९ )

सू० [ २७ ]—ज्ञानी पुरुष का पुराहित पद पर स्थापन । विद्वान्, ज्ञान की याचना । नाना प्रकार के उत्तम वीर विद्वान् पुरुषों के कर्त्तव्य । ( ११ ) राजा के कर्त्तव्य । ( १२ ) विद्वानों के कर्त्तव्य । ( १८ ) राष्ट्र के प्रति उनके कर्त्तव्य । ( पृ० ४१९-४२८ )

सू० [ २८ ]—३३ देवगण । राष्ट्र के ३३ प्रमुख शासक । ( २ ) मित्र, अर्थमा । तीन प्रधान पद । उन के कर्त्तव्य । ( पृ० ४२९ )

सू० [ २९ ]—विश्व के एक, अद्वितीय अध्यक्ष का वर्णन । उसके अद्भुत कर्म । ( ८-९ ) जीव और प्रभु का प्रकृति के अर्थ वर्णन । ( पृ० ४२९-४३२ )

सू० [ ३० ]—राष्ट्र में प्रजा जनों के सदृश जीवों का वर्णन । ( २-४ ) राष्ट्र-शासक रूप ३३ देवों का वर्णन । उनसे रक्षा की प्रार्थना । ( पृ० ४३२-४३४ )

सू० [ ३१ ]—यज्ञ और यज्ञमान की प्रशंसा । उस के कर्त्तव्य । ( २-७ ) पक्षान्तर में राजा के प्रजा के प्रति कर्त्तव्य । ( ४ ) प्रजावती की अग्नि से तुलना । ( ५ ) पति-पत्नी के कर्त्तव्य । ( १०-११ ) पना परमेश्वर से प्रार्थना । ( १२-१४ ) विद्वानों से प्रार्थना । ( १५-१८ ) उत्तम प्रभु भक्त का प्रभाव । यज्ञशील का वैभवं, बल और सामर्थ्य । ( पृ० ४३४-४४० )

३ वि.

### तृतीयोऽध्यायः

सू० [ ३२ ]—विद्वान् पुरुषों के कर्त्तव्य का उपदेश । ( २ ) शासक के वर्णन । ( ३ ) विद्युत्त्वत् सेनापति वा राजा के कर्त्तव्य । शत्रु-विजय का आदेश । ( ६ ) व्यापार का उपदेश । राजा प्रजा को समृद्ध करे ।

पक्षान्तर में आचार्य और आत्मा का वर्णन । ( १२ ) माता के तुल्य राजा का कर्त्तव्य । बड़े भारी पालक प्रभु की स्तुति । ( १३-१५ ) नियन्ता सर्वविजयी सखा । बड़ा दानी है । ( १६ ) उर्द्ध्व जन । ( १७ ) उपास्य का स्तवन । ( १८ ) स्तुति योग्य के लक्षण । बन्धन-मोचक प्रभु । ( १९-२० ) जीव को कर्मफल भोग का उपदेश । ( २१ ) राजा को वा उत्साही को आदेश उपदेश । ( २६-२९ ) बलवान् इन्द्र के लक्षण । ( २७-३० ) विद्वानों को उपदेश । ( पृ० ४४१-४५० )

सू० [ ३३ ]—उत्तम प्रजाओं के जलधारावत् कर्त्तव्य । ( २ ) प्रभु ईश्वर की उपासना । ( ३ ) राजा और विद्वान् के कर्त्तव्यों का वर्णन । ( ५-६ ) पुरुषोत्तम के लक्षण । प्रभु के गुण-स्तवन । ( १० ) समस्त सुखवर्षी प्रभु । ( ११ ) वीर योद्धा रथीवत् प्रभु का वर्णन । ( १२ ) बलवान् विद्वान् पुरुषों के कर्त्तव्य । ( १७-१९ ) उत्तम स्त्री के कर्त्तव्य । ( पृ० ४५१-४५८ )

सू० [ ३४ ]—ज्ञानवान्, ज्ञानेच्छुक पुरुषों को उपदेश । उनके कर्त्तव्य । ( १३ ) राजा के प्रति प्रजा की याचना । ( पृ० ४५९-४६५ )

सू० [ ३५ ]—जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य । ऐश्वर्य प्राप्ति और उन्नत होने के उपदेश । रथी-सारथी, राजा-सचिव आदिवत् उनके कर्त्तव्य । ( ४ ) उपा-सूर्यवत् उनके कर्त्तव्य । ( ७ ) हरिद्रव नाम जलपक्षी, वा वनमहिष के दृष्टान्त से उन के कर्त्तव्य । ( ८ ) दो हंसों के समान उनके कर्त्तव्य । ( ९ ) दो श्येनों के तुल्य उनके कर्त्तव्य । ( १०-१२ ) पान, तृप्ति, गमन, प्रजा, धन आदि धारण, विजय, रक्षा और शत्रुहन्त का उपदेश । ( १३-१५ ) धर्मवान्, तेजस्वी, ज्ञानी, सत्यवान् पुरुषों के सत्संगी होकर जीवनभर व्यतीत करने का उपदेश । ( १६-१८ ) ज्ञानवृद्धि, कर्मवृद्धि, रक्षोहन्त, दुष्टनाशन, क्षत्रविजय, गोवृद्धि, प्रजावृद्धि का उपदेश । ( १९-२२ ) वेद-श्रवण, सन्तानोत्पत्ति, यज्ञ,

देहसंयम का उपदेश । ( २३ ) परस्पर आदर करो । ( ३४ ) अन्न-यज्ञ द्वारा सन्तुष्ट होवो । ( पृ० ४६५-४७३ )

सू० [ ३६ ]—ऐश्वर्यवान् विद्वान् वा राजा के कर्त्तव्य । प्रभु की उपासना और उससे प्रार्थना । ( पृ० ४७३-४७६ )

सू० [ ३७ ]—माध्यंदिन के समान प्रजापालक राजा का व्यवहार । एकराट् राजा के कर्त्तव्य । ( पृ० ४७६-४७९ )

सू० [ ३८ ]—इन्द्र अर्थात् विद्युत् और अग्नि के तुल्य विद्वानों राजा और अमात्यों के कर्त्तव्य । उनके तुल्य परस्पर सहायकों और विद्वानों के कर्त्तव्य । ( पृ० ४७९-४८२ )

सू० [ ३९ ]—अग्नि, ज्ञानी और अग्रणी नेता पुरुष के कर्त्तव्य । उसके ज्ञान-प्रकाश द्वारा क्रम से विघ्नों और दुष्टों का नाश । ( १-१० ) देहाग्निवत् विद्वान् के कर्त्तव्य । ( पृ० ४८३-४८९ )

सू० [ ४० ]—इन्द्र, अग्नि, वायु, आग के समान विद्वानों के ज्ञान और तेजस्वी नायक के तेज, पराक्रम से दुष्टों का नाश । ( ३ ) इन्द्र और अग्नि दो अध्यक्षों का वर्णन । उनके आदर का उपदेश । ( ५ ) विद्युत् और अग्निवत्त्वों को वश करने का उपदेश । ( ६ ) दुष्ट के धनादान और वश करने की आज्ञा । ( ७ ) दुष्टों के नाश का उपदेश । ( ८ ) सूर्य, अग्निवत् व्रतपालकों के कर्त्तव्य । ( १०-१२ ) सूर्यादि के तेज से रोगों के तुल्य दुष्टों का नाश । ( पृ० ४८९-४९५ )

सू० [ ४१ ]—श्रेष्ठ पुरुषों के आदर का उपदेश । राजा के कर्त्तव्य । ( २ ) राजा के नाशार्थ उद्योग, पालक पुरुषों का नियोजन । ( ३ ) राजा का सैन्य-रक्षण । राष्ट्रस्थापन । ( ४ ) देह में प्राणों वा राजा का प्रजाओं को पालन करने का कर्त्तव्य । ( ५ ) सूर्यवत् लोकधारण के तुल्य राष्ट्रधारण । ( ६ ) चक्र में नाभि के तुल्य प्रभु वा विद्वान् के कर्त्तव्य । गोशाला में पशुओं के तुल्य इन्द्रियों का संयम । ( ७ ) सर्वो-प्रति-वरुण । ( ८ ) समुद्रवत् राजा । ( ९ ) त्रिलोकाधिपति वरुण



परमेश्वर । राजा के सात अश्वोवत् प्रभु का सब स्थावर जंगमों पर शासन । ( १० ) सर्वशासक की अद्भुत शक्तियां । ( पृ० ४९५-५०० )

सू० [ ४२ ]—वरुण परमेश्वर का वर्णन । सर्वोपास्य प्रभु । नौकावत् वेदवाणी का आश्रय लेने का उपदेश । ( ४-६ ) स्त्री पुरुषों को उपदेश । ( पृ० ५००-५०२ )

सू० [ ४३ ]—प्रभु की वेदवाणियों द्वारा स्तुति । ( ३ ) सर्व पापनाशन प्रभु, अग्नि । ( ४ ) अग्निवत् प्रभु की विभूतियां । इसी प्रकार स्वतन्त्र जीवगण की सत्ता का वर्णन । ( ५ ) नाना स्वतन्त्र जीवों का अग्नियों के तुल्य निरूपण । ( ६ ) साधक जीव के मार्ग की बाधाएं । ( ७ ) अग्नि से जीवनधारी आत्मा की तुलना । ( ८ ) पुनः उत्पन्न होने वाले जीव की अग्नि से तुलना । ( ९ ) अग्निवत् जीव का जन्म । ( १० ) अग्नि-ज्वाला के तुल्य गर्भ में स्थिर जीव की वृद्धि । ( ११ ) जीव और परम-आत्मा का स्वरूप । ( १२ ) प्रकाशमय, दुःखनाशन, पापनिवारक प्रभु की उपासना । ( १४ ) उसके प्रकाशित होने का प्रकार । ( १५ ) सहस्र-ऐश्वर्यप्रद प्रभु । ( १६ ) भ्रातृवत् शुद्धहृदय प्रभु । ( १७ ) मातृवत् प्रभु का वरण । ( १८ ) मुख्य प्राणवत् प्रभु । ( १९ ) सर्वाध्यक्ष प्रभु । ( २०-२१ ) समदर्शी प्रभु । ( २२ ) प्रकाशस्वरूप प्रभु । ( २३ ) द्वेषनाशक प्रभु । ( २४ ) साक्षी, अध्यक्ष प्रभु । ( २५ ) सब को भयप्रद सर्वसञ्चालक प्रभु । ( २६ ) दण्ड दाता प्रभु । ( २७ ) अग्निवत् प्रभु । ( २८ ) आत्मा के तीन रूप । ( ३२ ) बलवान् दुष्टनाशक प्रभु । ( ३३ ) अविनाशी ऐश्वर्य का स्वामी प्रभु । ( पृ० ५०२-५१४ )

सू० [ ४४ ]—अग्नि - परिचर्या के तुल्य गुरु और प्रभु की उपासना । ( ४ ) अग्नि और सूर्यवत् ऊर्ध्वरेता तेजस्वी का वर्णन । अग्नि की प्रभु से श्लिष्ट समताएं । ( ६-७ ) स्तुत्य अग्नि, विद्वान् और प्रभु । ( ८ ) यज्ञ का नेता अग्नि । ( ११ ) विजिगीषु तेजस्वी नायक अग्नि ।

( १२ ) विद्वान् अग्नि । ( १३-१४ ) नायक अग्नि । ( १५-१६ ) ब्रह्मचारी विद्वान् अग्नि । ( १७-२१ ) ज्ञानी, स्तुतियोग्य प्रभु । ( २३ ) भक्त की अनन्यता उपास्यमयता । ( २४ ) सर्वपालक प्रभु । ( २५-२७ ) स्तुत्य प्रभु । ( २८ ) उपास्य में लय । ( २९ ) ब्रह्माण्डदीपक प्रभु । ( ३० ) मोक्ष की प्रार्थना । ( पृ० ५१४-५२२ )

सू० [ ४५ ]—इन्द्र अग्नि । प्रभु के उपासकों का महान् ऐश्वर्य । ( ४ ) राजा का भूमि-माता के प्रति कर्त्तव्य । ( ५ ) बलवान् यशस्वी नेता अग्नि । ( ६-७ ) महारथी अग्नि, उसके कर्त्तव्य । ( ९-११ ) उत्तम सेनापति अग्नि । उसके कर्त्तव्य । ( १२ ) दानशील । गृहपतिवत् अग्नि प्रभु । ( १४ ) ऐश्वर्यवान् प्रभु । उस से नाना प्रार्थनाएं, शरण-याचना । ( २३ ) उत्तम नेताओं के कर्त्तव्य । ( ३०-४२ ) श्रेष्ठ राजा, उससे प्रजा की न्यायानुकूल नाना अभिलाषाएं । ( पृ० ५२२-५३४ )

### चतुर्थोऽध्यायः

सू० [ ४६ ]—उत्तम शासक, नेता, स्वामी शासक के कर्त्तव्य । प्रभु का वर्णन । उससे अनेक प्रार्थनाएं । ( २८ ) स्वराष्ट्र-शासक । उसका वैभव । ( पृ० ५३५-५४६ )

सू० [ ४७ ]—आदित्यों, मासों के तुल्य विद्वान्, तेजस्वी पुरुषों के कर्त्तव्य । ( २-३ ) चूजों पर पक्षीवत् उनकी प्रजा पर पक्षच्छाया । ( ७ ) उनकी उत्तम रक्षा का आदर्श । ( ८ ) कवचवत् रक्षकों का स्वरूप । ( ९ ) रक्षा शान्तिप्रद हो । ( १० ) देह से गृह और राष्ट्र की तुलना । ( ११-१८ ) उन के निष्पाप सुखदायी रक्षा-कार्यों का विवरण । ( पृ० ५४६-५५३ )

सू० [ ४८ ]—सोम । उत्तम अन्न, ओषधि-सेवनवत् परमानन्दमय प्रभु का सेवन । ( २ ) सोम शिष्य, उपासक के कर्त्तव्य । पक्षान्तर में विद्वान् और देह में वीर्य का वर्णन । ( ३-५ ) सोम, ओषधि-रस के पान के समान ऐश्वर्य, वीर्य, पुत्र शिष्यादि का पालन । ( ६ ) विद्वान्

सोम से ज्ञान की प्रार्थना । सोम तेजस्वी प्रभु से दीर्घ जीवन की याचना । ( ९ ) सोम का व्रत पालन । ( १० ) सोम, राजा से प्रार्थना । ( ११ ) सोम अभिषिक्त राजा । ( १२ ) सोम, व्यापक प्रभु की परिचर्या । ( १३ ) विद्वानों से प्रार्थना । ( पृ० ५५३-५६० )

### वालखिल्यम्

सू० [ ४९ ]—ज्ञानप्रद, सर्वदाता, ' सर्वरक्षक प्रभु की स्तुति । ( २ ) मेघ वा पर्वत से झरते जलों के तुल्य प्रभु के ऐश्वर्य । ( ३ ) जलाशय के जलों के तुल्य उसके पूरक ऐश्वर्य । ( ४ ) मधुव्रत उसके मधुर सुख । ( ५ ) गोरसों के तुल्य सुखद उसके दान । ऐसे प्रभु की उपासना का उपदेश । ( ७ ) राजा से प्रजा की प्रार्थनाएं । ( पृ० ५६०-५६४ )

सू० [ ५० ]—इन्द्र परमेश्वर की स्तुति का उपदेश । प्रभु का अपार ऐश्वर्य । ( ३ ) प्रभु और उपासक जन । ( पृ० ५६४-५६८ )

सू० [ ५१ ]—उत्तम राजा का वर्णन । ( ३-४ ) ज्ञानमय प्रभु एवं उपदेश से ज्ञान की याचना । ( ४ ) इन्द्र-प्रभु विषयक उपदेश । सप्तशीर्षा अश्व । ( ५ ) प्रभु का ज्ञान । इस एक जन्म में करने की प्रार्थना । ( ६-८ ) दाता प्रभु से याचना । सर्वस्वामी और स्तुत्य प्रभु । ( पृ० ५६४-५७२ )

सू० [ ५२ ]—शक्तिशाली, राजा, विद्वान् और परमेश्वर का वर्णन । ( ३ ) इन्द्र का स्वरूप । महान् शासक परमेश्वर इन्द्र । उसकी स्तुति प्रार्थनाएं ।

सू० [ ५४ ]—परमेश्वर की स्तुति प्रार्थनाएं । ( पृ० ५७९-५८२ )

सू० [ ५५ ]—प्रस्कण्व की दानस्तुति । परमेश्वर के जीव जनों पर अपार दान । ( पृ० ५८२-५८४ )

सू० [ ५६ — ]तेजस्वी परम पुरुष का विशाल बल और ऐश्वर्य । ( २ ) वेदज्ञान का दाता प्रभु । विद्वानों को अनेकविध दान । ( पृ० ५८४-५८६ )

सू० [ ५७ ]—सदाचारी स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य । जीवन का तृतीय सवन । ( पृ० ५८६-५८८ )

सू० [ ५८ ]—यजमान और ऋत्विजों के कर्त्तव्य । ( २ ) सूर्य, अग्नि, उपावत् सर्वप्रकाशक प्रभु । ( ३ ) विराट् रथ का वर्णन । ( पृ० ५८९-५९० )

सू० [ ५९ ]—विद्युत्, जल, मित्र वरुण । उन के समान सेनापति और राजा के कर्त्तव्य । ( ४ ) गुरु और आचार्य के कर्त्तव्य । ( पृ० ५९०-५९४ ) इति वालखिल्यम् ।

सू० [ ६० ]—प्रकाशस्वरूप, उत्तम अग्नि तुल्य, नायक प्रभु की प्रार्थना । अग्निवत् परमेश्वर के गुणों का वर्णन । ( ९ ) ज्ञानी व गुरु का वर्णन । ( १० ) रक्षोघ्न राजा के कर्त्तव्य । ( ११ ) पावन प्रभु का वर्णन । ( १३-१४ ) राजा का पराक्रम । ( १५ ) अरणियों में अग्नि के तुल्य तेजस्वी की प्रजाओं में स्थिति । ( १६ ) यज्ञाग्निवत् सात प्रकृति वाले राजा का स्वरूप । उसके कर्त्तव्य । ( पृ० ५९४-६०२ )

सू० [ ६१ ]—सत्य-निर्णायक न्यायाधिकारी के कर्त्तव्य । ( २ ) धिपणा नाम दो सभाओं को अपना रक्षक चुनने का अधिकार । ( ३ ) राजा के कर्त्तव्य । ( ४ ) राजा के प्रति प्रजा के कर्त्तव्य । ( ५ ) ऐश्वर्यवान् प्रभु का पद, उस का कर्म । परमेश्वर के ध्यान ज्ञान से कर्म करने वाला पवित्र हृदय होता है । ( १२ ) उत्तम रथीवत् प्रभु की उपासना । ( १३-१८ ) प्रभु से अभय की याचना । ( पृ० ६०२-६०९ )

सू० [ ६२ ]—ईश्वर की स्तुति । प्रभु के मङ्गलकारी दान । ( २ ) एक अद्वितीय, अविनाशी ( ३ ) सर्वजीवन प्रद है । प्रभु के दिये अनेक सुखकारी दान । ( ७ ) विश्व का पालक प्रभु । ( ८ ) प्रभु का आदर्श बल । ( ९ ) युगल का घटक प्रभु । ( १०-१२ ) उपास्य के प्रति भक्तिपूर्ण भाव । ( पृ० ६०९-६१३ )

सू० [ ६३ ]—शासक, विद्वान् ज्ञानी के माता पितावत् कर्त्तव्य ।

प्रभु वा शासक का सर्वोपरि पद । ( ३ ) सर्वोपरि ज्ञानप्रद गुरु, परमेश्वर । ( ६ ) सर्वाश्रय परमेश्वर । ( ७ ) सर्वपूज्य स्वामी ईश्वर । ( ८ ) जगत् का प्रवर्तक ईश्वर । ( ९ ) सुखार्थी जीव का प्रभु के आनन्द की ओर झुकाव । ( १२ ) त्यागी जनों से प्रार्थना । ( पृ० ६१४-६१८ )

सू० [ ६४ ]—परमेश्वर की स्तुति । ( २ ) महान् प्रभु । ( ३ ) सर्वप्रभु राजा । ( ४ ) सर्वोपरि ईश्वर । ( ५ ) विद्वान् के कर्त्तव्य । ( ७ ) सर्वोपास्य, अज्ञेय प्रभु । ( ८-१० ) प्रभु के विरल भक्त । ( ११-१२ ) राजा का अभिषेक-रहस्य । ( पृ० ६१८-६२२ )

सू० [ ६५ ]—सर्वव्यापक प्रभु की स्तुति और उपासना । ( पृ० ६२२-६२५ )

सू० [ ६६ ]—परमेश्वर की स्तुति । ( २ ) सर्वोपरि बलशाली प्रभु । ( ३ ) गोरूप वाणियों के आवरण को दूर करने वाला इन्द्र प्रभु । ( ४ ) सन्मार्ग-प्रवर्तक जगन्निर्माता प्रभु । ( ६ ) सर्वोत्तम दाता प्रभु । ( ७ ) नित्य ( ८ ) सिंहवत् वा चन्द्रवत् प्रभु और राजा का वर्णन । ( ९ ) प्रकृति से जगत् का स्रष्टा सर्वोपरि श्रवणीय है । ( १० ) अपार बली प्रभु । ( ११ ) भोजनवत् नियमानुसार भक्ति का विधान । ( १३ ) सर्वोपरि दयालु प्रभु ( १३-१४ ) मोक्ष की याचना । ( १५ ) अभय-आश्वासन । ( पृ ६२६-६३२ )

सू० [ ६७ ]—आदित्य सदृश तेजस्वी, धनवान् बलशाली लोगों के कर्त्तव्य । ( २ ) वे प्रजा को पाप से मुक्त करें और प्रजा का पालन करें । ( ७ ) उत्तम शासक स्वयं अपराध से रहित हों । ( ९ ) प्रजा को नाश होने से बचावें । ( १०-११ ) विदुषी माता के कर्त्तव्य । ( १२ ) उग्रपुत्रा माता भूमि । ( १३ ) उरुव्रजा, उरुची वैश्य सभा । ( १३-२१ ) तेजस्वी विद्वान् पुरुषों के कर्त्तव्य । पृ० ६३२-६३८ )

### पञ्चमोऽध्यायः

सू० [ ६८ ]—ईश्वराराधना, उसकी स्तुति और प्रार्थना । सृष्टिकर्ता का पुनः पुनः मनन । ( २ ) विश्व का विस्तारक परमेश्वर । ( ३ ) बलशाली । ( ४-५ ) राजा का वर्णन । ( ६ ) सर्वलोकपति प्रभु । ( ७ ) प्रजाओं का स्वामी प्रभु । ( ८ ) अपार शक्तिशाली प्रभु । ( ९-१३ ) उसकी स्तुति और प्रार्थनाएं । ( १४ ) आत्मा के ६ नर ६ इन्द्रिय गण । ( १५ ) अश्वमेध-राष्ट्र-शासनवत् देहव्यवस्था । ( १६ ) राष्ट्र में उत्तम वीरों की नियुक्ति । ६ सेनापतियों की नियुक्ति । बधूमान् अश्वों का रहस्य । अध्यात्म व्याख्या । देह में वाणीवत् राष्ट्र में राजसभा का रूप । ( १९ ) नियुक्त जनों को उपदेश कि कोई भी निन्दनीय कर्म न करें । ( पृ० ६३८-६४४ )

सू० [ ६९ ]—राष्ट्र के प्रजाजनों के कर्त्तव्य । ( ३-४ ) प्रजाओं द्वारा उत्तम शासक की स्थापना । ( ६ ) वेदवाणियों द्वारा प्रतिपादित परमेश्वर मधुर रसवत् रूप । प्राप्त पद सखावत् प्रभु का मोक्ष सुख का पद । सखा प्रभु । ( ८ ) प्रभु की अर्चना का उपदेश । ( ९ ) विद्वान् का प्रजाजनों को उपदेश । ( १० ) गौओंवत् प्रजाओं का रूप । राजा का प्रजा के प्रति कर्त्तव्य । वरण योग्य राजा वरुण । ( १२ ) वरुण आचार्यवत् । उत्तम नायकवत् भवबन्धन मोक्षक प्रभु । ( १४ ) पक्क ओदन के तुल्य शिष्य का गुरु से ज्ञान ग्रहण । राजकुमार के रथारोहणवत् । राष्ट्रशासन पद का आरोहण, और जीव का ब्रह्मपद-आरोहण । ( १६ ) गृहपति का गृहस्थ रथ पर आरोहण । राजा-राष्ट्र का 'दम्पति भाव' । ( १७ ) राजतन्त्रवत् अध्यात्मस्वराट् की उपासना । खेती करने के तुल्य देह से कर्मफल प्राप्ति । ( पृ० ६४५-६५३ )

सू० [ ७० ]—सर्वोपरि नायक शासक का वर्णन । प्रभु परमेश्वर की गुण-स्तुति । ( ५ ) पक्षान्तर में वीर पराक्रमी शासक का वर्णन । उसके कर्त्तव्य । ( १० ) पितावत् प्रभु । दुष्ट दमनकारी वा राजा ।

( १२ ) राजा के कर्त्तव्य और बन्धनमोचक प्रभु । ( १५ ) सेना वशकारी राजा के कर्त्तव्य । ( पृ० ६५३-६५९ )

सू० [ ७१ ]—तेजस्वी अग्रणी नायक के कर्त्तव्य । उस के आवश्यक गुणों का वर्णन । ( ११ ) नायक के दो प्रकार के रूप । ( १२-१५ ) देववत् पूज्य अग्नि परमेश्वर का वर्णन । ( पृ० ६५९-६६३ )

सू० [ ७२ ]—यज्ञ प्रतिपादन । ब्रह्मयज्ञ । अध्ययन-अध्यापन का प्रकार । ( २ ) गुरु का सप्रेम शासन । ( ३ ) विद्युत्त्व जिह्वा का स्वरूप । ( ४-५ ) विद्युत् का रथयान में प्रयोग । तद्वत् देह में आत्माग्नि का संयोग । ( ७ ) देह का अद्भुत यन्त्र । ( ८ ) अन्तरिक्ष रचनावत् देह-रचना का चमत्कार । ( ९ ) त्रिगुणात्मक देह की रचना । उस में यज्ञ । ( १० ) क्षेत्रसेचक कूप-टंकी यन्त्र से देह की रचना का आश्चर्यकारी वर्णन । इसी प्रकार राज्यतन्त्र का वर्णन । मेघ के तुल्य राजतन्त्र के कर्त्तव्य । ( १२ ) प्रजा का योग्य पालक का आश्रय ग्रहण । ( १३ ) अभिप्रेक योग्य व्यक्ति के लक्षण । ( १४ ) प्रजाओं के परस्पर योग्य व्यवहार । ( १५ ) देह के तुल्य राष्ट्र की स्थिति । देह में वीर्यवत् राजा की स्थिति । वायुवत् स्वामी का कर्त्तव्य । ( १८ ) अग्निवत् नायक विद्वान् का कर्त्तव्य । ( पृ० ४६३-६७० )

सू० [ ७३ ]—विद्वान् जितेन्द्रिय सत्पुरुषों के कर्त्तव्य । स्त्री-पुरुषों को उत्तम उपदेश । ( पृ० ६७०-६७५ )

सू० [ ७४ ]—विद्वान् का आदर करने का उपदेश । उत्तम विद्वान् के लक्षण, उस की उपासना । पक्षान्तर में परमेश्वर की उपासना का उपदेश । परमेश्वर का स्वरूप उस से नाना प्रार्थनाएं । ( १३-१५ ) उत्तम राजा की दान स्तुति । राजा का कर्त्तव्य ज्ञानसेवियों का पालन । राजा की बलवती सेना 'परुष्णी' का वर्णन । ( पृ० ६७६-६८१ )

सू० [ ७५ ]—रथ में अश्व के तुल्य उत्तम विद्वान् कर्मकर्त्ताओं को नियुक्ति । प्रधान शासक के कर्त्तव्य । ज्ञान, बल और धन इन का त्रिविध पति अग्नि । ( ५ ) चक्रधारा के तुल्य राष्ट्रचक्र-नीति को वश

करने का उपदेश । ( ६ ) प्रभु स्तुति के लिये नित्य वाणी का प्रयोग । ( ७-८ ) नायक के प्रति अधीन प्रजाओं का कर्त्तव्य । ( ९ ) बुरे लोगों को पापसंग हमें पीड़ित न करे । ( १० ) राजा को शत्रुपीड़न का उपदेश । ( ११ ) उस से धन-सम्पदा की प्रार्थना । ( १२ ) संकट में भी राजा प्रजा का साथ न छोड़े । ( १३ ) सेनापति के कर्त्तव्य । ( पृ० ६८१-६८६ )

सू० [ ७६ ]—उत्तम सेना नायक के कर्त्तव्य । उस की सूर्य से तुलना । ( ४ ) विजयी स्तुत्य सेनापति । पक्षान्तर में परमेश्वर का निर्देश । महान् शासक के गुण । ( ६ ) प्रभु की प्रार्थना । ( ७ ) नाना वीरों के नायक का राष्ट्र-पालन का कर्त्तव्य । अध्यात्म में आत्मा मरुत्वान् का वर्णन । ( ८ ) विद्वानों बलवानों का आदर । पराक्रमी के कर्त्तव्य । ( १० ) तृप्त राजा । ( ११ ) शास्य-शासक दोनों बलवान् होते हैं । ( १२ ) अष्टापदी वाणी का वर्णन । ( पृ० ६८६-६९० )

सू० [ ७७ ]—राजा के प्रजा के प्रति कर्त्तव्य । ( ४ ) चन्द्र सूर्यवत् राजा के व्यवहार का वर्णन । ( ५ ) सूर्यवत् राजा के कर्त्तव्य । ( ६ ) मेघ-छेदन-भेदन वत् शत्रु पर भेद नीति का कार्य । ( ७ ) राजा का सहायक शस्त्रबल । ( ८ ) प्रजा के सुख के प्रति राजा का ध्यानाकर्षण । वायु-मेघ के व्यवहारों के समान राजा और राजपुरुषों के कर्त्तव्य । ( ११ ) शस्त्रबल । ( ९ ) राजा वा प्रभु के अनेक बल, उनकी श्लिष्ट तुलना कैसे हो । ( पृ० ६९०-६९६ )

सू० [ ७८ ]—ऐश्वर्यवान् प्रभु और स्वामी के कर्त्तव्य । उनसे भोजन, वस्त्र; आभूषणादि की प्रार्थना । राजा, विद्वान् तत्त्वदर्शी का वर्णन । इन्द्र-पद । ( ६ ) उसका अविनाशी पद । ( ७ ) सर्वैश्वर्य स्वामी प्रभु । ( ९ ) प्रभु और राजा के लिये प्रजा के प्रति नाना कर्म । ( पृ० ६९६-७०० )

सू० [ ७९ ]—जगत्कर्त्ता और सञ्चालक प्रभु का वर्णन । पक्षान्तर में शासक राजा के कर्त्तव्य । उन के अद्भुत कर्म । ( ३ )



विशाल गृह के तुल्य राजा की स्थिरता । उत्तम सञ्चालक । ( ५ )  
 दानार्थियों का एक मात्र शरण । विद्यार्थियों का शरण गुरु । ( ६ )  
 विद्यादान पुनर्जीवन है । ( ७ ) दयाशील शासक का रूप । ( ८ )  
 राजा वा शासक सत् प्रजा को भय का कारण न हो । प्रजा को उद्विग्न  
 न करे और हृदय को पीड़ित न करे । ( ९ ) दुष्टों को दूर करे । ( पृ०  
 ७००-७०३ )

सू० [ ८० ]—राजावत्दयालु प्रभु का वर्णन । उत्तम रक्षक के  
 कर्त्तव्य । ( ५-६ ) राजावत् प्रभु से प्रार्थनाएं । ( ७ ) राजा वा प्रभु की  
 दुर्ग से तुलना । ( ९ ) प्रभु का तुरीय पद । सर्वानन्दप्रद उपास्य प्रभु ।  
 ( पृ० ७०३-७०६ )

सू० [ ८१ ]—प्रभु की स्तुति और प्रार्थनाएं । प्रभु ( २ )  
 सर्वेश्वर्यान् । ( ३ ) वेरोक दानशील उद्यमार्थ प्रेरक प्रभु । ( ७ ) स्नेही  
 प्रभु । सर्व मनोरथ-पूरक प्रभु । ( पृ० ७०६-७०९ )

### षष्ठोऽध्यायः

सू० [ ८२ ]—धनसम्पन्न व्यापारी वर्ग के कर्त्तव्य । ( २ ) राजा  
 की राष्ट्र-पालनार्थ शासकों की नियुक्ति । ( ३ ) अन्न सर्वोत्तम भोजन ।  
 ( ४ ) अशत्रु राजा । ( ५-९ ) अन्नादिवत् ऐश्वर्यादिक । ऐश्वर्य आदि  
 का पात्र राजा । उस के अधिकार और कर्त्तव्य । ( पृ० ७०९-७१२ )

सू० [ ८३ ]—विद्वान् तेजस्वी, व्यवहारकुशल विद्वान् जनों के  
 कर्त्तव्य । ( पृ० ७१२-७१४ )

सू० [ ८४ ]—अग्रणी नायक के गुण और कर्त्तव्य । ( २ ) नायक  
 की दीपक वा अग्निवत् दो प्रकार की स्थिति । ( ६ ) नायक वा प्रभु के  
 प्रति अधीनों के कर्त्तव्य । ( पृ० ७१४-७१७ )

सू० [ ८५ ]—विद्वान् जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य । ( पृ०  
 ७१७-७२० )

सू० [ ८६ ]—उत्तम स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य । ( पृ० ७२०-७२२ )

सू० [ ८७ ]—विद्वान् स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य । राजा और अधीन शासकों अध्यादि सैन्य एवं सेनापति, उन के कर्त्तव्य । ( पृ० ७२२-७२५ )

सू० [ ८८ ]—सेनापति इन्द्र का वर्णन । उसके कर्त्तव्य । ( पृ० ७२५-७२७ )

सू० [ ८९ ]—इन्द्र प्रभु की स्तुति । ( पृ० ७२७-७३० )

सू० [ ९० ]—परमेश्वर की स्तुति । पक्षान्तर में राजा के कर्त्तव्यों का वर्णन । ( पृ० ७३०-७३२ )

सू० [ ९१ ]—वरवर्णिनी कन्या और वर वधू दोनों के कर्त्तव्य । वधू की ओर से वरण और आशंसा । ( ३ ) वर से परिचय । ( ४ ) वर के गुण । ( ५-६ ) कन्या की ओर से ३ शर्तें । ( ७ ) वर के कर्त्तव्य । सूक्त समीक्षा । ( पृ० ७३२-७४० )

सू० [ ९२ ]—इन्द्र का लक्षण । उस के कर्त्तव्य । ( पृ० ७४०-७४९ )

सू० [ ९३ ]—इन्द्र वीर सेनापति । उसके कर्त्तव्य । पक्षान्तर में परमेश्वर के गुण वर्णन । ( प्र० ७४९-७५९ )

सू० [ ९४ ]—वीर पुरुषों का वर्णन । उन के कर्त्तव्य । ( पृ० ७५९-७६२ )

सू० [ ९५ ]—परमेश्वर के गुणों का स्तवन । पक्षान्तर में राजा के कर्त्तव्य । ( पृ० ७६२-७६५ )

सू० [ ९६ ]—राजा के वैभव के कर्त्तव्यों के साथ साथ जगत्-उत्पादक परमेश्वर का वर्णन । ( पृ० ७६५-७७४ )

सू० [ ९७ ]—राजा के कर्त्तव्य के साथ २ परमेश्वर के गुणों का वर्णन । ( पृ० ७७५-७८० )

## सप्तमोऽध्यायः

सू० [ ९८ ]—जगत् के पालक परमेश्वर का वर्णन । पक्षान्तर में राजा के कर्त्तव्य । ( पृ० ७८०-७८४ )

सू० [ ९९ ]—राजा प्रजा के व्यवहारों के साथ परमेश्वर के गुणों का वर्णन । ( पृ० ७८४-७८७ )

सू० [ १०० ]—जीवों के कर्मफल - भोगार्थ परमेश्वर की शरण प्राप्ति । ( ४ ) परमेश्वर का साक्षात् स्वरूप वर्णन । ( ६ ) परमेश्वर का ज्ञानी जनों के प्रति अनुग्रह । भक्तों के प्रति उपदेश । ( ७ ) जीवों को प्रभु ने स्वतन्त्र क्यों किया । ( ८ ) ज्ञानी की आयसी नगरीवत् देह-बन्धनों से मुक्ति । ( ९-१० ) प्रभुवाणी का वर्णन । ( पृ० ७८६-७९३ )

सू० [ १०१ ]—( १ ) शमसाधना । ( २ ) दो नायकोंवत् मेघ और वायु । राष्ट्र के न्याय और सैन्य-विभाग के अध्यक्षों का वर्णन । ( प्रजा की राजा से विशेष याचनाएं । ( ६ ) शासकों के कर्त्तव्य । ( ७ ) विद्याभिलाषी जनों के कर्त्तव्य । ( ११-१४ ) महान् प्रभु का वर्णन । ( १४-१६ ) गौ, वाणी और भूमि की महिमा का वर्णन । ( पृ० ७९३-८०० )

सू० [ १०२ ]—गृहस्वामी के कर्त्तव्य । अग्नि आचार्य का वर्णन । अग्नि परमेश्वर का वर्णन । उसकी स्तुति, सर्वरक्षक, सर्वकर्त्ता शिल्पी के तुल्य प्रभु । सर्व प्रकाशक, परम सुखदायक प्रभु की स्तुति, भक्ति और उपासना । ( प्र० ८०१-८०९ )


सू० [ १०३ ]—परम गुरु की उपासना । सूर्य, पृथ्वी और परमेश्वर-प्रकृति के कार्यों का वर्णन । ( ३ ) कृपि-फलवत् प्राप्ति । ( ४ ) भक्तों पर प्रभु की कृपा । ( ११ ) सर्वशासक प्रभु का वर्णन । वही सर्वोपास्य है । ( पृ० ८०९-८१५ )

## शुद्धाशुद्ध-पत्रम्

पृ०	पं०	अशुद्धम्	शुद्धम्
४	३	अमृता	अनृता
२३	१०	पातम्	यातम्
३२	२०	समुद्र में ( भुज्युम् )	समुद्र में ( जहुः ) त्याग देते हैं उस ( सुज्युम् )
५५	२०	देखी जावें	देखे जावें
७२	१६	अश्व गो	अश्व गौ
९५	१७	तुझे	हमें
१७१	२	करती	करता
२८३	६	बहुत सेनानो	बहुत से नामों
३७०	१७	रवन्त	रेवन्तं
३६८	१३	शम् भा	सम् भा
३९४	२५	हहय	दद्य
४८१	१३	विद्युत्	विद्युत्
५५३	१७	( परिवोवित्तरस्य )	( वरिवोवित्तरस्य )
५६७	१०	( मनुष्यः )	( मनुषः )
६०७	५	( रथीतम )	( रथीतमः )
६१४	१४	सव	सव
६५५	२	॥ ७ ॥	॥ ४ ॥
६५८	२२	युक्त करे	मुक्त करे
६८३	१४	पाले	वाले
६९३	८	पत्र	पात्र
७०२	२१	तृप्त	लुप्त
७१६	२०	( पृष्ट सं० ) ७१६, ७१९, ७१८, ७१७, ७२०	पृष्ट सं० ७१६, ७१७ ७१८, ७१९, ७२०
७६६	१९	२१ सौ	२१ सो
७६८	७	जजान	( जजान )
८१०	२३	भ्रमपूर्वक	भयपूर्वक



# ऋग्वेद-संहिता



अथ पञ्चमेऽष्टके पञ्चमेऽध्याये तृतीयो वर्गः ।

सप्तमे मण्डले चतुर्थेऽनुवाके ।

[ ६१ ]

सिष्ठ ऋषिः ॥ मित्रा वरुणौ देवते ॥ छन्दः—१ भुरिक् पंक्तिः । २, ४  
त्रिष्टुप् । ३, ५, ६, ७ निचृत्त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्व सूक्तम् ॥

उद्धां चक्षुर्वरुण सुप्रतीकं देवयोरेति सूर्यस्ततन्वान् ।

अभि यो विश्वा भुवनानि चष्टे स मन्युं मर्त्येष्वामि चिकेत ॥१॥

भा०—हे ( वरुण ) एक दूसरे का वरण करने वाले एवंसवसे वरण करने योग्य श्रेष्ठ स्त्री पुरुषो ! ( सूर्यः चक्षुः ततन्वान् ) सूर्य जिस प्रकार राख की शक्ति को बढ़ाता है उसी प्रकार ( सूर्यः ) सूर्य के समान जस्वी, ज्ञान का प्रकाशक परमेश्वर और विद्वान् पुरुष ( देवयोः ) ज्ञान के इच्छुक ( वां ) आप दोनों की ( प्रतीकं ) उत्तम प्रतीति या ज्ञान के देने वाले ( चक्षुः ) प्रकाशक प्रज्ञानेत्र को ( ततन्वान् ) अधिक विस्तृत करता हुआ ( एति ) प्राप्त हो । ( यः ) जो ( विश्वा भुवनानि ) समस्त लोकों और पदार्थों को ( अभि चष्टे ) प्रकाशित करता और सब पदार्थों का

उपदेश करता है ( सः ) वह ( मर्त्येषु ) मनुष्यों में ( मन्युम् ) मनन करने योग्य उत्तम ज्ञान भी ( आ चिकेत ) प्रदान करता है । अर्थात् परमेश्वर ही मनुष्यों में सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश देता है । इसी प्रकार तेजस्वी विद्वान् भी मनुष्यों में ज्ञान का दान करे ।

प्र वां स मित्रावरुणावृतावा विप्रो मन्मानि दीर्घश्रुदियर्ति ।

यस्य ब्रह्माणि सुक्रतु अवाथ आ यत्क्रत्वा न शरदः पृणैथे ॥२॥

भा०—हे ( मित्रा वरुणा ) सब के स्नेही और सब से वरण करने योग्य श्रेष्ठ स्त्री पुरुषो ! ( यस्य ) जिसके ( ब्रह्माणि ) उत्तम ज्ञानों और धनों की आप दोनों ( सु-क्रतू ) उत्तम कर्मवान् होकर ( अवाथ ) रक्षा करते हो और ( यत् ) जिसके ( क्रत्वा न ) यज्ञवत् कर्म और ज्ञान सामर्थ्य से ( शरदः पृणैथे ) जीवन के समस्त वर्षों को सुखपूर्वक व्यतीत करते हो । ( सः विप्रः ) वह विद्वान् पुरुष ( ऋतावा ) न्याय और सत्य ज्ञान से युक्त और ( दीर्घ-श्रुत् ) दीर्घ काल तक वेदादि सत्य शास्त्रों का श्रवण करने वाला, बहुश्रुत होकर ( वां ) आप लोगों के प्रति ( मन्मानि ) मनन करने योग्य ज्ञानों को ( इयर्ति ) उपदेश प्रवचन आदि करे । ❀

प्रोरोमित्रावरुणा पृथिव्याः प्र दिव ऋष्वाद् बृहतः सुदानू ।

स्पशो दधाथे ओपधीपु विच्चृधग्यतो अनिमिपं रक्षमाणा ॥३॥

भा०—हे ( मित्रावरुणौ ) 'मित्र' प्रजाजनों को मृत्यु आदि के कष्टों से बचाने वाले और 'वरुण' और उनके दुखों को दूर करने वाले दोनों प्रकार के वर्गों ! हे ( सु-दानू ) उत्तम ज्ञान सुखादि के दाता आप दोनों ( उरोः पृथिव्याः ) विशाल पृथिवी और ( बृहतः ) बड़े भारी ( ऋष्वात् ) महान् ( दिवः ) प्रकाशयुक्त सूर्य से ( स्पशः ) नाना प्रकार के ग्रहण करने योग्य पदार्थों को ( प्र प्र दधाथे ) प्राप्त किया करो । ( ओपधीपु ) ओपधियों

और ( विक्षु ) प्रजाओं में भी ( अनिमिपं ) विना प्रमाद के, विना नयन-क्षपके ( ऋधक् ) सत्य के बल से ( रक्षमाणा ) प्रजाओं की रक्षा करते हुए भी ( यतः ) यत्नशील ( स्पशः प्र दधाथे ) उत्तम गुत्तरों और अध्यक्षों को अच्छी प्रकार नियुक्त करो ।

शंसा मित्रस्य वरुणस्य धाम शुष्मो रोदसी बद्धे महित्वा ।

अयन्मासा अयज्वनामवीराः प्र यज्ञमन्मा वृजनं तिराते ॥ ४ ॥

भा०—हे ( मित्रस्य ) प्राणवत् वा जल व सर्वप्रिय, सर्वस्नेही, शान्ति-दायक और ( वरुणस्य ) दुःखों और अज्ञानों के वारण करने वाले जन के ( धाम ) तेज और स्थान की ( शंस ) प्रशंसा कर । जिसके ( महित्वा ) बड़े सामर्थ्य से ( शुष्मः ) शत्रुशोषक, बलवान् पुरुष या जिसका महान् सामर्थ्य ( रोदसी बद्धे ) सूर्य के समान आकाश पृथिवीवत् ( रोदसी ) दुष्टों को रूलाने वाली सेना और राष्ट्र-सभा दोनों को सुप्रबद्ध कर व्यवस्थित करता है । अयज्वनाम् ) यज्ञ, सत्संगादि से रहित लोगों के ( मासः ) महीनों पर महीने ( अवीराः ) वीर पुत्रादि रहित वा विना विशेष विद्याध्ययन ज्ञान प्राप्ति के ही ( अयन् ) व्यतीत होते हैं और ( यज्ञमन्मा ) पूज्य प्रभु का मनन, आचार्य, गुरु और राजादि के मान्य करने वा सत्संगादि ज्ञान प्राप्त करने वाला जन ( वृजनं ) अपने ज्ञान और बल को ( प्र तिराते ) खूब बढ़ाने में समर्थ होता है ।

अमूरा विश्वा वृषणाविमा वां न यासु चित्रं ददृशे न यक्षम् ।

दुहः सचन्ते अनृता जनानां न वां न्त्रियान्यचिते अभूवन् ॥५॥

भा०—हे ( अमूरा ) अमूढ़, मोह में न पड़ने वालो ! हे ( विश्वा ) विविध विद्या में प्रवेश करने हारो ! हे ( वृषणौ ) बलवान्, सुखों की वर्षा करने वाले मेघ सूर्यवत् उपकारी स्त्री पुरुषो ! ( इमाः ) ये ( वां ) आप लोगों की ऐसी सरल उत्तम वाणियां हैं ( यासु ) जिनमें ( चित्रं ) अद्भुत और ( यक्षम् ) विशेष स्तुति योग्य ( न न ददृशे ) कुछ नहीं दिखाई



देता ऐसा नहीं, प्रत्युत आपकी वाणियों में सर्वत्र अद्भुत और ग्राह्य, स्तुत्य पदार्थ ही विद्यमान है। (जनानां) मनुष्यों के बीच में (द्रुहः) द्रोही पुरुष ही (अमृता) असत्य २ बातों को (सचन्ते) सेवन करते हैं, वे हरेक बातों का उलटा मतलब लगाया करते हैं। वस्तुतः (वां) आप लोगों के (निष्प्यानि) छुपे हुए रहस्य मर्म (अचिते न अभूवन्) अज्ञानी पुरुष के लिये नहीं प्रकट होते हैं। अर्थात् उत्तम स्त्री पुरुषों के वचन सरल और स्पष्ट होने चाहियें। द्रोही लोग उनका कुछ का कुछ ही झूठ मतलब लगाते हैं अज्ञानी लोग उनकी यथार्थता नहीं जानते।

समुं वां यज्ञं महयं नमोभिर्हुवे वां मित्रावरुणा स्वाधः ।

प्र वां मन्मान्युचसे नवानि कृतानि ब्रह्म जुजुषन्निमानि ॥ ६ ॥

भा०—हे (मित्रावरुणा) सर्वस्नेही और सबसे गुरु आदि रूप से वरण करने योग्य स्त्री पुरुषों! (स्वाधः) विशेष अज्ञानादि की बाधा वा पीड़ा से युक्त होकर (वां यज्ञं) आप लोगों के सत्संग की मैं (नमोभिः) अति विनययुक्त वचनों से (महयम्) स्तुति करता हूँ और (वां हुवे) आप दोनों की भी स्तुति करता हूँ। (वाम्) आप लोगों के (नवानि) नये से नये स्तुत्य (कृतानि) सम्पादित किये (इमानि ब्रह्म) ये नाना अज्ञादि, धन और उपदिष्ट (मन्मानि) मनन करने योग्य ज्ञानादि को लोग (ऋचसे) सेवन करने के लिये (जुजुषन्) प्रेमपूर्वक प्राप्त करें।

इयं देव पुरोहितिर्युवभ्यां यज्ञेषु मित्रावरुणावकारि ।

विश्वानि दुर्गा पिपृतं त्रिरोनो युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः।७।३।।

भा०—व्याख्या देखो सू० ६०।म० १२ ॥ इति तृतीयो वर्गः ॥

[ ६२ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ १-३ सूयं । ४-६ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः—१, २, ६  
विराट्त्रिष्टुप् । ३, ४, ५ निच्चात्त्रिष्टुप् ॥ षडृचं सूक्तम् ॥

उत्सूर्यो बृहदर्चीष्यश्रेत्पुरु विश्वा जनिम मानुषाणाम् ।

समो दिवा ददृशे रोचमानः क्रत्वा कृतः सुकृतः कर्तृभिर्भूत् ॥१॥

भा०—(बृहत् सूर्यः पुरु अर्चीषि उत् अश्रेत् ) बड़ा भारी सूर्य जिस प्रकार बहुत से किरणों और तेजों को अपने में धारण करता है इसी प्रकार ( सूर्यः ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष ( बृहत् ) बड़ा होकर ( मानुषाणाम् ) मनुष्यों के ( विश्वा जनिम ) समस्त जन-संघों को ( उत् अश्रेत् ) अपने ऊपर धारण करे, उनका भार अपने कन्धे ले । और ( पुरु अर्चीषि ) बहुत से सत्कारों को भी ( उत् अश्रेत् ) उत्तम रीति से प्राप्त करे । वह सूर्य-वत् ( रोचमानः ) तेजस्वी एवं सबको प्रिय लगता हुआ ( दिवा ) कान्ति, न्याय, व्यवहार आदि से ( समः ) सब के प्रति समान ( ददृशे ) दीखे । वह ( क्रत्वा ) उत्तम बुद्धि से ( कृतः ) सम्पन्न होकर ( कर्तृभिः ) उत्तम कार्यकर्त्ताओं द्वारा ( सुकृतः ) उत्तम कार्य करने में समर्थ ( भूत् ) हो ।

स सूर्यं प्रति पुरो न उद्गा एभिः स्तोमैर्भिरेतशेभिरैवैः ।

प्र नो मित्राय वरुणाय वोचोऽनागसो अर्यग्णे अग्र्ये च ॥ २ ॥

भा०—हे (सूर्य) सूर्य के समान तेजस्विन् ! जिस प्रकार ( एतशेभिः एवैः स्तोमेभिः पुरः प्रति उद्गच्छति ) सूर्य शुक्ल किरण-समूहों से पूर्व दिशा में प्रति दिन उदय को प्राप्त होता है उसी प्रकार हे राजन् ! विद्वन् ! तू भी ( एतशेभिः ) उन अश्वों से ( एभिः स्तोमैः ) इन स्तुत्य जन संघों सहित वा ( एतशेभिः एवैः स्तोमेभिः ) शुक्ल, शुद्ध, ज्ञानदायक, स्तुति-योग्य मन्त्रसमूहों सहित ( प्रति ) प्रतिदिन ( नः पुरः ) हमारे समक्ष उदय को प्राप्त हो । वा ( नः पुरः ) प्रति ( उद् गाः ) हमारे नगरों के प्रति आ । और ( नः ) हमारे में से ( मित्राय ) स्नेहवान् ( वरुणाय ) दुःखों के वारक, श्रेष्ठ, ( अर्यग्णे ) न्यायकारी, दुष्ट जनों के नियन्ता और

(अग्रये) अग्रणी नेता जन के हित (नः) हम (अनागसः) निरपराध  
जनों को (प्र व्रोचः) उत्तम उपदेश कर ।

वि नः सहस्रं शुरुधो रदन्त्वृतावानो वरुणो मित्रो अग्निः ।  
यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अर्कमा नः कामं पूपुरन्तु स्तवानाः ३

भा०—(वरुणः) श्रेष्ठ जन (मित्रः) स्नेहवान् पुरुष (अग्निः)  
अग्निवत् ज्ञानों का प्रकाशक विद्वान् ये सद्य (ऋतावानः) सत्य ज्ञान और  
उत्तम ऐश्वर्य को धारण करने वाले (सहस्रं शुरुधः) हजारों शोक दुःखादि  
के रोकने वाली सुख सम्पदाओं को (नः) हमें (वि रदन्तु) विशेष रूप  
से प्रदान करें । वे (चन्द्राः) आह्लादकारी जन (नः) हमें (उपमं)  
उत्तम (अर्कं) ज्ञान और अन्न (यच्छन्तु) प्रदान करें । वे (स्तवानाः)  
स्तुति या उपदेश करते हुए, (नः कामं) हमारे अभिलाषा को (पूपुरन्तु)  
पूर्ण करें ।

द्यावाभूमी अदिते त्रासीथाम नो ये वां जजुः सुजनिमान ऋष्वे ।  
मा हेळे भूम वरुणस्य वायोर्मा मित्रस्य प्रियतमस्य नृणाम् ॥४॥

भा०—हे (द्यावाभूमी) आकाश और पृथिवी के समान ज्ञान-  
प्रकाश और आश्रय देने वाले (अदिते) अदीन, माता पिता जनो ! आप  
दोनों (नः त्रासीथाम्) हमारी रक्षा करो । हे (ऋष्वे) गुणों में महान्  
आप दोनों (ये) जो (सु-जनिमानः) उत्तम जन्म प्राप्त होकर (वां)-  
तुम दोनों को (जजुः) उत्तम पूज्य करके जानते हैं वे आप दोनों हमारी  
रक्षा करें । हम लोग (वरुणस्य हेडे मा भूम) श्रेष्ठ पुरुष के क्रोध या  
अनादर के पात्र न हों । (नृणाम्) सर्वसाधारण मनुष्यों के और (प्रिय-  
तमस्य मित्रस्य) प्रियतम मित्र के और (वायोः) वायु के समान  
उपकारक बलवान् पुरुष के भी क्रोध या अनादर में (मा भूम) न रहें ।

प्र ग्राहवांसिसृतं जीवसे न आ नो गव्यूतिमुक्षतं घृतेन ।  
आ नो जने श्रवयतं युवावा श्रुतं मे मित्रावरुणा हवेमा ॥ ५ ॥

भा०—हे ( मित्रावरुणा ) सूर्य और मेघ वा वायुजल के समान उपकारक स्त्री पुरुष वर्गों ! आप लोग ( वाहवा ) दो बाहुओं के समान ( नः जीवसे ) हमारे जीवन के सुख के लिये ( प्र सिस्वतम् ) आगे बढ़ो । ( नः गन्वूतिम् ) हमारे मार्ग को ( घृतेन ) जल से ( आ उक्षतम् ) सेचन करो । ( युवाना ) आप दोनों युवक गण ( नः ) हमें ( जने ) मनुष्यों के बीच में ( आ श्रवयतम् ) प्रसिद्ध करो । ( मे इमा हवा ) मेरे ये उत्तम वचन ( श्रुतं ) श्रवण करो ।

नू मित्रो वरुणो अर्यमा नस्तमने तोकाय वरिवो दधन्तु ।  
सुगानो विश्वा सुपथानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः६।४

भा०—( नु ) अवश्य, शीघ्र ही ( मित्रः ) स्नेहवान् और मरने से बचाने वाला सर्वमित्र विद्वान् ( वरुणः ) श्रेष्ठ पुरुष और ( अर्यमा ) न्यायकारी, दुष्टों का दमन करने हारा पुरुष ( नः ) हमारे ( तमने ) अपने लिये ( नः तोकाय ) हमारे पुत्र के लिये भी ( वरिवः ) उत्तम धन, और सेवाकार्य ( दधन्तु ) प्रदान करें । जिससे ( नः ) हमारे ( विश्वा ) सब कार्य ( सुगा ) सुगम और ( सु-पथानि ) उत्तम मार्ग युक्त ( सन्तु ) हों । हे विद्वान् जनो ! ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) आप लोग हमारी सदा उत्तम कल्याणकारी साधनों से रक्षा करें । इति चतुर्थो वर्गः ॥

[ ६३ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ १—५ सूर्यः । ५, ६ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः—१, ६

विराट् त्रिष्टुप् । २, ३, ४, ५ निचृत्त्रिष्टुप् ॥ षडृचं सूक्तम् ॥

उद्वेति सुभगो विश्वचक्षाः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम् ।

चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य देवश्चर्मैव यः समविष्यक्त्मांसि ॥ १ ॥

भा०—जिस प्रकार ( सूर्यः ) सूर्य ( देवः ) प्रकाशयुक्त होकर ( तमांसि चर्म इव ) अन्धकारों को चर्म के समान ( सम् अविष्यक् )

एक साथ ही छिन्न भिन्न कर देता है और ( मानुपाणां साधारणः ) सब मनुष्यों के प्रति एक समान प्रकाशित ( विश्व-चक्षाः उद् एति उ ) होकर सबको दिखाता हुआ उदित होता है और ( मित्रस्य वरुणस्य चक्षुः ) मित्र, दिन और वरुण रात्रि दोनों का भी प्रकाशक होता है उसी प्रकार ( सु-भगः ) उत्तम ऐश्वर्यवान् ( सूर्यः ) सूर्य के समान तेजस्वी, ( मानुपाणां साधारणः ) सब मनुष्यों के प्रति एक समान और ( विश्व-चक्षाः ) सबका द्रष्टा, सबका मार्गदर्शी विद्वान् वा राजा भी ( मित्रस्य ) अपने स्नेही और ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ पुरुष का भी ( चक्षुः ) नेत्र के समान मार्गदर्शक हो। वह ( देवः ) विद्वान् ( तमांसि ) अज्ञान शोकादि अन्धकारों को ( चर्म इव सम् अविव्यक् ) चर्म के समान एक साथ ही अच्छी प्रकार छिन्न भिन्न करे। राजा शत्रु दल को छिन्न भिन्न करे।

उद्वेति प्रसवीता जनानां महान्केतुरर्णवः सूर्यस्य ।

समानं चक्रं पर्याविवृत्सन् यदेतशो वहति धूर्पु युक्तः ॥ २ ॥

भा०—जिस प्रकार ( एतशः ) वेगवान् गतिप्रद अश्व वा यन्त्र ( धूर्पु युक्तः ) यन्त्रों के धुराओं में जुता या जुड़ा हुआ ( समानं चक्रम् ) सब यन्त्राङ्गों में समान रूप से गति देने वाले चक्र को ( परि आववृत्सन् ) घुमाता है, और जिस प्रकार ( एतशः ) तेजोयुक्त, सूर्य ( धूर्पु-युक्तः सन् ) नाना ग्रहों के धारण करने वाले केन्द्रस्थलों में स्थित होकर ( समानं चक्रं परि आ ववृत्सन् ) सब ग्रहों के चक्र को एक समान नीति से अपने गिर्द घुमाता रहता है और जिस प्रकार ( जनानां महान् केतुः ) सब जन्तुओं का ज्ञापक, ( सूर्यस्य = सूर्यः स्यः ) वह सूर्य ( अर्णवः ) जल का देने वाला है ( जनानां प्रसवीता ) सबको प्रेरित करने वाला होकर ( उद् एति उ ) अवश्य नियम से उदय होता है उसी प्रकार ( एतशः ) ज्ञानी, शुक्लकर्मा पुरुष भी ( धूर्पु युक्तः ) कार्य-भारों को धारण करने के पदों पर नियुक्त होकर ( वहति ) कार्य-भार को उठावे

और ( समानं चक्रं ) एक समान राजचक्र को भी ( परि आ विवृत्सन् ) यथार्थ रीति से चलावे । ( स्यः सूर्यः ) वह सूर्य के समान वा ( अर्णवः ) समुद्र के समान तेजस्वी, गम्भीर और ( जनानां ) मनुष्यों के बीच में ( केतुः ) ध्वजा के समान ऊंचा, ( महान् ) गुणों में बड़ा और ( केतुः ) स्वयं ज्ञानी, अन्यो को जनाने वाला, वह ( प्रसवीता ) उत्तम मार्ग में चलाने हारा पुरुष ( उन् एति उ ) उत्तम पद को प्राप्त हो । उसी प्रकार नायक स्वप्रकाशकरूप होने से 'एतश्' सर्वप्रकाशक होने से 'सूर्य' है वह समस्त ब्रह्माण्ड-काल-चक्र को चलाता, सबका उत्पादक ज्ञानवान्, महान् है । ( सूर्यस्य ) सूर्यः । विभक्तिव्यत्यय इति सायणः । सूर्यः स्यः इति वा पदच्छेदः । उभयत्र विभक्तेर्लुक् आदेशः ।

विभ्राजमान उपसामुपस्थाद्रेभैरुदेत्यनुमद्यमानः ।

एष मे देवः सविता चच्छन्द यः समानं न प्रमिनाति धाम ॥३॥

भा०—जिस प्रकार ( देवः सविता ) प्रकाशमान् सूर्य, ( उपसाम् उपस्थात् ) उपाओं में से ( विभ्राजमानः ) विशेष रूप से चमकता हुआ, ( रेभैः ) शब्दकारी वायुओं, स्तुतिकर्ता जीवों से ( अनुमद्यमानः ) बार २ स्तुति किया जाकर ( उदेति ) उदय को प्राप्त होता है वह ( समानं धाम न प्रमिनाति ) सबके प्रति प्राप्त होने वाले तेज को नष्ट नहीं करता, सबको समान रूप से प्रकाश देता है उसी प्रकार ( यः ) जो महापुरुष, ( समानं धाम ) अपने एक समान, अनुरूप तेज, नाम स्थान, पद को ( न प्रमिनाति ) नष्ट नहीं करता तो भी ( उपसाम् ) प्रभात वेलों के समान उत्तम अनुराग से युक्त प्रजाओं के बीच में ( रेभैः ) उत्तम विद्वानों द्वारा ( अनुमद्यमानः ) प्रतिदिन स्तुति एवं उपदेश किया जाकर ( उद् एति ) निरन्तर विद्या प्रकाश तथा बल दीप्ति से उदय को प्राप्त होता, उन्नति के पदपर गति करता है, ( एषः ) वह ( मे ) मेरा ( देवः ) ज्ञानदाता पुरुष वा ऐश्वर्यप्रद राजा ( सविता ) उत्पादक पितावत् ( चच्छन्द )

गृहवत् शरण दे । ( २ ) इसी प्रकार प्रकाशस्वरूप प्रभु सबसे स्तुत या उपदिष्ट होकर हमारे हृदय में उदित हो ।

दिवो रुक्म उरुचक्षा उदेति दूरेऽर्थस्तरणिभ्राजमानः ।

नूनं जनाः सूर्येण प्रसूता अयन्नर्थानि कृणवन्नपांसि ॥ ४ ॥

भा०—सूर्य जिस प्रकार ( दिवः रुक्म ) विशाल आकाश में सुवर्ण के आभरण के समान देदीप्यमान ( उरु-चक्षाः ) बड़े २ विशाल आकाश और लोकों को प्रकाशित करता हुआ ( तरणिः ) आकाश पार करने वाला, ( भ्राजमानः ) चमकता हुआ ( दूरे-अर्थः ) दूर २ तक स्वयं प्रकाश फैलाता हुआ ( उदेति ) उदय होता है । और ( जनाः ) मनुष्य जन्तुगण ( सूर्येण प्रसूताः ) सूर्य द्वारा प्रेरित होकर ( अर्थानि अयन् ) प्राप्तव्य पदार्थों को प्राप्त करते और ( अपांसि कृणवन् ) नाना कर्म करते हैं । उसी प्रकार ( तरणिः ) नौका के समान प्रजाजनों, जीवों को समस्त दुःखों से पार करने वाला, ( भ्राजमानः ) प्रकाशमान तेजस्वी, ( दूरे-अर्थः ) दूर २ तक जाने वाला, उत्साही दूर देश से भी धन को प्राप्त करने वाला, ( उरु-चक्षा ) विशाल चक्षु, बहुदर्शी पुरुष ( दिवः रुक्म ) कामनावान् प्रजा के बीच सुशोभित, उनको प्रिय लगने वाला होता है । और ( जनाः ) सब जन, ऐसे ( सूर्येण ) सूर्यवत् ज्ञान और तेज से युक्त पुरुष से ( प्रसूताः ) प्रेरित, उत्पादित, और शिक्षित होकर ( अर्थानि प्रयन् ) अपने प्राप्य पदार्थों को प्राप्त हों और ( अपांसि कृणवन् ) नाना कर्म करते हैं । ( २ ) परमात्मा सबको भवसागर से पार उतारने से 'तरणि' ( दूरे-अर्थः ) सर्वव्यापक, सर्वद्रष्टा है, उसी से ( प्रसूताः ) उत्पादित सब जन अपने अभिलापित फल पाते और कर्म करते हैं ।

यत्रा चक्रुर्मृता गातुर्मस्मै श्येनो न दीयन्नन्वेति पार्थः ।

प्रति वां सू उदिते विधेस नमाभिर्मित्रावरुणोत हृव्यैः ॥ ५ ॥

भा०—पूर्व आधी ऋचा का सूर्य देवता है । ( दीयन् श्येनः न )

वेग से गति करता हुआ बाज पक्षी जिस प्रकार (पाथः अन्वेति) अन्तरिक्ष मार्ग में अपने शिकार के पीछे २ वेग से जाता है उसी प्रकार (श्येनः) प्रशस्त मार्ग से जाने वाला, सुचरित विद्वान् पुरुष (दीयन्) सन्मार्ग पर गति करता हुआ उस (पाथः) सन्मार्ग का (अनु एति) सदा अनुगमन करे । (यत्र) जिससे जाते हुए (अमृताः) अमर आत्मा, दीर्घायुयुक्त, जन (अस्मै) इसको (गातुं चक्रुः) ज्ञान का उपदेश करते हैं ।

उत्तरार्ध ऋचा के देवता मित्र और वरुण हैं । हे (मित्रावरुणा) दिन रात्रि के तुल्य जेहयुक्त और श्रेष्ठ गुरुजनो ! (सूरे उदिते) सूर्य के उदय होने पर (हव्यैः नमोभिः) देने और स्वीकार करने योग्य उत्तम अन्नों और विनयादि सत्कार युक्त वचनों से (वां) आप दोनों की (प्रतिः विधेम) प्रति दिन सेवा करें अथवा, (वां प्रति उदिते सूरे नमोभिः हव्यैः विधेम) आप दोनों के प्रति उत्तम रीति से प्राप्त सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष के आने पर उसकी उत्तम वचनों, अन्नों से सेवा करें ।

नू मित्रो वरुणा अर्यमान्स्त्मने लोकाय वरिवो दधन्तु ।

सुगानो विश्वा सुपथानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः ६।५.

भा०—व्याख्या देखो सू० ६२ । सं० ६ ॥ इति पञ्चमो वर्गः ॥

[ ६४ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः—१, २, ३, ४ त्रिष्टुप् ।  
५ विराट् त्रिष्टुप् ॥ पञ्चमं सूक्तम् ॥

दिवि क्षयन्ता रजसः पृथिव्यां प्र वां घृतस्य निर्णिजो ददीरन् ।  
हव्यं नो मित्रो अर्यमा सुजातो राजा सुक्षत्रो वरुणो जुषन्त ॥१॥

भा०—(अर्यमा) अर्यमा सूर्य जिस प्रकार (दिवि रजसः पृथिव्यां क्षयन्ता) आकाश, अन्तरिक्ष और पृथिवी में रहते हुए और मेघों को



और सूर्य की किरण (घृतस्य निर्णिजः) जल और तेज के नाना शुद्ध रूपों को ( प्र दद्रीरन् ) अच्छी प्रकार से देते, प्रकट करते हैं । उसी प्रकार (दिवि) ज्ञान, व्यवहार और विजिगीषा में विद्यमान (रजसः) प्रजाजनों और (पृथिव्यां क्षयन्ता ) पृथिवी में ऐश्वर्यवान् होकर रहने वाले ( मित्रावरुणा ) जेही एवं श्रेष्ठ जनो ! ( वां ) आप लोगों को ( निः-निजः रजसः ) शुद्ध पवित्र आत्मा वाले उत्तम जन ( घृतस्य प्र ददीरन् ) तेजोयुक्त ज्ञानप्रकाश का प्रदान करें । ( मित्रः ) स्नेहवान् ( अर्यमा ) दुष्ट शत्रुओं का नियन्ता, ( सु-जातः ) उत्तम पूज्य पद पर प्रसिद्ध, ( राजा ) देदीप्यमान, तेजस्वी ( सु-क्षत्रः वरुणः ) उत्तम बल, धन का स्वामी, स्वयं वरणीय श्रेष्ठ राजा ये सत्र ( नः हृदयं ) हमारा दिया पदार्थ ( जुपन्त ) सेवन करें । अर्थात् ये सत्र लोग प्रजा को मनमाना न लट्टें खसँटें प्रत्युत सर्वसाधारण प्रजाजन जितना प्रेमपूर्वक दें उसका ही उपभोग करें ।

अत्र राजाना मह ऋतस्य गोपा सिन्धुपती क्षत्रिया यातसर्वाक् ।  
इळां नो मित्रावरुणोत वृष्टिमव दिव इन्वतं जीरदान् ॥ २ ॥

भा०—हे ( राजाना ) राजा रानी वा राजा सेनापति के समान प्रजाओं के बीच चमकने वाले, ( महः ऋतस्य गोपा ) बड़े भारी धनैश्वर्य और ज्ञान के रक्षक, ( सिन्धु-पती ) वेग से जाने वाले अश्वों, समुद्रवत् विशाल प्रजाजनों और सैन्यों तथा प्राणों के पालक, ( क्षत्रिया ) वीर, बलशाली होकर तुम दोनों ( अर्वाक् यातम् ) आगे बढ़ो । हे ( जीर-दान् ) जलप्रद मेघ और वायु के समान संसार को वेग, जीवन, और प्राण के देने वाले ! ( मित्रावरुणा ) स्नेहयुक्त और वरण करने योग्य श्रेष्ठ जनो ! जिस प्रकार वायु और मेघ वा विद्युत् और सूर्य दोनों ही ( दिवः वृष्टिम् इन्वतः ) आकाश से वृष्टि को लाते हैं, और ( दिवः इडाम् इन्वतम् ) भूमि से अन्न को उत्पन्न करते हैं इसी प्रकार आप उक्त दोनों भी ( दिवः ) व्यापार आदि से ( वृष्टिम् अत्र इन्वतम् ) धन समृद्धि की वृद्धि प्राप्त

कराओ ( उत ) और ( नः ) हमें ( इडां अप इन्वतम् ) उत्तम वाणी और अन्न सम्पदा प्राप्त कराओ ।

मित्रस्तन्नो वरुणो देवो अर्यः प्र साधिष्टेभिः पृथिभिर्नयन्तु ।

ब्रवद्यथा न आदरिः सुदास इषा मदेम सह देवगोपाः ॥ ३ ॥

भा०—( मित्रः ) स्नेहवान् ( वरुणः ) वरण करने योग्य ( देवः ) दानशील ( अर्यः ) स्वामी, ( नः ) हमें ( तत् ) वे सब जन ( साधिष्टेभिः पृथिभिः ) अति उत्तम २ मार्गों से ( प्रनयन्तु ) अच्छी प्रकार ले जावें, चलावें । ( आत् ) अनन्तर ( यथा ) यथोचित रीति से ( नः ) हम में से ( सु-दासे ) उत्तम दानशील के हितार्थ ( अरिः ) स्वामी राजा ( नः ब्रवत् ) हमें उपदेश करे । हम सब ( देव-गोपाः ) विद्वानों से सुरक्षित और विद्वानों की रक्षा करते हुए ( इषा मदेम ) अन्न से खूब तृप्त प्रसन्न हों । यो वां गर्तं मनसा तक्षदेतमूर्ध्वा धीतिं कृण्वद्धारयच्च ।

उक्षेथां मित्रावरुणा घृतेन ता राजाना सुक्षितीस्तर्पयेथाम् ॥४॥

भा०—( मित्रावरुणा राजाना घृतेन उक्षाथां ) मित्र, वरुण, वायु, मेघ वा विद्युत् और सूर्य, दोनों जिस प्रकार दीप्ति युक्त होकर जल और तेज का वर्षण करते और ( सु-क्षितीः तर्पयेथाम् ) उत्तम भूमियों को खूब तृप्त करते हैं उसी प्रकार हे ( मित्रावरुणा ) प्रजा के प्रति स्नेहवान् और दुःखों के वारक ( राजाना ) तेजस्वी राजा जनो ! आप दोनों ( घृतेन ) जल और तेज से ( सु-क्षितीः ) उत्तम भूमियों और प्रजाओं को ( उक्षेथाम् ) सींचो, उनको पुष्ट करो । ( ता ) वे आप दोनों प्रजाजनों को ( तर्पयेथाम् ) खूब तृप्त करें । और ( यः ) जो प्रजाजन ( वां गर्तं ) आप दोनों के रथ, सभाभवन और कृषि, स्तुति, उपदेश आदि भी ( मनसा तक्षत् ) ज्ञानपूर्वक करे, ( ऊर्ध्वाम् ) ऊपर जाने योग्य ( धीतिम् ) कर्म ( कृण्वत् ) करे ( धारयत् च ) वहां ही स्थापित करे, आप दोनों ( एतम् ) उसको भी तृप्त, प्रसन्न करो ।

एपः स्तोमो वरुण मित्र तुभ्यं सोमः शुक्रो न वायवेऽयामि ।  
 श्रविष्टं धियो जिगृतं पुरन्धीर्युयं पात स्वस्तिभिः सदानः॥५॥६॥

भा०—( वायवे शुक्रः न ) वायु के लिये जिस प्रकार ( शुक्रः )  
 शीघ्र काम करने का सामर्थ्य प्राप्त है, उसा प्रकार हे ( वरुण ) श्रेष्ठजन !  
 हे ( मित्र ) स्नेहयुक्त जन ( तुभ्यम् ) तेरे लिये ( एपः ) यह ( स्तोमः )  
 स्तुति वचन और ( सोमः ) यह ऐश्वर्य भी ( शुक्रः ) कान्तियुक्त होकर  
 विद्यार्थी के समान तेरी वृद्धि को ( अयामि ) प्राप्त हो । आप दोनों  
 ( धियः अविष्टं ) उत्तम कर्मों की रक्षा करो और ( पुरन्धीः जिगृतम् )  
 बहुत से ज्ञान को धारण करने वाली उत्तम बुद्धियों वा ज्ञानों का उपदेश  
 करो । ( यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ) आप हमें सदा उत्तम सुख-  
 कारक उपायों से पालन किया करें । इति षष्ठो वर्गः ॥

### [ ६५ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः—१, ५ विराट् त्रिष्टुप् ।

२ त्रिष्टुप् । ३, ४ निचृत्त्रिष्टुप् ॥ पञ्चमं सूक्तम् ॥

प्रति वामं सूर उदिते सूक्तेर्मित्रं हुवे वरुणं पूतदक्षम् ।

ययोरसुर्यमक्षितं ज्येष्ठं विश्वस्य यामन्नाचिता जिगन्तु ॥ १ ॥

भा०—( ययोः ) जिनका ( अक्षितम् ) कभी नाश न होने वाला,  
 ( असुर्यम् ) प्राणों में रमण करने वाले, 'असुर' अर्थात् जीवों के हित-  
 कारक, ( ज्येष्ठं ) सबसे श्रेष्ठ बल ( विश्वस्य ) सबको ( जिगन्तु ) जीतने  
 वाला, सबसे अधिक है वे दोनों ( यामन् ) राज्यादि शासन, राज्यप्रबन्ध  
 के कार्य में ( आचिता ) आदर प्राप्त करने योग्य हों । ( सूर उदिते )  
 सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष के ( उदिते ) उदय होने वा सर्वोपरि प्रधान  
 पद प्राप्त कर लेने पर मैं ( वाम् ) आप दोनों नर नारी वर्गों और राजा  
 प्रजा वर्गों में से ( पूत-दक्षं ) पवित्र बल और आचारवान् ( मित्रं ) सर्व

स्नेही और ( वरुणं ) श्रेष्ठ जन को ( सूक्तैः ) उत्तम वचनों से मैं प्रजाजन ( प्रति हुवे ) प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करूं । अर्थात् तेजस्वी राजा के अधीन रहकर भी प्रजा अति बलशाली, प्रजास्नेही, सर्वविजयी बलवान् पुरुषों का सदा आदर करती रहे ।

ता हि देवानामसुरा ताव्र्या ता नः क्षितीः करतमूर्जयन्तीः ।

अश्याम मित्रावरुणा व्र्यं वां द्यावा च यत्र पीपयन्नाहा च ॥२॥

भा०—( यत्र ) जिस राष्ट्र या देश में हे ( मित्रा वरुणा ) प्रजा के स्नेही, प्राण वायुवत् प्रिय और वरुण योग्य श्रेष्ठ स्त्री पुरुषो ! ( द्यावा ) सूर्य और भूमिवत् विद्वान् और अविद्वान् जन और ( अहा च ) दिन रात्रिवत् स्त्री पुरुष सभी ( वां पीपयन् ) आप दोनों को पुष्ट करते हैं उसी देश में हम भी ( अश्याम ) नाना सुख समृद्धि प्राप्त करें । वे मित्र और वरुण दोनों ही ( देवानाम् ) विद्वान् मनुष्यों के बीच, प्राणों में प्राण उदान के समान ( असुरा ) बलवान् जीवनधारक, ( तौ भ्र्या ) वे दोनों ही स्वामी स्वामिनी के समान गृहपालक और ( ता ) वे दोनों ही ( नः क्षितीः ) हमारी भूमियों और मानव प्रजाओं को ( ऊर्जयन्तीः ) उत्तम अन्न और बल सम्पादन करने वाला ( करतम् ) बनावें ।

ता भूरिपाशावनृतस्य सेतू दुरत्येतू रिपवे मर्त्याय ।

ऋतस्य मित्रावरुणा पथा वामपो न नावा दुरिता तरेम ॥३॥

भा०—हे ( मित्रावरुणा ) परस्पर के मित्रवत् स्नेही और एक दूसरे को रक्षकवत् चुनने वाले राजा प्रजा, स्वामी-भृत्य, स्त्री पुरुष जनो ! ( ता ) वे आप दोनों ( भूरि पाशा ) बहुत से बन्धनों से सुबद्ध होकर ( अनृतस्य ) असत्याचरण को पार कराने के लिये ( सेतू ) बन्धे पुल के समान होओ । और ( रिपवे मर्त्याय ) शत्रुभूत पापी पुरुष के नाश के लिये आप दोनों ( दुर-अत्ये तू ) दुःख से अतिक्रमण करने योग्य अलंघनीय शासन वाले होओ । ( वाम् ) आप दोनों के ( ऋतस्य पथा ) सत्याचरण के मार्ग

से चलकर हम भी ( नावा आपः न ) नाव से जलों के समान ( दुरिता  
तरेम ) सब दुःखों, पापों को पार कर जावें ।

आ नो॑ मित्रावरुणा ह॒व्यजु॑ष्टिं घृतैर्गव्यू॑त्तिमु॒त्तमि॑च्छाभिः ।

प्रति॑वामत्र॒ वर॒मा जना॑य पृ॒णीतमु॒द्नो दि॒व्यस्य॑ चारोः ॥ ४ ॥

भा०—( मित्रावरुणा ) सूर्य मेव वा वायु मेव के समान सर्वप्रिय  
सर्वश्रेष्ठ जनो ! आप दोनों ( नः ) हमारे ( हव्य-जुष्टिं ) प्रेम से स्वीकार  
करने योग्य अन्न आदि को प्रेम से स्वीकार करो । ( घृतैः गव्यूत्तिम् )  
जलों से भूमि भाग के समान ( इडाभिः ) उत्तम वाणियों से वाणी के  
उत्तम पात्रों को ( उक्षतम् ) सेचन करो, उनमें ज्ञान की वृद्धि करो । आप  
दोनों ( वाम् ) अपने ( दिव्यस्य ) ज्ञान से पूर्ण, प्रकाश युक्त ( चारोः )  
उत्तम ( उद्नः ) जलवत् शान्तिदायक वचन का ( वरम् ) श्रेष्ठ प्रयोग  
( जनाय ) समस्त प्रजाजन के हितार्थ ( प्रति ) प्रतिदिन ( आ पृणीतम् )  
किया करो ।

ए॒प स्तोमो॑ वरुण मित्र॒ तुभ्यं॑ सोमः॑ शुक्रो न वायवे॑ऽयामि ।

अ॒विष्टं॑ धियो॑ जिगृ॒तं पुर॑न्धीर्यु॒यं पा॑त स्व॒स्तिभिः॑ सदा॑ नः५।७

भा०—व्याख्या देखो सू० ६४ । सं० ५ ॥ इति सप्तमो वर्गः ॥

[ ६६ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ १—३, १७—१९ मित्रावरुणौ । ४—१३ आदित्याः ।

१४—१६ सूर्यो देवता ॥ द्रव्यः—१, २, ४, ६ निचृद्रायत्री । ३ विराट्

गायत्री । ५, ६, ७, १०, १९ आपीं गायत्री । १७ पादानिचृद् गायत्री ।

८ इन्द्राद् गायत्री । १० निचृद् वृहती । ११ स्वराद् वृहती । १३, १५

आपीं सुरिग् वृहती । १४ आपीं विराट् वृहती । १६ पुर उष्णिक् ॥

प्र मि॒त्रयो॑र्वरुणयोः स्तोमो॑ न एतु शु॒ष्यः॑ ।

नम॑स्वान्तु॒विजा॑तयोः ॥ १ ॥

भा०—( तुवि-जातयोः ) बहुत सी विद्याओं में प्रसिद्ध एवं स्नातक वा प्रवीण, ( मित्रयोः ) परस्पर स्नेही और परस्पर ( वरुणयोः ) गुरु शिष्य रूप से वरण करने वाले दोनों का ( नमस्त्वान् ) उत्तम विनययुक्त व्यवहार वाला, बलशाली ( शूष्यः ) भक्ति सुखकारी, ( स्तोमः ) स्तुति योग्य उपदेश, बल-वीर्य और अधिकार ( नः एतु ) हमें प्राप्त हो । अथवा ( नः मित्रयोः वरुणयोः ) हम लोगों में से परस्पर मित्र, परस्पर वरण करने वाले, बहुत से गुणों और विद्याओं में प्रसिद्ध स्त्री पुरुषों को ( शूष्यः एतु ) सुखकारी स्तुत्य पद प्राप्त हो ।

या धारयन्त देवाः सुदक्ष्णा दक्षपितरा । असुर्याय प्रमहसा ॥२॥

भा०—( देवाः ) विद्वान् मनुष्य ( या ) जिन दोनों को ( धारयन्त ) व्रत आदि धारण कराते हैं वे आप दोनों ( सु-दक्ष्णा ) उत्तम कर्म-कुशल ( दक्ष-पितरा ) बल वीर्य के पालक, ( प्र-महसा ) उत्तम तेजस्वी होकर ( असुर्याय ) बलवान् पुरुषों में श्रेष्ठ उच्च पद के योग्य होते हैं । अर्थात् तेजस्वी, उत्तम बलवान्, वीर्य पालक ब्रह्मचारी उनको ही देव, विद्वान् गण ( असुर्याय ) बलवान् योग्य प्रधान पद के ग्रहण के लिये व्रतादि धारण करावें ।

ता नः स्तिपा तनूपा वरुण जरितृणाम् । मित्र साधयन्त धियः ३

भा०—( ता ) वे दोनों और ( नः ) हमारे ( स्तिपा ) संघों की रक्षा करने वाले और ( तनूपा ) शरीरों की रक्षा करने वाले हों । हे ( वरुण ) श्रेष्ठ, वरणीय जन ! हे ( मित्र ) स्नेहवन् ! विद्वन् आप लोग ( जरितृणाम् ) उपदेष्टा विद्वान् पुरुषों की ( धियः ) कर्मों, उत्तम बुद्धियों और विचारों को ( साधयन्तम् ) सिद्ध, सफल करो । ध्यै संधाते । स्तयो संधास्तान् पातः इति स्तिपाः ॥

यदद्य सूर उदितेऽनागा मित्रो अर्यमा । सुवाति सविता भगः ४

भा०—( उदिते सूर ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष के उदय होने

पर ( यत् ) जो ( अनागाः ) अपराधादि से रहित ( मित्रः ) स्नेहवान् ( अर्थमा ) न्यायकारी, ( सविता ) सबका प्रेरक शासक और ( भगः ) ऐश्वर्यवान् है वह ( अद्य ) आज के समान सदा ही ( सुवाति ) हम पर शासन करे ।

सुप्रावीरस्तु स क्षयः प्र नु यामन्त्सुदानवः ।

ये नो श्रंहोऽतिपिप्रति ॥ ५ ॥ ८ ॥

भा०—( ये ) जो ( नः ) हमें ( अंहः ) पाप कर्म से ( अतिपि-प्रति ) पार करते हैं ऐसे ( सु-दानवः ) उत्तम ज्ञान का उपदेश करने वाले विद्वान् धर्मात्मा पुरुषो ! आप लोगों से प्रार्थना है कि ( यामन् ) राज्य के नियन्त्रण और शत्रु पर चढ़ाई के कार्य में ( सः ) वह ( क्षयः ) शत्रुओं का नाशकारी पुरुष ( नु ) निश्चय से ( नः क्षयः ) हमारे गृह के समान ही ( सुप्रावीः अस्तु नु ) हमारी उत्तम रीति से रक्षा करने हारा भी हो । ( यामन् ) विवाह बन्धन का कार्य हो चुकने पर ( सः क्षयः ) वह ऐश्वर्य युक्त, बसने वाला गृहपति ( सु-प्रावीः प्र अस्तु ) उत्तम गृह-रक्षक होकर रहे । इत्यष्टमो वर्गः ॥

उत स्वराजो अदिति रदधस्य व्रतस्य ये । सहो राजान ईशते ॥६॥

भा०—( स्व-राजः ) स्वयं अपने तेज से प्रकाशित होने वाले ( स्व-राजः ) धनैश्वर्य से चमकने वाले, धनों और स्वराष्ट्र निज-भृत्य मित्र बन्धु प्रजा-जनों के राजा और ( अदितिः ) अखण्ड शासनकर्त्री, सभा वा सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष, ( ये ) जो ( अदधस्य ) अखण्डित ( व्रतस्य ) कर्म को करने में ( ईशते ) समर्थ होते हैं वे ( महा-राजानः ) बड़े ऐश्वर्य के राजा, स्वामी, तेजस्वी होते हैं ।

प्रति वां सूर उदिते मित्रं गृणीषे चरुणाम् । अर्यमणं रिशादसम् ७

भा०—हे स्त्री पुरुषो ! ( वाम् ) आप दोनों में से ( सूर प्रति उ-दिते ) सूर्य के समान तेजस्वी होकर प्रत्येक के उत्तम पद पर प्राप्त होजाने

पर प्रत्येक को मैं ( मित्रम् ) सर्वस्नेही और ( वरुणं ) श्रेष्ठ जन को ( अर्यमणम् ) न्यायपूर्वक सबका स्वामिवत् नियन्ता और ( रिशादसम् ) दुष्टों का नाशक कहकर ( गृणीषे ) स्तुति करूं ।

राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय शवसे । इयं विप्रामेधसातये ८

भा०—हे ( विप्राः ) विद्वान् लोगो ! ( अवृकाय ) अचौर, अ-  
दाम्भिक निश्चल और ( अवृकाय ) जिसका ज्ञान का प्रकाश प्राप्त नहीं  
हुआ ऐसे पुरुष के लिये उसके ( शवसे ) ज्ञान और बल वृद्धि के लिये  
( राया ) ऐश्वर्य के साथ २ ( हिरण्यया ) हित और रमणीय, मनोहारिणी  
( इयं मतिः ) यह उत्तम बुद्धि वा ज्ञान ( मेध-सातये ) उत्तम भद्र, यज्ञ  
फलादि के प्राप्त करने के लिये सदा बनी रहे ।

ते स्याम देव वरुण ते मित्र सुरिभिः सह । इपं स्वश्च धीमहि ९

भा०—हे ( देव वरुण ) सुखदाता, जगत्प्रकाशक ! सर्व दुःख-  
वारक ! हे ( मित्र ) सर्वप्रिय ! हम ( ते स्याम ) तेरे ही होकर रहें ।  
( सुरिभिः सह ) वे विद्वानों के साथ मिलकर ( ते ) तेरी ( इपं ) इच्छा  
और ( स्वः च ) तेरे ज्ञान, प्रकाश, आनन्द और सुख को भी ( धीमहि )  
धारण करें और उसी का ध्यान करें ।

ब्रह्मवः सूरचक्षसोऽग्निजिह्वा ऋतावृधः ।

त्रीणि ये येमुर्विदथानि धीतिभिर्विश्वानि परिभूतिभिः ॥१०॥१॥

भा०—( ये ) जो ( त्रीणि विदथानि ) तीनों प्रकार के ज्ञान, कर्म,  
-यज्ञ और प्राप्तव्य पदार्थों और तीनों प्रकार के ज्ञातव्य वेदों को और  
( विश्वानि ) तीनों विश्वों को ( धीतिभिः ) क्रमों, बुद्धियों, वाणियों  
और अध्ययन, स्मरण आदि द्वारा और ( परिभूतिभिः ) उत्तम सामर्थ्यों  
से ( येमुः ) अपने वश करते हैं वे ( ब्रह्मवः ) बहुत से ( सूर-चक्षसः )  
सूर्य के समान सब पदार्थों के ज्ञानोपदेष्टा, सर्वप्रकाशक ( अग्निजिह्वाः )



अग्नि के समान ज्ञान प्रकाशक वाणी के बोलने वाले ( ऋतचृधः ) सत्य ज्ञान के बढ़ाने वाले हों । इति नवमो वगः ॥

वि ये दधुः शरदं मासमादह्यं यज्ञमकृतुं चादृचम् ।

अनाप्यं वरुणो मित्रो अर्यमा क्षत्रं राजान आशत ॥ ११ ॥

भा०—( ये ) जो ( शरदं ) वर्ष, ( मासम् ) मास और ( अहः अक्षम् ) दिन रात्र, ( आत् ) भी ( ऋचं ) स्तुति योग्य वेद मन्त्रों से अर्चना योग्य ( यज्ञम् ) उपास्य परमेश्वर वा यज्ञ को अथवा ( यज्ञम् ऋचं ) यज्ञयोग्य, उपास्य, वेद-वेद्य प्रभु की ( वि दधुः ) विविध प्रकार से उपासना करते, वेद को विविध प्रकार से धारण करते हैं वे ( वरुणः ) श्रेष्ठ, ( मित्रः ) सर्वस्नेही ( अर्यमा ) न्यायकारी शत्रु-नियन्ता जन ( राजानः ) राजाओं के समान तेजस्वी होकर ( अनाप्यं ) अन्यों से प्राप्त न होने योग्य वा वन्धु जनों से न विभाग करने योग्य ( क्षत्रं ) धन, ज्ञान मय वेद को ( आशत ) प्राप्त करते हैं ।

तद्धो अथ मनामहे सुकृतैः सुर उदिते ।

यदोदितं वरुणो मित्रो अर्यमा यूयमतस्य रथयः ॥ १२ ॥

भा०—( वरुणः ) वरण करने योग्य, ( मित्रः ) स्नेहयुक्त ( अर्यमा ) स्वामियत् वशी है विद्वान् जनो ! ( यूयम् ) आप सब लोग ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान के ( रथयः ) महारथियों के समान होकर ( यत् ) जिस ज्ञान को ( ओदते ) धारण करते हो हम ( उदिते सुरे ) सूर्य उदय होने पर ( वः तत् ) आप लोगों के उस ज्ञानैश्वर्य की ( अद्य ) आज ( मनामहे ) याचना करते हैं ।

ऋतावान् ऋतजाता ऋतावृधो शोरासो अनृतद्विषः ।

तेषां वः सुन्नं सुच्छृदिष्टमे नरः स्याम ये च सूरयः ॥ १३ ॥

भा०—( ये च ) और जो ( सूरयः ) विद्वान् लोग ( ऋतवानः ) यज्ञ, तेज, सत्य ज्ञान का सेवन करने और अन्यों को देने वाले ( ऋत-

जाताः ) सत्य ज्ञान में प्रसिद्ध ( ऋत-वृधः ) सत्य को बढ़ाने वाले, ( घोरासः ) तेजस्वी, ( अनृत-द्विषः ) असत्य व्यवहार के द्वेषी, सत्य का कभी विरोध न करने वाले हैं हे ( नरः ) नाथकवत् उत्तम पुरुषो ! ( तेषां वः ) उन आप लोगों के ( सुच्छर्दिस्तमे ) उत्तम रक्षा-गृह से युक्त ( सुन्ने ) सुखप्रद शरण में सदा ( स्याम ) रहें ।

उदु त्यदृशतं वपुर्दिव एति प्रतिह्वरे ।

यदीमाशुर्वहति देव एतशो विश्वस्मै चक्षसे अरम् ॥ १४ ॥

भा०—जिस प्रकार ( दिवः प्रतिह्वरे ) आकाश में प्रत्यक्ष प्रतीयमान चक्राकार वृत्त मार्ग में ( त्यत् दर्शतं वपुः उत् एति उ ) वह दर्शनीय रूप वाला सूर्यमण्डल उदय होता है । और ( यत् ) जो ( ईम् ) सब तरफ से ( आशुः ) वेग से गतिमान् ( देवः ) तेजस्वी, प्रकाशप्रद, ( एतशः ) शुक्ल वर्ण होकर ( विश्वस्मै चक्षसे अरं ) समस्त संसार को दिखाने के लिये पर्याप्त होता है उसी प्रकार ( त्यत् ) वह ( दर्शतं वपुः ) दर्शनीय शरीर-राकृति धारण करने वाला तेजस्वी पुरुष ( प्रतिह्वरे ) प्रत्येक कुटिल व्यवहार के ऊपर ( दिवः ) अपने तेज के कारण ( उत् एति उ ) उत्तम होकर विराजता है, उस पर शासन करता है, ( यत् ) जो ( ईम् ) सब ओर ( आशुः ) शीघ्रकारी, अश्व के समान बलवान्, ( देवः ) विद्वान् ( एतशः ) शुक्लकर्मा, सदाचारी होकर ( विश्वस्मै चक्षसे ) सबको ज्ञान-मार्ग दिखाने और सत् उपदेश करने के लिये ( अरं वहति ) बहुत अधिक ज्ञान और बलको, रथ को उत्तम अश्व के समान अपने कन्धे उठाकर चलाने में समर्थ होता है ।

शीर्ष्णः शीर्ष्णो जगतस्तस्थुपस्पतिं समया विश्वमा रजः ।

सप्त स्वसारः सुविताय सूर्यं वहन्ति हरितो रथे ॥ १५ ॥ १० ॥

भा०—( जगतः तस्थुपः ) जंगम और स्थावर ( शीर्ष्णः-शीर्ष्णः ) प्रत्येक शिर के ( पतिम् ) पालक ( सूर्यम् ) सबके प्रेरक को ( विश्वं रजः

समया ) समस्त प्राकृतिक संसार के बीच में ( सप्त हरितः ) सातों दिशाओं के वासी प्रजाजन ( स्वसारः ) उत्तम भगिनियों के समान स्वयं उसकी शरण आकर ( रथे वहन्ति ) रथ पर बैठाकर लेजाते हैं । जिससे वह ( मुविताय ) उत्तम मार्ग से ले चले । इसी प्रकार सातों ( स्वसारः-नु-असारः ) उत्तम रीति से शस्त्राद्य फेंकने वाली (हरितः) नर-वीर सेनाएं उस तेजस्वी को सन्मार्ग पर चलने के लिये स्थावर, जंगम, अर्थात् स्थिर चल सम्पदा और प्रजा के प्रत्येक शिष्य के स्वामी को सब लोकों के बीच रथ में जुड़े अश्वों के समान धारण करती हैं ।

तच्चक्षुर्देवहितं शुक्रमुच्चरत् ।

पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् ॥ १६ ॥

भा०—(तत्) वह (देव-हितं) समस्त विद्वानों और इन्द्रियों, प्राणों के बीच ( हितम् ) विद्यमान, सर्व कल्याणकारी ( शुक्रम् ) शुद्ध, सूर्यवत् तेजस्वी (उत्-चरत्) उत्तम पद को प्राप्त करे और हम उसके अनुग्रह से (शरदः शतं पश्येम ) सौ वरस तक देखें । ( शरदः शतं जीवेम ) सौ वरस तक जीवें । इति दशमो वर्गः ॥

काव्येभिरद्वाभ्या यातं वरुण द्युमत् । मित्रश्च सोमपीतये ॥ १७ ॥

भा०—हे ( वरुण ) सर्व श्रेष्ठ जन ! आप और ( मित्रः च ) सर्व स्नेही, आप दोनों ( सोमपीतये ) ओषधि रसवत् राष्ट्र-शरीर की रक्षा और उपभोग के लिये ( काव्येभिः ) विद्वान् कवि जनों की वाणियों द्वारा ( अदान्याः ) अहिंसाकारी, स्वयं भी अहिंसा व्रतचारी, होकर दोनों (आयातं) आइये और (द्युमत्) ऐश्वर्य से पूर्ण देश को प्राप्त करो ।

द्विवो धामभिर्वरुण मित्रश्चा यातमद्भुहा । पिवतुं सोममातुजी १८

भा०—हे ( वरुण मित्रः च ) वरुण और मित्र, रात्रि दिन के तुल्य, आप सौ पुरुषों ! (अद्भुहा) परस्पर द्रोह न करते हुए (आतुजी) शत्रुओं का

नाश और प्रजाओं का पालन करते हुए ( दिवः धामभिः) सूर्य के प्रकाश-  
मय तेजों से प्रभावित होकर ( सोमं पिबतु ) ऐश्वर्य को प्राप्त हों ।

आ यातं मित्रावरुणा जुषाणावाहुतिं नरा ।

पातं सोममृतावृधा ॥ १९ ॥ ११ ॥

भा०—हे ( मित्रावरुणा ) दिन रात्रि वा सदा परस्पर स्नेही और पर-  
स्पर के वरण करने वाले ( ऋतवृधा ) सत्य से बढ़ने और अन्यो को  
बढ़ाने वाले होकर (सोमम् पातम्) प्रजावर्ग और शिष्यवर्ग सबको (पातं)  
पालन करो । और आप दोनों ( नरा ) उत्तम स्त्री पुरुष ( आहुतिम् )  
जुषाणा ) आदरपूर्वक दिये दान को प्रेमपूर्वक स्वीकार करते हुए, ( आ-  
पातम् ) हमें प्राप्त हूजिये ॥ इत्येकादशो वर्गः ॥

[ ६७ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, २, ६, ७, ८, १० निचृत्  
त्रिष्टुप् । ३, ५, ६ विराट् त्रिष्टुप् । ४ आषीं त्रिष्टुप् । दशर्चं सूक्तम् ॥

प्रतिं वां रथं नृपती जरुध्र्यै हविष्मता मनसा यज्ञियेन ।

यो वां दूतो न धिष्णयावजीगरच्छा सुनुर्न पितरां विवक्तिम् ॥१॥

भा०—हे ( नृपती ) राजा रानी के समान, सब मनुष्यों के पालक  
सबके नायक प्राणों के पालक ! हे (धिष्ण्यौ) स्तुति योग्य ! उत्तम आसन  
के योग्य वा उत्तम बुद्धि सम्पन्न स्त्री पुरुषों ! ( यः ) जो ( दूतः न ) दूत,  
संदेश-हर के समान ( वां ) आप दोनों को ( अजीगः ) सचेत करता,  
जगाता है, ज्ञान देकर प्रबुद्ध करता है वह मैं धिद्वान् जन ( वां प्रति )  
आप दोनों के प्रति (हविष्मता) उत्तम ग्रहण योग्य भावों से युक्त, (यज्ञि-  
येन ) पूज्य सत्संग योग्य ( मनसा ) मन वा ज्ञान से ( जरुध्र्यै ) उप-  
देश करने के लिये ( सूनुः पितरा न ) माता पिताओं के प्रति बालक के

समान ( रथम् ) रमणीय वचन और उत्तम व्यवहार का ( अच्छ विव-  
किन ) उपदेश करता हूँ ।

अशोच्यग्निः समिधानो अस्मे उपो अदृश्रन्तमसश्चिदन्ताः ।

अचेति केतुरूपसः पुरस्ताच्छ्रिये दिवो दुहितुर्जायमानः ॥ २ ॥

भा०—( समिधानः ) अच्छी प्रकार देदीप्यमान ( अग्निः ) अग्नि,  
यज्ञाग्नि, ज्ञानाग्नि, और सूर्य, एवं अग्निवत् तेजस्वी ज्ञानी विद्वान् ( अस्मे  
अशोचि ) हमारे हितार्थ चमकता है । ( तमसः अन्ताः चित् ) अन्धकार  
अज्ञान के परले सिरे तक ( उपो अदृश्रन् ) स्पष्ट दिखाई देते हैं ।  
( दिवः दुहितुः उपसः ) देदीप्यमान सूर्य की कन्या के समान उपा से ही  
( पुरस्तात् श्रिये ) पूर्व दिशा की शोभा के लिये जिस प्रकार सूर्य उत्पन्न  
होता है उसी प्रकार ( दिवः दुहितुः ) ज्ञानप्रकाश का दोहन करने वाले,  
( उपसः ) पापों और अज्ञान के दग्ध करने वाले मातृवत् गुरु से ( जायमानः )  
उत्पन्न होता हुआ शिष्यरूप पुत्र ( पुरस्तात् ) आगे शोभा के लिये ही  
( केतुः अचेति ) पूर्ण ज्ञानवान् होकर प्रबुद्ध होता है । इसी प्रकार अध्या-  
त्म में—( दिवः दुहितुः ) प्रकाशस्वरूप आत्मा की पुत्री के समान जो  
( उपसः ) कान्तिमती विशेष प्रज्ञा है उसकी ( पुरस्तात् श्रिये ) और  
अधिक शोभा वृद्धि के लिये ( केतुः ) ज्ञानवान् आत्मा ( अचेति ) ज्ञान  
का विषय होता है । विशेष प्रज्ञा के उदय के अनन्तर प्रकाशरूप आत्मा  
का साक्षात् होता है ।

अभि वा नूनमश्विन्ना सुहोता स्तोमैः सिपक्ति नासत्या विवृक्कान्  
पूर्वाभिर्यान् पृथ्याभिरुर्वाकस्वविद्वा चसुमता रथेन ॥ ३ ॥

भा०—( अधिना ) उत्तम अध रूप इन्द्रियों के स्वामी जिते-  
न्द्रिय, प्रज्ञाचारी, नर नारी वगैरे ! हे ( नासत्या ) कभी भी असत्य  
भाषण और असत्य व्यवहार न करने वाले जनो ! या ( न-असत्-र्यां ) कभी  
असत् अर्थान् कुमार्ग पर पैर न रखने वाले जनो ! ( सुहोता ) उत्तम ज्ञान

देने वाला, ( वि वक्रान् ) विविध विद्याओं का उपदेष्टा पुरुष ( स्तोमैः )  
उत्तम वेद मन्त्रों और उपदेशों से ( नूनम् ) अवश्य ( वां ) तुम दोनों  
को ( अभि सिपक्ति ) अपने साथ एक सूत्र में बांधता है, आप दोनों  
( वसुमता रथेन ) धन अन्नादि सामग्री से सम्पन्न रथ से यात्री जिस  
प्रकार उत्तम २ मार्गों से सुख से देशान्तर चला जाता है उसी प्रकार  
( वसु-मता ) अन्तेवासि शिष्यों से युक्त, ( रथेन ) रथ, उपदेष्टा, वा  
स्थिर भाव के विद्यमान, ( स्वर्विदा ) ज्ञान के प्रकाश और उपदेश को  
स्वयं प्राप्त और अन्यो को प्राप्त कराने वाले आचार्य की सहायता से  
( पूर्वीभिः ) पूर्व विद्वानों से उपदिष्ट, ( पथ्याभिः ) हितकारी धर्म युक्त  
मार्गों से ( अर्वाक् यातम् ) आगे बढ़ो ।

श्रुवोर्वा नूनमश्विना युवाकुर्हुवे यद्वा सुते माध्वी वसूयुः ।

श्रा.वाँ वहन्तु स्थविरासो अश्वः पिवाथो अस्मे सुपुता मधूनि४

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय नर नारियो ! ( नूनम् ) अवश्य  
में ( युवाकुः ) तुम दोनों को हृदय से चाहता हुआ, ( वसूयुः ) नाना  
अन्तेवासी शिष्य ब्रह्मचारियों की कामना करता हुआ आचार्य ( सुते )  
उत्तम ज्ञानैश्वर्य को प्राप्त कराने के निमित्त ( अयोः ) व्रत नियम ब्रह्म-  
चर्यादि का पालन करने वाले आप दोनों में से ( वां ) तुम दोनों को  
( माध्वी ) मधु अर्थात् मधुर, ऋग्वेद, मधु विद्या, उपनिषत् ज्ञान, और  
'मधु' आनन्दप्रद अन्नादि के योग्य जानकर ( हुवे ) प्राप्त करूं । ( स्थ-  
विरासः ) ज्ञानवृद्ध ( अश्वः ) नाना विद्याविचक्षण पुरुष ( वां ) तुम  
दोनों को उत्तम अश्वों के समान ( आ वहन्तु ) आगे सन्मार्ग पर ले  
चलें । आप लोग ( अस्मे ) हमारे ( सु-सुता ) उत्तम रीति से बनाये,  
( मधूनि ) ज्ञानों और अन्नों का ( पिवाथः ) उपभोग और पालन करो ।  
मधु के समान नाना ज्ञानवृद्ध पुरुषों के सत्संग से एकत्र करने योग्य

होने से ज्ञान और नाना गृहस्थों से भिक्षा रूप में संग्रह करने योग्य। अतः 'मधु' है। ब्राह्मचारी वर्गों का उसको संग्रह करना 'मधुकरि' वृत्ति है ॥  
 प्राचींमु देवाश्विना धियं मेऽमृधां सातये कृतं वसूयुम् । विश्वाः  
 अविष्टं वाजु आ पुरन्धीस्ता नः शक्तं शर्चापती शर्चाभिः ॥५॥१२॥

भा०—हे ( देवा अश्विना ) जितेन्द्रिय और विद्या की अभिलाषा करने वाले शिष्य, शिष्याजनों ! आप दोनों ( मे ) मेरी ( प्राची ) उत्तम, ज्ञान में युक्त, पूज्य ( अमृधाम् ) कभी नाश न होने वाली और ( वसूयुं ) धर्मधर्म में युक्त ( धियं ) बुद्धि और कर्म को ( सातये ) प्राप्त करने के लिये ( कृतम् ) यत्न करो। उसी प्रकार हे ( देवा अश्विना ) जितेन्द्रिय ज्ञान देने वाले गुरु गुरुभार्या जनों ! आप दोनों ( वाजु-सातये ) मुझ शिष्य को देने के लिये अपनी ( प्राचीम् ) अति उत्कृष्ट, पूज्य, ( वसूयुं ) वसु, शिष्य को प्राप्त होने वाली ( अमृधां ) अविनाशी, शिष्य को कष्ट न देने वाली ( धियं ) बुद्धि और वाणी का ( कृतम् ) उपदेश करो। आप दोनों ( वाजु ) संग्राम और ज्ञान प्राप्त करने के अवसर में ( विश्वाः पुरन्धीः ) समस्त प्रजाओं के समान बहुत ज्ञानधारक बुद्धियों, वाणियों की ( आ अविष्टं ) सश्रम प्रशर से रक्षा करो। आप दोनों ( शर्चापती ) वाणी और शक्ति के पालक होकर ( नः ) हमें ( शर्चाभिः ) अपनी वाणियों से ( ताः ) से नाना बुद्धियों ( शक्तं ) देकर हमें शक्तियुक्त करो। इति द्वादशो वर्गः ॥  
 अविष्टं वाजुश्विना न श्वानु प्रजावृद्धेता अह्वयं नो अस्तु ।

शा यो गोके तनये नृतेजानाः सुरतनासो देववीति गमेम ॥६॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषों ! आप लोग ( आसु भीषु ) इतने कर्मों और ज्ञान बुद्धियों के बीच, ( नः अविष्टं ) हमारी रक्षा करो। और ( नः ) हमारा ( रतः ) वीर्य, ( प्रजावन् ) प्रजा उत्पन्न करने वाला, और ( अमृधम् ) कभी कष्ट न होने वाला, अमोघ ( अस्तु ) हो। हम लोग ( गोके तनये ) पुत्र पौत्रादि के निमित्त ( वां ) आप

दोनों की ( तूतुजानाः ) रक्षा करते हुए, ( सु-रत्नासः ) उत्तम ऐश्वर्यों और गुणों से युक्त होकर ( देव-वीतिं ) विद्वानों की संगति को ( आगमेम ) प्राप्त हों ।

एष स्य वां पूर्वगत्वैव सख्ये निधिर्हितो माध्वी रातो अस्मे ।

अहेळता मनसा यातमर्वागश्नन्ता हव्यं मानुषीषु विक्षु ॥ ७ ॥

भा०—हे ( माध्वी ) मधुर अन्न वा अन्न और ज्ञान का मधुवत् सञ्चय करने और सेवा करने वाले विद्याध्ययनशील जनो ! ( एषः स्यः ) यह वह ( निधिः ) ज्ञानैश्वर्यों का खजाना, विद्याओं का अगाध सागर गुरुजन ( पूर्वगत्वा इव ) पूर्वगामी आदर्श पुरुष के समान ( वां सख्ये ) आप दोनों के मित्र भाव में ( हितः ) स्थापित है, वह ( अस्मे ) हम प्रजाजनों के हितार्थ ( रातः ) आप लोगों के हितार्थ आप लोगों को और हमको भी दे दिया गया है । आप लोग (मानुषीषु विक्षु) मनुष्य प्रजाओं में (हव्यं अश्नन्ता) उत्तम अन्नादि का उपभोग करते हुए ( अहेळता मनसा ) क्रोध और अपमान से रहित चित्त होकर ( अर्वाक् यातम् ) हमारे पास आया करें । अध्यात्म में—अन्न भोक्ता प्राणापान 'माध्वी' हैं । उनके सख्य में पूर्वगन्ता आत्मा सबको प्राप्त है ।

एकस्मिन्योगे भुरणा समाने परि वां सप्त स्रवतो रथोगात् ।

न वायन्ति सुभ्वो देवयुक्ता ये वां धूर्पु तरणयो वहन्ति ॥ ८ ॥

भा०—हे ( भुरणा ) समस्त प्रजाओं का भरण पोषण करने वाले, जितेन्द्रिय नर नारियो ! ( एकस्मिन् ) एक ही ( समाने ) एक समान आदर से युक्त ( योगे ) परस्पर के मिलने पर ( वां रथः ) आप दोनों के रथ के समान सन्मार्ग पर ले जाने हारा उपदेष्टा पुरुष ( सप्त स्रवतः ) प्रवाह से निकलने वाली सातों छन्दोमय वाणियों को ( परि गात् ) प्राप्त करे, करावे । ( ये ) जो ( वां ) आप दोनों के ( धूर्पु ) धुराओं में लगे, धुरन्धर विद्वान् ( तरणयः ) वेगवान् अश्वों के समान वेग से संकटों से



पार प्रनारणे वाले विद्वान् जन (वां वहन्ति) आप दोनों को सन्मार्ग पर ले जाते हैं ये (सुन्दरः) उत्तम सुखजनक, उत्तम सामर्थ्यवान्, (दिव-युक्ताः) विद्वानों में नियुक्त होकर (न वायन्ति) कभी सत्पथ से विचलित नहीं होते। अत्यात्म में—एक ही योग में (स्थः) रन्ता, आत्मा (सप्त चवतः) सुखजनक ज्ञान प्राणों पर वश करता है, प्राणगण सुख, शक्ति से युक्त होकर (न वायन्ति) कभी नाश को प्राप्त नहीं हों, यदि वे विद्वानों द्वारा ज्ञान-रतिक सन्मार्ग में चलाये जायें।

शुभधत्ता मयवद्वयो हि भुतं ये राया मयदेयं जुनन्ति ।  
प्र ये वन्धुं सुनृताभिस्तिरन्ते गव्यां पृञ्चन्तो अश्व्यां मृधानि ॥१॥

भा०—हे जितेन्द्रिय नर नारियो ! ( ये ) जो लोग ( राया ) अपने पैरों के बल से, ( मय-देयं ) दातव्य, ऐश्वर्य, ( जुनन्ति ) प्रदान करते हैं उन ( मयवद्वयः ) उत्तम दातव्य ज्ञान-धन शाली पुरुषों के उपकार के लिये अज्ञ योग ( असधना हि भृगम् ) दुर्घ्यसनों में असक्त होकर रहो। ( ये ) जो लोग ( अश्व्या ) अश्वों में युक्त और ( गव्या ) गौधों से समृद्ध ( मृधानि ) गाना धनों को ( पृञ्चन्तो ) प्राप्त करते हुए ( नृताभिः ) उत्तम पानियों और अश्वों से ( वन्धुं ) अपने वन्धुजन को ( प्र तिरन्ते ) अश्वों पर वश करवाने हैं उनके लिये भी आप लोग विषयादि में न फँसकर मनुष्य में नर रहो।

नृ मे हृष्यता शृणुतं युवाना यामिष्टं प्रतिश्वित्ताविरावन् ।

शुचं गत्वाति जगते च सुरान्युयं पान स्यन्तिभिः स्वदा नः ११।१३

भा०—हे ( श्रुताना ) मय ऐश्वर्य और ज्ञानों को प्राप्त करने वाले भी पुरुषों ! हे अश्वदि मयों के पानियों ! आप लोग ( युवाना ) शरीर युवा सुवर्ण होकर ( मे ) सुख विधान के ( मयम् आ शृणुतम् ) प्राप्त करके ही आश्वर्य और अश्व विषयादयो। आप लोग ( हृष्यन् वरिः ) उत्तम अश्व से युक्त जगत् में ममान, सुख वां और ( इगन्तु वरिः ) उत्तम प्रेरणा

से युक्त व्यवहार को ( आ यासिष्टं नु ) अवश्य प्राप्त होओ । ( रत्नानि धत्तम् ) उत्तम रत्नों के तुल्य रम्य गुणों को धारण करो । ( सूरीन् ) विद्वान् पुरुषों को ( जरतं च ) प्राप्त होकर विद्या का लाभ किया करो । हे विद्वान् पुरुषो ! ( यूयं ) आप लोग ( स्वस्तिभिः नः सदा पात ) उत्तमः सुखदायक साधनों से हमारी रक्षा करें । इति त्रयोदशो वर्गः ॥

[ ६८ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, ६, ८ साम्नी त्रिष्टुप् ।  
२, ३, ५ साम्नी निचृत् त्रिष्टुप् । ४, ७ साम्नी भुरिगासुरो विराट् त्रिष्टुप् ।  
निचृत् त्रिष्टुप् ॥ नवर्च सूक्तम्

आ शुभ्रा यातमश्विना स्वश्वा गिरो दत्त्वा जुजुपाणा युवाकोः ।  
हव्यानि च प्रतिभृता वीतं नः ॥ १ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) उत्तम अश्वों के स्वामी, रथी सारथीवत् इन्द्रियों को वश करने वाले स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( दत्त्वा ) दुःखों का नाश करने में तत्पर होकर ( युवाकोः ) तुम दोनों को चाहने वाले मुझ विद्वान् की ( गिरः ) उपदेश वाणियों को ( जुजुपाणा ) प्रेम से सेवन करते हुए ( शुभ्रा ) उत्तम गुणों, आभरणों से सुशोभित और ( सु-अश्वा ) उत्तम अश्वारूढ़ वीरवत्, उत्तम अश्ववत्, उत्तम विद्या में गतिशील, सुदृढ़ शरीर होकर ( आ यातम् ) आओ । ( नः ) हमारे ( प्रति-भृता ) एवज में दिये भरण पोषणार्थ ( हव्यानि ) उत्तम अन्नों का ( वीतम् ) भोजन करो । इसी प्रकार गृहस्थी लोग नवशिक्षित, स्नातक स्नातिकाओं और नवविवाहितों का आदर किया करें ।

प्र वामन्धांसि मद्यान्यस्थुररं गन्तं हविषो वीतये मे ।  
तिरो श्रियो हवनानि श्रुतं नः ॥ २ ॥

भा०—हे विद्वान्, स्त्री पुरुषो ! ( वां ) आप दोनों को ( मद्यानि ) उत्तम आनन्द देने वाले ( अन्धांसि ) जीवन धारण कराने वाले उत्तम

अन्न ( प्रःअस्थुः ) आपके लिये अच्छी प्रकार रखते हैं आप दोनों ( मे ) मेरे ( हविषः ) उत्तम अन्न को ( वीतये ) खाने के लिये ( अरं गन्तं ) अवश्य आइये । ( अर्यः ) शत्रु के ( हवनानि ) आह्वानों को ( तिरः ) तिरस्कार करके ( नः हवनानि ) हमारे उत्तम वचनों को ( श्रुतं ) श्रवण करो । इस प्रकार उत्तम स्त्री पुरुषों का भोजन, वचनादि से सत्कार करना चाहिये ।

प्र वां रथो मनोजवा इयति तिरो रजांसि त्रिविना श्रुतोतिः ।

अस्मभ्यं सूर्यावसू इयानः ॥ ३ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) विद्वान्, जितेन्द्रिय पुरुषो ! ( रथः ) उपदेश ( मनोजवाः ) मन को प्रेरणा करने वाला ( शत-ऊतिः ) सैकड़ों ज्ञानों से युक्त और सैकड़ों संकटों से बचाने वाला होकर ( वां ) आप दोनों के ( रजांसि ) तेजों को सूर्य के समान, राजस आवरणों को ( तिरः इयति ) दूर करता है । हे ( सूर्यावसू ) सूर्य के समान तेजस्वी गुरु जनो, विद्याओं के प्रकाशक गुरु जनों के अधीन ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी जनो ! वह सदा ( अस्मभ्यं इयानः ) हमारे हितार्थ आता हुआ भी हमारे राजस आवरणों को भी ( तिरः ) दूर करे । ( २ ) हे ( सूर्यावसू ) सूर्य और सूर्यावत् पति पत्नी होकर गृहस्थ में बसने वाले चर वधू जनो ! ( अस्मभ्यं इयानः ) हमारे तक पहुंचने के लिये आता हुआ आप दोनों का रथ ( शत-ऊतिः ) सैकड़ों मील तक या प्रति घंटा १०० मील जाने वाला और ( मनोजवाः ) मन के संकल्पमात्र से वेग से जाने वाला वा मन के समान तीव्रगति से जाने वाला होकर ( रजांसि तिरः इयति ) धूलि समूह को इधर उधर फेंकता है । ( ३ ) हे स्त्री पुरुषों ! ( वां रथः ) आप दोनों का रमण साधन 'देह', रमणकर्त्ता आत्मा, ( शत-ऊतिः ) शत वर्ष तक सुरक्षित रहकर अनेक ज्ञान प्राप्त करके ( रजांसि तिरः इयति ) राजस आवरणों या पार्थिव भौतिक अंशों को दूर करता है, हे सूर्यावत्

तपस्या का अभ्यास करने वाले जनो, ऐसा देह और रथ (अस्मभ्यं इयानः) हमें भी प्राप्त हो ।

रथः—रंहतेर्गतिकर्मणः । स्थिरतेर्वा विपरीतस्य । रममाणोऽस्मि-  
स्तिष्ठति इति वा । रपतेर्वा । रसतेर्वा । निरु० ९ । २ । १ ॥

अयं ह यद्वा देव्या उ अद्रिरुध्वो विवक्ति सोमसुवभ्यां ।  
आ वल्गू विप्रो ववृतीत ह्वयैः ॥ ४ ॥

भा०—( देव्याः ) विद्वानों और विद्याभिलाषी जनों को अन्नों और ज्ञानों का दान करने वाला, उनका पूजा सत्कार करने वाला पुरुष (अयं ह) वह है ( यत् ) जो ( अद्रिः ) मेघ के समान उदार होकर ( सोम-सुत् ) उत्तम अन्न ओपधियों के रसवत् ज्ञान को देने वाला होकर के ( ऊध्वः ) उत्तम पद पर स्थित होकर ( युवभ्याम् ) तुम दोनों के लाभ के लिये ( विवक्ति ) विविध प्रकार से स्तुति-वचन और उपदेश कहे । ( विप्रः ) विद्वान् पुरुष ( वल्गू ) उत्तम वाणियों बोलने वाले आपदोनों को ( ह्वयैः ) दान योग्य उत्तम ज्ञानों और अन्नादि पदार्थों से ( ववृतीत ) उनका आदर सत्कार व्यवहार करे ।

चित्रं ह यद्वा भोजनं न्वस्ति न्यत्रये महिष्वन्तं युयोतम् ।  
यो वामोमानं दधते प्रियः सन् ॥ ५ ॥ १४ ॥

भा०—( यः ) जो ( वाम् ) आप दोनों का ( प्रियः सन् ) प्रिय होकर ( महिष्वन्तं ) बहुत उत्तम परिणाम जनक ( ओमानं ) उत्तम ज्ञान और रक्षण सामर्थ्य ( दधते ) स्वयं धारता और आप दोनों को धारण कराता है, उस ( अत्रये ) त्रिविध तापों से रहित, और तीन ऋणों से मुक्त विद्वान् पुरुष के लिये ( यद् वा चित्रं भोजनं नु अस्ति ) जो आपका नाना प्रकार का भोजन है वह ( नि युयोतम् ) अवश्य पृथक् करो । उप-कारी, चतुर्थाश्रमी, ज्ञानप्रद परिव्राजक के अर्थ पति पत्नी अपने भोजन का उत्तमांश अवश्य पृथक् रख दिया करें । उससे वे अतिथि यज्ञ किया करें । इति चतुर्दशो वर्गः ॥

उत त्यद्वां जु॒रते अ॑श्विना भु॒च्च्यवा॑नाय प्र॒तीत्यं ह॒विर्दे॑ ।  
अधि॒ यद्व॑र्ष इ॒त ऊ॑ति ध॒त्थः ॥ ६ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) उत्तम वेगवान् रथों, यन्त्रों के स्वामी स्त्री पुरुषो ! आप लोग ( हविर्दे ) उत्तम अन्न, भूति और उत्तम साधनों के देने वाले ( जु॒रते ) वृद्ध, मान्य ( च्यवानाय ) जाने को उद्यत पुरुष के हितार्थ ( प्रतीत्यम् ) प्रत्येक देश में पहुँचने योग्य ( इतः-ऊति ) इधर उधर से रक्षायुक्त, ( वर्षः ) उत्तम रूपयुक्त रथादि ( अधि धत्थः ) प्रदान करते रहो ( वां त्यत् ) आप दोनों का वही ( प्रतीत्यं भूत् ) प्रसिद्धि कर कर्म है । ( २ ) उत्तम जितेन्द्रिय शिष्य शिष्याएं वृद्ध गुरुजनों के हितार्थ इस लोक में रक्षाकारी सन्ततिमय रूप को धारण करते हैं वही उनका उत्तम कर्म है । ( ३ ) विद्वान् शिल्पी जन वृद्धादि, गमनोत्सुक, भाड़ा देने के लिये वेग से जाने वाले रथादि को बनाते हैं । अध्यात्म में—'जु॒रत् च्यवान्' यह देह है । अन्न से प्राणों में बल देता है, उसको ये प्राण अपान ही उत्तम रूप और कान्ति धारण कराते हैं ।

उत त्यं भु॒ज्युम॑श्विना सखा॒यो मध्ये॑ जहु॒र्दुरे॑वासः समु॒द्रे ।  
नि॒री॑ पर्ष॒दरा॑वा यो यु॒वाकुः॑ ॥ ७ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय, विद्वान् पुरुषो ! हे रथी सारथी-वत् उत्तम साधनसम्पन्न जनो ! ( दुरेवासः ) दुष्ट कामनायुक्त ( सखायः ) मित्र लोग जिसको ( मध्ये समुद्रे ) कष्टों के बीच समुद्र में ( भुज्युम् ) भुजा का अवलम्बन चाहने वाले ( त्यं ) उस पुरुष को आप लोग ( निः पर्षद् ई ) अवश्य ही पारकर दिया करो ( यः ) जो ( आरावा ) विचारा नीरव, मूक, और ( युवाकुः ) तुम दोनों को चाहता और तुम दोनों को पुकारता हो । तुम्हारी सहायता की याचना करता हो ।

वृ॒काय॑ चि॒ज्जस॑मानाय श॒क्तमु॒त श्रु॑तं श॒यवे॑ हू॒यमा॑ना ।

याव॑ध्न्याम॒पि॒न्वत॑म॒पो न स्त॑र्यं चि॒च्छ॒क्तय॑श्वि॒ना श॒चीभिः॑ ॥८॥

भा०—हे ( अश्विना ) उत्तम वेगयुक्त अश्वों और यन्त्रों की विद्या को जानने वाले शिल्पज्ञ स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( जसमानाय ) प्रजा का नाश करने वाले, ( वृकाय ) चोर स्वभाव के, दम्भी पुरुष के लिये ( चित् ) अवश्य ( शक्तम् ) शक्त, सामर्थ्यवान् बनो । उसको दमन करने में समर्थ होओ । और ( हूयमाना ) आदर से बुलाये गये आप दोनों ( शयवे ) शान्ति सुख के इच्छुक पुरुष के हितार्थ ( श्रुतम् ) उसकी प्रार्थनादि श्रवण करो । ( यौ ) जो आप दोनों ( शक्ती ) शक्ति से और ( शचीभिः ) वाणियों द्वारा ( अपः न ) जल जिस प्रकार नदी को पूर्ण करते हैं उसी प्रकार ( स्तर्यं ) आच्छादन, भरण पोषण और आश्रय देने योग्य ( अघ्न्याम् ) न मारने योग्य, गौ के समान रक्षा योग्य कन्या, स्त्री, भूमि और प्रजा को ( अपिन्वतम् ) पुष्ट करो, पालो ।

ए॒प स्य का॒रुर्ज॑रते सू॒क्तैर॑ग्रे॒ बुधा॑न उ॒पसां॑ सु॒मन्मा॑ ।

इ॒पा तं वर्ध॑द्घ्न्या पयो॑भिर्यु॒यं पा॑त स्व॒स्तिभिः॑ सदा॑ नः ॥९।१५॥

भा०—हे उत्तम स्त्री पुरुषो ! ( उपसां अग्रे यथा सु-मन्मा कारुः जरते ) प्रभात वेलाओं के आगे, उनके आगमन के पूर्व जिस प्रकार उत्तम विचारवान्, स्तुतिकर्ता, भक्त पुरुष स्तुति करता है उसी प्रकार ( सु-मन्मा ) उत्तम ज्ञानवान्, ( बुधानः ) स्वयं बोधवान् और अन्यो को बोध प्रदान करता हुआ ( कारुः ) मन्त्रों का व्याख्यान करने वाला विद्वान् पुरुष ( एपः स्यः ) वही है जो ( सूक्तैः ) उत्तम मन्त्र गणों से ( उपसाम् अग्रे ) ज्ञान की कामना करने वाले शिष्य जनों के समक्ष ( जरते ) विद्या का उपदेश करता है । ( अघ्न्या पयोभिः ) गौ जिस प्रकार दुग्धों से पालक को बढ़ाती है उसी प्रकार ( अघ्न्या ) कभी न नाश होने वाली वेदवाणी, प्रभुशक्ति वा आत्मशक्ति ( तं ) उसको ( इपा वर्धत् ) उत्तम इच्छा, शक्ति से बढ़ाती है । हे विद्वान् पुरुषो ! ( यूयं ) आप लोग ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमें सदा उत्तम साधनों से पालन करो । इति पञ्चदशो वर्गः ॥

[ ६६ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, ४, ६, ८ निचृत् त्रिष्टुप् ।  
२, ७ त्रिष्टुप् । ३ आषीं स्वरान् त्रिष्टुप् । ५ विरान् त्रिष्टुप् ॥ अष्टर्चं सूक्तम् ॥

आ वां रथो रोदसी वद्वधानो हिरण्ययो वृषभिर्यात्वश्वैः ।

घृतवर्तनिः पविभी रुचान इषां वोल्हा नृपतिर्वाजिनीवान् ॥१॥

भा०—जिस प्रकार ( रथः हिरण्ययः ) लोह सुवर्णादि धातु का बना उत्तम रथ ( वृषभिः अश्वैः याति ) बलवान् अश्वों या वेगवान् बैलों से चलता है, वह ( घृतवर्तनिः ) जल से सिंचे मार्ग पर चलने हारा और ( पविभिः रुचानः ) चक्रधाराओं से सुशोभित और ( इषां वोढा ) अभिलपित अन्नादि सामग्री का वहन करने वाला, और ( वाजिनीवान् ) उत्तम बलवती शक्ति से युक्त होकर ( नृपतिः ) मनुष्यों का रक्षक होता है उसी प्रकार ( वाजिनीवान् ) उत्तम बलवती सेना, उत्तम ज्ञान ऐश्वर्य से सगुण चाणी और भूमि का स्वामी, ( नृपतिः ) मनुष्यों का पालक राजा, ( रथः ) रमणीय स्वभाव वाला, उत्तम विद्या का उपदेश, प्रजा को रमाने हारा ( हिरण्ययः ) हितैषी और सुखप्रद, ( वद्वधानः ) दुष्टों को बाधा, और बन्धनादि करता हुआ, ( वृषभिः अश्वैः ) उत्तम बलवान्, विद्याओं में पारंगत वीर पुरुषों सहित ( रोदसी वां ) सूर्य भूमिवत् सम्बद्ध आप दोनों राज प्रजावर्गों और गृहस्थ स्त्री पुरुषों को ( आ यातु ) प्राप्त हो । वह ( घृतवर्तनिः ) तेजो युक्त स्निग्ध मार्ग से जाने वाला उत्तम व्यवहारवान् और ( पविभिः रुचानः ) पवित्र आचरणों से युक्त, उत्तम हथियारों से सुशोभित गृहस्थ ( इषां वोढा ) अभिलपित दाराओं से विवाह करने हारा हो और राजा ( इषां वोढा ) सेनाओं को अपने जिम्मे लेकर चलने हारा हो ।  
स पप्रधानो ऋभि पञ्च भूमां त्रिवन्धुरो मनसा यातु युक्तः ।  
विशो येन गच्छथो देवयन्तीः कुत्रा चिद्याममश्विना दधाना ॥२॥

भा०—जिस प्रकार रथ (त्रि-बन्धुरः) सारथि आदि के बैठने के योग्य तीन स्थानों से युक्त, होता है जिनसे ( कुत्र चित् यामं दधाता ) कहीं भी जाना चाहते हुए रथि सारथी जा सकते हैं उसी प्रकार हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! ( सः ) वह विद्वान् और वीर पुरुष ( भूमा ) महान् सामर्थ्य से युक्त, ( पञ्च अभि ) पाँचों जनों के समक्ष ज्ञान और बल का विस्तार करता हुआ ( त्रि-बन्धुरः ) तीनों वेदों को धारण करने वाला, और तीन प्रकार के बल का आश्रय, होकर ( मनसा ) ज्ञान और प्रबल चित्त से युक्त होकर ( अभि यातु ) आगे आवे । ( येन ) जिसकी सहायता से आप दोनों विद्वान् स्त्री पुरुष राजा रानी, ( देवयन्तीः विशः ) कामना युक्त प्रजाओं को ( गच्छथः ) प्राप्त होते और ( कुत्र चित् ) जहाँ चाहे कहीं भी ( यामं दधाना ) गमन प्रयाण, परस्पर वैवाहिक बन्धन और राज्य प्रबन्ध को धारण करते हुए ( गच्छथः ) प्राप्त होते हो ।

स्वश्वा यशसा यातमर्वाग्दक्षा निधिं मधुमन्तं पिवाथः ।

वि वां रथो वध्वा यादमानोऽन्तान्दिवो वाधते वर्त्तनिभ्याम् ॥३॥

भा०—जिस प्रकार (रथः वर्त्तनिभ्यां दिवः अन्तान् बाधते) रथ चक्र धाराओं से भूमि के प्रान्त भागों को पीड़ित करता है उसी प्रकार हे स्त्री पुरुषो ! राज-प्रजाजनो ! हे रथी सारथिवत् सहयोगियो ! ( वां ) आप दोनों में ( रथः ) वेगवान् रम्य व्यवहारवान् वा स्थिर दृढ़ पुरुष (वध्वा) अपनी सहयोगिनी वधू वा कार्य भार को वहन करने वाली शक्ति के साथ ( यादमानः ) यत्नवान् होता हुआ ( वर्त्तनिभ्याम् ) अपने ऐहिक और पारमार्थिक व्यवहारों या देवयान पितृयाण मार्गों से (दिवः अन्तान् बाधते) ज्ञान के सिद्धान्तों का अवगाहन करे । हे ( स्वश्वा ) उत्तम अश्वों, इन्द्रियों से युक्त ! हे ( दक्षा ) अज्ञानादि नाशक जनो ! आप दोनों ( यशसा ) यश से यशस्वी होकर ( अर्वाग् यातम् ) आगे बढ़ो और ( मधुमन्तं निधिं ) मधुर ज्ञानों से युक्त, वेदमय निधि या खजाने का (पिवाथः) पालन और उपभोग करो ।



युवोः श्रियं परि योपावृणीत् सूरौ दुहिता परितक्म्यायाम् ।

यद्देव्यन्तमवथः शचीभिः परि द्रंसमोमना वां वयो गात् ॥४॥

भा०—हे स्त्री पुरुषो ! ( युवोः ) तुम दोनों में ( सूरः दुहितः ) सूर्य की कान्ति वाली उपा के समान सुन्दरी ( योपा ) पुरुष को प्रेमपूर्वक सेवन करने की अभिलाषा वाली स्त्री ( परि-तक्म्यायाम् ) कामाग्नि युक्त, यौवन दशा में, वा 'तक्म्या' उष्ण रजोधर्म की दशा के उपरान्त ( श्रियं ) आश्रय योग्य सेवनीय पुरुष को ( परि वृणीत् ) स्वीकार करे । आप दोनों ( शचीभिः ) उत्तम कर्मों और वाणियों से ( देवयन्तम् ) विद्वान्ब्रह्म अपने प्रिय कामनावान् सहयोगी को अवश्य ( अवथः ) प्राप्त हुआ करो । और ( वां द्रंसम् ) आप दोनों में अति तेजस्वी पुरुष को ही ( ओमना ) रक्षण योग्य बल सहित ( वयः ) उत्तम, दीर्घायु और अन्न बलादि भी ( परि गात् ) प्राप्त हो ।

यो ह स्य वां रथिरा वस्त उस्त्रा रथो युजानः परियाति वर्तिः ।  
तेन नः शं योरुपसो व्युष्टौ न्यश्विना वहतं यज्ञे अस्मिन् ॥ ५ ॥

भा०—हे ( रथिरा ) रथ पर विराजमान रथी सारथी के समान सहयोगी स्त्री पुरुषो ! ( वां ) आप दोनों में से ( यः ) जो प्रत्येक ( रथः ) स्थिर भाव से रहने वाला और गृहस्थ में रमण करने वाला, दूसरे को सुख देने वाला हो वह ( उस्त्राः वस्ते ) किरणों को सूर्य के समान उज्ज्वल वस्त्रों को धारण किया करे । वही ( युजानः ) जुड़े रथ के समान स्वयं भी ( युजानः ) संयुक्त होकर ग्रन्थि जोड़कर ( वर्तिः परियाति ) गृहस्थ आश्रम को प्राप्त हो । वा ( वर्तिः परियाति ) वेदि में फेरे फिरे, परिक्रमा करे । ( उपसः ) प्रभात वेला के समान कान्तिमती, कन्या की ( व्युष्टौ ) विशेष विवाह की कामना होने पर ( तेन ) उस पुरुष से ही ( नः ) हमें ( शं योः ) शान्ति सुख और दुःख का नाश हो । हे ( अश्विना ) उत्तम जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! ( अस्मिन् यज्ञे ) इस यज्ञ में, अर्थात् परस्पर की संगति और

दान-प्रतिदानमयं सद्-व्यवहार में आप दोनों ( नि वहतम् ) निश्चय से एक दूसरे का भार अपने ऊपर धारण करो और विवाहित होकर रहो ।

नरा गौरैव विद्युतं तृषाणास्माकमद्य सवनोप यातम् ।

पुरुत्रा हि वां मतिभिर्हवन्ते मा वामन्ये नि यमन्देवयन्तः ॥६॥

भा०—(गौरा इव तृषाणा सवना) जिस प्रकार प्यासे दो मृग जलों को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार हे ( नरा ) स्त्री पुरुषो ! हे नर नारी जनो ! ( अस्माकं ) हम में से ( गौरा ) विद्या वाणी में निष्णात होकर ( विद्युतम् उप यातम् ) विशेष कान्ति को प्राप्त करो और ( तृषाणा ) कामनावान् या अत्युत्सुक होकर ( अद्य ) आज ( सवना ) यज्ञों, ऐश्वर्यों और पुत्र प्रसवादि गृह्योचित कार्यों को ( उप यातम् ) प्राप्त होओ । विद्वान् पुरुष ( वां ) आप दोनों को ( पुरुत्रा ) बहुत से कार्यों में ( हवन्ते हि ) स्तुति करते हैं । ( अन्ये ) दूसरे विपरीत भाव वाले शत्रुजन ( देवयन्तः ) द्यूतक्रीड़ा या व्यवहार करते हुए ( वाम् मा नियमन् ) आप दोनों को न बांध लें, न फंसालें ।

युवं भुज्युमवविद्धं समुद्र उदूहथुरणसो अस्त्रिधानैः ।

पतत्रिभिरश्मैरव्यथिभिर्दिसनाभिरश्विना पारयन्ता ॥ ७ ॥

भा०—( समुद्रे अवविद्धं भुज्युम् यथा अश्विना अस्त्रिधानैः पतत्रिभिः अर्णसः पारयतः ) समुद्र में फंसे नाना भोग्य ऐश्वर्य की कामना करने वाले व्यापारी को जिस प्रकार वेगयुक्त नौका यन्त्रादि के अध्यक्ष जन पतवारों से जल से पार करते हैं उसी प्रकार हे ( अश्विना ) उत्तम जितेन्द्रिय एवं अश्व अर्थात् विद्यापारंगत आचार्य के उत्तम शिष्यो ! एवं ( अश्विना ) रथी सारथिवत् एक ही गृहस्थ रथ में स्थित ( युवम् ) आप दोनों ( समुद्रे अवविद्धं ) उत्तम उत्साह युक्त कामनामय समुद्र में अपीडित, ( भुज्युम् ) एक दूसरे की भुजा का अवलम्बन चाहने वाले या

सांसारिक भोग वा संसार में रक्षा चाहने वाले सहचर को (अर्णसः) पितृ-  
ऋण से (अस्त्रिधानैः) नाश न होने वाले और (अश्रमैः) न थकने वाले,  
(अव्यथिभिः) कभी पीड़ित न होने और अन्यों को पीड़ा न देने वाले  
(पतत्रिभिः) गमन करने योग्य तीन आश्रमों से और (दंसनाभिः) उत्तम  
कर्मों से (पारयन्ता) पार करते हुए (उत् ऊहथुः) उत्तम मार्ग से  
ले जाओ ।

नू मे ह्रवमा शृणुतं युवाना यासिष्टं वर्तिरश्विनाविरावत् ।

धृत्तं रत्नानि जरतं च सुंरीन्युयं पति स्वस्तिभिः सदा नः ८।१६

भा०—व्याख्या देखो सू० ६७ । मन्त्र १० ॥ इति पांडशो वर्गः ॥

[ ७० ]

वासिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, ३, ४, ६ निचृत् त्रिष्टुप् ।

२, ५, ७ विराट् त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्चं सूक्तम् ॥

आ विश्ववाराश्विना गतं नः प्र तत्स्थानमवाचि वां पृथिव्याम् ।  
अश्वो न वाजी शुनपृष्ठो अस्थादा यत्सेदथुर्ध्रुवसे न योनिम् ॥१॥

भा०—गृहाश्रम की श्रेष्ठता । हे ( विश्ववारा अश्विना ) सबसे वरण  
करने योग्य उत्तम जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप दोनों ( नः ) हमें (आगतम्)  
प्राप्त होओ । ( वां ) आप दोनों का ( पृथिव्याम् ) पृथिवी पर ( तत्स्था-  
नम् ) वह स्थान, गृहस्थाश्रम ( प्र अवाचि ) बड़ा उत्तम कहा जाता है,  
( यत् ) जिसमें ( वाजी ) बलवान् पुरुष ( शुन-पृष्ठः ) सुखप्रद पीठ  
वाले अश्व के समान (शुन-पृष्ठः) समस्त सुखों का आश्रय होकर (अस्थात्)  
रहता है और आप दोनों पति पत्नी भी ( ध्रुवसे ) स्थिर होकर रहने के  
लिये ( योनिम् सेदथुः ) एक ही गृह में विराजते हो ।

सिषांकि सा वां सुमतिश्चानिष्ठातापि घर्मां मनुषो दुरोणे ।

यो वां समुद्रान्तरितः पिपत्येतग्वा चिन्न सुयुजा युजानः ॥२॥

भा०—( दुरोणे धर्मः ) जहां तक कोई व्यक्ति बढ़ नहीं सकता ऐसे ऊंचे आकाश देश में तेजस्वी सूर्य के समान ( मनुषः ) मनुष्य ( दुरोणे ) घर में और राजा राज्य वा राष्ट्र में उच्चपद पर विराज कर (अतापि) खूब तप करे । इसी प्रकार ब्रह्मचारी ( धर्मः ) ज्ञान जल से सिक्त होकर, स्नातक होकर ( मनुषः दुरोणे ) मननशील आचार्य के गुरु-गृह में अग्नि के समान ( अतापि ) तप करे । राजा राष्ट्र में उच्चपद पर विराज कर सूर्यवत् तपे और दुष्टों को पीड़ित करे और उस समय ( वां ) तुम दोनों को ( चनिष्ठा ) अति श्रेष्ठ व गुरुवचनमय (सुमतिः) शुभमति (सिपक्ति) अवश्य प्राप्त हो । ( एतद्वा वित् ) अश्व के समान एक गृहस्थ रथ में नियुक्त आप दोनों ( सुयुजा ) उत्तम सहयोगी जनों को (युजानः) जोड़ता हुआ, सत्कर्म में नियुक्त करता हुआ ( यः ) जो (समुद्रान् सरितः) समुद्रों को नदियों के समान, वा नदी समुद्रों को मेघ के समान ( पिपत्ति ) पूर्ण करे वह उत्तम ज्ञानी गुरुजन सूर्यवत् तेजस्वी हो ।

यान्ति स्थानान्यश्विना दधार्थे दिवो यद्द्वीष्वोषधीषु विन्तु ।  
नि पर्वतस्य मूर्धनि सदन्तेषु जनाय दाशुपे वहन्ता ॥ ३ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) उत्तम अश्वों के स्वामी, एवं इन्द्रियों के स्वामी, उत्तम स्त्री पुरुषो ! ( दिवः ओषधीषु ) सूर्य के ताप को धारण करने वाली ( विक्षु ) प्रजाओं में दिन रात्रि के समान आप दोनों भी ( दिवः ) इस पृथिवी के ( यद्द्वीषु ) बड़ी २ ( ओषधीषु ) ताप, शत्रु संतापक तेज को धारण करने वाली सेनाओं और ( यद्द्वीषु विक्षु ) 'यहु' अर्थात् सन्तानवत् पालन करने योग्य प्रजाओं के बीच में ( यानि ) जितने भी ( स्थानानि ) मान आदर के पद हैं उन सब पदों पर आप लोग ( पर्वतस्य मूर्धनि ) पर्वत के शिरोभाग पर सूर्यवत् तेजस्वी होकर (सदन्ता) विराजते हुए, ( दाशुपे जनाय ) करादि व वस्त्र भूषणादि दे देने वाले ( जनाय ) प्रजाजन की वृद्धि के लिये ( वहन्ता ) कार्य भार को अपने

कन्धों पर लेते हुए ( दधथे ) धारण करो । (२) इसी प्रकार युवा युवति भी तेजस्वी प्रजाओं में उत्तम स्थान प्राप्त करें, वे प्रजा की उत्पत्ति के लिये विवाह करें ।

चनिष्टं देवा ओषधीष्वप्सु यद्योग्या अश्रवैथे ऋषीणाम् ।

पुरूणि रत्ना दधतौ न्यस्मे अनु पूर्वाणि चख्यथुर्युगानि ॥४॥

भा०—हे ( देवा ) विद्वान् व्यवहारज्ञ, एवं परस्पर के इच्छुक तेजस्वी स्त्री पुरुषो ! ( ओषधीषु ) ओषधियों में और ( अप्सु ) जलों में भी ( यत् ) जो ओषधियां और जलवत् द्रव पदार्थ, ( ऋषीणांयोग्या ) मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के वा प्राणों के पोषण योग्य हों उनकी ही आप दोनों ( चनिष्टं ) कामना किया करो और उनको ही ( अश्रवैथे ) प्राप्त कर खाया पिया करो । आप दोनों ( पुरूणि रत्ना ) बहुत से रत्न और रम्य गुणों को ( दधतौ ) धारण करते हुए ( अस्मे ) हमारे आगे ( पूर्वाणि ) पूर्व के प्रसिद्ध ( युगानि ) पति पत्नी के अनुकरणीय जोड़े का ( अनु ) अनुकरण करके ( नि चख्यथुः ) आदर्श रूप से होकर बतलाओ ।

शुश्रुवांसा चिदश्विना पुरुरयभि ब्रह्माणि चक्षाथे ऋषीणाम् ।

प्रति प्र यातं वरमा जनायास्मे वामस्तु सुमतिश्चनिष्टा ॥ ५ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुष, युगल जनो ! आप दोनों ( चित् ) ही ( ऋषीणां ) मन्त्रों का साक्षात् दर्शन करने वाले विद्वान् पुरुषों के साक्षात् किये हुए ( पुरूणि ) बहुत से ( ब्रह्माणि ) वेद मन्त्रों को ( शुश्रुवांसा ) श्रवण मनन करते हुए ( अभि चक्षाथे ) उनके तत्त्व ज्ञान का साक्षात् अनुभव प्राप्त किया करो । आप लोग ( जनाय ) मनुष्य मात्र के उपकार के लिये ( वरम् ) उत्तम उद्देश्य को ( प्रति यातम् ) लक्ष्य करके चलो । ( वरम् प्र यातम् ) उत्तम ज्ञान और उत्तम फल प्राप्त करो, ( वरम् आ यातम् ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष और स्थान को ही

आओ । ( अस्मे ) हमारे उपकार के लिये ( वाम् ) आप दोनों की ( चनिष्ठा ) अति उत्तम, प्रशंसनीय ( सुमतिः अस्तु ) शुभमति हो ।

यो वां यज्ञो नासत्या हविष्मान्कृतब्रह्मा समर्थो भवति ।

उप प्र याति वरमा वसिष्ठसिमा ब्रह्माण्यृच्यन्ते युवभ्याम् ॥ ६ ॥

भा०—हे ( नासत्या ) कभी असत्याचरण न करने वाले, सदा सत्य व्यवहार के पालक और नासिकावत् मुख्य स्थान पर विराजमान स्त्री पुरुषो ! ( यः ) जो ( यज्ञः ) पूजा सत्संग-योग्य ( हविष्मान् ) उत्तम ज्ञान अन्न से सम्पन्न ( कृत-ब्रह्मा ) वेदाध्ययन में कृतश्रम और धनादि में समृद्ध ( वां ) आप दोनों के प्रति ( समर्थः ) नाना पुरुषों सहित ( भवति ) होता है आप दोनों ऐसे ( वरम् ) वरण करने योग्य ( वसिष्ठं ) सर्वोत्तम 'वसु', विद्वान् वा राजा को ( उप आ यातम् ) प्राप्त होओ, उसके पास और उसी के गृह पर आया जाया करो । हे स्त्री पुरुषो ! ( युवभ्याम् ) आप दोनों के हितार्थ ही ( इमा ब्रह्माणि ) ये नाना वेदोक्त ज्ञान, अन्न नाना धन ( ऋच्यन्ते ) ऋचाओं के रूप में प्रकट होते हैं, आदरपूर्वक प्रस्तुत किये जाते हैं ।

इयं मनीषा इयमश्विना गीरिमां सुवृक्तिं वृषणा जुषेथाम् ।

इमा ब्रह्माणि युवयून्यग्मन्युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ७।१७।४

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! ( इयं ) यह ( मनीषा ) मन की उत्तम इच्छा, बुद्धि और ( इयं गीः ) यह उत्तम वाणी है । आप दोनों ( इमां ) इस ( सु-वृक्तिं ) उत्तम स्तुति उपदेश योग्य वाणी को ( वृषणा ) बलवान् होकर ( जुषेथाम् ) प्रेम से सेवन करें । ( इमा ब्रह्माणि ) ये वेद-वचन, धन और अन्न ( युवयूनि ) आप दोनों के ही हितार्थ हैं । ( यूयं ) हे विद्वान् लोगो ! आप सब लोग ( स्वस्तिभिः नः सदा पात ) उत्तम २ साधनों से हमारी रक्षा किया करो । इति सप्तदशं सूक्तम् ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

[ ७१ ]

वासिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, ५ त्रिष्टुप् । २, ३, ४, ६  
विराट् त्रिष्टुप् ॥ पठुचं सूक्तम् ॥

अप स्वसुरूपसो नग्जिहीते रिणक्ति कृष्णीररूपाय पन्थाम् ।  
अश्वामघा गोमघा वां हुवेम दिवा नक्तं शरुमस्मद्युयोतम् ॥१॥

भा०—(नक् उपसः अप जिहीते) जिस प्रकार उपाकाल से रात्रि दृढ कर दूर चली जाती है उसी प्रकार (उपसः) प्रभात वेला के तुल्य कान्ति-युक्त पति की याचना करने वाली (स्वसुः = स्व-सुः) स्वयं अपने वरण योग्य पति को प्राप्त करने वाली वरवर्णिनी कन्या से (नक्) उससे सम्बन्धी जन उसके माता पिता भाई आदि (अप जिहीते) दूर होजाते हैं । वह माता पिता से छूटकर पति की होकर रहती है । (कृष्णीः) कृष्णवर्णा रात्रि जिस प्रकार (अरूपाय पन्थाम् ऋणक्ति) तेजस्वी सूर्य के लिये मार्ग छोड़ती और आप नष्ट होजाती है उसी प्रकार (कृष्णीः) हृदय को आकर्षण करने वाली मनोरमा स्त्री (अरूपाय) तेजस्वी, पुरुष के लाभ के लिये ही (पन्थाम्) मार्ग (रिणक्ति) रिक्त करती है । आप आगे २ चलती और पीछे पति को लेकर चलती है । हे स्त्री पुरुषो ! हे (अश्वामघा गोमघा) अश्वों और गौओं आदि धन से समृद्ध स्त्री पुरुषो ! हम लोग (वाम् हुवेम) आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग (अस्मत्) हमसे (शरुम्) हिंसाकारी को (युयोतम्) दूर करो ।

उपायातं दाशुपे मर्त्याय रथेन वाममश्विना वहन्ता ।  
युयुतमस्मदनिराममीवां दिवा नक्तं माध्वी त्रासीथां नः ॥ २ ॥

भा०—हे (अश्विना) विद्वान् स्त्री पुरुषो ! वा विद्वान् अध्यापक और आचारशिक्षक गुरुजनो ! आप लोग (दाशुपे मर्त्याय) अपने को आप लोगों के प्रति समर्पण कर देने वाले के हितार्थ (उप आयातम्)

समीप आइये और ( रथेन वामम् वहन्ता ) रथ या गाड़ी आदि साधन से जिस प्रकार उत्तम धन सम्पदा लाई जाती है उसी प्रकार आप लोग ( रथेन ) उत्तम उपदेश से ( वामम् ) सुन्दर श्रवण करने योग्य ज्ञान को ( वहन्ता ) प्राप्त कराते हुए ( अस्मत् ) हमसे ( अनिराम् ) अन्नादि के दारिद्र्य, ( अनिराम् ) 'इरा' अर्थात् विद्योपदेशमय वाणी के अभाव को तथा ( अयीवाम् ) रोग-दुःखजनक दशा को ( युयुतम् ) दूर करो । और ( दिवानक्तम् ) दिन और रात ( माध्वी ) सदा मधुर प्रसन्न चित्त रहकर वा 'मधु' अन्न जल वा ज्ञान से युक्त होकर ( नः त्रासीथाम् ) हमारी रक्षा करो ।

आ वां रथमवमस्यां व्युष्टौ सुम्नायवो वृषणो वर्तयन्तु ।

स्यूमगभस्तिमृत्युग्भिर्श्वैराश्विना वसुमन्तं वहेथाम् ॥ ३ ॥

भा०—जिस प्रकार रथ को बलवान् अश्व चलाते हैं और ( ऋत-युग्भिः अश्वैः स्यूमगभस्ति, वसुमन्तं रथं वहन्ति ) ज्ञान पूर्वक लगे अश्वों से, सिली रासों वाले और धनादि सम्पन्न रथको लेजाते हैं उसी प्रकार हे ( अश्विना ) विद्या में व्यापक विद्वान् स्त्री पुरुषों के स्वामी जनो ! ( वां ) आप दोनों के ( रथं ) रमणीय गृहस्थोचित कर्त्तव्य तथा उपदेश आदि को ( अवम-स्यां व्युष्टौ ) आगामी समीपतम प्रभात वेला में ( सुम्नायवः ) सुखा-भिलाषी ( वृषणः ) बलवान् पुरुष ( वर्तयन्तु ) सम्पादित करें । और आप दोनों अपने ( स्यूम-गभस्तिम् ) सुखकारी रश्मियों या रासों से युक्त, सुप्रबद्ध ( वसुमन्तं रथं ) उत्तम बसने वाले वा वसु ब्रह्मचारियों से वा सुखैश्वर्य से युक्त इस गृहस्थाश्रम रूप रथ को ( ऋतयुग्भिः ) सत्य के बल से जुड़े हुए, ( अश्वैः ) विद्वानों की सहायता से ( वहेथाम् ) धारण करो, सन्मार्ग पर ले चलो ।

यो वां रथो नृपती अस्ति वोळ्हात्रिवन्धुरो वसुमाँ उस्त्रयामा ।

आ न एना नास्त्योप यातमभि यद्वा विश्वेप्सन्त्या जिगाति ॥४॥



भा०—हे ( नृपती ) मनुष्य पति पत्नी ! विवाहित स्त्री पुरुषो ! जिस प्रकार (रथः वोढा, त्रि-वन्धुरः) रथ अपने में मनुष्यों को उठाकर लेजाने से 'वोढा' और तीन दण्डों से बने पीढ़े से युक्त होता है, उसी प्रकार ( यः ) जो पुरुष ( वां ) आप दोनों में से ( रथः ) रम्यस्वभाव का वा स्थिर होकर ( वोढा ) गृहस्थ के भार सहन करने वाला, विवाह करने हारा ( त्रि-वन्धुरः ) तीन ऋणों से बद्ध, ( वसु-मान् ) ऐश्वर्यवान्, ( उच्च-यामा ) सूर्यवत् तेजस्वी होकर जाने हारा है और ( यत् वां ) जो तुम दोनों में से ( विश्व-प्स्यः ) विशेष उत्तम रूपवान् होकर (अधि जिगाति) प्राप्त होता है हे (नासत्या) कभी असत्य धारण न करने हारे स्त्री पुरुषो ! ( एना ) उस व्यक्ति के बल से ही ( नः आ उपयातम् ) हमें प्राप्त होओ । युवं च्यवानं जरसोऽमुमुक्तं नि पेदवे ऊहथुराशुमश्वम् ।

निरहंसस्तमसः स्पर्त्मत्रि नि जाहुषं शिथिरे धातसन्तः ॥ ५ ॥

भा०—हे विद्वान् जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! हे ( अश्विना ) अश्ववत् वेग युक्त रथों, अश्वों, वाहनों और विद्यावान् पुरुषों के स्वामी जनो ! सभा-सेनापतियो ! ( युवं ) आप दोनों ( च्यवानं ) सन्मार्ग से जाने वाले पुरुष को ( जरसः ) वृद्धावस्था वा आयु के नाश से ( अमुमुक्तम् ) दूर करो । ( पेदवे ) दूर देश में जाने वाले के लिये ( आशुम् अश्वम् ) शीघ्र-गामी अश्ववत् दूरयात्री साधन को ( नि ऊहथुः ) निरन्तर चलाओ । और ( अत्रिम् ) तीनों प्रकार के दोषों से रहित वा इस लोक में विद्यमान पुरुष को ( अंहसः ) पाप और ( तमसः ) अज्ञान अन्धकार से ( निः स्पर्त्म ) पार करो, ( जाहुषम् ) त्यागी निःसंग, निस्वार्थी पुरुष को ( शिथिरे ) शिथिल राष्ट्र में ( अन्तः नि धातम् ) भीतर के केन्द्र स्थान पर नियुक्त करो ।

इयं मनीषा इयमश्विना गीरिमां सुवृक्तिं वृषणां जुषेथाम् ।  
इमा ब्रह्माणि युवयून्यग्मन्युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः । ६।१८।।

भा०—व्याख्या देखो सू० ७० । मं० ७ ॥ इत्यष्टादशो वर्गः ॥

[ ७२ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, २, ३, ४ निचृत् त्रिष्टुप् ।

५ विराट् त्रिष्टुप् ॥ पञ्चमं सूक्तम् ॥

आ गोमता नासत्या रथेनाश्ववता पुरुश्चन्द्रेण यातम् ।

अभि वां विश्वा नियुतः सचन्ते स्पार्हया श्रिया तन्वा शुभाना १

भा०—हे विद्वान् स्त्री पुरुषो ! हे ( नासत्या ) नासिकावत् प्रमुख स्थान पर विराजने वाले प्रतिष्ठित जनो ! आप दोनों ( गोमता ) उत्तम वैलों वाले वा ( अश्ववता रथेन ) घोड़ों वाले (पुरु-चन्द्रेण) बहुत धनादि सम्पन्न वा बहुतों को आह्लादित करने वाले (रथेन) रथ से ( आ यातम् ), आओ । ( विश्वा नियुतः ) सब उत्तम प्रजाएं, सेनाएं वा नियुक्त भृत्यादि प्रजाएं ( वाम् अभि सचन्ते ) आप दोनों की ही, सेवा करती हैं । आप दोनों ( स्पार्हया ) स्पृहा करने योग्य, मनोहर ( श्रिया ) शोभा से और (तन्वा) उत्तम स्वस्थ शरीर से (शुभाना) शोभित होकर हमें प्राप्त होओ ।  
आ नो देवेभिरुप यातमर्वाक्सजोपसा नासत्या रथेन ।

युवोर्हि नः सख्या पित्र्याणि समानो वन्धुरुत तस्य वित्तम् ॥२॥

भा०—हे ( नासत्या ) असत्याचरण न करने हारे विद्वान् और तेजस्वी स्त्री पुरुषो ! आप लोग ( देवेभिः ) विद्वान् पुरुषों के साथ और ( स-जोपसा ) प्रीति से सेवने योग्य ( रथेन ) रथ से, वा स्थिर, रम्य व्यवहार से (नः आयातम्) हमें प्राप्त होओ । (युवोः हि नः) आप दोनों के (पित्र्याणि सख्या) पिता पितामहादि से चले आये सौहार्द भाव हमारे साथ बने रहें । ( युवोः नः वन्धुः समानः ) हमारे और तुम्हारे वन्धु भी समान हों ( उत ) और आप दोनों ( तस्य ) उस वन्धु को ( वित्तम् ) भली प्रकार जानें ।

उदु स्तोमासो अश्विनोरबुधञ्जामि ब्रह्मारायुषसश्च देवीः ।

आविवासन्नोदसी धिष्ण्येमे अच्छा विप्रो नासत्या विवक्ति ॥३॥

भा०—( स्तोमासः ) वेद के सूक्त और ( अश्विनोः स्तोमासः ) विद्वान् स्त्रियों पुरुषों वा अध्यापक उपदेशकों के स्तुत्य उपदेश और ( ब्रह्माणि ) वेद के मन्त्रगण ( जामि ) बन्धुवत् ( उपसः ) उत्तम ज्योति या प्रकाश से युक्त ( देवीः ) दानशील, विद्याभिलाषी प्रजाओं का भी ( उत्-अबुधन् ) उत्तम रूप से प्रबुद्ध करें, सबको ज्ञान युक्त करें । ( विप्रः ) विद्वान् पुरुष ( नासत्या अच्छ ) प्रमुख, सदा सत्याश्रयी स्त्री पुरुषों की ( आविवासन् ) सेवा करता हुआ ( इमे ) इन दोनों को ( रोदसी ) सूर्य चन्द्रवत्, माता पितावत् ( विवक्ति ) बतलाता है और इनको ही वह ( धिष्ण्ये ) उत्तम बुद्धि युक्त, स्तुत्य और पूज्य आसन के योग्य भी ( विवक्ति ) कहता है ।

वि चेदुच्छन्त्याश्विना उपासः प्र वां ब्रह्माणि कारवो भरन्ते ।

ऊर्ध्वं भानुं सविता देवो अश्रेद् बृहद्ग्रयः समिधा जरन्ते ॥४॥

भा०—हे ( अश्विना ) विद्वान् स्त्री पुरुषो ! ( चेत् ) जिस प्रकार ( उपासः ) प्रभात वेलाएं ( वि उच्छन्ति ) विशेष रूप से प्रकाश करें तब ( कारवः ) स्तुतियों के करने वाले विद्वान् जन ( ब्रह्माणि ) उत्तम २ स्तुति मन्त्रों का ( प्र भरन्ते ) उच्चारण करते हैं और जब ( सविता देवः ) प्रकाशमान सूर्य ( ऊर्ध्वं ) ऊपर ( भानुम् अश्रेत् ) कान्ति धारण करे तो ( अग्रयः ) यज्ञाग्नियें ( समिधा ) उत्तम समिधा सहित होकर ( बृहत् ) अच्छी प्रकार ( जरन्ते ) स्तुति को प्राप्त होते हैं, यज्ञ किये जाते हैं उसी प्रकार जब ( उपसः ) कमनीय कान्ति से एवं गृहस्थ कामना से युक्त विदुषी स्त्रियें और प्रजाएं ( वि उच्छन्ति ) विविध प्रकार की अभिलाषाएं प्रकट करती हैं तब ( कारवः ) विद्वान् पुरुष और उत्तम शिल्पी जन

( वां ) वर वधू एवं राजा रानी दोनों का लक्ष्य कर ( ब्रह्माणि ) वेद मन्त्रों और नाना ऐश्वर्यों को ( प्र जरन्ते ) प्रकट करें । ( देवः सविता ) उन दोनों में से दानशील, ऐश्वर्यवान् पुरुष ही ( ऊर्ध्वमानुं ) सर्वोपरि कान्ति को ( अश्रेत् ) धारण करता है और ( अग्नयः ) तेजस्वी अग्निवत् विद्वान् जन ( समिधा ) अति तेज से ( बृहत् ) वृद्धिकारी, आशीर्वाद आदि वचन का ( जरन्ते ) उपदेश करते हैं ।

आ पश्चातात्नासृत्या पुरस्तादाश्विनायातमधुरादुदक्तात् ।

आ विश्वतः पाञ्चजन्येन राया यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ५।१९

भा०—हे ( नासत्या ) कभी असत्य व्यवहार न करने हारे, सत्पुरुषों के हित के विरुद्ध कभी न करने वाले जनो ! ( पश्चातात् पुरस्तात् अधरात् उदक्तात् ) पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण से भी आप लोग ( पाञ्चजन्येन राया ) पांचों जनों के हितकारी धन सहित ( विश्वतः आ यातम् ) सभी ओर से आया जाया करो । ( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात ) हे विद्वान् जनो ! आप लोग हमें उत्तम साधनों से रक्षा करो । इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

[ ७३ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ अभिनौ देवते ॥ छन्दः—१, ५ विराट् त्रिष्टुप् । २, ३, ४ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ पञ्चमं सूक्तम् ॥

अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति स्तोमं देवयन्तो दधानाः ।

पुरुदंसा पुरुतमा पुराजामर्त्या हवते अश्विना गीः ॥ १ ॥

भा०—हम लोग ( देवयन्तः ) उत्तम विद्वानों और शुभ गुणों को अपनाना चाहते हुए और ( स्तोमं ) स्तुति और स्तुत्य कार्य को ( प्रति दधानाः ) प्रत्येक दिन धारण करते हुए ( अस्य ) इस ( तमसः )

अज्ञान और दुःख के ( पारम् अतारिष्म ) पार हो जायें। हे ( अश्विना )  
उत्तम जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! ( गीः ) उत्तम विद्वान् पुरुष ( पुरुदंसा )  
बहुत से उत्तम कर्मों को करने वाले, ( पुरु-तमा ) बहुतों में उत्तम, ( पुरु-जा )  
सब के आगे अग्रणीवत् चलने वाले, ( अमर्त्या ) साधारण मनुष्यों से विशेष  
आप दोनों की ( हवते ) प्रशंसा करता है।

न्यु प्रियो मनुषः सादि हाता नासत्या यो यजते वन्दते च ।  
अश्नीतं मध्वो अश्विना उपाक आ वां वोचे विदथेपु प्रयस्वान् २

भा०—हे ( नासत्या ) प्रमुख, सत्यनिष्ठ, ( अश्विना ) जितेन्द्रिय  
स्त्री पुरुषो ! ( यः ) जो ( प्रियः ) प्रिय ( मनुषः ) मननशील, ( होता )  
ज्ञान का देने वाला, पुरुष ( यजते ) यज्ञ करता, ( वन्दते च ) भगवान्  
की स्तुति करता या ज्ञान देता, सत्संग करता और प्रणाम और उपदेशादि  
करता है और जो ( विदथेपु ) यज्ञों और संग्रामों में ( प्रयस्वान् )  
प्रयत्नशील होकर ( वाम् आ वोचे ) तुम दोनों की अभ्यर्थना करता है आप  
उसके ( उपाके ) समीप ( मध्वः अश्नीतं ) मधु, ज्ञान और अन्नादि  
प्राप्त करो।

अहेम यज्ञं पथामुराणा इमां सुवृक्तिं वृषणा जुषेथाम् ।

श्रुष्टीवेव प्रेषितो वामवोधि प्रति स्तोमैर्जरमाणो वसिष्ठः ॥ ३ ॥

भा०—हम लोग ( यज्ञम् उराणाः ) बहुत २ यज्ञ करते हुए ( पथा )  
अपने जीवन के मार्ग की ( अहेम ) वृद्धि करें। हे ( वृषणा ) बलवान्  
स्त्री पुरुषो ! आप लोग इस ( सुवृक्तिम् ) सुखदायिनी सुमति का ( जुषे-  
था ) प्रेम पूर्वक सेवन करो। ( जरमाणः वसिष्ठः ) उपदेश करने हारा  
सर्वोत्तम वसु, पूर्ण ब्रह्मचारी विद्वान् पुरुष ( स्तोमैः ) नाना उपदेश योग्य  
वचनों से ( प्रेषितः श्रुष्टीवा इव ) भेजे दूत के समान, ( प्रेषितः ) उत्तम  
इच्छा से युक्त ( श्रुष्टीवा ) श्रुति वचनों का ज्ञाता होकर ( वाम् प्रति अबोधि )  
आप दोनों को ज्ञानवान् करे।

उप त्या वही गमतो विशं नो रक्षोहणा सम्भृता वीळुपाणी ।  
समन्धास्यग्मत मत्सराणि मा नो मधिष्टमा गतं शिवेन ॥ ४ ॥

भा०—हे विद्वान् स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( रक्षोहणा ) विघ्नकारी द्रुष्ट पुरुषों का नाश करने वाले, (संभृता) अच्छी प्रकार परिपुष्ट; (वीळुपाणी) बलवान् हाथों वाले होकर ( त्या ) वे दोनों आप ( वही ) कार्य-भार को वा, गृहस्थ को अच्छी प्रकार उठाने में अश्वों के समान दृढ़, अग्नि्यों के समान तेजस्वी होकर एवं विवाहित होकर ( नः विशं उप गमतः ) हमारे प्रजा वर्ग में प्राप्त होवो । ( नः ) हमारे ( मत्सराणि ) उत्तम, वृत्तिकारक (अन्धांसि) अश्वों को ( सम अग्मत ) प्रेमपूर्वक मिलकर प्राप्त करो । ( शिवेन ) कल्याणकारक, सुखप्रद रूप से ( नः आगतं ) हमें प्राप्त होवो, ( नः मा मधिष्टं ) हमें पीड़ा मत दो ।

आ पश्चात्तान्नास्त्या पुरस्तादाश्विना यातमधरादुदक्तात् । आ विश्वतः पाञ्चजन्येन राया यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः ॥५॥२०

भा०—ज्याख्या देखो सू० ७२।मं० ५ ॥ इति विशो वर्गः ॥

[ ७४ ]

वासिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, ३ निचृद् वृहती । २, ४, ६

आर्षी मुरिन् वृहती । ५ आर्षी वृहती ॥ पठृच् सक्तन् ॥

इमा उ वां दिविष्टय उच्चा हवन्ते अश्विना ।

श्रयं वामहेऽवसे शचीवसु विशंविशं हि गच्छथः ॥ १ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) उत्तम अश्वों, अश्व-अर्थात् राष्ट्र, और अश्वदि-सैन्य के स्वामी, सेनापति सभापति जनो, राजदम्पति युगल ! आप दोनों ( उच्चा ) उत्तम पदार्थों को देने वाले, ऊर्ध्व पदकी ओर जाने वाले, एवं गृह और राष्ट्र में त्वर्य बसाने और अन्यो को बसाने वाले, तेजस्वी ( वां ) आप दोनों को ( इमा दिविष्टयः ) उत्तम ज्ञान, व्यवहार और कान्तिचाहने

वाली प्रजाएं ( हवन्ते ) बुलाती हैं । और ( अयं ) यह विद्वान् वर्ग भी हे ( शचीवसू ) शक्ति और वाणी के धनी युगलो ! ( वां ) आप दोनों को ( अवसे ) रक्षा और ज्ञान के लिये ( अहे ) पुकारता और प्रार्थना करता है, आप दोनों ( विशं विशं हि ) प्रत्येक प्रजावर्ग में ( गच्छथः ) जाया करो ।

युवं चित्रं ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां सूनृतावते ।

अर्वाग्रथं समनसा नियच्छतं पिवतं सोम्यं मधु ॥ २ ॥

भा०—हे ( नरा ) उत्तम नायक जनो, उत्तम स्त्री पुरुषो ! ( युवं ) आप दोनों ( सूनृतावते ) उत्तम सत्य वाणी, और अन्नसम्पत्ति से युक्त मनुष्य के हितार्थ ( चित्रं ) अद्भुत, आश्चर्यकारक, और नाना प्रकार का ( भोजनं ) पालन करने का सामर्थ्य और भोगयोग्य उत्तम ऐश्वर्य ( ददथुः ) प्रदान करो, और ( अर्वाक् रथं चोदेथां ) अपने रमणीय व्यवहार, उत्तम उपदेशको रथ के समान आगे प्रेरित करो, उसको ( समनसा नियच्छतम् ) परस्पर एक चित्त होकर नियम में रक्खो और एक दूसरे के प्रति प्रदान करो । और ( सोम्यं मधु ) 'सोम' अर्थात् ओषधिरस से मिले मधु के समान अति गुणकारी, रोगनाशक, अन्न के समान पुष्टिकारक, (सोम्यं मधु) सोम अर्थात् राजपद के योग्य, ऐश्वर्यान्तरूप मधुर भोगों तथा सोम जीव, वा प्रभु के 'सोम' प्राण, वीर्य, 'सोम' पुत्र शिष्यादितदन्तरूप मधुर सुख का ( पिवतम् ) उपभोग करो और अन्यो को भी उस सुख का अनुभव कराओ ।

आ यातमुप भूषतं मध्वः पिवतमश्विना ।

दुग्धं पयो वृषणा जेन्यावसू मा नो मर्धिष्टमा गतम् ॥ ३ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! हे उत्तम नायको ! हे ( जेन्यावसू ) बसने वाले अन्य सब प्रजा वर्गों, गृहस्थों और ऐश्वर्यों, समीप बसने वाले शिष्यों, पर विजय करने वाले, उन सब से उत्कृष्ट आप

लोग ( आ यातम् ) आदर पूर्वक आइये । ( उप भूपतम् ) समीप होइये, विराजिये ( मध्वः पिवतं ) गुरु-गृह में मधुमय ज्ञानरस, वेद को, ( दुग्धं पयः ) दुहे हुए पुष्टिकारक दूध के समान ( पिवतम् ) पान करिये । हे ( वृषणा ) मेघ के समान ज्ञान-सुखों की वर्षा करने वालों, हे बलवान् पुरुषो ! ( नः मा मर्षिष्टम् ) हमारा नाश न करो, हमें मत मारो ।

अश्वसो ये वामुप दाशुपो गृहं युवां दीयन्ति विभ्रतः ।  
मनुयुभिर्नरा हर्यभिरश्विना देवा यातमस्म्यू ॥ ४ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) उत्तम अश्वों, इन्द्रियों और विद्वानों के स्वामी जनो ! हे ( नरा ) नायकवत् स्त्री पुरुषवर्गों ! ( ये ) जो ( वाम् ) आप लोगों के ( अश्वासः ) अश्व, वेग से जाने वाले साधन वा विद्यावान् पुरुष ( युवां विभ्रतः ) आप दोनों को धारण करते हुए, ( दाशुपः गृहं ) उस देने वाले प्रभु के घर तक ( दीयन्ति ) पहुंचा देते हैं उनही ( मक्षूयुभिः हवेभिः ) शीघ्रकारी अश्वों, साधनों वा विद्वानों से हे ( देवा ) स्त्री पुरुषो ! हे ( नरा ) नायक जनो ! आप ( अस्म्यू ) हमें चाहते हुए ( यातम् ) आओ जाओ, जीवन यात्रा करो ।

अर्धा ह यन्तो अश्विना पृक्षः सचन्त सूरयः ।

ता यसतो मधवद्भ्यो ध्रुवं यशश्छर्दिस्मभ्यं नासत्या ॥ ५ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) रथी सारथिवत् एक आश्रम रूप रथ पर स्थित, आचार्य शिष्य, स्त्री पुरुष तथा विद्वान् और सामान्य जनो ! ( अध ह ) निश्चय से ( यन्तः सूरयः ) जाते हुए, आगे बढ़ते हुए, विद्वान्, परित्राजक जन ( पृक्षः सचन्त ) सर्वत्र अन्न और स्नेह सम्पर्क को प्राप्त करते हैं । हे ( नासत्या ) सत्पुरुषों के प्रति कभी असत्य, असभ्य व्यवहार न करने वाले जनो ! ( ता ) वे आप दोनों ( अस्मभ्यम् मधवद्भ्यः ) हम ऐश्वर्य और पूज्य ज्ञान वाले पुरुषों को ( ध्रुवं ) स्थिर



(यशः) यश और अन्न, और ( छर्दिः ) आवास के लिये घर ( यंसतः ) प्रदान करो ।

प्र ये ययुरवृकासो रथा इव नृपातारो जनानाम् ।

उत स्वेन शवसा शूशुवुर उत क्षियन्ति सुक्षितिम् ॥६॥२१॥

भा०—( ये ) जो ( अवृकासः ) चोर-स्वभावं से रहित, सत्यनिष्ठ, निश्छल ( रथाः ) रथों के समान ( स्वेन शवसा ) अपने ज्ञान सामर्थ्य और प्रबल पराक्रम से ( प्र ययुः ) आगे जाते हैं और जो ( नरः ) नेता जन ( शूशुवुः ) खूब बढ़ते हैं, उन्नति को प्राप्त होते हैं ( उत ) और ( सुक्षितिम् ) उत्तम भूमि को ( क्षियन्ति ) प्राप्त कर उसमें रहते और उसको ऐश्वर्य युक्त करते हैं वे ही ( जनानां नृपातारः ) सब मनुष्यों को पालन करने में समर्थ, नृपति होते हैं । इत्येकविंशो वर्गः ॥

[ ७५ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ छन्दः—१, ८ निचृत् त्रिष्टुप् । २, ४, ५

विराट् त्रिष्टुप् । ३ आर्ची स्वराट् त्रिष्टुप् । ६, ७ आर्पी त्रिष्टुप् ॥

अष्टर्चं सूक्तम् ॥

व्युषा आवो दिविजा ऋतेनाविष्कृण्वाना महिमानमागात् ।

अप दुहस्तम आवरजुष्टमङ्गिरस्तमा पथ्या अजीगः ॥ १ ॥

भा०—( दिविजाः उषाः ) सूर्य के आश्रय रह कर प्रकट होने वाली प्रभात वेला जिस प्रकार ( आपः ) विशेषरूप से खिलती ( ऋतेन महिमानम् आविष्कृण्वाना आगात् ) तेज से महान् स्वरूप को प्रकट करती हुई आती है, ( तमः अप आवः ) अन्धकार को दूर करती और ( पथ्याः अजीगः ) मार्गों वा मार्गवर्त्ती प्रजाओं को जगाती, प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार ( दिवि-जाः ) सूर्यवत् तेजस्वी गुरु के अधीन जन्म लाभ करके वा ( दिवि-जाः ) उत्तम शुभ कामना में विद्यमान ( उषाः ) कान्तियुक्त

युवति ( वि आवः ) अपने विविध गुणों को प्रकट करे, वह ( ऋतेन ) सत्य व्यवहार, ज्ञान से अपने ( महिमानम् ) महान्, आदरणीय मातृ-सामर्थ्य को ( आविः कृण्वाना ) प्रकट करती हुई, ( आगात् ) आवे । (अनुष्टम्) न सेवन करने योग्य (तमः) अज्ञान, शोकादि को अन्धकारवत् और ( द्रुहः ) द्रोह, अप्रीति के भावों को भी ( अप आवः ) दूर करे । वह ( अङ्गिरस्तसा ) प्राणों में भी सर्वश्रेष्ठ, प्राणवत् अतिप्रियतमा वा ज्ञानवती विदुषी होकर ( पथ्याः ) उत्तम पथ योग्य, धार्मिक, शिष्टाचारों को ( अजीगः ) जागृत करे ।

महे नो अद्य सुविताय बोध्युषो महे सौभगाय प्र यन्धि ।

चित्रं रयिं यशसं धेह्यस्मे देवि मर्तेषु मानुषि श्रवस्युम् ॥ २ ॥

भा०—हे ( मानुषि देवि ) मननशील, मनुष्य जाति के शुभ गुणों से युक्त छि ! तू ( नः ) हमें (अद्य) आज, ( महे सुविताय ) बड़े भारी सुख प्राप्त कराने के लिये ( बोधि ) हो । हे ( उपः ) प्रभात वेलावत् कान्तियुक्त एवं पति को प्रेम से चाहने वाली छि ! तू भी (महे सौभगाय) बड़े भारी सौभाग्य प्राप्त करने के लिये ( प्र यन्धि ) उत्तम रीति से विवाह के बंधन में बंध । ( अस्मे ) हमारे ( चित्रं रयिं ) आश्चर्यकर नाना एवं संग्रह योग्य ऐश्वर्य और ( मर्तेषु ) मनुष्यों के बीच ( यशसं ) यशस्वी ( श्रवस्युम् ) ज्ञानी पुत्र ( धेहि ) धारण कर ।

एते त्वे भानवो दर्शतायाश्चित्रा उपसो अमृतास आगुः ।

जनयन्तो दैव्यानि व्रतान्यापृणन्तो अन्तरिक्षा व्यस्थुः ॥ ३ ॥

भा०—( दर्शताः उपसः भानवः ) दर्शनीय उपा वेला के किरण जिस प्रकार आते हैं, वे (दैव्यानि व्रतानि जनयन्तः अन्तरिक्षा वि तिष्ठन्ति) देव, सूर्य वा किरणों के योग्य प्रकाशादि कार्यों को करते हुए अन्तरिक्ष में विराजते हैं, उसी प्रकार (दर्शतायाः) रूप गुणादि में दर्शनीय, अतिमनो-हर, ( उपसः ) पति की कामना करने वाली, कान्तिमती कन्या वा विदुषी

स्त्री से ही ( ल्ये ) वे नाना ( एते ) ये ( अमृतासः भानवः ) कर्मा नाश न होने वाले, दीर्घायु, ( चित्राः ) आश्चर्यकारी बलवान् वीर्यवान् होकर ( आगुः ) हमें प्राप्त होते हैं । वे ( देव्यानि ) देव, विद्वान् पुरुषों से करने योग्य ( व्रतानि ) कर्त्तव्य कर्मों को ( जनयन्तः ) प्रकट करते हुए, ( अन्तरिक्षा ) अन्तरिक्ष में वायु के समान ( आ पृणन्तः ) सबको पालन पूर्ण, वृष, सन्तुष्ट करते हुए ( वि अस्थुः ) विविध रूपों में विराजें । उत्तम स्त्री से उत्पन्न हुए पुत्र दीर्घजीवी, तेजस्वी, देव, व्रतपालक और सुग्नकारी हों ।

एषा स्या युजाना पराकात्पञ्च चितीः परि सद्यो जिगाति ।

अभिपश्यन्ती वयुना जनानां दिवो दुहिता भुवनस्य पत्नी ॥४॥

भा०—( एषा ) यह ( स्या ) वह ( दिवः दुहिता ) सूर्य की पुत्रीवत् उपा काल के समान तेजस्वी पुरुष की कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ ( पराकात् युजाना ) दूर देश से विवाह बन्धन में संयुक्त होकर विदुषी स्त्री शासक शक्ति के समान ( सद्यः ) अति शीघ्र ही अपने गुणों से ( पञ्चक्षितीः ) पांचों प्रकार के निवासियों, पञ्चजनों को ( परि जिगाति ) मात करती है, सबको अपने वश करती है । वह ( जनानां ) मनुष्यों वा जन्म लेने वाली प्रजाओं के ( वयुना ) ज्ञानों और कर्मों को न्यायपूर्वक ( अभिपश्यन्ती ) देखती हुई और ( भुवनस्य ) भुवन, जन समूह का ( पत्नी ) पालन करने वाली हो ।

वाजिनीवती सूर्यस्य योषा चित्रामद्या राय ईशे वसूताम् ।

ऋषिपृता जरयन्ती मघोन्धुपा उच्छ्रति वह्निभिर्गृणाना ॥५॥

भा०—( सूर्यस्य ) सूर्य की ( योषा ) स्त्री ( उपा ) प्रभात वेला ( वह्निभिः ) यज्ञाग्नियों से ( गृणाना ) स्तुति की जाती हुई, ( जरयन्ती ) रात्रि का नाश करती हुई, ( ऋषि-स्तुता ) विद्वानों की भगवत्-स्तुति से युक्त होती है उसी प्रकार ( सूर्यस्य ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष

की ( योपा ) स्त्री, ( उपा ) कान्ति से युक्त होकर ( वह्निभिः ) विवाह करने के योग्य उत्सुक पुरुषों द्वारा ( गृणाना ) स्तुति की जाती है । वह ज्ञानधारक विद्वान् पुरुषों से उपदेश की जावे । वह ( मघोनी ) उपावत् पूज्य धन से युक्त, ( वाजिनीवती ) बलयुक्त और ज्ञानयुक्त क्रिया करने वाली ( जरयन्ती ) अपने गुणों से अवगुणों, अज्ञान शोक मोहादि को नाश करती हुई, ( ऋषि-स्तुता ) विद्वानों द्वारा उपदेश प्राप्त कर ( उच्छति ) अपने गुणों का प्रकाश करे । ( २ ) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष की शक्ति, सेना और सभामयी है । वह बल, विजय युक्त होने से 'वाजिनी', नाना धन सम्पन्न होने से 'चित्रा-मघा' वह सब बसने वाले प्रजाजनों की स्वामिनी है, ऋषिगण, मन्त्रद्रष्टा ज्ञानी पुरुष उसको उपदेश करते, वह शत्रुओं का नाश करती, दुष्टों को सन्तप्त, पीड़ित करने से 'उपा', राज कार्य भार वहन करने वाले तेजस्वी पुरुषों से प्रशस्त है ।

प्रति द्युतानामरूपासो अश्वाश्चित्रा अदृश्रन्नुपसं वहन्तः ।

याति शुभ्रा विश्वपिशा रथेन दधाति रत्नं विधत्ते जनाय ॥ ६ ॥

भा०—( अश्वाः ) अश्वों के समान दृढ़, बलवान् अंग वाले, ( चित्राः ) पूजनीय, अद्भुत २ आश्चर्यजनक बलविद्या और गुणों से सम्पन्न, ( अरूपासः ) रोपरहित, सौम्य स्वभाव वाले तेजस्वी, ( उपसः ) स्वर्थ भी उत्तम काम्य पदार्थों की कामना करने वाले पुरुष ( द्युतानां ) कान्तिमती, ( उपसम् ) कामनावान् उत्तम वधू का ( वहन्तः ) विवाह द्वारा ग्रहण करते हुए ( प्रति अदृशन् ) नित्य देखी जावें । वह वधू ( शुभ्रा ) उत्तम आभूषणों से सुभूषित, शुभगुणों से युक्त, वधू ( विश्वपिशा ) नाना रूप के ( रथेन ) रथों से ( याति ) जावे । और ( विधत्ते जनाय ) विशेष प्रेम से धारण करने वाले प्रिय, पुरुष के लिये ( रत्नं दधाति ) देह पर उत्तम रत्न, गृह में उत्तम धन, जीवन में उत्तम व्यवहार, मन में उत्तम गुण, गर्भ में उत्तम पुत्र-रत्न ( दधाति ) धारण करे ।

सत्या सत्येभिर्महती महद्भिर्देवी देवेभिर्यजता यजत्रैः ।

रुजद्बृहानि दददुस्त्रियाणां प्रति गाव उपसं वावशन्त ॥ ७ ॥

भा०—वह (सत्येभिः) सत्य गुणों, कर्मों और व्यवहारवान् (महद्भिः) बड़े, गुणवानों से ( महती ) पूज्य, ( देवेभिः ) उत्तम गुणों और विद्वानों और ( यजत्रैः ) पूजनीय, दानशील पुरुषों के साथ ( सत्या ) सत्य शील-वती, सभ्य, (महती) गुणों में महान्, (यजता) दानशील (देवी) विदुषी कन्या सत्संग लाभ करे । वह (दृढानि) दृढ़ संकटों को भी ( रुजत् ) नाश करती हुई ( ददद् ) सुख प्रदान करे । ( गावः ) वृषभ, जिस प्रकार ( उस्त्रियाणां मध्ये उपसं वावशन्त ) गौवों के बीच में से कामनावती कपिला गौ को ही चाहते हैं उसी प्रकार (गावः) विद्वान् एवं बलवान् जन भी ( उस्त्रियाणाम् ) घर बसाने की इच्छुक कन्याओं में से भी ( उपसं ) अपने प्रति विशेष कामनावान् वधू के प्रति (प्रति वावशन्त) कामना करें ।

नू नो गोमद्वीरवद्देहि रत्नमुपो अश्ववत्पुरुभोजो अस्मे ।

मा नो वहिः पुरुपता निदे कर्षुयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ८।२२

भा०—हे (उपः) कान्तिमति, प्रिय, कामना वाली ज्ञानवती विदुषि! वधू! तू ( नः ) हमारे ( गोमत् ) गौओं से युक्त, ( वीरवत् ) वीर पुत्रों से युक्त (रत्नं) उत्तम धन, उत्तम सभ्य व्यवहार, पतिसंगादि गृहस्थोचित कर्म, पुत्र आदि (धेहि) धारण कर । तू (अस्मे) हमारे हितार्थ, ( अध्वा-वत् ) अश्वों से युक्त और ( पुरु-भोजः ) बहुतों को पालने और बहुतों से भोगने योग्य ऐश्वर्य को भी ( धेहि ) धारण कर । ( नः वहिः ) हमारा यज्ञ और वृद्धिशील राष्ट्र, पद ( Position ) आदि ( पुरुपता ) पुरुषों में (निदे मा कः) निन्दा करने योग्य मत बना । हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमें सदा उत्तम साधनों से पालन करो । उपा सूक्तों के प्राथः सब मन्त्र राजशक्ति और विशोका प्रज्ञा, तथा परमेश्वरी शक्ति युक्त पदार्थों में भी लगते हैं । इति द्वाविंशो वर्गः ॥

[ ७६ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ छन्दः—१ त्रिष्टुप् । २ विराट् त्रिष्टुप् ।

३, ४, ५, ६, ७ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ सप्तमं सूक्तम् ॥

उदु ज्योतिरमृतं विश्वजन्यं विश्वानरः सविता देवो अश्रेत् ।

ऋत्वा देवानामजनिष्ट चक्षुराविरकभुवनं विश्वमुपाः ॥ १ ॥

भा०—उपा रूप से परमेश्वरी शक्ति का वर्णन करते हैं । (सविता) समस्त संसार का उत्पादक, ( देवः ) सब सुखों का दाता, सूर्यादि लोकों का प्रकाशक, ( विश्वानरः ) समस्त विश्व का और समस्त जीवों का नायक, सञ्चालक परमेश्वर ( विश्व-जन्यम् ) समस्त जनों के हितकारी, सब जनों में विद्यमान, समस्त विश्व को उत्पन्न करने वाले, (अमृतं ) अमृत, अविनाशी, ( ज्योतिः ) परम प्रकाशमय ज्योति को ( उत् अश्रेत् उ ) सर्वोपरि होकर धारण करता है । वह ( ऋत्वा ) समस्त विश्व का बनाने वाला, अथवा ( ऋत्वा ) कर्म और ज्ञान सामर्थ्य से ( देवानां ) समस्त पृथिवी, सूर्यादि लोकों और विद्वान् पुरुषों के बीच ( चक्षुः ) सब को आंखवत् देखने वाला, अथवा ( देवानां चक्षुः ऋत्वा ) विद्वानों के ज्ञान दिखाने वाले ज्ञानमय वेद का कर्ता, ( उपाः ) सब पापों का दाहक, उपाकाल के समान कान्तियुक्त, ( भुवनं ) समस्त भुवन को ( आविः अकः ) प्रकट करता है । गृहस्थ पक्ष में—(सविता देवः विश्वानरः ) प्रजोत्पादक विद्वान् सबका नायकवत् होकर ( विश्व-जन्यं ) आत्मा के देह के उत्पादक ( अमृतं ज्योतिः उत् अश्रेत् ) अमृत, चिन्मय, अविनाशी ज्योतिः रूप, वीर्यमय तेज, ज्ञानमय प्रकाश को उत्तम रीति से धारण करे । वह ज्ञान, और कर्म से मनुष्यों का चक्षुवत् मार्गदर्शी हो, उसी प्रकार ( उपाः ) विदुषी स्त्री ( भुवनं आविः अकः ) लोक को उषावत् ब्रह्माण्ड के समान अपने गृह को प्रकाशित करे ।

प्र मे पन्था देवयाना अदृश्रन्मर्धन्तो वसुभिरिष्कृतासः ।

अभूदु केतुरुपसः पुरस्तात्प्रतीच्यागादधि हर्म्येभ्यः ॥ २ ॥

भा०—जिस प्रकार उपा के प्रकट होने पर ( वसुभिः इष्कृतासः पन्थाः देवयानाः प्र अदृश्रन् ) मनुष्यों से बनाये और मनुष्यों से चलने योग्य मार्ग दिखाई देते हैं । वह ( उपसः केतुः अभूत् ) तेजस्वी सूर्य का ज्ञापक होती और ( अधि हर्म्येभ्यः पुरस्तात् प्रतीची आ अगात् ) बड़े २ महलों के ऊपर से पूर्वदिशा से पश्चिम की ओर आती है, उसी प्रकार वर के लिये वधू और वधू के लिये वर दोनों ही उत्सुक, एवं कामनायुक्त होने से दोनों ही 'उपा' हैं, अतः ऐसे ( उपसः ) कामना, प्रेमोत्सुकता से उत्सुक पुरुष के ( पुरस्तात् ) आगे ( केतुः ) जानवती, उसकी ध्वजा के समान गुणों को दर्शाने वाली विदुषी वधू ( अभूत् उ ) होवे । वह ( प्रतीची ) प्रत्यक्ष में पूज्यादत्त होती हुई, ( हर्म्येभ्यः अधि आगात् ) बड़े महलों में रहने के लिये अधिष्ठात्री रानी होकर आवे । इसी प्रकार ( उपसः ) कान्ति-मती, कामनावती प्रिय वधू का ( केतुः ) ध्वजा के समान ज्ञानवान् तेजस्वी पुरुष हो, वह भी पूर्व से पश्चिम को आने वाले सूर्य के समान ( हर्म्येभ्यः अधि आगात् ) हर्म्यों को आवे । ( वसुभिः ) विद्वानों द्वारा ( इष्कृतासः ) सुशोभित और ( देवयानाः ) विद्वानों द्वारा चलने योग्य ( मे पन्थाः ) मेरे समस्त धर्ममार्ग, किरणों से प्रकाशित मार्गों के समान मेरे लिये ( अमर्धन्तः ) कभी पीड़ादायक न होते हुए मुझे ( प्र अदृश्रन् ) उत्तम रीति से दृष्टिगोचर हों ।

तानीदहानि बहुलान्यासन्त्या प्राचीनमुदिता सूर्यस्य ।

यतः परिं जार इवाचरन्त्युषो ददृक्षे न पुनर्यतीव ॥ ३ ॥

भा०—( सूर्यस्य या प्राचीनम् उदिता ) जिस प्रकार सूर्य के पूर्व दिशा में उदय होने पर जो प्रकट होते हैं ( तानि इत् अहानि ) वे ही दिन कहाते हैं ( उषा जारः इव परि अचरन्ती ) उषा भी रात्रि को जारण

करने वाले सूर्य के समान ही आचरण करती हुई ( न पुनः यती इव दृक्षे ) फिर नहीं लौटती सी दीखती है उसी प्रकार हे ( उपः ) पति की कामना करने वाली वधू ! ( या ) जो तू ( सूर्यस्य प्राचीनम् इत् ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष के पूर्व भाग में आकर आगे आती है ( तानि इत् बहुलानि अहानि ) वे ही बहुत दिन उत्तम हैं । यतः क्योंकि उन दिनों में तू ( जारः इव ) तेरी आयु को अपने साथ पूर्ण व्यतीत करने वाले वा रात्रि व्यतीत करने वाले सूर्यवत् तेजस्वी पति के समान ही तू भी ( आचरन्ती ) उसकी सेवा शुभ्रूपा और धर्माचरण करती हुई ( न पुनः यती इव ) उसे फिर भविष्य में कभी भी न त्यागती सी ( परि दृक्षे ) सदा उसके संग दिखाई दे । अथवा ( या ) जिन दिनों ( सूर्यस्य प्राचीनम् उदिता ) सूर्यवत् तेजस्वी पति के पूर्व, प्राङ्मुख खड़े रहते, तू भी ( जार इव आचरन्ती यतः परि दृक्षे ) पति के समान ही विवाहादि कृत्य उसके समीप करती दिखाई देवे ( न पुनः यती इव ) उसे छोड़ती सी न दिखाई देवे ( तानि इद् अहानि बहुलानि ) ऐसे ही सहयोगी जीवन के दिन बहुत ( आसन् ) होंगे । 'जारः इव' इति पदपाठः । 'जारे-इव' इति सायणाभिमतः ॥

त इद्देवानां सधमाद् आसन्नृतावानः कवयः पुर्व्यासः ।

गूळ्हं ज्योतिः पितरो अन्विन्दन्त्सत्यमन्त्रा अजनयन्नुपासम् ४-

भा०—जो ( ऋतावानः ) सत्य ज्ञान और वेद, तप आदि का सेवन करने वाले ( पुर्व्यासः कवयः ) पूर्व के विद्वानों से शिक्षित, क्रान्तदर्शी ज्ञानी पुरुष हैं ( ते इत् ) वे ही ( देवानां ) विद्वान् पुरुषों के ( सधमादः आसन् ) साथ आनन्द, सुख प्राप्त करने वाले होते हैं । वे ही ( पितरः ) माता पितावत् पालक बनकर ( गूळ्हं ज्योतिः ) अपने भीतर छिपे ज्योतिर्मय तेज को ( अनु अविन्दन् ) प्राप्त करते हैं । जो ( सत्य-मन्त्राः ) सत्य, मननशील होकर ( उपासम् अजनयन् ) कान्तिमती, ज्योतिष्मती, अज्ञान और पाप को दूर करने वाली विशोका प्रज्ञा को प्रकट करते हैं । ( २ ) ०



उसी प्रकार सत्यज्ञानी, ऐश्वर्यवान्, विद्वान् सहयोग का सुख पाते हैं जो माता पिता होकर सन्तान वा वीर्यरूप गूढ़ ज्योति को प्राप्त करते हैं, सत्य-मन्त्र होकर ( उपासं भजनयन् ) कामनायुक्त वधू को प्राप्त कर उससे उत्तम सन्तान उत्पन्न करते हैं ।

समान ऊर्वे अधि सङ्गतासः सं जानते न यतन्ते मिथस्ते ।

ते देवानां न मिनन्ति ब्रतान्यमर्धन्तो वसुभिर्यादमानाः ॥ ५ ॥

भा०—जो पुरुष ( समाने ) एक समान ( ऊर्वे ) समूह या वर्ग में ( अधि ) एक अध्यक्ष के अधीन ( संगतासः ) एकत्र मिलकर ( सं जानते ) सन्यक् ज्ञान और परिचय कर लेते हैं ( ते ) वे ( मिथः ) परस्पर का हिंसन या नाश करने की ( न यतन्ते ) चेष्टा नहीं करते । ( ते ) वे ( देवानां ब्रतानि ) विद्वानों के कार्यों का ( न मिनन्ति ) नाश नहीं करते । और वे ( वसुभिः ) धनों द्वारा ( यादमानाः ) यत्नवान् होते हुए ( अमर्धन्तः ) और हिंसा न करते हुए संगत होकर जीवन व्यतीत करते हैं ।

प्रति त्वा स्तोमैरीळते वसिष्ठा उपवृधः सुभगे तुष्टुवांसः ।

गवां नेत्री वाजपत्नी न उच्छ्रोषः सुजाते प्रथमा जरस्व ॥ ६ ॥

भा०—हे ( सुभगे ) उत्तम भाग्यवति ! विदुषि ! ( तुष्टुवांसः ) स्तुति करने हारे, ( उपवृधः ) प्रभात वेलामें जागने वाले ( वसिष्ठाः ) उत्तम वसु, विद्वान् गृहस्थ, ब्रह्मचारी गण, ( त्वा ) तेरी ( स्तोमैः ) उत्तम स्तुत्य वचनों से ( इडते ) स्तुति करते हैं । हे ( उपः ) पापनाशिके ! तू ( वाज-पत्नी ) ऐश्वर्य और ज्ञान का पालन करने वाली ( गवां नेत्री ) गौओं के समान सौम्य वाणियों को प्रस्तुत करने वाली होकर ( नः ) हमारे बीच ( उच्छ ) गुणों और ज्ञान का प्रकाश कर । हे ( सु-जाते ) उत्तम माता पिता की उत्तम पुत्रि ! तू ( प्रथमा ) सर्वश्रेष्ठ गिनी जाकर ( जरस्व ) अपने प्रिय पुरुष के गुणों का वर्णन कर ।

एषा नेत्री राधसः सूनृतानामुषा उच्छ्रन्ती रिभ्यते वसिष्ठैः ।

दीर्घश्रुतं रयिमस्मे दधाना युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥७॥२३॥

भा०—( एषा ) वह ( उषा ) कान्तिमती, वधू ( राधसः नेत्री ) धन को प्राप्त कराने वाली और वह ( सूनृतानां नेत्री ) अज्ञों उत्तम ज्ञानमय वचनों और सत्य विद्याओं को प्राप्त कराने वाली होकर ( उच्छ्रन्ती ) स्वयं उत्तम गुणों का प्रकाश करती हुई ( वसिष्ठैः ) उत्तम वसु, ब्रह्मचारियों और सन्तान के उत्तम माता पिताओं द्वारा ( रिभ्यते ) स्तुति की जाती है, वह ( अस्मे ) हमारे ( दीर्घश्रुतं ) दीर्घ काल तक श्रवण किये जाने योग्य ( रयिम् ) ज्ञान ऐश्वर्य को ( दधाना ) धारण करने वाली हो । हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमें सदा उत्तम-सुखकारी साधनों से पालन करो । इति त्रयोविंशो वर्गः ॥

[ ७७ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ उषा देवताः ॥ छन्दः—१ त्रिष्टुप् । २, ३, ४, ५ निचृत् त्रिष्टुप् । ६ विराट् त्रिष्टुप् ॥ षडृच सूक्तम् ॥

उषां हरुचे युवतिर्न योषा विश्वं जीवं प्रसुवन्ती चरायै ।

अभूदग्निः समिधे मानुषाणामकज्योतिर्वाधमाना तमांसि ॥ १ ॥

भा०—जिस प्रकार ( उषा ) प्रभात वेला ( उप हरुचे ) पतिवत् सूर्य के समीप स्त्रीवत् शोभित होती है । वह ( विश्वं जीवं चरायै प्रसुवन्ती ) समस्त जीव संसार को निद्रा से उठकर विचरने के लिये प्रेरित करती है । ( समिधे ) प्रकाश करने के लिये ( अग्निः अभूत् ) सूर्य रूप अग्नि प्रकट होता है, ( मानुषाणां ) मनुष्यों के लिये ( तमांसि बाधमाना ज्योतीषि ) अन्धकारों को दूर करने वाले प्रकाशों को ( अकः ) प्रकट करता है, उसी प्रकार वह परमेश्वरी शक्ति भी ( युवतिः योषा न ) युवति स्त्री के समान ( विश्वं जीवं ) समस्त विश्व को और समस्त जीव संसार

को ( चरायै प्रसुवन्ती ) नाना कर्म फलों के उपभोग के लिये उत्पन्न करती हुई ( उप उरुवे ) सर्वत्र शोभा दे, ( अग्निः ) वह परमेश्वर अग्नि के समान प्रकाशस्वरूप ( समिधे ) ज्ञान प्रकाश करने के लिये ( अभूत् ) हो । और वही ( मानुषाणाम् ) मनुष्यों के हृदय के ( तमांसि ) अज्ञानान्धकारों को ( बाधमाना ) दूर करता हुआ ( ज्योतिः ) वेदमय ज्ञानद्योतक प्रकाशों को ( अकः ) उपदेश करता है । ( २ ) इसी प्रकार गृहपत्नी, युवति स्त्री जीव बालकको उसको कर्मभोग और स्वतः सुखप्राप्ति के लिये उत्पन्न करती है । 'अग्नि' रूप तेजस्वी विद्वान् विवाहाग्निवत् प्रज्वलित होता है, वह सब के अज्ञानों को दूर करने वाले विद्याप्रकाशों को प्रकट करता है ।

विश्वं प्रतीची सप्रथा उदस्थादुशद्वासो विभ्रती शुक्रमश्वैत् ।

हिरण्यवर्णा सुदृशीकसन्दृग्वा माता नेत्र्यहामरोचि ॥ २ ॥

भा०—(अहां नेत्री) उषा, प्रभात वेला जिस प्रकार दिनों की प्रारम्भक नायिका, ( गवां माता ) सूर्य की किरणों को अपने में से माता के समान पैदा करती है, वह ( हिरण्य-वर्णा ) सुवर्ण के समान चमकती हुई ( सुदृशीक-सन्दृग् ) आंखों को सब पदार्थ अच्छी प्रकार दिखला देती है, वह ( प्रतीची ) प्रत्यक्ष होती हुई, ( स-प्रथा ) विस्तृत होकर ( रुशद्-वासः विभ्रती ) मानो चमकीला वस्त्र पहने ( विश्वं शुक्रमश्वैत् ) समस्त संसार को दीप्तियुक्त कर चमका देती और बढ़ती है उसी प्रकार परमेश्वरी शक्ति और नव वधू माता भी ( अहां ) न नाश होने वाले, नित्य, जीवों, न मरने योग्य बालक जीवों की ( नेत्री ) नायिका, प्राप्त कराने वाली, ( गवां ) लोकों, वाणियों और गौ आदि पशुओं की भी ( माता ) माता के समान पालन करने वाली । ( सुदृशीक-सन्दृग् ) दर्शनीय सम्यक् दृष्टि से युक्त, निष्पक्षपात, सौम्यनयनी, ( हिरण्य-वर्णा ) उज्ज्वल, हित रमणीय वर्ण वाली हो । वह ( प्रतीची ) प्रत्येक की दृष्टि में

पूजनीय, ( रुशद्-वासः ) उज्ज्वल वस्त्रादि को ( विभ्रती ) धारण करती हुई, ( सप्रथा ) समान रूप से विख्यात होकर ( उत्-अस्थात् ) उत्तम स्थिति प्राप्त करे और ( शुक्रम् अश्वैत् ) शुद्धरूप, शुद्ध आचरण और वीर्योत्पन्न सन्तति की वृद्धि करे ।

देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ती श्वेतं नयन्ती सुदृशीकमश्वम् ।

उपा अदृशि रश्मिभिर्व्यक्ता चित्रामघा विश्वमनु प्रभूता ॥ ३ ॥

भा०—जिस प्रकार ( उपा ) उपा, प्रभात वेला की सूर्य की कान्ति ( रश्मिभिः व्यक्ता अदृशि ) किरणों से विशेष प्रकाशित दिखाई देती है, वह ( चित्रामघा विश्वम् अनु प्रभूता ) समस्त विश्व में प्रकट होती, चित्र विचित्र वर्ण युक्त प्रकाशों से मानों पूज्य धन युक्त होती है । वह ( सुभगा ) उत्तम भद्रवर्ण युक्त होकर ( देवानां चक्षुः ) मनुष्यों की आंखों को ( श्वेतं वहन्ती ) श्वेत प्रकाश देती हुई, और ( सुदृशीकम् श्वेतं अश्वम् नयन्ती ) उत्तम दर्शनीय, श्वेत, व्यापक प्रकाशवान् सूर्य को प्राप्त कराती है उसी प्रकार ( उपा ) पति की कामना से युक्त नववधू, ( सुभगा ) उत्तम ऐश्वर्य से युक्त, सौभाग्यवती, ( देवानां ) विद्वान् पुरुषों के बीच ( चक्षुः ) सोम्य दृष्टि करती हुई और ( श्वेतम् ) शुद्ध चरित्रवान् ( सु-दृशीकम् ) उत्तम दर्शनीय, ( अश्वम् ) अश्ववत् सुदृढ़ शरीर वाले विद्यावेत्ता पुरुष के प्रति अपनी चक्षु को ( नयन्ती ) पहुंचाती हुई, उसे प्रेम से वरण करती हुई, ( चित्रा-मघा ) उत्तम नाना प्रकार के पूज्य धनों से युक्त और ( रश्मिभिः व्यक्ता ) किरण-कान्तियों से सुशोभित, ( विश्वम् अनु प्रभूता ) सबके समक्ष प्रकट होकर ( अदृशि ) दीखे ।

अन्तिवामा दूरे अमित्रमुच्छोर्वी गव्यूतिमभयं कृधी नः ।

यावय द्वेष आ भरा वसूनि चोदय राधो गृणते मघोनि ॥ ४ ॥

भा०—हे ( मघोनि ) ऐश्वर्य, धन की स्वामिनि राजशक्ते ! हे विदुषि ! तू ( अन्ति-वामा ) अपने समीप नाना प्रकार के भोग्य पदार्थों

और उत्तम ऐश्वर्यों को रखती हुई ( अमित्रम् दूरे ) शत्रु को दूर करती हुई ( उच्छ ) अपने आप चमक । तू ( उर्वी ) बड़ी भूमि और विशाल ( गव्यूतिम् ) मार्ग को ( नः ) हमारे लिये ( अभयं कृधि ) भय से रहित कर । ( द्वेषः यवय ) हमारे में से द्वेष भावों और द्वेष करने वालों को दूर कर । ( वसूनि आभर ) नाना ऐश्वर्य हमें प्राप्त करा, ( गृणते ) स्तुति, उपदेश करने वाले पुरुषों को ( राधः चोदय ) ऐश्वर्य प्रदान कर । ( २ ) इसी प्रकार स्त्री भी, समीप रहकर भोगने योग्य, एवं नाना धन समीप रखने वाली होने से 'अन्तिवामा', ( अमित्रम् ) स्नेहरहित पुरुष से दूर रहे, संसार के बड़े भारी मार्ग को भयरहित करे, द्वेष को दूर करे, धनों का संप्रह करे, उपदेश विद्वान् को धन प्रदान करे ।

अस्मे श्रेष्ठैभिर्भानुभिर्विं आह्युषीं देवि प्रतिरन्ती न आयुः ।

इषं च नो दधती विश्ववारे गोमदश्वावृथवच्च राधः ॥ ५ ॥

भा०—हे ( उपः देवि ) प्रभात वेला के समान शुभगुणों से युक्त विदुषि ! तू ( श्रेष्ठैभिः ) अति उत्तम किरणों के समान श्रेष्ठ गुणों से ( वि भाहि ) विशेष रूप से चमक । तू ( नः ) हमें ( आयुः प्रतिरन्ती ) दीर्घ जीवन प्रदान करती हुई, और हे ( विश्ववारे ) विश्व अर्थात् हृदय में प्रविष्ट पतिद्वारा एकमात्र वरण करने योग्य ! ( नः ) हमारी ( इषं ) अन्न और ( गोमत् अश्वावत् रथवत् च ) गौओं, अश्वों और रथों से समृद्ध ( राधः ) धन समृद्धि को ( दधती ) धारण करती हुई, स्वामिनी होकर ( वि भाहि ) विशेष रूप से चमक ।

यां त्वां दिवो दुहितवर्धयन्त्युषः सुजाते मतिभिर्वसिष्ठाः ।

सास्मासुं धारयिमृष्वं बृहन्तं यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ६।२४

भा०—हे ( उपः ) प्रभात वेला, उषा के समान कान्तिमति ! हे ( सुजाते ) शुभ गुणों सहित, उत्तम जन्म वाली ! हे ( दिवः दुहितः ) तेजस्वी सूर्यवत् विद्वान् और वीर पुरुष की पुत्रि ! एवं पति की नाना

कामनाओं को पूर्ण करने हारि ! ( वसिष्ठाः ) उत्तम २ वसु, ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ, पिता जन (यां त्वा वर्धयन्ति) जिस तुझ को बढ़ाते हैं, तेरी मान, आदर, प्रतिष्ठा करते हैं (सा) वह तू ( अस्मासु ) हमारे बीच (ऋष्वं) बड़े भारी ( बृहन्तं ) महान् ( रयिम् ) ऐश्वर्य को ( धाः ) धारण कर और हममें भी धारण करा । हे विद्वान् लोगो ! ( यूथम् ) तुम लोग ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमारी सदा उत्तम उपायों से रक्षा करो । इति चतुर्विंशो वर्गः ॥

[ ७८ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः—१, २ त्रिष्टुप् । ३, ४ निचृत् त्रिष्टुप् ।

५ विराट् त्रिष्टुप् ॥ पञ्चमं सूक्तम् ॥

प्रति केतवः प्रथमा अदृशन्नूर्ध्वा अस्या अञ्जयो वि अयन्ते ।

उषो अर्वाचा बृहता रथेन ज्योतिष्मता वाममस्मभ्यं वक्षि ॥१॥

भा०—( अस्याः ) उस उत्तम विदुषी स्त्री के (प्रथमाः केतवः) सर्वश्रेष्ठ ज्ञापक गुण रश्मिवत् (प्रति अदृशन्) प्रत्यक्ष दिखाई दें। ( अस्याः ) इसके ( अञ्जयः ) उत्तम गुण प्रकाशवत् ( वि-अयन्ते ) विविध प्रकार से प्रकट होते हैं। हे (उषः) कान्तिमति! उषा के समान सुन्दरि ! तू (ज्योतिष्मता) तेजस्वी, ज्ञानी ( बृहता ) बड़े ( अर्वाचा ) अश्व से जाने वाले ( रथेन ) रथ के समान दृढ़ एवं रम्य, व्यवहारज्ञ, विद्वान् पति के साथ मिलकर ( अस्मभ्यम् ) हमारे लिये ( वामम् वक्षि ) उत्तम ऐश्वर्य, सुखादि धारण कर, हमें भी सुख प्रदान कर ।

प्रति वीमग्निर्जरते समिद्धः प्रति विप्रसो मतिभिर्गृणन्तः ।

उषा याति ज्योतिषा वाधमाना विश्वा तमांसि दुरिताप देवी २

भा०—( उषा ज्योतिषा विश्वा तमांसि अप वाधमाना याति ) उषा अर्थात् प्रभात की सौरी प्रभा जिस प्रकार प्रकाश से सब अन्धकारों को दूर करती हुई व्यापती है उसी प्रकार ( देवी ) विदुषी स्त्री ( ज्योतिषा )

अपने तेजःप्रभाव से ( विश्वा दुरिता ) सब प्रकार के दुःखों और दुष्ट आचारों को ( अप वाधमाना ) दूर करती हुई ( याति ) प्राप्त होती है । ( समिद्धः अग्निः ) प्रातः प्रज्ज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान विद्वान् ( सीम् प्रति जरते ) सब प्रकार से और सर्वत्र उपदेश करे, और ( मतिभिः ) ज्ञानों से युक्त ( विप्रासः ) विद्वान् बुद्धिमान् पुरुष भी ( गृणन्तः ) उपदेश करते हुए ( प्रति जरन्ते ) प्रश्न किये जाने पर उत्तर द्वारा उपदेश करते हैं ।

एता उ त्याः प्रत्यदृश्रन्पुरस्ताज्ज्योतिर्यच्छन्तीरुपसो विभातीः।

अजीजनन्सूर्यं यज्ञमग्निमपाचीनं तमो अगादजुष्टम् ॥ ३ ॥

भा०—( एताः त्याः ) ये वे ( विभातीः उपसः ) चमकती उपाओं, प्रभातिक सूर्य की कान्तियों के सदृश उज्ज्वल, ( ज्योतिः यच्छन्तीः ) कान्ति प्रदान करती हुई नव-वधुएं ( प्रति अदश्रन् ) दीखें । वे ( सूर्यम् ) सूर्य के समान तेजस्वी ( यज्ञम् ) पूजनीय ( अग्निम् ) अग्रणी नायक को ( अजी-नन् ) अपने पीछे आता प्रकट करती हैं । ( अजुष्टम् ) न सेवन करने योग्य ( तमः ) शोक आदि दुःख ( अपाचीनं अगात् ) दूर चला जाता, अर्थात् उनके आने पर घर २ खुशियां विराजती हैं ।

अचेति दिवो दुहिता मघोनी विश्वे पश्यन्त्युपसं विभातीम् ।  
आस्थाद्रथं स्वधया युज्यमानमायमश्वासः सुयुजो वहन्ति ॥४॥

भा०—( दिवः दुहिता ) सूर्य की पुत्री के समान कान्तिमती ( मघोनी ) बड़ी ऐश्वर्य की स्वामिनी, सौभाग्यवती, सुभगा ( अचेति ) जानी जाती है । उसको ( विभातीम् ) विविध प्रकार से चमकती ( उपसम् ) प्रभात वेला के समान ही अनुरागवती को ( विश्वे पश्यन्ति ) सब देखते हैं । ( यम् ) जिसको ( अश्वासः ) बहुत विद्याओं में निष्णात जन अश्वों के समान उत्तम सहयोगी होकर सन्मार्ग पर लेजाते हैं उस ( रथम् ) रथवत् सुदृढ़ शरीर वाले, और ( स्वधया ) अपने आपको वा अपने सर्वस्व को

धारण करने वाली स्त्री के साथ ( युज्यमानम् ) योग प्राप्त करने वाले ( रथम् ) रमणकारी, पति को ( आ अस्थात् ) प्राप्त करे अपना आश्रय बनावे ।

प्रति त्वाद्य सुमनसो बुधन्तास्माकासो मघवानो वयं च ।

तिल्विलायध्वमुपसो विभातीर्युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः५।२५

भा०—हे विदुषि ! ( सु-मनसः ) उत्तम चित्तवाले ( अस्माकासः ) हमारे सम्बन्धी जन और ( मघ-वानः ) उत्तम ज्ञानैश्वर्यवान् और ( वयं च ) हम लोग सभी ( अद्य ) आज के दिन ( त्वा प्रति बुधन्त ) तेरे साथ उत्तम परिचय प्राप्त करें । हे ( विभातीः उपसः ) उज्ज्वल रूप से चमकने वाली प्रभात वेलाओं के समान कुलवधुओ ! आप लोग ( तिल्विलायध्वम् ) तिलों से सुशोभित भूमि के समान स्नेह की उत्पादक भूमि के समान होवो । ( यूयं ) आप सब लोग ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमें सदा उत्तम सुखप्रद शान्तिजनक उपायों से पालन करो । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥

[ ७६ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ छन्दः—१, ४ निचृत्त्रिष्टुप् । २, ३ विराट् त्रिष्टुप् । ५ आचौ स्वराट् त्रिष्टुप् ॥ पञ्चर्चं सूक्तम् ॥

व्युपा आवः पथ्या जनानां पञ्च क्षितीर्मानुपीवोधयन्ती ।

सुसन्दग्भिरुक्षभिर्भानुमश्चेद्भिः सूर्यो रोदसी चक्षसावः ॥ १ ॥

भा०—( जनानां पथ्या ) मनुष्यों को अपने प्रकाश से सत्पथ बतलाने वाली ( उपा ) प्रभात वेला के समान ( पथ्या ) धर्म-पथ बतलाने में हितकारिणी, और ( पथ्या ) संग आदि से रोग, शोकादि दूर करने वाली वधु ( वि-आवः ) विविध गुणों का प्रकाश करे । वह ( मानुपीः पञ्च क्षितीः बोधयन्ती ) मनुष्यों के पाँचों प्रकार के प्रजाजनों को ज्ञान बोध कराती हुई, ( सु-सं-दग्भिः ) उत्तम सम्यग् दर्शन युक्त, ( उक्षभिः ) पुरुष-पुंगवों



द्वारा ( भानुम् अश्रेत् ) विशेष दीप्ति को धारण करे । और ( सूर्यः ) आकाश और भूमि को प्रकाश से सूर्य के समान पुरुष ( रोदसी ) माता पिता दोनों के कुलों को ( चक्षसा ) सम्यग् दृष्टि से, (वि-भावः) विशेष रूप से उज्ज्वल करता है ।

व्यञ्जते दिवो अन्तेष्वक्लान्विशो न युक्ता उपसो यतन्ते ।

सं ते गावस्तम आ वर्तयन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति सवितेव वाहू ॥२॥

भा०—( उपसः ) प्रभात वेलाएं जिस प्रकार ( दिवः अन्तेषु ) आकाश के प्रान्त भागों में ( अक्लून् वि अञ्जते ) रात्रि-भागों या प्रकाशों को प्रकट करती हैं उसी प्रकार ( उपसः ) कामनायुक्त नववधुएं ( अन्तेषु ) प्रान्त भागों में विद्यमान ( विशः न ) राजा की प्रजाओं के समान ( दिवः अन्तेषु ) दिन के अन्त में रात्रि के कालों में ( अक्लून् ) अपने विशेष उज्ज्वल गृह के दीपकों को प्रकाशित करती हैं । और ( युक्ताः यतन्ते ) नियुक्त भृत्यजनों के समान नववधुएं भी ( युक्ताः ) पति की आज्ञा में रहकर ( यतन्ते ) गृह-कार्य करती हैं । हे नववधू ! जिस प्रकार ( गावः तमः आवर्त्तयन्ति ) किरणें अन्धकार को दूर कर देती हैं और ( ज्योतिः यच्छन्ति ) प्रकाश देती हैं, वे ( सूर्यस्य वाहू इव ) सूर्य की बाहुओं के समान होते हैं उसी प्रकार हे नववधू ! ( ते ) तेरी ( गावः ) वाणियां भी ( तमः सम् आ वर्त्तयन्ति ) शोकादि दुःख को अच्छी प्रकार दूर करें और ( ज्योतिः ) प्रकाशवत् स्फूर्ति, उत्साह को प्रदान करें । हे ( उपः ) नववधू ! तू भी ( सविता इव ) प्रजा-उत्पादक पति के समान ही होकर ( वाहू ) एक शरीर में दो बाहुओं के समान तुम दोनों मिल कर रहो ।

अभूदुषा इन्द्रतमा मघोन्यजीजनत्सुविताश्च श्रवांसि ।

वि दिवो देवी दुहिता दधात्यङ्गिरस्तमा सुकृते वसूनि ॥ ३ ॥

भा०—यदि ( उषा ) उषा के समान कान्तिमती कन्या ( इन्द्र-तमा )

अति अधिक ऐश्वर्यवती, रानी के समान सम्पन्न और ( मधोनी ) उत्तम धनैश्वर्य से युक्त ( अभूत् ) हो तो वह ( सुविताय ) और भी अधिक ऐश्वर्य प्राप्ति करने वा ( सुविताय ) जगत् का उत्तम कल्याण करने के लिये ही ( श्रवांसि ) नाना अन्न, यशों और धनों को ( अजीजनत् ) और भी उत्पन्न करे । वह ( दिवः दुहिता ) तेजस्वी सूर्य की पुत्रीवत् प्रभा के समान उज्ज्वल कान्तियुक्त ( दिवः दुहिता ) कामनावान् पति के मनोरथों को पूर्ण करने वाली वा ( दिवः ) व्यवहारों, व्यापारादि तथा ज्ञान विज्ञानों का दोहन करने वाली, वार्त्ताचतुर वा ज्ञानवती स्त्री ( अंगिरस्तमा ) अति विदुषी होकर भी ( सुकृते ) शुभ कर्म, पुण्यादि की वृद्धि के लिये ही ( वसूनि ) समस्त नाना ऐश्वर्यों को ( दधाति ) धारण करे ।

तावदुपो राधो अस्मभ्यं रास्व यावत्स्तोतृभ्यो अरदो गृणाना ।  
यां त्वा जजुवृषभस्या रवेण वि दृढस्य दुरो अद्रैरौर्णोः ॥४॥

भा०—जिस प्रकार 'उपस्' अर्थात् अति कान्तियुक्त विद्यत् को ( वृषभस्य रवेण ) वर्षणशील मेघ के घोर गर्जन के साथ ही ( जजुः ) जानते हैं, और वह ( दृढस्य अद्रेः दुरः वि और्णोत् ) दृढ़ मेघ या पर्वतादि के भी जलावरोधक मार्गों को खोल देती हैं उसी प्रकार हे विदुषि ! वधू ! ( यां त्वा ) जिस तुझको ( वृषभस्य ) उत्तम पुरुष के ( रवेण ) उपदेश या नाम शब्द से लोग ( जजुः ) जान लेते हैं और जो वह तू ( दृढस्य अद्रेः ) दृढ़ 'अद्रि' अर्थात् पर्वतवत् विशाल भवन के ( दुरः ) नाना द्वारों को ( वि और्णोः ) उद्घाटन कर, तू बड़े गृहपति की स्वामिनी हो । और ( यावत् ) जितना तू ( गृणाना ) स्तुतियुक्त होकर ( स्तोतृभ्यः अरदः ) स्तोता, विद्वानों को देवे ( तावत् राधः ) उतना ही धन ( अस्मभ्यं ) हमें भी प्रदान कर । अर्थात् स्त्री विद्वानों और बन्धु बान्धवों का बराबर सत्कार किया करे ।

देवदेवं राधसे चोदयन्त्यस्मद्यकसूनृता ईरयन्ती ।

व्युच्छन्ती नः सनये धियो धा यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नपरदा ।

भा०—हे विदुषि ! सौभाग्यवति ! तू ( देव-देवं ) प्रत्येक विद्वान् पुरुष को ( राधसे ) प्रदान योग्य धन को (चोदयन्ती) स्वीकार करने की प्रार्थना करती हुई और ( अस्मद्यक् ) हमारे प्रति ( सूनृता ) उत्तम वचन देती, कहती हुई, ( वि उच्छन्ती ) विशेष गुणों को प्रकट करती हुई ( नः सनये ) हमें दान देने के लिये ( धियः धाः ) नाना लौकिक वैदिक कर्म और शुभ संकल्प किया कर । हे विद्वान् स्त्री पुरुषो ! (यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) आप लोग हमारी नाना उत्तम २ उपायों से सदा रक्षा किया करो । इति षड्विंशोऽवर्गः ॥

[ ८० ]

वसिष्ठः ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ छन्दः—१ त्रिष्टुप् । २ विराट् त्रिष्टुप् ।  
३ निचृत्विष्टुप् ॥ वृचं सूक्तम् ॥

प्रति स्तोमेभिरुषसं वसिष्ठा गीर्भिर्विप्रासः प्रथमा अबुधन् ।

विवर्तयन्ती रजसी समन्ते आविष्कृतवती भुवनानि विश्वा ॥१॥

भा०—जिस प्रकार ( रजसी समन्ते ) आकाश और भूमि के प्रान्त भागों तक ( विवर्तयन्ती ) व्यापती हुई और ( विश्वा भुवना आविः कृतवती ) समस्त पदार्थों को प्रकट करती हुई ( प्रति उपसं ) प्रत्येक प्रभात वेला को प्राप्त कर ( विप्रासः ) विद्वान् लोग ( स्तोमेभिः गीर्भिः ) स्तुतियुक्त मन्त्रों, सूक्तों और वाणियों से ( अबुधन् ) विशेष ज्ञान प्राप्त करते और अन्यो को ज्ञान प्रदान करते हैं उसी प्रकार ( वसिष्ठाः ) उत्तम वसु, ब्रह्मचारी वा पितावत् ( प्रथमाः ) प्रथम कोटि के, उत्तम, वा विस्तृत ज्ञान वाले ( विप्रासः ) विद्वान् पुरुष, ( समन्ते ) समीपस्थ ( रजसी ) मातृ-पितृ-पक्ष के बन्धुजनों को वा ( समन्ते ) अति समीपस्थ ( रजसी ) गर्भ में

प्राप्त शुक्र और रज दोनों के अंशों को ( विवर्त्तयन्ती ) विशेष या विविध रूपों में व्यापारयुक्त करती हुई और ( विश्वा भुवनानि ) सब गर्भगत भ्रूण के नाना रूपों को प्रकट करती हुई ( उसे ) सन्तान की इच्छुक माता को ( प्रति ) लक्ष्य कर ( स्तोमेभिः ) स्तुति योग्य वचनों और व्यवहारों और ( गीभिः ) वेद वाणियों से ( भवुध्रन् ) उसको ज्ञान प्रदान करें, जिससे सन्तति का पोषण उत्तम और उस पर संस्कार भी उत्तम पड़ें । जो दशा गर्भग्रहण-समर्थ एवं पति-संगता उपान्तगर्भा युवति की होती है वही दशा ब्रह्म बीज को अपने में धारण करने वाली हिरण्यगर्भा प्रकृति की होती है । इस मन्त्र में उस प्रकृति को 'उपा' कहा है । उस दशा से युक्त प्रकृति को वसिष्ठ विप्र, ब्रह्मचारी ऋषि गण वेद के नाना सूक्तों तथा मन्त्रों से जानते हैं । वह प्रकृति भी ( समन्ते रजसी विवर्त्तयन्तीं ) संयुक्त दो सत् तत्त्व वा अविकृत प्रकृति और अविक्रिय ब्रह्म दोनों को ( रजसी ) राजसभाव, में ( विवर्त्तयन्तीं ) विविध विकृतियों में बदलती हुई और ( भुवनानि विश्वा आविष्कृण्वन्तीम् ) समस्त क्लेशों को प्रकट करती हुई उसको जानते हैं ।

उपा स्या नव्यमायुर्दधाना गुह्वी तमो ज्योतिषोपा अवोधि ।  
अग्रं पति युवतिरह्याणा प्राचिकित्सूर्यं यज्ञमग्निम् ॥ २ ॥

भा०—जिस प्रकार ( उपा ) प्रभात वेला, ( ज्योतिषा तमः ) प्रकाश से अन्धकार को दूर करती, ( नव्यम् आयुः दधाना ) सब प्राणियों को नया जीवन देती, जगाती, ( अग्रे सूर्य के आगे आती फिर सूर्य, यज्ञ और यज्ञाग्नि को प्रबुद्ध कराती है उसी प्रकार ( उपा स्या युवतिः ) वह यह युवति, वधू ( नव्यम् आयुः दधाना ) अपनी नयी आयु धारण करती हुई ( ज्योतिषा ) अपनी कान्ति से ( गुह्वीतमः ) गहरे शोक मोहादि को दूर करके ( अवोधि ) जागे और पति को जागृत करे । वह ( अह्याणा ) लज्जा वा निद्रा को त्यागकर ( युवतिः ) नवयुवति गृहिणी, ( अग्रे पति )

आगे आवे ( सूर्यम् ) सूर्यवत् अपने पति को ( प्राचिकित्त ) जगावे,  
( यज्ञम् अग्निम् ) और वाद वही यज्ञ अर्थात् पूज्य देव परमेश्वर और  
अग्निहोत्र की अग्नि को भी जागृत करे ।

अश्वावतीर्गोमतीर्न उपासो वीरवतीः सदा मुच्छन्तु भद्राः । घृतं  
दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३१२७।५॥

भा०—( अश्वावतीः ) उत्तम अर्थात् विद्यादि में निष्णात  
उत्तम पुरुषों से युक्त, ( गोमतीः ) उत्तम वेदवाणियों से युक्त, ( वीरवतीः )  
उत्तम पुत्रों से युक्त, ( भद्राः ) कल्याण देने वाली ( उपासः ) पति  
पुत्रादि को चाहने वाली देवियां ( नः सदा मुच्छन्तु ) हमें और हमारे  
वरों को सदा प्रकाशित करें । वे सदा ( घृतं दुहानाः ) घृतवत् स्नेह,  
जल आदि पुष्टिकारक पदार्थों की ( दुहानाः ) वृद्धि करती हुई स्वयं भी  
( विश्वतः ) सब प्रकार से ( प्रपीताः ) सुख तृप्त, सन्तुष्ट, एवं दृष्ट पुष्ट  
होकर रहें । हे उत्तम देवियो ! ( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात ) आप  
सब हमारी सदा उत्तम साधनों और शान्तिदायक यज्ञादि से रक्षा करो ।  
इसी प्रकार राष्ट्र में सेनायों, शत्रुओं और दुष्टों को दग्ध करने से उपाएं है  
और प्रजाएं राजा की प्रिय होने से उपाएं हैं । वे अश्वगों, भूमि, वीर  
पुरुषों से युक्त, ऐश्वर्यवान् हो के तेज को बढ़ाती हुई सब प्रकार से  
प्रसन्न, तृप्त हों । इति सप्तविंशो वर्गः ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥

अथ षष्ठोऽध्यायः

[ ८१ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ छन्दः—१ विराड् बृहती । २ भुरिग्बृहती ।

३ आषी बृहती । ४, ६ आषी भुरिग् बृहती, निचृद् बृहती ॥ षडृचं सूक्तम् ॥

प्रत्यु अदर्श्यायत्यु च्छन्ती दुहिता दिवः ।

अपो महि व्ययति चक्षसे तमो ज्योतिष्कृणोति सुनरी ॥१॥

भा०—जिस प्रकार ( दिवः दुहिता ) सूर्य की पुत्री के समान

प्रकाश से जगत् को पूर्ण करने वाली, प्रकाश की देने वाली उपा  
(आयती) आती हुई, और (उच्छन्ती) प्रकट होती हुई (प्रति अदर्शि उ)  
सब को स्पष्ट दिखाई देती है, वह (महि तमः) बड़े अन्धकार को (अपो-  
व्ययति उ) दूर करती है, और (चक्षसे) सब को दिखलाने के लिये  
(ज्योतिः कृणोति) प्रकाश करती है उसी प्रकार (सूनरी) उत्तम नायिका  
विदुषी स्त्री, (दिवः दुहिता) सब कामनाओं और व्यवहारों को पूर्ण,  
सफल करने वाली, (आयती) आती हुई, (उच्छन्ती) अपने गुणों को  
प्रकट करती हुई, (प्रति अदर्शि) प्रतिदिन दिखाई दे। वह (चक्षसे)  
सम्यग् दर्शन करने और अन्यों को उपदेश करने के लिये (महि तमः अपो  
व्ययति) बहुत अन्धकार अज्ञान को दूर करे और (ज्योतिः कृणोति)  
ज्ञान प्रकाश का सम्पादन करे।

उदुस्त्रियाः सृजते सूर्यः सचा उद्यन्नक्षत्रमर्चिवत् ।

तवेदुपो व्युपि सूर्यस्य च सं भक्तेन गमेमहि ॥ २ ॥

भा०—जिस प्रकार (अर्चिवत्) तेज से युक्त (नक्षत्रम्) नक्षत्र  
रूप (सूर्यः) सूर्य भी (उस्त्रियाः सचा उत्सृजते) किरणों को एक  
साथ ऊपर फेंकता है, हे (उपः) उपा ! (तव इत् सूर्यस्य उपि) तेरे और सूर्य  
के उपा काल में जिस प्रकार (भक्तेन सं गमेमहि) हम भजन करने योग्य  
प्रभु से संगति लाभ करें, उसी प्रकार हे (उपः) कान्तिमति, उत्तम  
विदुषि नववधु ! जब (उत्-यत्) उगता हुआ (अर्चिवत्)  
अन्यों के आदर सत्कार योग्य (नक्षत्रम्) नक्षत्र के समान (नक्षत्रं)  
व्यापक राज्य के पालने में समर्थ बल हो और (सचा) साथ ही (सूर्यः)  
सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष (उस्त्रियाः) उन्नतिशील प्रजाओं को किरणों  
के समान (उत्सृजते) उन्नति की ओर ले जाता है, तब (तव इत् वि-  
उपि, सूर्यस्य च वि-उपि) तेरी और तेरे पति तेजस्वी पुरुष की विशेष  
इच्छा और प्रताप होने पर (भक्तेन सं गमेमहि) हम उत्तम सेवनीय  
ऐश्वर्यादि का लाभ करें।

प्रति त्वा दुहितर्दिव उषो जीरा अभुत्स्महि ।

या वहसि पुरुस्पार्हं वनन्वति रत्नं न दाशुपे मयः ॥ ३ ॥

भा०—हे ( दिवः दुहितः ) सूर्यवत् तेजस्वी की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, हे ( उपः ) तेजस्विनि ! पापी पुरुषों को भस्म कर देने वाली ! हम लोग ( जीराः ) अति शीघ्रकारी होकर ( त्वा प्रति ) तुझे ( अभुत्स्महि ) ऐसा जानते हैं कि हे ( वनन्वति ) उत्तम सेव्य धन की स्वामिनि ! ( या ) जो तू ( पुरु स्पार्हं ) बहुत अधिक, चाहने योग्य ऐश्वर्य ( वहसि ) धारण करती है वह तू ( रत्नं न ) रमणीयवत् और ( मयः ) सुखकारी पदार्थ ( दाशुपे ) दान देने वाले के लिये ही ( वहसि ) धारण करती है ।

उच्छन्ती या कृणोषि मंहना महि प्रख्यै देवि स्वर्दृशे ।

तस्यास्ते रत्नभाज ईमहे वयं स्याम मातुर्न सूनवः ॥ ४ ॥

भा०—( या ) जो तू हे ( देवि ) दानशीले ! कमनीयकान्ते ! हे ( महि ) पूजनीये ! जिस प्रकार उषा ( प्रख्यै ) सब पदार्थों को बतलाने और ( दृशे ) देखने के लिये ( स्वः उच्छन्ती ) स्वयं प्रकट होती हुई, सूर्य को प्रकट कर देती है उसी प्रकार तू भी ( उच्छन्ती ) गुणों को प्रकाशित करती हुई ( प्रख्यै ) उत्तम ख्याति लाभ करने और ( दृशे ) दर्शन करने के लिये ( मंहना ) अपने पूज्य व्यवहार से ही ( स्वः ) आदित्यवत् तेजस्वी पुरुष, या पुत्र को भी ( कृणोषि ) उत्पन्न करती है । ( रत्नभाजः ) पुत्रादिरत्न को धारण करने वाली तुझ से ही हम ( ईमहे ) अन्नादि याचना करें और ( वयम् ) हम लोग ( मातुः सूनवः न ) माता के पुत्रों के समान ( स्याम ) तेरे कृपापात्र बने रहें ।

तच्चित्रं राधु आ भरोषो यद्दीर्घश्रुत्तमम् ।

यत्ते दिवो दुहितर्मर्तभोजनं तद्रास्व भुनजामहे ॥ ५ ॥

भा०—हे ( उपः ) पापों को जला देने हारी ! हे कान्तिमति विदुषि !

हे प्रभुशक्ते ! तू हमें ( तत् ) वह ( चित्रम् ) अद्भुत, सद्ब्रह्म योग्य,  
( राधः ) ऐश्वर्य ( आ भर ) प्रदान कर ( यत् दीर्घ-श्रुत्तमम् ) जो सब से  
अधिक दीर्घ काल तक श्रवण करने योग्य हो । हे ( दिवः दुहितः ) सूर्य की  
पुत्री उपावत् तेजस्वी पिता की कन्ये ! एवं तेजस्वी पुरुष की कामना पूर्ण  
करने हारी ! एवं दूर देश में विवाहिता होकर हितकारिणि ! ( यत् ते  
मर्त्त-भोजनम् ) जो तेरा मनुष्यों को पालन करने वाला सामर्थ्य है ( तत् )  
वह तू हमें ( रास्व ) प्रदान कर, ( भुनजामहे ) हम उसी का  
भोग करें ।

श्रवः सूरिभ्यो अमृतं वसुत्वन् वाजांश्चस्मभ्यं गोमतः ।  
चोदयित्री मघोनः सुनृतावत्युषा उच्छ्रदपस्त्रिधः ॥ ६ ॥ १ ॥

भा०—हे (सूनृतावति) उत्तम ऋत ज्ञान और धन की स्वामिनि !  
तू (सूरिभ्यः) विद्वान् पुरुषों के लिये (अमृतम्) कभी नाश न होने  
वाला, अमृतमय (श्रवः) श्रवणयोग्य ज्ञान और आयुप्रद अन्न तथा  
(वसुत्वन्) ऐश्वर्ययुक्त कीर्त्ति, और (गोमतः वाजान्) भूमिसम्पन्न  
ऐश्वर्य प्रदान कर । तू (मघोनः) ऐश्वर्य वालों को भी (चोदयित्री)  
अपने अधीन जलाती हुई (स्त्रिधः) हिंसक दुष्टों को (अप उच्छ्रत्) दूर  
कर । यहां प्रभुशक्ति का वर्णन स्पष्ट है । इति प्रथमो वर्गः ॥

[ ८२ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः—१, २, ६, ७, ९ निचृज्जगती ।  
३ आर्ची सुरिग् जगती । ४, ५, १० आर्षी विराड् जगती । ८ विराड् जगती ॥

दशर्चं सूक्तम् ॥

इन्द्रावरुणा युवमध्वराय नो विशे जनाय महि शर्म यच्छ्रुतम् ।  
दीर्घप्रयज्युमति यो वनुष्यति वयं जयेम पृतनासु दूह्यः ॥ १ ॥

भा०—हे (इन्द्रावरुणा) इन्द्र, शत्रु के हनन करनेहारे ! हे  
(वरुण) वरण करने योग्य सर्वश्रेष्ठ ! (युवम्) आप दोनों (अध्वराय)



हिंसा से रहित ( नः ) हमारे ( विशे जनाय ) प्रजाजन को ( महि शर्म ) बड़ा भारी सुख शरण ( यच्छतम् ) प्रदान करो । ( दीर्घ-प्रयज्युम् ) दोर्घ काल से उत्तम संगति वाले, एवं चिरकाल से कर, वृत्ति, आदि देने वाले पुरुष की ( यः ) जो अति ( वनुष्यति ) मर्यादा का अतिक्रमण करके हिंसा करे या उससे अपने अधिकार से अधिक मांगे उसको और ( दृढ्यः ) दुष्ट बुद्धि और दुष्ट कर्म करने वालों को ( वयं ) हम ( पृतनासु ) संग्रामों या मनुष्यों के बीच में ( जयेम ) विजय करें, उन्हें नीचा कर हम उनसे ऊंचे हों ।

सम्राट् अन्यः स्वराट् अन्य उच्यते वां महान्ताविन्द्रावरुणा महावसू ।  
विश्वे देवासः परमे व्योमनि सं वामोजो वृषणा सं वलं दधुः ॥२॥

भा०—इन्द्र और वरुण का स्वरूप स्वयं वेद कहता है । ( इन्द्रा वरुणा ) इन्द्र और वरुण दोनों ( महान्तौ ) गुणों और बलों में महान् सामर्थ्यवान् और दोनों ( महावसू ) बड़े भारी वसु अर्थात् धन और अधीन बसे प्रजा के स्वामी हैं । अर्थात् एक अपार धन का स्वामी है और दूसरा अनेक बसे प्रजाजनों का स्वामी है । एक के पास धनबल दूसरे के पास जनबल है अर्थात् एक कौशवान् और दूसरा दण्डवान्, एक अर्थपति दूसरा बलाध्यक्ष है । ( वाम् ) आप दोनों में से ( अन्यः सम्राट् ) एक तो 'सम्राट्' और ( अन्यः स्वराट् ) दूसरा 'स्वराट्' ( उच्यते ) कहलाता है । अच्छी प्रकार देदीप्यमान होने से सम्राट् और 'स्व' धन और 'स्व' अपने जन से राजावत् प्रकाशमान होने से 'स्वराट्' है । ( वाम् ) आप दोनों के ( परमे ) सर्वोत्कृष्ट ( वि-ओमनि ) विशेष रक्षण और प्रजा को तृप्त, सन्तुष्ट वा अनुरक्त कर देने के प्रधान पदाधिकार के अधीन रहते हुए ( विश्वे देवासः ) सब विद्वान्, वीर और व्यवहारवान् मनुष्य ( ओजः सं दधुः ) अपना पराक्रम या तेज एक साथ संयोजित करें और ( वलं सं दधुः ) अपना बल एक साथ लगावें ।

अन्वृपां खान्यतृन्तमोजसा सूर्यमैरयतं दिवि प्रभुम् ।  
इन्द्रावरुणा मदे अस्य मायिनोऽपिन्वतमपितः पिन्वतं धियः॥३॥

भा०—आप दोनों ( अपां ) प्रात अधीनस्थ प्रजाओं के यातायात के लिये ( खानि ) जलों के मार्गों के समान ही नाना मार्ग (अनु अतृन्तम्) उनके अनुकूल रूप से बनाते हो, और ( दिवि ) शासन और व्यवहार क्षेत्र में ( प्रभुम् ) अधिक सामर्थ्यवान् ( सूर्यम् ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष को ( ऐरयतम् ) प्रेरित करते हो । ( अस्य ) इस ( मायिनः ) प्रज्ञावान् और शिल्पशक्ति के स्वामी के ( मदे ) प्रसन्न, तृप्त वा सन्तुष्ट रहने पर ही ( इन्द्रा वरुणा ) पूर्व कथित इन्द्र और वरुण, अर्थ और बल के अध्यक्ष जन ( अपितः ) अरक्षित प्रजाओं को भी ( अपिन्वतम् ) सींचते बढ़ाते और ( धियः पिन्वतम् ) नाना कर्मों और शिल्पों को भी सींचते, पुष्ट करते हैं ।

युवामिद्युत्सु पृतनासु वह्नयो युवां क्षेमस्य प्रसवे मितज्ञवः ।  
ईशाना वस्व उभयस्य कारव इन्द्रा वरुणा सुहवा हवामहे॥४॥

भा०—हे ( इन्द्रा-वरुणा ) इन्द्र ऐश्वर्यवान् ! हे ( वरुण ) शत्रु जनों और दुष्टों और विघ्नों को दूर हटाने वाले दोनों अध्यक्ष जनो ! ( वह्नयः ) नाना कार्यों को अपने ऊपर वहन करने वाले प्रधान तेजस्वी पुरुष ( युत्सु ) युद्धों और ( पृतनासु ) सेनाओं और मनुष्य प्रजाओं के बीच में ( युवाम् ) तुम दोनों को (हवन्ते) बुलाते हैं । और (मित-ज्ञवः) मित ज्ञान वाले वा ज्ञानी वा विनय से गोड़े सिकोड़ कर बैठने वाले, सभ्य, वा परिमित, कदम बढ़ाने वाले जन (क्षेमस्य प्रसवे) अप्राप्त धन को प्राप्त करने के लिये ( युवाम् ) आप दोनों को ही याद करते हैं । (कारवः) क्रिया कुशल, शिल्पी जन और वेद मन्त्रों के द्रष्टा हम विद्वान् जन ( उभयस्य वस्वः ईशाना ) ऐहिक और पारमार्थिक वा चर और अचर

दोनों प्रकार के धन के स्वामी आप दोनों (सु-हवा) सुख से पुकारे जाने योग्य, शुभ नाम वाले, सुगृहीतनामधेय वा सुखदाताओं को (हवामहे) पुकारते हैं। आप दोनों को हम अपना प्रमुख बनायें।

इन्द्रावरुणा यद्विमानि चक्रथुर्विश्वा जातानि भुवनस्य सज्जना ।  
क्षेमेण मित्रो वरुणं दुवस्यति मरुद्भिरुग्रः शुभम् अन्य ईयते ॥५॥२॥

भा०—आधिदैविक दृष्टान्तों से इन्द्र वरुण का रहस्य। जिस प्रकार (मित्रः) प्राणवत् प्रिय, सबका मित्र सूर्य (वरुणं) आकाश को आच्छादन करने वाले मेघ को (क्षेमेण दुवस्यति) प्रजा के पालन-सामर्थ्य अन्न जलादि से युक्त करता है और (अन्यः) दूसरा (उग्रः) प्रबल वायु (मरुद्भिः) मध्यस्थानीय अन्तरिक्षस्थ वायुओं से (शुभम् ईयते) जल को प्राप्त कराता है और इस प्रकार वे दोनों सूर्य और वायु या विद्युत् (सज्जना) अपने बल से (भुवनस्य इमा विश्वा जातानि) संसार के इन समस्त प्राणियों को (चक्रथुः) उत्पन्न करते हैं इसी प्रकार (यत् इन्द्रावरुणा) जो इन्द्र और वरुण ऐश्वर्य और दण्ड के अध्यक्ष जन (सज्जना) अपने धन और सैन्य बल से (इमानि विश्वा जातानि) इन समस्त जनों को (चक्रथुः) अपने अधीन करते और सुखपूर्वक समृद्ध करते हैं, वे कैसे करते हैं? (मित्रः) सबको मरने या नाश होने से बचाने वाला, सर्वस्नेही, न्यायाध्यक्ष ब्राह्मण वर्ग (वरुणं) दुष्टों के वारण करने वाले दण्डवान् पुरुष को (क्षेमेण) प्रजा के योग क्षेम या रक्षा या प्राप्त धन के सामर्थ्य से (दुवस्यति) युक्त करता है उसको प्रजा की रक्षा और अन्नादि से पालन का सर्वाधिकार सौंपता है और (अन्यः) दूसरा (उग्रः) अति बलवान् पुरुष (मरुद्भिः) वीर, शत्रुमारक सुभयों से युक्त होकर (शुभम् ईयते) सुशोभित पद को प्राप्त करता है। इति द्वितीयो वर्गः ॥  
सहेशुल्काय वरुणस्य नु त्विष ओजो मिमाते भुवमस्य यत्स्वम् ।  
अजाभिमन्यः शन्थयन्तुमातिरद्वभ्रेभिरन्यः प्र वृणोति भूयंसः ६

भा०—( अस्य वरुणस्य ) इस 'वरुण' का ( यत् ) जो ( ध्रुवम् स्वम् ) स्थिर धन सम्पदा है उस ( महे शुल्काय ) बड़े भारी ऐश्वर्य की वृद्धि करने और ( त्विषे ) तेज की वृद्धि करने के लिये ( नु ) भी 'इन्द्र और वरुण' दोनों ही ( भोजः ) बल और पराक्रम करते हैं । कैसा पराक्रम करते हैं कि—( अन्यः ) एक तो ( श्रथयन्तम् अजामिम् ) हिंसा करने वाले शत्रु को ( आ अतिरत् ) सब ओर से नाश करता है और ( अन्यः ) दूसरा ( दभ्रेभिः ) हिंसाकारी साधनों शस्त्रास्त्रों से ( भूयसः प्र वृणोति ) बहुत से शत्रुओं को आच्छादित करता, घेरता और उनको दूर से ही वारण करता है । अर्थात् एक का कर्म है आक्रमणकारी को दण्ड देना, दूसरे का कार्य है दूर से ही उसको वारण करना । 'आ अतिरत् इति इन्द्रः प्रवृणोति इति वरुणः । इति वेदोक्तनिर्वचनम् ।'

न तमंहो न दुरितानि मर्त्यमिन्द्रावरुणा न तपः कुतश्च न ।  
यस्य देवा गच्छथो वीथो अध्वरं न तं मर्तस्य नशते परिहृतिः ७

भा०—हे ( देवा ) दानशील, हे तेजस्वी, हे विजय की कामना करने वाले ( इन्द्रा-वरुणा ) शत्रुहन्ता और विघ्ननिवारक अध्यक्ष जनो ! आप दोनों ( यस्य मर्तस्य अध्वरं ) राष्ट्र या मनुष्य प्रजा वर्ग के 'अध्वर' अर्थात् हिंसा से रहित प्रजा पालन के कार्य या यज्ञ को ( गच्छथः ) जाते हो और ( वीथः ) जिसके यज्ञ की रक्षा करते हो ( तम् मर्तम् ) उस मनुष्य तक ( न अंहः नशते ) न पाप पहुंचता है ( न दुरितानि ) न बुरे, कष्टदायी फल प्राप्त होते हैं, ( कुतः चन न तपः ) न किसी से या किसी प्रकार उसे सन्ताप या पीड़ा होती है, ( तं न परिहृतिः नशते ) और न उसको किसी की कुटिल चाल ही सताती है ।

अर्वाङ्गिरा दैव्येनावसा गतं शृणुतं हव्यं यदि मे जुजोषथः ।

युवोर्हि सख्यमुत्त वा यदाप्यं माडींकिमिन्द्रावरुणा नि यच्छतम् ८

भा०—हे ( इन्द्रा-वरुणा ) ऐश्वर्यवान् ! हे शत्रुवारक श्रेष्ठ जनो !

हे ( नरा ) उत्तम नायको ! ( यदि ) यदि आप दोनों ( मे जुजोपथः )  
मुझ से प्रेम करते हो तो ( मे हवं शृणुतम् ) मेरा वचन श्रवण करो ।  
और ( दैव्येन ) देव, विद्वान् और वीर पुरुषों से बने और मनुष्यों के  
हितकारी ( भवसा ) रक्षा आदि सहित ( अर्वाङ् भागतम् ) हमारे समीप  
आओ । ( युवोः ) आप दोनों का ( हि ) निश्चय से ( यत् ) जो ( सख्यम् )  
मित्रता और ( मार्डीकम् आप्यम् ) अति सुखकारी बन्धुता है आप दोनों  
उस मित्र और बन्धुता का हमें ( नि यच्छतम् ) प्रदान करो ।

अस्माकमिन्द्रा वरुणा भरेभरे पुरोयोधा भवतं कृष्योजसा ।  
यद्वां हवन्त उभये अर्ध स्पृधि नरस्तोकस्य तनयस्य सातिपु ९

भा०—हे ( कृष्योजसा इन्द्रावरुणा ) 'कृष्टि' अर्थात् शत्रु के  
कर्षण, पीड़ा करने वाली सेनाओं, पराक्रम करने वाले इन्द्र और वरुण,  
शत्रुहन्ता और, शत्रुवारक अध्यक्षजनो ! आप दोनों ( अस्माक भरे भरे )  
हमारे प्रत्येक संग्राम में ( पुरोयोधा भवतम् ) आगे रहकर लड़ने वाले  
होवे । ( यत् ) जो ( नरः ) मनुष्य ( उभये ) सबल और निर्बल दोनों  
ही ( तोकस्य तनयस्य सातिपु ) पुत्र पौत्र तक के सेवन करने योग्य स्थायी  
भूमि आदि सम्पदा को प्राप्त करने के निमित्त ( स्पृधि ) परस्पर वृद्धि में  
( वां हवन्ते ) तुम दोनों को आश्रय रूप से प्राप्त करते हैं ।

अस्मे इन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा द्युम्नं यच्छन्तु महि शर्म सप्रथः ।  
अवधं ज्योतिरदितेर्ऋतावृधो देवस्य श्लोकं सवितुर्मनामहे १०।३

भा०—( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् जलप्रदाता, सूर्यवत् तेजस्वी ( वरुणः )  
मेघवत् उदार, वरुण करने योग्य, ( मित्रः ) सर्वस्नेही, ( अर्यमा ) शत्रुओं  
का नियन्त्रण करने में कुशल पुरुष ( अस्मे ) हमें ( महि द्युम्नं ) बड़ा  
ऐश्वर्य और ( सप्रथः शर्म ) विस्तारयुक्त शरण, गृह आदि ( यच्छन्तु )  
प्रदान करें । ये सब ( ऋत-वृधः ) सत्य, न्याय, धन आदि को बढ़ाने  
और उनके बल पर स्वयं बढ़ने वाले होकर ( अदितेः ) अखण्ड शासन-

कर्ता, प्रजा-के माता पिता एवं पुत्रवत् प्रिय पालक के ( अवध्रं ) न नाश होने वाले ( ज्योतिः ) ज्ञान और प्रताप का प्रदान करें । हम भी उसी ( देवस्य ) सर्वदाता ( सवितुः ) सर्वैश्वर्यवान् प्रभु की ( श्लोकं ) वाणी वेद तथा आज्ञा का ( मनामहे ) आदर से मान तथा मनन करें । इति तृतीयो वर्गः ॥

[ ८३ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः—१, ३, ६ विराड् जगती । २, ४, ६ निचृज्जगती । ५ आर्ची जगती । ७, ८, १० आर्षी जगती ॥ दशर्चं सूक्तम् ॥

युवां नरा पश्यमानासु आप्यं प्राचा गव्यन्तः पृथुपर्शवो ययुः ।  
दासा च वृत्रा हतमार्याणि च सुदासामिन्द्रावरुणावसावतम् ॥१॥

भा०—जिस प्रकार प्राचा पूर्व दिशा से ( आप्यं पश्यमानासः )

‘आपः’ जलों के आगमन के लक्षण देखते हुए ( गव्यन्तः ) भूमि के कर्षणादि के इच्छुक ( पृथु-पर्शवः ) बड़े हल, फावड़े आदि लेकर भूमि खोदने के लिये जाते हैं उसी प्रकार हे ( नरा ) उत्तम नायक जनो ! ( प्राचा ) सम्मुख से परस्पर ( आप्यं ) बन्धुभाव वा प्राप्तव्य लक्ष्य को ( पश्यमानासः ) देखते हुए ( गव्यन्तः ) भूमि के विजय की कामना करते हुए ( पृथु-पर्शवः ) बड़े २ परशु आदि शस्त्रास्त्र हाथ में लिये ( ययुः ) आगे बढ़ें । जिस प्रकार वायु और विद्युत् दोनों ( वृत्रा हतम् ) मेघस्थ जलों पर आघात करते हैं उसी प्रकार ( युवां ) हे इन्द्र और वरुण ! शत्रुहनन और शत्रु वारण करने वाले ! आप दोनों ( दासा ) विनाशकारी और ( आर्याणि ) ‘अरि’ अर्थात् शत्रु-पक्ष के ( वृत्रा ) बढ़ते हुए शत्रु-सैन्यों को ( हतम् ) मारो और ( दासा च ) भृत्यादि तथा ( आर्याणि ) ‘आर्य’ स्वामी वा वैश्यों के उपयोगी ( वृत्रा ) नाना धनों को भी ( हतम् ) प्राप्त करो। हे ( इन्द्रावरुणा ) ऐश्वर्यवान् ! हे श्रेष्ठ पुरुष ! तुम

दोनों ( सु-दासम् ) उत्तम दानशील, धनी तथा उत्तम भृत्य आदि की भी ( अवसा अवतम् ) रक्षादि साधनों द्वारा रक्षा करो ।

यत्रा नरः समयन्ते कृतध्वजो यस्मिन्नाजा भवति किं च न प्रियम् ।  
यत्रा भयन्ते भुवना स्वर्दशस्तत्रा न इन्द्रावरुणाधि वोचतम् ॥२॥

भा०—( यत्र ) जिस संग्राम में ( कृत-ध्वजः नरः ) झण्डे हाथ में लिये नाना नाथक जन ( सम् अयन्त ) एक साथ प्रयाण करते हैं और ( यस्मिन् आजा ) जिस संग्राम में ( किं च न प्रियं भवति ) शायद कुछ ही प्रिय होता हो अर्थात् ( किं च प्रियं न भवति ) कुछ भी प्रिय नहीं होता, ( यत्र ) जहां ( स्वर्दशः ) सूर्यवत् तीव्र तीक्ष्ण दृष्टि वाले तेजस्वी पुरुष से ( भुवना ) समस्त श्लोक, प्राणी ( भयन्ते ) भय करते हैं ( तत्र ) ऐसे संग्राम के अवसरों में ( इन्द्रा वरुणा ) इन्द्र, वरुण नाम पदाधिकारी जन ( नः अधि वोचतम् ) हम लोगों के अध्यक्ष होकर आज्ञा, शासन आदि किया करें ।

सं भूम्या अन्ता ध्वसिरा अदक्षतेन्द्रावरुणा दिवि घोष आरुहत् ।  
अस्थुर्जनानामुप मामरातयोऽर्वागवसा हवन श्रुता गतम् ॥३॥

भा०—जव ( भूम्याः अन्ताः ) भूमि के प्रान्त भाग ( ध्वसिराः सम् अदक्षन्त ) सब नष्ट भ्रष्ट दिखाई देवें ( दिवि घोषः आरुहत् ) आकाश या पृथ्वी भर में बड़ा कोलाहल गूँज रहा हो और ( अरातयः ) शत्रु लोग ( जनानाम् उप ) राष्ट्रवासी मनुष्यों के पास तक और ( माम् उप अस्थुः ) मुझ प्रजा वर्ग तक आ पहुँचें ऐसी दशा में भी है ( इन्द्रा-वरुणा ) शत्रु के नाशक और वारक जनो ( हवन-श्रुता ) आह्वान पुकार सुनने वाले आप दोनों दयार्द्र-भाव होकर ( अवसा आगतम् ) रक्षा-सामर्थ्य सहित प्राप्त होओ । अथवा—भूमि के अन्त-दिगन्त पराजित दीखें, आकाश भूमि भर में ( घोषः ) जयघोष उठे । ( जनानाम् अरातयः ) राष्ट्रवासी जनो में विद्यमान अराति, दुष्ट, दूसरों का लेकर न देने वाले अपराधी

लोग मेरे पास उपस्थित हों, पकड़ कर हाज़िर किये जावें, तब हे ( हवन-  
श्रुता ) जनता की पुकार, उनके वचनों का श्रवण करते हुए ( अवसा )  
न्याय रक्षा द्वारा ( अर्वाक् आगतम् ) आप दोनों सब के सम्मुख आओ ।  
इन्द्रावरुणा वधनाभिरप्रति भेदं वन्वन्ता प्र सुदासमावतम् ।

ब्रह्माण्डेषां शृणुतं हवीमनि सत्या तृत्सूनामभवत्पुरोहितः ॥४॥

भा०—हे (इन्द्रावरुणा) शत्रु का हनन करने और वारण करने वाले  
वीर पुरुष वर्गों ! आप दोनों ( वधनाभिः ) शत्रु को दण्ड देने और नाश  
करने वाली नीतियों से और सेनाओं से ( अप्रति ) अप्रत्यक्ष रूप से  
( भेदं ) शत्रु को छिन्न भिन्न और फूट फाट ( वन्वन्ता ) करते हुए वा ( भेदं  
वन्वन्ता ) राष्ट्र भेदकशत्रु को नाश करते हुए ( सुदासम् ) शुभ  
दानशील, उत्तम भृत्यादि से युक्त राजा की ( प्र अवतम् ) अच्छी प्रकार  
रक्षा करो । ( हवीमनि ) परस्पर प्रतिस्पर्धा करने योग्य संग्राम में ( एषां )  
इन विद्वान् प्रजाजनों के ( ब्रह्माण्डेषां ) उत्तम ज्ञान-वचनों को ( शृणुतं ) श्रवण  
करो । ( तृत्सूनां ) शत्रुओं को मार गिराने वाले इन वीर सैन्यों की और  
संशयोच्छेदी विद्वानों की ( पुरोहितः ) सबसे आगे स्थिति और अग्रासन पदपर  
विराजना ( सत्या अभवत् ) सत्य, सफल और सज्जनों के लिये हितकारी हो ।  
इन्द्रावरुणावभ्या तपन्ति माघान्यर्यो वनुपामरातयः ।

युवं हि वस्व उभयस्य राजथोऽर्धस्मानोऽवतं पार्यं दिवि ॥५॥४॥

भा०—हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र, शत्रुहन्तः ऐश्वर्यवन् ! हे वरुण  
शत्रुओं के वारक एवं प्रजा द्वारा द्रवणीय ! ( अर्थः ) शत्रु के किये ( अधानि )  
पापाचार और ( वनुपाम् ) हिंसक जनों या मांग कर ले लेने वालों में से  
भी ( अरातयः ) दूसरों का सर्वस्व या अधिकार हर कर न देने वाले  
जन ही ( मा ) मुझ राष्ट्र वासी जन को ( अभि आ तपन्ति ) सब ओर  
से सताया करते हैं । ( युवं हि ) आप दोनों निश्चय से ( उभयस्य ) मुझ  
प्रजाजन और मुझे सताने वाले ( वस्वः ) राष्ट्र में बसने वाले दोनों के



ऊपर ( राजथः ) राजावत् शासन करो ( अध ) इसलिये आप दोनों ( पार्थे दिवि ) पालन करने वाले शासन व्यवहार के पद पर स्थित होकर ( नः अवतं स्म ) हमारी रक्षा किया करो ।

युवां हवन्त उभयास आजिष्विन्द्रं च वस्वो वरुणं च सातये ।  
यत्र राजभिर्दशभिर्निवाधितं प्र सुदासमावतं तृत्सुभिः सह ॥६॥

भा०—( यत्र ) जिन संग्रामों में ( दशभिः राजभिः ) दसों राजाओं वा तेजस्वी पुरुषों से ( नि वाधितम् ) अति पीड़ित ( सुदासं ) उत्तम दानशील पुरुष को ( तृत्सुभिः ) शत्रु को काट गिरा देने वाले वीर भटों के साथ ( प्र अवतम् ) अच्छी प्रकार रक्षा करते हो उन ( आजिषु ) युद्धों में ( इन्द्रं च ) ऐश्वर्यवान् और ( वरुणं च ) श्रेष्ठ ( युवां ) आप दोनों को ( वस्वः सातये ) धनैश्वर्यादि के लाभ के लिये ( उभयासः ) वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष के लोग ( हवन्ते ) पुकारते हैं, दोनों आप से न्याय देने की प्रार्थना करते हैं ।

दश राजानः समिता अयज्यवः सुदासमिन्द्रावरुणा न युयुधुः ।  
सत्या नृणामद्वासदामुपस्तुतिर्देवा एषामभवन्देवहृतिषु ॥ ७ ॥

भा०—( अयज्यवः ) दान न देने वाले, परस्पर सत्संग देव-पूजा और संगति न करने वाले ( दश राजानः ) दस तेजस्वी पुरुष भी ( सम् इताः ) एक साथ आकर ( सुदासम् न युयुधुः ) उत्तम दानशील तथा उत्तम रीति से शत्रु का नाश करने में कुशल राजा के साथ युद्ध नहीं कर सकते । ( अद्वासदाम् ) एक समान अन्न के आश्रय पर स्थित ( नृणाम् ) मनुष्यों की ( उपस्तुतिं ) समीप २ बैठ कर की हुई प्रार्थना भी ( सत्या ) सत् फलजनक होती है । ( एषाम् ) इनके ( देव-हृतिषु ) विद्वान् वीरों को आह्वान करने योग्य अवसरों, यज्ञों और संग्रामों के अवसरों पर ( देवाः ) विद्वान् और वीर पुरुष ( अभवन् ) सहायक होते हैं ।

दाशराज्ञे परियत्ताय विश्वतः सुदास इन्द्रावरुणावशिक्षतम् ।  
शिवत्यञ्चो यत्र नमसा कपर्दिनो धिया धीवन्तो असपन्त  
तृत्सवः ॥ ८ ॥

भा०—( परियत्ताय ) सब तरफ से नियन्त्रित, ( दाश-राज्ञे ) दशों  
राजाओं के बीच प्रबल होकर विद्यमान ( सुदासे ) उत्तम दानशील  
राजा को हे ( इन्द्रावरुणा ) ऐश्वर्यवन् हे शत्रुवारणकारी मनुष्य वर्गों ! वा  
अध्यक्ष जनो ! ( अशिक्षतम् ) आप दोनों ज्ञान, बल प्रदान करो ( यत्र ) जिसके  
अधीन ( शिवत्यञ्चः ) शक्ति अर्थात् उज्वल यश या समृद्धि को प्राप्त  
( कपर्दिनः ) उत्तम जटाजूट वाले वा उत्तम धन सम्पन्न और ( धीवन्तः )  
बुद्धिमान् और कर्मकुशल ( तृत्सवः ) शत्रु नाशकारी, संशयछेदी, त्रिविध  
ऐश्वर्यों के स्वामी लोग ( नमसा ) आदर पूर्वक अन्न और वज्र शस्त्रादि  
सहित ( असपन्त ) समवाय बनाकर रहते हैं । [ कपर्दिनः—कपर्दः—जटा-  
जूटः अथवा कपर्दः धनम् । कौडी इत्युपलक्षणम् । तद्वन्तः ] पैसे वाले ।  
अर्थात् जिसके अधीन धनाढ्य, कीर्त्तिमान, समृद्ध, बुद्धिमान और वीर  
पुरुष सब एकत्र हो जायं उसी प्रकार उत्तम वृत्तिदाता, राजा 'इन्द्र वरुण'  
पदाध्यक्ष बलैश्वर्य दें । अध्यात्म में—देह में दश प्राण, दश इन्द्रियगण  
दश राजा हैं, वे दस स्थानों पर पृथक् विद्यमान हैं । परस्पर उनका कोई  
सीधा सम्बन्ध या संगति नहीं होने से 'अयञ्ज्यु' हैं । एक ही साथ वे हमें  
प्राप्त ( सम्-इताः ) हैं । आत्मा 'सुदास' है प्राण अपान इन्द्र-वरुण हैं ।  
सुखप्रद ज्ञान तन्तु गण तृत्सु हैं । वे सुखपूर्वक होने से 'कपर्दि' हैं ।  
वे 'नमसा धिया' अन्न और बुद्धि के बल से आत्मा के अधीन रहते हैं ।  
वृत्रायन्यः समिथेषु जिघ्रन्ते व्रतान्यन्यो अभि रक्षते सदा ।  
हवामहे वां वृषणा सुवृक्तिभिर्रुस्मे इन्द्रावरुणा शर्म यच्छतम् ९

भा०—हे ( इन्द्रा-वरुणा ) ऐश्वर्यवन् वा शत्रुहन्तः ! हे वरुण !  
दुष्ट और दुष्ट स्वभावों को धारण करने हारे ! आप दोनों में से ( अन्यः )

एक तो ( समिधेषु ) संग्राम और उपकारक कामों वा यज्ञों में ( वृत्राणि जिघ्रते ) बढ़ते, विघ्नकारी पुरुषों को दण्ड देता है और ( अन्यः ) दूसरा विद्वान् आचार्य—(सदा व्रतानि अभि रक्षते) सदा व्रतों की रक्षा करता है । हम लोग ( सुवृक्तिभिः ) उत्तम, आदरपूर्वक वरण क्रियाओं और स्तुतियों से ( वां हवामहे ) आप दोनों को बुलाते हैं, अपनाते हैं और धन, मान आदि प्रदान करते हैं । हे इन्द्र ! हे वरुण ! सेना-सभाध्यक्षो ! (अस्ये) हमें आप दोनों ( शर्म यच्छतम् ) सुख प्रदान करो । 'सुवृक्तिः'—  
अत्र ककारोपजनश्छान्दसः ॥

अस्मे इन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा द्युम्नं यच्छन्तु महि शर्म सप्रथः ।  
अवध्रं ज्योतिरदिते ऋतावृधो देवस्य श्लोकं सवितुर्मनामहे १०।५  
भा०—व्याख्या देखो सू० ८२ । म० १० ॥ इति पञ्चमो वर्गः ॥

[ ८४ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः—१, २, ४, ५ निचृत् त्रिष्टुप् ।  
३ त्रिष्टुप् ॥ पञ्चर्च सूक्तम् ॥

आ वां राजानावध्वरे ववृत्यां हव्येभिरिन्द्रावरुणा नमोभिः ।

प्र वां घृताचीं ब्राह्मेर्दधाना परि त्मन्ना विपुरूपा जिगाति ॥१॥

भा०—हे ( इन्द्रावरुणा ) 'इन्द्र' ऐश्वर्यवन् हे 'वरुण' सर्वश्रेष्ठ ! ( राजानौ वां ) दीप्तियुक्त राजावत् शासन करने वाले आप दोनों को मैं ( हव्येभिः नमोभिः ) अन्नों और शस्त्रों तथा उत्तम वचनों और आदर युक्त विनय कार्यों से ( ववृत्यां ) वरण करता हूँ । ( विपु-रूपा घृताची ) बहुत प्रकार की तेजस्विनी वा स्नेहयुक्त प्रजा ( वां ) आप दोनों को ( ब्राह्मोः प्रदधाना ) अपनी बाहुओं के समान शत्रुओं को बाधन या पीड़ा देने वाले प्रधान पदों पर स्थापित करती हुई, पुरुष को स्त्री के समान ( परिजिगाति ) सब प्रकार से प्राप्त होवे । जैसे स्त्री ( वि-सु-रूपा )

विशेष सुन्दरी, ( घृताची ) घृताक्त, अंगप्रत्यंग स्नातानुलिप्त होकर पुरुष को ( बाह्योः प्रदधाना ) अपने बाहुपाशों में लेती हुई उसे ( त्मना ) स्वयं आत्मा से ( परि जिगाति ) सब प्रकार अपनाती है उसी प्रकार से प्रजा भी अनुरक्त होकर उक्त इन्द्र-वरुण दोनों को बाहुवत् सैन्यादि के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर सर्वात्मना अपनावे । घृताचीबाहुविपुरुषादि पदानि श्लिष्टानि ।

युवो राष्ट्रं बृहदिन्वति द्यौर्यौ सेतृभिररज्जुभिः सिनीथः ।

परि नो हेळो वरुणस्य वृज्या उरुं न इन्द्रः कृणवदु लोकम् ॥२॥

भा०—(यौ) जो आप दोनों (अरज्जुभिः) बिना रस्सियों के (सेतृभिः) बन्धन करने वाले राज नियमों और व्रत बन्धनों से ( सिनीथः ) बांध लेते हो ( युवोः ) उन आप दोनों का ( राष्ट्रम् ) राष्ट्र ( बृहत् ) बड़ा होकर ( द्यौः ) सूर्य के समान देदीप्यमान होकर ( इन्वति ) सुख समृद्धि से सब को प्रसन्न करता है । (वरुणस्य हेडः) श्रेष्ठ जन का हमारे प्रति अनादर या क्रोध का भाव ( नः परि वृज्याः ) हम से दूर रहे । ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् पुरुष राजा वा सेनापति ( नः ) हम प्रजाजन के लिये (उरुं लोकं कृणवत्) रहने के लिये विशाल लोक करे, नाना भूमियों को बसाने योग्य बनावे ।

कृतं नो यज्ञं विदथेषु चारुं कृतं ब्रह्माणि सूरिपुं प्रशस्ता ।

उपो रयिर्देवजूतो न एतु प्र एः स्पार्हाभिरुतिभिस्तिरेतम् ॥३॥

भा०—हे विद्वान्, ऐश्वर्यवान्, श्रेष्ठ और दुःखादि वारण करने वाले जनो ! आप दोनों ( नः विदथेषु ) हमारे गृहों में (चारुं यज्ञं कृतं) उत्तम यज्ञ सम्पादन करो । और (सूरिपु) विद्वानों के निमित्त (प्रशस्ता ब्रह्माणि कृतम्) उत्तम २ धन प्रदान करो । (नः) हमें (देवजूतः रयिः) विद्वानों से उपदेश किया और उनके सेवन योग्य धनैश्वर्य (नः उपो

एतु ) हमें सदा प्राप्त हो । आप दोनों (स्पर्हाभिः) चाहने योग्य उत्तम रक्षाओं द्वारा ( प्र तिरेतम् ) बढ़ाओ ।

अस्मे इन्द्रावरुणा विश्ववारं रयिं धत्तं वसुमन्तं पुरुक्षुम् ।

प्र य आदित्यो अनृता मिनात्यमिता शूरो दयते वसूनि ॥ ४ ॥

भा०—( इन्द्रा वरुणा ) हे ऐश्वर्यवान् ! हे वरण करने योग्य ! आप दोनों ( अस्मे ) हमें ( पुरु-क्षुम् ) बहुत से अन्नसम्पदा से युक्त और ( वसुमन्तं ) बहुत सुवर्णादि ऐश्वर्य से युक्त ( विश्ववारं ) सब से वरने योग्य सब कष्टों को दूर करने में समर्थ ( रयिं ) ऐश्वर्य ( धत्तं ) प्रदान करो । ( यः ) जो ( आदित्यः ) सूर्य के समान तेजस्वी और 'अदिति' अखण्ड शासन नीति में कुशल और 'अदिति' भूमिका पुत्रवत् प्रिय वा शासक होकर ( अनृता ) प्रजा के 'ऋत' अर्थात् वेद से विपरीत और असत्य व्यवहारों को ( प्र मिनाति ) नष्ट करता है वह ( शूरः ) शूरवीर पुरुष ( अमिता वसूनि दयते ) अमित धन-सम्पत्ति देता और उसकी रक्षा करता है ।

इयमिन्द्रं वरुणमष्टमे गीः प्रावृत्तोके तनये तूतुजाना ।

सुरत्नासो देववीतिं गमेम यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥५॥६॥

भा०—( मे ) मेरी ( इयं गीः ) यह वाणी ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान्, शत्रुनाशक और ( वरुणं ) श्रेष्ठ पुरुष को ( अष्ट ) लक्ष्य करके हो । वह ( तूतुजाना ) ज्ञान का बराबर प्रदान करती हुई ( तनये तोके ) पुत्र पौत्रादि तक को ( प्र अवत् ) प्राप्त हो । ( वयम् ) हम ( सुर-त्नासः ) शुभ रत्नों और रम्य गुणों को धारण करते हुए ( देववीतिं गमेम ) विद्वानों के ज्ञान-प्रकाश, रक्षा और उनकी सत्कामना को ( गमेम ) प्राप्त करें । हे विद्वान् लोगो ! ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) आप लोग हमें सदा उत्तम आशीर्वादों और सुखजनक उपायों से रक्षा करें । इति षष्ठो वर्गः ॥

[ ८५ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः—१, ४ आपीं त्रिष्टुप् । २, ३, ५  
निचृत् त्रिष्टुप् ॥ पञ्चर्च सूक्तम् ॥

पुनीपे वामरक्षसं मनीषां सोममिन्द्राय वरुणाय जुह्वत् ।

घृतप्रतीकामुपसं न देवीं ता नो यामन्नुरुष्यतामभीके ॥ १ ॥

भा०—हे इन्द्र ! वरुण ! हे ऐश्वर्यवान् ! हे श्रेष्ठ जन ! मैं (इन्द्राय वरुणाय) इन्द्र और वरुण, ऐश्वर्यवान् श्रेष्ठ पुरुष के लिये (सोमं जुह्वत्) ऐश्वर्य प्रदान करता हुआ (वाम्) आप दोनों की (अरक्षसं मनीषाम्) दुष्ट पुरुषों के संग से रहित बुद्धि को (पुनीपे) पवित्र करूं। राजा और सेनापति को प्रजा पर्याप्त धन देकर उसके चित्त से प्रजा को लूटने खसोटने की राक्षसी प्रवृत्ति को दूर करे। (घृत-प्रतीकाम्) स्नेह से सब को उत्तम प्रतीत होने वाली (उपसं देवीं) शत्रु को दग्ध करने और विजय की कामना करने वाली उस मन की प्रजा को मैं स्वच्छ करूं। (ता) वे दोनों (अभीके यामन्) युद्धप्रयाण काल में (नः उरुष्यताम्) हमारी रक्षा करें, आधिदैविक पक्ष में इन्द्र वायु, वरुण जल इनको पवित्र करने के लिये मैं यजमान पुरुष 'सोम' ओपधि समूह को अग्नि में आहुति देकर, हे स्त्री पुरुषो ! आप दोनों की दुष्ट संग से रहित बुद्धि को पवित्र करूं। घृत से प्रदीप्त दाह करने वाली 'उपाः' अग्नि शिखा के समान उज्ज्वल करूं। आप दोनों (अभीके यामन् उरुष्यताम्) परस्पर समीप के प्रेम-विवाहबन्धन में बंधकर परस्पर की रक्षा करो।

स्पर्धन्ते वा उ देवहूये अत्र येषु ध्वजेषु द्विद्यवः पतन्ति ।

युवं ताँ इन्द्रावरुणावमित्रान्हृतं पराचः शर्वा विपूचः ॥ २ ॥

भा०—(अत्र) इस (देव-हूये) मनुष्यों के परस्पर स्पर्धा और ललकार के अवसर रूप संग्राम में लोग (स्पर्धन्ते उ वा) परस्पर

स्पर्द्धा करते हैं तव ( येषु ध्वजेषु ) जिन ध्वजाओं पर ( दिद्यवः पतन्ति )  
चमकती विजुलियों के समान हमारे शस्त्र पड़ते हैं हे ( इन्द्रा वरुणा )  
शत्रुहन्तः हे शत्रुवारक ! ( युवं ) तुम दोनों ( तान् अमित्रान् ) उन  
शत्रुओं को ( हतम् ) मारो और ( विपूचः पराचः शर्वा ) विरुद्ध पक्ष  
के शत्रुओं को शत्रुहिंसक शस्त्रसेना से दूर मार भगा ।

आर्षिचिद्धि स्वयंशसः सदः सु देवीरिन्द्रं वरुणं देवता धुः ।  
कृष्टीरन्यो धारयति प्रविक्त्वा वृत्रायन्यो अप्रतीनि हन्ति ॥३॥

भा०—( स्वयंशसः ) अपने धनैश्वर्य के द्वारा यश प्राप्त करने वाली  
( देवीः ) दानशील, ( देवता ) मानुष प्रजाएं ( सदः सु ) सभा-भवनों  
वा उत्तम २ पदों पर ( इन्द्रं वरुणं धुः ) ऐश्वर्यवान् और श्रेष्ठ पुरुष को  
अच्छी प्रकार मान-आदरपूर्वक स्थापित करें । उन दोनों में से ( एकः ) एक  
इन्द्र नाम अध्यक्ष ( प्रविक्त्वाः ) अच्छी प्रकार सुविभक्त ( कृष्टीः धारयति ) बल-  
वान् हलाकर्षित भूमियों को वृषभ या मेघ के समान प्रजाओं को धारण करता  
है और ( अन्यः ) दूसरा वरुण शत्रुवारक अध्यक्ष ( अप्रतीनि वृत्राणि ) अप्रत्यक्ष  
शत्रुओं को भी दण्डित करे । अर्थात् इन्द्र, वरुण दोनों में से एक का काम  
प्रजा को विभक्त कर शासनव्यवस्था करना और दूसरे का काम दुष्टों का  
दमन करना है । १. दीवानी, २. फौजदारी विभाग ।

स सुक्रतुर्ऋतचिदस्तु होता य आदित्य शवसा वां नमस्वान् ।  
आववर्तदवसे वां हविष्मानसदित्स सुविताय प्रयस्वान् ॥ ४ ॥

भा०—हे ( आदित्याः ) अदिति, अखण्ड राजनीति और भूमि के  
हितैषी जनो ! ( यः ) जो ( होता ) दानशील पुरुष ( शवसा ) अपने  
बल से तुम दोनों के प्रति ( नमस्वान् ) उत्तम अन्नादि सत्कार से युक्त होता  
है ( सः ) वह ( सुक्रतुः ) शुभ कर्म करने हारा और ( ऋतचित् अस्तु )  
सत्य ज्ञान और पुण्य ज्ञान को उपार्जन करने वाला हो । और जो  
( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये ( वां आववर्तत् ) तुम दोनों को प्राप्त

होता है, वह ( प्रयत्नान् ) प्रयत्नशील होकर ( सुविताय इत् आत् ) सुख प्राप्त करने में समर्थ ( हविष्मान् ) उत्तम अन्नसम्पन्न हो । इसी प्रकार जो आहुतिदाता ज्ञान और बल से अन्नवान् होकर उत्तम यज्ञ का कर्त्ता और ( ऋत-चित् ) वेद द्वारा यज्ञचयन करता है सूर्य, वायु और वेद से हविष्मान् हो उत्तम फल प्राप्त करने में समर्थ और यत्नशील होता है ।

इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे गीः प्रावत्तोके तनेये तूतुजाना ।

सुरतनांसो देववीतिं गमेम यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥५॥७॥

भा०—व्याख्या देखो सूक्त ५ । ४ ॥ इति सप्तमो वर्गः ॥

[ ८६ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ४, ५, ८ निचृत् त्रिष्टुप् ।

२, ७ विराट् त्रिष्टुप् । ६ आपीं त्रिष्टुप् ॥ अष्टर्चं सूक्तम् ॥

धीरा त्वस्य महिना जनूपि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुर्वी ।

प्र नाकमृष्वं जुनुदे बृहन्तं द्विता नक्षत्रं पप्रथञ्च भूम ॥ १ ॥

भा०—वरुण परमेश्वर का स्वरूप । ( अस्म महिना ) इस के महान् सामर्थ्य से ( जनूपि ) जन्म लेने वाले समस्त प्राणि वर्ग ( धीरा ) बुद्धि और कर्म द्वारा प्रेरित होते हैं । ( यः ) जो ( चित् ) पूजनीय ( उर्वी रोदसी ) विशाल सूर्य या आकाश और भूमि दोनों लोकों को ( तस्तम्भ ) थामे हुए हैं, वह ही ( बृहन्तं ) बड़े भारी ( ऋष्वं ) महान् ( नाकम् ) सुखस्वरूप परमानन्द को ( प्र जुनुदे ) प्रदान करता है, वही बड़े भारी सूर्य को भी चलाता है । वह ही ( भूम नक्षत्रं च ) बहुत से नक्षत्र गण को ( पप्रथत् ) विस्तृत करता है ।

उत स्वयां तन्वांसंवेदे तत्कदा न्वन्तर्वरुणं भुवानि ।

किं मे हव्यमहृणानो जुपेत कदा मृत्कीकं सुमना अभि ख्यम् ॥२॥



भा०—( उत ) और ( स्वया तन्वा ) मैं अपने इस देह से ( तत् ) उसकी ( कदा ) कब ( संवेद ) स्तुति करूँ, उसके साथ साक्षात् संवाद करूँ और ( कदा नु ) कब मैं ( वरुणे अन्तः ) उस वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष के हृदय में भीतर, वरणीय पति के बीच वधू के समान ( भुवानि ) एक हो सकूँगा । वह प्रभु, नाथ ( अह्वानः ) मेरे प्रति अनादर वा कोप से रहित होकर ( मे हव्यं ) मेरे स्तुतिवचन भेंट को ( किं जुपेत ) क्योंकर प्रेम से स्वीकार करेगा । और मैं ( कदा ) कब ( सुमनाः ) शुभ चित्त होकर उस ( मृडीकं ) परम सुखप्रद, दयालु आनन्दमय को ( अभि ख्यम् ) साक्षात् करूँगा ।

पृच्छे तदेनो वरुण दिदृक्षूपो एमि चिकितुषो विपृच्छम् ।

समानमिन्मे कवयश्चिदाहुरयं ह तुभ्यं वरुणो हृणीते ॥ ३ ॥

भा०—हे ( वरुण ) वरण करने योग्य ! सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! मैं ( दिदृक्षु ) दर्शन करने का अभिलाषी होकर ( तद् एनः पृच्छे ) तुझ से वह पाप पूछता हूँ जिसके कारण मैं यहाँ बंधा हूँ । मैं ( उप-उ एमि ) जिज्ञासु दर्शनाभिलाषी होकर तेरे समीप आया हूँ । और मैं ( चिकितुषः ) ज्ञानी पुरुषों से भी ( वि पृच्छम् ) विविध प्रकार से पूछता रहा हूँ ।

( कवयः चित् ये समानम् इत् आहुः ) पूज्य विद्वान् गण सभी मुझे एक समान ही उपदेश करते रहे हैं कि निश्चय से ( अयं वरुणः ) यह वरुण, सर्वश्रेष्ठ प्रभु ही ( तुभ्यं हृणीते ) तुझ पर रूढ़ है, तेरा आदर नहीं करता । किमार्ग आस वरुण ज्येष्ठं यत्स्तोतारं जिघांससि सखायम् ।

प्र तन्मे वोचो दूळभ स्वधावोऽव त्वान्नेना नमसा तुर इयाम् ॥४॥

भा०—हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ ! दुष्टों के वारण करने हारे प्रभो ! ( किम् आगः भास ) वह क्या अपराध है ? ( यत् ) जिसके कारण ( ज्येष्ठं स्तोतारं ) अपने बड़े से बड़े उत्तम स्तुतिकर्ता ( सखायं ) स्नेही मित्र को भी ( जिघांससि ) दण्ड सा देना चाहता है । हे ( दूळभ ) दुर्लभ !

हे न नाश होने हारे अविनाशिन् ! हे दूरभ ! सदा दूर २ विद्यमान ! हे अन्न-  
पते, जीवन के स्वामिन् ! (मे तत् प्रवोचः) मुझे वह उपाय बतला जिस-  
से ( अनेनाः ) निष्पाप होकर ( नमसा ) भक्तिभाव से विनीत होकर  
( तुरः ) अति शीघ्र चलकर ( त्वा अव इयाम् ) तुझ तक पहुंच जाऊं ।  
तुझे भली प्रकार जान जाऊं ।

अव द्रुग्धानि पित्र्यां सृजा नोऽव या वयं चकृमा तनूभिः ।

अव राजन्पशुतृपं न तायुं सृजा वत्सं न दाम्नो वसिष्ठम् ॥५॥

भा०—हे ( राजन् ) राजन् ! प्रकाशस्वरूप स्वामिन् ! प्रभो ! तू  
( नः ) हमारे ( पित्र्या ) पालक माता पिता वा गुरुजनों के दोष के कारण  
प्राप्त हुए ( द्रुग्धानि ) तेरे प्रति किये द्रोह आदि अपराधों को ( अव सृज )  
हम से दूर कर । और ( वयं ) जिन अपराधों को हम ( तनूभिः चकृम )  
इन देहों से करते रहे हैं उनको भी ( अव सृज ) हम से दूर कर ।  
( तायुं न पशु-तृपं ) चोरी करने की नियत से पशु को घासादि खिलाने  
वाले सन्देह मात्र में बांध लिये गये चोर के समान बन्धन में बंधे मुझ  
( पशु-तृपं ) अपने इन्द्रियरूप पशुओं को भोग विलासों से तृप्त करते  
हुए ( तायुं ) तेरे ऐश्वर्य को तेरे विना पूछे भोगने वाले चोरवत् मुझ  
( वसिष्ठं ) अति उत्तम 'वसु' तुझमें ही वसने वाले तेरे भक्त को तू  
( दाम्नः वत्सं न ) रस्से से बछड़े के समान दयालु पशुपालकवत् ( अव सृज )  
मुझे बन्धन से मुक्त कर ।

न स स्वो दत्तां वरुण ध्रुतिः सा सुरा मन्युर्विभीदको अचित्तिः ।  
अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नेश्चनेदन्तस्य प्रयोता ॥६॥

भा०—हे ( वरुण ) न्यायानुसार सुख दुःख, ऐश्वर्य-अनैश्वर्यादि के  
विभाजक ! न्यायकारिन् ! प्रभो ! ( अनृतस्य ) 'ऋत' अर्थात् सत्य,  
ज्ञानमय, विवेकरहित, असत्य और अविवेकमय दशा को ( प्रयोता ) ला

देने वाला ( सः स्वः दक्षः न ) केवल वह अपना कर्म ही नहीं है प्रत्युत और बहुत से कारण हैं जिनसे प्रेरित होकर जीव सत्य सुखों से रहित अनृत, पाप दुःखादि मार्ग में जाता है । वे कारण कौन २ से हैं ? जैसे ( १ ) अपने किये काम तो हैं ही, या ( सः स्वः दक्षः ) वह स्वयं स्वस्वरूप कर्मकर्त्ता आत्मा । ( २ ) ( सा ध्रुतिः सुरा ) वह द्रुतगति से जाने वाले जल के समान आत्मा की 'सुरा' अर्थात् सुखसे रमण करने की ध्रुति प्रवृत्ति अर्थात् रजोगुणी काम भी एक कारण है । ( ३ ) ( विभीदकः मन्युः ) वह मन्यु, क्रोध जिससे सब प्राणि भय खाते हैं वह भी एक कारण है । ( ४ ) ( अचित्तिः ) चेतना, ज्ञान का न रहना, मोह भी एक कारण है । ( ५ ) ( कनीयसः उप-आरे ) छोटे, अल्पशक्ति वाले जीव के समीप ( स्वप्नः चन इत् ) अज्ञान में सोते के समान ( ज्यायान् अस्ति ) बड़ा भी अज्ञानी ही रहता है वह भी उसका बड़ा माता पिता, भाई बन्धु आदि भी स्वयं अज्ञान वा पाप में मूढ़ रहने से दूसरे को मार्ग दिखाने में असमर्थ होता, उसके साथ २ छोटा भी संग दोष से उसी ओर जाता है । कोई भी ( अनृतस्य प्रयोता न ) असत्य, अज्ञान को दूर करने वाला नहीं होता । अथवा—( अनृतस्य प्रयोता ) अज्ञान पापादि का दूर करने वाला ( नः सः स्वो दक्षः ) न अपना कोई कुशल बन्धु, जन या कर्म है, ( न सा ध्रुतिः ) न वह दृढ़ता, स्थिरता है कि मैं पाप में न गिरूं, ( न सुरा ) न वह उत्तम प्रवृत्ति है जो पाप से परे रखे, ( न मन्युः ) न ज्ञान है, ( न विभीदकः ) न कोई असत्य से भय दिलाने वाला प्रत्यक्ष कारण है, तो है क्या ? केवल ( अचित्तिः ) अज्ञान ही है । और हे प्रभो ! अब केवल एक सहारा है वह तो ( कनीयसः उप आरे ) इस छोटे से अल्प शक्ति जीव के समीप ( स्वप्नः = सु-अप्नः ) उत्तम रूपवान्, कर्मवान् ( ज्यायान् ) ज्येष्ठ भाई, के समान एकमात्र महान् तू परमेश्वर ( इत् अस्ति ) ही है जो ( अनृतस्य प्रयोता ) उसके इस सत्य रहित अद्विवेक को दूर भगाने में समर्थ है ।

अरं दासो न मीळहुषे करणग्रहं देवाय भूर्णयेऽनागाः ।

अचेतयदचितो देवो श्रयो गृत्सं राये कवितरो जुनाति ॥ ७ ॥

भा०—( अहं ) मैं (अनागाः) पाप से रहित होकर (भूर्णये) पालक ( देवाय ) सर्व सुखदाता, सर्व प्रकाशक परमेश्वर के लिये ( मीळुषः दासः न ) सर्वदाता स्वामी के दास के समान ( अरं करणि ) बहुत कुछ सेवा करूं। वह ( देवः ) दानशील प्रकाशस्वरूप प्रभु ( अर्यः ) सब का स्वामी ( अचितः ) अज्ञानी जनों को ( अचेतयत् ) सदा ज्ञान प्रदान करता और वह ( कवि-तरः ) सब से अधिक विद्वान् होकर ( गृत्सं ) अपने स्तुतिकर्ता भक्त को ( राये जुनाति ) ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये सन्मार्ग पर ले जाता है ।

अयं सु तुभ्यं वरुण स्वधावो हृदि स्तोम उपश्रितश्चिदस्तु ।

शं नः क्षेमे शमु योगे नो अस्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः८।८

भा०—हे (वरुण) सब कष्टों को वारण करने हारे ! हे ( स्वधावः ) सब जीवों के स्वामिन् ! हे अन्नपते ! ( अयं सः स्तोमः ) यह वह स्तुति वचनादि सब ( तुभ्यम् ) तेरी ही स्तुति के लिये ( हृदि चित् उप-श्रितः अस्तु ) हृदय में पूजार्थ स्थिर रहे । वह ( नः क्षेमे शं उ अस्तु ) हमारे धन प्राप्ति काल में तुझे शान्तिदायक ही हो । हे (सदा यूयं नः पात स्वस्तिभिः) विद्वान् जनो ! आप लोग हमें सदा उत्तम आशीर्वचनों और सुखोपायों से रक्षा किया करो । इत्यष्टमो वर्गः ॥

[ ८७ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः—१ विराट् त्रिष्टुप् । २, ३, ५

आर्षी त्रिष्टुप् । ४, ६, ७ त्रिष्टुप् ॥

रदत्पथो वरुणः सूर्याय प्राणांसि समुद्रिया नदीनाम् ।

सर्गो न सृष्टो अर्वतीर्ऋतायञ्चकार सहीरवनीरहभ्यः ॥ १ ॥

भा०—(वरुणः) सर्वव्यापक परमेश्वर ही (सूर्याय) मूर्य के गमन करने के (पथः) मार्गों को (रदत्) बनाता है। और वही (समुद्रिया) समुद्र की ओर जाने वाले (नदीनां अर्णासि) नदियों के जलों को बहाता है। (सर्गः न सृष्टः अर्वातीः ऋतायन्) बरसा हुआ जल नीची बहती नदियों को स्वभावतः जाता है उसी प्रकार (सर्गः) समस्त जगत् का बनाने वाला (सृष्टः) समस्त जगत् का स्वामी (अर्वातीः) अधीन समस्त महती शक्तियों और प्रकृति की विकृतियों को (ऋतायन्) ज्ञानपूर्वक सञ्चालित करता हुआ (अहभ्यः महीः अवनीः चकार) दिनों से रात्रियों को पृथक् करता है। अथवा वह (अहभ्यः) न नाश होने वाले जीवों के लिये (महीः अवनीः) बड़ी २ रक्षाकारिणी शक्तियों तथा बड़ी २ पालक अन्नादि द्वारा वृषिदायक भूमियों को कर्मफल के भोगार्थ (चकार) बनाता है।

आत्मा ते वातो रज आ नवीनोत्पशुर्न भूर्णिर्यवसे ससवान् ।

अन्तर्मेही वृहती रोदसीमे विश्वा ते धाम वरुण प्रियाणि ॥२॥

भा०—हे (वरुण) सर्वव्यापक प्रभो ! (वातः रजः) जिस प्रकार महान् वायु धूलि को (आ नवीनोत्) सब तरफ उड़ा देता, प्रेरित करता है। उसी प्रकार (वातः) बलशाली, गतिमान् (ते आत्मा) तेरा व्यापक सामर्थ्य ही (रजः) ब्रह्माण्डों में फैले धूलि कणवत् समस्त लोकों को (आ नवीनोत्) सब ओर सञ्चालित करता है। इसी प्रकार (ते आत्मा वातः) तेरा आत्मा जीव भूत प्राण वायु देह में (रजः आ नवीनोत्) रक्तप्रवाह को सब ओर प्रेरित करता है। (यवसे पशुः न ससवान् भूर्णिः) घास, भूसा आदि पर पलने वाला पशु जिस प्रकार अन्नादि से लादा जाकर स्वामी के भरण पोषण करने में समर्थ होता है उसी प्रकार यह (वातः) वायु वा (ते आत्मा) तेरा महान् सामर्थ्य ही (ससवान्) अन्नादि भोग्य ऐश्वर्य से समृद्ध होकर

( भूर्णिः ) समस्त विश्व का भरण पोषण करने में समर्थ होता है । ( इमे बृहती मही रोदसी अन्तः ) इन बड़ी, विशाल, सुख देने वाले आकाश-भूमि या सूर्य-भूमि दोनों के बीच में ( ते ) तेरे ( विश्वा ) समस्त ( प्रियाणि ) प्रिय लगने वाले ( धाम ) तेज और विश्व को धारण करने वाले वा जीवों के आधारभूत लोक वा नाना सामर्थ्य विद्यमान हैं ।

परि स्पशो वरुणस्य स्मदिष्टा उभे पश्यन्ति रोदसी सुमेके ।

ऋतावानः कवयो यज्ञधीराः प्रचेतसो य इष्यन्त मन्म ॥ ३ ॥

भा०—( वरुणस्य स्पशः स्मदिष्टाः ) जिस प्रकार दुष्टों के निवारक राजा के 'स्पशू'—गुप्तचर सिपाही उत्तम अभिप्रायवान् होकर ( उभे सुमेके पश्यन्ति ) ऊपर से देखने में अच्छे दोनों ही प्रकार के अच्छे और बुरे शास्य शासक वर्गों को देखते हैं इसी प्रकार ( ये ) जो ( प्रचेतसः ) उत्तम चित्त वाले, उत्तम ज्ञानवान् पुरुष ( मन्म ) मनन करने योग्य ज्ञान की ( इष्यन्त ) अन्नवत् चाहना करते और औरों को अन्नवत् प्रदान करना चाहते हैं वे ( ऋतावानः ) सत्य ज्ञानमय वा वेदमय तप का सेवन करते हुए, ( यज्ञधीराः ) यज्ञ, त्यागयुक्त कर्म को करते और उसका अन्यों को उपदेश करते हुए वा, 'यज्ञ', परमोपास्य प्रभु की ओर अपनी बुद्धि और मन को प्रेरते और उसी को सर्वात्मना धारण करते हुए, ( वरुणस्य स्पशः ) उस प्रभु के मानो सिपाहियों के समान उसकी बनाई सृष्टि और उसके नियम व्यवस्थाओं का साक्षात् करने वाले, वा उस प्रभु का सदा हुक्म बजाने में तत्पर प्रभु के सेवक, ( स्मदिष्टाः ) उत्तम आचारवान्, एक साथ समान इष्ट, याग वा समान एक साथ उत्तम लक्ष्य रख कर कार्य करने वाले होकर ( उभे ) दोनों इन ( सुमेके ) सुखप्रद मेघादि से युक्त ( रोदसी ) सूर्य और भूमि के समान ( सुमेके ) शुभ वीर्यसेचन में समर्थ उत्तम सन्तानोत्पादक माता पिता को ही सृष्टि का कारण यथावत् ( परि पश्यन्ति ) देखते हैं ।

उवाच मे वरुणो मेधिराय त्रिः सप्त नामाभ्यां विभर्ति ।

विद्वान्पदस्य गुह्या न वोचद्युगाय विप्र उपराय शिक्षन् ॥ ४ ॥

भा०—( मे मेधिराय ) मुक्ष बुद्धिमान् पुरुष को ( वरुणः ) सर्व वरणीय श्रेष्ठ प्रभु ( उवाच ) उपदेश करता है कि ( अभ्या ) कभी नाश न होने वाली, परमेश्वरी या प्रकृति शक्ति ( त्रिः सप्त नाम ) तीन, सात अर्थात् २१ स्वरूपों को ( विभर्ति ) धारण करती है । ( विप्रः विद्वान् ) विविध विद्याओं से पूर्ण विद्वान् पुरुष ( उपराय ) समीप स्थित ( युगाय ) मनोयोग से विद्या ग्रहण करने वाले शिष्य को ( शिक्षन् ) उपदेश देता हुआ ( पदस्य ) परमप्राप्य ब्रह्म पद के ( गुह्या न ) परम रहस्यों का रहस्य बातों के समान ही ( वोचत् ) उपदेश करे ।

‘त्रिः-सप्त नाम’—ईश्वरीय शक्ति या प्रकृति के २१ स्वरूप ‘ये त्रिपदाः०’ ( अथर्व० १ । १ । १ ॥ ) इस मन्त्र के भाष्य में स्पष्ट कहे हैं । पञ्च-तन्मात्रा, पञ्च, स्थूलभूत, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और मन । यद्वा, यहां त्रिः । सप्त । दो पद पृथक् रहें । अतः—इदं रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतिऽदिते सरस्वति, महि विश्रुति एता ते अभ्या नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं वृतात् ॥ यजु० ८ । ४२ ॥ वेद, ने ये १० नाम अभ्या के कहे हैं । यहां वे ही ( त्रिः = ३ + सप्त ७ = १० ) नाम अभीष्ट हैं । ‘त्रि’ इत्यस्य प्रथमैकवचने त्रिः॥ अथवा सुपां सुपो भवन्तीति जसः स्थाने सुः । त्रिः त्रयः, सप्त च मिलित्वा दश नामानि ।

तिस्रो द्यावो निहिता अन्तरस्मिन्तिस्रो भूमिरुपराः पड्विधानाः ।  
गृत्सो राजा वरुणश्चक्र एतं द्विवि प्रेङ्खं हिरण्ययं शुभे कम् ॥५॥

भा०—( तिस्रः द्यावः ) तीनों लोक, भूमि, अन्तरिक्ष और उच्चतम आकाश में ( अस्मिन् अन्तः निहिताः ) इस सब के आच्छादक वरुण परमेश्वर के ही भीतर स्थित हैं । और ( तिस्रः भूमिः ) तीनों भूमियां ( उपराः ) एक दूसरे के समीप स्थित ( पड्विधानाः ) छः छः प्रकार के ऋतु आदि

विधानों सहित वे भी उसके ही भीतर हैं। ( गृत्सः ) समस्त ज्ञान का उपदेष्टा ( राजा ) सर्वोपरि शासक ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ, सब से गुरु रूप से वरण करने योग्य प्रभु ही ( दिवि ) आकाश में ( प्रेङ्खं ) उत्तम गति से जाने वाले ( एतं ) उस ( हिरण्यमयम् ) तेजोमय सूर्य को, अन्तरिक्ष में उत्तम गतिमान्, हित, रमणीय रूप वायु को और भूमि तेजोमय अग्नि को ( शुभे ) दीसि, जल और कान्ति के लिये ( चक्रे ) बनाता है।  
कं पादपूरणः।

अव सिन्धुं वरुणो द्यौरिव स्थाद्द्रप्सो न श्वेतो मृगस्तुविष्मान्।  
गम्भीरशंसो रजसो विमानः सुपारक्षत्रः सतो अस्य राजा ॥६॥

भा०—( द्यौः इव सिन्धुं ) सूर्य जिस प्रकार अकेला समस्त आकाश में व्यापता है उसी प्रकार वह परमेश्वर भी ( द्यौः ) तेजस्वरूप, ( वरुणः ) सर्वव्यापक होकर सिन्धुं अतिवेग से जाने वाले प्रकृति के बने जगत्-प्रवाह को ( अव स्थात् ) व्यवस्थित करता है। वह ( द्रप्सः न श्वेतः ) जल विन्दुवत् श्वेत, स्वच्छ एवं रसस्वरूप कान्तिमय है। वह ( मृगः ) सिंहवत् बलवान् वा, ( मृगः ) ज्ञानी जनों द्वारा खोजने योग्य और ( मृगः ) अति शुद्ध, पावन स्वरूप, ( तुविष्मान् ) अति बलशाली, सर्व शक्तिमान् है। वह ( गम्भीर-शंसः ) गम्भीर समुद्र के समान अगाध और प्रशंसा करने योग्य, वेदमय गम्भीर ज्ञान का उपदेष्टा, ( रजसः विमानः ) इस समस्त लोक समूह का विशेष निर्माता और ज्ञाता है, वह ( सुपार-क्षत्रः ) सुख से सर्वपालक बलैश्वर्यवान्, ( अस्य सतः राजाः ) इस सत्, व्यक्त संसार का राजावत् शासक है।

यो मृळयाति चक्रुपे चिदागो वयं स्याम वरुणे अनागाः।  
अनु व्रतान्यादितेऽर्धन्तो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥९॥

भा०—( यः ) जो परमेश्वर ( आगः चक्रुपे चित् ) पाप, अपराध करने वाले के भले के लिये ही ( मृळयाति ) उस पर दया करता है,



उस (वरुणे) सर्वश्रेष्ठ प्रभु के अधीन हम (अनागाः स्याम) निष्पाप होकर रहें। हम उस (अदितेः) अखण्ड शासक प्रभु के (व्रतानि अनु) व्रतों, नियमों के अनुकूल (ऋधन्तः) समृद्ध होते हैं। हे विद्वान् जनो! आप लोग (यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात) हमें उत्तम आशीर्वचनों से सदा पालन करो। इति नवमो वर्गः ॥

[ दृढ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः—१, २, ३, ६ निचृत् त्रिष्टुप् ।

४, ५, ७ विराट् त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्च सूक्तम् ॥

प्र शुन्ध्युवं वरुणाय प्रेष्ठां मतिं वसिष्ठ मीळहुपे भरस्व ।

य ईमर्वाञ्चं करते यजत्रं सहस्रामघं वृषणं वृहन्तम् ॥ १ ॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर (ईम्) इस (अर्वाञ्चं) अभिमुख आये (यजत्रं) दानशील, आत्मसमर्पक और सत्संगति करने वाले पुरुष को (सहस्रामघं) सहस्रों धनों से सम्पन्न; (वृषणं) बलवान्, मेघवत् उदार और (वृहन्तम् करते) बड़ा बना देता है उस (वरुणाय) सर्वश्रेष्ठ, सब को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले (मीळुपे) ऐश्वर्यों की प्रजाजनों पर मेघवत् निष्पक्षपात होकर वृष्टि करने वाले, सब के सेचक और वर्धक परमेश्वर के निमित्त (प्रेष्ठां) अति उत्तम, प्रिय (मतिं) स्तुति और बुद्धि का (प्र भरस्व) प्रयोग कर ।

अथा न्वस्य सन्दशं जगन्वान्श्रेरनीकं वरुणस्य मंसि ।

स्वर्यदशमन्नधिपा उ अन्धोऽभि सा वपुर्दशये निनीयात् ॥२॥

भा०—(अध नु) और मैं (अस्य) इस (अग्नेः) तेजोमय (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के विषय में (जगन्वान्) ज्ञान प्राप्त कर और उसकी शरण में प्राप्त होकर उसके (सन्दशम्) सम्यक् दर्शन रूप (अनीकं) तेज को (मंसि) मनन करता हूँ। (यद्) जिस प्रकार (अदमन् अन्धः

वपुः दृश्ये निनीयात् ) पत्थर या शिला, चक्री आदि में पिसा अन्न या छुटी ओषधि, या ( अश्मन् अन्धः ) मेव के आधार पर उत्पन्न अन्न शरीर को उत्तम दर्शन योग्य बना देते हैं उसी प्रकार ( यत् ) जो (अधिपाः) सर्वोपरिपालक (स्वः) सुखकारी वा सूर्यवत् तेजस्वी है वह ( अन्धः ) अन्नवत् प्राणों का धारक होकर ( दृश्ये ) साक्षात् करने के लिये ( मा ) मुझे ( वपुः ) उत्तम रूप, शरीर आदि ( निनीयात् ) प्राप्त कराता है । अर्थात् प्रभु हमें शरीर भी इसीलिये देता है कि हम उससे साधना करके भगवान् के सुखमय, प्राणप्रद रूप को प्राप्त करने की साधना करें ।

आ यद्गुहाव वरुणश्च नावं प्र यत्समुद्रमीरयाव मध्यम् ।

अधि यदपां स्नुभिश्चराव प्र प्रेह्व ईह्वयावहै शुभे कम् ॥ ३ ॥

भा०—( अहं ) मैं और ( वरुणः च ) सर्व श्रेष्ठ वरण करने योग्य स्वामी, दोनों दो मित्रों के समान वा पति-पत्नीवत् ( यत् नावम् आ रुहाव ) जब नाव पर चढ़ें ( यत् समुद्रम् मध्यम् ईरयाव ) और जब समुद्र के बीच उसको चलावें (यत् अधि अपां) जब जलों के ऊपर (स्नुभिः चराव ) गमनशील यानों से विचरें तो ( शुभे ) अपनी शोभा और ( कम् ) सुख प्राप्त करने के लिये ( प्रेह्वे ) झूले पर ( प्रेह्वयावहे ) हम दोनों झूले । शिष्य और गुरुभक्त और उपास्य दोनों वाणी या स्तुति रूप नौका पर चढ़ते हैं, आनन्द सागर की ओर बढ़ते हैं । (स्नुभिः) नाना साधनों से ( अपां अधि ) प्राणों के ऊपर वश करते हैं ( प्रेह्वे ) परम उत्तम गन्तव्य पद पर शोभा व कल्याण के निमित्त उत्कृष्ट गति को प्राप्त करते हैं ।

वसिष्ठं ह वरुणो नाव्याधादपि चकार स्वपा महोभिः ।

स्तोतारं विप्रः सुदिनत्वे अह्नां यान्नु द्यावस्तुतन्न्यादुषासः ॥४॥

भा०—( वरुणः ) वरण करने योग्य आचार्य ( वसिष्ठं ) अधीन

वस कर ब्रह्मचर्य पालन करने वाले, उत्तम शिष्य को ( नावि ) ज्ञानः सागर से पार उतारने वाली वेदमयी वाणी रूप नौका के बीच में ( ह ) अवश्य ही (आधात्) स्थापित करे । वह स्वयं (स्वपाः) उत्तम कर्मशील, सदाचारी होकर ( महोभिः ) बड़े २ गुणों से ( वसिष्ठं ऋषिं चकार ) उत्तम ब्रह्मचारी को वेद मन्त्रार्थों को यथार्थ रूप में देखने में समर्थ विद्वान् बना देवे । ( विप्रः ) विविध विद्याओं से शिष्य को पूर्ण करने वाला आचार्य ( अन्हां सु-दिनत्वे ) दिनों को शुभ, मङ्गलकारी बनाने के लिये ( यात् द्यावा नु यात् उपसः नु ) आये दिनों और आयी रातों में भी ( स्तोतारं ततनन् ) अध्ययनशील शिष्य को और अधिक विस्तृतज्ञान-वान् करता रहे ।

क्व॑त्यानि॑ नौ स॒ख्या व॑भूवुः स॒चाव॑हे यद॑वृकं पुरा॑चित् ।

वृ॒हन्तं॑ मानं॑ वरुण॑ स्वधावः स॒हस्र॑द्वारं जगमा॑ गृहं ते ॥ ५ ॥

भा०.—हे ( वरण ) वरणीय श्रेष्ठतम ! हे ( स्वधावः ) प्राणपते ! ( नौ ) हम दोनों के ( त्यानि सख्यानि ) वे नाना प्रकार के सख्य, मित्रता के भाव ( क्व बभूवुः ) कहां हुए, ( यत् ) जो हम दोनों ( पुराचित् ) मानों पूर्वकाल से ( अवृकं ) परस्पर चोरी का भाव न रखते हुए ( सचावहे ) परस्पर मिलकर रहें । हे ( वरुण ) वरण योग्य ! नाथ ! हे ( स्वधावः ) और अमृत के स्वामिन् ! हम ( वृहन्तं ) महान् ( मानं ) परिमाण वाले ( सहस्रद्वारं ) सहस्रों द्वार वाले ( गृहं जगाम ) घर को प्राप्त हों । भक्तः उपास्य का पतिपत्नीवत् सख्य प्रदर्शित है । यह जीवों के लिये जगत् बहुत भारी सहस्रों द्वारवाला प्रभु का बनाया गृह है, मुमुक्षु के लिये ( मानं ) ज्ञानमय महान् 'गृह', ग्रहण योग्य आश्रय, मोक्षपद प्रभु गृह है उसे प्राप्त करें । इसी प्रकार प्रजा के प्रति राजा भी पूर्व परिचित मित्रोंवत् वर्त्ते वे अब्याज, वृकाचार कुटिलतादि से रहित होकर विचरे, प्रजापुं राजा के सहस्रद्वार विशाल गृहवत् राष्ट्र को प्राप्त हों ।

य आ॒पिर्नित्यो॑ वरुण॑ प्रियः सन्त्वामागांसि॑ कृणवत्सखा॑ ते ।  
मा त ए॒नस्वन्तो॑ यक्षिन्भुजेम॑ यन्धि॒ ष्मा विप्रः॑ स्तुवते वरुथम् ॥ ६॥

भा०—हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! राजन् ! तू ( नित्यः ) सदा का ( आपिः ) बन्धु ( प्रियः ) प्रिय ( सन् ) होकर हमें सदा प्राप्त है उस ( त्वाम् ) तेरे प्रति भी ( ते सखा ) तेरा मित्र यह जीव ( आगांसि कृणवत् ) नाना अपराध करता है । हे ( यक्षिन् ) यक्ष 'अर्थात्' पूजा करने वाले भक्त प्रजाजनों के स्वामिन् ! हम लोग ( ते ) तेरे ऐश्वर्य का ( एनस्वन्तः ) पापी होकर ( मा भुजेम ) भोग न करें । तू ( विप्रः ) मेधावी गुरु के समान ( स्तुवते ) स्तुतिशील को ( वरुथं यन्धि ) वरण करने और दुःखों, अज्ञानों के दूर करने योग्य उत्तम गृह, सुख, ज्ञान और बल प्रदान कर ।

ध्रुवासु॑ त्वासु॑ क्षितिपु॑ क्षियन्तो॑ व्य॒स्मत्पाशं॑ वरुणो॑ मुमोचत् ।  
अवो॑ वन्वाना॑ अदितेरुपस्थाद्युयं॑ पात स्वस्तिभिः॑ सदा॑ नः ॥ ७ ॥ १० ॥

भा०—परमेश्वर जीवों के कर्म बन्धन किस प्रकार काटता है ? हम लोग ( आसु ध्रुवासु क्षितिपु ) इन नाना धारण करने योग्य, सुव्यवस्थित, कर्म और भोग-भूमियों में ( क्षियन्तः ) निवास करते हुए वा ( क्षियन्तः ) ऐश्वर्ययुक्त वा क्षीण होते हुए कभी ऊर्ध्वगति और कभी नीच गति प्राप्त करते हुए, ( अदितेः उपस्थात् ) भूमि से जिस प्रकार ( अवः वन्वानाः ) तृप्तिकारक अन्न प्राप्त करते हैं और जिस प्रकार ( अदितेः उपस्थात् अवः वन्वानाः ) सूर्य से कान्ति दीप्ति प्राप्त करते हैं उसी प्रकार ( अदितेः ) अखण्ड स्वरूप परमेश्वर से हम ( अवः ) परम रक्षा, सुख, प्रेम ( वन्वानाः ) प्राप्त करते रहें । तब वह ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ प्रभु ( अस्मत् पाशं ) हम से उस पाश को ( वि मुमोचत् ) छुड़ाता है । ( नः युयं सदा स्वस्तिभिः पात ) हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग हमारी सदा उत्तम सत्-उपायों से रक्षा किया करो । इति दशमो वर्गः ॥

[ ८६ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः—१—४ आर्षी गायत्री । ५ पाद-  
निचृज्जगती ॥ सप्तचं सूक्तम् ॥

मो षु वरुण मृन्मयं गृहं राजन्नहं गमम् । मृळा सुक्षत्र मृळय ॥१॥

भा०—हे ( वरुण ) सब दुखों को दूर करने हारे ! सब से उत्तम पद के लिये वरने योग्य ! सर्वश्रेष्ठ ! हे ( राजन् ) देदीप्यमान ! हे ( सुक्षत्र ) उत्तम धन, ऐश्वर्य और बल से सम्पन्न ! ( अहम् ) मैं ( मृन्मयं गृहम् ) मट्टी के बने गृह के तुल्य कच्चे इस ( मृन्मयं = मृत्-मयं ) मृत्यु से आक्रान्त शव तुल्य, अवश्य ग्रहण करने योग्य वा आत्मा को पकड़े हुए इस देह को ( मोषु गमम् ) अब कभी न प्राप्त करूं तो अच्छा हो । हे प्रभो ! ( मृड ) सब को सुखी करने हारे दयालो ! तू ( मृडय ) सुखी कर, हम पर दया कर । प्रजा भी राजा से यही चाहे कि वे मट्टी के घरों में न रह कर पके मकानों में रहें और समृद्ध और सुखी हों ।

यदेमिं प्रस्फुरन्निव दृतिर्न ध्मातो अद्रिवः । मृळा सुक्षत्र मृळय ॥२॥

भा०—हे ( अद्रिवः ) मेघवत् शान्तिदायक पुरुषों तथा पर्वतवत् दृढ शस्त्रधर पुरुषों के स्वामिन् ! प्रभो ! राजन् ! ( यत् ) जब भी मैं ( प्रस्फुरन् इव ) तड़पता हुआ सा, ( दृतिः न ध्मातः ) मशक या कुप्पे के समान फूला हुआ, विताडित फूंक से भरे चर्मवाद्य के समान रोता गाता हुआ ( एभि ) तेरी शरण आऊं, हे ( सुक्षत्र ) सुबल ! सुधन ! तू ( मृड, मृडय ) सुखी कर, तू दया कर !

क्रत्वः समह दीनता प्रतीपं जगमा शुचे । मृळा सुक्षत्र मृळय ॥३॥

भा०—हे ( समह ) उत्तम पूज्य ! ऐश्वर्यवन् ! ( दीनता ) दीन होने के कारण मैं ( क्रत्वः ) सत् कर्म और सत् ज्ञान के ( प्रतीपं ) विलकुल विपरीत चला गया हूं और ( शुचे ) बड़ा शोक करता हूं । अथवा हे

( शुचे ) शुद्ध पवित्र स्वरूप प्रभो ! ( दीनता ) दैन्यभाव ( समह = सम्-अह ) अवश्य ( कृत्वः प्रतीपं जगम ) कर्मशील या उद्योगी पुरुष या उद्योग से विपरीत दिशा में जाता है । हे ( सु-क्षत्र ) उत्तम धन और बलशालिन् ! तू ( मृड, मृडय ) सुखी कर, हम पर कृपा कर ।

अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदज्जरितारम् ।

मृळा सुक्षत्र मृलय ॥ ४ ॥

12583.

भा०—हे ( सुक्षत्र ) उत्तम बल ऐश्वर्य के स्वामिन् ! ( अपां मध्ये तस्थिवांसं ) जलों के बीच में खड़े ( जरितारं ) रोगादि से जीर्ण होते हुए पुरुष को जैसे ( तृष्णा अविदत् ) प्यास सताती है उसी प्रकार हे प्रभो ! ( जरितारं ) तेरी स्तुति करने वाले ( अपां मध्ये तस्थिवांसं ) आप्तपुरुषों के बीच या प्राणों के बीच में रहने वाले मुझ को भी ( तृष्णा ) भूख प्यास के समान विषय भोगादि की लालसा प्राप्त है, हे प्रभो ! हे ( मृड, मृडय ) सब को सुखी करने हारे ! तू मुझे सुखी कर ।

यत्किंचेदं वरुण दैव्ये जनेभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि । अचिन्ती यत्तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः । ५।११।५॥

भा०—हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! ( दैव्ये जने ) विद्वान् सत्पुरुष के हितकारी जन के ऊपर या उनके बीच रहकर हम ( मनुष्याः ) मनुष्य ( यत् किंच ) जो कुछ भी हम ( इदं अभिद्रोहं ) इस प्रकार का द्रोह आदि ( चरामसि ) करते हैं और ( अचिन्ती ) विना ज्ञान के ( यत् तव धर्मा युयोपिम ) जो तेरे बनाये धर्मों या नियमों को उल्लंघन करते हैं, हे ( देव ) प्रभो ! राजन् ! ( तस्माद् एनसः ) उस अपराध या पाप से ( नः मारीरिषः ) हमें मत दुःखित कर । ऐसी व्यवस्था कर कि हम उससे भविष्य में दुःख न पावें । अर्थात् हम में से द्रोह के भाव और उपेक्षा, अज्ञान का दूरकर । जिससे न पाप हों न दण्ड मिले इत्येकादशो वर्गः ॥

[ ६० ]

वासिष्ठ ऋषिः ॥ १—४ वायुः । ५—७ इन्द्रवायू देवते ॥ छन्दः—१, २, ७  
विराट् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् । ४, ५, ६ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ सप्तमं सप्तम् ॥

प्र वीर्या शुचयो दद्रिरे वामध्वर्युभिर्मधुमन्तः सुतासः ।

वह वायो नियुतो ग्राह्यच्छा पिवा सुतस्यान्धसो मदाय ॥१॥

भा०—हे ( इन्द्र-वायू ) ऐश्वर्यवान् ! शत्रुहन्तः ! इन्द्र ! हे वायुवत्  
बलवान् वीर सेनापते ! (शुचयः) शुद्ध आचारवान्, ईमानदार (वीर्या =  
वीराः) वीर ( मधुमन्तः ) बलवान्, मधुरप्रकृति, ( सुतासः ) अपने  
योग्य पदों पर अभिपिक्त पुरुष ( अध्वर्युभिः ) प्रजा की हिंसा पीड़ा न  
चाहने वाले सोम्यवृत्ति विद्वानों सहित ( वाम् प्र दद्रिरे ) तुम दोनों को प्राप्त  
होते हैं । हे ( वायो ) वायुवत् सर्वोपकारिन् बलवान् ! तू ( नियुतः ) र  
नियुक्त वा सहस्रों अश्वदि सेनाओं को ( वह ) सन्मार्ग पर ले चल,  
और ( सुतस्य अन्धसः ) ऐश्वर्य से समृद्ध, उत्पन्न अन्न को भी ( याहि )  
प्राप्त कर और ( मदाय ) तृप्ति के लिये उसका ( पिवा ) उपभोग कर ॥  
ईशानाय प्रहुतिं यस्त आनद् शुचिं सोमं शुचिपास्तुभ्यं वायो ।  
कृणोपि तं मर्त्येषु प्रशस्तं जातो जातो जायते वाज्यस्य ॥ २ ॥

भा०—हे ( वायो ) बलवान् ! हे विद्वन् ! ( यः ) जो ( शुचि-पाः )  
शुद्ध आचार, शुद्ध व्यवहार का पालन करने वाला पुरुष ( ते ईशानाय )  
तुझ सर्वैश्वर्यवान् का ( शुचिं सोमं ) शुद्ध अन्नादि, शुद्ध ऐश्वर्य, और ( प्रहुतिं )  
सर्वोत्तम दान ( आनद् ) प्राप्त कराता है, ( तं ) उसको तू ( मर्त्येषु )  
मनुष्यों के बीच ( प्रशस्तं कृणोपि ) प्रशस्त, कर्मकुशल एवं उत्तम मान-  
योग्य बना देता है और वह ( जातः-जातः ) उत्तम रूप प्रकट हो २ कर  
( अस्य ) इस प्रजाजन के बीच ( वाजी ) ज्ञानवान्, ऐश्वर्यवान् और  
बलवान् ( जायते ) हो जाता है ।

राये नु यं जज्ञतु रोदसीमे राये देवी धिषणा धाति देवम् ।

अथ वायुं नियुतः सश्वतु स्वा उत श्वेतं वसुधितिं निरेके ॥३॥

भा०—(इमे रोदसी) आकाश और भूमि के समान माता और पिता, राजसभा और प्रजासभा दोनों मिलकर (राये) राष्ट्र के ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये (नु) ही (यं) जिसको (जज्ञतुः) उत्पन्न करते और (यं देवम्) जिस विजिगीषु को ( धिषणा देवी ) सर्वोपरि विद्यमान विद्वत्सभा भी (राये) ऐश्वर्य की रक्षा के लिये (धाति) स्थापित करती है उस (वायुं) शत्रुओं को प्रवल वायुवत् मूल से उखाड़ देने में समर्थ पुरुष को (स्वाः) उसके अपनी ( नियुतः ) लक्षों सेनाएं और प्रजाएं ( सश्वत ) प्राप्त होती हैं ( उत ) और उसी ( श्वेतं ) समृद्ध, एवं शुद्धाचारवान् को ( निरे के ) सर्वाति-शायी पद पर ( वसु-धितिम् ) ऐश्वर्य की ख्याति रखने वाला जान कर प्राप्त होते हैं ।

उच्छन्नुपसः सुदिना अरिप्रा उरु ज्योतिर्विविदुर्दीध्यानाः ।

गव्यं चिदुर्वमुशिजो वि वव्रुस्तेपामनु प्रदिवः सस्युरापः ॥ ४ ॥

भा०—जिस प्रकार ( उपसः ) उपाएं, प्रभात वेलाएं वा सूर्य की दाहक कान्तियों ( सु-दिनाः उच्छन् ) उत्तम दिन वाली होकर प्रकट होती हैं, ( अरि-प्राः ) पाप रहित ( दीध्यानाः ) देदीप्यमान, ( उरु ज्योतिः विविदुः ) बहुत बड़े विशाल प्रकाशवान् सूर्य को प्राप्त करती ( उशिजः ) कान्तियुक्त होकर ( गव्यम् ऊर्वम् विवव्रुः ) रश्मियों के बड़े धन को फैलाती है ( अनु प्रदिवः आपः सस्युः ) अनन्तर आकाश से मेघ जल बरसते हैं इसी प्रकार ( उपसः ) उपावत् जीवन के प्रारम्भ भाग में वर्त्तमान नर नारीगण ( सु-दिना ) शुभ दिन युक्त होकर ( उच्छन् ) अपने गुण प्रकट करें । और वे ( दीध्यानाः ) ईश्वर का ध्यान करते हुए ( उरु ज्योतिः ) बड़ी भारी ज्ञानमय ज्योति को ( विविदुः ) प्राप्त करें । वे ( उशिजः ) कामनावान् वा प्रीतियुक्त होकर ( गव्यम् ऊर्वम् ) वेदवाणी के धन को



( विवद्रुः ) विविध प्रकार से विवरण करें, उसकी व्याख्या और रहस्योद्घाटन करें । ( तेषाम् अनु ) उनके पीछे २ ही ( प्र-दिवः ) उत्तम फल की कामना करने वाली ( आपः ) आप प्रजापुं ( ससुः ) चलें ।  
ते सत्येन मनसा दीध्यानाः स्वेन युक्तासुः दीध्यानाः स्वेन युक्तासुः क्रतुना वहन्ति । इन्द्रवायू वीरवाहं रथं वामीशान-योरभि पृक्षः सचन्ते ॥ ५ ॥

भा०—( ते ) वे पूर्वोक्त ज्ञानवान्, विद्वान् लोग (सत्येन मनसा) सत्य चित्त और सत्य यथार्थ ज्ञान से ( दीध्यानाः ) चमकते हुए वा सत्य चित्त से ध्यान करते हुए (स्वेन युक्तासुः) अपने आत्मसामर्थ्य और ऐश्वर्य से युक्त होकर ( दीध्यानाः ) चमकते हुए वा अपने आत्मयोग का अभ्यास करते, ( दीध्यानाः ) प्रभु का ध्यान करते हुए ( युक्तासुः ) नियुक्त, योगी होकर (स्वेन क्रतुना) अपने ज्ञान और बल से ही (वहन्ति) रथ को अश्वों के समान देह को धारण करते हैं । हे (इन्द्र-वायू) ऐश्वर्यवान् ! सत्यदर्शिन ! बलवान् ! ज्ञानवान् ! ( ईशानयोः वाम् ) स्वामी, शासक रूप आप दोनों (वीरवाहं रथं) वीरों को धारण करने वाले रथवत् रमणीय उपदेश वा स्थिर पद वा राष्ट्र को (वहन्ति) धारण करते और सञ्चालित करते हैं और वे ( पृक्षः ) परस्पर प्रीतियुक्त होकर ( अभि सचन्ते ) परस्पर समवाय बनाकर रहते हैं । वा ( पृक्षः अभि सचन्ते ) अन्न, वृत्ति को प्राप्त करते हैं ।

ईशानासो ये दधन्ते स्वर्णो गोभिरश्वेभिर्वसुभिर्हिरण्यैः ।

इन्द्रवायू सुरयो विश्वमायुरवद्भिर्वीरैः पृतनासु सद्युः ॥ ६ ॥

भा०—( ये ) जो ( ईशानासः ) ऐश्वर्यवान् और शासन अधिकार से युक्त होकर ( नः ) हमारे सर्वस्व धन, राष्ट्र और सुखादि को (गोभिः) गौओं और भूमियों, ( अश्वेभिः ) घोड़ों ( वसुभिः ) राष्ट्रवासी विद्वानों और (हिरण्यैः) सुवर्णादि धातुओं, और हित रमणीय साधनों से (विश्वम्

आयुः ) पूर्ण जीवन ( दधते ) धारण करते हैं, या हमें प्रदान करते हैं हे ( इन्द्रवायू ) ऐश्वर्यवान् बलवान् प्रधान नायक पुरुषो ! वे ( सूरयः ) विद्वान् पुरुष ( अर्वाङ्घ्रिः वीरैः ) शत्रुओं को नाश करने हारे वीर पुरुषों द्वारा ( पृतनासु ) संग्रामों में ( सद्युः ) विजय करें ।

अर्वन्तो न श्रवसो भिक्षमाणा इन्द्रवायू सुष्टुतिभिर्वसिष्ठाः ।

वाजयन्तः स्ववसे हुवेम यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥७॥१२॥

भा०—हम लोग ( अर्वन्तः ) शत्रुओं का नाश करते हुए वीर पुरुषों और रथ के अश्वों के समान बलवान् ( श्रवसः भिक्षमाणाः ) श्रवण करने योग्य ज्ञान की, योग्य गुरुओं और अन्न की गृहस्थों से याचना करते हुए, ( वसिष्ठाः ) उत्तम वसु, ब्रह्मचारी होकर ( सु-अवसे ) उत्तम ज्ञान और रक्षा के लिये त्वयं ( वाजयन्तः ) ज्ञान, बल, धनादि को चाहते और प्राप्त करते हुए ( इन्द्रवायू हुवेम ) ऐश्वर्यवान् और बलवान् एवं ज्ञानदर्शी और ज्ञान के इच्छुक जनों को प्राप्त करें, उनको आदरपूर्वक बुलावें । ( यूयं ) आप लोग ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमें उत्तम आशिषों और स्वस्ति विधायक मन्त्रों और साधनों से ( पात ) रक्षा करो । इति द्वादशो वर्गः ॥

[ ६१ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ १, ३ वायुः । २, ४—७ इन्द्रवायू देवते । छन्दः—१, ४, ७ विराट् त्रिष्टुप् । २, ५, ६ आर्षी त्रिष्टुप् ॥ ३ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ सप्तमं सूक्तम् ॥

कुविदुङ्ग नमसा ये वृधासः पुरा देवा अनवद्यास आसन् ।

ते त्रायवे मनवे वाधितायावांसयन्नुपसं सूर्येण ॥ १ ॥

भा०—( ये ) जो ( नमसा ) विनयपूर्वक वृद्ध जनों के प्रति नमस्कार या शत्रु को नमाने वाले बल से ( पुरा ) पहले ( वृधासः ) बढ़ने हारे ( अनवद्यासः ) अनिन्दिताचरण करने वाले, ( देवाः ) विद्या,

धन पुत्र आदि के अभिलाषी ( आसन् ) रहते हैं ( ते ) वे ( वायवे ) वायु के समान बलवान् वा प्राणवत् प्रिय, ( मनवे ) मननशील, ज्ञान-युक्त ( वाधिताय ) पीड़ित प्रजाजन की रक्षा के लिये ( उपसं ) प्रभात वेला के समान कान्तियुक्त तेजस्विनी सेना को ( सूर्येण ) सूर्यवत् तेजस्वी नायक पुरुष के साथ ( भवासयन् ) रखते हैं । ( २ ) जो आदर विनय से वृद्ध अनिन्दिताचरणी विद्वान् पुरुष होते हैं वे बलवान् ( वाधिताय मनवे ) पीड़ित या खण्डित वंश वाले मनुष्य की वंशवृद्धि के लिये ( उपसं ) कामनायुक्त स्त्री को ( सूर्येण ) पुत्रोत्पादन में समर्थ पुरुष के साथ और ( उपसं ) विद्यार्थी को सूर्यवत् विद्वान् गुरु के साथ ( भवासयन् ) सहयोग में रखें ।

उशन्ता दूता न दभाय गोपा मासश्च पाथः शरदश्च पूर्वीः ।

इन्द्रवायू सुष्टुतिर्वामियाना मर्डीकमीष्टे सुवितं च नव्यम् ॥२॥

भा०—( उशन्ता ) सब को चाहने वाले ( दूता ) शत्रुओं को सन्तप्त करने वाले, ( गोपा ) प्रजा के रक्षक, ( इन्द्रवायू ) ऐश्वर्यवान् बलवान् पुरुष ( मासः च शरदः च ) वर्षों और मासों तक ( पूर्वीः ) पूर्व विद्यमान ( पाथः ) प्रजा की रक्षा करें । हे ( इन्द्र-वायू ) ऐश्वर्यवान् ! हे बलवान् ! ( वाम् इयाना ) आप दोनों को प्राप्त होता हुआ, ( सुस्तुतिः ) उत्तम उपदेश ( मर्डीकम् ) सुख और ( सुवितं ) उत्तम और ( नव्यम् ) स्युत्य आचार ( इष्टे ) चाहता है ।

पीवोऽन्नानां रयिवृधः सुमेधाः श्वेतः सिपक्तिं नियुतामभिथ्रीः ।  
ते वायवे समनसो वि तस्थुर्विश्वेन्नरः स्वपत्यानि चक्रुः ॥ ३ ॥

भा०—( नियुताम् अभिथ्रीः ) नियुक्त सैन्यों के बीच सब के आश्रययोग्य एवं उत्तम राज्यलक्ष्मी से सम्पन्न ( श्वेतः ) शुद्ध श्वेत, उज्ज्वल वर्ण का वस्त्र धारे ( सुमेधाः ) शुभ, बुद्धिमान्, उत्तम शत्रुनाशक बलवान् पुरुष ( रयि-वृधः ) ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले, ( पीवः-

अन्नात् ) अन्नादि से हृष्ट पुष्ट पुरुषों को ( सिपक्ति ) समवाय बना कर रहता है और ( ते ) वे ( नरः ) समस्त नायक पुरुष ( समनसः ) एक चित्त होकर ( वायवे ) उस अपने बलवान् नायक पुरुष की वृद्धि के लिये ही ( वि तस्थुः ) उसके समीप सब ओर स्थित होते हैं । वे ( विश्वा ) सभी ( सु-अपत्यानि ) उत्तम २ सन्तानों के समान ( चक्रुः ) काम करते हैं । अथवा वे सब ( सु-अपत्यानि ) उत्तम, न गिरने के शुभ कर्मों को करते हैं ।

यावत्तरस्तन्त्रोऽयावदोजो यावन्नरश्चक्षसा दीध्यानाः ।

शुचिं सोमं शुचिपा पातमस्मे इन्द्रवायू सदतं बर्हिरेदं ॥ ४ ॥

भा०—हे ( इन्द्र वायू ) ऐश्वर्यवान् ! हे बलवान् ! हे शत्रुहन्तः ! और शत्रु को मूल से उखाड़ देने वाले नायक जनो ! ( यावत् ) जब तक या जितना भी ( तन्वः तरः ) शरीर का बल हो और ( यावत् ओजः ) जितना और जब तक भी बल पराक्रम हो, और ( यावत् ) जब तक ( नरः ) नेता लोग ( चक्षसा ) उत्तम ज्ञान दर्शन से ( दीध्यानाः ) देदीप्यमान हों तब तक आप दोनों ( शुचिं ) शुद्ध, ( सोमम् ) प्रजाजन वा शासक को हमारे लाभ के लिये ( पातम् ) पालन करो और हमारे ( शुचिं सोमं पातं ) शुद्ध अन्न, ऐश्वर्य का उपभोग करो ( इदं ) इस ( बर्हिः ) वृद्धिशील प्रजा-पर ( सदतम् ) अध्यक्ष बन कर विराजो ।

नियुवाना नियुतः स्पार्हवीरा इन्द्रवायू सरथं यातमर्वाक् ।

इदं हि वां प्रभृतं मध्वो अग्रमर्धं प्रीणाना वि मुमुक्तमस्मे ॥५॥

भा०—हे ( इन्द्रवायू ) विद्युत् और वायु के समान तीव्र, बलवान् नायक पुरुषो ! ( स्पार्हवीराः ) स्पृहणीय, मनोहर वीर पुरुषों से युक्त ( नियुतः ) अश्व सेनाओं को ( नियुवाना ) अपने अधीन सञ्चालित करते हुए आप दोनों ( स-रथं ) रथ सहित ( अर्वाक् यातम् ) आगे बढ़ो । ( इदं हि ) यह कार्य ही ( मध्वः प्रभृतम् ) आप दोनों को अन्न

या भाजीविका प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है । अथवा ( इदं हि ) यह ही ( वां ) आप दोनों ( मध्वः ) शत्रु को पीड़ित करने वाले बल का ( अग्रम् ) श्रेष्ठ भाग ( प्रभृतम् ) खूब परिपुष्ट हो, और आगे २ बढ़ने वाला हो, ( अध ) और ( प्रीणानां ) प्रसन्न एवं प्रजा को प्रसन्न करते हुए ( अस्मे वि मुमुक्तम् ) हमें विविध बन्धनों से युक्त करो ।

या वां शतं नियुतो याः सहस्रमिन्द्रवायु विश्ववाराः सचन्ते ।  
आभिर्यातं सुविदत्राभिरर्वाक्पातं नरा प्रतिभृतस्य मध्वः ॥६॥

भा०—हे ( इन्द्रवायू ) विद्युत्, पवन के समान तेजस्वी और बल-शाली पुरुषो ! ( याः ) जो ( वां ) आप दोनों के ( शतं ) सैकड़ों और ( याः सहस्रं ) जो हज़ारों ( नियुतः ) अश्वों के सैन्यगण ( विश्व-वाराः ) सब शत्रुओं के वारण करने में समर्थ होकर ( सचन्ते ) समवाय बनाकर रहते हैं ( आभिः ) इन ( सु-विदत्राभिः ) उत्तम ऐश्वर्य लाभ कराने या उत्तम ज्ञान शिक्षा से युक्त सुशिक्षित सेनाओं से आप दोनों ( अर्वाक् यातं ) आगे बढ़ो । हे ( नरा ) नायक पुरुषो ! आप दोनों ( प्रति-भृतस्य ) वेतन द्वारा परिपुष्ट ( मध्वः ) सैन्य बल की ( पातम् ) सदा रक्षा करो ।

अर्वन्तो न श्रवसो भिक्षमाणा इन्द्रवायू सुष्टुतिभिर्वसिष्ठाः ।

वाजयन्तः स्ववसे हुवेम युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥१३॥

भा०—व्याख्या देखो सू० १० । ७ ॥ इति त्रयोदशो वर्गः ॥

[ ६२ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ १, ३—५ वायुः । २ इन्द्रवायू देवते । छन्दः—१ निचृत्  
त्रिष्टुप् । २, ३, ४ विराट् त्रिष्टुप् । ५ आपों त्रिष्टुप् ॥

आ चायो भूष शुचिषा उप नः सहस्रं ते नियुतो विश्ववार ।  
उपो ते अन्धो मद्यमयामि यस्य देव दधिषे पूर्वपेयम् ॥ १ ॥

भा०—हे (शुचिपाः) 'शुचि' अर्थात् शुद्ध चरित्रवन् ! निष्पाप, निर्दोष, निरपराध, ईमानदार की रक्षा करने वाले ! हे (वायो) तुष और अन्नो को पृथक् २ करनेवाले वायु के समान सत्य और असत्य का विवेक करने हारे विद्वन् ! तू (नः उप आ भूप) हमें सदा प्राप्त हों, हमें सुशोभित कर । हे (विश्व-वार) सब से वरण करने योग्य ! सब पापों के वारक ! ( ते सहस्रं नियुतः) तेरे अधीन सहस्रों नियुक्त आज्ञा पालक हैं । हे ( देव ) विद्वन् ! तू ( यस्य पूर्वपेयं ) जिसके पूर्व पालन करने योग्य अंश को ( दधिपे ) धारण करता है मैं उसी ( मधम् ) तृप्तिकारक, हर्षजनक (अन्धः) उत्तम अन्न को ( ते उपो अयामि ) तेरे लिये प्राप्त कराऊँ ।

प्र सोता जीरो अध्वरेष्वस्थात्सोममिन्द्राय वायवे पिबध्ये ।

प्र यद्वां मध्वो अग्रियं भरन्त्यध्वर्यवो देवयन्तः शचीभिः ॥२॥

भा०—( यत् ) जिस ( मध्वः ) शत्रुपीडक बल और मधुर ऐश्वर्य के ( अग्रियं ) प्रमुख पद तथा श्रेष्ठ भाग को ( देवयन्तः ) शुभगुणों और उत्तम फलों की आकांक्षा करने वाले ( अध्वर्यवः ) प्रजा की हिंसा से रहित राष्ट्र-पालक के कर्त्ताजन ( वां प्र भरन्ति ) आप दोनों के लिये प्राप्त कराते हैं, उस ( सोमम् ) ऐश्वर्य या बल वीर्य को ( इन्द्राय वायवे ) विद्युत्, पवन, सूर्य वायुवत् तेजस्वी और बलवान् पुरुष के ( पिबध्ये ) उपभोग और रक्षा के लिये ( अध्वरेषु ) यज्ञादि उपकारक कार्यों, यज्ञों में ( वीरं सोता ) वृद्ध विद्वान् ऐश्वर्योत्पादक वा शासक, ( प्र अस्थात् ) प्राप्त करे और उस पर शासन करे ।

प्र याभिर्यासिं द्वाश्वान्समच्छां नियुद्धिर्वायविष्टये दुरोणे ।

नि नो रयिं सुभोजसं युवस्व नि वीरं गव्यमश्वयं च राधः ॥३॥

भा०—हे ( वायो ) ज्ञानवन् ! विद्वन् ! बलवन् ! (याभिःनियुद्धिः) जिन अश्वदि सेनाओं सहित ( दुरोणे ) गृहवत् राष्ट्र में विद्यमान (द्वाश्वान्-

सम् ) कर आदि देने वाले प्रजाजन को ( अच्छ प्र यासि ) भली प्रकार प्राप्त होता है उन द्वारा ही तू ( नः ) हमें ( सुभोजसं रयिम् ) उत्तम भोग्य पदार्थों और उत्तम रक्षा साधनों से सम्पन्न ऐश्वर्य को ( नियुवस्व ) प्रदान कर और ( वीरं ) वीरजन, ( गव्यं राधः ) गवादि सम्पदा और ( अश्व्यं च राधः ) अश्वों से बनी सम्पदा भी ( नियुवस्व ) प्रदान कर ।

ये वायव इन्द्रमादनासु आदेवासो नितोशनासो अर्यः ।

घ्नन्तो वृत्राणि सूरिभिः प्याम सासृह्वांसो युधा नृभिरमित्रान् ४

भा०—( ये ) जो ( वायवः ) बलवान् पुरुष ( इन्द्र-मादनासः ) आत्मा प्राणों के समान शत्रुहन्ता, प्रजा को प्रसन्न करने में समर्थ जो ( आदेवासः ) अपने सब ओर विद्वान् और विजयाभिलाषी व्यवहारज्ञ पुरुषों को रखते हैं और ( अर्यः ) शत्रु के ( नितोशनासः ) मारने वाले हों ऐसे ( सूरिभिः ) शासक नायकों और विद्वानों के द्वारा हम लोग ( वृत्राणि घ्नन्तः ) विघ्नकारक दुष्टों, शत्रुओं का नाश और धर्मों को प्राप्त करते हुए ( युधा ) युद्ध द्वारा ( नृभिः अमित्रान् सासृह्वांसः ) वीर पुरुषों द्वारा शत्रुओं को पराजय करने वाले हों ।

आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वरं सहस्रिणीभिरुप याहि यज्ञम् ।

वायो अस्मिन्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥१४

भा०—हे ( वायो ) बलवान् वीरजन ! तू ( शतिनीभिः ) सौ २ भटों के स्वामी, नायकों तथा हजार २ के भटों के स्वामी, नायकों वाली ( नियुद्धिः ) अश्व सेनाओं सहित ( नः यज्ञं उप याहि ) हमारे यज्ञ, राज्य को प्राप्त हो । ( अस्मिन् सवने मादयस्व ) इस ऐश्वर्ययुक्त शासन में तू अति प्रसन्न हो और अन्यो को भी प्रसन्न कर । हे विद्वानो ! वीर पुरुषो ! आप लोग ( स्वस्तिभिः नः सदा पात ) उत्तम उपदेशवचनों और कल्याणकारी उपायों से हमारी सदा रक्षा किया करें । इति चतुर्दशो वर्गः ॥

[ ६३ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्राग्नी देवते ॥ छन्दः—१, ८ निचृत् त्रिष्टुप् । २, ५

आषीं त्रिष्टुप् । ३, ४, ६, ७ विराट् त्रिष्टुप् ॥ अष्टर्चं सूक्तम् ॥

शुचिं नु स्तोमं नवजातमद्येन्द्राग्नी वृत्रहणा जुपेताम् ।

उभा हि वां सुहवा जोहवीमि ता वाजं सद्य उशते धेष्ठा ॥ १ ॥

भा०—जिस प्रकार ( वृत्र-हणा ) विघ्ननाशक वा धन अन्नदि को प्राप्त करने वाले माता पिता ( नव-जातं शुचिं ) नये उत्पन्न उत्तम शुद्ध बालक को ( जुपेताम् ) प्रेम करते और ( श्रेष्ठा वाजं उशते दत्तः ) उसके पालक माता पिता बुभुक्षित को अन्न देते हैं उसी प्रकार हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र ऐश्वर्यवन् और अश्विन् तेजस्विन् अग्रणी नायको ! आप दोनों ( वृत्र-हणा ) अपने बढ़ते शत्रुओं का नाश करने वाले होकर ( शुचिम् ) शुद्ध पवित्र व्यवहार वाले ( नव-जातम् ) नये ही अपने अधीन प्राप्त, ( स्तोमं ) स्तुतियोग्य प्रजा के अधिकार ( अद्य ) आज के समान सदा ही ( जुपेताम् ) प्रेम और उत्साह से प्राप्त करें । ( ता ) वे दोनों ( धेष्ठा ) प्रजा तथा बलवान् सैन्य, सभादि के अधिकार को उत्तम-रीति से धारण करने में समर्थ होकर ( सद्यः ) शीघ्र ही ( उशते ) कामना वाले जन को ( वाजं ) उसका अभिलषित धन, अन्न, बल, ज्ञान आदि प्रदान करें । ( उभाहि वां ) आप दोनों को ही मैं ( सु-हवा ) सुख से, आदर पूजा सहित बुलाने योग्य सुगृहीतनामधेय ( जोहवीमि ) स्वीकार करता हूँ, आप को आदरपूर्वक बुलाऊँ, निमन्त्रित करूँ । माता पिता दोनों ही इन्द्र और दोनों ही अग्नि हैं । वे सन्तान के बाधक कारणों को नाश करने वाले होने से 'वृत्रहन्' होकर नवजात शिशु को निर्दोष और स्तुत्य रूप से प्राप्त करते हैं ।

ता सान्तिसी शवसाना हि भूतं साकुंवृधा शवसा शूशुवांसा ।

क्षयन्तौरायो यवसस्य भूरैः पृक्तं वाजस्य स्थविरस्य घृष्वैः ॥२॥



भा०—( ता ) वे दोनों ( सानसी ) सब से सेवा करने योग्य, सब के शरणीय, सब के दान देने वाले और ( शवसाना ) बलपूर्वक ऐश्वर्य का भोग करने वाले, (साकं-वृधा) एक साथ वृद्धि को प्राप्त और (शवसा) बल से ( शूशुवांसा ) बढ़ते ( भूतम् ) रहो । और ( भूरेः यवसस्य ) बहुत से अन्न और (रायः) दान देने योग्य धन पर (क्षयन्ती) ऐश्वर्य, प्रभुत्व करते हुए ( भूरेः ) बहुत बढ़े ( स्थविरस्य ) चिरस्थायी ( घृष्वेः ) शत्रु-नाशक (वाजस्य) बल, सैन्य को ( पृक्तम् ) अपने साथ मिलाये रखो ।  
उपो ह यद्विदथं वाजिना गुर्ध्निभिर्विप्राः प्रमत्तिमिच्छमानाः ।

अर्वन्तो न काष्ठां नक्षमाणा इन्द्राग्नी जोहुवतो नरस्ते ॥ ३ ॥

भा०—( यत् ) जो ( नरः ) मनुष्य (वाजिनः) बलवान्, संग्राम-चतुर और ऐश्वर्यवान् और ( प्रमत्तिम् इच्छमानाः ) उत्तम बुद्धि और उत्कृष्ट ज्ञान को चाहने वाले ( विप्राः ) बुद्धिमान् पुरुष ( धीभिः ) बुद्धियों और कर्मों द्वारा ( विदथं उपो अगुः ) उत्तम ज्ञान, उत्तम ऐश्वर्य और उत्तम संग्राम को प्राप्त करते हैं ( ते ) वे ( नरः ) उत्तम जन ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र अग्नि, विद्युत् अग्नि, और आचार्य और अध्यापक और सभापति सेनापति इन २ को ( जोहुवतः ) अपना प्रमुख स्वीकार करते हुए, उन के प्रति अपने को सौंपते हुए ( काष्ठां अर्वन्तः ) दूर २ देश की सीमा का अश्व के समान वेग से आगे बढ़ते हुए ( काष्ठां ) काष्ठा, अर्थात् 'क' परम सुखमय 'आस्था' स्थिति को ( नक्षमाणाः ) प्राप्त करते हुए ( विदथं उपो गुः ) प्राप्तव्य उद्देश्य प्राप्त करते हैं । विद्वान् गुरुओं को प्राप्त कर ज्ञानी लोग काष्ठा = गाष्ठा, अर्थात् वेद वाणियों में परम स्थिति को प्राप्त करके ( विदथं उपो अगुः ) प्राप्य परम धर्म तत्व, सुख या ज्ञान को पाते हैं । सभा सेनापति के अधीन जन 'काष्ठा' अर्थात् राष्ट्र या भूमि की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं तब वे सार्वभौम राज्य का शासन करते हैं ।

गीर्भिर्विप्रः प्रमतिमिच्छमान इष्टे रयिं यशसं पूर्वभाजम् ।

इन्द्राग्नी वृत्रहणा सुवज्रा प्र नो नव्येभिस्तिरतं देष्णैः ॥ ४ ॥

भा०—( विप्रः ) विद्वान्, बुद्धिमान् पुरुष ( गीर्भिः ) वेदवाणियों द्वारा ( प्र-मतिम् ) उत्तम कोटि का ज्ञान ( इच्छमानः ) प्राप्त करना चाहता हुआ, ( पूर्व-भाजम् ) पूर्व के विद्वानों से सेवित, एवं शिष्यों के प्रति उप-दिष्ट, ( यशसं ) यशोजनक ( रयिम् ) ज्ञानैश्वर्य की ( इष्टे ) याचना करे । और ( इन्द्राग्नी ) आचार का शिक्षक आचार्य, ज्ञान का दाता विद्वान् दोनों वीर नायकों के समान ( वृत्र-हणा ) दुष्ट विघ्नों को नाश करने वाले ( सु-वज्रा ) पापादि के भली प्रकार वर्जन करने वाले उपदेश और ज्ञान रूप वज्र से युक्त होकर ( नव्येभिः देष्णैः ) नये से नये उपदेष्टव्य ज्ञानों द्वारा ( नः प्र तिरतम् ) हमें बढ़ावें ।

सं यन्मही मिथती स्पर्धमाने तनुरुचा शूरसाता यतैते ।

अदेवयुं विदथे देवयुभिः सूत्रा हतं सोमसुता जनेन ॥५॥१५॥

भा०—( यत् ) जब ( मही ) बड़ी २ ( मिथती ) एक दूसरे को मारती और ललकारती हुई ( तनू-रुचा ) अपने विस्तृत शरीर के तेज से ( स्पर्धमाने ) एक दूसरे से बढ़ने के निमित्त स्पर्धा कराने वाली दो स्त्रियों या वरवधू के समान परस्पर स्पर्द्धा करती हुई दो सेनाएं ( शूर-साता ) वीरों के संग्राम में ( सं-यतेते ) परस्पर विजय का यत्न करती हैं उनमें, हे इन्द्र अग्नि ! वीरों और अग्रणी नायक जनो ! आप दोनों ( विदथे ) संग्राम में ( देवयुभिः ) दानशील, वृत्तिदाता राजा के प्रिय पक्ष वाले वीर पुरुषों के साथ मिलकर ( अदेवयुं ) राजा के अप्रिय, शत्रु जन को ( सोम-सुता जनेन ) ऐश्वर्य अन्नादि के उत्पन्न करने वाले प्रजाजन के साथ मिलकर ( वृत्रा हतम् ) विघ्नकारी शत्रुओं को एक साथ मारो । इति पञ्चदशो वर्गः ॥

इमामु षु सोमसुतिमुप न एन्द्राग्नी सौमनसाय यातम् ।

नृ चिद्धि परिमन्नाथे अस्माना वां शश्वद्भिर्वृतीय वाजैः ॥६॥

भा०—हे ( इन्द्राग्नी ) ऐश्वर्यवान् ! हे विद्वन् ! अग्रणी नायक जनो ! आप दोनों ( नः ) हमारी ( इमाम् ) इस ( सोम-सुतिम् ) अन्न ओषधि आदि के द्वारा किये यज्ञ को ( सौमनसाय ) उत्तम मन बनाये रखने के लिये ( सु-आ-यातम् ) आदरपूर्वक आइये । ( नू चित् हि ) आप लोग कभी भी ( अस्मान् परि मन्नाथे ) हमें त्याग कर अन्य को न मानें । मैं प्रजाजन ( वां ) आप दोनों को ( वाजैः शश्वद्भिः ) बहुत अन्नों और ऐश्वर्यों से ( आ ववृतीय ) आदरपूर्वक सम्मान करूं ।

सो अ॒ग्न ए॒ना नम॑सा॒ समि॒द्धोऽच्छा॑ मि॒त्रं वरु॑णमिन्द्रं॒ वोचेः॑ ।  
यत्सी॑माग॒श्चकृ॑मा तत्सु मृ॒ळ तद॑र्यमादितिः शि॒श्रथन्तु॑ ॥ ७ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) मुख के समान अग्रणी, प्रमुख पुरुष ! ( सः ) वह तू ( एना नमसा ) इस आदरयुक्त वचन और ( नमसा ) विनयकारी दुष्टों के नमाने वाले बल से ( सम्-इद्धः ) खूब अग्निवत् तेजस्वी होकर ( मित्रं वरुणं इन्द्रं ) स्नेहवान् श्रेष्ठ, और ऐश्वर्यवान् पुरुष को ( अच्छ वोचेः ) भली प्रकार कह कि ( सीम् ) हम ( यत् ) जो भी ( आगः चकृम ) अपराध या पाप करें तू ( तत् ) उसे ( सु ) भली प्रकार ( मृळ ) दयादृष्टि से न्यायपूर्वक देख । ( तत् ) उसको ( अर्यमा ) दुष्टों का नियन्ता, न्यायकारी पुरुष और ( अदितिः ) कभी सद्व्यवस्था को न टूटने देने वाला, दृढ़, सत्य नीतिमान् व्यवस्थापक पुरुष हम प्रजाजनों के उस अपराध को ( शिश्रथन्तु ) प्रजा में से निर्मूल कर दे ।

ए॒ता अ॒ग्न आ॒शुपा॑णास॒ इ॒ष्टीर्यु॑वोः स॒चाभ्य॑श्याम॒ वाजा॑न् ।

मेन्द्रो॑ नो वि॒ष्णुर्मि॑रुतः परि॒ख्यन्थु॑यं पा॒त स्व॑स्तिभिः सदा॑ नः ८।१६

भा०—हे ( अग्ने ) अग्रणी जन ! हम लोग ( एताः ) इन ( इष्टीः ) देने योग्य करादि अंशों को ( आशुपाणासः ) अति शीघ्र देते हुए, ( युवोः ) तुम दोनों के ( वाजान् ) बलों, ऐश्वर्यों को ( सचा अभि अश्याम ) एक साथ मिलकर भोग करें । ( इन्द्रः विष्णुः ) ऐश्वर्यवान् जन और व्यापक

अधिकार वाले शासक तथा ( मरुतः ) बलवान् शत्रुनाशक वीर पुरुष और विद्वान् जन ( नः परिख्यन् ) हमें कभी उपेक्षा न करें । हमारी कभी निन्दा वा त्याग न करें । ( यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) आप लोग हमारी सदा उत्तम २ उपायों से रक्षा करें । इति षोडशो वर्गः ॥

[ ६४ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्राग्नी देवते ॥ छन्दः—१, ३, ८, १० आर्षी निचृद् गायत्री । २, ४, ५, ६, ७, ९, ११ आर्षी गायत्री । १२ आर्षी निचृदनुष्टुप् ॥ द्वादशं सूक्तम् ॥

इयं वामस्य मन्मत् इन्द्राग्नी पूर्व्यस्तुतिः । अभ्रावृष्टिर्वाजनि १

भा०—हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र, ऐश्वर्यवन् ! हे ( अग्ने ) अंग में झुकने हारे, विनयशील शिष्य जनो ! ( इयं ) यह ( पूर्व्य-स्तुतिः ) पूर्व पुरुषों से प्राप्त उत्तम ज्ञानोपदेश ( अस्य मन्मनः ) इस ज्ञानवान् पुरुष का ( वाम् ) आप दोनों के प्रति ( अभ्रात् वृष्टिः इव ) मेघ से वृष्टि के समान ( अजनि ) प्रकट हुआ करे ।

शृणुतं जरितुर्हवमिन्द्राग्नी वनतं गिरः । ईशाना पिप्यतं धियः २

भा०—हे ( इन्द्राग्नी ) ऐश्वर्य और विनयशील पुरुषो ! आप दोनों ही, ( जरितुः ) उपदेश, जन के ( हवम् ) ग्राह्य उपदेश का श्रवण करो । ( गिरः ) उत्तम वेद वाणियों और ( गिरः ) उपदेश जनों की ( वन-तम् ) याचना और सेवा किया करो । ( ईशाना धियः ) अधिक समर्थ होकर सत्कर्मों और सद्-बुद्धियों को ( पिप्यतम् ) बढ़ाओ, अधिक दूर तक फैलाओ ।

मा पाप्तवायं नो नरेन्द्राग्नी माभिश्स्तये । मानो रीरधतं निदे ३

भा०—हे ( नरा इन्द्राग्नी ) उत्तम नायको ! हे इन्द्र, अग्नि ऐश्वर्य-वन् ! विद्यावान् ! नायक नायिका, जनो ! आप लोग ( नः ) हमें ( पाप-

त्वाय ) पाप कर्म के लिये ( मा रीरधतम् ) कभी मत अपने अधीन रक्त्वो ।  
 ( अभि शस्तये मा रीरधतम् ) शत्रु द्वारा हमें पीड़ित करने के लिये भी  
 अधीन मत रख, (निदे) निन्दित कर्म करने के लिये वा निन्दा करने  
 चाले के लाभ के लिये भी हमें अपने या किसी अन्य के अधीन मत रख ।  
 कोई भी प्रजा किसी भी शासक के अधीन रहकर इन तीन प्रयोजनों को  
 पूरा न होने दे ? पापाचार की वृद्धि, शत्रु द्वारा अपना नाश और निन्दक  
 व्यक्ति का लाभ । यदि शासक प्रजा को अपने अधीन रख कर प्रजा में पाप,  
 प्रजा की हानि और निन्दकों का लाभ करता है तो प्रजा को अपने भीतर  
 इन्द्र और अग्नि अर्थात् ऐश्वर्यवान्, ज्ञानवान् बलवान्, तेजस्वी पुरुषों के  
 दलों में धर्माचार, प्रजा की रक्षा और स्वात्माभिमान को जागृत कर उनको  
 खड़ा कर स्वतन्त्र होने का प्रयास करना चाहिये ।

इन्द्रे अग्ना नमो बृहत्सुबृहत्किमेरयामहे । धिया धेना अवस्यवः ४

भा०—हम लोग ( अवस्यवः ) ज्ञान, रक्षा, प्राणवृत्ति, ऐश्वर्यादि की  
 कामना करते हुए ( इन्द्रे अग्ना ) अपने बीच विद्यमान, ऐश्वर्यवान्,  
 शत्रुहन्ता और अग्निवत् तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष वर्गों में ( बृहत् नमः )  
 बड़ाभारी आदर, और शस्त्र बल और ( सु-वृक्तिम् ) शुभ वर्तव्य,  
 उत्तम स्तुति और शत्रु पापादि को वर्जन करने का बल, और ( धिया )  
 बुद्धि और कर्म के द्वारा ( धेनाः ) वाणियों को (आ ईरयामहे) प्रेरित करें ।

ता हि शश्वन्त ईडते इत्था विप्रास उक्तये ।

सुवाधो वाजसातये ॥ ५ ॥

भा०—( इत्था ) इस प्रकार ( शश्वन्तः विप्रासः ) बहुत से विद्वान्  
 पुरुष ( सुवाधः ) पीड़ित होकर दुःख पीड़ा आदि की चर्चा संदेशादि  
 लेकर ( उक्तये ) अपनी रक्षा के लिये और ( वाजसातये ) संग्राम करने  
 के लिये ( ता हि ईडते ) उन दोनों पूर्वोक्त इन्द्र, अग्नि को अध्यक्ष रूप  
 से चाहते हैं ।

ता वां गीर्भिर्विपन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहे ।

मेधसाता सन्निष्यवः ॥ ६ ॥ १७ ॥

भा०—हम ( विपन्यवः ) विविध व्यवहारों वाले और ( प्रयस्वन्तः ) उत्तम २ प्रयास वा उद्योग करने वाले और अन्यो को ( सन्निष्यवः ) वृत्ति देने वाले जन भी मिलकर ( ता वां ) उन आप दोनों इन्द्र, अग्नि जनों को ही ( मेध-साता ) अन्नलाभ, यज्ञ और संग्राम के लिये ( गीर्भिः ) नाना वाणियों से ( हवामहे ) आदरपूर्वक बुलाते हैं । अर्थात् व्यवहारकुशल व्यापारी, प्रयासी, श्रमी और वृत्तिदाता सत्ताधारी सभी मिलकर यज्ञ, संग्राम और अन्न के लिये उनको ही पुकारें । इति सप्तदशो वर्गः ॥

इन्द्राग्नी अत्रसा गतमस्मभ्यं चर्पणीसहा ।

मा नो दुःशंस ईशत ॥ ७ ॥

भा०—हे ( चर्पणी-सहा ) मनुष्यों के बीच शत्रुओं का पराजय करने वाले ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और अग्नि पेश्वर्यवान् और विद्यावान् सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी नायको ! आप दोनों ( अस्मभ्यं ) हमारी ( अवसा ) रक्षा के सहित ( आ गतम् ) आओ । जिससे ( नः ) हम पर ( दुःशंसः ) दुष्ट वचन बोलने वाला, कठोरभाषी, दुर्वादी पुरुष ( मा ईशत ) शासन न करे । वह हमारे बीच में शक्ति और अधिकार प्राप्त न करे ।

मा कस्य नो अररुषो धूर्तिः प्र ण्डमर्त्यस्य ।

इन्द्राग्नी शर्म यच्छतम् ॥ ८ ॥

भा०—हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र सूर्यवत् तेजस्विन् ! हे ( अग्ने ) अग्निवत् दुष्टों के पीड़क ! हे सूर्याग्निवत् ज्ञान के प्रकाशक जनो ! आप दोनों ( नः शर्म यच्छतम् ) हमें सुख प्रदान करो । ( कस्य ) किसी भी ( अररुषः मर्त्यस्य ) अति रोपकारी, क्रोधान्ध मनुष्य की ( धूर्तिः ) हिंसाकरिणी-चेष्टा ( नः मा प्र ण्डम् ) हम तक न पहुंचे ।

गोमद्विरण्यवद्वसु यद्वामश्वोवदीर्महे । इन्द्राग्नी तद्वनेमहि ॥९ ॥

भा०—हे ( इन्द्राग्नी ) सूर्य अग्निवत् तेजस्वी पुरुषो ! इम ( यत् ) जो भी और जिस प्रकार का भी ( वाम् ईमहे ) आप दोनों से मांगते हैं ( तत् ) वह ( गोमत् ) गौओं, ( हिरण्यवत् ) सुवर्णादि बहुमूल्य पदार्थ और ( अश्ववद् ) अश्वों से सम्पन्न ( वसु ) धन ( वनेनहि ) प्राप्त करें और उसका भोग करें ।

यत्सोम आ सुते नर इन्द्राग्नी अजोहवुः । ससीवन्ता सपर्यवः १०

भा०—हे ( ससीवन्ता ) उत्तम अश्वों के स्वामी ( इन्द्राग्नी ) विद्युत्, अग्निवत् तेजस्वी, ज्ञानप्रकाशक और शत्रुसंतापक नायक जनो ! ( यत् ) जब ( सोमे सुते ) पुत्रवत् प्रिय 'सोम' अर्थात् ओषधि अन्नादिवत् भोग्य सम्पन्न राष्ट्र में ( नरः ) नायक लोग ( सपर्यवः ) सेवा शुश्रूषा करते हुए ( आ अजोहवुः ) आदरपूर्वक बुलाते हैं ।

उक्थेभिर्वृत्रहन्तमा या मन्दाना चिदा गिरा ।

आङ्गुपैराविवासतः ॥ ११ ॥

भा०—( या ) जो आप दोनों ( वृत्रहन्तमा ) दुष्टों को अच्छी प्रकार दण्ड देने वाले, ( उक्थेभिः ) उत्तम वेद-वचनों और ( आमन्दाना ) सब को प्रसन्न करते हुए ( गिरा चित् ) वेद वाणी से और ( आङ्गुपैः ) उत्तम स्तुति-वचनों और उपदेशों से ( आ विवासतः ) सर्वत्र ज्ञानप्रकाश करते हैं ।

ताविहुःशंसं मर्त्यं दुर्विद्वांसं रक्षस्विनम् ।

आभोगं हन्मना हतमुदधिं हन्मना हतम् ॥ १२ ॥ १८ ॥

भा०—( तौ इद् ) वे दोनों ही ( दुःशंसं ) दुर्वचन, कठोर भाषण करने वाले ( दुर्विद्वांसं ) दुर्गुणी विद्यावान्, ( रक्षस्विनम् ) अन्यो के कार्यों में विघ्न करने वाले के सहायक ( आभोगं ) चारों तरफ से भोग विलास में मग्न, भोगप्रिय, ( मर्त्यं ) मनुष्य को ( हन्मना ) हननकारी साधन, हथियार से ( हतम् ) दण्ड दो । और ( उदधिम् ) पानी को धारण

करने वाले घट या तालाब के समान उसको भी ( हन्मना हतम् ) शस्त्र द्वारा नाश करो । जिस प्रकार घट या जलाशय को दण्डे या फावड़े से तोड़ या खोदकर उसका जल ले निकाल कर उसे खाली कर दिया जाता है उसी प्रकार दुर्वचनी, दुराचारी, दुष्टसंगी पुरुष को भी मार कर, उसका सर्वस्व हर लेना चाहिये । इत्यष्टादशो वर्गः ॥

[ ६५ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ १, २, ४—६ सरस्वती । ३ सरस्वान् देवता ॥ छन्दः—  
१ पादानिचृत् त्रिष्टुप् । २, ५, ६ आर्षी त्रिष्टुप् । ३, ४ विराट् त्रिष्टुप् ॥  
षडृचं सूक्तम् ॥

प्र क्षोदसा धायसा सस्त्र एषा सरस्वती धरुणमायसी पूः ।

प्र बावधाना रथ्यैव याति विश्वा अपो महिना सिन्धुरन्याः ॥१॥

भा०—पत्नी या स्त्री के कर्त्तव्य—जिस प्रकार ( सिन्धुः ) वहने वाली नदी (क्षोदसा सस्त्रे) पानी से बहती है, (आयसीः पूः) लोहे के बने प्रकोट के समान नगर की रक्षा करती, ( रथ्या इव ) रथ में लगे अश्वों के समान (प्र बावधाना) मार्ग में आये वृक्षलतादि को उखाड़ती हुई, (अन्याः अपः च प्रबावधाना) अन्य सब जल-धाराओं को बांधती हुई सब से मुख्य होकर ( याति ) आगे बढ़ती है उसी प्रकार ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञानयुक्त विदुषी स्त्री (धायसा) पुष्टिकारक बालक को पिलाने योग्य दूध (क्षोदसा) और अन्न से (प्रसस्त्रे) प्रेम से प्रवाहित होती है । वह ( धरुणम् ) गृहस्थ को धारण करने वाली और सबका आश्रय हो, वह (आयसी पूः) लोहे के प्रकोट के समान, दृढ़ एवं (आयसी) सब प्रकार से परिश्रम करने वाली और ( पूः ) प्रवचनों और परिवार के पालन करने वाली हो । वह (रथ्या इव) रथ में लगने योग्य अश्वों के समान दृढ़ होकर और वह (महिना) अपने सामर्थ्य से ( विश्वाः अन्याः अपः ) अन्य आस जनों को ( सिन्धुः )



समुद्र या महानद के समान ( प्र वावधाना ) दृढ़ सम्बन्ध से बांधती हुई  
( याति ) संसार-मार्ग पर चले ।

एकाचेत्तत्सरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य आ समुद्रात् ।  
रायश्चेतन्ती भुवनस्य भूरर्घृतं पयो दुदुहे नाहुपाय ॥ २ ॥

भा०—जिस प्रकार ( नदीनां एका सरस्वती शुचिः ) नदियों में ले  
एक अधिक वेग, अधिक जल वाली, स्वच्छ-जल नदी ( गिरिभ्यः आ  
समुद्रात् यती ) पर्वतों से समुद्र तक जाती हुई (नाहुपाय) मनुष्य वर्ग के  
लिये ( घृतं पयः दुदुहे ) जल और अन्न प्रचुर मात्रा में प्रदान करती है,  
इसी प्रकार (सरस्वती) उत्तम ज्ञानवाली विदुषी स्त्री ( नदीनाम् ) अन्य  
समृद्ध, धनसम्पन्न स्त्रियों के बीच में भी ( शुचिः ) शुद्ध पवित्र आचार,  
चरित्र, रूप और वाणी वाली होकर ( एका चेत्तत् ) वह अकेली ही सर्व  
प्रशस्त जानी जाय । वह ( गिरिभ्यः ) उपदेष्टा पिता आदि गुरुओं से  
( समुद्रात् ) कामना योग्य, हर्षजनक पति-गृह को (यती) प्राप्त होती हुई  
(भुवनस्य) समस्त लोकों को (भूरेः रायः चेतन्ती) अपने बहुत उत्तम ऐश्वर्य  
को बतलाती हुई, (नाहुपाय) सम्बन्ध में बांधने वाले अपने पति के लिये  
( घृतं पयः ) घी, स्नेह, दुग्ध, अन्न आदि की ( दुदुहे ) खूब वृद्धि करे  
और उनसे सबको पुष्ट करे ।

स वावृधे नर्यो योषणासु वृषा शिशुर्वृषभो यज्ञियासु ।

स वाजिनं मघवद्भ्यो दधाति वि सातये तन्वं मामृजीत ॥३॥

भा०—नरश्रेष्ठ का वर्णन—( सः ) वह ( नर्यः ) मनुष्यों का  
हितकारी, मनुष्यों में श्रेष्ठ पुरुष (यज्ञियासु) यज्ञ, परस्पर संग वा दान  
प्रतिदान द्वारा प्राप्त ( योषणासु ) स्त्रियों, धर्मदाराओं में ( वृषा ) वीर्य-  
सेचन में समर्थ, (वृषभः) बलवान्, वृषभवत् होकर (शिशुः) सह-शयन  
करने वाला होकर (वावृधे) प्रजा पुत्र, धन धान्यादि से बढ़े । (सः) वह  
(मववद्भ्यः = मखवद्भ्यः) यज्ञ करनेवाले याज्ञिकों को और (मघवद्भ्यः)

धनैश्चर्यं सम्पन्न राजादि के हितार्थं ( वाजिनं ) बल, अन्न, धन ज्ञानादि से सम्पन्न पुत्र को प्रजावत् ( दधाति ) धारण करता है, विद्वानों को अश्वयानादि वेगयुक्त पदार्थों को दक्षिणा रूप में देता है । वह ( सातये ) पुत्र, धन अन्न ज्ञानादि के लाभार्थ, एवं संग्राम के लिये भी ( तन्वं ) अपने शरीर वा आत्मा को ( वि मामृजीत ) विविध उपायों से—यज्ञ, दान, स्नान, ओषधि, उपदेशश्रवण, मनन, निदिध्यासन, ज्ञानोपार्जन, सत्कार, तप आदि से शुद्ध करे और युद्धार्थं अस्त्र-शस्त्र, वेप-भूषा, पदकादि से सजावे ।

उत स्या नः सरस्वती जुषाणोप श्रवत्सुभगा यज्ञे अस्मिन् ।

मितञ्जुभिर्नमस्यैरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः ॥ ४ ॥

भा०—( उत ) और ( स्या ) वह ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान-वाली विदुषी स्त्री, ( जुषाणा ) हम से स्नेह करती हुई ( अस्मिन् यज्ञे ) इस यज्ञ में ( सु-भगा ) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त, सौभाग्यवती होकर ( नः उप श्रवत् ) हमारी बात ध्यानपूर्वक श्रवण करे । वह ( नमस्यैः ) नमस्कार करने योग्य ( मित-ञ्जुः ) परिमित संकुचित जानुओं वाले सभ्य ( मित-ञ्जुभिः ) समस्त ज्ञातव्य पदार्थों के जानने वाले विद्वान् पुरुषों के साथ ( इयाना ) प्राप्त होती हुई ( राया ) ऐश्वर्य ( चित् ) और ( युजा ) सहयोगी पति से तू ( सखिभ्यः ) अपनी सखी सहेलियों से ( उत्तरा ) अधिक उत्कृष्ट हो ।

इमा जुह्वाना युष्मदा नमोभिः प्रति स्तोमं सरस्वति जुषस्व ।  
तव शर्मन्प्रियतमे दधाना उप स्थेयाम शरणं न वृक्षम् ॥ ५ ॥

भा०—हे ( सरस्वति ) उत्तम ज्ञान से युक्त विदुषि ! हे सरस्वति ज्ञानमय प्रभो ! तू ( स्तोमं प्रति जुषस्व ) उत्तम स्तुत्यवचन को प्रेम से स्वीकार कर । हम ( नमोभिः ) विनय युक्त वचनों, अन्नों सहित ( युष्मत् आजुह्वाना ) तुम से नाना ग्राह्य पदार्थ स्वीकार करते हुए ( तव प्रियतमे शर्मन् ) तेरे प्रिय तम गृह में अपने को ( दधानाः ) रखते हुए

(वृक्षं न शरणं) वृक्ष के समान शरण देने वाले (उप स्थेयाम) तेरे निकट उपस्थित हों, तेरी शरण होवें ।

अयमुं ते सरस्वति वसिष्ठो द्वारावृतस्य सुभगे व्यावः ।

वधं शुभ्रे स्तुवते रासि वाजान्युय पात स्वस्तिभिः सदा नः६।१९

भा०—हे ( सरस्वति ) उत्तम ज्ञानवति ! विदुषि ! हे ( सुभगे ) उत्तम भाग्यशालिन् ! ( अयम् वसिष्ठः ) यह उत्तम ब्रह्मचारी पुरुष ( तं ) तेरे लिये ( ऋतस्य द्वारौ ) सत्य ज्ञान, अन्न और धन के दोनों द्वारों को प्रकट करता है । हे ( शुभ्रे ) हे शुभ चरित्र, रूप, उज्ज्वलगुणों वाली ! हे सुशोभिते ! तू ( स्तुवते ) गुणों को प्रशंसा करने वाले अपने गुणग्राही जन को ( वाजान् ) अन्न, ऐश्वर्यादि ( रासि ) प्रदान कर । हे विद्वान् लोगो ! ( यूयं स्वस्तिभिः नः पात ) आप लोग उत्तम २ आशीर्वादां, शुभ कर्मों द्वारा हमें पाप कर्मों से बचाओ ।

इस सूक्त में सरस्वती, सरस्वान् देवता हैं । उत्तम ज्ञान का परम भण्डार परमेश्वर है इससे सरस्वती सरस्वान् नाम परमेश्वर के हैं । ( १ ) परमेश्वर सब विश्व को धारण करने वाला सर्वाश्रय होने से 'धरुण' हैं । पालक होने से 'पूः' है । महान् व्यापक होने से 'सिन्धु' है । सर्वत्र रक्षा-कारी पोषक रूप से व्याप्त है, सब कष्टों को दूर करता है । ( २ ) वह एक अद्वितीय, स्वच्छ, विमल, ( गिरिभ्यः ) उपदेशा गुरुजनों से हमें उपदेश द्वारा प्राप्त होता है । वह प्रकाश, अन्न सब को देता, सबको चेतना वा ज्ञान देता है । ( ३ ) सब सञ्चालक सूर्यादि शक्तियों में व्यापक होने से 'नय' सर्वत्र व्यापक होने से 'शिशु' सर्वप्रबन्धक होने से 'वृषा', सबको धारण करने, सुखवर्षक होने से 'वृषभ' है, वही सबको ऐश्वर्य देता है, उसको प्राप्त करने के लिये योगी अपने कर्म मन, आत्मा को शुद्ध करे । ( ४ ) सर्वैश्वर्यवान् होने से प्रभु 'सुभग' ( मितजुभिः ) गोड़े सिकोड़ने या घुटने टिक बैठने वाले ( नमस्यैः ) भक्त जनों से उपासित होकर वह ऐश्वर्य, योग

से सब अन्य आत्माओं से अधिक है। (५) वह प्रभु हमारी स्तुति स्वीकार करे और हम उसकी शरण, सुखमयी छाया में विश्राम लें।

[ ६६ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ १—३ सरस्वती । ४—६ सरस्वान् देवता ॥ छन्दः—  
१ आर्ची भुरिगृहती । ३ निचृत् पंक्तिः । ४, ५ निचृद्गायत्री । ६ आर्ची  
गायत्री ॥

वृहदु गायिपे वर्चोऽसुर्या नदीनाम् ।

सरस्वतीमिन्महया सुवृक्तिभिः स्तोमैर्वसिष्ठ रोदसी ॥१॥

भा०—हे ( वसिष्ठ ) उत्तम विद्वन् ! तू ( रोदसी ) भूमि और सूर्य दोनों में नायक और ( नदीनाम् असुर्या ) नदियों में अति बलवती नदी के समान समृद्ध प्रजाओं में सबसे बलशाली, प्रभु की ( वृहत् उ गायिपे ) बहुत बहुत स्तुति कर । और ( सुवृक्तिभिः ) स्तुति और ( स्तोमैः ) वेद के सूक्तों से और स्तुत्य यज्ञादि कर्मों में से ( सरस्वीम् इत् महय ) उस महाप्रवाह की, जो अनादि काल से सबको ज्ञान, शक्ति, प्राण सुख, ऐश्वर्य का प्रवाह संसार में बहा रहा है ( महय ) पूजा कर ।

उभे यत्ते महिना शुभ्रे अन्धसी अधि क्षियन्ति पूरवः ।

सा नो बोध्यवित्री मरुत्सखा चोद् राधो मघोनाम् ॥ २ ॥

भा०—( यत् ) जिस ( ते ) तेरे ( महिना ) महान् सामर्थ्य से ( पूरवः ) मनुष्य गण ( उभे ) दोनों को ( अधि क्षियन्ति ) प्राप्त करते हैं हे ( शुभ्रे ) अति उज्ज्वल स्वरूप वाली सरस्वति ! परमेश्वरि ! ज्ञानमयि ! ( सा ) वह तू ( मरुत्सखा ) विद्वानों की मित्र ( भवित्री ) समस्त संसार की रक्षा करने वाली वा स्नेहमयी होकर ( नः बोधि ) हमें ज्ञान दे और ( मघोनां ) ऐश्वर्यवान् जनों को ( राधः चोद् ) धनादि प्रदान कर ।

भद्रमिन्द्रा कृणवत्सरस्वत्यकवारी चेतति वाजिनीवती ।

गृणाना जमदग्निवत्स्तुवाना च वसिष्ठवत् ॥ ३ ॥

भा०—( भद्रा सरस्वती ) सबका कल्याण करने वाली वह परमेश्वरी ( वाजिनी-वती ) बलयुक्त क्रिया और ऐश्वर्य, अन्नादियुक्त भूमि गूर्यादि की स्वामिनी, ज्ञानादियुक्त विद्वानों की स्वामिनी और ( अकव-अरी ) कभी कुत्सित मार्ग में न जाने देने वाली होकर सबके लिये ( भद्रम् कृणवन् ) भला ही भला, कल्याण ही कल्याण करती है । वही ( चेतति ) सब को ज्ञान प्रदान करती है । वह ( जमदग्निवत् ) प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशस्वरूप, ( गृणाना ) स्तुति की जाती है । और ( वसिष्ठवत् ) सब में सर्वोत्तम रूप से बसने वाले, जगत्त्रिवासिनी के समान ( स्तुवाना ) स्तुति की जाती है ।

जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः । सरस्वन्तं हवामहे ॥४॥

भा०—हम लोग (जनीयन्तः) भार्या रूप उत्तम संतति जनक क्षेत्र की कामना करने वाले, (पुत्रीयन्तः) पुत्रों की कामना करने वाले, (अग्रवः नु) आगे बढ़ने वाले और (सु-दानवः) उत्तम दानशील पुरुष (सरस्वन्तं) उत्तम ज्ञानवान् प्रभु को (हवामहे) प्राप्त होते, पुकारते और उसी से याचना करते हैं ।

ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृतश्चुतः । तेभिर्नोऽविता भव ५.

भा०—हे ( सरस्वः ) उत्तम ज्ञान और बलशालिन् ! ( ते ) तेरे ( ये ) जो ( मधुमन्तः ) मधुर आनन्द, जल, अन्नादियुक्त और ( घृतश्चुतः ) प्रकाश, स्नेह और जलप्रदान करने वाले ( ऊर्मयः ) उत्तम तरङ्गवत् उत्कृष्ट मार्ग से जाने वाले विद्वान्, सूर्य, पवन, मेघादि हैं ( तेभिः ) उनसे तू ( नः ) हमारा ( अविता ) रक्षक ( भव ) हो ।

प्रीपिवांसं सरस्वतः स्तनं यो विश्वदर्शतः ।

अस्मीमहि प्रजामिषम् ॥ ६ ॥ २० ॥

भा०—(यः) जो (विश्व-दर्शतः) समस्त जीवों के दर्शन करने योग्य, सूर्य के समान तेजस्वी है। उस (सरस्वतः) उत्तम ज्ञानवान्, शक्तिमान् प्रभु के (पीपिवांसं) सब के परिपोषक, (स्तनं) स्तन के समान सबको बालकवत् पोषण करने वाले, या मेघवत् सब के प्रति वेदोपदेश देने वाले वेदमय शब्द वा प्रभु का हम (भक्षीमहि) भजन, सेवन करें और उसी की दी (प्रजाम्, इप्स्) प्रजा, उत्तम सन्तान अन्न तथा प्रेरणा और सदिच्छा का सेवन करे। अथवा उस सर्वशक्तिमान् प्रभु की उत्तम-सूर्यादि-उत्पादक प्रकृति 'प्रजा' है, और उसका सञ्चालकशक्ति 'इप्' है, हम उसका भजन सेवन कर सुखी हों। इति विंशो वर्गः ॥

### [ ६७ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ १ इन्द्रः । २, ४—८ वृहस्पतिः । ३, ६ इन्द्राग्रहणस्पती ।  
१० इन्द्राग्रहस्पती देवते ॥ छन्दः—१ आर्षी त्रिष्टुप् । २, ४, ७ विराट् त्रिष्टुप् ।  
३, ५, ६, ८, ९, १० निचृत् त्रिष्टुप् ॥ दशर्चं सूक्तम् ॥

यज्ञे दिवो नृषदने पृथिव्या नरो यत्र देवयवो मदन्ति ।

इन्द्राय यत्र सर्वानानि सुन्वे गन्मदाय प्रथमं वयश्च ॥ १ ॥

भा०—परमेश्वर इन्द्र ! ( यत्र ) जिस ( यज्ञे ) सर्वोपास्य, सर्वप्रद प्रभु परमेश्वर के आश्रय ( देवयवः ) दिव्य शक्तियों की कामना करने, वा देव, उपास्य, वा सर्व सुखदाता के भक्ति करने वाले प्रभुप्रेमी जन ( दिवः पृथिव्याः ) आकाश और भूमिपर के ( नृ-सदने ) मनुष्यों के रहने के प्रत्येक स्थान में ( मदन्ति ) हर्ष आनन्द लाभ करते हैं। ( च ) और ( वयः ) तेजस्वी ज्ञानी पुरुष ( मदाय ) मोक्षानन्द प्राप्त करने के लिये ही ( यत्र ) जिस प्रभु के आश्रय में स्थिर होकर ( प्रथमं गमन् ) सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं उस ( इन्द्राय ) परमेश्वर्यवान् प्रभु के लिये ही मैं ( सर्वानानि ) समस्त उपासनाएं ( सुन्वे ) करूं।

आ दैव्या वृणीमहेऽवांसि बृहस्पतिर्नो मह आ सखायः॥

यथा भवेम मीळ्हुपे अनागा यो नो दाता परावतः पितेव ॥२॥

भा०—(यः) जो (नः) हमें (पिता इव) पिता के समान (परावतः) दूर २ से वा परम पद से (दाता) सब सुख ऐश्वर्यादि देने हारा है। वह (बृहस्पतिः) बड़े, ब्रह्माण्ड का पालक है (नः) हमें (आ महे) सब प्रकार से देता है। हे (सखायः) मित्रो ! हम उस (मीळुपे) मेववत् ऐश्वर्य सुखों के वर्पाने वाले, महा दानी, प्रभु के प्रति (यथा) जिस प्रकार हों (अनागाः भवेम) निरपराध और निष्पाप हों, इसीलिये हम (दैव्यानि अवांसि) सर्वप्रद, सर्वप्रकाशक उसी प्रभु के दिये वलों, नृसिकारक अन्नादि ऐश्वर्यों और उसी की रक्षाओं को (आ वृणीमहे) अपने लिये चाहते हैं।

तमु ज्येष्ठं नमसा हविर्भिः सुशेवं ब्रह्मणस्पतिं गृणीपे ।

इन्द्रं श्लोको महिदैव्यः सिपक्तु यो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजा ॥३॥

भा०—(यः) जो (देव-कृतस्य) परमेश्वर के दिव्य पदार्थ पृथिवी आदि वा जीवों के लिये बनाये हुए (ब्रह्मणः) महान् ब्रह्माण्ड का (राजा) स्वामी है उस (महि) महान् (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् प्रभु परमेश्वर को ही (दैव्यः) विद्वानों की देवोचित (श्लोकः) स्तुति और (दैव्यः श्लोकः) देव, प्रभु परमेश्वर से प्राप्त 'श्लोक' अर्थात् वेदवाणी, (सिपक्तु) प्राप्त होती है, वह उसी का वर्णन करती, वह उसीको अपना लक्ष्य करती है। (तम् उ ज्येष्ठं) उसी सर्वश्रेष्ठ, सब से महान् (सु-शेवं) उत्तम सुखदाता, आनन्दकन्द (ब्रह्मणः पतिम्) ब्रह्माण्ड, प्रकृति और वेद के पालक प्रभु की मैं (हविर्भिः) उत्तम वचनों से या अन्नौषधि आदि की आहुतियों सहित (गृणीपे) स्तुति करूँ।

स आ नो योनिं सदतु प्रेष्टो बृहस्पतिर्विश्ववारो यो अस्ति ।

कामो रायः सुवीर्यस्य तं दात्पर्षन्नो-अति सश्रतो अरिष्ठान् ॥४॥

भा०—( यः ) जो ( विश्व-वारः ) सबसे वरण करने योग्य है और जो सब संकटों, पापों को दूर करने हारा है ( सः ) वह ( प्रेष्ठः ) प्रियतम, सबसे महान्, ( बृहस्पतिः ) बड़े ब्रह्माण्ड का स्वामी है, वह ( नः ) हमारे ( योनिं ) प्राप्त होने या एकत्र मिलने के स्थान, हृदय-देश में, सेवक के गृह पर स्वामी के समान ( आ सदतु ) अनुग्रह कर प्राप्त हो । वही परमेश्वर हमारी जो ( सुवीर्यस्य रायः कामः ) उत्तम बलयुक्त ऐश्वर्य की अभिलाषा है ( तं ) उस अभिलाषा को ( दातु ) पूर्ण करता और ( सश्रतः ) प्राप्त होने वाले ( अरिष्टान् ) मृत्यु लक्षणों से भी ( अति-पर्यत् ) पार करता और उनको दूर करता है । अथवा ( सश्रतः नः अरिष्टान् अति पर्यत् ) शरणागत आये हम लोगों को विना पीड़ा, विघ्नादि से पीड़ित हुए हमें संसार संकट से पार कर देता है, मुक्ति सुख प्रदान करता है ।

तमा नो अर्कममृताय जुष्टमिमे धासुरमृतासः पुराजाः ।

शुचिक्रन्दं यजतं प्रस्त्यानां बृहस्पतिमनर्वाणं हुवेम ॥५॥२१॥

भा०—( नः ) हमारे ( पुराजाः ) पूर्व काल में नाना जन्मों में उत्पन्न ( इमे ) ये ( अमृतासः ) अविनाशी जीवगण ( अमृताय ) दीर्घ जीवन के लिये ( अर्कम् ) अन्न के समान ( अमृताय ) अमृत, मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये ( जुष्टं ) प्रेम से सेवनीय ( अर्कं ) अर्चना योग्य ( तम् ) इसी प्रभु परमेश्वर को ( धासुः ) धारण करें । और ( प्रस्त्यानां ) गृहों, वा गृहस्थों के समान देह रूप गृहों में रखने वाले जीवों के ( यजतम् ) उपासनीय, ( शुचिक्रन्दं ) गुरु वा न्यायकर्त्ता के समान शुद्ध, निर्दोष वचन कहने वाले, ( अनर्वाणम् ) अन्य अश्वादि की अपेक्षा न करने वाले स्वयंगामी रथवत् ( अनर्वाणं ) निरपेक्ष, स्वयं जगत् के सञ्चालक, अहिंसक ( बृहस्पतिम् ) बड़े २ सूर्यादि के भी पालक प्रभु को हम ( हुवेम ) स्तुति करें, उसी को दुःख में याद करें । इत्येकविंशो वर्गः ॥



तं शग्मासो अरुपासो अश्वा बृहस्पतिं सहवाहो वहन्ति ।

सहश्चिद्यस्य नीडवत्सधस्थं नभो न रूपमरुपं वसानाः ॥ ६ ॥

भा०—( सहवाहः अश्वाः यथा बृहस्पतिं वहन्ति ) एक साथ चलने वाले अश्व, या अश्वारोही, जिस प्रकार बड़े सैन्य के स्वामी को अपने ऊपर धारण करते हैं उसी प्रकार ( यस्य ) जिस परमेश्वर का ( सधस्थं ) साथ रहना ही ( नीडवत् ) गृह के समान आश्रय देने वाला और (सहः चित् ) सब दुःखों को सहन करा देने में समर्थ बल है और जिसका ( रूपं नभः न ) रूप आकाश वा सूर्य के समान व्यापक और ( अरुपं ) अति उज्वल तेजोमय है, ( तं ) उस प्रभु को, ( वसानाः ) इस जगत् में रहने वाले, या उसी की भक्ति में रहने वाले, ( शग्मासः ) सुखी, आनन्दमग्न, शक्तिमान्, ( अरुपासः ) उज्वल रूपयुक्त, तेजस्वी सूर्यवत् प्रकाशमान ( अश्वाः ) विद्या विज्ञान में निष्णात पुरुष वा अति वेग से जाने वाले सूर्यादि लोक ( सह-वाहः ) एक साथ मिलकर-संसार यात्रा करते हुए, वा ( सह-वाहः ) एक साथ विश्व को धारण करते हुए, ( बृहस्पतिं वहन्ति ) उस महान् ब्रह्माण्ड के पालक प्रभु को अपने ऊपर धारण करते हैं। स हि शुचिः शतपत्रः स शुन्ध्युर्हिरण्यवाशीरिपिरः स्वर्षाः । बृहस्पतिः स स्वावेश ऋष्वः पुरु सखिभ्य आसुतिं करिष्ठः ॥७॥

भा०—( सः हि ) वह प्रभु निश्चय से ( शुचिः ) अति पवित्र, ( शतपत्रः ) शतदल कमल के समान उज्वल, निस्संज्ञ, वा ( शत-पत्रः ) सैकड़ों ऐश्वर्यों से पूर्ण है ( सः शुन्ध्युः ) वह सब को शुद्ध करने वाला, परमपावन, ( हिरण्य-वाशीः ) हित और रमणीय वेदमयी वाणी, से युक्त, ( इपिरः ) सब के चाहने योग्य, ( स्वः-साः ) सुख, का देने वाला है । ( सः सु-आवेशः ) वह उत्तम रीति से समस्त विश्व में व्यापक, ( ऋष्वः ) सब से महान्, ( सखिभ्यः ) अपने समान ख्याति, आत्मा नाम वाले जीवों के लिये ( पुरु आसुतिं ) बहुत सा अन्न आदि ऐश्वर्य ( करिष्ठः )

उत्पन्न करने वाला है, सब से बड़ा अन्नदाता, वही ( बृहस्पतिः ) महान् जगत् का बड़ा पालक, बृहस्पति, है। इसी प्रकार राजा, या बड़े राष्ट्र का स्वामी भी हो। वह ( शुचिः ) ईमानदार, काम, धर्म, अर्थ आदि सब उपधाओं से शुद्ध हो ( शतपत्रः ) सैकड़ों रथों का स्वामी, ( शुन्ध्युः ) शत्रु, दुष्टादि राज्य के कण्ठकों का शोधक, ( हिरण्य-वाशीः ) लोह आदि के चमकते शस्त्रास्त्रों वाला, ( इपिरः ) सेना का सञ्चालक, ( स्वर्षाः ) शत्रुतापकारी अस्त्रों तथा प्रजा के सुखों का दाता, ( सु-भावेशः ) सुखपूर्वक राष्ट्र में प्रविष्ट, सु-स्थिर, ( ऋष्वः ) महान् ( सखिभ्यः पुरु आसुतिं करिणः ) मित्र वर्गों के लिये नाना ऐश्वर्य उत्पन्न करने वाला हो।

देवी देवस्य रोदसी जनित्री बृहस्पतिं वावृधतुर्महित्वा ।

दक्षाय्याय दक्षता सखायः करद्ब्रह्मणे सुतरा सुगाधा ॥ ८ ॥

भा०—( देवी ) नाना सुखों और ऐश्वर्यों के देने वाले ( रोदसी ) भूमि और आकाश, ( देवस्य महित्वा ) सर्वप्रकाशक, सर्वदाता प्रभु के महान् सामर्थ्य से ( जनित्री ) जगत् को उत्पन्न करने वाले हैं। वे दोनों ( बृहस्पतिं ) महान् जगत् के पालक प्रभु की महिमा को ही ( वावृधतुः ) बढ़ा रहे हैं। हे ( सखायः ) मित्रो ! आप लोग ( दक्षाय्याय ) महान् सामर्थ्य के स्वामी को ( दक्षत ) बढ़ाओ, और जिस प्रकार ( सुतरा सुगाधा ब्रह्मणे करत् ) उत्तम, सुख से अवगाहन करने योग्य जलधारा अन्न को उत्पन्न करने के लिये सहाय करती है उसी प्रकार ( सुतरा ) दुःखसागर से सुखपूर्वक तरा देने वाली अति उत्तम, ( सु-गाधा ) उत्तम वेद बाणी, ( ब्रह्मणे ) उत्तम महान् सामर्थ्यवान् प्रभु परमेश्वर को प्राप्त करने के लिये हमें ज्ञानोपदेश ( करत् ) करे।

इयं वां ब्रह्मणस्पते सुवृक्तिर्ब्रह्मेन्द्राय ब्रजिणे अकारि ।

अविष्टं धियो जिगृतं पुरन्धीर्जज्ञस्तमर्यो वनुपामरातीः ॥ ९ ॥

भा०—हे ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्मज्ञान वेद और बड़े राष्ट्र के पालक !

हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! जीव ! ( वां ) आप दोनों की ( इन्द्राय वज्रिणे ) शक्तिशाली आत्मा की ( इयं ) यह ( सुवृक्तिः ) उत्तम स्तुति ( अकारि ) की जाती है । आप दोनों ( धियः अविष्टं ) उत्तम बुद्धियों, कर्मों की रक्षा करो और ( पुरन्धीः जिगृत्तम् ) नाना कर्म करने वाले वा देह को पुरवत् धारण करने वाले जीवों को उत्तम उपदेश करो । ( वनुपां ) कर्म फल सेवन करने वाले जीवों के ( अरातीः ) सुखादि न देने वाले, बाधक ( अर्यः ) शत्रुओं को ( जजस्तम् ) नाश करो ।

वृहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य ।

धत्तं रयिं स्तुवते कीरये चिद्भूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः १०।२२

भा०—हे ( वृहस्पते ) महान् विश्व के पालक ! हे ( इन्द्रः च ) जीवात्मन् ! ( युवम् ) आप दोनों, ( दिव्यस्य उत पार्थिवस्य वस्वः ) आकाश और भूमि के समस्त ऐश्वर्यों के ( ईशाथे ) प्रभु हो । आप दोनों ( स्तुवते कीरये चित् ) स्तुतिशील, विद्वान् को ( रयिं धत्तम् ) ऐश्वर्य प्रदान करो । हे विद्वान् जनो ! ( यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात ) आप लोग हमारी सदा कल्याणकारी आशिषों और उपायों से रक्षा करो। इति द्वाविंशो वर्गः ॥

## [ ६८ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ १—६ इन्द्रः । ७ इन्द्रावृहस्पती देवते ॥ छन्दः—१, २, ६,

७ निचृत् त्रिष्टुप् । ३ विराट् त्रिष्टुप् । ४, ५ त्रिष्टुप् ॥ षड्चं सूक्तम् ॥

अध्वर्यवोऽरुणं दुग्धमंशु जुहोत न वृषभाय क्षितीनाम् ।

गौराद्वेदीयाँ अवपानमिन्द्रो विश्वाहेद्याति सुतसोममिच्छन् ॥१॥

भा०—हे ( अध्वर्यवः ) यज्ञ के इच्छुक प्रजापीडन, और प्रजाहिंसन को न चाहने वाले दयाशील प्रजाजनो ! आप लोग ( क्षितीनाम् ) मनुष्यों में ( वृषभाय ) श्रेष्ठ पुरुष के लिये ( अरुणं ) रुचिकर, कभी न रुकने वाले, ( दुग्धम् ) दूध के समान, समस्त भूमि-भागों से प्राप्त ( अंशुम् )

अन्नादि, का अंशभाग करवत् (जुहोतने) प्रदान करो । (सुत-सोमम् इच्छन्) अभिषेक द्वारा प्राप्त होने योग्य ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहता हुआ, (इन्द्रः) शत्रुहन्ता राजा, (गौरात्) भूमि में रमण करने वाले, प्रजाजन से (अवपानं वेदोयान्) अपने अधीन प्रजा पालन करने का वेतन प्राप्त करता हुआ (विश्वाहा इत् याति) सदा प्राप्त हो । (२) यज्ञ में याज्ञिक लोग भूमियों पर बरसने वाले मेघ के लिये शुद्ध दूध और ओषधियों की आहुति दें तब 'इन्द्र' अर्थात् सूर्य ओषधि-उत्पादक 'अवपान' अर्थात् जल को किरणों द्वारा (गौरात्) पृथ्वी पर के जलाशय समुद्रादि से प्राप्त करने लगता है ।

यद्दधिषे प्रदिवि चार्वन्नं दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षि ।  
उत हृदोत मनसा जुपाण उशन्निन्द्र प्रस्थितान्पाहि सोमान् ॥२॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यत्) जो तू, (प्र-दिवि) उत्तम तेज होने पर (चारु अन्नं दधिषे) उत्तम अन्न को पुष्ट करता है, (दिवे-दिवे) दिनों दिन (अस्य) जलपान के समान (अस्य पीतिम् इत् वक्षि) इस राष्ट्र के पालन और उपभोग की कामना कर, उस के पालन कार्य को अपने ऊपर धारण कर । (उत) और (हृदा उत मनसा) हृदय और मन से, प्रेम और ज्ञान से राष्ट्र को (जुपाणः) सेवन करता और (उशन्) नित्य चाहता हुआ (प्रस्थितान् सोमान् पाहि) प्राप्त ऐश्वर्यों और सोम्य वीरों की रक्षा कर । (२) सूर्य भी अति तेजस्विता के बल पर अन्न की रक्षा करता है, प्रति दिन जल का पान करता हुआ वनस्पतियों का पालन पोषण करता है ।

जज्ञानः सोमं सहसे पपाथ प्र ते माता महिमान्मुवाच ।

एन्द्रं पपार्थोर्वन्तरिक्षं युधा देवेभ्यो वरिवश्चकथ ॥ ३ ॥

भा०—विजिगीषु राजा का कर्त्तव्य । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! शत्रु-हन् ! राजन् ! तू (जज्ञानः) प्रकट होकर ही (सहसे) शत्रुविजयी

घल को बढ़ाने के लिये ( सोमं ) ऐश्वर्यमय राष्ट्र को ( पपाथ ) पालन कर और ( माता ) सब जगत् को उत्पन्न करने वाली भूमि माता ( ते महिमानम् ) तेरे महान् सामर्थ्य को ( प्र उवाच ) उत्तम रीति से कहे । हे ( इन्द्र ) सेनानायक ! तू ( उरु अन्तरिक्षं ) विशाल अन्तरिक्ष को भी ( युधा ) युद्ध साधनों से ( अ पपाथ ) विस्तृत कर और ( देवेभ्यः वरिवः चकर्थ ) विजयेच्छुक सैनिकों और प्रजाजनों के लिये बहुत धन उत्पन्न कर ।

( २ ) सूर्य या विद्युत् ओपधि की रक्षा करता है; भूमि भी उसके महान् सामर्थ्य को बतलाती है; ( युधा ) प्रहारकारी विद्युत् से आकाश को पूर्ण करता, अन्न की कामना करने वाले मनुष्यों के लिये अन्न उत्पन्न करता है ।

यद्योधया महतो मन्यमानान्त्साम् तान्वाहुभिः शाशदानान् ।  
यद्वा नृभिर्वृत इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयार्जि सौश्रवसं जयेम ॥४॥

भा०—( यत् ) जब तू ( महतः ) बड़े २ ( मन्यमानान् ) अभिमानशील शत्रुओं को ( ओधयाः ) हम से लड़ा, और हम ( शाशदानान् ) मारते हुए ( तान् ) उनको ( वाहुभिः ) बाहुओं से ( साक्षाम ) पराजित करें । ( वा ) और ( यत् ) जब हे ( इन्द्र ) सेनापते ! तू ( नृभिः वृतः ) मनुष्यों या वीर नायकों से घिर कर ( अभियुध्याः ) शत्रुओं का मुकाबला करे तब हम ( त्वया ) तेरे बल से ( तं ) उस ( सौश्रवसं आर्जि ) उत्तम यश-कीर्ति-जनक संग्राम का विजय करें । इसी प्रकार सूर्य या विद्युत् बड़े २ मेघ को प्रहार करता है तो हम बाधक कारण पवनादि से छिन्न-भिन्न मेघों को संघीभूत करें, जब पवनों सहित विद्युत् मेघ का आघात करे तो हम ( सौश्रवसं ) उत्तम अन्नप्रद वर्षा को प्राप्त करते हैं ।

प्रेन्द्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मघवा या चकार ।

यदेददेवीरसहिष्ट माया अथाभवत्केवलः सोमो अस्व ॥ ५ ॥

भा०—( इन्द्रस्य ) इन्द्र, शत्रुहन्ता सेनापति के (प्रथमा) प्रथम, मुख्य (कृतानि) कर्त्तव्यों को मैं ( प्र-वोचम् ) उपदेश करता हूं (मघवा) ऐश्वर्यवान् धनवान् ( या ) जिन २ ( नूतना ) अति प्रशस्त, नये २ कार्यों को भी ( चकार ) करे, उनका भी ( प्र वोचं ) अच्छी प्रकार वर्णन करूं। ( यत् ) जब वह ( अदेवीः मायाः ) अमानुषी, दुष्ट पुरुषों के विचित्र २ कपट-कृत्यों को भी पराजित करे ( अथ ) अनन्तर ( सोमः ) यह ऐश्वर्यशुक्त राष्ट्र ( केवलः ) केवल ( अस्य अभवत् ) उसी के ही अधीन हो जाता है।

तद्दे॒दं विश्व॑म॒भितः॑ प॒शव्यं॑ यत्प॒श्यसि॑ चक्ष॑सा सूर्य॑स्य ।

गवा॑मसि॒ गोप॑तिरेक॑ इन्द्र॒ भक्षी॑महि॒ ते प्र॑यतस्य॒ वस्वः॑ ॥ ६ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) परमैश्वर्यप्रद प्रभो ! राजन् ! ( यत् ) जो तू ( सूर्यस्य चक्षसा ) सूर्य के प्रकाश से ( पश्यसि ) देखता है, उसको प्रकाशित करता है, इसलिये (इदं विश्वम्) यह समस्त विश्व (अभितः) सब तरफ (तव) तेरे ही (पशव्यं) 'पशव्य' अर्थात् इन्द्रियों से देखने योग्य है। अथवा (इदंते विश्वं पशव्यं) यह तेरा समस्त विश्व दर्शनीय है या पशु अर्थात् द्रष्टा, जीवों के भोगने योग्य है। अर्थात् तुझ द्रष्टा के ही अनुरूप है। तू ( गवाम् गोपतिः असि ) सब वाणियों, भूमियों और सूर्यादि लोकों का गौओं के पालक के समान स्वामी है। ( प्रयतस्य ) सर्वोत्कृष्ट नियन्ता और सञ्चालक तेरे ही दिये ( वस्वः ) ऐश्वर्य का हम ( भक्षीमहि ) भोग करें अथवा ( वस्वः प्रयतस्य ते भक्षीमहि ) सब मैं वसने वाले सर्वोत्कृष्ट-यत्नवान् वा नियन्ता तेरा ही हम भजन करें।

वृह॑स्पते यु॒वमिन्द्र॑श्च॒ वस्वो॑ दि॒व्यस्ये॑शाथे॒ उत॑ पार्थि॒वस्य॑ ।

धृ॒त्तं र॒यिं स्तु॑वते॒ कीर॑ये॒ चिद्भू॑यं पा॒त स्व॑स्तिभिः॒ सदा॑ नः॒ ७।२३

भा०—व्याख्या देखो सू० ६७। १० ॥ इति त्रयोविंशो वर्गः ॥

[ ६६ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ १—३, ७ विष्णुः । ४—६ इन्द्राविष्णु देवते ॥ छन्दः—

१, ६ विराट् त्रिष्टुप् । २, ३ त्रिष्टुप् । ४, ५, ७ निचृत् त्रिष्टुप् ॥

सप्तर्चं सूक्तम् ॥

परो मात्रया तन्वा वृधान न ते महित्वमन्वश्नुवन्ति ।

उभे ते विद्म रजसी पृथिव्या विष्णो देव त्वं परमस्य वित्से ॥१॥

भा०—हे ( वृधाना ) सब से बड़े ! वा हे समस्त जगत् के बढ़ाने-हारे ! हे ( विष्णो ) सर्वव्यापक ! ( तन्वां ) अति विस्तृत या जगत् को फैलाने वाले (मात्रया) समस्त जगत् की बनाने वाली प्रकृति से भी (परः) उत्कृष्ट ( ते ) तेरे ( महित्वम् ) महिमा को कोई भी ( न अनु अश्नुवन्ति ) पा नहीं सकते, नहीं पहुंच सकते । हे ( देव ) सर्वप्रकाशक ! ( पृथिव्याः ते ) समस्त संसार को विस्तारित करने वाले तेरे ही बनाये इन ( उभे ) दोनों ( रजसी ) सूर्य पृथिवी वा आकाश और भूमि दोनों लोकों को ( विद्म ) जानते हैं । और तू ( अस्य ) इस से भी ( परम् ) उत्कृष्ट तत्व को ( वित्से ) प्राप्त है और जानता है ।

न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप ।

उदस्तभ्ना नाकमृष्वं बृहन्तं दाधर्थं प्राचीं ककुभं पृथिव्याः ॥२॥

भा०—हे ( विष्णो ) व्यापक जगदीश्वर ( न जायमानः ) न उत्पन्न होता हुआ और ( नः जातः ) न उत्पन्न हुआ कोई ( ते महिम्नः ) तेरे महान् सामर्थ्य के ( परम् अन्तम् ) परली सीमा को ( आप ) प्राप्त कर सका है । हे ( देव ) सर्वप्रकाशक ! तू ( बृहन्तं ) बड़े भारी, ( ऋष्वं ) महान् ( नाकम् ) सब दुःखों से रहित, परम मोक्ष धाम और महान् आकाश को भी ( उत् अस्तभ्नाः ) उठा रहा है । और ( पृथिव्याः ) पृथिवी की ( प्राचीं ककुभं ) प्राची दिशा को जैसे सूर्य प्रकाशित करता है उसी प्रकार

तू ही (पृथिव्याः) जगत् मात्र को विस्तारित करने वाली सर्वाश्रय प्रकृति को ( प्राचीं ककुभम् ) जगत् के उत्पन्न होने के पूर्व से उत्तम रूप से प्रकट होने वाले आर्जवी भाव अर्थात् विकृतिभाव की (दाधर्थ) धारण कराता है ।

‘ककुप्’—ककुभिनी भवति, ककुप् कुब्जं कुजतेः उब्जतेर्वा । निरु० ७।३। ५॥ कुजि स्तेयंकरणार्थः । उब्जिरार्जवीभावे । आर्जवीभावः प्रवृत्तिः प्रहृतावा॥

इरावती धेनुमती हि भूतं सूयवसिनी मनुषे दशस्या ।

व्यस्तभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थं पृथिवीमभितो मयूखैः ॥३॥

भा०—हे ( द्यावापृथिव्यौ ) आकाश और भूमि वा सूर्य और भूमि ! तुम दोनों (इरा-वती) जलों, अन्नों से युक्त तथा (धेनुमती) रस पान कराने वाली, गौ, वाणी तथा किरणों से युक्त, और ( मनुषे ) मनुष्य के लिये ( सु-यवसनी ) उत्तम अन्न वाली और ( दशस्या ) नाना सुख भोग देने वाली ( भूतम् ) होवो । हे ( विष्णो ) व्यापक प्रभो ! तू ( एते रोदसी ) इन दोनों पृथ्वी और आकाश को ( वि अस्तभ्नाः ) विशेष प्रकार से थामे है । और तू ( पृथिवीम् ) पृथिवी को ( अभितः ) सब ओर से ( मयूखैः ) किरणों से वा चारों ओर लगी खूटियों से जैसे, ( दाधर्थ ) धारण किये हुए है ।

उरुं यज्ञाय चक्रथुरु लोकं जनयन्ता सूर्यमुपासंमग्निम् ।

दासस्य विष्टपशिप्रस्य साया ज्वन्थुर्नरा पृतनाज्येषु ॥ ४ ॥

भा०—हे ( नरा ) नायको ! हे स्त्री पुरुषो ! हे ( इन्द्र-विष्णू ) विद्युत् विविध जल-धारा को वर्षाने हारे सूर्य वा पवन के समान लोकोपकारक जनो ! जिस प्रकार विद्युत् तथा मेघ का वर्षाने वाले तुम दोनों मिलकर ( सूर्यम् ) सूर्य, ( उपासम् ) और उसकी दग्ध करने वाली ताप शक्ति और अग्नि तत्व को ( जनयन्ता ) उत्पन्न करते हुए ( यज्ञाय ) ‘यज्ञ’ अर्थात् तत्वों के परस्पर मिलने के लिये, ( उरुं लोकं चक्रथुः ) विशाल स्थान अन्तरिक्ष को उपयोगी बनाते हैं और ( वृषशिप्रस्य दासस्य )



वर्षते मेघ के स्वरूप वाले जलप्रद मेघ की ( मायाः ) नाना रचनाओं को ( पृतनाज्येषु ) जलों के निमित्त आघात करते हैं उसी प्रकार आप दोनों, ( सूर्यम् ) सूर्य के समान तेजस्वी, और ( उपासम् ) उपा के समान कान्तियुक्त विदुषी और ( अग्निम् ) अग्नि के समान ज्ञानप्रकाशक विद्वान् को प्रकट करते हुए ( यज्ञाय ) परस्पर दान-प्रतिदान, सोमजन, सत्संगादि के लिये ( उरुं लोकं चक्रथुः उ ) विशाल स्थान, भवन गृहादि बनाओ। और ( पृतनाज्येषु ) संग्रामों में ( वृष-शिप्रस्य ) बलवान् प्रमुख नेता वाले ( दासस्य ) प्रजानाशक शत्रु जन की ( मायाः ) सब कुटिल चालों का ( जघ्नथुः ) नाश करो।

इन्द्राविष्णू दंहिताः शम्बरस्य नव पुरो नवति च श्रथिष्टम् ।  
शतं वर्चिनः सहस्रं च साकं हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान् ॥५॥

भा०—हे (इन्द्राविष्णू) इन्द्र ! ऐश्वर्यवान् हे विष्णो ! व्यापक शक्ति-शालिन् ! आप दोनों ( शम्बरस्य ) शान्ति, प्रजा सुख के नाशक शत्रु के (नव नवति च पुरः) ९९ नगरियों या प्रकारों को (श्रथिष्टम्) नाश करो। ( असुरस्य ) बलवान् शत्रु के (अप्रति) बेजोड़, ( शतं सहस्रं च वर्चिनः वीरान् ) सौ, हजार बलवान् तेजस्वी वीरों को भी ( साकं हथः ) एक साथ दण्डित करो।

इयं मनीषा वृहती वृहन्तीरुक्रमा तवसा वर्धयन्ती ।

ररे वां स्तोभं विदथेषु विष्णो पिन्वतमिषो वृजनेष्विन्द्र ॥ ६ ॥

भा०—हे ( विष्णो ) व्यापक सामर्थ्य वाले ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य-वान् ! हे शत्रुहन्तः ! ( इयं ) यह ( वृहती ) बड़ी, ( मनीषा ) मन की प्रेरक शक्ति, प्रज्ञा, (उरुक्रमा) बड़े पराक्रम वाले, (वृहन्ता) बड़े सामर्थ्यवान् ( वां ) आप दोनों को ( तवसा ) बल से ( वर्धयन्ती ) बढ़ाती हुई ( विदथेषु ) संग्रामों के अवसरों में ( स्तोभं ररे ) उत्तम संघ-बल को प्रदान करती है। आप दोनों ( वृजनेषु ) शत्रुओं को दूर करने में समर्थ

प्रयाणकारी बलों में ( इपः पिन्वतम् ) अन्नादि तथा, तीव्र प्रेरणाओं को प्रदान करो ।

वषट् ते विष्णवांस आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम् ।  
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः ॥७॥२४

भा०—हे ( विष्णो ) विविध प्रकार से व्यापक, नाना सैन्यों से घिरे हुए या विशेष नियमों में बद्ध ! ( ते ) तेरा ( आसः ) स्थापन ( वषट् ) सत्कारपूर्वक ( आकृणोमि ) करता हूँ । हे ( शिपिविष्ट ) नाना तेजों, पराक्रमों से युक्त ! सूर्यवत् तेजस्विन् ! तू ( मे ) मुझ राष्ट्र जन कां ( तत् हव्यम् जुषस्व ) वह नाना प्रकार ग्राह्य उपायन, भेंटादि स्वीकार कर ( त्वा ) तुझे ( मे ) मेरे ( सु-स्तुतयः गिरः ) उत्तम स्तुति करने में पट्टु विद्वान् जन ( वर्धन्तु ) बढ़ावें । हे विद्वान् पुरुषो ! ( यूयं ) आप लोग ( सदा स्वस्तिभिः नः पात ) सदा उत्तम २ शान्ति और सुखप्रद साधनों से हमारी रक्षा करो । विष्णुः—अथ यद्विषितो भवति । विशतेर्वा व्यश्रोतेर्वा । निरु० १२ । १९ ॥ इति चतुर्विंशो वर्गः ॥

[ १०० ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ विष्णुदेवता ॥ छन्दः—१, २, ५, ६, ७ निचृत् त्रिष्टुप् ।  
३ विराट् त्रिष्टुप् । ४ आर्षो त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्चं सूक्तम् ॥

नू मर्तो दयते सन्निष्यन्यो विष्णव उरुगायाय दाशत् ।  
प्र यः सत्राचा मनसा यजात एतावन्तं नर्यमाविवासात् ॥ १ ॥

भा०—( यः ) जो ( मर्त्तः ) मनुष्य, ( सन्निष्यन् ) दान देने की इच्छा से ( दयते ) दान देता और दया करता है वही ( उरु-गायाय ) बहुतों से, अति स्तुतियोग्य ( विष्णवे ) व्यापक परमेश्वर के निमित्त ही ( दाशत् ) दान करे । ( यः ) जो मनुष्य ( सत्राचा मनसा ) सत्यनिष्ठ मन से ( प्र यजाते ) अच्छी प्रकार यज्ञ, दान करता वा परम देव की पूजा करता

वह ( एतावन्तं ) उतना ही ( नर्थम् ) मनुष्यों के हितकारी वा सब मनुष्यों में व्यापक परमेश्वर की ( आ विवासत् ) सेवा किया करता है ।

त्वं विष्णो सुमतिं विश्वजन्यामप्रयुतामेवयावो मतिं दाः ।

पर्चो यथा नः सुवितस्य भूरेरश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य रायः ॥२॥

भा०—हे ( विष्णो ) सर्वव्यापक प्रभो ! ( त्वे ) तू ( विश्वजन्या ) सब जनों की हितकारिणी, ( अप्रयुताम् ) सब के साथ मिली हुई, ( सुमतिं मतिम् ) उत्तम ज्ञानयुक्त बुद्धि या उत्तम बुद्धिसहित ज्ञान का ( दाः ) प्रदान कर । ( यथा ) जिससे, ( नः ) हमारे पास ( सुवितस्य ) उत्तम रीति से प्राप्त ( भूरेः अश्वावतः ) बहुत से अश्वों से युक्त, ( पुरुश्चन्द्रस्य ) बहुतों के आह्लादकारक ( रायः ) ऐश्वर्य का ( पर्चः ) हम से सम्पर्क हो ।

त्रिर्देवः पृथिवीमेष एतां वि चक्रमे शतर्चसं महित्वा ।

प्र विष्णुरस्तु तवसस्तवीयान्त्वेषं ह्यस्य स्थविरस्य नाम ॥ ३ ॥

भा०—( देवः ) तेजस्वरूप, प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ने ( महित्वा ) अपने महान् सामर्थ्य से ( एतां ) इस ( पृथिवीम् ) पृथ्वी को ( त्रिः ) तीन प्रकार से ( शत-अर्चसम् ) सैकड़ों दीप्ति युक्त पदार्थों से पूर्ण ( वि चक्रमे ) बनाया है । सूर्य, विद्युत्, और अग्नि तीनों प्रकारों की अग्नि से पृथ्वी को सैकड़ों सहस्रों चमकते पदार्थों का भण्डार बना डाला है । वह ( तवसः तवीयान् ) बलवान् से बलवान् ( विष्णुः ) सर्वव्यापक प्रभु ( प्र अस्तु ) सब से ऊंचा और उत्तम है । उस ( स्थविरस्य ) स्थायी, नित्य प्रभु का ( नाम ) नाम, स्वरूप और शासन सूर्य के प्रकाश के समान ( त्वेषं हि ) तेजोमय, तीक्ष्ण और उज्ज्वल ही है ।

वि चक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् ।

ध्रुवासो अस्य कीरयो जनास उरुक्षितिं सुजनिमा चकार ॥ ४ ॥

भा०—( एषः ) वह ( विष्णुः ) विशेष रूप से संसार को प्रबन्ध में बांधने और उसमें व्यापने हारा परमेश्वर ( एतां पृथिवीम् ) इस पृथिवी

को भी ( मनुष्ये दशस्यन् ) मनुष्यों को दान देता हुआ ( क्षेत्राय ) निवास करने के लिये, वा क्षेत्र, निवास योग्य देह धारण करने के लिये ( वि चक्रमे ) विविध प्रकार का बनाता है । ( अस्य ) इसकी ( कीरयः ) स्तुति करने वाले ( जनासः ) जन्तु, आत्मगण ( ध्रुवासः ) सदा स्थिर, नित्य होते हैं । उनके लिये ही वह पृथ्वी का ( उरु-क्षितिम् ) बहुत मनुष्यों से बसने योग्य और ( सुजनिम् ) उत्तम रीति से जन्तुओं और अन्नादि ओषधियों को उत्पन्न करने में समर्थ ( आ चकार ) बनाता है ।

प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट नामार्यः शंसामि वयुनानि विद्वान् ।  
तं त्वा गृणामि त्वत्सुमतव्यान्क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥ ५ ॥

भा०—हे ( शिपिविष्ट ) सूर्य के समान रश्मियों से आवृत ! तू ( अर्यः ) सबका स्वामी, ( वयुनानि ) सब कर्मों और ज्ञानों को ( विद्वान् ) जानने हारा है । ( तत् ) तो तेरे ही ( नाम ) स्वरूप और ( वयुनानि ) कर्मों की ( अद्य ) आज मैं ( शंसामि ) स्तुति करता हूँ । मैं ( अतव्यान् ) अल्पशक्ति निर्बल मनुष्य, ( त्वा त्वत्सं ) तुझ बलवान् की स्तुति करता हूँ । और ( अस्य रजसः पराके ) इस महान् विश्व के परे भी विद्यमान महान् से महान् ( त्वा तं गृणामि ) उस तेरी मैं स्तुति प्रार्थना करता हूँ ।

किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं भूत्प्र यद्ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि ।

मा वर्षो अस्मदप गूह एतद्यदन्यरूपः समिथे वभूथ ॥ ६ ॥

भा०—( ते ) तेरा ( किम् इत् ) कौनसा रूप ( परिचक्ष्यं भूत् ) सर्वत्र दर्शनीय या कथन करने योग्य है ( यत् ) जिसको तू ( ववक्षे ) स्वयं उपदेश कर रहा है कि मैं ( शिपिविष्टः अस्मि ) रश्मियों में प्रविष्ट, उनसे धिरे सूर्य के समान तेजोरूप होकर सर्वत्र व्यापक हूँ । ( अस्मत् ) हम से अपने ( एतत् ) उस तेजोमय ( वर्षः ) रूप को ( मा अप गूह ) मत छिपा ( यत् ) क्योंकि तू ( समिथे ) प्राप्त होने पर ( अन्यरूपः मा वभूथ ) दूसरे रूपों में भी मत प्रकट हो ।

वषट् ते विष्णवांस आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम् ।  
 वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ७।२५।६  
 भा०—व्याख्या देखो सू० ९९ । ७ ॥ इति पञ्चविंशो वर्गः ॥ इति  
 षष्ठोऽध्यायः ॥

अथ सप्तमोऽध्यायः

[ १०१ ]

वसिष्ठः कुमारो वाग्नेय ऋषिः ॥ पर्जन्यो देवता ॥ छन्दः—१, ६ त्रिष्टुप् ।  
 २, ४, ५ विराट् त्रिष्टुप् । ३ निचृत् त्रिष्टुप् ॥

तिस्रो वाचः प्र वद ज्योतिरग्रा या एतद्दुहे मधुदोधमूधः ।

स वत्सं कृणवन्गर्भमोषधीनां सद्यो जातो वृषभो रोरवीति ॥१॥

भा०—जिस प्रकार ( वृषभः ) बरसता मेघ ( रोरवीति ) गर्जता है,  
 ( ज्योतिरग्राः वाचः वदति ) प्रथम विद्युत् ज्योति को चमका कर बाद में  
 गर्जना करता है और ( ऊधः मधुदोधम् दुहे ) अन्तरिक्ष से जल को दोहता  
 है, और ( ओषधीनां गर्भं कृणवन् ) ओषधियों को गर्भित करता है । उसी  
 प्रकार हे विद्वन् ! तू ( ज्योतिरग्राः ) उत्तम ज्ञान ज्योतियों से युक्त वा  
 अग्र भाग में प्राण व रूप ज्योति से युक्त ( तिस्रः वाचः ) तीनों उन वेद-  
 वाणियों, गद्य, यजुष, छन्द, ऋग् और ( गीति साम ) को ( प्र वद ) अच्छी  
 प्रकार उपदेश कर ( याः ) जिनसे ( वृषभः ) मनुष्यों में श्रेष्ठ, और  
 मेघवत् गंभीर वाणी का उपदेष्टा जन ( उतत् ऊधः ) इस ऊर्ध्व स्थित ब्रह्म  
 को ( मधु-दोधम् ) मधुर ऋद्धमय ज्ञान रस को ( दुहे ) दोहन करता है  
 ( सः ) वह ( ओषधीनां ) ओषधियों, अन्नादि के ग्रहण करने वाले ( वत्सं )  
 छोटे बच्चे के समान बालक को अपना ( वत्सं कृणवन् ) समीपस्थ अन्ते वासी  
 दिग्ग्य बना कर ( सद्यः ) अति शीघ्र ही ( जातः ) स्वयं प्रकट होकर  
 ( रोरवीति ) उपदेश करता है ।

यो वर्धन् ओषधीनां यो अष्पां यो विश्वस्य जगतो देव ईशे ।

स त्रिधातु शरणं शर्म यंसत्त्रिवर्तु ज्योतिः स्वभिष्ट्यस्मे ॥२॥

भा०—( ओषधीनां वर्धनः ) ओषधियों को बढ़ाने वाला, ( अष्पां वर्धनः ) जलों का बढ़ाने वाला, मेघवत् सूर्यवत् ( देवः ) प्रकाश, जल का देने वाला ( विश्वस्य जगतः ईशे ) सब जगत् का स्वामिवत् है । वह ( त्रिवर्तु ज्योतिः यंसत् ) तीनों ऋतुओं में सुखप्रद प्रकाश देता है उसी प्रकार ( यः ) जो ( देवः ) सर्वसुखदाता प्रभु ( ओषधीनां वर्धनः ) उष्णता को धारण करने वाले जीवों को बढ़ाने वाला, ( यः ) जो ( अष्पां वर्धनः ) जलस्थ, जलचारी जीवों को बढ़ाने वाला और ( यः ) जो ( विश्वस्य जगतः ) समस्त जगत् का ( ईशे ) स्वामी है । ( सः ) वह प्रभु परमेश्वर ( अस्मे ) हमें ( सु-अभिष्टिः ) सुख से चाहने योग्य ( त्रिवर्तु ज्योतिः ) त्रिविध ज्ञान देने वाला वेदमय प्रकाश और ( त्रि-धातु ) तीन धातु सुवर्णादि से बने ( शरणं ) गृह और तीन धातु वात, पित्त कफ से बने शरण-योग्य देह और सुख तथा ( त्रिवर्तु ) तीनों कालों में वर्तने वाला, नित्य ( यंसत् ) प्रदान करे ।

स्त्रीरु त्वद्भवति सूते उ त्वद्यथावशं तन्वं चक्र एपः ।

पितुः पयः प्रति गृभ्णाति माता तेन पिता वर्धते तेन पुत्रः ॥३॥

भा०—( त्वत् ) मेघ का एकरूप ( स्त्रीः ) न प्रसवने वाली गौ के समान होता है, ( सूते त्वत् ) और उसका एक रूप सूती गौ के समान जल धाराएं उत्पन्न करता है । ( एपः यथावशं तन्वं चक्रे ) वह सूर्य की कान्ति के अनुसार अपना व्यापक रूप बना लेता है । वह ( पितुः पयः प्रतिगृभ्णाति ) सूर्य रूप पिता से जल को ग्रहण करता और ( तेन ) उससे ( माता ) पृथिवी भी जल ग्रहण करती है । ( तेन ) उस जल से ( पिता वर्धते ) सूर्य महिमा से बढ़ता और ( तेन पुत्रः वर्धते ) उसी जल से पुत्रवत् ओषधि वनस्पति तथा जीवादि भी बढ़ते हैं । उसी प्रकार हे प्रभो ! ( त्वत् ) तेरा एक रूप

( स्तरीः भवति उ ) सर्वाच्छादक सर्वरक्षक होता है और ( त्वत् ) दूसरा रूप ( सूते उ ) समस्त जगत् को उत्पन्न करता है । ( यथावशं ) जितनी इच्छा होती है उतना ही ( एषः ) वह परमेश्वर ( तन्वं ) अपना विस्तृत संसार ( चक्रे ) बना ले सकता है । ( माता ) जिस प्रकार माता ( पितुः ) पिता से ( पयः प्रतिगृभ्णाति ) वीर्य ग्रहण कर गर्भ धारण करती है और उससे ( पिता पुत्रः वर्धते ) पिता का वंश और प्रिय पुत्र भी बढ़ता है । उसी प्रकार ( पितुः ) सर्वपालक तुझ पिता से ही ( माता ) सर्वनिर्मात्री प्रकृति ( पयः ) वीर्य, बल, शक्ति को ( प्रति गृभ्णाति ) प्रति सर्ग ग्रहण करती है और ( तेन ) उससे ही ( पिता ) सर्वपालक प्रभु की महिमा ( वर्धते ) बढ़ती है या ( तेन ) उस शक्ति से ही ( पिता ) पालक प्रभु ( वर्धते ) जगत् को गढ़ता है और ( तेन पुत्रः ) उससे ही पुत्रवत् जीवजगत् भी ( वर्धते ) बढ़ता, वृद्धि को प्राप्त करता है ।

यस्मिन्विश्वानि भुवनानि तस्थुस्तिष्ठो द्यावस्त्रेधा सस्युरापः ।

त्रयः कोशास उपसेचनासो मध्वः श्रोतन्त्यभितो विरप्शम् ॥४॥

भा०—( यस्मिन् ) जिसके आधार पर ( विश्वानि भुवनानि ) समस्त लोक, समस्त उत्पन्न प्राणी, ( तस्थुः ) स्थिर हैं, ( यस्मिन् तिष्ठः द्यावः ) जिसके आश्रय पर तीनों लोक पृथिवी, अन्तरिक्ष और सूर्य स्थित हैं । ( यस्मिन् ) जिसका आश्रय लेकर ( आपः त्रेधा सस्युः ) जल तीन प्रकार से गति करते हैं, पृथिवी से वाष्प बनकर ऊपर उठते हैं, मेघ से जल बन कर नीचे आते हैं और समुद्र से वायु के बलपर भूमिपर आते हैं । अथवा ( आपः ) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु जिसके आश्रय पर ( त्रेधा सस्युः ) तीन प्रकार की गति करते हैं—संयोग, विभाग और चक्र गति । और ( यस्मिन् ) जिसके आश्रय ( त्रयः कोशासः ) तीन कोश ( मध्वः उप-सेचनासः ) जल बरसाने वाले मेघों के समान मधुर आनन्द की वर्षा करने वाले होकर ( विरप्शम् अभितः ) उस महान् के चारों ओर ( श्रोतन्ति ) गति करते हैं ।

अध्यात्म में तीन कोश-विज्ञानमय, मनोमय, आनन्दमय । सूर्य में तीन कोश-क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर, और उद्भजन । यह सब उसी महान् प्रभु परमेश्वर के ही अधीन अद्भुत कर्म हो रहे हैं ।

इदं वचः पर्जन्याय स्वराजे हृदो अस्त्वन्तरं तज्जुजोपत् ।

मयोभुवो वृष्टयः सन्त्वस्मे सुपिप्पला ओषधीर्देवगोपाः ॥ ५ ॥

भा०—( इदं वचः ) यह वचन ( स्वराजे ) स्वप्रकाशस्वरूप, ( पर्जन्याय ) सब रसों के देने वाले, सब के उत्पादक प्रभु परमेश्वर के लिये ( हृदः अन्तरं अस्तु ) हृदय के भीतर हो । ( तत् ) उस स्तुति-वचन को वह प्रभु ( जुजोपत् ) स्वीकार करे ( अस्मे ) हमारे सुख के लिये ( मयः-भुवः वृष्टयः सन्तु ) सुख के देने वाली वृष्टियां सदा हों । और ( सुपिप्पलाः ) उत्तम फलयुक्त ( देव-गोपाः ) मेघद्वारा रक्षित ( ओषधीः ) ओषधियों भी ( मयः-भुवः सन्तु ) सुखकारी हों ।

पर्जन्यः—पर्जन्यस्तूपेः । आद्यन्त विपरीतस्य । तर्पयिता जन्यः । परो जेता वा । जनयिता वा । प्रार्जयिता वा रसानाम् ।

स रेतोधा वृषभः शश्वतीनां तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्थुषश्च ।

तन्म ऋतं पातु शतशारदाय यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः ६।१

भा०—( सः ) वह प्रभु परमेश्वर ( रेतोधाः ) प्रकृति देवी में विश्व को उत्पन्न करने वाले परम बीज, रेतस, तेज को आधान करने वाला ( शश्वतीनां वृषभः ) मेघ के समान सब सुखों का वर्षक, बहुत सी गौओं के बीच सांड के समान समस्त पृथिवियों में जीवों का बीज वपन करने वाला है, ( तस्मिन् ) उसके ही आश्रय ( जगतः तस्थुषः च आत्मा ) जंगम और स्थावर संसार का आत्मा या सत्ता विद्यमान है । ( तत् ऋतं ) वह सत्यज्ञानमय परमेश्वर ( मे शतशारदाय पातु ) मेरे जीवन को सौ वर्षों तक पालन करे । हे विद्वान् पुरुषो ! ( यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पातं )



आप लोग उत्तम कल्याणकारक उपायों से हमारी सदा रक्षा करें । इति प्रथमो वर्गः ॥

[ १०२ ]

वसिष्ठः कुमारो वारुण्य ऋषिः ॥ पर्जन्यो देवता ॥ छन्दः—१ याजुषी विराट्-  
त्रिष्टुप् । २, ३ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ द्वयुचं सप्तम् ॥

पर्जन्याय प्र गायत दिवस्पुत्राय मीढुपे ।  
स नो यवसमिच्छतु ॥ १ ॥

भा०—हे विद्वान् लोगो ! ( दिवः पुत्राय ) प्रकाशमान सूर्य से उत्पन्न, सूर्य के पुत्र व ( मीढुपे ) सेचन करने में समर्थ, वर्षाशील ( पर्जन्याय ) जलों के दाता मेघ के सदृश ( दिवः पुत्राय ) ज्ञान प्रकाश से बहुतों की रक्षा करने वाले, ( मीढुपे ) हृदय में आनन्द के सेचक, ( पर्जन्याय ) सब रसों के दाता, सब के उत्पादक, प्रभु परमेश्वर के लिये ( प्र गायत ) अच्छी प्रकार स्तुति, ज्ञान करो । ( सः ) वह ( नः ) हमें ( यवसम् ) अन्नादि देना ( इच्छतु ) चाहे ।

यो गर्भमोषधीनां गवां कृणोत्यर्वताम् ।  
पर्जन्यः पुरुषीणाम् ॥ २ ॥

भा०—( यः ) जो ( ओषधीनाम् ) मेघ के समान ओषधियों के ( गवाम् ) गौओं, ( अर्वताम् ) अश्वों, और ( पुरुषीणाम् ) मानव स्त्रियों के ( गर्भम् कृणोति ) गर्भ उत्पन्न करता है, वही ( पर्जन्यः ) सब का सब से उत्तम उत्पादक परमेश्वर है । पर्जन्यः—परो जनयिता । ( निरु० )

तस्मा इडास्ये हविर्जुहोता मधुमत्तम् ।  
इळां नः संयतं करत् ॥ ३ ॥ २ ॥

भा०—जो परमेश्वर ( नः ) हमारे ( आस्ये ) मुख में ( इडा ) वाणी को ( संयतं ) अच्छी प्रकार सुनियन्त्रित ( करत् ) करता है ( तस्मै )

इत् ) उसी प्रभु परमेश्वर के गुणगान करने के लिये ( आस्ये ) अपने मुख में ( मधुमत्-तमम् ) अत्यन्त मधुर गुण से युक्त ( हविः ) वचन का ( जुहोत ) धारण करो और अन्यो को प्रदान करो । इसी प्रकार जो प्रभु मेघ के समान ( नः इडां संयतं करत् ) हमें नियम से अन्न देता है उसी के लिये मधुर अन्नादि की ( आस्ये ) छिन्न भिन्न करके दूर २ तक फैला देने वाले अग्नि में ( हविः ) मधुर अन्नादि चरु प्रदान करो । उसी प्रभु के लिये अपने मुख में भी मधुर अन्न का ही ग्रहण करो । मलिन पदार्थ मांसादि का नहीं । इति द्वितीयो वर्गः ॥

[ १०३ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ मण्डूका देवताः ॥ छन्दः—१ आषी अनुष्टुप् । २, ६, ७, ८, १० आषी त्रिष्टुप् । ३, ४ निचृत् त्रिष्टुप् । ५, ६ विराट् त्रिष्टुप् ॥  
तृचं सूक्तम् ॥

संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः ।

वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिपुः ॥ १ ॥

भा०—जिस प्रकार ( संवत्सरं शशयानाः ) एक वर्ष पड़े रहने चाले ( मण्डूकाः ) जलवासी मेंढक ( पर्जन्य-जिन्वितां वाचं प्र अवादिपुः ) मेघ से प्रदान की वाणी को खूब ऊंचे २ दोलते हैं उसी प्रकार ( व्रत-चारिणः ) नियम, व्रत का आचरण करने वाले ( संवत्सरं शशयानाः ) वर्ष भर तीक्ष्ण तप करते हुए ( ब्राह्मणाः ) 'ब्रह्म', वेद के जानने वाले, वेदज्ञ, वेदाभ्यासी, विद्वान् जन ( मण्डूकाः ) ज्ञान, आनन्द में मग्न होकर ( पर्जन्य-जिन्वितां ) सर्वोत्पादक प्रभु की दी हुई ( वाचं ) वेद वाणी का ( प्र अवादिपुः ) उत्तम रीति से प्रवचन किया करें ।

'मण्डूकाः' मज्जूकाः मज्जनात् । मदतेर्वा मोदतिकर्मणः । मन्दतेर्वा ऋषिकर्मणः । मण्डतेरिति वैयाकरणाः । मण्ड एपामोक इति वां । मण्डो मदेर्वा । मुदेर्वा । ( निरु० ९ । ६ )

दिव्या आपो अभि यदेत्तमाद्यन्वतिं न शुष्कं सरसी शयानम् ।  
गवामह न मायुर्वत्सिनीनां मण्डूकानां वग्नुरत्रा समेति ॥ २ ॥

भा०—( दितिं शुष्कं न ) सूखे चमड़े के पात्र के समान ( सरसि शयानं ) तालाब में पड़े ( एनम् ) इस मण्डूक को ( दिव्या आपः ) आकाश के जल ( यद् अभि आयन् ) जब प्राप्त होते हैं तब ( मण्डूकानां वग्नः ) मेंडकों का शब्द ( वत्सिनीनां गवां मायुः न ) बछड़े वाली गौओं के शब्द के समान ही ( सम् एति ) आता है इसी प्रकार ( शुष्कं दितिं न ) सूखे चर्मपात्र के समान ( सरसि ) प्रशस्त ज्ञानमार्ग में ( शयानम् ) तीक्ष्ण तप करते हुए ( एनम् प्रति अभि ) इस ब्राह्मण वर्ग को ( दिव्याः आपः ) ज्ञानमय परमेश्वर से प्राप्त होने वाली ज्ञान वाणियां वा ज्ञानी आस पुरुष, वर्षा जल के समान ही ( आयन् ) प्राप्त होते हैं तब ( मण्डूकानां ) आनन्द वा ज्ञान में गहरे सग्न विद्वानों का ( वग्नः ) उत्तम उपदेश और ( वत्सिनीनाम् ) नियम से ब्रह्मचर्यवास करने वाले शिष्यों से युक्त ( गवाम् मायुः ) वेदवाणियों की ध्वनि भी ( अत्र ) इस लोक में ( सम् एति ) अच्छी प्रकार सुनाई देती है । यदि परमेश्वर से प्राप्त वेद ज्ञान न हो तो यहां, इस लोक में ज्ञानवाणियां और विद्वानों के उपदेश भी सुनाई न दें ।

शशयानाः, शयानम्—शिञ् निशाने ।

यदीमेनाँ उशतो अभ्यवर्षीत्तृष्यावतः प्रावृष्यागतायाम् ।

अकखलीकृत्या पितरं न पुत्रो अन्यो अन्यमुप वदन्तमेति ॥ ३ ॥

भा०—( उशतः ) वर्षा को चाहने वाले और ( तृष्यावतः एनान् ) ष्यासे इनके प्रति ( प्रावृषि आगतायाम् ) वर्षा काल आजाने पर ( अभि अवर्षीत् ) मेघ वर्षता है, ( पुत्रः पितरं न ) पिता के प्रति पुत्र के समान ( वदन्तम् अन्यम् अन्यः उप एति ) बोलते एक मेंडक के पास दूसरा जैसे आजाता है उसी प्रकार ( आगतायां प्रावृषि ) वर्षाकाल आनेपर ( यद् ईम् ) जब भी ( उशतः ) विद्या की कामना करने वाले और ( तृष्या-

वतः एनान् ) ज्ञान की पिपासा से युक्त इन शिष्यों के प्रति विद्वान् पुरुष मेघ के समान ( अभि अवर्षात् ) ज्ञान की वर्षा करता है तब ( वदन्तम् अन्यम् उप ) उपदेश करते हुए एक के पास ( अन्यः ) दूसरा शिष्य ( पुत्रः पितरं न ) पिता के पास पुत्र के समान ही ( अक्खलीकृत्य ) विनम्र होकर ( उप एति ) आता है और उसकी शुश्रूषा कर ज्ञान प्राप्त करता है ।

अन्यो अन्यमनु गृभ्णात्येनोरपां प्रसर्गे यदमन्दिषाताम् ।

मण्डूको यदभिवृष्टः कनिष्कन्पृश्निः सम्पृङ्क्ते हरितेन वाचम् ४

भा०—जिस प्रकार ( अपां प्रसर्गे ) जलों के खूब होजाने पर ( यत् अमन्दिषाताम् ) जब दो मेंडक बहुत प्रसन्न होजाते ( अन्यः अन्यम् अनुगृभ्णाति एक दूसरे को पकड़ लेता है, ( कनिष्कन् मंडूकः पृश्निः हरितेन वाचं सम्पृङ्क्ते ) पीला कूदता मेंडक हरे मेंडक से अपनी आवाज़ मिलाता है उसी प्रकार ( यत् ) जब ( अपां प्रसर्गे ) आप्त वेदज्ञानों के प्रदान करने के लिये गुरु शिष्य दोनों ( अमन्दिषाताम् ) अति प्रसन्न हो जाते हैं ( एनोः ) इन पूर्वोक्त गुरु और शिष्य दोनों में से ( अन्यः ) एक गुरु, आचार्य ( अन्यम् ) दूसरे को ( अनुगृभ्णाति ) अनुग्रहपूर्वक स्वीकार करता है और ( यत् ) जो ( अभिवृष्टः ) अभिषेचित विद्याव्रत स्नातक ( मण्डूकः ) अति हर्षवान् हो ( कनिष्कन् ) अन्यों को विद्या प्रदान करता है तब ( पृश्निः ) वेद का विद्वान् या प्रश्न करने योग्य विद्वान् ( हरितेन ) ज्ञान ग्रहण करने वाले शिष्य से ( वाचम् संपृङ्क्ते ) अपनी वाणी का सम्पर्क कराता है, उसको अपना ज्ञान वादानुवादपूर्वक प्रदान करता है ।

यदेषामन्यो अन्यस्य वाचं शाक्तस्यैव वदति शिक्षमाणः ।

सर्वं तदेषां समृधैव पर्व यत्सुदाचो वदथनाध्यप्सु ॥ ५ ॥ ३ ॥

भा०—( यत् ) जब ( एषाम् ) इन विद्वानों में से ( अन्यः एक विद्वान् शिष्य ( शिक्षमाणः ) शिक्षा पाकर ( अन्यस्य शाक्तस्य ) दूसरे

शक्तिमान्, अधिक विद्या, तप आदि से सम्पन्न गुरु की सिखाई ( वाचम् वदति ) वाणी को कहता है और ( यत् ) जब (अप्सु अधि) प्राप्त शिष्यों वा प्रजाओं के बीच इन विद्वानों में ( सुवाचः ) उत्तम वाणी के बोलने हारे आप लोग ( वदथन ) उपदेश करते हैं ( तत् ) तब (एपां) इनका ( सर्व ) समस्त ( पर्व ) पालन योग्य व्रत, ब्रह्मचर्यादि वा ( पर्व ) पालन योग्य ज्ञानकाण्ड, अध्ययन वेदादि ( समृधा इव ) समृद्ध उत्सवादि के समान हो जाता है । इति तृतीयो वर्गः ॥

गोमायुरेको अजमायुरेकः पृश्नुरेको हरित् एक एपाम् ।

समानं नाम विभ्रतो विरूपाः पुरुत्रा वाचं पिपिशुर्वदन्तः ॥६॥

भा०—( एपाम् ) इन विद्वान् ब्राह्मणों में से (एकः) एक (गो-मायुः) वेद वाणियों को उत्तम रीति से प्रवचन करने में समर्थ होता है । ( एकः अज-मायुः ) एक विद्वान् अजन्मा, आत्मा और परमेश्वर के विषय में प्रवचन-उपदेश करने में समर्थ होता है । ( एक पृश्निः ) एक प्रश्नोत्तर करने और उनका समाधान करने में कुशल होता है । ( एक हरितः ) इनमें से एक ज्ञानों को ग्रहण करने में कुशल होता है । ये सब (समानं) एक समान ( नाम ) 'ब्राह्मण' नाम धारण करते हुए भी ( वि-रूपाः ) विविध रूप विद्याओं को धारण करते हैं । वे ( वदन्तः ) उपदेश-प्रवचन करते हुए ( पुरुत्रा वाचं पिपिशुः ) नाना प्रकार से वाणी को प्रकट करते हैं ।

ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो वदन्तः ।

संवत्सरस्य तदहः परिष्टु यन्मण्डूकाः प्राचृषीणं वभूव ॥ ७ ॥

भा०—( यत् ) जिस प्रकार जब ( संवत्सरस्य ) वर्ष के बीच (प्राचृ-षीणं अहः वभूव ) वर्षाकाल का दिन होता है, ( तत् अहः ) उस दिन- ( मण्डूकाः ) मेंढक (पूर्णं सरः अभितो वदन्तः परि तिष्ठन्ति) भरे तालाव के चारों ओर बोलते हुए बिराजते हैं । उसी प्रकार ( अति-रात्रे ) अति रात्र सोमयाग की रात्रि को अतिक्रमण कर व्रतधारी (सोमे) सोम अर्थात्

शिष्य के निमित्त ( न ) भी ( ब्राह्मणासः ) विद्वान् वेदज्ञ लोगो ! आप लोग ( पूर्ण सरः अभितः वदन्तः ) पूर्ण ब्रह्म या वेद ज्ञान का उपदेश करते हुए ( संवत्सरस्य तत् अहः ) वर्ष के उस दिन ( परि स्थ ) सब एक घेर सा बना कर बैठा करो ।

ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरीणम् ।  
अध्वर्यवो घर्मिणः सिष्विदाना आविर्भवन्ति गुह्या न के चित् ८

भा०—( सोमिनः ब्राह्मणासः ) सोमयाग करने वाले वा अपने अधीन सोम, ब्रह्मचारियों को शिक्षा देने वाले विद्वान् ब्रह्मवेत्ता लोग ( परिवत्सरीणम् ) वर्ष भर ( ब्रह्म कृण्वन्तः ) वेद का उपदेश करते हुए ( वाचम् अक्रत ) उत्तम प्रवचन करें । ( अध्वर्यवः ) यज्ञ-कर्त्ता ( घर्मिणः ) सूर्यवत् तेजस्वी या घर्म, प्रवर्ग्येष्टि करने हारे ( सिष्विदानाः ) स्वेद युक्त होकर भी ( केचित् ) कुछ विद्वान् लोग ( गुह्या न ) गुहा में बैठे तपस्वियों के समान ( गुह्याः ) गुहा, बुद्धि ज्ञान या हृदय-गुहा में ही रमण करते हुए ( आविर्भवन्ति ) प्रकट होते हैं या ( न आविर्भवन्ति ) नहीं प्रकट होते हैं । वे गुप्त प्रभाव से ही रहते हैं ।

देवहितं जुगुपुर्द्वादशस्य ऋतुं नरो न प्रमिनन्त्येते ।

संवत्सरे प्रावृष्यागतायां तप्ता घर्मा अश्नुवते विसर्गम् ॥ ९ ॥

भा०—( संवत्सरे ) वर्ष में ( तप्ताः घर्माः ) तपे घाम अर्थात् सूर्य के तेज ( आगताया प्रावृषि ) वर्षाकाल आने पर ( विसर्गम् अश्नुवते ) विविध प्रकार से जलों को व्याप लेते हैं, मेघ रूप से प्रकट करते हैं वे ( द्वादशस्य ) वारह मास के बने वर्षा के ( देव-हितं ) जलप्रद मेघ की ( जुगुपुः ) रक्षा करते और ( नरः ) नायक वायुगण ( ऋतुं न प्रमिनन्ति ) वर्षा ऋतु को नष्ट नहीं होने देते उसी प्रकार ( संवत्सरे ) एक वर्ष में ( प्रावृषि आगतायाम् ) वर्षा के आनेपर ( तप्ताः ) तप से संतप्त, ( घर्माः ) तेजस्वी पुरुष भी ( विसर्गम् अश्नुवते ) विविध प्रकार के अध्याय, काण्डादि

से युक्त वेद का अभ्यास करते हैं। वे ( द्वादशस्य ) बारहों मास वर्षभर ( देव-हितं जुगुपुः ) परमेश्वर के दिये ज्ञान-कोश की रक्षा करते हैं। और ( एते ) वे ( नरः ) उत्तम पुरुष ( ऋतुं न प्र मिनन्ति ) 'ऋतु' अर्थात् ज्ञानयुक्त वेद को उसी प्रकार नष्ट नहीं होने देते जैसे नर जीव अपने योनि में ऋतु का नाश नहीं होने देते।

गोमायुरदाद्भजमायुरदात्पृश्निरदाद्धरितो नो वसूनि ।

गवां मण्डूका ददतः शतानि सहस्रसावे प्र तिरन्त आयुः १०।४

भा०—( गो-मायुः ) वाणियों का उपदेष्टा विद्वान् ( नः वसूनि अदात् ) हमें नाना ऐश्वर्य प्रदान करे। ( भज-मायुः नः वसूनि अदात् ) नित्य पदार्थ जीव, आत्मा और प्रकृति का उपदेश करने वाला विद्वान् भी हमें नाना ऐश्वर्य दे। ( हरितः ) ज्ञान संग्रह करने वाला विद्वान् भी ( नः वसूनि अदात् ) हमें ऐश्वर्य दे। ( मंडूकाः ) ज्ञान, मोक्षादि के आनन्द में स्वयं निमग्न और अन्धों को भी आनन्दित करने वाले विद्वान् जन (सहस्र-सावे) सहस्रों के ऐश्वर्यों और सुखों के देने के निमित्त ( गवां शतानि ) सैकड़ों वाणियों का ( ददतः ) उपदेश करते हुए ( आयुः प्र तिरन्ते ) आयु की वृद्धि करें। इति चतुर्थो वर्गः ॥

[ १०४ ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ देवताः—१—७, १५, २५ इन्द्रासोमो रक्षोहणौ । ८, १६, १९-२२, २४ इन्द्रः । ९, १२, १३ सोमः । १०, १४ अग्निः । ११ देवाः । १७ आवाणः । १८ मरुतः । २३ वसिष्ठः । २३ पृथिव्यन्तरिक्षे ॥ छन्दः—१, ६, ७ विराड्जगती । २ आषीं जगती । ३, ५, १८, २१ निचृद्जगती । ८, १०, ११, १३, १४, १५, १७ निचृद् त्रिष्टुप् । ९ आषीं त्रिष्टुप् । १२, १६ विराट् त्रिष्टुप् । १९, २०, २२ त्रिष्टुप् । २३ आषीं भुरिजगती । २४ याजुषीं विराट् त्रिष्टुप् । २५ पादनिचृदनुष्टुप् ॥ पञ्चविंशत्युचं सूक्तम् ॥

इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उञ्जतं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृधः ।  
परा शृणीतमचित्तो न्योषतं हृतं नुदेथां नि शिशीतमत्रिणः ॥१॥

भा०—दुष्टों का दमन । हे (इन्द्रा सोमा) 'इन्द्र' ऐश्वर्यवन् ! शत्रु-  
हन्तः ! हे सोम, शासक जन ! राजा के पुत्रवत् प्रजाजन ! आप दोनों  
मिलकर ( रक्षः तपतम् ) विघ्नकारी दुष्ट पुरुषों को पीड़ित करो । इतना  
दण्ड दो कि वे पश्चात्ताप करें । (उञ्जतम्) उनको झुकाओ, उनका गर्व चूर  
करो । हे (वृषणा) प्रबन्ध करने में समर्थ बलवान् जनो ! ( तमोः-वृधः )  
अज्ञान, अन्धकारादि के बढ़ाने वाले लोगों को ( नि अर्पयतम् ) नीचे  
दबाओ कि वे उठकर प्रबल न हो जावें । (अचित्तः) अज्ञानी, मूर्ख लोगों  
को (परा शृणीतम्) इतना पीड़ित करो कि वे परे हट जायं । उनको (नि-  
ओषतं) इतना सन्तापित करो कि नीचे दबे रहें, ( हृतं ) उनको दण्डित  
करते रहो, ( नुदेथाम् ) उनको परे भगाते रहो । प्रजा का सर्वस्व खाजाने  
वालों को भी ( नि शिशीतम् ) खूब तीक्ष्ण दण्ड दो ।

इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यधं तपुर्पयस्तु चरुरग्निवाँ इव ।  
ब्रह्मद्विपे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिने ॥२॥

भा०—हे ( इन्द्रासोमा ) ऐश्वर्यवन् ! हे उत्तम शासक जनो ! आप  
दोनों मिलकर ( अघ-शंसं ) पाप की चर्चा करने वाले और ( अघं ) पापी  
पुरुष को ( सम् अभि धत्तम् ) अच्छी प्रकार से बांधो, वह ( तपुः )  
संतप्त होकर ( अग्निवान् चरुः इव ) अग्नि से युक्त पात्र वा अन्नादि के  
समान सन्तप्त होकर ( ययस्तु ) पीड़ित हो । और आप दोनों ( ब्रह्म-द्विपे )  
वेद और वेदज्ञ विद्वान् के द्वेषी ( क्रव्यादे ) कच्चा मांस खाने वाले और  
( किमीदिने ) अब क्या अब क्या इस प्रकार मूढ़ और ( घोरचक्षसे )  
घोर क्रूर दृष्टि वाले पुरुष को ( अनवायं ) निरन्तर ( द्वेषः धत्तम् ) अप्रीति-  
करो । ऐसे व्यक्तियों से कभी प्रेम न करो ।



इन्द्रासोमा दुष्कृतो ब्रूवे अन्तरनारम्भणे तमसि प्र विध्यतम् ।  
यथा नातः पुनरेकश्चनोदयत्तद्वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः ॥ ३ ॥

भा०—हे (इन्द्रासोमा) ऐश्वर्यवान् ! शत्रुहन्तः ! राजन् ! हे (सोम) धर्मका अनुशासन करने वाले विद्वान् जनो ! आप लोग (दुष्कृतः) दुष्ट और दुःखदायी कामना करने वाले दुष्ट पुरुषों को ( ब्रूवे अन्तः ) चारों ओर से घिरे कैद, कारागारादि स्थान के भीतर वा कूप, गढ़े के भीतर और (अनारम्भणे तमसि) अवलम्बन रहित, निराधार ऐसे अन्धे में ( प्रविध्यतम् ) रखकर दण्डित करो जहाँ कुछ भी सूझ न पड़े । ( यथा ) जिससे (अतः) वहाँ से ( पुनः एकः चन ) फिर एक भी कोई ( न उत् अयत् ) उठ के ऊपर न आवे । ( वाम् ) आप दोनों का ( तत् ) वह अद्भुत (मन्युमत् शवः) क्रोध से परिपूर्ण बल पराक्रम ( सहसे अस्तु ) दुष्टों का पराजय करने के लिये सदा बना रहे ।

इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवो ब्रधं सं पृथिव्या अघशंसाय तर्हणम् ।  
उत्ततं स्वयं पर्वतेभ्यो येन रत्नो वावृधानं निजूर्वथः ॥ ४ ॥

भा०—हे ( इन्द्रासोमा ) ऐश्वर्यवान्, हे उत्तम विद्यावान् दोनों जनो ! आप दोनों (अघ-शंसाय) पाप की चर्चा करने वाले पुरुष को दण्ड देने के लिये ( दिवः ) सूर्य और ( पृथिव्याः ) पृथिवी से (ब्रधं वर्तयम्) दण्ड किया करो, और उसके लिये ( तर्हणम् ) नाशकारी (स्वयं) सन्ताप-जनक और घोर नादकारी ( पर्वतेभ्यः ) मेघों से आने वाले विद्युत् तत्व को ( उत् तक्षतम् ) उत्तम रीति से प्राप्त करो । ( येन ) जिससे ( वावृधानं रक्षः ) बढ़ते दुष्ट जन को भी ( निजूर्वथः ) खूब दण्डित कर सको ।

इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवस्पर्यग्नितप्तेभिर्युवमश्महन्मभिः ।

तपुर्वधेमिर्जरेभिरत्रिणो नि पशीने विध्यतं यन्तु निस्वरम् ॥५॥५

भा०—हे ( इन्द्रासोमा ) राजन् ! हे शासक जन ! ( युवम् ) आप दोनों (अग्नि-तप्तेभिः) अग्नि से तपे हुए, ( अश्म-हन्मभिः ) मेघ से विद्युत्

के समान वा ओले के समान आघात करने वाले ( तपुर्वधेभिः ) दुष्टों के नाशकारी अस्त्रों, नालीकादि गुलिका वाणों से (दिवः परि) आकाश से दूर से ही मार कर (अत्रिणः) प्रजा के नाशक, भक्षक दुष्ट पुरुष के (पशानि) दोनों पासों के बल समुदाय को ( नि विध्यतम् ) खूब छिन्न भिन्न करो । जिससे वह (निःस्वरम् ) विना आवाज़ किये, चुपचाप, विना कष्ट पहुँचाये ( यन्तु ) चला जावे । इति पञ्चमो वर्गः ॥

इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वत इयं कक्ष्याश्वेव वाजिना ।

यां वां होत्रां परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्माणि नृपतीव जिन्वतम् ॥६॥

भा०—( कक्ष्या वाजिना अश्वा-इव ) जिस प्रकार वेग वाले, बलवान् अश्वों को बगलवन्द की रस्सी चारों ओर से बांधती है हे ( इन्द्रासोमा ) ऐश्वर्यवान् वा ज्ञानदर्शिन् आचार्य ! हे सोम ! सौम्य भावयुक्त शिष्य ! (वां) आप दोनों को ( इयं मतिः ) यह ज्ञान वा वाणी ( कक्ष्या ) अवगाहन करने योग्य, गंभीर, ( विश्वतः परिभूतु ) सब प्रकार से और सब ओर से प्राप्त हो । (वां) आप दोनों की ( यां ) जिस ( होत्रां ) ग्रहण करने योग्य उत्तम वाणी को ( मेधया ) उत्तम धारणावती बुद्धि द्वारा (परि हिनोमि) मैं बड़ाऊँ या प्राप्त करूँ (इमा ब्रह्माणि) और इन वेद वचनों को वा धर्मों को ( नृपती इव ) राजाओं के समान ( जिन्वतम् ) प्राप्त करो और उप-भोग करो ।

प्रति स्मरेथां तुजयद्भिरेवैर्हतं द्रुहो रक्षसो भङ्गुरावतः ।

इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं भूद्यो नः कदा चिदभिदासति द्रुहा ७-

भा०—हे (इन्द्रासोमा) ऐश्वर्यवान् ! ज्ञानवान् पुरुषो ! आप दोनों ! ( तुजयद्भिः ) शत्रुओं का नाश करने वाले ( एवैः ) प्रयाणशील भटों, सैन्यों तथा अज्ञाननाशक ज्ञानों में ( प्रति स्मरेथाम् ) प्रत्येक स्थान पर प्रयाण करो और प्रत्येक वस्तु का स्मरण करो । ( भङ्गुरावतः ) नगर गृहादि को तोड़ने वाले तथा व्रतादि का नाश करने वाले, ( द्रुहः रक्षसः )

द्रोहशील विघ्नकारी दुष्ट पुरुषों और दुष्ट भावों को ( हतम् ) दण्ड दो और नाश करो । ( यः ) जो ( नः ) हमें ( कदाचित् ) कभी भी (द्रुहा) द्रोह या द्वेष से ( अभिदासति ) नाश करता वा हमें अपना दासवत् बना लेता है, ऐसे ( दुष्कृते ) दुराचारी पुरुष को ( सुगं मा भूत् ) कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता । इसी प्रकार ( दुष्कृते सुगं मा भूत् ) दुष्कर्म के बदले सुख कभी प्राप्त नहीं होता ।

यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अनृतेभिर्वचोभिः ।

आप इव काशिना सङ्गृभीता असन्नस्त्वासत इन्द्र वज्रा ॥ ८ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे दुष्टों के नाशकारिन् ! ( यः ) जो ( पाकेन ) परिपक्व = दृढ़, सत्ययुक्त ( मनसा ) ज्ञान वा चित्त से अथवा ( पाकेन = वाकेन, ) उत्तम सत्य वचन और ( मनसा ) उत्तम ज्ञान सहित ( चरन्तम् ) आचारण करने वाले ( मा ) मुझ पर ( अनृतेभिः वचोभिः ) असत्य वचनों द्वारा ( अभिचष्टे ) आक्षेप करता है वह ( असन् ) असत्य का ( वक्ता ) कहने वाला ( काशिनः संगृभीताः आपः इव ) मुठ्ठी में लिये जलों के समान ( असन् अस्तु ) नहींसा होकर नीचे गिर पड़े, छिन्न भिन्न होकर नष्ट होजाय ।

ये पाकशंसं विहरन्त एवैर्ये वा भद्रं दूषयन्ति स्वधाभिः ।

अहये वा तान्प्रददातु सोम आ वा दधातु निश्चितेरुपस्थे ॥९॥

भा०—( ये ) जो लोग ( एवैः ) अपने पुरे अभिप्रायों या कुटिल चालों से ( पाक-शंसं ) परिपक्व, दृढ़ सत्य वचन कहने वाले को ( विहरन्ते ) विरुद्ध मार्ग में ले जाते हैं ( वा ) अथवा, जो ( स्वधाभिः ) अपने बल, अन्न, गृह वेतनादि के बल से वा वेतनभोगी पुरुषों द्वारा ( भद्रं दूषयन्ति ) भले आदमी को दूषित करते हैं उस पर दोषारोप करते हैं ( सोमः ) शासक राजा और विद्वान् न्यायाधीश ( तान् ) उनको ( वा ) भी ( अहये प्रददातु ) हिंसक, सर्पादि जन्तु के काटने वा सर्पवत् कुटिलाचार करने के

लिये ही दण्ड दे । (वा) अथवा, (तान्) ऐसे पुरुषों का (निः-ऋतेः) अति दुःखदायी जन्तु सिंह, रीछ आदि वा पीड़क के (उपस्थे) समीप (आ दधातु) रक्वें ।

यो नो रसं दिप्सति पित्वो अग्ने यो अश्वानां यो गवां यस्त-  
नूनाम् । रिपुः स्तेनः स्तेयकृद्दभ्रमेतु नि ष हीयतां तन्वाऽ  
तना च ॥ १० ॥ ६ ॥

भा०—हे (अग्ने) अग्रणी अग्निवत् तेजस्विन् ! (यः) जो दुष्ट पुरुष (नः) हमारे (पित्वः रसं) अन्न के रस, सारभाग को (दिप्सति) नाश करना चाहता है, और (यः) जो हमारे (अश्वानां) घोड़ों, (गवां) गौओं, बैलों और (तनूनां) शरीरों के (रसं) सारवान् बलयुक्त परिपुष्ट अंश को नाश करना चाहता है वह (रिपुः) शत्रु, पापी (स्तेनः) चोर, (स्तेयकृद्) चोरी करने वाला, पुरुष (दभ्रम् एतु) हिंसा, पीड़ा वा मृत्यु दण्ड को प्राप्त हो और (सः) वह (तन्वा) शरीर और (तना च) धन, पुत्रादि से (नि हीयताम्) वञ्चित किया जाय ।

परः सो अस्तु तन्वाऽतना च तित्त्वः पृथिवीरधो अस्तु विश्वाः।  
प्रति शुष्यतु यशो अस्य देवा यो नो दिवा दिप्सति यश्च नक्तम् ॥ ११ ॥

भा०—और हे (देवाः) विद्वान् मनुष्यो ! (यः च) जो (नः) हमें (दिवाः) दिन के समय और या (नक्तम्) रात के समय (दिप्सति) हानि पहुंचाता, हमें नाश करना चाहता है (सः) वह (तन्वा तना च) शरीर और अपने पुत्रादि से भी (परः अस्तु) दूर, वियुक्त हो । वह (विश्वाः) समस्त (तित्त्वः) तीनों (पृथिवीः) भूमियों या लोकों से (अधः अस्तु) नीचे रहे, गढ़े में या नीची कोटि में रक्वा जावे । (अस्य यशः) उसका यश, कीर्ति, बल (प्रति शुष्यतु) प्रतिदिन सूखता जाय । सुविज्ञानं चिकित्से जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते । तयोर्यत्सत्यं यत्तरदृर्जायस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यासत् ॥ १२ ॥

भा०—( चिकित्सेषु ) जानने वाले ( जनाय ) मनुष्य के लिये ( सत् च असत् च ) सत्य और असत्य दोनों ही ( सुविज्ञानं ) बहुत अच्छी प्रकार जानने योग्य होते हैं, विद्वान् सत्य और असत्य दोनों को सुगमता से ही जान लेता है, क्योंकि ( सत् च असत् च वचसी ) सत्य और असत्य दोनों वचन ( पस्पृधाते ) परस्पर स्पर्द्धा करते हैं । दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं । ज्ञानी पुरुष के लिये विरोध का देखलेना कठिन नहीं होता । ( तयोः ) उन दोनों में ( यत् सत्यं ) जो भी सत्य है वो ( यत्-रत् ऋजीयः ) जो भी अधिक ऋजु धर्मानुकूल होता है ( तद् इत् ) उस की ही, ( सोमः ) उत्तम शासक विद्वान् रक्षा करता है और ( असत् हन्ति ) असत् को दण्ड और विनष्ट करता है ।

न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम् ।  
हन्ति रक्षो हन्त्यासुद्वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते ॥१३॥

भा०—( सोमः ) उत्तम शासक जन ( वृजिनं ) पाप और असत्य को ( न वै उ हिनोति ) कभी वृद्धि न दे । और ( मिथुया धारयन्तं ) असत्य पक्ष को धारण करने वाले ( क्षत्रियम् ) बलशाली पुरुष को भी ( न हिनोति ) न बढ़ने दे । ( रक्षः ) दुष्ट पुरुष को ( हन्ति ) दण्ड अवश्य दे, और ( असद् वदन्तम् हन्ति ) असत्यवादी को भी दण्ड दे । ( उभौ ) वे दोनों भी ( इन्द्रस्य प्रसितौ ) दुष्टों के भयकारी पुरुष के उत्तम बन्धन में ( शयाते ) डाले जायँ ।

यदि ब्राह्मनृतदेव आसु मोघं वा देवाँ अप्युहे अग्ने ।

किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते निऋथं संचन्ताम् १४

भा०—( यदि वा ) और यदि ( अहम् ) मैं ( अनृतदेवः ) असत्य वात का प्रकाश करने वाला हूँ अर्थात् ऋत, सत्यानुकूल देन लेन, व्यवहार करने वाला नहीं हूँ, हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! अथवा मैं ( देवान् अपि ) विद्वान् पुरुषों को ( मोघं ) झूठ मूठ व्यर्थ ही ( ऊहे ) नाना प्रश्न,

वा तर्कं वितर्कं करता हूं, हे ( जातवेदः ) विद्वन् ! ज्ञानवन् ! (अस्मभ्यम्) विचार करो कि हमारे सुधार के लिये ( किम् हृणीषे ) क्या २ क्रोध कर हमें किस २ प्रकार दण्डित करो । क्योंकि ( द्रोघ-वाचः ) द्रोह या परस्पर द्वेष की बात कहने वाले ( ते ) वे नाना लोग भी अवश्य ( निर्ऋथं ) अति दुःख और धन, सत्य, अन्न ऐश्वर्यादि से रहित कष्टमय जीवन को ( सचन्ताम् ) प्राप्त हों ।

अथा मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य ।  
अथा स वीरैर्दशभिर्वि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥१५।७॥

भा०—( यदि ) यदि मैं ( यातुधानः ) अन्यो को पीड़ा, यातना देने वाला, ( अस्मि ) होऊँ और ( यदि वा ) जो मैं ( पूरुषस्य ) मनुष्य के ( आयुः ) जीवन को ( ततप ) पीड़ित करूँ, मानव जीवन के संताप का कारण बनूँ तो मैं ( अद्य मुरीय ) आज ही मृत्यु को प्राप्त होऊँ। अर्थात् अन्य की पीड़ा देने और मनुष्य जीवन को हानि पहुंचाने वाले को अति शीघ्र मृत्यु-दण्ड हो । ( अद्य ) और ( यः ) जो ( मोघं ) व्यर्थ, विना प्रयोजन के ( मा ) मुझे ( यातुधान इति आहः ) पीड़ादायक, क्रूर ऐसा कहे ( सः ) वह तू ( दशभिः वीरैः ) दशों प्रकार के प्राणों से ( वि यूयाः ) वियुक्त हो । इति सप्तमो वर्गः ॥

यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह ।

इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥१६॥

भा०—( यः ) जो ( अयातुं मा ) अन्य को पीड़ा न देने वाले अहिंसक को ( यातुधान इति आह ) पीड़ा देने वाला, हिंसक ऐसा बतलावे ( वा ) और ( यः ) जो ( रक्षाः ) स्वयं दुष्ट पुरुष होकर ( शुचिः अस्मि इति आह ) मैं निर्दोष हूँ, ऐसा अपने को बतलावे ( इन्द्रः ) राजा ( तं ) उसको ( महता वधेन ) बड़े भारी शस्त्र से ( हन्तु ) मारे और वह ( विश्वस्य जन्तोः ) समस्त पापियों से ( अधमः ) अधम, नीचा ( पदीष्ट ) समझा जावे ।

प्र या जिगाति खर्गलेव नक्तमप द्रुहा तन्वं गृहमाना ।

वव्रां अनन्तां अव सा पदीष्ट ग्रावाणो व्रन्तु रक्षस उपवदैः ॥१७॥

भा०—( या ) जो छी, ( खर्गला इव ) उल्लुनी के समान (द्रुहा) पति से द्रोह करके अपने ( तन्वं गृहमाना ) शरीर को छिपाकर (नक्तम्) रात के समय ( प्र अप जिगाति ) घर छोड़ कर जाती है ( सा ) वह ( अनन्तां ववान् ) खूब गहरे गढ़ों को ( अव पदीष्ट ) प्राप्त हो । उस प्रकार ( ग्रावाणः ) क्षत्रिय लोग ( उपवदैः ) गर्जनाओं और घोषणाओं सहित ( रक्षसः व्रन्तु ) दुष्ट पुरुषों को विनष्ट करें ।

वि तिष्ठध्वं मरुतो विद्विच्छ्रुतं गृभायत रक्षसः सं पिनष्टन ।

वयो ये भूत्वी पतयन्ति नक्तभिर्ये वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे १८

भा०—हे ( मरुतः ) वायुवत् बलवान् पुरुषो ( ये ) जो (नक्तभिः) रातों के समय आप लोग ( वयः भूत्वी ) तेजस्वी, प्रकाशयुक्त होकर ( पतयन्ति ) नगर के स्वामी के समान रक्षा करते हैं ( ये वा ) और जो आप लोग ( अध्वरे ) हिंसारहित, एवं दुष्टों से अंहिसनीय ( देवे ) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष के अधीन रहकर ( रिपः ) पापों और दुष्ट पुरुषों को ( दधिरे ) पकड़ते हो वे आप लोग ( विश्व ) प्रजाओं में ( वि तिष्ठध्वम् ) विशेष २ पदों पर विराजमान होंगे । और ( वि दृच्छ्रुत ) विविध पेश्वयों की कामना करो । ( रक्षसः वि गृभायत ) दुष्ट पुरुषों को विविध प्रकार से कैद करो । और उनको ( सं पिनष्टन ) अच्छी प्रकार दबाओ, पीसो, दण्डित करो, कुचलो । अथवा—हे बलवान् पुरुषो ! आप लोग उन दुष्टों को दण्डित करो जो ( वयः भूत्वी ) प्रजा के भक्षक होकर ( नक्तं पतयन्ति ) रात में छुपे प्रजा वा मालिक के समान शासन करते और वह धन के स्वामी बन जाना चाहते हैं । और जो ( देवे ) विद्वानों, एवं कर्प्रद प्रजा और राजा पर और ( अध्वरे ) यज्ञ में ( रिपः दधिरे ) पाप-कर्म आचरण करते हैं ।

प्र वर्त्तय द्विवो अश्मानमिन्द्र सोमशितं मघवन्त्सं शिशधि ।  
प्राक्तादपाक्तादधरादुदक्तादभि जहि रुक्षसः पर्वतेन ॥ १९ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) शत्रुहन्तः ! तू ( दिवः अश्मानम् ) आकाश से पड़ने वाले ओलों के समान ( दिवः ) तेजोयुक्त-भाग्नेय अस्त्र से ( अश्मानम् ) शत्रुनाशक गोली आदि कठिन वस्तु ( प्र वर्त्तय ) फेंक । हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवान् ! तू ( सोम-शितम् ) ऐश्वर्य और उत्तम शासक से तीव्र हुए शत्रु और प्रजाजन दोनों को ( सं शिशधि ) अच्छी प्रकार शासन कर । ( प्राक्तात्, अपाक्तात्, उदक्तात्, अधरात् ) पूर्व, पश्चिम, उत्तर और नीचे, दक्षिण से भी ( पर्वतेन ) दृढ़ पोरु वाले दण्ड से, पशु के समान ( रुक्षसः जहि ) दुष्ट पुरुषों को दण्डित कर ।

एत उत्ये पतयन्ति श्वयातव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम् ।  
शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो वधं नूनं सृजदशानि यातुमद्भयः २०।८

भा०—( एते उत्ये ) ये वे बहुत से ( श्व-यातवः ) कुत्ते के समान चाल चलने और अन्यों को पागल कुत्ते के समान बिना प्रयोजन काटने और अन्यों के प्रति परुष भाषण कहने और गुर्रा २ कर डराने वाले लोग ही ( पतयन्ति ) मालिक से वन कर बैठ जाना चाहते और प्रजा के धन को हर लेना चाहा करते हैं ( दिप्सवः ) हिंसाकारी लोग ही ( अदाभ्यम् इन्द्रं दिप्सन्ति ) अहिंसनीय ऐश्वर्यवान् राजा को भी मारना चाहा करते हैं । ( शक्रः ) शक्तिशाली राजा ( पिशुनेभ्यः ) क्षुद्र पुरुषों को दमन करने के लिये ( वधं शिशीते ) दुष्टों को दण्ड देने वाले अपने शस्त्र बल को सदा तेज़ करता रहे । ( नूनं ) अवश्य ही वह ( यातुमद्भयः ) प्रजा को पीड़ा देने वाले दुष्ट पुरुषों को दमन करने के लिये ( अशानि ) विद्युत्तवत् आघातकारी शस्त्र ( सृजत् ) बनावे और उन पर छोड़े । इत्यष्टमो वर्गः ॥

इन्द्रो यातुनामभवत्पराशरो हविर्मथीनामभ्या विवासताम् ।  
अभीदु शक्रः परशुर्यथा वनं पात्रैव भिन्दन्स्रत एति रुक्षसः ॥२१॥



भा०—( इन्द्रः ) राजा, ऐश्वर्यवान् शत्रुहन्ता पुरुष ( हविर्मयीनां ) प्रजाओं के अन्न, यज्ञों के चरु और राज्य के कर आदि को बलात् हरने वाले ( यातूनां ) प्रजाओं के पीड़ादायी मनुष्यों और ( जभि आ विवासताम् ) अभिमुख आकर आक्रमण करने वाले पुरुषों को ( परा-शरः ) दूर तक मार मारने वाला ( आ भवत् ) हो । ( परशुः यथा वनं ) जिस प्रकार फरसा, वन को काट गिराता है, ( पात्रा इव ) जिस प्रकार पत्थर वर्तनों को तोड़ डालता है उसी प्रकार ( शक्रः ) शक्तिशाली राजा ( रक्षसः ) दुष्ट पुरुषों को ( परशुः ) कुल्हाड़ा सा होकर ( अभि एति ) प्राप्त हो और ( रक्षसः सतः भिन्दन् एति ) उन दुष्टों को भेद नीति से तोड़ता फोड़ता हुआ प्राप्त हो ।  
 उल्लूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम् ।  
 सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं दृषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥ २२ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) शत्रुओं के नाशक ! राजन् ! ( उल्लूक-यातुम् ) बड़े उल्लू के समान चाल चलने और उसके समान छिप कर प्रजा के धन, प्राण पर आक्रमण करने और उनको भयभीत करने वाले को, ( शुशुलूक-यातुम् ) छोटे उल्लू के समान अति कर्कश बोल कर डराने और प्रजा के गरीब जनों को पीड़ित करने वाले को, ( श्व-यातुम् ) कुत्ते के समान भौंक कर, बककर, कठोर वचन कह कर, डरा धमका कर प्रजा के जनों को पीड़ा देने वाले, ( कोक-यातुम् ) उल्लूक के तीसरी जाति के समान प्रजा को कष्ट देने वाले ( सुपर्ण-यातुम् ) बाज़ के समान झपटने वाले ( उत ) और ( गृध्र-यातुम् ) गीध के समान गोल बनाकर उदासीन प्रजा को नोच कर खाजाने वाले ( रक्षः ) दुष्ट जनों को ( दृषदा इव ) सिलबट्टे या चक्री के पाटों के समान पीस डालने वाले ( प्रमृण ) दण्ड द्वारा नष्ट कर डाल ।

मानो रक्षो अभि नड्यातुमावतामपोच्छतु मिथुना या किमीदिना । 1  
 पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वंहसोऽन्तरिक्षं दिव्यात्पात्वस्मान् ॥ २३ ॥

भा०—( रक्षः- ) दुष्ट पुरुष ( नः ) हम तक ( मा अभिनड् ) न पहुंचे । ( यातुमा-वताम् ) पीड़ा देने वाले जनों के ( मिथुना ) जोड़े छी

पुरुष ( या किमीदिना ) जो निकम्मे वा क्षुद्र काटि का स्वार्थमय स्नेह करने वाले हैं वे ( अप उच्छतु ) दूर हों । ( पृथिवी ) पृथिवीवत् सर्वाश्रय, विस्तृत शक्ति ( नः पार्थिवात् अंहसः पातु ) हमें पृथिवी से होने वाले पाप या कष्ट से बचावे । और ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष ( अस्मान् ) हमें ( दिव्यात् अंहसः पातु ) आकाश की ओर से आने वाले कष्ट से बचावे ।  
इन्द्रं जहि पुमांसं यातुधानमुत स्त्रियं मायया शाशदानाम् ।


विश्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दृशन्त्सूर्यमुच्चरन्तम् ॥ २४ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( यातुधानं पुमांसं ) पीड़ा देने वाले पुरुष को और ( मायया शाशदानाम् ) माया में प्रजा का नाश करने वाली ( स्त्रियं उत ) स्त्री को भी ( जहि ) दण्डित कर । ( मूर-देवाः ) मूढ़ होकर विषयों में क्रीड़ा करने वाले, या मारने वाली मौत की पीड़ा देने वाले दुष्ट लोग ( विश्रीवासः ) विना गर्दन के होकर ( ऋदन्तु ) नष्ट हों । ( ते ) वे ( उत्-चरन्तं ) उगते हुए ( सूर्यं मादृशन् ) सूर्य को भी न देख पावें ।  
प्रति चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रश्च सोम जागृतम् ।

रक्षोभ्यो वधमस्यतमशनिं यातुमद्भयः ॥ २५ ॥ ९ ॥ ६ ॥ ७ ॥

भा०—हे ( सोम ) ऐश्वर्यवन् ! हे शासनकर्ता ! तुम और ( इन्द्रः च ) शत्रुहन्ता सेनापति दोनों ही ( प्रति चक्ष्व ) प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार को देखो और ( वि-चक्ष्व ) विविध प्रकार से देखो ( जागृतम् ) तुम दोनों सदा जागते रहो, सावधान रहो । ( रक्षोभ्यः वधम् अस्यत ) दुष्टों के नाश करने के लिये उन पर शस्त्र का प्रहार करो । और ( यातुमद्भ्यः अशनिम् अस्यत ) अन्धों को पीड़ा देने वा हमारे नगरादि पर चढ़ाई, युद्ध प्रयाण करने वाली सेना के स्वामियों पर विद्युत् के तुल्य आघातकारी अस्त्र का प्रयोग करो । इति नवमो वर्गः । इति षष्ठोऽनुवाकः ।

॥ इति सप्तमं मण्डलं समाप्तम् ॥



# अथाष्टमं सर्गलम्

[ १ ]

प्रगाथो वीरः कायवो वा । ३—२६ मेधातिथिमेध्यातिथी कार्थी । ३०—३३  
 आसङ्गः प्लायोगिः । ३४ शश्वत्याङ्गिरस्यासगस्य पत्नी अपिः ॥ देवताः—  
 १—२६ इन्द्रः । ३०—३३ आसंगस्य दानस्तुतिः । ३४ आसंगः ॥ द्रुपः—  
 १ उपरिष्ठाद् बृहती । २ आर्षी भुरिग् बृहती । ३, ७, १०, १४, १८, २१  
 विराड् बृहती । ४ आर्षी स्वराड् बृहती । ५, ८, १५, १७, १९, २२, २५,  
 ३१ निचृद् बृहती । ६, ९, ११, १२, २०, २४, २६, २७ आर्षी बृहती ।  
 १३ शङ्कुमती बृहती । १६, २३, ३०, ३२ आर्षी भुरिग्बृहती । २८ आगुरी  
 स्वराड् निचृद् बृहती । २९ बृहती । ३३ त्रिष्टुप् । ३४ विराट् त्रिष्टुप् ॥  
 चतुस्त्रिंशद्वचं सूक्तम् ॥

मा चिदन्यद्वि शंसत् सखायो मा रिपण्यत ।

इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुःकथा च शंसत् ॥ १ ॥

भा०—हे ( सखायः ) मित्र जनो ! ( अन्यत् ) और किसी को  
 ( मा चिद् शंसत् ) कभी पूज्य, उपास्य मत कहो और किसी की उपा-  
 सना मत करो । ( मा रिपण्यत ) हिंसा कभी मत करो । ( वृषणं ) सुखों  
 की वर्षा करने वाले, सर्वशक्तिमान्, जगत् के प्रबन्ध करने वाले, व्यव-  
 स्थापक ( इन्द्रम् ) परमेश्वर्य के स्वामी की ( इत् ) ही ( स्तोत ) स्तुति  
 किया करो । ( सुते ) इस उत्पन्न जगत् में ( सचा ) एक साथ बैठ कर  
 ( मुहुः ) बार २ ( कथा च ) नाना स्तुति-वचन ( शंसत् ) कहो ।

श्रवक्रक्षिणं वृषभं यथाजुरं गां न चर्षणीसहम् ।

विद्वेषणं संवननोभयङ्करं मंहिष्ठमुभयाविनम् ॥ २ ॥

भा०—(अव-ऋक्षिणं गां न) हल शकट आदि के खेंचने वाले बैल के समान (अव-ऋक्षिणं) अपने अधीन जगत् भर को चलाने वाले (यथा वृषभं) मेघ के समान सुखों के वर्षक वृषभ के समान अति बलशाली, (अजुरं) अविनाशशील, सदा बलयुक्त, (चर्पणी-सहम्) सब मनुष्यों से ऊपर, (वि-द्वेषणं) द्वेष के भावों से विवर्जित, (सं-वनना) अच्छी प्रकार से सेवा वा भक्ति करने योग्य (मंहिष्ठम्) अति दानशील (उभयं-करम्) अनुग्रह वा दण्ड अथवा दोनों लोकों में कल्याण करने वाले, (उभयाविनम्) दोनों लोकों में कर्म और भोग दोनों योनियों में विद्यमान जीवों की रक्षा करने वाले परमेश्वर की ही (स्तोत) स्तुति किया करो ।

यच्चिद्धि त्वा जना इमे नाना हवन्त ऊतये ।

अस्माकं ब्रह्मेदमिन्द्र भूतु तेऽहा विश्वा च वर्धनम् ॥ ३ ॥

भा०—(यत् त्वा चित् हि) जिस तुझ पूज्य परमेश्वर को ही (इमे नाना जना) ये नाना जन (ऊतये) अपनी रक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के लिये (हवन्ते) पुकारते, तेरी प्रार्थना करते हैं हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (ते) उस तेरा (इदं ब्रह्म) यह वेद-ज्ञान (विश्वा अहा) सब दिनों ही (अस्माकं वर्धनं भूतु) हमें बढ़ाने वाला होवे ।

वि तर्तूर्यन्ते मघवन्विपश्चितोऽर्यो विपो जनानाम् ।

उप क्रमस्व पुरुरूपमा भश् वाजं नेदिष्ठमूतये ॥ ४ ॥

भा०—हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! (विपश्चितः) नाना विद्वान् जन (वि तर्तूर्यन्ते) विशेष रूप से तेरे ही अनुग्रह से इस संसार से पार हो जाते हैं । (जनानाम्) मनुष्यों को (विपः) कंपाने वाला और तू ही (अर्यः) उन पर अनुग्रह करने वाला स्वामी है । तू (पुरुरूपम्) बहुत प्रकार से (उप क्रमस्व) हमें प्राप्त हो, और (ऊतये) हमारी रक्षा के लिये (नेदिष्ठं वाजं भर) अति समीप प्राप्य आत्मिक ऐश्वर्य और बल, एवं ज्ञान प्रदान कर ।

महे चन त्वामद्रिवः परा शुल्काय देयाम् ।

न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ ॥ ५ ॥ १० ॥

भा०—हे ( अद्रिवः ) अविनाशी शक्तिमन् ! ( त्वाम् ) तुझे को ( महे चन शुल्काय ) बड़े भारी मूल्य या आर्थिक लाभ के लिये भी ( न परा देयाम् ) कभी त्याग न करूं । हे ( वज्रिवः ) वीर्यशालिन ! हे ( शत-मघ ) सैकड़ों ऐश्वर्यों के स्वामिन् ! मैं तुझे ( सहस्राय ) हजारों के लिये भी ( न ) नहीं त्यागूं । ( आयुताय न ) दस हजार के लिये भी न त्यागूं ( शताय न ) सैकड़ों के लिये भी न त्यागूं । इति दशमो वर्गः ॥ वस्यां इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरभुञ्जतः ।

माता च मे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधसे ॥ ६ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! स्वामिन् ! प्रभो ! तू ( मे ) मुझे ( अभुञ्जतः ) न पालन करने वाले ( पितुः ) पिता और ( भ्रातुः ) भाई से भी ( वस्यान् असि ) अधिक श्रेष्ठ एवं सगपन्न है । हे ( वसो ) सब में वसने हारे अन्तर्यामिन् ! तू और ( माता च ) मेरी माता दोनों ( समौ ) बराबर हैं । दोनों ही ( छदयथः ) मुझे आच्छादित करते हो । मेरे लिये छदि अर्थात् शरण देने वाले गृह के समान हो । और ( वसुत्वनाय ) मुझे वसाने और ( राधसे ) धनैश्वर्य देने के लिये भी ( समौ ) माता और तू दोनों बराबर हो ।

क्व यथ केदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः ।

अर्षि युध्म खजकृत्पुरन्दर प्र गायत्रा अंगासिपुः ॥ ७ ॥

भा०—हे ( पुरन्दर ) देह रूप पुरों का नाश करने वाले ! हे देह-बन्धन से छुड़ाने वाले ! प्रभो ! ( क्व इयथ ) तू कहां गया है ? ( क्व इत् असि ) तू कहां है ? ( ते ) तेरे लिये ( मनः ) मेरा मन ( पुरुत्र चित् हि ) बहुत २ स्थानों पर जाता है । हे ( युध्म ) दुष्टों को ताड़ना देने

हारे ! हे (खजकृत्) इन्द्रियों के बीच प्रकट होने वाले ! प्राण शक्तियों को प्रकट करने हारे आत्मन् ! वा ( खजकृत् ) आकाश में प्रकट जगत् के रचयितः ! तू ( अल्पि ) सर्वत्र व्यापता है । ( गायत्राः ) गान करने वाले विद्वान् और वेदमन्त्र ( ते ) तेरा ही ( प्र अगासिपुः ) उत्तम रूप से गान और वर्णन करते हैं । ( २ ) राजा युद्ध करने से 'युध्म' और संग्राम करने से 'खजकृत्' है ।

प्रास्मै गायत्रमर्चत वावातुर्यः पुरन्दरः ।

याभिः काण्वस्योप वहिरासदं यासद्वृज्जी भिनत्पुरः ॥ ८ ॥

भा०—जिस प्रकार वीर सेनापति वा राजा, ( वावातुः ) हिंसक वा प्रबल शत्रु के भी ( पुरन्दरः ) नगरियों को तोड़ फोड़ देने में समर्थ होकर ( वज्जी ) बलवान् होकर ( वहिः उप आसदं ) राष्ट्र-प्रजा के ऊपर अध्यक्ष-सन पर बैठने के लिये ( यासत् ) प्रयास या उद्योग करता है और ( पुरः भिनत् ) शत्रु के नगरों को तोड़ डालता है उसी प्रकार ( यः ) जो परमेश्वर ( वावातुः ) निरन्तर सांसारिक भोगों को सेवन करने वाले जीव के भी ( पुरन्दरः ) देहबन्धन का नाश करता है, और वह जीव ( याभिः ) जिन देहपुरी रूप साधनों से, ( कण्वस्य ) बुद्धिमान् पुरुष के ( वहिः उप आसदम् ) महान् यज्ञ में भी उपासना करने के लिये ( यासत् ) यत्न करता है, उसी से वह ( वज्जी ) वीर्यवान् आत्मा भी ( पुरः भिनत् ) देह-पुरियों को वीर सेनापति के तुल्य छिन्न भिन्न करता है ।

ये ते सन्ति दशग्विनः शतिनो ये सहस्रिणाः ।

अश्वसो ये ते वर्षणो रघुद्वस्तेभिर्नस्तूयमा गहि ॥ ९ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) राजन् ! सेनापते ! ( ते ) तेरे ( ये ) जो ( दश-ग्विनः ) दश गतियों से जाने वाले, या दश गौओं या, भूमियों या भटों के स्वामी, ( शतिनः ) सौ ग्रामों, या सौ भटों पर के नायक ( सहस्रिणः ) हजार भूमियों, या भटों के स्वामी, अथवा ( शतिनः ) सौ संख्या वेतन

और ( सहस्रिणः ) सहस्र संख्या वेतन वाले ( अधासः ) अधारोही वीर पुरुष हैं और ( ये ) जो ( ते ) तेरे ( वृषणः ) बलवान् ( रघु-द्रुवः ) अति वेग से जाने वाले हैं ( तेभिः ) उन सब के साथ ( नः ) हमें ( तूयम् ) शीघ्र ( आ गहि ) प्राप्त हो । ( २ ) परमेश्वर के पक्ष में—दशों इन्द्रियों के स्वामी, 'दशग्वी' शतवर्षजीवी 'शती' और सहस्रों के पति 'सहस्री' विद्वान् बलवान् के द्वारा उन के उपदेशों से तू हमें प्राप्त हो ।

आ त्व॑द्य॒ स॒व॒र्दु॒घां॑ हु॒वे गाय॑त्र॒वे॒प॒सम् ।

इन्द्र॑ धे॒नुं सु॒दु॒घाम॑न्यामि॒प॒मुरु॑धा॒राम॒रु॒ङ्क॒र्तम् ॥ १० ॥ ११ ॥

भा०—( सु-दुघां धेनुम् ) सुख से दोहन करने योग्य गौ जिस प्रकार ( उरु-धारां ) बहुत दूध की धारा वाली, ( सवर्दुघाम् ) उत्तम गोरस देने वाली होती है उसी प्रकार मैं ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् प्रभु को भी ( धेनुम् ) गौ के समान ( सु-दुघाम् ) सुख आनन्द रस को देने वाली, ( अन्याम् ) अन्य, इन लौकिक गौओं से सर्वथा भिन्न, ( इपम् ) सदैव इच्छा करने योग्य, उत्तम मार्ग में प्रेरणा करने वाली, ( उरु-धाराम् ) बहुत से लोकों को धारण करने में समर्थ, बहुत सी वेदवाणियों को देने वाली, नाना सुख-धारा को मेघवत् वर्षाने वाली, ( अरुङ्कतम् ) प्रचुर अन्न सुखादि उत्पन्न करने वाली, ( गायत्र-वेपसम् ) गान करने वालों को आवेश और प्रेमोद्रेकों से कंपा देने, गद् गद् कर देने वाली और ( सवर्दुघाम् ) मधुर दुग्धवत् परमानन्द एवं 'स्वः' परम सुख दोहन करने वाली, ( आ हुवे ) जानकर ( अद्य आ ) तुझे स्वीकार करता हूँ और उसी रूप से तुझ से प्रार्थना करता हूँ । इत्येकादशो वर्गः ॥

यत्तु॑दत्सूर॒ एत॑शं॒ वृङ्कू॑ वा॒तस्य॑ प॒रिणि॑ना ।

वह॑त्कु॒त्स॒मार्जु॑ने॒यं श॒तक्र॑तु॒स्त्सर॑द्वन्ध॒र्वम॑स्तृ॒तम् ॥ ११ ॥ २

भा०—( यत् ) जो ( सूरः ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष ( एतशं ) अथ सैन्य को ( तुदत् ) कशा के समान सन्मार्ग पर चलाता है और जो

( वातस्य ) वायु के से ( वङ्कू ) वक्र गति से जाने वाले, ( पर्णिना ) पक्ष युक्त विमानों को सञ्चालित करती है, और जो ( अर्जुनेयं ) अर्जुनी शत्रुदल की नाशक सेना के बने ( कुत्सम् ) शस्त्र-बल को ( वहत् ) धारण करता है वह ( शत-ऋतुः ) बहुत सी प्रज्ञा वाला एवं बहुत से कर्म करने वाले कर्ता पुरुषों का स्वामी, होकर ( अस्तृतम् ) अहिंसित, ( गन्धर्वम् ) भूमि को धारण करने वाले पद वा अश्वसैन्य ( त्सरत् ) प्राप्त कर चलावे । अध्यात्म में—( यत् ) जो प्रभु ( सूरः ) सूर्यवत् प्रकाशक ( एतशं ) अश्ववत् देह से देहान्तर में जाने वाले भोक्ता जीव को कर्मानुसार चलाता, ( अर्जुनेयं कुत्सम् ) शुद्धचित् 'अर्जुनी' के स्वामी स्तुतिकर्ता जीव को ( वातस्य ) वायु के बने ( वङ्कू ) वक्र गति से देह में व्यापक ( पर्णिना ) पालक प्राणापानों को प्राप्त करता है, वही ( शतऋतुः ) अमित प्रज्ञ प्रभु, अहिंसित, नित्य, ( गन्धर्वम् ) वाणी के धारक जीव को ( त्सरत् ) लोक लोकान्तर प्राप्त कराता है ।

य ऋते चिदभिश्चिपः पुरा जन्वभ्यं आतृदः ।

सन्धाता सन्धि मघवा पुरुवसुरिष्कर्ता विहुतं पुनः ॥ १२ ॥

भा०—( यः ) जो ( पुरा ) पहले भी ( अभिश्चिपः ऋते ) विना सरेस या जोड़ने वाले कील आदि पदार्थों के विना ( चित् ) भी ( जन्वभ्यः ) हंसलियों तक के ( आतृदः ) पृथक् २ मोहरों को ( संधाता ) अच्छी प्रकार जोड़ता है, और जो ( मघवा ) ऐश्वर्यवान् प्रभु वा आत्मा ( पुरुवसुः ) बहुत से लोकों और जनों में बसा, ( विहुतं सन्धि ) विपरीत रूप से मुड़े या विच्छिन्न सन्धि को भी ( पुनः इष्कर्ता ) फिर ठीक लगा देने वाला है वही ईश्वर, इन्द्र वा जीवात्मा है । शरीर की पृथक् २ हड्डियों को विना चेप या कील के जोड़े रखता और टूटी या मोच खाई हुई सन्धियों को फिर चंगा कर देता है यही ईश्वरीय कारीगरी और जीव के अद्भुत कौशल का नमूना है ।



मा भूम निष्टयाँ इवेन्द्र त्वदरणा इव ।

वनानि न प्रजहितान्यद्रिवो दुरोपासो अमन्महि ॥ १३ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! हे (अद्रिवः) मेवों के स्वामी, सूर्यवत् नाना बलों के स्वामिन् ! हम (निष्टया इव मा भूम) नीचों, हीन, निर्वासित पुरुषों के समान न हों । (त्वत्) तुझ से पृथक् (अरणाः इव) रमण, या जीवन के आनन्द से रहित भी (मा भूम) न हों । (प्र-जहितानि वनानि न) परित्यक्त, बिना देख भाल के वनों या उपवनों के समान असुन्दर, कण्टकाकीर्ण भी (मा भूम) न हों । प्रत्युत (दुरोपासः) अन्यों से दग्ध न हो सकने योग्य, वा उत्तम दुर्ग अर्थात् गृहों में रहने वाले होकर (अमन्महि) तेरा मनन और मान आदर करें ।

अमन्महीदनाशवोऽनुग्रासश्च वृत्रहन् ।

सकृत्सु ते महता शूर राधसानु स्तोमं मुदीमहि ॥ १४ ॥

भा०—हे (वृत्रहन्) विघ्नों, शत्रुओं के नाशक प्रभो ! राजन् ! हम सदा (अनाशवः) अति शीघ्रता न करते हुए, धैर्यवान् और (अनु-ग्रासः च) अतीक्ष्ण स्वभाव के, सौम्य होकर (ते) तेरा (स्तोमं) स्तुत्य रूप और गुणों का (अमन्महि) मनन करें और तेरी स्तुति करें । हे (शूर) शूरवीर ! शत्रुनाशक ! (ते) तेरे (महता राधसा) बड़े भारी ऐश्वर्य से (सकृत्) एक बार तो (स्तोमं अनु मुदीमहि) हम तेरी स्तुति के अनुकूल रहकर खूब अवश्य प्रसन्न हों ।

यदि स्तोमं मम श्रवदस्माकमिन्द्रमिन्दवः ।

तिरः पवित्रं ससृवांस आशवो मन्दन्तु तुग्रयावृधः ॥१५॥१२॥

भा०—हे राजन् ! स्वामिन् ! (यदि) यदि तू (मम स्तोमं) मेरे स्तुतियुक्त वचन को (श्रवत्) श्रवण करे तो (अस्माकम्) हम प्रजाजनों के बीच (इन्दवः) ऐश्वर्यवान् जन और (तिरः ससृवांसः) तिरछे या दूर तक जाने वाले (आशवः) वेग से जाने वाले (तुग्रयावृधः) शत्रुओं

के नाशक सैन्य बलों के हितों को बढ़ाने वाले या सैन्यों से बढ़ने वाले वीर पुरुष भी ( पवित्रं ) पवित्राचार वाले, ( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान् तुझ प्रभुको ( मन्दन्तु ) प्रसन्न करें । इति द्वादशो वर्गः ॥

आ त्वं च सधस्तुतिं वावातुः सख्युरा गहि ।

उपस्तुतिर्मघोनां प्र त्वावत्वर्धा ते वशिम सुष्टुतिम् ॥ १६ ॥

भा०—( अध ) आज, तू ( वावातुः ) सेवा करने वाले, भक्त और ( सख्युः ) मित्र को ( सधस्तुतिम् ) एक साथ की स्तुति को ( आ गहि ) प्राप्त हो । ( मघोनां ) ऐश्वर्यवानों की ( उपस्तुतिः ) उपमा द्वारा की स्तुति भी ( त्वा प्र अवतु ) तुझे प्राप्त हो । ( अध ) और मैं ( ते ) तेरी ( सुस्तुतिम् ) सब से उत्तम स्तुति करना ( वशिम ) चाहता हूँ । परमेश्वर की स्तुति राजा, ऐश्वर्यवान्, स्वामी आदिरूप से या उपगन्ता, मित्र रूप से भी की जाती है ।

सोता हि सोममद्रिभिरेमेनमप्सु धावत ।

गव्या वस्त्रेव वासयन्त इन्नरो निर्धुक्षन्वक्षणाभ्यः ॥ १७ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ( अद्रिभिः ) जिस प्रकार मेघों से जल बरसता और 'सोम' ओषधि वर्ग उत्पन्न होता है उसी प्रकार ( अद्रिभिः ) शस्त्र बलों से (सोमं सोत) ऐश्वर्य को उत्पन्न करो । (अद्रिभिः सोमं सोत) मेघवत् कलशों से अभिपेक योग्य का अभिपेक करो । ( ईम् एनम् ) उस ऐश्वर्य को ( अप्सु ) प्रजाओं में ( आ धावत ) प्राप्त कराओ । हे ( नरः ) वीर नायक जनो ! जिस प्रकार वायुगण आकाश में मेघों को तम्बुओं के कपड़ों की तरह फैला देते हैं और जल को ( वक्षणाभ्यः ) नदियों की वृद्धि के लिये मेघों को दोह देते हैं उसी प्रकार तुम लोग भी वस्त्रों के समान ( गव्या वासयन्त ) गोधनों को बसाओ, गौओं के रेवड़ भूमि पर जगह २ जाजमों के समान बिछे हों । उन ( वक्षणाभ्यः ) दूध बहन करने वाली गौओं से ( निः धुक्षन् ) खूब दूध दोहा करो ।

अध ज्मो अधं वा दिवो वृहतो रोचनादधि ।

अया वर्धस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पृण ॥ १८ ॥

भा०—हे ( सु-क्रतो ) उत्तम ज्ञान और कर्म सम्पादन करने वाले !  
तू ( अधज्मः ) पृथिवी से ( अध वा-दिवः ) अन्तरिक्ष से वा ( वृहतः  
रोचनात् ) बड़े भारी चमकते सूर्य से ( जाता ) उत्पन्न हुए प्राणियों को  
( आ पृण ) पालन कर और ( अया मम तन्वा गिरा ) इस मेरी विस्तृत  
वाणी से ( वर्धस्व ) बढ़ ।

इन्द्राय सु मदिन्तमं सोमं सोता वरेण्यम् ।

शक्र एषां पीपयद्विश्वया धिया हिन्वानं न वाजयुम् ॥ १९ ॥

भा०—हे विद्वान् लोगो ! आप लोग ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान्, शत्रु-  
हन्ता पुरुष के लिये ( मदिन्तमं ) अति आनन्द और तृप्तिकारक (सोमं)  
ओषधि रसादि के समान ( वरेण्यं ) अति श्रेष्ठ धनैश्वर्य को ( सोत ) सवन  
करो, उत्पन्न करो । ( शक्रः ) शक्तिशाली पुरुष ही ( एषां ) इस को  
( हिन्वानं वाजयुं न ) वृद्धिकारक ऐश्वर्य के स्वामी, ऐश्वर्य के इच्छुक प्रजा-  
जन के समान ही ( पीपयत् ) बढ़ावे । राजा धन की वृद्धि के लिये प्रजा  
का नाश न करे, प्रत्युत प्रजावत् ही धन की वृद्धि करे ।

मा त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं गिरा ।

भूर्णिं मृगं न सर्वनेषु चुक्रुधं क ईशानं न याचिपत् ॥२०॥१३॥

भा०—( सोमस्य ) ऐश्वर्य के निमित्त (गल्दया) स्तुति तथा (गिरा)  
सामान्य वाणी से भी ( सदा ) सदा ( अहं याचन् ) मैं याचना करता  
हुआ ( भूर्णिं ) प्रजापालक ( सर्वनेषु ) शासन के कार्यों में ( मृगं न )  
सिंह के समान ( त्वा ) तुझ पराक्रमी को ( मा चुक्रुधं ) कभी क्रोधित न  
करूं । ( ईशानं ) स्वामी से भला ( कः न याचिपत् ) कौन याचना नहीं  
किया करता । इति त्रयोदशो वर्गः ॥

मदेनेपितं मदमुग्रमुग्रेण शवसा ।

विश्वेषां तरुतारं मदच्युतं मदे हि ष्मा ददाति नः ॥ २१ ॥

भा०—वह राजा, वा प्रभु ( उग्रेण मदेन ) अति अधिक आनन्द से और ( उग्रेण शवसा ) उग्र बल से, ( इपितं ) अभीष्ट (मदम्) आनन्द (नः ददाति) हमें प्रदान करता है । और (मदे) उस आनन्द में ही (विश्वेषाम्) सब को ( तरुतारं ) पार उतारने वाला और ( मदच्युतं ) अति हर्षजनक ज्ञान भी ( नः ददाति ) हमें देता है ।

शेवारे वार्या पुरु देवो मर्ताय दाशुपे ।

स सुन्वते च स्तुवते च रासते विश्वगूर्तो अरिष्टुतः ॥ २२ ॥

भा०—( दाशुपे मर्ताय ) कर दानादि देने वाले मनुष्य के हितार्थ ( देवः ) दानशील राजा ( शेवारे ) सुख प्राप्त करने के निमित्त (पुरुवार्या रासते) बहुत २ उत्तम धन देता है । ( सः ) वह ( विश्वगूर्तः ) सबसे प्रशंसित, और ( अरि-स्तुतः ) शत्रुओं से भी प्रशंसित होकर ( सुन्वते स्तुवते च ) स्तुति करने और ऐश्वर्य उत्पन्न करने वा अभिषेक करने वाले प्रजाजन के लिये भी ( रासते ) ऐश्वर्य प्रदान करता है ।

एन्द्र याहि मत्स्व चित्रेण देव राधसा ।

सरो न प्रास्युदरं सपीतिभिरा सोमेभिरुरु स्फुरम् ॥ २३ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! हे ( देव ) तेजस्विन् विजिगीषो ! तू (आ याहि) आ । और ( चित्रेण राधसा ) आश्वर्यजनक नाना प्रकार के धन से ( मत्स्व ) हर्षित हो । तू ( स-पीतिभिः ) एक साथ मिल कर पान, उपभोग और पालन क्रियाओं से ( सरः न ) सरोवर के समान ( सोमेभिः ) ऐश्वर्यों से ( स्थिरम् ) प्रतिष्ठित ( उरु ) बहुत बड़े ( उदरम् ) पेट के समान राष्ट्र के कोश को ( प्राप्ति ) पूर्ण कर ।

आ त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये ।

ब्रह्मयज्ञो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥ २४ ॥

भा०—( हिरण्यये रथे ) सुवर्ण या लोह जटित रथ में जुते ( केशिनः हरयः ) अयाल वाले अश्व जिस प्रकार रथस्वामी को ले जाते हैं उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! सेनापते ! ( सहस्रं ) हजार २ और ( शतम् ) सौ सौ ( ब्रह्मयुजः ) अन्न, वेतनादि पर नियुक्त ( केशिनः ) उत्तम केशों से युक्त, तेजस्वी ( हरयः ) मनुष्य ( युक्ताः ) सावधान चित्त होकर ( सोम-पीतये ) ऐश्वर्यमय राज्य के पालन करने के लिये ( हिरण्यये रथे ) हित और सुन्दर रमण योग्य इस राष्ट्र में ( त्वा ) तुझे ( भा वहन्तु ) आदर पूर्वक अपने ऊपर धारण करें ।

आ त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेष्या ।

शितिपृष्ठा वहतां मध्वो अन्धसो विवक्षणस्य पीतये ॥२५॥१४॥

भा०—( रथे हरी ) रथ में दों अश्वों के समान ( हिरण्यये ) ऐश्वर्य युक्त ( रथे ) रमण योग्य, राष्ट्र में ( मयूरशेष्या ) मयूर के चिन्ह के समान शिर पर मान आदर सूचक कलगी धारण करने वाले, ( हरी ) उत्तम दो पुरुष ( शिति-पृष्ठा ) श्वेत शुद्ध रूप वाले, निर्दोष होकर ( त्वा ) तुझ को ( मध्वः ) मधुर ( अन्धसः ) अन्न के समान ( विवक्षणस्य ) विविध प्रकार से धारण करने योग्य राष्ट्र में स्वामी के महान् कार्य के ( पीतये ) प्राप्ति, उपभोग और पालन करने के लिये ( वहताम् ) तुम को अपने ऊपर धारण करें । ( २ ) अध्यात्म में हिरण्यय रथ देह, इन्द्र, आत्मा अश्व प्राण-अपान हैं । विविध प्रकार से वचन या उपदेश का विषय मधुर अन्न, मधु, विद्या, ब्रह्म ज्ञान है । वे उसको प्राप्त करावें । इति चतुर्दशो वर्गः ॥

पित्रा त्वस्य गिर्वणः सुतस्य पूर्वपा इव ।

परिष्कृतस्य रसिन इयमासुतिश्चारुर्मदाय पत्यते ॥ २६ ॥

भा०—हे ( गिर्वणः ) वाणियों के देने हारे आचार्य ! हे वाणियों द्वारा स्तुत्य ! राजन् ! तू ( पूर्व-पा-इव ) पूर्व काल के अनुभवी पालक के

समान, ( अस्य सुतस्य ) इस अधीन शिष्य वा प्रजाजन का पुत्र वा ऐश्वर्य के समान (पिव) पालन कर । (परिष्कृतस्य) अच्छी प्रकार बनाये (रसिनः) रसयुक्त अन्न का ( आसुतिः ) बना पदार्थ जिस प्रकार हर्षजनक होता है उसी प्रकार ( परिष्कृतस्य ) सजे सजाये, विद्यादि गुणों से अलङ्कृत (रसिनः) बलवान् पुरुष की (इयम्) यह (आ-सुतिः) अभिषेक क्रिया भी, (चारुः) सबको अच्छी प्रकार लगने वाली होकर (मदाय) सब के आनन्द के लिये (पत्यते) पालकवत् आचरण करती है । उसको सब का पति, स्वामी बना देती है ॥

य एको अस्ति दंसना म्हाँ उग्रो अभि व्रतैः ।

गमत्स शिप्री न स योपदा गमद्भवं न परि वर्जति ॥ २७ ॥

भा०—( यः ) जो ( एकः ) एक, अकेला ही, अन्य सहायकों की अपेक्षा किये विना ही ( दंसना ) कर्म सामर्थ्य से ( महान् अस्ति ) महान् है और जो ( व्रतैः महान् ) व्रतों, कर्त्तव्य पालनों द्वारा ( उग्रः ) उग्र है ( सः ) वह ( शिप्री ) उत्तम शिरोमुकुट वाला, उत्तम मुख नासिका वाला, सुमुख पुरुष ( अभिगमत् ) हमें प्राप्त हो । ( न सः योपत् ) वह हम से पृथक् न हो । वह ( हवं गमत् ) स्तुति को प्राप्त हो । वह ( न परि वर्जति ) हमारा त्याग न करे । ( २ ) परमेश्वर सर्वप्रभु कर्मों से महान्, ज्ञानवान्, साक्षात् स्तुति के योग्य हो । वह हमारे सदा साथ रहे ।

त्वं पुरं चरिष्णवं वधैः शुष्णस्य सं पिणक् ।

त्वं भा अन्तु चरो अघं द्विता यदिन्द्र हव्यो भुवः ॥ २८ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! राजन् ! ( शुष्णस्य ) प्रजा के शोषण करने वाले शत्रु या दुष्ट पुरुष के ( चरिष्णवं ) अस्थिर या प्रजा के ऐश्वर्य के भोक्ता ( पुरं ) नगरवत् अड़े या छावनी को ( वधैः संपिणक् ) दण्डों और शस्त्रों से पीस डाल, चूर्ण २ कर नष्ट कर दे । और (अघ यत्) जब तू

( हव्यः भुवः ) स्तुतियों को प्राप्त करे तो ( अध द्विता अनु चरः ) अनन्तर दोनों प्रकार की कान्तियों या तेजों को प्राप्त कर अर्थात् शत्रुदमन और प्रजापालन दोनों कार्यों में तुझे कीर्तियां प्राप्त हों । तू सूर्यवत् प्रखर, प्रचण्ड और चन्द्रवत् प्रजाजन-मनोरंजक कान्तियों को धारण कर ।

( २ ) प्रभु परमेश्वर ( वधैः शुष्णस्य ) दण्डों से दुःखित जीव इस भोग के साधन जंगम देह को नाश करे । स्तुत्य प्रभु कान्तियों और ज्ञानों को प्रकट करे ।  
मम त्वा सूर उदिते मम मध्यन्दिने दिवः ।

मम प्रपित्वे अपिशर्वरे वसुवा स्तोमासो अवृत्सत ॥ २९ ॥

भा०—हे ( वसो ) सबको बसाने वाला राजन् ! हे प्रभो ! ( सूर उदिते ) सूर्य के उदय काल में, ( दिवः मध्यन्दिने ) दिन के मध्याह्न काल में और ( प्रपित्वे ) दिन के समाप्ति काल में और ( अपिशर्वरे ) रात्रि के अन्धकारमय काल में ( मम ) मेरे ( स्तोमासः ) नाना स्तुति-वचन ( त्वा अवृत्सत ) तुझे ही लक्ष्य करके निकलें ।

स्तुहि स्तुहीदिते वा ते मंहिष्ठासो मघोनाम् ।

निन्दिताश्वः प्रपथी परमज्या मघस्य मेध्यातिथे ॥ ३० ॥ १५ ॥

भा०—( घ ) निश्चय से हे ( मेध्यातिथे ) सत्संग करने योग्य, पूज्य अतिथे ! विद्वन् ! ( मघोनां ) पूज्य ज्ञानादि के धनी गुरु जनों का ( स्तुहि स्तुहि इत् ) तू अवश्य वार २ स्तुति किया ही कर, क्योंकि ( ते ) वे पूज्य जन ( मघस्य ) उत्तम धन के, ज्ञानादि के ( मंहिष्ठासः ) उत्तम दाता हैं । और ( निन्दिताश्वः ) निन्दित अश्वों वाला, दुष्टेन्द्रिय, अजितेन्द्रिय पुरुष ( प्रपथी ) सन्मार्ग का उलांघने वाला और ( परमज्या ) परम श्रेष्ठ पुरुषों के मान, आयु की हानि करने वाला होता है । इसलिये मनुष्य को चाहिये कि वह सदा ही परमेश्वर वा गुरुजनों की स्तुति करे जिससे विनयशील और जितेन्द्रिय हो । अन्यथा अविनीत जन अजितेन्द्रिय, कुमार्गी, गुरुद्रोही होजाता है । इति पञ्चदशो वर्गः ॥

आ यदश्वान्वनन्वतः श्रद्धयाहं रथे रुहम् ।

उत वामस्य वसुनश्चिकेतति यो अस्ति याद्वः पशुः ॥ ३१ ॥

भा०—( यत् ) जब मैं उत्तम सारथी या रथारोही के समान (वनन्-  
वतः ) विषयों को संभोग करने वाले ( अश्वान् ) इन्द्रियरूप विषय, भोक्ता  
'अश्वों' को ( आ ) सब ओर से रोक लेता हूँ तब मैं ( श्रद्धया ) सत्य  
धारण के बल से ( रथे ) इस देह रूप रथ पर भी ( रुहम् ) चढ़ सकता  
हूँ अथवा ( श्रद्धया ) सत्यज्ञान के बलपर मैं ( रथे ) रसस्वरूप, परम  
रमणीय प्रभु के आनन्द में भी ( रुहम् ) प्राप्त होऊँ । ( याद्वः पशुः )  
मनुष्यों के हितकारी पशु के समान ही (यः) जो मनुष्य (याद्वः) यत्नवान्  
मनुष्यों के बीच कुशल, ( पशुः ) सम्यक् तत्वदर्शी है वही ( वामस्य )  
सर्वोत्तम, सुन्दर ( वसुनः ) परमैश्वर्य का ( चिकेतति ) जानने हारा है ।  
य ऋज्रा मह्यं मामहे सह त्वचा हिरण्यया ।

एष विश्वान्यभ्यस्तु सौभगासङ्गस्य स्वनद्रथः ॥ ३२ ॥

भा०—( यः ) जो आत्मा ( हिरण्यया त्वचा ) सुवर्णादि की बनी  
सुनहरी पोषाक के समान अति उज्ज्वल प्रकाशमय, ज्योतिर्मय रूप से  
( मह्यं ) मुझे ( ऋज्रा ) सरल धार्मिक व्यवहारों, ज्ञानों और ऐश्वर्यों को  
( मामहे ) प्रदान करता है ( एषः ) वह ( आसङ्गस्य ) सङ्ग रहित आत्मा  
वा सबको सत्कार्यों में लगाने हारे का ( स्वनद्रथः ) उत्तम प्राण धारण  
करने वाला रमणसाधन रथ, देह ( विश्वानि सौभगानि ) समस्त  
सुखैश्वर्यों को ( अभि-अस्तु ) साक्षात् करे । 'आसङ्गः'—सङ्गरहितः ।  
असङ्ग एव आसङ्गः ।

अध प्लायो गिरति दासदन्यानासङ्गो अग्ने दशभिः सहस्रैः ।

अधोक्षणो दश मह्यं रुशन्तो नळा इव सरसो निरतिष्ठन् ॥३३॥

भा०—( अध ) और जिस प्रकार ( दशभिः सहस्रैः ) अन्यान् अति-



दासत् ) विजयी दसों हज़ारों सेना भटों से शत्रुओं को पराजय कर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार (ह्यायोगिः = प्रायोगिः) प्रयोग कुशल वा प्रयस् = उत्तम उद्यम से और ज्ञानपूर्वक जाने हारा (आसङ्गः) उत्तम सत्संगी, वा असंग पुरुष ( दशभिः ) दश ( सहस्रैः ) बलवान् इन्द्रियों के साथ (अति दासत् ) सब को अपने वश कर लेता है । हे ( अग्ने ) सर्व प्रकाशक प्रभो ! ( अध ) तव ( दश उक्षणः ) दसों देह के उठाने वाले प्राण गण ( मह्यं ) मेरी सहायता के लिये ( सरसः नडाः इव ) तालाब के तट पर खड़े नदों के समान ( नडाः = नराः ) वीर पुरुषों के समान ही ( निर् अतिष्ठन् ) निकल खड़े होते हैं । वे मेरे सदा सहायक होते हैं ।

अन्वस्य स्थूरं ददृशे पुरस्तादन्स्थ ऊरुरवरम्बमाणः ।

शश्वती नार्यभिचक्ष्याह सुभद्रमर्य भोजनं विभर्षि ॥३४॥१६॥

भा०—( अस्य ) इस आत्मा का ( स्थूरम् ) स्थूल देह भी (अनु) इसके अनुरूप ही (पुरस्तात्) आगे (ददृशे) दीखता है । वह स्वयं (अनस्थः) अस्थि आदि देहावयवों से भी रहित, ( ऊरुः ) जंघा के समान शरीर का आश्रय होकर भी ( अवरम्बमाणः ) देह का आश्रय ले रहा होता है । ( शश्वती ) सदा तनी ( नारी ) नर, आत्मा की सहयोगिनी बुद्धि (अभिचक्ष्य) आत्मा का साक्षात् करके (आह) कहती है हे ( अर्य ) स्वामिन् ! तू ही ( सु-भद्रम् ) शुभ, उत्तम सुखदायी (भोजनं) भोग के साधन देह को ( विभर्षि ) धारण करता और पालता पोपता है । इति षोडशो वर्गः ॥

[ २ ]

मेध्यातिथिः काण्वः प्रियमेधश्चांगिरसः । ४१, ४२ मेधातिथिर्ऋषिः ॥ देवताः—

१—४० इन्द्रः । ४१, ४२ विभिन्दोर्दानस्तुतिः ॥ छन्दः—१—३, ५, ६, ६, ११, १२, १४, १६—१८, २२, २७, २९, ३१, ३३, ३५, ३७, ३८, ३९ आर्षी गायत्री । ४, १३, १५, १६—२१, २३, २४, २५, २६,

३०, ३२, ३६, ४२ आषीं निचृद्गायत्री । ७, ८, १०, ३४, ४० आषीं  
विराड् गायत्री । ४१ पादनिचृद् गायत्री । २८ आर्ची स्वराडनुष्टुप् ॥

चत्वारिंशदृचं सूक्तम् ॥

इदं वसो सुतमन्धः पित्रा सुपूर्णमुदरम् ।

अनाभयिन्नरिमा ते ॥ १ ॥

भा०—हे ( वसो ) प्रजा को बसाने वाले राजन् ! वा प्रत्येक में  
बसाने वाले आत्मन् ! तू ( अन्धः ) अन्न के समान ( सु-पूर्णम्-उदरम् )  
अच्छी प्रकार पेट भर कर ( सुतम् पितृ ) अन्न जलवत् उत्पन्न ऐश्वर्य का  
भोग कर । हे ( वसो ) गृहस्थ पिता तू ( सुतम् ) पुत्र को ( सुपूर्णम्  
उदरम् अन्धः पितृ ) पेट भरकर अन्न खिलाकर पाल । हे ( अनाभयिन् )  
न भय करनेहारे ! ( ते ) तुझे हम वह ऐश्वर्य ( ररिम ) प्रदान करें ।

नृभिर्धूतः सुतो अश्वनैरव्यो वारैः परिपूतः ।

अश्वो न नित्तो नदीपु ॥ २ ॥

भा०—जिस प्रकार ( अश्वनैः सुतः ) प्रस्तरों द्वारा अभिषुत सोम-  
रस ( नृभिः धूतः ) ऋत्विजों द्वारा कंषित या हिला २ कर ( अव्यः वारैः  
परिपूतः ) भेड़ के बने वालों से छनता है उसी प्रकार ( अश्वनैः ) शस्त्र  
वलों से ( सुतः ) अभिषिक्त राजा ( नृभिः धूतः ) नायक पुरुषों द्वारा  
शिक्षित और ( अव्यः ) रक्षा करने योग्य राष्ट्र के ( वारैः ) उत्तम ऐश्वर्यों  
वा शत्रुवारक सैन्यों से ( परिपूतः ) पवित्र, परिगत राजा ( नदीपु नित्तः  
अश्वः ) नदियों में नहाये अश्व के समान ( नदीपु ) समृद्ध प्रजाओं के  
बीच ( नित्तः ) अभिषिक्त हो ।

तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुर्मकर्म श्रीणन्तः ।

इन्द्रं त्वा स्मिन्त्सधमादे ॥ ३ ॥

भा०—( यथा ) जिस प्रकार ( यवं ) जौ के बने भोजन को ( गोभिः  
श्रीणन्तः ) गाय के दूधों से मिलाते हुए या उसे दूधों के साथ पकाते हुए

भोजन को ( स्वादुम् अकर्म ) स्वादु बना लेते हैं ( ते ) तेरे ( यवं ) शत्रु को नाश करने वाले सैन्य बल को ( गोभिः ) भूमियों से उत्पन्न अर्थों द्वारा ( श्रीणन्तः ) परिपक्व, इढ़ करते हुए राष्ट्र के बल को ( स्वादुम् ) सुख से भोग करने योग्य ( अकर्म ) करें । उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) सूर्य-वत् तेजस्विन् ! ऐश्वर्यप्रद ! ( अस्मिन् सधमादे ) इस एक साथ हर्षित होने योग्य अवसर में ( त्वा ) तुझ को हम ( गोभिः श्रीणन्तः ) उत्तम वाणियों से संगत करते हुए ( स्वादुम् = स्व-आदुम् ) निज ऐश्वर्य का भोक्ता ( अकर्म ) बनाते हैं ।

इन्द्र इत्सोमपा एक इन्द्रः सुतपा विश्वायुः ।

अन्तर्देवान्मर्त्याश्च ॥ ४ ॥

भा०—( एकः इन्द्रः इत् ) एक, अद्वितीय, ऐश्वर्यवान् इन्द्र ही (सोम-पाः) ओषधि वर्ग के पालक मेव या सूर्य के समान समस्त ऐश्वर्य का पालक है । वही ( एकः इन्द्रः ) एक, अकेला, अन्यों की सहायता की अपेक्षा न करता हुआ 'इन्द्र' ऐश्वर्यवान् राजा या प्रभु ( सुत-पाः ) उत्पन्न ऐश्वर्य का भोक्ता, ( सु-तपाः ) शत्रु को अच्छी प्रकार पीड़ित करने वाला, तेजस्वी है । वह ( विश्वायुः ) समस्त प्रजा का जीवन स्वरूप, समस्त मनुष्यों का स्वामी, सब को प्राप्त है । वही ( देवान् मर्त्यान् च अन्तः ) सब दिव्य पदार्थों, विद्वानों और मरणधर्मा प्राणियों के भीतर रह कर उनका (सोम-पाः) शिष्यवत् पालक, ऐश्वर्यवान् और उनका पुत्रवत् पालक है ।

न यं शुक्रो न दुराशीर्न तृप्रा उरुव्यचसम् ।

अपस्पृगवते सुहार्दम् ॥ ५ ॥ १७ ॥

भा०—( उरु-व्यचसं ) महान् राष्ट्र में विशेष प्रसिद्ध ( सु-हार्दम् ) उत्तम हृदय वाले ( यं ) जिसको ( न शुक्रः ) न देह में बलवीर्यवत् कान्ति तेजोवर्धक बल और ( न दुराशीः ) न दुर्भावना, और ( न तृप्राः ) न

वृत्त, अबि धनी जन ही ( अप-स्पृण्वते ) द्वेष कर सकते हैं । वह बल का स्वामी, सब का प्रिय और मित्र है । इति सप्तदशो वर्गः ॥

गोभिर्यदीमन्ये अस्मन्मृगं न त्रा मृगयन्ते ।

अभित्सरन्ति धेनुभिः ॥ ६ ॥

भा०—(त्राः न मृगं) घेरने वाले जन जैसे मृग या सिंह को (गोभिः मृगयन्ते) हाकों से हँदते हैं उसी प्रकार (यत्) जिस को (अस्मत् अन्ये) हम से दूसरे भी (गोभिः) स्तुति वाणियों से (मृगयन्ते) खोजते फिरते हैं वे उसको (धेनुभिः) वाणियों, स्तुतियों द्वारा ही (अभि त्सरन्ति) प्राप्त होते हैं ।

त्रय इन्द्रस्य सोमाः सुतासः सन्तु देवस्य ।

स्वे क्षये सुतपाव्नः ॥ ७ ॥

भा०—जिस प्रकार (सुतपाव्नः) यज्ञ में सोमपायी इन्द्र के लिये (सोमाः त्रयः सुताः) सोम तीनवार सवन किया जाता है उसी प्रकार (स्वे क्षये) अपने निवास योग्य राष्ट्र में (सुतपाव्नः) गृह में सुतों के समान राष्ट्र में प्रजा को पालन करने वाले (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान् शत्रुनाशक, (देवस्य) दानशील राजा के लिये (त्रयः सोमाः) तीनों प्रकार के ऐश्वर्य जन, धन, मनन बल, (सुतासः) अच्छी प्रकार तैयार (सन्तु) होने चाहियें ।

त्रयः कोशासश्चोतन्ति तिस्रश्चम्बुः सुपूर्णाः ।

समाने अधि भार्मन् ॥ ८ ॥

भा०—(समाने) एक समान, (भार्मन् अधि) भरण पोषण करने योग्य राष्ट्र वा युद्ध के अध्यक्ष पद पर स्थित राजा के (त्रयः कोशासः) तीनों कोश और (तिस्रः) तीनों प्रकार की (सु-पूर्णाः) खूब पूर्ण, सुख-पूर्वक समृद्ध (चम्बुः) राष्ट्र की भोक्ता प्रजाएं वा सेनाएं भी (श्चोतन्ति) उसे ऐश्वर्य प्रदान करती हैं । तीन कोश—जनकोश राष्ट्र, धनकोश खज़ाना,

और मन्त्रकोश राजविद्वत्सभा वा सचिव परिपत् और तीन चमू, प्रजाएं, और शासक वर्ग । ( २ ) भरणीय, पोष्य देह में तीन कोश विज्ञानमय, मनोमय, आनन्दमय, तीन चमू, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, सभी आनन्द, ज्ञान, कर्म और फल प्रदान करती हैं ।

शुचि॑रसि॒ पुरु॑निः॒घ्नाः क्षी॑रैर्मध्य॒त आशी॑र्तः ।

द॒धना॑ मन्दि॒ष्टः शूर॑स्य ॥ ९ ॥

भा०—हे राजन् ! तू ( पुरु-निः-घ्नाः ) बहुतों में स्थिर होकर, ( क्षीरैः ) शुद्ध जलों से ( मध्यतः ) सब के बीच ( आशीर्तः ) आसेवित होकर और ( दध्ना ) राष्ट्र को धारण करने वाले बल से ( शूरस्य ) शूरवीर पुरुष को भी ( मन्दिष्टः ) आनन्दित, प्रसन्न करने वाला होकर ( शुचिः असि ) शुद्ध, पवित्रहृदय, धार्मिक हो । अभिपेकों का अभिप्राय राजा को राग-द्वेष, पक्षपात, लोभ, क्रोधादि से पवित्र करना ही है ।

इ॒मे त॑ इन्द्र॒ सोमा॑स्तीव्रा॒ अस्मे॑ सु॒तासः॑ ।

शु॒क्रा आशि॑रं याच॒न्ते ॥ १० ॥ १८ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( इमे ) ये ( सोमाः ) सोम्य प्रजा-जन और ( अस्मे सुतासः ) हमारे पुत्रादि ( शुक्राः ) आशु-कार्यकारी, शुद्ध तेजस्वी, ( तीव्राः ) वेगवान् होकर ( ते ) तेरा ( आशिरं याचन्ते ) आश्रय मांगते हैं । वा हमारे उत्पन्न ऐश्वर्य के रक्षक भी आश्रय चाहते हैं । ( २ ) ये ( सोमाः ) जीव पुत्रवत् पालनीय, शुद्ध पवित्र होकर प्रभु का आश्रय मांगते हैं । इत्यष्टादशो वर्गः ॥

ताँ आशि॑रं पुरो॒ळाश॑मिन्द्रे॒मं सोमं॑ श्रीणीहि ।

रेव॑न्तं हि त्वा॑ शृणो॒मि ॥ ११ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! ( हि ) क्योंकि मैं ( त्वा ) तुझ को ( रेवन्तं ) ऐश्वर्यवान् धन का स्वामी ( शृणोमि ) श्रवण करता हूँ । जिस प्रकार ( पुरोडाशम् ) रसादि से मिश्रित अन्न को अग्नि तपाता

और जिस प्रकार ओषधि अन्नादि का सूर्य परिपाक करता है उसी प्रकार तू ( तान् ) उन पूर्वोक्त शुद्धाचारवान् पुरुषों को और ( आशिरम् ) आश्रय करने और देने योग्य ( सोमं ) ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र तथा ( इदं ) उस ( पुरो-डाशम् ) आगे आदर पूर्वक देने योग्य की ( श्रीणिहि ) सेवा कर । और उनको तप द्वारा दृढ़ बना ।

हृत्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम् ।

ऊर्ध्वं न नृणां जर्न्ते ॥ १२ ॥

भा०—( दुर्मदासः न ) दुष्ट मद से युक्त पुरुष जिस प्रकार ( हृत्सु पीतासः ) हृदयों तक पीकर, वेसुध होकर ( युध्यन्ते ) परस्पर लड़ते हैं इसी प्रकार ( सुरायाम् ) सुख देने वाली, राज्यलक्ष्मीवत् सुख से रमण करने योग्य आनन्द की दशा में भी ( हृत्सु पीतासः ) हृदयों में आनन्द रस का पान, अनुभव कर लेने वाले विद्वान् जन ( युध्यन्ते ) अपने अन्तःशत्रु, काम क्रोधादि से युद्ध करते हैं वा शत्रुओं पर प्रहार करते हैं और ( नृणाः ) वेद वाणियों को त्याग न करने वाले विद्वान् वा ( नृणाः ) स्त्री आदि के संग से रहित ब्रह्मचारी वा मूकभाव से मन ही मन मुग्ध हो ( ऊर्ध्वः न ) मातृस्तनवत् वा मेघवत् सुखवर्षी उस सर्वोपरि प्रभु की ( जर्न्ते ) स्तुति किया करते हैं ।

रेवाँ इद्रेवतः स्तोता स्यात्त्वावतो मघोनः ।

प्रेदु हरिवः श्रुतस्य ॥ १३ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! ( त्वावतः ) तेरे जैसे ( मघोनः ) उत्तम ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्यादि के स्वामी, ( रेवतः ) धन के स्वामी के गुणों की ( स्तोता ) स्तुति करने वाला पुरुष भी ( रेवान् इत् स्यात् ) धनाढ्य ही हो जाता है ।

उक्थं च न शस्यमानमगोररिरा चिकेत ।

न गात्रं गीयमानं ॥ १४ ॥

भा०—( अरिः ) व्यापक, स्वामी प्रभु ( अगोः ) वाणीरहित, मूक

जन के भी ( शस्यमानम् उक्थं चन ) न कहे गये स्तुति के वचन को ( आचिकेत ) भली प्रकार जान लेता है उसी प्रकार ( न गायमानं गायत्रं च ) न गाये गये गायत्र स्तोम, गान योग्य गीत को भी जानता है । भगवान् मूक की भी कही या अनुक्त वाणी को सुनता है ।

मा न इन्द्र पीयत्नवे मा शर्धते परा दाः ।

शिक्षा शचीवः शचीभिः ॥ १५ ॥ १९ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! स्वामिन् ! तू ( नः ) हमें ( पीयत्नवे ) हिंसक, क्रूर पुरुष के लाभ के लिये ( मा परा दाः ) मत त्याग और ( शर्धते मा परा दाः ) हमें अपमानित करने वाले के लिये मत त्याग । हे ( शचीवः ) वाणी और शक्ति के स्वामिन् ! तू ( नः ) हमें ( शचीभिः ) शक्तियों और वाणियों से हिंसक और अपमानजनक पुरुष के दण्ड करने के लिये ( शिक्ष ) शिक्षा या बल दे । इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

वयसु त्वा तदिदृथा इन्द्र त्वायन्तः सखायः ।

कर्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥ १६ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य देने वाले स्वामिन् ! ( वयम् कणाः ) हम विद्वान् लोग ( तदिदृथाः ) उस, इस पारमार्थिक, ऐहिक नाना प्रयोजनों को चाहने वाले, ( सखायः ) तेरे मित्र होकर ( त्वायन्तः ) तुझे सदा चाहते हुए वा ( त्वा यन्तः ) तुझे प्राप्त होकर ( उक्थेभिः ) उत्तम वचनों से ( जरन्ते ) तेरी स्तुति करते हैं ।

न घेमन्यदा पपन वज्रिश्चपसो नविष्टौ ।

तवेदु स्तोमं चिकेत ॥ १७ ॥

भा०—हे ( वज्रिन् ) शक्तिशालिन् ! ( अपसः ) कर्म करने वाले तेरी ( नविष्टौ ) उत्तम से उत्तम पूजा के अवसर पर मैं ( अन्यत् न घ अपन ) और कुछ नहीं स्तुति करता, मैं ( तव इत् उ ) तेरी ही ( स्तोमं चिकेत ) स्तुति करना जानूँ ।

इच्छन्ति देवा सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति ।

यन्ति प्रमादमर्तन्द्राः ॥ १८ ॥

भा०—( देवाः ) विद्वान्, शुभ कामना वाले जन (सुन्वन्तं) यज्ञ-कर्म और ईश्वर स्तुति करने वाले तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले को (इच्छन्ति) चाहते हैं। वे (स्वप्नाय) सोने वाले को (न स्पृहयन्ति) प्रेम नहीं करते, वा वे (स्वप्नाय न स्पृहयन्ति) आलस्य से प्रेम नहीं करते। (अतन्द्राः) आलस्यरहित पुरुष भी (प्रमादम् यन्ति) प्रमाद को प्राप्त हो जाते हैं इसलिये आलस्य से प्रेम न करो। अथवा—(अतन्द्राः) तन्द्रा, आलस्य से रहित लोग ही (प्रमादम् यन्ति) उत्तम कोटि का आनन्द प्राप्त करते हैं।

ओ पु प्र याहि वाजेभिर्मा हृणीथा अभ्यस्मान् ।

महाँइव युवजानिः ॥ १९ ॥

भा०—हे स्वामिन् ! (युवजानिः इव महान्) जिस प्रकार युवति स्त्री का पति (वाजेभिः) उत्तम २ नाना ऐश्वर्यो सहित आगे २ बढ़ता है और कोई लज्जा अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार हे ऐश्वर्यवन् ! तू भी (महान्) गुणों में महान् होकर (अस्मान् अभि) हमारे प्रति (आ उ सु-प्र याहि) आ और सुखपूर्वक, आदर सहित जा (अस्मान् अभि) हमारे प्रति (मा हृणीथाः) लज्जा, संकोच, तिस्कार और क्रोध मत कर।

मो प्वद्य दुर्हणावान्सायं करदारे अस्मत् ।

अश्रीर इव जामाता ॥ २० ॥ २० ॥

भा०—हे स्वामिन् ! तू (दुर्हणावान्) अति दुःसह पीड़ा देने वाला प्रभु (अद्य) आज, (अस्मत्) हम से दूर रहकर (मो सु सायं करत्) कभी सारा दिन व्यतीत कर सायंकाल न कर दे। (अश्रीरः इव जामाता) शोभा, लक्ष्मीरूप, सौभाग्यादि से रहित जंवाई जिस प्रकार दिन भर व्यतीत करके रात्रि काल में आता है, जिससे उसके दुर्लक्षणादि



प्रकट न हों। उसी प्रकार हे स्वामिन् ! तेरा भी विरह असह्य है। वह तू भी आते २ विलम्ब न कर, शीघ्र दर्शन दी। प्रभो ! तुम अपने उत्तम रूप गुणों सहित शीघ्र दर्शन दो। इति विंशो वर्गः ॥

विद्वा ह्यस्य वीरस्य भूरिदावरीं सुमतिम् ।

त्रिषु ज्ञातस्य मनांसि ॥ २१ ॥

भा०—( अस्य वीरस्य ) इस वीर के समान, विशेष बल से युक्त, विविध विद्याओं के उपदेष्टा, स्वामी की ( भूरि-दावरीं ) बहुत से सुखैश्वर्य देने वाली ( सु-मतिम् ) कल्याणकारी ज्ञान, बुद्धि और चाणी को ( विद्वा हि ) अवश्य जानें। ( त्रिषु ) तीनों लोकों और तीनों वेदों में ( ज्ञातस्य ) प्रसिद्ध, तीनों में विशेष ज्ञाता के ( मनांसि ) ज्ञानों को भां ( विद्वा ) जानें।

आ तू षिञ्च कण्ववन्तं न घा विद्वा शवसानात् ।

यशस्तरं शतमूतेः ॥ २२ ॥

भा०—हे विद्वन् ! हे ऐश्वर्यवान् ! तू ( कण्ववन्तं ) विद्वान् पुरुषों से युक्त जन को ( आ सिञ्च ) वृक्ष-वनस्पर्शिवत् सींच, उसे बढ़ा। ( शतमू-उतेः ) सैकड़ों ज्ञानों और रक्षाओं से सम्पन्न ( शवसानात् ) बलवान् शक्तिशाली से अधिक ( यशस्तरं ) बलवान् और यशस्वी दूसरे को ( न घ विद्वा ) नहीं जानते।

ज्येष्ठेन सोतरिन्द्राय सोमं वीराय शक्राय ।

भरा पिबन्नर्याय ॥ २३ ॥

भा०—हे ( सोतः ) ईश्वर के उपासक ! यज्ञकर्त्तः ! तू ( वीराय ) विविध ज्ञानबुद्धियों की प्रेरणा करने वाले, ( शक्राय ) शक्तिशाली, ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान् और ( नर्याय ) सब मनुष्यों के हितकारक स्वामी के लिये ( ज्येष्ठेन ) उसको सर्वश्रेष्ठ रूप से जान कर सबसे अधिक

( सोमं भर ) ऐश्वर्यादि वा अपने आत्मा को भी उसके अर्पण कर । वह ( पित्रवत् ) उसका पालन करे ।

यो वेदिष्ठो अब्यथिष्वश्वान्तं जरितृभ्यः ।

वाजं स्तोतृभ्यो गोमन्तम् ॥ २४ ॥

भा०—( यः ) जो ( अब्यथिषु ) अन्यो को पीड़ा न देने वाले अहिंसक जनों में सबसे अधिक ( वेदिष्ठः ) वेदनावान् दयालु है, वह ( जरितृभ्यः ) स्तुतिकर्ता विद्वानों और ( स्तोतृभ्यः ) उपदेशकों के लिये ( अश्वान्तं गोमन्तं वाजं ) अश्वों और गौओं से सम्पन्न ऐश्वर्य ( वेदिष्ठः ) सबसे अधिक प्रदान करता है ।

पन्यं पन्यमित्सोतार आ धावत मघाय ।

सोमं वीराय शूराय ॥ २५ ॥ २१ ॥

भा०—हे ( सोतारः ) विद्वान् जनो ! हे यज्ञकर्ता जनो, हे ऐश्वर्य, अन्नादि के उत्पादक प्रजा जनो ! आप लोग ( मघाय ) आनन्द हर्ष के योग्य ( वीराय ) वीर ( शूराय ) शूर पुरुष के लिये ( पन्यं-पन्यं सोमं ) स्तुत्य, एवं सर्वोत्तम अन्न ऐश्वर्यादि प्राप्त कराओ । इत्येकविंशो वर्गः ॥

पाता वृत्रहा सुतमा धा गमन्तारे अस्मत् ।

नियमते शतमूतिः ॥ २६ ॥

भा०—( अस्मत् ) हम से दूर रहकर भी ( वृत्रहा ) विघ्नो, विघ्नकारी शत्रुओं का नाशक राजा ( पाता ) राष्ट्र का पालक होकर राष्ट्र को ( सुतम् ) पुत्रवत् जान कर ( आ ध गमत् ) अवश्य आवे । वह ( शतमूतिः ) सैकड़ों रक्षा साधनों से सम्पन्न होकर ( नियमते ) राष्ट्र की व्यवस्था करता है । ( २ ) इसी प्रकार प्रभु पुत्रवत् उत्पन्न संसार का पालक होकर उसको प्राप्त है, हम अज्ञानियों से दूर है । तो भी वह सैकड़ों रक्षा साधनों से सम्पन्न हो जगत् को नियमों में बांध रहा है ।

एह हरीं ब्रह्मयुजां शग्मा वक्षतः सखायम् ।

गीर्भिः श्रुतं गिर्वणसम् ॥ २७ ॥

भा०—(ब्रह्म-युजा) बृहद् राष्ट्र के पालक पद पर नियुक्त बड़े वेतनादि पर सहयोगी हो (हरी) विद्वान् स्त्री पुरुष (इस) इस राष्ट्र में ( शग्मा ) सुखदायक होकर ( सखायम् ) मित्रवत् इन्द्र को ( आ वक्षतः ) अपने ऊपर धारण करते हैं । और ( गीर्भिः श्रुतं ) वाणियों से विख्यात बहुश्रुत ( गिर्वणसम् ) वाणियों को स्वीकारने और देने वाले उसको वे दोनों धारण करते हैं ।

स्वादवः सोमा आ याहि श्रीताः सोमा आ याहि ।

शिप्रिन्नृषीवः शचीवो नायमच्छा सधमादम् ॥ २८ ॥

भा०—हे ( शिप्रिन् ) तेजस्विन् ! हे ( ऋषीवः ) ऋषियों, द्रष्टाओं इन्द्रियों के भी स्वामिन् ! हे ( शचीवः ) शक्तियों और वाणियों के स्वामिन् ! ( सोमाः ) ये अन्नादि ओषधि रसवत् जगत् के उत्पन्न पदार्थ अध्यात्म में—अध्यात्म आनन्द और ये जीवगण ( स्वादवः ) सुखकारी हैं, और ( सु-आदवः ) सुख की कामना करते ( सोमाः श्रीताः ) समस्त रस परस्पर मिल गये हैं । समस्त जीवगण रस से तृप्त हो गये हैं । (आ याहि आ याहि) हे प्रभो ! तू आ, तू आ । ( न ) अभी ( अयम् ) यह ( सध-मादम् ) साथ मिलकर हर्ष उत्पन्न करने वाले को ( अच्छ ) भली प्रकार साक्षात् कर ।

स्तुतश्च यास्त्वा वर्धन्ति महे राधसे नृम्णाय ।

इन्द्रं कारिणं वृधन्तः ॥ २९ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) आत्मन् ! ( या स्तुतः ) जो स्तुतियां ( त्वां कारिणं ) तुझ कर्त्ता को बढ़ाती हैं जो पुरुष ( महे राधसे ) बड़े ऐश्वर्य और ( नृम्णाय ) ज्ञान के लिये ( वृधन्तः ) बढ़ते हुए ( त्वा कारिणं )

तुझ कर्ता को प्राप्त कर लेते हैं वे ( स्तुतः दधिरे ) उन स्तुतियों को धारण करते हैं ।

गिरिश्च यास्ते गिर्वाह उक्था च तुभ्यं तानि ।

सत्रा दधिरे शवांसि ॥ ३० ॥ २२ ॥

भा०—हे ( गिर्वाहः ) वाणियों को मनुष्यों को देने वाले, और हे वाणियों द्वारा हृदय में धारण करने योग्य ! ( याः च गिरः ) जो वाणियाँ और ( यानि च उक्थानि ) जो उत्तम वेद-वचन ( ते ) तेरे लिये प्रयुक्त होते हैं पूर्वोक्त विद्वान् जन उन वाणियों और ( तानि ) उत्तम वचनों और ( शवांसि ) नाना बलों को भी ( तुभ्यं ) तेरी स्तुति के लिये ही ( सत्रा दधिरे ) सदा धारण करें । इति द्वाविंशो वर्गः ॥

एवदेष तुविकूर्मिर्वाजाँ एको वज्रहस्तः ।

सनादमृक्तो दयते ॥ ३१ ॥

भा०—( एव इत् ) निश्चय से ही, ( एषः ) यह ( तुवि-कूर्मिः ) बहुत से लोकों को बताने हारा ( एकः ) अकेला, ( वज्रहस्तः ) अपने हाथ में समस्त शक्तियों को लेने वाला, ( सनात् ) सनातन से प्रसिद्ध ( अमृक्तः ) अविनाशी प्रभु ही ( वाजान् दयते ) समस्त ऐश्वर्यों और सुखों, ज्ञानों को प्रदान करता है ।

हन्ता वृत्रं दक्षिणेनेन्द्रः पुरु पुरुहूतः ।

महान्महीभिः शचीभिः ॥ ३२ ॥

भा०—( इन्द्रः ) वह ऐश्वर्यवान्, दुष्टों का नाश करने वाला, ( पुरुहूतः ) बहुतों द्वारा स्तुति करने योग्य है । वह ( दक्षिणेन ) अति प्रबल ज्ञान और सामर्थ्य से ( वृत्रं ) अज्ञान को और अन्धकारवत् ( हन्ता ) नाश करता है । वह ( महीभिः शचीभिः ) बड़ी २ शक्तियों और पूज्य वाणियों से गुरुवत् ( महान् ) महान् है ।

यस्मिन्विश्वान्श्वर्षण्यं उत च्यौतना जूयांसि च ।

अनु घेन्मन्दी मघोनः ॥ ३३ ॥

भा०—( यस्मिन् ) जिस प्रभु परमेश्वर के आश्रय ( विश्वाः चर्षण्यः ) समस्त मनुष्य ( उत च्यौतना ) समस्त बल, और ( जूयांसि ) श्रेष्ठ विजय के सामर्थ्य हैं उसी ( मघोनः ) ऐश्वर्य के स्वामी के ( अनुः घ इत् ) अनुकूल रहने वाला पुरुष ही ( मन्दी ) अति सुखी, तृप्त, आनन्दवान् होता है ।

एष एतानि चकारेन्द्रो विश्वा योऽति शृणवे ।

वाजदावा मघोनाम् ॥ ३४ ॥

भा०—( यः ) जो परमेश्वर ( अति शृणवे ) सब से सब शक्ति वैभवों में अधिक सुना जाता है, जो ( मघोनाम् ) ऐश्वर्यवानों को भी ( वाजदावा ) नाना ऐश्वर्य देने वाला है ( एषः ) वह ही ( एतानि ) ये सब पृथिवी सूर्यादि ( चकार ) बनाता है ।

प्रभर्ता रथं गव्यन्तमपाकाच्चिद्यमवति ।

इनो वसु स हि वोळ्हा ॥ ३५ ॥ २३ ॥

भा०—वह ( प्र-भर्ता ) सब से उत्कृष्ट, प्रजा का भरण पोषण करने वाला प्रभु, ( अपाकात् ) कच्चे मार्ग से रथ को सारथि के समान ( यम् ) जिस ( गव्यन्तं ) स्तुति वाणी के इच्छुक या भूमि आदि के इच्छुक ( रथम् ) रमणकारी भक्तजन की ( अवति ) रक्षा करता है ( सः हि ) वही ( इनः ) स्वामी होकर ( वसु वोढा ) ऐश्वर्य धारण करने और उसका उत्तम उपयोग करने वाला होता है ।

सनिता विप्रो अर्विर्द्भिर्हन्ता वृत्रं नृभिः शूरः ।

सत्योऽविता विधन्तम् ॥ ३६ ॥

भा०—वह ( वृत्रं हन्ता ) आवरणकारी अज्ञान, विघ्नकारी दुष्टों का नाश करने वाला, ( शूरः ) शूरवीर सेनापति के तुल्य प्रभु ( विप्रः )

मेधावी, बड़ा बुद्धिशाली, विविध ज्ञानों का दाता है, वही ( नृभिः ) उत्तम पुरुषों और ( अर्वाङ्घ्रिः ) ज्ञान-साधनों से ( सनिता ) नाना सुखों का देने हारा है । वह ( विधन्तम् ) सेवा करने वाले का ( सत्यः अविता ) सचा रक्षक है ।

यजध्वैनं प्रियमेधा इन्द्रं सत्राचा मनसा ।

यो भूत्सोमैः सत्यमद्वा ॥ ३७ ॥

भा०—जिस प्रकार ( सोमैः ) जलों से सूर्य व्यक्त जगत् को सचमुचः तृप्त और प्रसन्न करता है उसी प्रकार ( यः ) जो ( सोमैः ) नाना ऐश्वर्यों, प्रेरक सामर्थ्यों और बलों से ( सत्य-मद्वा भूत् ) सत्य ज्ञान और व्यक्त जगत् में एकमात्र रमण करने वाला और जो ( सोमैः ) ज्ञानी पुरुषों वा ऐश्वर्यों से सत्य रूप से स्तुति करने योग्य वा सचमुच सब को प्रसन्न करने वाला होता है, हे ( प्रियमेधाः ) यज्ञप्रिय जनो ! ( एनं इन्द्रं ) इस इन्द्र, ऐश्वर्यप्रद प्रभु की ( सत्राचा मनसा ) सत्य से युक्त एवं तद्गत चित्त से ( यजध्वम् ) उपासना करो ।

गाथश्रवसं सत्पतिं श्रवस्कामं पुरुत्मानम् ।

करवासो गात वाजिनम् ॥ ३८ ॥

भा०—हे ( कण्वासः ) विद्वान्, बुद्धिमान् पुरुषो ! आप लोग ( गाथ-श्रवसं ) जिसका यश और श्रोतव्य ज्ञान वा स्वरूप गान करने योग्य है, उस ( सत्-पतिं ) सज्जनों और सत् पदार्थों के पालक, ( श्रवः-कामं ) श्रवणीय अभिलाषा वा संकल्प वाले, ( पुरु-त्मानम् ) इन्द्रियों के बीच आत्मा के समान बहुत जनों के बीच आत्मावत् प्रिय ( वाजिनम् ) ऐश्वर्यवान् ज्ञानवान् प्रभु की ( गात ) स्तुति करो ।

य ऋते चिद्गास्पदेभ्यो दात्सखा नृभ्यः शर्चीवान् ।

ये अस्मिन्काममश्रियन् ॥ ३९ ॥

भा०—( यः ) जो ( ऋते ) सत्य ज्ञानमय, परम प्राप्तव्य प्रभु में

या सत्य ज्ञान के बल पर ( पदेभ्यः ) प्राप्त होने वाले ( नृभ्यः ) मनुष्यों का ( सखा शचीवान् ) शक्तिशाली मित्र होकर ( गाः दात् ) वाणियों को प्रदान करता है, और ( ये ) जो ( अस्मिन् ) इस में ( कामम् ) अपनी समस्त अभिलाषाओं को ( अश्रियन् ) धरते और प्राप्त कर लेते हैं उनका भी वह मित्र है ।

इत्था धीवन्तमद्रिवः काण्वं मेध्यातिथिम् ।

मेपो भूतोऽभि यन्नयः ॥ ४० ॥

भा०—( इत्था ) इस प्रकार है ( अद्रिवः ) सर्वशक्तिमन् ! ( धीवन्तम् ) बुद्धिमान्, ध्यान धारणा युक्त, ( काण्वं ) विद्वान्, ( मेध्यातिथिम् ) व्यापक प्रभु वा अतिथि के उपासक संस्कार करने वाले के प्रति तू ( मेघः ) सब सुखों का देने वाला मेघवत् ( भूतः ) होकर ( अभि यन् ) प्रत्यक्ष होकर ( अयः ) प्राप्त होता है ।

शिज्ञा विभिन्दो अस्मै चत्वार्ययुता ददत् ।

श्रुष्टा परः सहस्रा ॥ ४१ ॥

भा०—हे ( विभिन्दो ) विविध दुःखों और अज्ञानों के नाशक ! प्रभो ! तू ( ददत् ) ज्ञान, ऐश्वर्यादि दान करता हुआ ( अस्मै ) इस अपने उपासक को ( अयुता ) अपृथक् भूत, एकत्र सम्मिलित ( चत्वारि ) चारों प्राप्तव्य पुरुषार्थों को ( शिक्ष ) प्रदान कर, उनकी शिक्षा दे । ( परः ) और भी अधिक ( सहस्रा ) बलवान् ( अष्टा ) सात मुख्य प्राण और आठवीं वाणी को भी प्रदान कर ।

उत सु त्ये पयोवृधा माकी रणस्य नृपत्या ।

जन्तित्वनायं मामहे ॥ ४२ ॥ २४ ॥

भा०—( इत् ) और ( त्ये ) उन ( पयः-वृधा ) माता पिता के समान दूध और ज्ञान से बालकवत् हमें बढ़ाने वाले ( रणस्य माकी ) सब रम्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाले ( नृपत्या ) सदा परस्पर सम्बद्ध, प्रभु और

प्रकृति दोनों को ( जनित्वनाय ) जीवों और जगत् के उत्पन्न करने के लिये (सु मामहे) उत्तम रीति से पूज्य रूप से जाने । 'माकी' निर्मात्रियौ ॥ सा० ॥ इति चतुर्विंशो वर्गः ॥

[ ३ ]

मेध्यातिथिः काण्व ऋषिः ॥ देवताः—१—२० इन्द्रः । २१—२४ पाकस्थान्नः कौरयाणस्य दानस्तुतिः ॥ छन्दः—१ कुकुम्भती वृहती । ३, ५, ७, ९, १९ निचृद् वृहती । ८ स्वराड् वृहती । १५, २४ वृहती । १७ पथ्या वृहती । २, १०, १४ सतः पंक्तिः । ४, १२, १६, १८ निचृद् पंक्तिः । ६ भुरिक् पंक्तिः । २० विराट् पंक्तिः । १३ अनुष्टुप् । ११, २१ भुरिगनुष्टुप् । २२ विराड् गायत्री । २३ निचृद् गायत्री ॥ चतुर्विंशत्यृचं सूक्तम् ॥

पिवा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः ।

आपिनो वोधि सधमाद्यो वृधेऽस्माँ अवन्तु ते धियः ॥ १ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् प्रभो ! तू ( गोमतः ) वाणी से युक्त प्रार्थी वा इन्द्रियों से युक्त ( रसिनः ) रस, बल या सुख के अभिलाषी ( सुतस्य ) उत्पन्न जीव का ( पिवा ) पालन कर । ( नः मत्स्व ) हमें हर्षित कर । तू ( सधमाद्यः ) सत्संग से आनन्द प्राप्त करने हारा होकर गुरुवत् ( नः ) हमारा ( आपिः ) आस बन्धु होकर हमें ( वृधे ) हमारी वृद्धि के लिये ( वोधि ) ज्ञान प्रदान कर । और ( ते धियः ) तेरे कर्म, बुद्धियाँ और प्रार्थनाएं, स्तुतियाँ ( अस्मान् अवन्तु ) हमारी रक्षा करें । भूयाम ते सुमतौ वाजिनो वयं मा नः स्तरभिमातये ।

अस्माञ्चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः सुम्नेषु यामय ॥ २ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् स्वामिन् ! ( वयं ) हम ( वाजिनः ) ज्ञान और ऐश्वर्य के स्वामी होकर भी ( ते ) तेरी ( सु-मतौ ) उत्तम बुद्धि और ज्ञान के अधीन ( भूयाम ) रहें । तू ( नः ) हमें ( अभि-मातये ) अभिमानी पुरुष



के स्वार्थ के लिये (मा स्तः) मत पीड़ित कर । तू ( नः ) हमें ( सुम्नेषु ) सुखदायक प्रबन्धों में ( आ यमय ) बांध और ( चित्राभिः अभिष्टिभिः ) अद्भुत २ मनोकामनाओं से ( अस्मान् अवतात् ) हमें युक्त कर और हमारी रक्षा कर ।

इ०मा उ० त्वा पुरु०वसो गिरो० वार्धन्तु या मम० ।

पा०व०क०व०र्णाः शुच०यो विप०श्चितोऽभि स्तोमै०र०नूपत ॥ ३ ॥

भा०—हे ( पुरु०वसो ) बहुतों को वसाने हारे ! बहुत प्रकार के धनों के स्वामिन् ! ( याः ) जो ( मम ) मेरी ( गिरः ) नाना वाणियां हों ( इ०मा उ० त्वा ) वे सब भी तुझ को ( वर्धन्तु ) बढ़ावें । और ( पा०व०क०व०र्णाः ) अग्नि के समान तेजस्वी तथा पवित्र करने वाले शरीर और वाणी वाले ( शुचयः ) शुद्ध आचारवान्, ( विपश्चितः ) विद्वान् पुरुष ( स्तोमैः ) स्तुतियों से ( त्वा अभि०भनूपत ) तुझे साक्षात् स्तवन करें ।

अ०यं सहस्र०मृषिभिः सह०स्कृतः समु०द्र इव पप्रथे ।

स०त्यः सो अ०स्य महि०मा गृ०णे शवो० यज्ञेषु० विप्र०राज्ये० ॥ ४ ॥

भा०—( अयं ) यह स्वामी, प्रभु ( सहस्रं ) सहस्रों वार वा सहस्रों ( ऋषिभिः ) ज्ञानदर्शी तत्त्वज्ञानी पुरुषों से ( सहस्कृतः ) बल युक्त किया जाकर ( समुद्रः इव ) समुद्र के समान, ( पप्रथे ) विस्तार को प्राप्त होता है । ( सः अस्य ) वह इसका ( सत्यः महिमा ) सच्चा महान् सामर्थ्य है जो ( विप्र०राज्ये ) विद्वानों के शासन में ( यज्ञेषु ) यज्ञ, सत्संगादि में ( शवः ) उसके बल और ज्ञान की ( गृणे ) चर्चा और स्तुति की जाती है । इन्द्र०मि०द्दे०वता०तय इन्द्रं प्रयत्य०ध्वरे ।

इन्द्रं० समी०के व०निनो० हवामह० इन्द्रं० धन०स्य सा०तये० ॥ ५ ॥ २५ ॥

भा०—( देव०तातये ) विद्वानों से किये जाने वाले यज्ञादि उत्तम कार्य वा स्वयं ( देव०तातये ) देव अर्थात् याचकों के हित के लिये ( वयं )

हम लोग ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् स्वामी को ( हवामहे ) बुलाते हैं, ( अध्वरे प्रयति ) यज्ञ प्रवृत्त होने पर भी हम ( वनिनः ) दानशील होकर ( इन्द्रं हवामहे ) परमैश्वर्यप्रद प्रभु की स्तुति करते हैं । ( समीके ) युद्ध के अवसर पर ( वनिनः ) ऐश्वर्यवान् वा शत्रुहिंसक होकर भी हम ( इन्द्रं ) शत्रुहन्ता सेनापति स्वामी को स्वीकार करते हैं, ( धनस्य सातये ) धन के लाभ के लिये हम उस ऐश्वर्यप्रद की ही स्तुति-प्रार्थना करते हैं ।

इन्द्रो म॒ह्ना रो॒द॒सी पप्रथ॑च्छ्रु॒व इन्द्रः॑ सूर्य॑मरोचयत् ।

इन्द्रे॑ ह॒ विश्वा भुव॑नानि येमि॒र इन्द्रे॑ सु॒वानास॑ इन्द्र॒वः ॥ ६ ॥

भा०—( इन्द्रः ) वह ऐश्वर्यवान् प्रभु ( म॒ह्ना ) महान् सामर्थ्य से ( रो॒द॒सी ) आकाश और भूमि को ( पप्रथ॑त् ) विस्तारित करता है । वह ( इन्द्रः ) सर्वैश्वर्यवान् ( सूर्य॑म् अरोचयत् ) सूर्य को भी प्रकाशित करता है । ( इन्द्रे॑ ह॒ ) उस परमैश्वर्यवान् प्रभु के अधीन ही ( विश्वा भुव॑नानि ) समस्त भुवन ( येमि॒रे ) सुव्यवस्थित हैं । ( इन्द्रे॑ ) उस परमैश्वर्यवान् प्रभु के अधीन ही ( सु॒वानासः ) उत्पन्न होने वाले ( इन्द्र॒वः ) ऐश्वर्ययुक्त मेघ, सूर्य, चन्द्रादि सब लोक और शुभकर्म करने वाले विद्वान् रहते हैं ।  
श्र॒भि त्वा॑ पु॒र्वपी॑तय॒ इन्द्र॑ स्तोमै॒भिराय॑वः ।

स॒मीची॑नास॒ ऋभ॑वः सम॑स्वर॒द्रुद्रा॑ गृ॒णन्त॑ पू॒र्व्यम् ॥ ७ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) शत्रु वा दुष्टजनों के नाश करने और उनके भयभीत करने और भगाने हारे स्वामिन् ! ( आय॑वः ) मनुष्य लोग ( पु॒र्व॒पी॑तये ) सब से पहले आदरपूर्वक राष्ट्र के उपभोग और पालन करने के लिये ( त्वा॑ अभि ) तुझे लक्ष्य कर ही ( स्तोमै॒भिः ) स्तुति-वचनों से ( समी॑चीना) शुद्ध उत्तम भाव से युक्त होकर ( ऋभ॑वः ) तेजस्वी और धन, ज्ञान से सम्पन्न जन भी ( स॒म् अस्वर॑न् ) मिलकर तेरी स्तुति और प्रार्थना करते हैं । ( रु॒द्राः ) दुष्टों को हलाने वाले वीरगण और प्रजा की पीड़ाओं को दूर करने वाले तथा ( रु॒द्राः ) गर्जते, चमकते मेघ सूर्यादि वा उपदेष्टा

विद्वान् जन भी ( पूर्व्यम् गृणन्त ) सब से पूर्व विद्यमान सर्वश्रेष्ठ तेरी ही स्तुति करते हैं । तुझ को ही सर्व प्रथम कारण बतलाते हैं ।

अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्यं शवो मदे सुतस्य विष्णवि ।

अद्या तमस्य महिमान्मायवोऽनु पुवन्ति पूर्वथा ॥ ८ ॥

भा०—( सुतस्य ) इस उत्पन्न जगत् के ( विष्णवि ) व्यापक (मदे) आनन्द में ही ( अस्य ) इस जीव गण के ( इत् ) भी ( वृष्ण्यं शवः ) बलयुक्त सुखप्रद ज्ञान और बल को ( इन्द्रः ) वह ऐश्वर्यवान् ( वावृधे ) बढ़ाता है । ( आयवः ) ज्ञानी मनुष्य (अद्य) आज भी ( अस्य तम् महिमानम् ) इसके इस महिमा, महान् सामर्थ्य का ( पूर्वथा अनु स्तुवन्ति ) पूर्ववत् नित्यप्रति स्तुति किया करते हैं ।

तत्त्वा यामि सुवीर्यं तद्ब्रह्म पूर्वचित्तये ।

येन यतिभ्यो भृगवे धने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ॥ ९ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! स्वामिन् ! प्रभो ! (त्वा) तुझ से मैं ( तत् ) वह ( सुवीर्यं ) उत्तम बल ( तत् ब्रह्म ) वह ज्ञान, धन और बड़ा ऐश्वर्य ( पूर्व-चित्तये ) पूर्ण ज्ञान और सञ्चय के निमित्त ( यामि ) मांगता हूँ ( येन ) जिससे ( यतिभ्यः ) यज्ञवान्, ( यतिभ्यः ) जितेन्द्रिय पुरुषों और ( भृगवे ) तेजस्वी, परिपक्व बुद्धि और पुष्ट वाणी वाले के उपकार के लिये ( हिते धने ) हितकारी धन के निमित्त ( प्रस्कण्वम् ) उत्कृष्ट मेधावी पुरुष की ( आविथ ) रक्षा करता है ।

येना समुद्रमसृजो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते शवः ।

सद्यः सो अस्य महिमा न सञ्चशे यं क्षीणीरनुचक्रदे ॥१०॥२६॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( येन ) जिस बल से तू (समुद्रम्) समुद्र को ( महीः अपः ) भूमियों और जलों को ( असृजः ) रचता है ( ते ) तेरा ( तत् ) वह ( शवः ) ज्ञान और बल ( वृष्णि ) सब सुखों

को देने वाला है । ( यम् ) जिसके अनुकूल ( क्षोणीः अनु चक्रदे ) सब भूमि, सब मनुष्य चलते और उसकी स्तुति करते हैं ( सः अस्य महिमा ) वह उसकी महिमा है । ( सद्यः न संनशे ) शीघ्र ही उसको नहीं जाना जा सकता ?

शग्धी न इन्द्र यत्त्वा रयिं यामि सुवीर्यम् ।

शग्धि वाजाय प्रथमं सिषासते शग्धि स्तोमाय पूर्य ॥ ११ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यप्रद ! ( यत् रयिम् ) जिस ऐश्वर्य को और ( सु-वीर्यम् ) उत्तम बल को मैं तुझ से ( यामि ) याचना करता हूँ । तू वह ( नः शग्धि ) हमें प्रदान करके समर्थ कर । ( प्रथमम् ) सब से प्रथम, सर्वोत्तम पुरुष को ( वाजाय ) ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये ( शग्धि ) समर्थ कर । हे ( पूर्य ) पूर्व के जनों में सर्वोत्तम ! हे पूर्ण ! तू ( सिषासते ) भजन सेवन करने की इच्छा वाले ( स्तोमाय ) स्तुतिकर्ता जन के भले के लिये ( शग्धि ) सब को समर्थ कर या सब कुछ करने में समर्थ है ।

शग्धी नो अस्य यद्ध पौरमाविथ धियं इन्द्र सिषासतः ।

शग्धि यथा रुशमं श्यावकं कृपमिन्द्र प्रावः स्वर्णरम् ॥ १२ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! शत्रुहन् ! ( धियः सिषासतः ) नाना कर्मों और बुद्धियों का सेवन करने वाले के ( पौरम् ) पुरवासी जन को ( यत् ह ) जिससे तू ( आविथ ) रक्षा करता है और उनको तृप्त करता है ( अस्य ) इस ऐश्वर्य को ( नः शग्धि ) तू हमें भी प्रदान कर । और ( यथा ) जिस प्रकार ( रुशमं ) रोगों के शान्तिकारक, ( श्यावकम् ) विद्वान्, ( कृपम् ) कृपालु ( स्वः-नरम् ) सुखप्रद नायक वीर एवं तेजस्वी पुरुष की ( आवः ) रक्षा करता है उसी प्रकार हमें भी ( शग्धि ) समर्थ, शक्तिमान् बना ।

कन्नव्यो अतसीनां तुरो गृणीत मर्त्यैः ।

नहीन्वस्य महिमानमिन्द्रियं स्वर्गृणन्त आनशुः ॥ १३ ॥

भा०—( अतसीनां ) निरन्तर एक देह से दूसरे देह में विचरने वाले जीवों में से ( कः ) कौन सा ( तुरः ) अति शीघ्रकारी ( नव्यः ) नया, अपूर्व ऐसा ( मर्त्यः ) मनुष्य है जो ( अस्य ) इस प्रभु के ( महिमानम् ) महान् सामर्थ्य का ( गृणीत ) उपदेश या वर्णन कर सके । ( इन्द्रियं ) 'इन्द्र' के ही महान् ऐश्वर्य वा इन्द्र, प्रभु के बनाये जगत् को ही ( स्वः ) परम सुख ( गृणन्तः ) कहते हुए जीवगण ( अस्य ) इस के महान् सामर्थ्य का पार ( नही नु आनशुः ) कभी भी नहीं पा सकते । कर्दु स्तुवन्त ऋतयन्त देवत ऋपिः को विप्र ओहते ।

कदा हवं मधवन्निन्द्र सुन्वत कर्दु स्तुवत आ गमः ॥ १४ ॥

भा०—हे ( देवत ) देव ! दातः ! प्रकाशस्वरूप ! ( ऋतयन्तः ) सत्य ज्ञान और सत्य ऐश्वर्य की कामना करने वाले तुझे ( कर्दु उ स्तुवन्ते ) कौन २ स्तुति करते हैं ( कः ) कौन ( ऋपिः ) साक्षात् तत्त्वदर्शी ( विप्रः ) विद्वान् जन ( आ ऊहते ) सर्व प्रकार से प्रार्थना कर सकता है ? हे ( मधवन् ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( इन्द्र ) प्रकाशस्वरूप ! सर्वप्रकाशक ! तू ( सुन्वतः ) उपासना करने वाले के ( हवं ) स्तुति-वचन और आह्वान को ( कदा आगमः ) कब प्राप्त होता और ( स्तुवतः ) स्तुतिकर्ता उपासक के समीप ( कर्दु उ आ गमः ) तू कब प्राप्त होता है ?

उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमांस ईरते ।

सत्राजितो धनसा अर्क्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥१५॥२७॥

भा०—( वाजयन्तः रथाः इव ) संग्राम करने वाले रथ वा रथारोही वीर जन ( अक्षित-ऊतयः ) अक्षय बल से युक्त होकर ( सत्राजितः ) एक साथ शत्रुओं को जीतने वाले होते और ( धनसाः ) धन को प्राप्त करते

हैं उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् प्रभो ! ( त्ये ) वे ( मधु-मत्-माः ) अति उत्तम, रीति से गुरु से सञ्चित नाना विद्या मधु को धारण करने वाले ( स्तोमासः ) स्तुतिकर्ता और ( गिरः ) उपदेशा लोग और स्तुति की मधुर वाणियां भी ( सत्रा-जितः ) सत्य के बल पर सर्वत्र विजयी, ( धन-साः ) ऐश्वर्य के भागी और दानी, ( अक्षितोतयः ) अक्षय वृत्ति-युक्त वा अक्षुण्ण मार्ग वाले होकर ( वाजयन्तः ) ज्ञानैश्वर्य के अभिलाषी होकर ( उव ईरते ) ऊपर को उठते हैं ।

करवा इव भृगवः सूर्या इव विश्वमिद्धितमानशुः ।

इन्द्रं स्तोमेभिर्महयन्त श्रायवः प्रियमेघासो अस्वरन् ॥ १६ ॥

भा०—( सूर्याः इव ) सूर्यों वा सूर्य-किरणों के समान तेजस्वी, ( कणाः ) विद्वान् जनों के ( इव ) समान ही ( भृगवः ) पापों को भूलने वाले वा वाग्मी जन, ( विश्वम् इव धीतम् ) समस्त विश्वमय ध्यान करने योग्य प्रभु को ( आनशुः ) प्राप्त होते हैं या ( धीतम् विश्वम् आनशुः ) ध्यान करके ज्ञान द्वारा विश्व को जान लेते हैं । और ( स्तोमेभिः महयन्तः ) स्तुतियों से पूजा करते हुए ( प्रिय-मेघासः ) यज्ञप्रिय, सत्संग-प्रिय अनार्थी जन सभी ( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यप्रद प्रभु की ( अस्वरन् ) स्तुति करते हैं ।

युद्धा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः ।

श्रुवाचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥ १७ ॥

भा०—हे ( वृत्रहन्-तम ) विघ्नों और वारण करने योग्य व्यसनों के नाशक स्वामिन् ! तू ( परावतः ) दूर २ देश से ही ( हरी युध्व हि ) खी पुरुषों को परस्पर-जोड़ा कर । हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( सोम-पीतये ) ऐश्वर्य और राष्ट्र की रक्षा के लिये ( अर्वाचीनः ) सदा आगे बढ़ कर या शत्रुहिंसक सैन्यों से युक्त होकर हे ( उग्र ) बलवन् ! तू ( ऋष्वेभिः ) बड़े २ पुरुषों या विद्वानों द्वारा दिये उपदेश से हमें ( आगहि ) प्राप्त हो ।

इमे हि ते कारवो वावृशुर्धिया विप्रासो मेघसातये ।

स त्वं नो मघवन्निन्द्र गिर्वणो वेनो न शृणुधी हवम् ॥ १८ ॥

भा०—हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( इन्द्र ) शत्रुहन्तः ! हे दीप्ति-  
मन् ! प्रकाशस्वरूप ! सब जगत् को देखने हारे ! हे ( गिर्वणः ) वाणियों  
से स्तुति करने और वाणियों को धारने हारे ! ( इमे हि ते कारवः ) ये सब  
तेरे स्तुतिकर्ता ( विप्रासः ) बुद्धिमान् जन ( मेघ-सातये ) सत्संग, यज्ञ, दान  
को प्राप्त करने के लिये, ( वावृशुः ) तुझ ईश्वर को सदा चाहते हैं । ( सः त्वं )  
वह तू ( वेनः न ) अभिलाषी के समान ही ( नः हवम् शृणुधि ) हमारी  
पुकार सुन ।

निरिन्द्र वृहतीभ्यो वृत्रं धनुभ्यो अस्फुरः ।

निर्वुदस्य मृगयस्य मायिनो निः पर्वतस्य गा आजः ॥ १९ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन् ! राजन् ! ( वृहतीभ्यः धनुभ्यः )  
बड़ी २ धनुर्धर सेनाओं की प्रतिष्ठा के लिये तू ( वृत्रं निर् अस्फुरः ) धन  
को विनाश मत कर, उसकी रक्षा कर और विघ्नकारी शत्रु का नाश कर ।  
( निर्वुदस्य ) अत्यन्त अधिक ज्ञानी ( मृगयस्य ) शुद्ध वा स्वामी प्रभु  
के अन्वेषक, ( मायिनः ) बुद्धिमान् ( पर्वतस्य ) मेघ तुल्य सब के पालक  
पुरुष की ( गाः निर् अजः ) वाणियों को हृदय से निकाल वा ग्रहण  
कर । अथवा ( मायिनः ) मायावी ( निर्वुदस्य ) हिंसाकारी ( मृगयस्य )  
सिंहवत् दुष्ट स्वभाव की ( गाः ) चालों को ( निर् अज ) दूर कर और  
( पर्वतस्य ) पर्वतवत् दुर्गम स्थान के ( गाः ) मार्गों को ( निः ) निकाल, बना ।  
निरग्रयो रुरुचुर्निरु सूर्यो निः सोम इन्द्रियो रसः ।

निरन्तरिक्षादधमो महामहिं कृषे तदिन्द्र पौंस्यम् ॥ २० ॥ २८ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे प्रकाशक ! जो तू ( अन्तरिक्षात् )  
अन्तरिक्ष भाग से ( महाम् अहिम् ) बड़े भारी आघातकारी मेघ वा अन्ध-  
कार को दूर कर देता है, तब तू ( पौंस्यं कृषे ) मनुष्यों के हितकर अपने

बल को प्रकट करता है। उस समय ( अन्नयः निर् रुरुचुः ) अग्निमें खूब प्रज्वलित होती हैं (सूर्यः निर्) सूर्य खूब प्रकाशित होता है। और (इन्द्रियः रसः) इन्द्र, आत्मा से सेवन करने योग्य ओषधि आदि रसवत् आत्मिक आनन्द भी खूब प्रकट होता है। इत्यष्टाविंशो वर्गः ॥

यं मे दुरिन्द्रो मरुतः पाकस्थामा कौरयाणः।

विश्वेषां तमना शोभिष्टमुपैव दिवि धावमानम् ॥ २१ ॥

भा०—परमेश्वर का स्वरूप—( यम् ) जिसको लक्ष्य करके (इन्द्रः) आचार्य और ( मरुतः ) विद्वान्गण तथा आत्मा और प्राण ( मे दुः ) मुझे ज्ञान प्रदान करते हैं और परमेश्वर ( पाकस्थामा ) परिपक्व बल वाला (कौरयाणः) क्रियावान्, समस्त पदार्थों में व्यापक, सब को चलाने वाला वा कर्त्ता जीवों का प्राप्तव्य है। मैं उसको ( विश्वेषां ) सब के बीच में (तमना शोभिष्टम्) आत्मा रूप से अति शोभावान् ( दिवि धावमानम् उप इव ) अति समीप आकाश में गति करते सूर्य के समान सदा समीप विद्यमान ही देखता हूँ।

रोहितं मे पाकस्थामा सुधुरं कक्ष्यप्राम्।

अदाद्रायो विबोधनम् ॥ २२ ॥

भा०—दृढ़, बलशाली, सर्वनियन्ता प्रभु में मुझे ( सुधुरं ) सुख से धारण करने योग्य (कक्ष्य-प्राम्) कक्षाओं, कोखों में पूर्ण (रोहितं) निरन्तर बढ़ने वाला वा तेजस्वी आत्मा वा शरीर ( अदात् ) प्रदान करता है, वह (रायः) नाना ऐश्वर्य प्रदान करता है और वह (विबोधनम् अदात्) विविध ज्ञानों के साधन, मन, इन्द्रिय आदि देता है, विशेष ज्ञान भी प्रदान करता है।

यस्मां अन्ये दश प्रति धुरं वहन्ति वह्नयः।

अस्तं वयो न तुग्रयम् ॥ २३ ॥

भा०—( तुग्रयं वयः न ) बलवान्, शत्रुहिंसक, गृह स्वामी को वेग-



वान् अथ जिस प्रकार ( अस्तं ) घर की ओर लेजाते हैं इसी प्रकार (यस्मै) जिस प्रभु के दर्शन के लिये (अन्ये दश बह्वयः) और दस अभिवत् तेजस्वी शरीर को गाड़ी के समान उठाने वाले दश प्राण ( धुरं प्रति वहन्ति ) धारक आत्मा के अधीन रह कर उसको उठाते हैं ।

आत्मा पितुस्तनूर्वासं ओजोदा अभ्यञ्जनम् ।

तुरीयमिद्रोहितस्य पाकस्थामानं भोजं दातारमब्रवम् ॥२४॥२९॥

भा०—मैं ( रोहितस्य ) वृद्धिशील, तेजस्वी, शरीर में उत्पन्न होने वाले जीव को ( दातारम् ) देने वाले ( पाकस्थामानम् ) दृढ़ बलशाली, ( भोजम् ) पालक प्रभु को ही ( तुरीयम् इत् अब्रवम् ) तुरीय, चतुर्थ परम पद के नाम से कहता हूँ । वही ( आत्मा ) आत्मा, चेतन है, वह ( पितुः ) अन्नवत् जीवनाधार है । वह ( तनूः ) देहवत् प्रिय जगत् का विस्तार करने वाला है । वह ( वासः ) वस्त्रवत् आच्छादक, रक्षक और सर्वत्र बसने वाला सर्वव्यापक है । वही ( ओजःदाः ) देह में आत्मावत् समस्त बल पराक्रम का दाता और ( अभ्यञ्जनम् ) तेलादि स्निग्ध पदार्थ के समान सर्वत्र कान्ति, स्नेह और प्रकाश देने वाला है । इत्येकोनत्रिंशो वर्गः ॥

[ ४ ]

देवातिथिः काण्व ऋषिः ॥ देवताः—१—१४ इन्द्रः । १५—१८ इन्द्रः पूषा वा । १९—२१ कुरंगस्य दानस्तुतिः ॥ इन्द्रः—१, १३ भुरिगनुष्टुप् । ७ अनुष्टुप् । २, ४, ६, ८, १२, १४, १८ निचृत् पंक्तिः । १० सत पंक्तिः । १६, २० विराट् पंक्तिः । ३, ११, १५ निचृद् बृहती । ५, ६ बृहती पथ्या । १७, १९ विराट् बृहती । २१ विराडुष्णिक् ॥ एकत्रिंशत्यृचं सूक्तम् ॥

यदिन्द्रं प्रागप्रागुदङ् न्यग्वा ह्यसे नृभिः ।

सिमां पुरु नृपूतो अस्यान्नवेऽसिं प्रशर्धं तुर्वशे ॥ १ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( यत् ) जो तू ( प्राग्, अपाक्, उदङ् न्यग् वा ) पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण या ऊंचे नीचे, ( नृभिः ह्यसे ) मनुष्यों द्वारा पुकारा और स्तुति किया जाता है हे ( प्र-शर्ध ) उत्तम-बलशालिन् ! हे ( सिम ) सर्वश्रेष्ठ ! तू सचमुच ( तुर्वशे ) चारों पुरुषार्थों को चाहने वाले मनुष्य संघ के बीच में भी ( पुरु नृ-सूतः ) बहुत प्रकार के मनुष्यों से प्रेरित वा प्रार्थित और उपासित ( असि ) होता है ।

यद्वा रुमे रुशमे श्यावके कृपे इन्द्र मादयसे सचा ।

कएवासस्त्वा ब्रह्मभिः स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥२॥

भा०—( यद् वा ) और जो तू ( रुमे ) उपदेष्टा, ( रुशमे ) अन्यों की पीड़ा शान्त करनेवाले रक्षक, ( श्यावके ) इधर उधर जाने वाले व्यापारी और ( कृपे ) दयनीय, सामर्थ्यवान् श्रमी, सभी जनवर्ग में ( सचा ) एक साथ ही सबको ( मादयसे ) प्रसन्न करता है, हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! और ( स्तोम-वाहसः ) स्तुतिधारक, ( कण्वासः ) बुद्धिमान् पुरुष ( ब्रह्मभिः त्वा यच्छन्ति ) वेदमन्त्रों से तुझे यज्ञ द्वारा अपने को अर्पित करते हैं वह तू ( आ गहि ) हमें प्राप्त हो ।

यथा गौरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणाम् ।

आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कएवेपु सु सचा पिव ॥ ३ ॥

भा०—( यथा ) जिस प्रकार ( गौरः ) गौओं में रति, अनुरागादि करने वाला वृषभ पशु वा गौर नाम मृग, ( तृष्यन् ) प्यासा होकर ( अपा कृतम् ) जल से भरे ( इरिणम् ) जलाशय को ( अवः एति ) प्राप्त होता है उसी प्रकार ( गौरः ) 'गो' इन्द्रियों में रमण करने वाला जीव, ( तृष्यन् ) तृष्णायुक्त होकर ( अपा ) जलादि के विकाररूप रुधिरादि से ( कृतं ) बने ( इरिणम् ) 'इरा' अन्न के विकार से बने देह को ( अव एति ) प्राप्त होता है । हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! आत्मन् ! तू ( नः ) हमारे ( आपित्वे ) बन्धुभाव को ( प्रपित्वे ) प्राप्त होने पर ( नः ) हमें ( तूयम् ) शीघ्र ही

( आ गहि ) प्राप्त हो । और ( कण्वेषु ) विद्वान् जनों के बीच में ( सचा ) साथ रहकर ( सु-पिव ) अच्छी प्रकार मोक्ष-आनन्द रस का पान कर । इसी प्रकार 'गो' भूमियों में रमण करने वाला राजा जल से युक्त ( हरिणं ) अन्नादि युक्त प्रदेश को अर्थतृपित होकर प्राप्त करे । वह विद्वानों को प्राप्त हो, उनके बीच में रहकर राष्ट्र-ऐश्वर्य का उत्तम रीति से भोग और पालन करे ।  
मन्दन्तु त्वा मघवन्निन्द्रेन्द्वो राधोदेयाय सुन्वते ।

आमुष्या सोममपिवश्चमू सुतं ज्येष्ठं तदधिपे सहः ॥ ४ ॥

भा०—हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( इन्द्र ) दुष्टों के नाश करने वाले प्रभो राजन् ! ( इन्द्रवः ) ऐश्वर्य युक्त जीवगण ( त्वा मन्दन्तु ) तुझे प्राप्त होकर प्रसन्न हों । ( सुन्वते ) सेवन, ईश्वरोपासना करने वाले तथा ( राधो-देयाय ) आराधना का उपहार देने वाले पुरुष के ( सोमम् ) ज्ञानसम्पन्न, ( चमू-सुतम् ) उत्तम माता पिता के बीच उत्पन्न जीव को पुत्रवत् ( आ-मुष्य ) स्वीकार कर, गुरुवत् ( अपिवः ) पालन कर । तू ही ( तत् ) उस ( सहः ) परम बल को ( दधिपे ) धारण करने हारा है । ( २ ) राजा को सब प्रजाजन प्रसन्न करें । वह धनप्रद प्रजाजन के हितार्थ चमू अर्थात् सैन्यों द्वारा प्राप्त राज्यैश्वर्य को बल से प्राप्त कर उसका पालन और उपभोग करे, सर्वोपरि विजयी बल को धारण करे ।

प्र चक्रे सहसा सहो वभञ्ज मन्युमोजसा ।

विश्वे त इन्द्र पृतनायवो यहो नि वृक्षा इव येमिरे ॥ ५ ॥ ३० ॥

भा०—वह शत्रुहन्ता स्वामी ( सहसा ) बल से ( सहः ) शत्रुओं का पराजय ( प्र चक्रे ) अच्छी प्रकार करे और ( ओजसा ) पराक्रम से ( मन्युम् वभञ्ज ) शत्रु के क्रोध और अभिमान को तोड़ डाले, हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( यहो ) महान् ! ( ते ) तेरे अधीन ( विश्वे ) सब ( पृतनायवः ) सेनाबल और सामान्य प्रजास्थ मनुष्यों के स्वामी नायक जन

(वृक्षाः इव) वृक्षों के समान भूमि को घेर कर (नि येमिरे) भूमि या राज्य का प्रबन्ध करें। 'पृतना' इति मनुष्य नाम नि० । इति त्रिंशो वर्गः ॥

सहस्रेणैव सचते यवीयुधा यस्तु आनलुपस्तुतिम् ।

पुत्रं प्रावर्गं कृणुते सुवीर्यं दाश्रोति नमउक्तिभिः ॥ ६ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! स्वामिन् ! ( यः ) जो ( ते ) तेरी ( उप-स्तुतिम् ) स्तुति, गुणानुवाद को ( आनङ् ) प्राप्त करता है, वह ( सहस्रेण इव ) अनेक, बलशाली ( यवीयुधा ) शत्रुनाशक प्रहारक बल से ( सचते ) सम्पन्न होता है, वह ( सु-वीर्यं ) उत्तम वीर्य बल के आश्रय पर ( पुत्रं ) अपने पुत्र, प्रजा को ( प्रावर्गं ) शत्रु को निवारण करने में समर्थ ( कृणुते ) बनाता है, और ( नमः-उक्तिभिः ) विनय युक्त वचनों से ( दाश्रोति ) दान करता है।

मा भेम मा श्रमिष्मोग्रस्य सुख्ये तव ।

महत्ते वृष्णो अभिचक्ष्यं कृतं पश्येम तुर्वशं यदुम् ॥ ७ ॥

भा०—हे राजन् ! हे प्रभो ! हम ( उग्रस्य ) उग्र, अति बलवान् ( तव ) तेरे ( सुख्ये ) मित्रभाव में रहकर ( मा भेम ) कभी न डरें, ( मा श्रमिष्म ) कभी न थकें। ( वृष्णः ते ) उत्तम प्रबन्धक और सुखों के वर्षक तेरे ( कृतं ) किये ( महत् ) बड़े भारी ( अभि-चक्ष्यं ) प्रत्यक्ष दर्शनीय कार्य को तथा ( यदुम् ) यत्नशील ( तुर्वशम् ) धर्मार्थ काम मोक्षादि के अभिलाषी मानव जन को ( पश्येम ) देखें।

सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो अस्य रोपति ।

मध्वा सम्पृक्ताः सारुघेरा धेनवस्तूयमेहि द्रवा पिव ॥ ८ ॥

भा०—जिस प्रकार ( दानः न वृषा ) सब सुख देने वाला, बल-वीर्यवान् सेक्ता पुरुष ( सव्याम् स्फिग्यं ) वाम भाग में रखने वा प्रजोत्पादन योग्य अर्धाङ्गिनी को ( अनु वावसे ) प्राप्त कर उसके अनुकूल होकर रहता, उसको आच्छादन करता है और वह भी ( अस्य न रोपति )

उससे रुष्ट नहीं होती न उसको रुष्ट करती है, उसी प्रकार ( वृषा ) प्रबन्ध करने में कुशल, प्रजा पर सुखों की वर्षा करने वाला, बलवान् ( दानः ) दानशील, एवं दुष्टों को नाश करने वाला पुरुष ( सव्याम् ) ऐश्वर्य से सम्पन्न वा शासन योग्य ( स्फिग्यं ) प्रतिष्ठा योग्य प्रजाजन को ( अनु ववसे ) उसके अनुकूल रहकर बसावे, उसकी रक्षा करे। वह प्रजागण ( अस्य न रोपति ) उसे रोप न दिलावे न उसके प्रति रोप करे। हे ऐश्वर्यवान् शत्रुहन्तः ! ( धेनवः ) गौओं के समान वाणियां और भूमियां ( सारधेण मध्वा ) मधु के समान मधुर दुग्ध, अन्न और ज्ञान से ( सम्पृक्ताः ) युक्त हैं। तू ( त्वयम् ) शीघ्र ही ( आ इहि ) आ प्राप्त हो और ( आ द्रव ) आगे बढ़ और ( आ पिव ) आदर पूर्वक ऐश्वर्य का उपभाग और पालन कर।

ऋश्वी रथी सुरूप इन्द्रोमाँ इन्द्रो ते सखा ।

श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रो याति सभामुप ॥ ९ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! प्रभो ! स्वामिन् ! ( ते ) तेरा ( सखा ) मित्र ( अश्वी ) अश्वों का स्वामी, ( रथी ) रथों का स्वामी ( सुरूपः ) उत्तम रूपवान् ( गोमान् ) उत्तम इन्द्रियों, वाणियों, भूमियों का स्वामी ( इद् ) ही हो जाता है। वह ( श्वात्रभाजा वयसा ) धनादि से समृद्ध अन्न बल आयु से ( सदा सचते ) सदा युक्त होता और ( चन्द्रः ) सबको सुखी करने वाला होकर ( सभाम् उप याति ) सभा को प्राप्त होता है। वह सभापति वा सभासत् बनता है। प्रभु का मित्र जीव, भक्त, उत्तम मन, देह, रूप वाणी आदि से युक्त होता और सुखप्रद ऐश्वर्ययुक्त ज्ञान से सम्पन्न होता और आह्लादयुक्त होकर 'सभाम्' प्रभु के समान शुद्ध कान्ति को प्राप्त करता है।

ऋश्वो न तृष्यन्नवपानमा गहि पिवा सोसं वशाँ अनु ।

निमेघमानो मधवन्दिवेदिव् ओर्जिष्ठं दधिषे सहः ॥ १० ॥ ३१ ॥

भा०—हे ( मघवन् ) उत्तम पूजित धनों के स्वामिन् ! ( तृप्यन् ऋष्यः न ) पियासा मृग जिस प्रकार ( अवपानम् आगच्छति ) जलाशय या घाट को प्राप्त होता और ( वशान् अनु पिबति ) यथेच्छ पान करता है उसी प्रकार तू भी ( ऋष्यः ) दर्शनीय एवं महान् ( तृप्यन् ) अर्थ-ऐश्वर्य के लिये तृष्णायुक्त ( न ) के समान होकर ( अव-पानम् ) अपने अधीन पालन करने योग्य राष्ट्र को ( आ गहि ) प्राप्त कर । ( वशान् अनु ) अपनी अभिलाषाओं के वा अपने इष्ट अधीन जनों के अनुकूल ( सोमं ) राष्ट्रैश्वर्य का ( पिब ) पालन और उपभोग कर । तू ( दिवे-दिवे ) दिनों-दिन ( नि-मेघमानः ) नियम से प्रजा पर सुखों का वर्षण करता हुआ मेघवत् उदार होकर ( भोजिष्टं सहः ) अति पराक्रम युक्त, शत्रुपराजयकारी सैन्य बल को ( दधिपे ) धारण कर ।

अध्वर्यो द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति ।

उप नूनं युयुजे वृषणा हरी आ च जगाम वृत्रहा ॥ ११ ॥

भा०—हे ( अध्वर्यो ) प्रजा के 'ध्वर' अर्थात् हिंसन, पीड़नादि को न चाहने वाले सेनापते ! ( त्वं ) तू ( द्रावय ) शत्रु को दूर भगा वा प्रजापालनार्थ नहरादि को बहा । क्योंकि ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् राजा ( सोमं ) राष्ट्र को ( पिपासति ) पालन करना चाहता है । वह ( नूनं ) निश्चय से ( वृषणा हरी ) बलवान् अश्वों को ( उप युयुजे ) रथ में जोड़ता है और वह ( वृषणा हरी ) बलवान्, वीर्यवान् स्त्री पुरुषों का ( उप युयुजे ) परस्पर सम्बन्ध करे और उनका राष्ट्र के कार्य में उपयोग करे और इस प्रकार वह ( वृत्रहा ) बढ़ते शत्रु तथा विघ्नों को नाश करता हुआ ( आजगाम च ) आवे और आगे बढ़े ।

स्वयं चित्स मन्यते दाशुरिर्जनो यत्रा सोमस्य तृम्पसि ।

इदं ते अन्नं युज्यं समुक्षितं तस्येहि प्र द्रवा पिब ॥ १२ ॥

भा०—हे राजन् ! ( यत्र ) जिस राष्ट्र वा उच्चपद में ( सोमस्य )

तू ऐश्वर्य से ( तृप्सि ) तृप्त होता है ( सः ) वह राष्ट्रवासी प्रजाजन ( दाशुरिः ) कर आदि देने वाला होकर ( स्वयं चित् ) अपने भाप ही ( मन्यते ) सब राष्ट्र कार्य को समझता है । ( ते ) तेरे लिये ( इदं ) यह समस्त ( अन्नं ) अन्न ( युज्यं ) और सहयोगी बल ( सम्-उक्षितम् ) अच्छी प्रकार सींचा जावे । ( तस्य ) उसको तू ( आ इहि ) प्राप्त कर और ( प्र द्रव ) अन्नादि के लिये जल धाराएं प्रद्रवित कर, नहरें चला और ( प्र द्रव ) वेग से शत्रु पर आक्रमण कर । और ( पिव ) राष्ट्र का पालन और उपभोग कर ।

रथेष्टाय अध्वर्यवः सोममिन्द्राय सोतन ।

अधि ब्रध्नस्याद्रयो वि चक्षते सुन्वन्तो दाश्वध्वरम् ॥ १३ ॥

भा०—हे ( अध्वर्यवः ) प्रजाओं के विनाश को न चाहने वाले राष्ट्र के उत्तम पुरुषो ! आप लोग ( रथेष्टाय इन्द्राय ) रथ पर स्थित शत्रुहन्ता राजा वा सेनापति के लिये ( सोमम् ) ऐश्वर्य ( सोतन ) उत्पन्न करो । उसे अभिषेक द्वारा ऐश्वर्य का स्वामी बनाओ । ( ब्रध्नस्य अधि ) अन्तरिक्ष में जिस प्रकार ( दाशु-अध्वरम् सुन्वन्तः ) वृष्टि अन्नादि देने वाले सूर्य के जीवनप्रद जलप्रदान रूप यज्ञ को देते हुए ( अद्रयः ) मेघगण ( वि चक्षते ) दिखाई देते हैं उसी प्रकार ( ब्रध्नस्य अधि ) मूल आधार राष्ट्र के ऊपर ( दाशु-अध्वरम् ) ऐश्वर्यप्रद राजा के प्रजापालक यज्ञ को ( सुन्वन्तः ) करते हुए ( अद्रयः ) शस्त्र-बल के अध्यक्ष जन ( वि चक्षते ) विविध प्रकार से दीखें, वा विशेष २ आज्ञाएं करें ।

उप ब्रध्नं वावाता वृषणा हरी इन्द्रमपसु वक्षतः ।

अर्वाञ्च त्वा सप्तयोऽध्वरश्रियो वहन्तु सवनेदुप ॥ १४ ॥

भा०—जिस प्रकार ( वावाता वृषणा हरी ) ब्रध्नं इन्द्रम् उप वक्षतः ) वेग से जाने वाले वृष्टिकारक वायु और मेघ आकाश में 'इन्द्र' विद्युत् को अपने में धारण करते हैं और जिस प्रकार ( ब्रध्नं वृषणा हरी

त्रावाता व्रध्नं इन्द्रम् सु उप वक्षतः ) बलवान्, वेगवान् दो अश्व प्रबन्ध-  
कुशल ऐश्वर्य पति-राजा को नाना राष्ट्र कार्यों में दूर २ तक ढो ले जाते हैं  
उसी प्रकार (व्रध्नं इन्द्रम्) राष्ट्र के उत्तम प्रबन्धक, सूर्य के समान तेजस्वी  
पुरुष को (वावाता) वायुवत् वेग से जाने और शत्रु का नाश करने में  
समर्थ (वृषणा) बलवान्, मेघवत् उदार (हरी) दोनों विद्वानों के  
वर्ग (अप-सु) राष्ट्र के नाना कार्यों में (उप वक्षतः) धारण करें वा  
समीप जाकर अपने उत्तम वचन कहा करें। हे इन्द्र ऐश्वर्यवन्! (अर्वाञ्चं)  
शत्रुनाशक सैन्य गण से युक्त (त्वा) तुझे को (अध्वर-श्रियः सप्तयः)  
शत्रुओं से न पराजित होने वालों की शोभा को धारण करने वाले वा  
युद्ध यज्ञ की शोभा धारण करने वाले, वेग से जाने वाले वीरगण  
(सवना इत् उप वहन्तु) नाना ऐश्वर्य अधिकार तुझे प्राप्त करावें।

प्र पूषणं वृणीमहे युज्याय पुरुवसुम् ।

स शक्र शिञ्ज पुरुहूत नो धिया तुजे राये विमोचन ॥१५॥३२॥

भा०—हम (युज्याय) मित्रभाव के लिये वा उत्तम पद पर  
नियुक्त करने के लिये (पूषणं) पोषक (पुरु-वसु) बहुत से ऐश्वर्य और  
राष्ट्र में बसें जनों के स्वामी को (वृणीमहे) वरण करें। हे (शक्र)  
शक्तिशालिन्! हे (पुरु-हूत) बहुत से मनुष्यों से स्वीकृत! हे (वि-मोचन)  
दुःखों और बन्धनों से छुड़ाने हारे! (सः) वह तू (नः) हमें (तुजे)  
शत्रु के नाश करने और प्रजा को शरण देने तथा (राये) ऐश्वर्य  
की वृद्धि करने के लिये (धिया) बुद्धिपूर्वक (शिञ्ज) शक्त बना,  
उत्तम शिक्षा दे।

सं नः शिशीहि भुरिजोरिव क्षुरं रास्व रायो विमोचन ।

त्वे तन्नः सुवेदमुस्त्रियं वसु यं त्वं हिनोषि मर्त्यम् ॥ १६ ॥

भा०—(भुरिजोः इव क्षुद्रम्) दोनों बाहुओं में पकड़ कर जिस  
प्रकार छुरे को तेज करते हैं उस प्रकार हे राजन्! हे (विमोचन) कर्षों



और बन्धनों से छुड़ाने हारे ! तू ( भुरिजोः ) दोनों पालनशील बाहुओं में सुरक्षित कर ( नः ) हमें ( सं शिशीहि ) अच्छी प्रकार तीक्ष्ण कर, उत्तम रूप से शासित और प्रखर शक्ति वाला बना । और ( रायः रास्व ) नाना ऐश्वर्य प्रदान कर । ( त्वं ) तू ( यं ) जिस ( मर्त्यम् ) मनुष्य वर्ग को या शत्रु को मारने वाले सैन्य को ( हिनोपि ) अपने अधीन सञ्चालित करता है, हे राजन् ! ( त्वे ) तेरे अधीन ( नः ) हमारा ( उस्त्रियं ) गवादि पशुसम्पदा से युक्त, ( तत् वसु ) वही राष्ट्र में बसा धन ( सुवेदम् ) सुख से प्राप्त करने योग्य, सर्वोत्तम है । राजा के शस्त्र-बल और प्रजाजन ही सर्वोत्तम धन हैं । वह स्वर्णादिक को प्रजा से उत्तम न समझे, न उसके लिये प्रजा का नाश करे ।

वेमिं त्वा पूषन्नृञ्जसे वेमिं स्तोतव आघृणे ।

न तस्य वेम्यरणं हि तद्वसो स्तुषे पञ्जाय साम्ने ॥ १७ ॥

भा०—हे ( पूषन् ) पोषण करनेहारे ! ( ऋञ्जसे ) उत्तम रीति से कार्य करने के लिये मैं प्रजावर्ग ( त्वा ) तुझे ( वेमि ) चाहता हूँ । हे ( आ-घृणे ) सब ओर से प्रदीप्त, सूर्यवत् तेजस्विन् ! ( स्तोतवे ) स्तुति करने के लिये भी ( त्वा वेमि ) तुझे ही चाहता हूँ । हे ( वसो ) सबको बसाने और सब में बसने वाले प्रभो ! ( अरणं हि तत् ) क्योंकि वह रमणीय या सुखजनक नहीं है इसलिये ( तस्य न वेमि ) उसकी मैं चाहना भी न करूँ । ( पञ्जाय ) विद्वान् ( साम्ने ) सबके लिये समान रूप से आदर योग्य, सबके प्रति समान व्यवहार करने वाले श्रेष्ठ पुरुष की मैं ( स्तुषे ) स्तुति करता हूँ ।

‘साम’—साम्ना समानयम्, तत्साम्नः सामत्वम् । तै० २।२।८।७॥ समेथ्य साम प्राजनताम् तत्साम्नः सामत्वम् । जै० उ० १।५।१।२॥ तद् यत् संयन्ति तस्मात्साम । जै० उ० १।३३।६।७॥ समा उ ह वा अस्मिन् छन्दांसि साम्यात् ॥ सा० १।१।५॥ तद् यदेष सर्वैः लोकैः समस्तस्मादेषः

एव साम ॥ जै० ३०१।१२।५॥ साम इति छन्दोगाः उपासते । एतस्मिन् हि इदं सर्वं समानम् । श० १०।५।२।२०॥ यो वै भवति, यः श्रेष्ठतामश्नुते सः सामन् भवति । असामान्य इति ह निन्दन्ति । ऐ० ३।२३॥ तद्यत् सा च अमश्च तत्साम अभवत् ॥ जै० ३०१।५३।५॥ यद्वै तत्सा च अमश्च सम-चदतां तत्साम अभवत् । गो० उ० ३।२०॥

( १ ) जिसे सब आदर से मिलकर लावें ( २ ) सब मिलकर चनावें या करें, ( ३ ) सब मिलकर चलें, ( ४ ) जिसमें या जिसके अधीन सब समान हों, ( ५ ) जो सबके बराबर हो, जिसमें सब समान हों, ( ६ ) जो सबसे श्रेष्ठ हो, ( ७ ) वह प्रजा और उसका सहवर्त्ती राजा दोनों मिलकर संवाद करते हैं वह 'साम' है ।

परा गावो यवसं कच्चिदाघृणो नित्यं रेक्णो अमर्त्य ।

अस्माकं पूषन्नविता शिवो भव मंहिष्ठो वाजसातये ॥ १८ ॥

भा०—हे ( आघृणे ) सब प्रकार से प्रकाशमान ! तेजस्विन् ! हे अमर्त्य ! साधारण मनुष्यों में विशेष ! ( कच्चिद् ) जब कभी भी ( गावः ) गौवें ( यवसम् ) चारे का लक्ष्य कर ( परा ) दूर भी हों तो भी ( रेक्णः ) वह धन ( नित्यं ) स्थिर बना रहे, उसे कोई न हरे । हे ( पूषन् ) पोषक स्वामिन् ! तू ( अस्माकम् अविता ) हमारा रक्षक और ( शिवः ) कल्याणकारक ( भव ) हो । और तू ( वाजसातये ) ऐश्वर्य के संविभाग चल को प्राप्त करने के लिये ( मंहिष्ठः ) अति दानशील और सर्वपूज्य ( भव ) हो ।

स्थूरं राधः शताश्वं कुरुङ्गस्य दिविष्टिषु ।

राज्ञस्त्वेपस्य सुभगस्य रातिषु तुर्वशेष्वमन्महि ॥ १९ ॥

भा०—( दिविष्टिषु ) उत्तम दान देने और उत्तम इच्छाओं, अभिलाषाओं वाले ( रातिषु ) दानशील, ( तुर्वशेषु ) चारों पुरुषार्थों के इच्छुक मनुष्यों के ऊपर ( कुरुङ्गस्य ) कर्म करने वाले समस्त जीवों को

भी प्राप्त उनमें भी व्यापक ( राज्ञः ) दीप्तियुक्त, स्वयंप्रकाश, ( त्वेषस्य ) कान्तिमान्, तीक्ष्ण, ( सुभगस्य ) उत्तम ऐश्वर्यवान् प्रभु के ( शताश्वं ) अश्वों सूर्यादि से, वा भोक्ता जीवों से सम्पन्न ( स्थूरं राधः ) बड़े भारी ऐश्वर्य को देखकर हम ( अमन्महि ) उसका मनन करें, मान आदर करें ।  
धीभिः सातानि कारवस्य वाजिनः प्रियमेधैरभिद्युभिः ।

षष्टिं सहस्रानु निर्मजामजे निर्युथानि गवामृषिः ॥ २० ॥

भा०—( वाजिनः ) ऐश्वर्यवान् ( काण्वस्य ) विद्वान् राजा के ( गवां ) वेग से जाने वाले अश्वों के ( षष्टिं सहस्रा ) ६०००० साठ २ हजार के ( यूथानि ) समूह ( अभिद्युभिः ) तेजस्वी ( प्रियमेधैः ) यज्ञ के प्रिय, विद्वानों, शत्रुहिंसन के प्रिय ( धीभिः ) बुद्धिमान् पुरुषों द्वारा ( सातानि ) अच्छी प्रकार विभक्त हों । उनको ( ऋषिः ) उत्तम द्रष्टा निरीक्षक पुरुष ( अनु निर्मज ) प्रति दिन पूरी तरह से सञ्चालित करे । ( २ ) इसी प्रकार ( वाजिनः कण्वस्य ) ऐश्वर्य, ज्ञान और बलशाली मेघवान् प्रभु की ( निर्मजाम् गवां षष्टिं सहस्रा यूथानि ) अति शुद्ध गौ, अर्थात् वाणियों के ६० हजार के समूह ( अभिद्युभिः प्रियमेधैः ) सब प्रकार से ज्ञान-प्रकाशों से युक्त यज्ञप्रिय विद्वानों द्वारा ( सातानि ) विभक्त किये जावें । और उनको ( ऋषिः ) मन्त्रद्रष्टा ऋषि वा उत्तम शिष्य ( अनु निर्मज ) अनुकूल रूप से पूर्ण, यथार्थ ज्ञान करे ।

वृक्षाश्चिन्मे अभिपित्वे अरारणुः ।

गां भजन्त मेहनाश्वं भजन्त मेहना ॥ २१ ॥ ३३ ॥ ७ ॥

भा०—( वृक्षाः चित् ) वृक्ष जिस प्रकार वायु का झकोरा लगने पर मर्मर ध्वनि करते हैं, वे जिस प्रकार ( मेहना ) वृष्टियुक्त ( गां भजन्त ) भूमि का सेवन करते हैं और ( मेहना अश्वं भजन्त ) वृष्टिकारक आशु-गामी वायु का सेवन करते हैं उसी प्रकार ( मे ) मुझ स्वामी को ( अभिपित्वे ) प्राप्त होने पर ( वृक्षाः चित् ) भूमि को वश करके बैठे हुए भूपति

लोग भी ( अरारणुः ) हर्षध्वनि करते हैं । वे ( गां ) उत्तम भूमि को ( भजन्त ) प्राप्त करते तथा ( मेहना अश्वं भजन्त ) उत्तम अश्वदि सैन्य को प्राप्त करते हैं । इति त्रयस्त्रिंशो वर्गः । इति सप्तमोऽध्यायः ॥

अष्टमोऽध्यायः

[ ५ ]

ब्रह्मातिथिः काण्व ऋषिः ॥ देवताः—१—३७ अश्विनौ । ३७—३९ चैद्यस्य कशोदानस्तुतिः ॥ छन्दः—१, ५, ११, १२, १४, १८, २१, २२, २६, ३२, ३३, निचृद् गायत्री । २—४, ६—१०, १५—१७, १९, २०, २४, २५, २७, २८, ३०, ३४, ३६ गायत्री । १३, २३, ३१, ३५ विराड् गायत्री । १३, २६ आर्चीं स्वराड् गायत्री । ३७, ३८ निचृद् बृहती । ३९ आर्षीं निचृदनुष्टुप् ॥ एकोनचत्वारिंशदृचं सूक्तम् ॥

दूरादिहेव यत्सत्यरुणप्सुरशिश्चितत् ।

वि भानुं विश्वधातनत् ॥ १ ॥

भा०—( यत् ) जिस प्रकार ( अरुणप्सुः ) अरुण, कान्तियुक्त रूप वाली उपा ( दूरात् सती ) दूर रहकर भी ( इह एव ) यहां ही, समीप विद्यमान के समान ही ( अशिश्चितत् ) जगत् भर को श्वेत कर देती है और ( विश्वधा ) सब प्रकार से ( भानुं ) कान्ति को ( वि अतनत् ) विस्तारित करती है उसी प्रकार ( अरुणप्सुः ) अरुण कान्तियुक्त, स्वस्थ नवयुवति ( दूरात् सती ) दूर देश में रहती हुई भी, सती, सच्चरित्र स्त्री ( इह इव ) जैसे यहां हो ऐसे गृहवत् ही ( अशिश्चितत् ) अपने चरित्र से जगत् को शुभ्र कर देती है और ( विश्वधा ) सब प्रकार से ( भानुं वि अहनत् ) अपनी कीर्त्ति दीप्ति को फैलाती है ।

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः ।

स्त्रियः श्रियश्च गोहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ मनु० १।२६॥

नृवद्दक्षा मनोयुजा रथेन पृथुपाजसा ।

सचेथे अश्विनोपसम् ॥ २ ॥

भा०—हे ( दक्षा ) दर्शनीय वा दुष्टों वा शरीरस्थ दोषों के नाश करने वाले स्त्री पुरुषो ! मुख्य नायको, प्राण उदानवत् हे ( अश्विना ) दो अश्वों पर चढ़े नायकों के समान अश्वों, इन्द्रियों और मन के स्वामी जितेन्द्रिय, जितमनस्क जनो ! ( नृवत् ) दो नायकों के समान आप दोनों ( मनः-युजा ) मन रूप सारथि या अश्व की शक्ति से युक्त ( पृथु-पाजसा ) अधिक बलशाली ( रथेन ) दृढ़ रथदेह से युक्त होकर ( उपसम् सचेथे ) अपने चाहने वाले को प्राप्त होओ । ( २ ) दो वीर नायक शत्रुपीड़क सेना को प्राप्त करें । ( ३ ) प्राण उदान मनोयोग युक्त रथ अर्थात् व्यापार से अर्थात् योगाभ्यासवश विशोका रूप उपा को प्राप्त करावें ।

युवाभ्यां वाजिनीवसु प्रति स्तोभा अदक्षत ।

वाचं दूतो यथोहिषे ॥ ३ ॥

भा०—हे ( वाजिनी-वसु ) अन्न बल और ऐश्वर्य से युक्त प्रजा, सेना भूमि और यागादि क्रिया से उत्पन्न धन के स्वामी स्त्रीपुरुषो ! ( युवाभ्यां ) आप दोनों के लिये ( स्तोभाः ) उत्तम स्तुतिवचन ( प्रति अदक्षत ) प्रत्येक कार्य में दीखें । ( यथा दूतः ) दूत के समान मैं ( वाचं ओहिषे ) वाणी को धारण करता हूँ ।

पुरुप्रिया रा ऊतये पुरुमन्द्रा पुरुवसू ।

स्तुषे करवांसो अश्विना ॥ ४ ॥

भा०—( अश्विना ) उत्तम जितेन्द्रिय स्त्री पुरुष दोनों ( पुरुप्रिया ) बहुत को प्रिय, ( पुरुमन्द्रा ) बहुतों को प्रसन्न करने वाले और ( पुरुवसू ) बहुत से ऐश्वर्यों के स्वामी होकर ( नः ऊतये ) हमारी रक्षा के लिये

हों। उन दोनों को ( कण्वासः ) विद्वान् उपदेशा लोग ( स्तुषे ) उपदेश करने के लिये हों।

मंहिष्ठा वाजसातमेपयन्ता शुभस्पती ।

गन्तारा दाशुषो गृहम् ॥ ५ ॥ १ ॥

भा०—हे विद्वान् स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( मंहिष्ठा ) अति पूज्य ( वाज-सातमा ) ज्ञान, अन्न बल के देने वालों में उत्तम ( इषयन्ता ) उत्तम अन्न की कामना करने वाले ( शुभः पती ) उत्तम कल्याण कर्म और शुद्ध जल को पालन वा पान करने वाले स्वयं पति पत्नी ( दाशुषः गृहम् ) ज्ञानादि देने वाले के गृह को ( गन्तारा ) जाने वाले होओ। इति प्रथमो वर्गः॥

ता सुदेवाय दाशुषे सुमेधामवितारिणीम् ।

घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम् ॥ ६ ॥

भा०—( ता ) वे आप दोनों उत्तम विद्वान् और उत्तम विजिगीषु वा विद्यादि के अभिलाषी शिष्यों के स्वामी ( दाशुषे ) ज्ञानदाता गुरु, आचार्य वा धनप्रद स्वामी की ( सु-मेधाम् ) उत्तम बुद्धियुक्त ( अवितारिणीम् ) विनाश न होने देने वाली ( गव्यूतिम् ) वाणियों के सम्मिश्रण होने की यज्ञ क्रिया वा नीति को गोचर भूमि के समान ही ( घृतैः उक्षतम् ) स्नेहों और घृतादि पवित्र पदार्थों वा ( घृतैः ) जलों से सींचो, बढ़ाओ, उन्नत करो।

आ नः स्तोममुप द्रवत्तृथं श्येनेभिराशुभिः ।

यातमश्वेभिरश्विना ॥ ७ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) उत्तम अश्वों और इन्द्रियों के स्वामी जनो ! आप दोनों ( नः ) हमारे ( द्रवत् तृथम् ) शीघ्र शीघ्र ही ( नः ) हमारे ( स्तोमम् उप ) स्तुत्य उपदेश को प्राप्त करने के लिये ( श्येनेभिः ) उत्तम गति वाले सदाचारी, ( आशुभिः ) शीघ्रगामी और ( अश्वेभिः ) अश्वोंवत् प्राण वृत्तियों से ( उप यातम् ) प्राप्त होओ।

येभिस्त्रिभ्यः परावतो दिवो विश्वानि रोचना ।

त्रीरङ्कूपरिदीयथः ॥ ८ ॥

भा०—( येभिः ) जिन वेग युक्त साधनों से तुम दोनों ( तिस्रः दिवः त्रीन् अक्तून् ) तीन दिन और तीन रातों में ही ( परावतः ) दूर के समस्त देशों और ( विश्वानि रोचना ) समस्त रुचिकर स्थानों को भी ( परि दीयथः ) परिभ्रमण कर सको उन ही साधनों से हमारे ( स्तोमम् उपयातम् ) स्तुत्य यज्ञादि कार्य को भी प्राप्त होओ ।

उत नो गोमतीरिषं उत सातीरहर्विदा ।

वि पथः सातये सितम् ॥ ९ ॥

भा०—हे ( अहर्विदा ) दिन को प्राप्त कराने या ज्ञान करा देने वाले उषा सूर्यवत् वा सूर्य चन्द्रवत् ( अहर्विदा ) अविनाशी आत्मा को जानने वाले वा दिन कृत्य के ज्ञाता जनो ! आप दोनों ( उत ) भी ( नः ) हमारी ( गोमतीः इषः ) उत्तम वाणियों से युक्त इच्छाओं और ( गोमतीः इषः ) भूमियों से युक्त वा गोरस—दुग्ध, दही घृतादि से युक्त अन्नों को ( उत सातीः ) सेवन योग्य सम्पदाओं को प्राप्त करो और ( पथः सातये ) सन्मार्गों के प्राप्त करने और सेवन के लिये ( वि सितम् ) विविध प्रकार से नियम बन्धन करो ।

आ नो गोमन्तमश्विना सुवीरं सुरथं रथिम् ।

वोढ्हमश्वावतीरिषः ॥ १० ॥ २ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! ( नः ) हमें ( गोमन्तं ) गौओं से युक्त, ( सु-वीरं ) उत्तम वीरों वाले ( सुरथं रथिम् ) उत्तम रथसम्पन्न ऐश्वर्य को ( आ वोढम् ) प्राप्त कराओ । और ( अश्वावतीः इषः ) अश्वों वाली सेनाओं को भी ( आ वोढम् ) धारण और वश करो । इति द्वितीयो वर्गः ॥

वांवृधाना शुभस्पती दस्त्रा हिरण्यवर्तनी ।

पिवतं सोम्यं मधु ॥ ११ ॥

भा०—हे ( दत्ता ) दुःखों के नाश करने वाले आप दोनों ( शुभः-पता ) उत्तम गुणों और कल्याणमय आचार का पालन करते हुए ( वावृ-धाना ) बढ़ते हुए ( सोम्यं मधु पिबतम् ) ओषधिरस से युक्त मधु एवं मधुर अन्न, जल का उपभोग करो ।

अस्मभ्यं वाजिनीवसू मधवद्भ्यश्च सुप्रथः ।

छुर्दिर्यन्तमदाभ्यम् ॥ १२ ॥

भा०—हे ( वाजिनी वसू ) अन्न, ऐश्वर्य बल आदि उत्पन्न करने वाली क्रिया सेना आदि को धनवत् पालन करने वाले वीर विद्वान् स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( अस्मभ्यम् ) हमारे और ( मधवद्भ्यश्च ) उत्तम धनसम्पन्न पुरुषों के उपकार के लिये ( अदाभ्यम् छुर्दिः ) न नाश होने योग्य, सुखप्रद गृह प्रदान करो ।

नि पु ब्रह्म जनानां याविष्टं तूयमा गतम् ।

मो प्वान्याँ उपारतम् ॥ १३ ॥

भा०—हे शक्तिमान् सेनापति, और सैन्य वर्ग जनो ! ( यौ ) जो आप दोनों ( जनानां ब्रह्म ) मनुष्यों के धन, अन्न और बृहत् राष्ट्र को ( नि सु अविष्टम् ) अच्छी प्रकार रक्षा करते हो वे आप दोनों ( तूयम् आ गतम् ) शीघ्र प्राप्त होओ । ( अन्यान् ) औरों को ( मो सु उपारतम् ) मत प्राप्त होओ ।

अस्य पिबतमश्विना युवं मदस्य चारुणः ।

मध्वो रातस्य धिष्ण्या ॥ १४ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) रथी सारथिवत् अश्वों, एवं इन्द्रियों तथा वेगयुक्त साधनों के स्वामी जनो ! आप दोनों ( धिष्ण्या ) स्तुतियोग्य, उत्तम बुद्धियुक्त और पूज्य आसन वा पदों के योग्य होकर ( एतस्य ) आदर पूर्वक दिये ( अस्य चारुणः मदस्य ) इस उत्तम वृत्तिजनक मधुर मधुपर्कादि अन्न का ( पिबतम् ) पान, उपभोग करो ।



अस्मे आ वहतं रयिं शतवन्तं सहस्रिणाम् ।

पुरुक्षुं विश्वधायसम् ॥ १५ ॥ ३ ॥

भा०—हे जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! वा रथी सारथिवत् राजा और सचिव जनो ! आप दोनों ( अस्मे ) हमारे लिये ( शतवन्तं ) सौ और ( सहस्रिणं ) हजार संख्यायुक्त ( रयिं ) ऐश्वर्य ( आवहतम् ) प्राप्त कराओ । वह ऐश्वर्य ( पुरुक्षुं ) बहुतों को अन्न देने और बसाने में समर्थ और ( विश्व-धायसम् ) सबका पालक पोषक हो । इति तृतीयो वर्गः ॥

पुरुत्रा चिद्धि वां नरा विह्वयन्ते मनीषिणः ।

वाघङ्गिरश्विनागतम् ॥ १६ ॥

भा०—हे ( नरो ) नायक जनो ! अमात्य राजा वा स्त्री पुरुषो ! (मनीषिणः) मनस्वी ज्ञानी लोग (वां) आप दोनों को ( पुरुत्र चित् हि ) बहुत से कार्यों में ( वि-ह्वयन्ते ) विशेष रूप से आदर पूर्वक बुलावें । आप दोनों ( वाघङ्गिः ) भार वहन करने में समर्थ अश्वों के समान क्षमता-युक्त विद्वान् पुरुषों सहित ( आ गतम् ) आओ ।

जनासो वृक्तवर्हिषो हविष्मन्तो अरङ्कृतः ।

युवां ह्वन्ते अश्विना ॥ १७ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) अश्व अर्थात् राष्ट्र के स्वामी राजा और अमात्य, सेना-सभा के अध्यक्ष जनो ! ( युवां ) आप दोनों को ( वृक्त-वर्हिपः ) कुशा को काट लाने वाले यज्ञशील पुरुषों के समान ( वृक्त-वर्हिपः ) अपने बढ़ते शत्रुओं को काट गिराने वाले ( हविष्मन्तः ) अन्नादि उत्तम समृद्धि-मान् ( अरङ्कृतः ) अत्यन्त उद्योग से कार्य करने वाले, कर्मण्य जन (हवन्ते) बुलाते हैं वा तुम को अपना प्रधान स्वीकार करते हैं ।

अस्माकमद्य वामयं स्तोमो वाहिष्ठो अन्तमः ।

युवाभ्यां भूत्वश्विना ॥ १८ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) अश्वादि सैन्य, राष्ट्र और विद्यादि में निष्णात

विद्वानों के स्वामी जनो ! ( अत्माकम् ) हमारा ( अयं ) यह ( वां ) आप दोनों को लक्ष्य करके किया ( स्तोमः ) स्तुति योग्य उपदेश वचन एवं व्यवहार ( युवाभ्यां ) आप दोनों के लिये ( अन्तमः ) अति समीप और ( वाहिष्ठः ) अति सुख प्राप्त कराने वाला और रथ के समान जीवन को सुख से यापन करा देने वाला ( भूतु ) हो ।

यो ह वां मधुनो दृतिराहितो रथचर्षणे ।

ततः पिवत्तमश्विना ॥ १९ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) रथी सारथिवत्, जितेन्द्रिय, विद्यावान् एवं अश्वों, राष्ट्रादि के स्वामी जनो ! जिस प्रकार ( रथचर्षणे आहितः दृतिः ) रथ को खँचने के स्थान पर जल की मशक लटकी रहती है और रथस्य पुरुष ( मधुनः पिवतः ) जल का पान और अन्न का भोजन करते हैं उसी प्रकार ( रथचर्षणे ) रमण योग्य गृहस्थ वा राष्ट्र कार्य के उठाने के समय भी ( वां ) आप दोनों के लिये ( मधुनः ) मधुर अन्न, जल तथा ऐश्वर्य का ( यः ) जो ( दृतिः ) पात्र ( आहितः ) आदर पूर्वक प्रस्तुत किया जावे ( ततः ) उससे ( पिवतम् ) जल अन्नादि का अवश्य उपभोग करो । अथवा—( यः मधुनः ) जो 'मधु' अर्थात् शत्रु का दमन या पीड़क करने में समर्थ ( दृतिः ) शत्रु को काट गिराने में समर्थ शस्त्रास्त्र सैन्य ( आहितः ) राष्ट्र के सब ओर स्थापित हो ( ततः ) उसके बल पर ( पिवतम् ) राष्ट्र का पालन और उपभोग करो ।

तेन नो वाजिनीवसू पश्वे तोकायु शं गेवे ।

चहत्तं पीवरीरिपः ॥ २० ॥ ४ ॥

भा०—हे ( वाजिनीवसू ) 'वाजिनी' अर्थात् ज्ञानयुक्त बुद्धि, बल युक्त सेना और ऐश्वर्य युक्त समृद्धि, भूमि आदि के ऐश्वर्य के स्वामी ! आप दोनों ( तेन ) उस पूर्वोक्त मधु से पूर्ण पात्र वा शत्रुकर्षक बल से ( नः ) हमारे ( पश्वे ) पशुओं की रक्षा ( तोकाय ) सन्तानों के पालन

और ( गवे शं ) गौओं की शान्ति कल्याण के लिये ( पीवरीः इपः )  
अति हृष्ट पुष्ट सेनाओं और अन्न सम्पदाओं को ( वहतं ) धारण करो ।  
और हमें प्राप्त कराओ । इति चतुर्थो वर्गः ॥

उत नो दिव्या इष उत सिन्धूरहविदा ।

अपु द्वारेव वर्षथः ॥ २१ ॥

भा०—हे (अहविदा) दिन के समस्त कृत्यों को रीति से जानने वाले  
प्रधान और गौण जनो ! आप दोनों ( नः ) हमारे लिये ( दिव्याः इपः )  
उत्तम २ अन्न और विजयोद्योगिनी सेनाओं को ( उत ) और ( सिन्धून् )  
बहने वाली जल धाराओं और वेगवान् अश्वों को ( द्वारा इव ) उत्तम  
साधनों, द्वारों और मार्गों से ( अप वर्षथः ) दूर तक वर्षाओ, पहुंचाओ  
और लेजाओ ।

कदा वां तौग्न्यो विधत्समुद्रे जहितो नरा ।

यद्वां रथो विभिष्पतात् ॥ २२ ॥

भा०—(तौग्न्यः) 'तुग्र' अर्थात् शत्रुओं को मारने में समर्थ पुरुषों में  
कुशल, उनका स्वामी सेनापति । हे ( नरा ) नायक वरो ! ( समुद्रे )  
उमड़ते हुए शत्रु सैन्य के बीच ( जहितः ) आकर ( वां ) तुम दोनों की  
( कदा ) कब ( विधत् ) सेवा करे ? [उत्तर] ( यत् ) जब ( वां ) तुम  
दोनों का ( रथः ) रथ सैन्य ( विभिः ) वेगवान् अश्वों से ( पतात् )  
प्रयाण करे ।

युवं करवाय नासत्यापिरिप्ताय हर्म्ये ।

शश्वद्वृतीदिशस्यथः ॥ २३ ॥

भा०—हे ( नासत्यौ ) सत्य का उपदेश देने और सत्य का विधान  
करने और कभी असत्य व्यवहार न करने वाले जनो ! ( युवं ) आप दोनों  
( हर्म्ये ) उत्तम गृह में रहते हुए ( अपि-रिप्ताय कृण्वाय ) पीड़ित विद्वान्

जन को बचाने के लिये ( शश्वत् ) सदा ( जतीः दशत्वथः ) नाना रक्षाएं अन्नादि तृप्तिकारक पदार्थ भी प्रदान किया करो ।

ताभिरा यातमूतिभिर्नव्यसीभिः सुशस्तिभिः ।

यद्वां वृषण्वसू हुवे ॥ २४ ॥

भा०—हे ( वृषण्वसू ) बलवान् पुरुषों को राष्ट्र में बसाने वाले नायक पुरुषो ! ( यत् वां ) अब मैं आप दोनों को ( हुवे ) प्रजाजन पुकारूं, अवसर पर चाहूं । तब २ आप दोनों ( ताभिः ) इन नाना ( नव्य-सीभिः ) अति नवीन, अति उत्तम ( सु-शस्तिभिः ) शासन व्यवस्थाओं और ( जतिभिः ) रक्षा साधनों सहित ( आ-यातम् ) प्राप्त होओ ।

यथा चित्करवमावतं प्रियमेधमुपस्तुतम् ।

आत्रिं शिञ्जारमश्विना ॥ २५ ॥ ५ ॥

भा०—( यथा चित् ) जैसे भी हो वैसे हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय उत्तम बलवान् विद्यावान् स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( कण्वम् आ अवतम् ) विद्वान् पुरुष की रक्षा किया करो । और आप दोनों ( उप-स्तुतम् ) प्रशंसनीय ( प्रिय-मेधम् ) यज्ञ और युद्धादि के प्रिय विद्वान् और वीर पुरुष की रक्षा करो । और ( शिञ्जारम् ) मधुर शब्द करने और मधुर वचन कहने वाले वाद्य, गान प्रिय एवं कवि और उत्तम उपदेष्टा वर्ग की भी रक्षा करो । इति पञ्चमो वर्गः ॥

यथोत कृत्ये धनेऽशुं गोष्वगस्त्यम् ।

यथा वाजेपुं सोभरिम् ॥ २६ ॥

भा०—हे उत्तम विद्वान् बलवान् स्त्री पुरुषो ! ( यथा उत ) और जैसे हो वैसे, ( कृत्ये धने ) धन को पैदा करने के लिये ( अंशुम् ) खाने और भोगने योग्य अन्नादि की रक्षा करो । और ( गोषु ) किरणों के प्राप्त्यर्थ ( अगस्त्यम् ) सूर्य और भूमियों को सम्पन्न बनाने के लिये स्थावर पर्वत वृक्षों की रक्षा करो । ( यथा ) जैसे हो वैसे ( वाजेपु ) ज्ञानों, अन्नों

और बलों की रक्षा के लिये ( सोभरिम् ) उत्तम रीति से उनके पालक की रक्षा करो ।

ए॒ताव॑द्वां वृष॑णवसू अतो॑ वा भूयो॑ अश्वि॒ना ।

गृण॑न्तः सु॒म्नमी॑महे ॥ २७ ॥

भा०—हे ( वृषण-वसू ) बलवान् शासकों को राष्ट्र में बसाने वाले वा उनको अपना धन समझने वाले प्रधान पुरुषो ! ( गृणन्तः ) आप दोनों के प्रति उपदेश करते हुए हम प्रजाजन ( वाम् ) आप दोनों के ( एतावत् ) इतना ( सुम्नम् ) सुखकारी ऐश्वर्य वा ( अतो वा भूयः ) इससे भी अधिक की ( ईमहे ) याचना करते हैं ।

रथं॑ हिर॑ण्यवन्धुरं॑ हिर॑ण्यभीशुमश्वि॒ना ।

आ हि॑ स्थार्थो॑ दि॒विस्पृ॑शम् ॥ २८ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) 'अश्व' अर्थात् वेग से जाने वाले रथ विमान विद्युत्, अग्नि, जल आदि के स्वामी, तत्सम्बन्धी कार्यकुशल विद्वान् एवं शिल्पी जनो ! पुरुषो ! आप दोनों ( हिरण्यवन्धुरम् ) सुवर्ण, लोह आदि धातु से सुन्दर, कान्तियुक्त ( हिरण्याभीशुम् ) उत्तम लोहादि धातु की बनी रोक-थाम वाले ( दिवि-स्पृशम् ) आकाश और भूमि दोनों को स्पर्श करने वाले दोनों यथेच्छ जाने वाले, ( रथं स्थाथः हि ) रथपर विराजा करो ।

हि॒रण्ययी॑ वां राभि॑रीषा अक्षो॑ हिर॑ण्ययः ।

उ॒भा च॑क्रा हि॒रण्यया॑ ॥ २९ ॥

भा०—हे विद्वान् शिल्पी जनो ! ( वां ) तुम दोनों के ( इषाः ) रथ के अग्र दण्ड ( रभिः ) दृढ़ और ( हिरण्ययी ) सुवर्णादि उत्तम धातु के बने हों और ( अक्षः हिरण्ययः ) अक्ष भी लोह के दृढ़ बने हों । ( उभा ) दोनों ( चक्रा ) चक्र भी ( हिरण्यया ) लोह से बने, दृढ़ हों ।

तेन॑ नो वाजि॑नीवसू॑ परा॒वत॑श्चि॒दा ग॑तम् ।

उपे॑मां सु॒ष्टुति॑ मम ॥ ३० ॥ ६ ॥

भा०—हे ( वाजनीवसू ) बलवती सेना और अन्नसम्पदा वाली भूमि के स्वामी जनो ! ( तेन ) इस प्रकार के पूर्वोक्त रथ से ( परावतः चित् ) दूर देश से भी ( नः आगतम् ) आप लोग हमारे पास आया करो, ( इमाम् ) इस ( मम सु-स्तुतिम् ) मेरी उत्तम स्तुति, वचन, उपदेशादि श्रवण किया करो । इति षष्ठो वर्गः ॥

आ वहेथे पराकात्पूर्वीरश्रन्तावश्विना ।

इपो दासीरमर्त्या ॥ ३१ ॥

भा०—हे ( अमर्त्या ) असाधारण मनुष्यो ! आप दोनों (पराकात्) दूर देश से प्राप्त होने वाली ( इपः आ वहेथे ) अन्नादि सामग्रियों को लाया करो । और ( पूर्वीः ) पूर्व प्राप्त अन्नो को ( अश्रन्ता ) भोग करते हुए ( दासीः ) भृत्यादि प्रजा को भी नहीं अन्न सामग्री लाते रहो । उसी प्रकार ( पराकात् ) दूर देशों तक भी ( इपः ) तीव्र ( दासीः वहेथे ) शत्रुनाशक सेनाएं रक्खो ।

आ नो द्युम्नैरा श्रवोभिरा राया यातमश्विना ।

पुरुश्चन्द्रा नासत्या ॥ ३२ ॥

भा०—हे ( नासत्या ) कभी असत्य का आचारण न करने वाले एवं सत्य ही की व्यवस्था करने वाले ( अश्विना ) राष्ट्र, बल के स्वामी जनो ! आप दोनों ( पुरु-चन्द्रा ) बहुत से प्रजावर्गों को आह्लादित करने वाले तथा बहुत से सुवर्णादि धनों के स्वामी होओ और ( नः ) हमें ( द्युम्नैः ) यशों, धनों, ( श्रवोभिः ) अन्नो, श्रवण योग्य ज्ञानों और प्रशंसाओं ( राया ) और ऐश्वर्य सहित ( नः आ उप यातम् ) हमारे पास आया करो ।

एह वां प्रुषितप्सवो वयो वहन्तु परिणिः ।

अच्छा स्वध्वरं जनम् ॥ ३३ ॥

भा०—( इह ) इस राष्ट्र में ( प्रुषित-प्सवः ) स्निग्ध और उत्तम रीति

से परिपक्व भोजन करने वाले, (पर्णिनः) उत्तम रथों और वाहनों के स्वामी (वयः) पक्षिवत् शीघ्रगामी, तेजस्वी विद्वान् पुरुष घोड़ों के समान, नियुक्त होकर (वां) आप दोनों ही (सु-अध्वरं जनं) उत्तम यज्ञयुक्त प्रजावर्ग को (अच्छ आ हवन्त) भली प्रकार रथवत् धारण करें।

रथं वामनुगायसं य इषा वर्तते सह ।

न चक्रस्रभि वाधते ॥ ३४ ॥

भा०—(यः इषा सह वर्तते) जो अन्नादि तथा सैन्य से सम्पन्न है तुम दोनों के (अनु-गायसं) अनुगमन करने योग्य व प्रशंसनीय (रथम्) रमणीय राष्ट्र को (रथं चक्रं) रथ को चक्र के समान (चक्रं) चक्रवत् पर-सैन्य अथवा कर्मकर्तृगण (न अभि वाधते) नहीं पीड़ित करें।

हिरण्ययेन रथेन द्रवत्पाणिभिरश्वैः ।

धीजवना नासत्या ॥ ३५ ॥ ७ ॥

भा०—हे (नासत्या) नासिका में स्थित प्राणों के समान राष्ट्र में विद्यमान प्रमुख स्त्री पुरुषो ! आप दोनों (धी-जवना) कर्म और बुद्धि में तीव्र वेग से युक्त होकर (द्रवत् पाणिभिः अश्वैः रथेन) वेगयुक्त चरणों वाले अश्वों से युक्त रथ के समान ही (द्रवत्-पाणिभिः अश्वैः) शीघ्र कर्मकारी, कुशल, सिद्ध हस्त विद्वानों से सुसज्जित (हिरण्येन रथेन) सुवर्णादि से सन्नद्ध उत्तम राष्ट्र सहित हमें प्राप्त होओ। इति सप्तमो वर्गः ॥

युवं मृगं जागृवांसं स्वदथो वा वृषण्वसू ।

ता नः पृङ्क्मिषा रयिम् ॥ ३६ ॥

भा०—हे (वृषण्वसू) बलवान् पुरुषों को धनवत् पालन करने वाले राजा सचिव जनो ! (युवं) आप दोनों (मृगं) सिंहवत् बलवान्, (जागृवांसं) जागरणशील, सदा सावधान, पुरुष को (स्वदथः) उत्तम ऐश्वर्य तथा उत्तम पुष्टिकारक भोजन प्रदान करो। इस प्रकार वे

सेनादि के स्वामी लोग ( नः ) हमें ( इषा ) बलवती सेना सहित (रयिम् पृङ्क्तम् ) ऐश्वर्य प्राप्त कराओ ।

ता मे अश्विना सनीनां विद्यातं नवानाम् ।

यथा चिच्चैद्यः कशुः शतमुष्टानां ददत्सहस्रा दश गोनाम् ॥३७॥

भा०—हे ( अश्विना ) वेगयुक्त अश्वदि साधनों के स्वामी जनो !

(ता)वे आप दोनों (मे) मुझ विद्वान् वा राष्ट्र के (नवानाम्) नये नये (सनीनां)

योग्य ऐश्वर्यों और ज्ञानों का सदा (विद्यातम्) ज्ञान करते, जनाते वा प्राप्त कराते

रहो । ( यथा चित् ) जिससे ( चैद्यः कशुः ) विद्वानों में उत्तम ज्ञानदर्शी

और तेजस्वी पुरुष (उष्टानां) राष्ट्र में बसने और शत्रु को दग्ध करने वाले

( शतम् ) सैकड़ों प्रजाओं वा वीरों तथा (गोनाम् दशसहस्रा) दस सहस्र

भूमियों को भी ( ददत् ) प्रदान करे ।

यो मे हिरण्यसन्दशो दश राज्ञो अमंहत ।

अधुस्पदा इच्चैद्यस्य कृष्टयश्चर्मना अभितो जनाः ॥ ३८ ॥

भा०—( यः ) जो बड़ा राजा वा प्रभु ( मे ) मुझे (हिरण्यसंदशः)

सुवर्ण या सूर्य के समान दीखने वाले वा हित और रमणीय तत्व ज्ञान को

देखने वाले सम्यक् दर्शी ( दश राज्ञः ) दसों तेजस्वी, राजसभासदों को

( मे ) मेरे हितार्थ ( अमंहत ) राष्ट्र को प्रदान करता है उस ( चैद्यस्य )

ज्ञानी, विद्वानों में सर्वोत्तम पुरुष के ( अधःपदाः ) अधीन ( कृष्टयः )

रूपक, शत्रुपीडक जन, खड्ग और (अभितः) उसके चारों ओर (चर्मनाः

जनाः) चर्म, खड्ग आदि का अभ्यास करने वाले वीर पुरुष (इत्) अवश्य

रहते हैं । ( २ ) इसी प्रकार प्रभु परमेश्वर सब विद्वान् ज्ञानी जीवों में

आपक होने से 'चैद्य' है सब जीव कृष्ट भूमियों अन्न सम्पदादिवत् उत्पन्न होने

वाले होने से 'कृष्टि', जन्म लेने से 'जन' और चर्मवेष्टित देह को बार २ लेने

से वा चर्मवेष्टित देह में कर्मों और ज्ञानों का पुनः २ अभ्यास करने वाले

होने से जीव 'चर्मन्न' हैं । वे उसके ही अधीन रहते हैं । वह प्रभु मुझ



जीवगण को दस हित रमणीय ज्ञानप्रद दस तेजोयुक्त प्राणों, इन्द्रियों को प्रदान करता है ।

माकिरेना पथा गाद्येनेमे यन्ति चेदयः ।

अन्यो नेत्सूरिरोहते भूरिदावत्तरो जनः ॥ ३९ ॥ ८ ॥ १ ॥

भा०—( येन पथा ) जिस मार्ग से ( इमे चेदयः ) ये विद्वान् जन ( यन्ति ) गमन करते हैं ( एना पथा ) उस मार्ग से ( माकिः गात् ) कोई जा नहीं सकता । उनका मार्ग सुगम नहीं होता । ( अन्यः ) दूसरा कोई ( भूरिदावत्तरः जनः ) बहुत धनादि देने वाला और ( सूरिः ) विद्वान् भी ( नः ओहते ) इतना कार्य भारादि उठाने में समर्थ नहीं होता है । इत्यष्टमो वर्गः ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

### [ ६ ]

वत्सः काएव ऋषिः ॥ १—४५ इन्द्रः । ४६—४८ तिरिन्द्रिरस्य पारशव्यन्य दानस्तुतिर्देवताः ॥ इन्द्रः—१—१३, १५—१७, १६, २५—२७, २६, ३०, ३२, ३५, ३८, ४२ गायत्री । १४, १८, २३, ३३, ३४, ३६, ३७, ३९—४१, ४३, ४५, ४८ निचृद् गायत्री । २० आर्षी स्वराद् गायत्री । २४, ४७ पादनिचृद् गायत्री । २१, २२, २८, ३१, ४४, ४६ आर्षी विराद् गायत्री ॥

महाँ इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव ।

स्तोमैर्वत्सस्यै वावृधे ॥ १ ॥

भा०—( यः इन्द्रः ) जो ऐश्वर्यों का देने वाला परमेश्वर ( वृष्टिमान् पर्जन्यः इव ) वृष्टि करने वाले मेघ के समान ( इन्द्रः ) अन्न जलवत् नदी उत्तम फलों का देने वाला ( पर्जन्यः ) सर्वोत्कृष्ट विजयी, सब सुखों-रसों का दाता, वह प्रभु ( ओजसा महान् ) बल पराक्रम से महान् है । वह ( स्तोमैः ) उत्तम स्तुति वचनों और वैदिक सूक्तोपदेशों से गुरुवत् ( वत्सस्यै ) अधीनता

में बसने वाले शिष्यवत् प्रभु में ही निवास करने वाले एवं बालकवत् प्रिय भक्त की ( वावृधे ) सब प्रकार से वृद्धि करता है ।

प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्भरन्त वह्नयः ।

विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥ २ ॥

भा०—हे प्रभो ! ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञानमय ( पिप्रतः ) जगत् को पूर्ण करने वाले तेरी ( प्रजाम् ) उत्तम प्रजा को ( यत् ) जो ( वह्नयः ) सूर्यादि और जगत् में अग्निवत् ज्ञान प्रकाश के धारण करने वाले विद्वान् लोग ( प्र भरन्त ) अच्छी प्रकार प्रजा का भरण पोषण करते हैं वे ही ( ऋतस्य वाहसा ) सत्य ज्ञान को धारण करने से ( विप्राः ) सच्चे विप्र और विद्वान् हैं ।

करवा इन्द्रं यदक्रत स्तोमैर्यज्ञस्य साधनम् ।

जामि द्रुवत आयुधम् ॥ ३ ॥

भा०—( यत् ) जब ( कणाः ) विद्वान् पुरुष, ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् प्रभु को ( स्तोमैः ) उत्तम स्तुति वचनों से तथा अधिकारों, पदों से ( यज्ञस्य ) परस्पर मिलकर करने योग्य देवपूजा, संगतिकरण भावना, दान आदि सत्कर्मों का ( साधनम् ) साधक, निमित्त ( अक्रत ) बना लेते हैं तब वे ( आयुधम् ) सब संकष्टों को पराजित करने वाले आयुध के समान उस प्रभु को ही वे ( जामि द्रुवते ) अपना बन्धु कहने लगते हैं । वे उसी को सब से बड़ा बल, सब से बड़ा अस्त्र मानते हैं । अथवा जब वे प्रभु को ही सर्वोपास्य जान लेते हैं तब वे आयुध शस्त्रादि को भी ( जामि द्रुवते ) व्यर्थ बतलाया करते हैं । ईश्वर पर किया विश्वास ही उनका एकमात्र रक्षक होता है ।

समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृप्यः ।

समुद्रायैव सिन्धवः ॥ ४ ॥

भा०—( समुद्रायैव सिन्धवः ) नदियों जिस प्रकार समुद्र को

प्राप्त होने के लिये ( नमन्तः ) उसकी ओर ही झुक जाती हैं उसी प्रकार ( विश्वाः विशः कृष्टयः ) समस्त प्रजाएं, शत्रु कर्षण करने वाली सेनायें और कृषक जन ( अस्य मन्यवे ) इस प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करने के लिये उसी के समक्ष ( सं नमन्त ) मिलकर झुकती हैं । ( २ ) इसी प्रकार प्रवल राजा के ( मन्यवे ) क्रोध के आगे समस्त प्रजाएं झुकती हैं ।

ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवर्तयत् ।

इन्द्रश्चर्मैव रोदसी ॥ ५ ॥ ९ ॥

भा०—( इन्द्रः चर्म इव ) जिस प्रकार शत्रुहन्ता वीर पुरुष रक्षा साधन ढाल और शत्रुछेदन के साधन खड्ग को ( सम अवर्तयत् ) अच्छी प्रकार चलाता है तब ( अस्य ओजः तित्विषे ) उसका पराक्रम खूब चमकता है, उसी प्रकार ( यत् ) जब ( इन्द्रः ) परमेश्वर्यवान् प्रभु ( चर्म इव ) खड्ग ढाल के समान ही ( रोदसी उभे संम् अवर्तयत् ) प्रजा और शासक वर्ग दोनों को एक साथ संचालित करता है ( तत् ) तभी ( अस्य ) उस प्रभु का ( ओजः तित्विषे ) पराक्रम, बल, तेज अधिक चमकता, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाशवत् दृष्टिगोचर होता है । इति नवमो वर्गः ॥

वि चिद्बृत्रस्य दोधतो वज्रेण शतपर्वणा ।

शिरो विभेद वृष्णिना ॥ ६ ॥

भा०—जिस प्रकार सूर्य, विद्युत् वा वायु ( वृत्रस्य शिरः ) मेघ के ऊपर के भाग को ( वृष्णिना वज्रेण ) वृष्टिकारी विद्युत् प्रहारसे ( वि विभेद ) छिन्न भिन्न करता है उसी प्रकार वह ऐश्वर्यवान् राजा ( वृत्रस्य ) बड़ते शत्रु के ( शिरः ) प्रमुख सैन्य को ( वृष्णिना ) बलवान्, शस्त्रादि वर्षक ( वज्रेण ) शत्रुनिवारक ( शतपर्वणा ) सैकड़ों खंड वाले वा अनेक पालन साधनों से युक्त ( वज्रेण ) सैन्य बल से ( दोधतः वृत्रस्य ) हृदय में भय, कंपकंपी पैदा करने वाले त्रासकारी शत्रुगण के ( शिरः वि विभेद ) शिर या प्रमुख अंग को छिन्न भिन्न करे । ( २ ) उसी प्रकार गुरु, प्रभु

शान्ति वर्षक (शतपर्वणा) सौ पर्व, अध्याय अनुवाकादि विच्छेदों से युक्त ज्ञानमय वेद से अज्ञानकारी वृत्र का नाश करता है।

इमा अभि प्र नोनुमो विपामग्रेषु धीतयः ।

अग्नेः शोचिर्न दिद्युतः ॥ ७ ॥

भा०—हम (अग्रेषु) अग्रगण्य विद्वानों के अधीन रहकर (विपाम्) वेदवाणियों में से (इमाः) इन (धीतयः) नाना स्तुतियों और धारण करने योग्य वाणी या कर्मों को (अभि प्र नोनुमः) साक्षात् कर अच्छी प्रकार अभ्यास करें, पढ़ें और अन्यों के प्रति कहें। वे (अग्नेः शोचिः न) अग्नि की ज्वाला के समान (दिद्युतः) प्रकाश करने वाली हैं। 'विपा' इति वाङ्-नाम।

गुहा सतीरुप त्मना प्र यच्छोचन्त धीतयः ।

करवा ऋतस्य धारया ॥ ८ ॥

भा०—(यत्) जो (धीतयः) संकल्प वा कर्म (गुहा सतीः) बुद्धि में विद्यमान रहकर (त्मना) आत्मा के सामर्थ्य से (प्र यच्छन्त) प्रकाशित होते हैं उनको (कणाः) हम विद्वान् जन (ऋतस्य) सत्य ज्ञान की (धारया) वाणी से (प्र नोनुमः) अच्छी प्रकार प्रकट करते हैं।

प्र तमिन्द्र नशीमहि रथिं गोमन्तमश्विनम् ।

प्र ब्रह्म पूर्वचित्तये ॥ ९ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के दाता! हम (तम्) उस (गोमन्तं रथिम्) गौओं से युक्त सम्पत्ति, इन्द्रियों से युक्त देह और वाणियों से युक्त ज्ञान और (अश्विनम्) अश्वों से युक्त सैन्य बल को (प्र नशीमहि) अच्छी प्रकार प्राप्त करें। इसी प्रकार हम (पूर्वचित्तये) सब से पूर्व विद्यमान एवं पूर्ण ब्रह्म के ज्ञान के लिये (गोमत् ब्रह्म) वाणियों से युक्त ब्रह्म = वेद ज्ञान को (प्र नशीमहि) अच्छी प्रकार प्राप्त करें।

अहमिद्धि पितृष्वपरि मेधामृतस्य जग्रभ ।

अहं सूर्यं इवाजनि ॥ १० ॥ १० ॥

भा०—( अहं ) मैं जिज्ञासु ( इत् ) ही ( हि ) अवश्य (ऋतस्य) वेदमय सत्य ज्ञान के ( पितुः मेधाम् ) पितावत् पालक प्रभु वा गुरु की ( मेधाम् ) ज्ञानवती बुद्धि को ( परि जग्रभ ) प्रेमपूर्वक ग्रहण करूँ । और (अहं) मैं (सूर्यः इव) सूर्य के समान (अजनि) होऊँ । इत्येकादशो वर्गः॥

अहं प्रत्नेन मन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत् ।

येनेन्द्रः शुष्ममिदधे ॥ ११ ॥

भा०—( येन ) जिस ज्ञान से ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् पुरुष या आत्मा ( शुष्मम् इत् दधे ) शत्रुशोषक बल को धारण करता है ( अहं ) मैं भी ( प्रत्नेन ) पुराने, सनातन, नित्य ( मन्मना ) मनन योग्य वेदमय या आत्मज्ञान से ( कण्ववत् ) उत्तम मेधावी पुरुष के समान ( गिरः शुम्भामि ) अपनी वाणियों को सुशोभित करूँ ।

ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवृर्षयो ये च तुष्टुवुः ।

ममेद्वर्धस्व सुष्टुतः ॥ १२ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्, अज्ञान नाशक प्रभो ! विद्वान् आचार्य (ये) जो यथार्थ ज्ञान के द्रष्टा न होकर (त्वाम् न तुष्टुवुः) तेरी स्तुति नहीं कर सकते हैं ( च ) और ( ये च ऋषयः तुष्टुवुः ) जो ज्ञानद्रष्टा होकर स्तुति करते हैं उनसे तू ( सु-स्तुतः ) उत्तम रीति से वर्णित और स्तुतियुक्त होकर ( मम इत् ) मुझे अवश्य ( वर्धस्व ) बढ़ा, ज्ञान से पूर्ण कर । ज्ञानदाता गुरुजन और ग्रहीता शिष्य जन दोनों ज्ञानदर्शी होने शक्य ऋषि हैं । उनमें एक उपदेश करते हैं दूसरे श्रवण करते हैं । उनमें मैं चाहे शिष्यों में होऊँ वा गुरुजनों में तू उत्तम रीति से स्तुतिपात्र होकर मेरे ज्ञान की सदा वृद्धि कर ।

यदस्य सन्युरध्वनीद्वि वृत्रं पर्वशो रुजन् ।

अपः समुद्रमैरयत् ॥ १३ ॥

भा०—( यत् ) जब ( अस्य मन्युः ) सूर्य या विद्युत् का प्रखर ताप वा कोप ( वृत्रं ) मेघ के ( पर्वशः ) पोरु २ ( वि रुजन् ) छिन्न भिन्न करता है तब ( अपः समुद्रम् ऐरयत् ) जलों को वह मेघ समुद्र की तरफ प्रेरित करता है उसी प्रकार ( यत् ) जब ( मन्युः ) ज्ञानमय प्रभु वा गुरु ( अस्य ) इस जीव शिष्य को ( वृत्रं ) विस्तृत ज्ञान का ( पर्वशः विरुजन् ) पोरु २, गांठ २ करके छिन्न भिन्न करता हुआ ( अध्वनीत् ) उपदेश करता है, तब वह ( अपः ) जीव अपने कर्म को—लिङ्ग शरीर को उस ( समुद्रम् ) आनन्दमय प्रभु के प्रति ( हेरयत् ) सञ्चालित करे ।

नि शुष्णं इन्द्र धर्णासि वज्रं जघन्थ दस्यवि ।

वृषा ह्यग्रं शृण्विषे ॥ १४ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! हे ( उग्र ) सर्व शक्तिमन् ! हे दुष्टों को भय देने हारे ! तू ( वृषा हि ) निश्चय से बड़ा बलवान्, सब सुखों की वर्षा करने वाला ( शृण्विषे ) सुना जाता है । तू ही ( शुष्णे दस्यवि ) प्रजाशोषक, कष्टदायी दुष्ट के ऊपर ( धर्णासि वज्रं ) दृढ़ वज्र का ( नि जघन्थ ) प्रहार कर कि वह अपने दुष्ट कर्म से वर्जित हो ।

न द्याव इन्द्रमोजसा नान्तरिक्षाणि वज्रिणाम् ।

न विव्यचन्त भूमयः ॥ १५ ॥ ११ ॥

भा०—( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान् ( वज्रिणम् ) सर्व शक्तिमान् प्रभु से ( न द्यावः ) न प्रकाशमान् सूर्य तारे, ( न अन्तरिक्षाणि ) न अन्तरिक्षगत वायु आदि और ( न भूमयः ) न भूमिस्थ जल, जन्तु आदि ही (ओजसा) बल पराक्रम से (वि व्यचन्त) अधिक हैं । अथवा (न द्यावः न अन्तरिक्षाणि न भूमयः इन्द्रं विव्यचन्त) न सब सूर्य, न सब आकाश, न सब अन्तरिक्ष और न सब भूमियां ही उस महान् अनन्त परमेश्वर को व्याप सकते हैं । इत्येकादशो वर्गः ॥

यस्तं इन्द्र महीरपः स्तभूयमान् आशयत् ।

नि तं पद्यासु शिश्नथः ॥ १६ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( यः ) जो ( ते ) तेरी ( महीः अपः ) बड़ी विस्तृत व्यापक जगत् की प्रारम्भक प्रकृति की सूक्ष्म मात्राओं को ( स्तभूयमानः ) स्तब्ध, निष्क्रिय करता हुआ ( आशयत् ) सर्वत्र प्रसुप्त सा किये हुए था ( तं ) उसको तू ( पद्यासु ) अपनी गतियों वा शक्तिरूप क्रियाओं के बीच में ( नि शिश्नथः ) सर्वथा नष्ट कर देता है । इस प्रकार जड़ प्रकृति की जड़ता ही वृत्र है जो सृष्टि के पूर्व प्रकृति को शिथिल प्रसुप्त सा बनाये रखता है । इसी प्रकार जो मेघ जलों को थामे रहता है विद्युत् वा सूर्य उसको आहत करके गतियुक्त धाराओं में परिवर्तित करता है । इसी प्रकार जो शत्रु राजा की भूमियों और प्रजाओं को रोककर स्वयं सुख में सोवे उसको राजा ( पद्यासु ) पदाति सेनाओं के बल पर विनाश करें ।

य इमे रोदसी मही समीची समजग्रभीत् ।

तमोभिरिन्द्र तं गुहः ॥ १७ ॥

भा०—( यः ) जो ( इमे ) इन ( मही ) बड़ी ( रोदसी ) आकाश भूमि ( समीची ) परस्पर अच्छी प्रकार मिली, दोनों स्त्री पुरुषों की श्रेणियों को भी मेघ वा रात्रि कालवत् ( तमोभिः ) अज्ञान-अन्धकारों से ( सम् अजग्रभीत् ) अच्छी प्रकार ग्रस लेता है, हे ( इन्द्र ) सूर्यवत् प्रकाशस्वरूप प्रभो ! तू ( तं गुहः ) उस अज्ञान, अविद्यामय दुखान्धकार को लुप्त कर, ज्ञान प्रकाश देकर सुखी कर ।

य इन्द्र यतयस्त्वा भृगवो ये च तुष्टुवुः ।

ममेदुग्र श्रुधी हवम् ॥ १८ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ( ये यतयः ) जो इन्द्रियों और मन का संयम करने वाले और ( ये च भृगवः ) जो पापों को ज्ञानाग्नि से दग्ध करने वाले या वेद वाणियों को धारण करने वाले तपस्वी और विद्वान् पुरुष

हैं वे सभी ( त्वा ) तेरी ( तुष्टुवुः ) सदा स्तुति करते हैं । तू उन सब की सुनता है । हे ( उग्र ) दुष्टों के प्रति भयंकर ! दण्डधर प्रभो ! ( मम इत् हवम् ) मेरी पुकार भी तू ( श्रुधि ) श्रवण कर ।

इमास्तं इन्द्र पृश्नयो घृतं दुहत आशिरम् ।

एनामृतस्य पिप्युषीः ॥ १९ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! सूर्यवत् तेजस्विन् ! ( इमाः पृश्नयः ) ये सूर्य, अन्तरिक्ष और भूमि आदि समस्त पदार्थ गौओं के समान हैं । ( ते ) तेरे अधीन होकर ( एनम् ) उस ( आशिरम् ) भोगने योग्य ( घृतं ) क्षरणशील दुग्धवत् जल अन्नादि को ( दुहते ) प्रदान करते हैं । ये सब ( ऋतस्य ) तेज, जल, अन्न, धन और ज्ञान की ( पिप्युषीः ) वृद्धि भी करते हैं । ज्ञान की वृद्धि करने से ऋषि लोग भी 'पृश्नि' कहाते हैं ।

या इन्द्र प्रस्वस्त्वासा गर्भमचक्रिरन् ।

परि धर्मवसूर्यम् ॥ २० ॥ १२ ॥

भा०—( धर्मः इव सूर्यम् ) धारण करने वाला मेघमय जल वा वायु जिस प्रकार 'सूर्य' के ताप को ( गर्भं करोति ) अपने भीतर ग्रहण करता है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् प्रभो ! ( याः प्रस्वः ) जो जगत् में उत्पन्न करने वाली शक्तियें ( आसा ) अपने मुख से अर्थात् मुख्य बल से, वा स्तुति द्वारा ( त्वा ) तुझे ही ( गर्भम् अचक्रिरन् ) अपने भीतर शक्तिरूप में धारण करते हैं । इसी प्रकार मादाएं वा माताएं भी जो गर्भ में धारण करती हैं वे भी सूर्यवत् तेरे ही उत्पादक बल को अपने भीतर धारण करती हैं । अन्नादि रूप में भी तेरे ही उत्पन्न किये प्राणदायक जीवन को प्रजाएं मुख से शरीर धारक रूप में ग्रहण करती हैं । इति द्वादशो वर्गः ॥

त्वामिच्छवसस्पते कण्वा उक्थेन चावृधुः ।

त्वां सुतासु इन्दवः ॥ २१ ॥

भा०—हे ( शवसः पते ) बल के पालक ! ( कण्वाः ) विद्वान् लोग



(त्वाम् इत्) तुझे लक्ष्य कर (उक्थेन) स्तुति वचन कहकर ही (वावृधुः) स्वयं वृद्धि, समृद्धि को प्राप्त करते हैं। (इन्द्रवः) भक्ति रस से द्रवित होने वाले (सुतासः) उत्पन्न जीव एवं भक्तजन भी पुत्रवत् (त्वाम्) तुझे पिता को प्राप्त कर स्तुति से (त्वा वावृधुः) तुझे बढ़ाते, तेरी महिमा का गान करते और तुझे प्राप्त कर स्वयं वृद्धि को प्राप्त होते हैं।

तवेदिन्द्र प्रणीतिपुत्र प्रशस्तिराद्रिवः ।

यज्ञो वितन्तसाय्यः ॥ २२ ॥

भा०—हे (अद्रिवः) मेघों के स्वामी सूर्यवत् ! अनेक शक्तियों के स्वामिन् ! (उत्) और (त्व इत्) तेरी (प्रणीतिपु) उत्तम उत्कृष्ट नीतियों और रचनाओं में भी तेरी ही (प्रशस्तिः) उत्तम कीर्ति और शासन व्यवस्था विद्यमान है। तू ही (यज्ञः) सर्वोपास्य, सर्वदाता (वितन्तसाय्यः) अति विस्तृत महान्, सब से बड़ा है।

आ न इन्द्र महीमिषं पुरं न दर्पिं गोमतीम् ।

उत् प्रजां सुवीर्यम् ॥ २३ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! आत्मन् ! तू (नः) हमें (महीम्) बड़ी, पूज्य (इषम्) इच्छा, प्रेरणा, (गोमतीं पुरं न) गवादि सम्पदा युक्त नगरी के समान इन्द्रियों और वाणी से युक्त, पालन पोषण योग्य देह रूप पुरी को (उत्) और (प्रजां) प्रजा, पुत्रादि और प्राणादि तथा (सु-वीर्यम्) उत्तम बलवीर्य (आ दर्पिं) प्रदान करता है। (२) राजन् ! तू हमें (महीम्) भूमि, अन्न, गवादि युक्त पुरी, प्रजा और उत्तम बल दे।

उत् त्यदाश्वश्वयं यदिन्द्र नाहुषीष्वा ।

अग्ने विन्तु प्रदीदयत् ॥ २४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् प्रभो ! (यत्) जो (अग्ने) सबसे पहले (नाहुषीषु विक्षु) मानुषी प्रजाओं में (प्र दीदयत्) अच्छी प्रकार

प्रकाशित होता रहा ( त्वन् ) वह ( आशु-अश्व्यम् ) अति शीघ्र अश्व, मन, इन्द्रियादि को वश करने वाला मन, प्राण आदि आत्म सामर्थ्यः हमें भी प्रदान कर ।

अभि व्रजं न तत्तिषे सूरं उपाकचक्षसम् ।

यदिन्द्र मृडयासि नः ॥ २५ ॥ १३ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् प्रभो ! राजन् ! ( यत् ) जो तू ( नः ) हमें ( मृडयासि ) सुखी करता है वह तू ( सूरः ) सूर्य के समान तेजस्वी और प्रकाशस्वरूप होकर ( उपाक-चक्षसम् ) अति समीप अन्तःकरण के भीतर दर्शनीय वा गुरु द्वारा समीप रहकर उपदेश करने योग्य ( व्रजं न ) शरण योग्य वा गमनयोग्य मार्ग के समान ज्ञान मार्ग को ( अभि तत्तिषे ) विस्तार करता है । इति त्रयोदशो वर्गः ॥

यदङ्ग तविपीयसु इन्द्रं प्र राजसि क्षितीः ।

महाँ अपार ओजसा ॥ २६ ॥

भा०—( अङ्ग इन्द्र ) हे ऐश्वर्यवान् ! हे दुष्टों के दलन करने वाले ! ( यत् ) जो तू स्वयं ही ( तविपीयसे ) बलवती सेना के समान आचरण करता है तू स्वयं ( क्षितीः ) सब बसी प्रजाओं पर ( प्र राजसि ) उत्तम राजा के समान है । सचमुच तू ( ओजसा ) बल पराक्रम में ( महान् ) बड़ा और ( अपारः ) अपार है, तेरा अन्त नहीं । ( २ ) राजा स्वयं ( तविपीयसे ) सेना की कामना करता है, राजा बनता है ।

तं त्वा हविष्मतीविश उप ब्रुवत ऊतये ।

उरुजयसमिन्दुभिः ॥ २७ ॥

भा०—हे प्रभो ! राजन् ! ( हविष्मतीः विशः ) उत्तम अन्न आदि देने और उपभोग करने योग्य ऐश्वर्यों से सम्पन्न प्रजाएं ( इन्दुभिः ) ऐश्वर्यों सहित ( तं ) उस ( उरु-जयसं त्वा ) महान् बल पराक्रम वाले तुझ को :

( उप उतये द्रुवते ) प्राप्त कर अपनी रक्षा के लिये तुझ से प्रार्थना करती हैं ।

उपह्वरे गिरीणां सङ्गथे च नदीनाम् ।

धिया विप्रो अजायत ॥ २८ ॥

भा०—(गिरीणाम् उपह्वरे) पर्वतों के समीप, उनके सुरक्षित स्थान में और ( नदीनां च संगथे ) नदियों के संगम स्थान में (धिया) उत्तम कर्म और बुद्धि के योग तथा ध्यान के अभ्यास से ( विप्रः अजायत ) मनुष्य विद्वान् बुद्धिमान् होजाता है । उसी प्रकार विद्यार्थी जिज्ञासु ( गिरीणाम् उपह्वरे ) ज्ञान के उपदेष्टा गुरुजनों के समीप और ( नदीनां च संगथे ) ज्ञानोपदेष्टा तथा ज्ञान सम्पन्न जनों के सत्संग में रहकर ( धिया ) उत्तम कर्म और बुद्धि के योग से (विप्रः) विविध विद्याओं से पूर्ण विद्वान् (अजायत ) होता है ।

अतः समुद्रमुद्धतश्चिकित्वाँ अव पश्यति ।

यतो विपान एजति ॥ २९ ॥

भा०—( यतः ) जिस कारण से ( विपानः ) विशेष रूप से पालक वा व्यापक प्रभु ( एजति ) सब को चला रहा है, ( अतः ) इस कारण ही वह प्रभु ( चिकित्वाँ ) सर्वज्ञ है और वह सूर्य के समान ( उद्धतः ) ऊपर के लोकों को और ( समुद्रम् ) महा सागरवत् प्रवाह से अनादि अनन्त जगत् सर्ग को भी ( अव पश्यति ) अपने अधीन देखता है ।

आदित्प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम् ।

परो यदिध्यते दिवा ॥ ३० । १४ ॥

भा०—( यत् ) जो ( ज्योतिः ) तेज वा प्रकाश ( दिवा ) दिन के समय सूर्य के समान स्वाभाविक रूप ( परः ) काल और देश की सब मर्यादाओं के परे, दूर भी ( इध्यते ) प्रकाशित होता है ( प्रत्नस्य ) सनातन, नित्य ( रेतसः ) सब के सञ्चालक, जल वा वीर्यवत् सब के उत्पादक

प्रभु की उस ( वासरम् ) सब को बसाने वाली ज्योति को ( आत् इत् ) योग साधनादि के पश्चात् योगीजन ( पश्यन्ति ) देखा करते हैं ।

करवांस इन्द्र ते मतिं विश्वे वर्धन्ति पौंस्यम् ।

उतो शविष्ठ वृणयम् ॥ ३१ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( शविष्ठ ) महान् शक्तिमन् ! ( विश्वे ) समस्त ( कणासः ) बुद्धिमान् पुरुष ( ते मतिं ) तेरे दिये ज्ञान को ( ते पौंस्यं ) तेरे दिये पौरुष युक्त बल, पराक्रम ( उतो ) और ( ते वृणयम् ) तेरे दिये सुखवर्षी, बलवीर्य, धन धान्यादि को भी ( वर्धन्ति ) बढ़ाते हैं ।

इमां म इन्द्र सुष्टुतिं जुपस्व प्र सु मामव ।

उत प्र वर्धया मतिम् ॥ ३२ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! ( मे ) मेरी ( इमां ) इस ( सु-स्तुतिम् ) उत्तम स्तुति प्रार्थना को ( जुपस्व ) प्रेम से स्वीकार कर तू ( मा प्र सु अव ) मुझे उत्तम रीति से, सुख से पाल, मेरी रक्षा कर, मुझे दुःखों और पापों से बचा । ( उत ) और ( म तिम् प्र वर्धय ) मेरे ज्ञान, बुद्धि की वृद्धि कर ।

उत ब्रह्मण्या वयं तुभ्यं प्रवृद्ध वज्रिवः ।

विप्रा अतक्षम जीवसे ॥ ३३ ॥

भा०—( उत ) और हे ( प्रवृद्ध ) सब से महान् ! हे ( वज्रिवः ) सर्व शक्तिमन् ! वा समस्त शक्तिमानों के भी स्वामिन् ! ( वयं विप्राः ) हम सब विद्वान् लोग मिलकर ( तुभ्यं ब्रह्मण्या ) तेरे दिये, तेरे उपदेश किये ब्रह्म, वेदोपदिष्ट ज्ञानों और कर्मों को ( जीवसे ) अपने सुखमय जीवन की वृद्धि के लिये ( अतक्षम ) करें और ( वयं ब्रह्मण्या जीवसे अतक्षम ) हम जीवन रक्षा के लिये तेरे दिये धनों और अन्नों को उत्पन्न करें ।

अभि कर्वा अनूपतापो न प्रवता यतीः ।

इन्द्रं वनन्वती मतिः ॥ ३४ ॥

भा०—( कणाः ) विद्वान् मेधावी पुरुष ( इन्द्रं ) उस सर्वेश्वर्यवान् प्रभु परमात्मा को ( अभि अनूपत ) लक्ष्य करके उसकी स्तुति करते हैं । ( यतीः आपः प्रवता न ) बहती जलधाराएं जिस प्रकार स्वभावतः नीचे की ओर जाने वाले मार्ग से ही बहती हैं उसी प्रकार ( यतीः ) यमनियमों का पालन करने वाले इन्द्रिय और मन के वशीकर्त्ता ( आपः ) भासजन भी (प्रवता) उत्तम कर्म या मार्ग से ( इन्द्रम् अभि अनूपत ) इन्द्र, प्रभु को लक्ष्य कर उसके समक्ष झुकते हैं । और ( मतिः ) उनकी बुद्धि और वाणी भी स्वाभाविक रूप से ( इन्द्रं वनन्वती ) ऐश्वर्यवान् प्रभु का भजन करती हुई उसकी ही स्तुति करती है ।

इन्द्रमुक्थानि वावृधुः समुद्रमिव सिन्धवः ।

अनुत्तमन्युमजरम् ॥ ३५ ॥ १५ ॥

भा०—( सिन्धवः समुद्रम् इव ) जिस प्रकार नदियें समुद्र को बढ़ाती हैं उसी प्रकार ( उक्थानि ) उत्तम वेदमन्त्र ( समुद्रम् ) आनन्द के सागर और ( अनुत्तमन्युम् ) सर्वोपरि ज्ञान और पराक्रम से युक्त ( अजरम् ) जरारहित, अविनाशी ( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान् प्रभु को ( वावृधुः ) बढ़ाते हैं, उस की महिमा का विस्तार करते हैं ।

आ नो याहि परावतो हरिभ्यां हर्यताभ्याम् ।

इममिन्द्र सुतं पिव ॥ ३६ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! प्रभो स्वामिन् ! ( हरिभ्यां परावतः ) दो अश्वों से जिस प्रकार कोई स्वामी अतिशीघ्र दूर देश से भी प्राप्त होता है उसी प्रकार तू ( हर्यताभ्याम् ) अत्यन्त कान्तियुक्त, मनोहर ( हरिभ्याम् ) सब दुःखों के हरने वाले चिन्मय और आनन्दमय रूपों से ज्ञानमय और क्रियामय रूपों से ( परावतः ) दृश्यमान जगत् की सीमा से कहीं अन्य

अगम्य दशा से भी ( नः आयाहि ) हमें प्राप्त हो, हमें प्रकट हो । और हे प्रभो ! ( इमं सुतं पिव ) उत्पन्न हुए इस जीव संसार को पुत्रवत् पालन कर वा ओपिधि रसवत् पान कर, अपने में एकरस करले ।-

त्वामिद्वृत्रहन्तम् जनासो वृक्तवर्हिपः ।

हवन्ते वाजसातये ॥ ३७ ॥

भा०—हे ( वृत्रहन्तम् ) आत्मा को घेर कर बैठे अज्ञान और नाना दुःखजनक वासना-पुञ्जों को नाश करने में सर्वोत्तम ! ( वृक्त-वर्हिपः ) कुशादि को छेदन कर यज्ञ करने वालों के समान वासनामूलों को उच्छेद कर तेरी उपासना करने वाले जीवगण ( वाज-सातये ) बल, अन्न, और ज्ञानैश्वर्य को प्राप्त करने के लिये ( त्वाम् इत् हवन्ते ) तुझे ही बुलाते, तुझे उद्देश्य करके ही आहुति देते, यज्ञ करते हैं ।

अनु त्वा रोदसी उभे चक्रं न वर्त्येतशम् ।

अनु सुवानास इन्दवः ॥ ३८ ॥

भा०—(एतशं चक्रं न) जिस प्रकार घोड़े के पीछे २ रथ चक्र-जाता है उसी प्रकार ( उभे रोदसी ) दोनों आकाश और पृथिवी ( त्वा अनु-वर्ति ) तेरे ही पीछे २ चल रहे हैं । वे तेरे चलाये चलते हैं । उसी प्रकार ( सुवानासः ) ऐश्वर्यशील या उत्पन्न होने वाले ( इन्दवः ) कान्तिमान् सूर्यादि वा जीवगण भी ( त्वा अनु ) तेरे ही अनुकूल तेरी व्यवस्था में चलते हैं ।

मन्दस्वा सु स्वर्णर उतेन्द्र शर्यणावति ।

मत्स्वा विवस्वतो मती ॥ ३९ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! प्रभो ! तू (स्वः-नरे) सुखमय परम पद को लक्ष्य कर अपने को लेजाने वाले (उत्) और (शर्यणावति) पापादि को नाश करने वाली बुद्धि से युक्त पुरुष में ( सु मन्दस्व ) अच्छी प्रकार आनन्द उत्पन्न कर । (विवस्वतः) विशेष रूप में तेरी परिचर्या करने वाले

पुरुष की ( मती ) मनन करने वाली बुद्धि में ( मत्स्व ) आनन्द उत्पन्न कर । अथवा—हे ( इन्द्र ) आत्मन् ! तू ( स्वः-नरे ) परम सुख प्राप्त कराने और ( शर्यणावति ) सब संकटों को दूर करने वाले परम शक्तिवान् प्रभु में आनन्द लाभ कर । तू ( विवस्वतः ) विशेष रूप से समस्त संसार में बसे प्रभु की ( मती ) मनन करने वाली बुद्धि में ( मत्स्व ) आनन्द सुख अनुभव कर उसी में रम ।

वावृधान उप द्यवि वृषा वज्री अरोरवीत् ।

वृत्रहा सोमपातमः ॥ ४० ॥ १६ ॥

भा०—जिस प्रकार ( उप द्यवि वावृधानः वृषा वज्री अरोरवीत् ) आकाश में बढ़ता हुआ वर्षणशील, विद्युत्-मय मेघ गर्जता है वह ( वृत्र-हा ) जल को प्राप्त कर ( सोम-पातमः ) ओषधि गण का सर्वोत्तम पालक होता है उसी प्रकार ( वृषा ) समस्त सुखों की वर्षा करने वाला, बलवान्, समस्त संसार का प्रबन्धक, ( वज्री ) सर्वशक्तिमान् अज्ञान पापादि को वर्जन करने वाले ज्ञान बल से सम्पन्न, ( वृत्र-हा ) विघ्न और आवरणकारी अज्ञान का नाशक ( सोम-पातमः ) ऐश्वर्यों, जगदुत्पादक बलों और समस्त जीवों का सर्वोपरि पालक प्रभु परमेश्वर ( द्यवि ) तेजोमय, ज्ञानमय, स्वरूप में ( उप ) हृदय के अति निकट रहकर ( वावृधानः ) अपनी महान् महिमा को प्रकट करता हुआ ( अरोरवीत् ) ज्ञान का उपदेश करता है । इति षोडशो वर्गः ॥

ऋषिर्हि पूर्वजा अस्येक ईशान् ओजसा ।

इन्द्रं चोष्क्यसे वसु ॥ ४१ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् प्रभो ! तू ( हि ) निश्चय से ( ऋषिः ) समस्त ज्ञानों का द्रष्टा, ( पूर्वजाः ) बसे पूर्व विद्यमान रहकर सब को उत्पन्न करने वाला, ( ओजसा ) बल पराक्रम से ( एकः ईशानः ) एक अद्वितीय सबका ईश्वर है, तू ही ( वसु ) बसे समस्त जीव को ( चोष्क्यसे ) अपने वश करता, वा समस्त ऐश्वर्य प्रदान करता है ।

अस्माकं त्वा सुताँ उप वीतपृष्ठा अभि प्रयः ।

शतं वहन्तु हरयः ॥ ४२ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवान् ! प्रभो ! ( अस्माकं ) हम में से ( शतं हरयः ) अनेक मनुष्य ( वीत-पृष्ठाः ) कान्तियुक्त स्वरूप वाले तेजस्वी होकर ( त्वा उप ) तेरी उपासना करते हुए ( सुतान् ) नाना ऐश्वर्यों और पुत्रों तथा ( प्रयः अभि ) अन्न, ज्ञान आदि ( अभि वहन्तु ) प्राप्त करें और अन्यो को करावें ।

इमां सु पूव्यां धियं मघोर्घृतस्य पिप्युषीम् ।

कण्वा उक्थेन वावृधुः ॥ ४३ ॥

भा०—( कण्वाः ) विद्वान् पुरुष ( इमां ) इस ( पूव्याम् ) पूर्व पुरुषों की, वा 'पूर्व' अर्थात् पूर्ण पुरुष की ( मघोः घृतस्य ) मधुर ज्ञान को बढ़ाने वाली, ( धियं ) बुद्धि और कर्म को ( उक्थेन ) वेदमन्त्र से ( वावृधुः ) बढ़ावें, उसे अधिक समृद्ध करें ।

इन्द्रमिद्विमहीनां मेधे वृणीत मर्त्यः ।

इन्द्रं सनिष्युरुत्तये ॥ ४४ ॥

भा०—( विमहीनां ) विशेष रूप से बड़ी शक्तियों के बीच में भी ( मेधे ) पवित्र यज्ञ में ( मर्त्यः ) मनुष्य ( इन्द्रम् इत् ) सूर्य, वायु, जल आदि उस परमैश्वर्यवान् प्रभु को ही ( वृणीत ) उपास्य जाने । ( सनिष्युः ) दान देने की कामना करने वाला, पुरुष भी ( उत्तये ) रक्षा के लिये ( इन्द्रम् इत् वृणीत ) उस ऐश्वर्यवान् परमेश्वर को ही वरण करे । (२) इसी प्रकार ( मर्त्यः ) समस्त मनुष्य ( मेधे ) संग्राम के अवसर पर ( विमहीनाम् ) विशेष विविध भूमियों के ( इन्द्रं ) परमैश्वर्यवान् राजा को ही मुख्य पद पर धरें । और ( सनिष्युः ) ऐश्वर्य और वेतनादि का इच्छुक जन भी ( उत्तये ) रक्षार्थ उसी प्रकार ऐश्वर्यवान् को प्राप्त करे ।



अर्वाञ्च त्वा पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरी ।

सोमपेयाय वक्षतः ॥ ४५ ॥

भा०—हे ( पुरु-स्तुत ) बहुतों द्वारा स्तुति करने योग्य, बहुतों से प्रार्थित, उपासित ( प्रियमेधस्तुता ) यज्ञ, उपासनादि के प्रेमी पुरुषों द्वारा स्तुत या उपदिष्ट (हरी) ज्ञाननिष्ठ और कर्मनिष्ठ दोनों (सोमपेयाय) ओषधि रसवत् तेरे ऐश्वर्यमय परमानन्द रस का पान करने के लिये (अर्वाञ्च) अति समीप प्राप्त, साक्षात् ( त्वा वक्षतः ) तुझे ही अपने हृदय में धारण करते हैं । ( २ ) युद्ध-प्रियों से प्रशंसित 'अश्व' अर्थात् राष्ट्र की रक्षार्थ हे राजन् ! ( अर्वाञ्च त्वा वक्षतः ) घोड़ों से जाने वाले तुझ को रथ में वहन करते हैं ।

शतमहं तिरिन्दिरे सहस्रं पर्शावा ददे ।

राधांसि याद्धानाम् ॥ ४६ ॥

भा०—( अहं ) मैं ( याद्धानां ) मनुष्यों के ( शतं सहस्रं राधांसि ) सौ, और हजार भी ऐश्वर्य ( तिरिन्दिरे ) उस तीर्णतम, सर्वोपरि ऐश्वर्यवान्, ( पर्शौ ) सर्वद्रष्टा सर्वस्पष्टा, सर्वव्यापक प्रभु के बीच में ही (आददे) प्राप्त करता हूँ । युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः । आशिष्ठो द्रिष्टिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ॥ ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः.....ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । तैत्ति० उप० ब्रह्मानन्द वल्ली ८ ॥

( २ ) इसी प्रकार ( याद्धानां शतं सहस्रं राधांसि ) यत्नशील परिश्रमी मनुष्यों के सैकड़ों सहस्रों ऐश्वर्य ( पर्शौ ) परशुवत् शत्रुलेदन करने में समर्थ ( तिरिन्दिरे ) शत्रुहन्ता राजा के अधीन ही मैं प्रजाजन प्राप्त कर सकता हूँ ।

तिरिन्दरः—तिरः तीर्णतमः इन्दिरः इन्द्रः । 'पर्शुः'—पशुः पश्यतेः ॥

रकारोपजनः । परशुः । अकारलोपः । पशुः स्पृशतेः । संस्पृष्टा पृष्टदेशम् ।  
निरु० ४ । १ । ४ ॥

त्रीणि शतान्यर्वतां सहस्रा दश गोनाम् ।

ददुष्पजाय साम्ने ॥ ४७ ॥

भा०—वह परमेश्वर ( पजाय ) प्रार्थना वाज्ञानार्जन करने वाले,  
( साम्ने ) सब के प्रति समान बुद्धि करने वाले समदर्शी पुरुष को ( अर्वतां  
त्रीणि शतानि ) तीन सौ गतिशील वषों की आयु और (गोनां दशसहस्रा)  
वेद वाणियों के दश सहस्र मन्त्र, विद्वान् लोग ( ददुः ) प्रदान करते हैं ।

उदानट् ककुहो दिवमुष्ट्राश्चतुर्युजो ददत् ।

श्रवसा याद्वं जनम् ॥ ४८ ॥ १७ ॥

भा०—( श्रवसा ) श्रवण करने योग्य ज्ञान तथा अन्न के निमित्त  
( याद्वं जनम् ) यत्नशील मनुष्य को ( ककुहः उद् आनट् ) सर्वश्रेष्ठ प्रभु  
उन्नत करता है । और वह ( चतुर्युजः ) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों के साथ  
मनोयोग करने वाले ( उष्ट्रान् ) नाना पदार्थों की कामना करने वाले लोगों  
को अथवा अन्तःकरण की चारों वृत्तियों का विरोध करने वाले, कर्मबीजों  
को ज्ञानाग्नि से दहन करने वालों को भी ( दिवं ददत् ) ज्ञानप्रकाश  
प्रदान करता हुआ ( ककुहः ) सर्वश्रेष्ठ प्रभु ( श्रवसा उदानट् ) ज्ञान द्वारा  
ही उन्नत करता है । तुर्वशः चतुर्वशः चतुरो धर्मार्थकाममोक्षान् काम-  
यन्ते इति तुर्वशाः मनुष्याः । त एव चतुर्युज उष्ट्राः । अथवा—चतुरः  
अन्तःकरणवृत्तीन् युजते समादधति निरुन्धन्ति, इति चतुर्युजः । ज्ञाना-  
ग्निना कर्माणि उपन्ति दहन्ति ते उष्ट्राः । इति सप्तदशो वर्गः ॥

[ ७ ]

पुनर्वत्सः कायव ऋषिः ॥ मरुतो देवताः ॥ छन्दः—१, ३—५, ७—१३,  
१७—१९, २१, २५, ३०—३२, ३४ गायत्री । २, ६, १४, १६, २०,

२२—२७, ३५, ३६ निचृद्गायत्री । १५ पादानिचृद्गायत्री । २६, ३३

आर्षो विराड् गायत्री षट्त्रिंशदृचं सूक्तम् ॥

प्र यद्वस्त्रिष्टुभमिषं मरुतो विप्रो अक्षरत् ।

वि पर्वतेषु राजथ ॥ १ ॥

भा०—जिस प्रकार जब ( मरुतः पर्वतेषु वि राजथ ) वायुगण मेघों में विशेष विद्युत् दीप्ति उत्पन्न करते हैं तब ( विप्रः इषं अक्षरत् ) रूप से विशेष जल से पूर्ण मेघ वृष्टि को ( त्रिष्टुभम् ) पृथिवी के प्रति सेचन करता है । इसी प्रकार हे ( मरुतः ) प्राणो ! ( यत् ) जब ( विप्रः ) पुरुष ( त्रिष्टुभम् ) तीन कालों में ( इषं ) अन्न रस को ( प्र अक्षरत् ) अच्छी प्रकार देह में सेचन करता है तब हे प्राणो ! तुम ( पर्वतेषु ) पर्व अर्थात् पोरुओं से युक्त देह के अंगों में ( वि राजथ ) विराजते हो । अथवा— हे ( मरुतः ) वीर मनुष्यो ! ( विप्रः ) ज्ञान और ऐश्वर्य को पूर्ण करने वाला विद्वान् राजा ( वः ) आप लोगों की ( त्रिष्टुभम् इषम् ) क्षात्रबल से युक्त सेना को ( प्र अक्षरत् ) आगे बढ़ाता है तब आप लोग ( पर्वतेषु ) पर्वतों अर्थात् पर्व पर्व, वा खण्ड २ युक्त सैन्य दलों में विशेष रूप से सुशोभित होओ । त्रिष्टुप्—त्रिष्टुप् इन्द्रस्य वज्रः । ऐ० २ । २ । इन्द्रस्त्रिष्टुप् । श० ६ । ६ । २ । ७ ॥ इन्द्रियं वै त्रिष्टुप् । तै० ३ । ३ । ९ । ८ ॥ वीर्यं वै त्रिष्टुप् । ऐ० १ । २ ॥ ओजो वा इन्द्रियं, वीर्यं वै त्रिष्टुप् । ऐ० ३ । ५ ॥ उरः स्त्रिष्टुप् । श० ८ । ६ । २ । ७ ॥ क्षत्रं वै त्रिष्टुप् । कौ० ३ । ५ ॥ त्रिष्टुप् हि इयं पृथिवी ॥ श० २ । २ । १० ॥

यदङ्ग तविपीयवो यामं शुभ्रा अर्चिध्वम् ।

नि पर्वता अहासत ॥ २ ॥

भा०—जिस प्रकार जब ( तविपीयवः यामं चिन्वन्ति ) बलयुक्त वेगवान् वायुगण अपने जल संयमन करने वाले, वायु सन्बन्धी बल को एक साथ लगा देते हैं तब ( पर्वताः नि अहासत ) मेघ निश्चित दिशा में

गति करते या निम्न दिशा की ओर आ झुकते हैं। उसी प्रकार ( अङ्ग ) हे ( तविषीयवः ) बलवती सेना बनाने के इच्छुक वीर पुरुषो ! आप लोग ( यत् ) जब ( शुभ्रा ) शस्त्रादि से खूब सजधज कर ( यामं ) नियामक सैन्य बल को ( अचिध्वम् ) सञ्चित करलो तब ( पर्वताः ) नाना पर्वों, खण्डों से युक्त सैन्यबल के अध्यक्ष जन ( नि अहासत ) नियमपूर्वक प्रयाण करें।

उदीरयन्त वायुभिर्वाश्रासः पृश्निमातरः ।

धुक्षन्त पिप्युपीमिपम् ॥ ३ ॥

भा०—जिस प्रकार ( पृश्नि-मातरः ) प्रबल धारा वर्षण करने वाली नीहारिका से उत्पन्न ( वाश्रासः ) गर्जनाशील मेघ ( वायुभिः इत् ईर-यन्त ) वायुओं के साथ उठते हैं तब वे ( पिप्युपीम् इपं धुक्षन्त ) अन्न वनस्पति-आदि को बढ़ाने वाली जलवृष्टि को प्रदान करते हैं। इसी प्रकार ( पृश्नि-मातरः ) माता भूमि विद्वान् गुरुओं और विदुषी माताओं के पुत्र ( वाश्रासः ) उपदेष्टा पुरुष ( वायुभिः ) वायुवत् बलवान् प्राणों और नेता पुरुषों से युक्त होकर ( उद् ईरयन्ते ) ऊपर को उठते हैं तब वे ( पिप्युपीम् ) राष्ट्र को बढ़ाने वाली ( इषम् ) सेना को ( धुक्षन्त ) पूर्ण करते हैं। वा राष्ट्र से वृद्धिकारक बल और अन्न का दोहन करते हैं। अर्थात् प्रयाण के पूर्व अन्न और बल का सञ्चय करते हैं।

वपन्ति मरुतो मिहं प्र वेपयन्ति पर्वतान् ।

यद्यामं यान्ति वायुभिः ॥ ४ ॥

भा०—जिस प्रकार ( मरुतः यद् यामं वायुभिः यान्ति ) सजल वायुएं जलस्थनीय वायुओं के साथ आकाश मार्ग से जाते हैं तब वे ( पर्वतान् प्रवेपयन्ति ) मेघों को भी गति देते और ( मिहं वपन्ति ) वर्षा को भी बीजवपनवत् भूमि पर डालते हैं। इसी प्रकार ( मरुतः ) प्रचण्ड वात के समान वीर नायक गण ( यत् ) जब ( वायुभिः ) तीव्र वायुवत्

बलवान् सैनिकों के साथ ( यामं ) प्रयाण मार्ग में गमन करते हैं तब वे ( मिहं वपन्ति ) शस्त्र वृष्टि करते हैं, और ( पर्वतान् ) पर्वतवत् दृढ़ शत्रुओं को भी ( प्रवेपयन्ति ) खूब कंपा देते हैं, विचलित कर देते हैं । विशेष वृष्टि लाने वाली मानसून वायुएं ही वेद में 'मरुतः' कहे गये हैं । ( २ ) इसी प्रकार ( मरुतः ) मर्त्य युवा मनुष्य ( यत् ) जत्र ( वायुभिः ) गन्धयुक्त भूमिवत् धर्म दाराओं के साथ ( यामं यन्ति ) उपयम अर्थात् विवाह बन्धन को प्राप्त कर लेते हैं तब वे ( पर्वतान् ) प्रसन्न करने और पालने योग्य आदरणीय जनों को ( प्रवेपयन्ति ) हर्षित करते हैं और ( मिहं वपन्ति ) निषेक द्वारा उत्तम सन्तानों का वपन करते हैं ।

नि यद्यामाय वो गिरिर्नि सिन्धवो विधर्मणे ।

महे शुष्माय येमिरे ॥ ५ ॥ १८ ॥

भा०—वृष्टि लाने वाले सजल वायुगण को ( यामाय ) बांधने, रोकने के लिये जिस प्रकार ( गिरिः = गिरयः ) पर्वत या मेघ और ( विधर्मणे ) उनको विशेष रूप से धारण करने के लिये ( महे शुष्माय ) बड़े वैद्युत्तिक आदि बल उत्पन्न करने के लिये ( सिन्धवः ) नदियों, सागर और नहरों ( नियम्यन्ते ) विशेष रूप से बनायी जाती हैं उसी प्रकार हे ( मरुतः ) वीरो ! विद्वानो ! ( वः यामाय ) आप लोगों के नियन्त्रण, संयम और शिक्षण के लिये ( गिरयः ) उपदेष्टा गुरुजन नियत किये जावें । और ( विधर्मणे ) विशेष रूप से आप लोगों को दृढ़ रखने और ( महे शुष्माय ) बड़े आप लोगों की भारी बलवृद्धि के लिये ( सिन्धवः नियेमिरे ) वेगवान् अश्वों को भी नियम में व्यवस्थित किया जाय । इत्यष्टादशो वर्गः ॥

युष्माँ उ नक्तमूतये युष्मान्दिवा हवामहे ।

युष्मान्प्रयत्यध्वरे ॥ ६ ॥

भा०—हे विद्वान् और वीर पुरुषो ! ( नक्तम् ) रात्रि के समय ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( युष्मान् उ हवामहे ) आप लोगों से ही हम प्रार्थना

करते हैं। हे वीर पुरुषो ! ( युष्मान् ) तुम्हें हम ( दिवा ऊतये हवामहे ) दिन के समय रक्षा करने के लिये प्रार्थना करते हैं। और ( अध्वरे प्रयति ) यज्ञ के अवसर में ( ऊतये हवामहे ) रक्षा के लिये बुलावें।

उदु त्ये अरुणप्सवाश्चित्रा यामेभिरीरते ।

वाश्रा अधि ण्णुना दिवः ॥ ७ ॥

भा०—जिस प्रकार जलवर्षी वायुगण, ( वाश्राः ) शब्द करते हुए ( अरुणप्सवः ) सूर्य की दीप्तियों को मानो खाजाते हैं, उनको अपने में विलीन कर लेते हैं, ( चित्राः ) अद्भुत रूप के होकर ( यामेभिः ) वायु के मार्गों से ( उत् ईरते ) ऊपर उठकर आकाश से जाते हैं वे ( ण्णुना अधि दिवः ) पर्वत शिखर के साथ २ आकाश में चले जाते हैं उसी प्रकार ( त्ये मरुतः ) वे विद्वान् और वीर मनुष्य भी ( अरुणप्सवः ) कान्तिदायक तेजोवर्धक पदार्थ का भोजन करने वाले हों, वे ( चित्राः ) अद्भुत कर्म करने वाले ( यामेभिः ) रथों से वा उत्तम नियम व्यवस्थाओं से ( उत् ईरते ) उठें, उन्नति करें, शत्रु पर जा चढ़ें। वे ( वाश्राः ) उपदेश और गर्जन करते हुए ( ण्णुना ) उपभोग्य ऐश्वर्य के साथ ही ( दिवः अधि ) भूमि पर अधिकार करें।

सृजन्ति रश्मिमोजसा पन्थां सूर्याय यातवे ।

ते भानुभिर्वि तस्थिरे ॥ ८ ॥

भा०—जिस प्रकार वायुगण ( ओजसा ) अपने पराक्रम से ( यातवे सूर्याय ) गमन करते सूर्य के ( पन्थाम् ) मार्ग को प्राप्त कर स्वयं ( रश्मिं सृजन्ति ) दीप्ति को उत्पन्न करते और ( भानुभिः वि तस्थिरे ) नाना विद्युत् कान्तियों से विराजते हैं उसी प्रकार ( ते ) वे वीर पुरुष भी ( भानुभिः वि तस्थिरे ) नाना कान्तियों से विराजें और ( यातवे सूर्याय ) प्रयाण करने वाले तेजस्वी पुरुष के ( ओजसा ) बल पराक्रम से ( रश्मिम् पन्थां सृजन्ति ) व्यापक, विस्तृत मार्ग बना देते हैं।

इ॒मां मे॑ मरु॒तो गि॑र॒मिमं॑ स्तोम॒मृभु॑क्षणः । ०

इ॒मं मे॑ वन॒ता ह॑वम् ॥ ९ ॥

भा०—हे ( मरुतः ) वीर पुरुषो ! हे ( ऋभुक्षणः ) बड़े बलशाली पुरुषो ! आप लोग ( मे इमां गिरम् ) मेरी इस वाणी को और ( इमां स्तोमं ) इस स्तुत्य वचन को और ( मे इमं हवम् ) मेरे इस ग्राह्य उपहार वेतनादि को भी ( वनत ) सेवन करो ।

त्रीणि॑ सरा॒ंसि पृ॑श्नयो दु॒दुहे॑ व॒ज्रिणे॑ मधु॑ ।

उत्सं॑ कव॒न्धमु॑द्रिण॒म् ॥ १० ॥ १९ ॥

भा०—जिस प्रकार ( पृश्नयः ) जल वर्षण करने वाले सूर्य के रश्मि गण ( वज्रिणे ) वज्र अर्थात् विद्युत् से युक्त मेघ के लिये ( त्रीणि सरांसि ) तीनों तालाबों के तुल्य भूमि, अन्तरिक्ष और बृहदाकाश तीनों से ( मधु दुदुहे ) प्रभूत जल ग्रहण करते हैं । वे ही ( उत्सं ) ऊपर से बहने वाले ( उद्रिणम् ) जल से युक्त मेघ से ( कवन्धम् ) जल को भी ( दुदुहे ) प्रदान करते हैं । उसी प्रकार ( पृश्नयः ) विद्वान् जन ( वज्रिणे ) शक्तिशाली राष्ट्रपति के लिये ( त्रीणि सरांसि मधु दुदुहे ) तीनों लोकों से मधुर ऐश्वर्य को प्राप्त करें । और उत्तम मेघ, जलाशय तथा ( उत्सं ) ऊपर से बहने वाले झरने आदि से राष्ट्र के लिये ( कवन्धम् ) धाराबद्ध जल को भी प्राप्त करें, उससे यन्त्र, फौवारे आदि चला दें । अन्नं वै देवाः पृश्नीति वदन्ति । ताण्ड्य० । इयं वै पृश्निः । पृश्नयो ऋषयः ॥ इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

मरु॒तो यद्द॑ वो दि॒वः सु॑म्नायन्तो ह॒वाम॑हे ।

आ तू॑ न् उप॑ गन्तन ॥ ११ ॥

भा०—हे ( मरुतः ) जलवर्षी वायु गणों के समान विद्वान् एवं वीर जनो ! हम लोग ( यत् ह वः ) जब भी आप लोगों को ( सुम्नायन्तः ) अपना सुख एवं उत्तम ज्ञान चाहते हुए ( हवामहे ) आदर से प्रार्थना

करें (आ तु ) अनन्तर ही आप लोग ( नः उप गन्तन ) आप हमारे समीप प्राप्त हुआ करें । रक्षेच्छुक प्रजाजनों के लिये सिपाही जनों को तुरत जाना चाहिये ।

यूयं हि ष्ठा सुदानवो रुद्रा ऋभुक्षणो दमे ।

उत प्रचेतसो मदे ॥ १२ ॥

भा०—हे ( सुदानवः ) शोभन दानशील एवं शत्रुओं का अच्छी प्रकार खण्डन करने वाले ( रुद्राः ) दुष्टों को रलाने वाले ! ( ऋभुक्षणः ) सत्य का विवेचन 'ऋत' उत्तम अन्न, जल का ज्ञानवत् उपभोग और पालन करने वाले वीर, विद्वान् पुरुषो ! हे ( प्रचेतसः ) उत्कृष्ट ज्ञान और उत्तम चित्त वाले सदाशय पुरुषो ! ( यूयं हि ) आप लोग अवश्य ( दमे ) गृह में, शत्रुदमन के कार्य में (उत) और ( मदे ) समस्त प्रजाजनों को ज्ञान, अन्नादि से तृप्त, सुखी और आनन्दित करने में ( स्थ ) दत्तचित्त रहो ।

आ नो रयिं मदच्युतं पुरुक्षुं विश्वधायसम् ।

इयर्ता मरुतो दिवः ॥ १३ ॥

भा०—जिस प्रकार जलवर्षी वायुगण ( मद-च्युतं ) तृप्तिदायक ( पुरुक्षुं ) बहुत से अन्न युक्त ( विश्व-धायसम् रयिम् ) विश्व की पोषक-सम्पदा ( दिवः ) आकाश वा अन्तरिक्ष से प्रदान करते हैं उसी प्रकार हे ( मरुतः ) वीर बलवान् पुरुषो ! आप लोग भी ( नः ) हमें (मद-च्युतम्) आनन्ददायक ( पुरुक्षुं ) बहुतों के निवास योग्य (विश्व-धायसम्) समस्त प्रजाजनों का पालन पोषण करने में समर्थ ( रयिम् ) ऐश्वर्य ( दिवः ) इस भूमि से ( आ इयर्तं ) प्राप्त कराओ ।

अधीव यद्गिरीणां यामं शुभ्रा अचिध्वम् ।

सुवानैर्मन्ध्व इन्दुभिः ॥ १४ ॥

भा०—जिस प्रकार जलवर्षी वायुगण ( गिरीणाम् अधि ) पर्वतों और मेघों के बीच में भी ( शुभ्राः ) शुभ्र वर्ण होकर (यामं) यम अर्थात्



पवन के मार्ग का ( अचिध्वम् ) अवलम्बन करते या वायु मण्डल के बीच विद्यमान जल राशि का सञ्चय करते हैं, तत्र ( सुवानैः इन्दुभिः ) नये १ उत्पन्न होते हुए द्रवणशील जलों से ( मन्दध्वे ) सत्र को आनन्दित करते हैं । उसी प्रकार हे वीर पुरुषो ! आप लोग ( गिरीणां ) पर्वतों के ( अधि इव ) मानो ऊपर भी ( यामं ) यम, नियन्ता राष्ट्र पति के आदेश को ही ( अचिध्वम् ) ग्रहण करो । हे ( मरुतः ) वायुवत् प्रिय शिष्य जनो ! आप लोग भी ( शुभ्राः ) शुद्धाचरण, तेजस्वी, रहकर ( गिरीणां ) उपदेष्टा गुरु-जनों के ( यामं ) यम-नियमादि व्रत पालन और 'यम' नियन्ता आचार्य के ज्ञानोपदेश को ( अधि इव अचिध्वम् ) खूब अधिकाधिक ग्रहण करो । आप लोग ( सुवानैः ) ऐश्वर्य वृद्धि करने वाले प्रजाजनों से वा ऐश्वर्यों से ( मन्दध्वे ) स्वयं प्रसन्न होओ और अन्यो को भी प्रसन्न करो ।

ए॒ताव॑तश्चि॒देपां॑ सु॒म्नं भि॑क्षेत् म॒र्त्यैः ।

अ॒दा॑भ्यस्य॒ मन्म॑भिः ॥ १५ ॥ २० ॥

भा०—( मर्त्यः ) मनुष्य ( एपां ) इन वीर वा विद्वान् पुरुषों में से ( अदाभ्यस्य ) शत्रुओं से नाश न होने वाले, ( एतावतः ) ऐसे ही महान् गुणवान् पुरुष से ( मन्मभिः ) उत्तम स्तुति युक्त वचनों से ( सुम्नं भिक्षेत् ) सुखप्रद धन और शुभ ज्ञान की याचना करें । निर्गुण अल्प चित्त वाले से ज्ञान, धनादि लेना न चाहे । इति विशो वर्गः ॥

ये द्र॒प्सा इ॒व रो॑द॒सी ध॒मन्त्य॑न्तु वृ॒ष्टिभिः॑ ।

उत्सं॑ दु॒हन्तो॑ अक्षि॒तम् ॥ १६ ॥

भा०—जिस प्रकार मरुद्गण ( रोदसी धमन्ति ) भूमि और आकाश को शब्द से पूरित करते और फिर ( वृष्टिभिः अक्षितं उत्सं ) वृष्टियों द्वारा अक्षय जल या अन्न को मेघ में से दोहकर प्रदान करते हैं । उसी प्रकार ( ये ) जो वीर पुरुष ( द्रप्सा इव ) राष्ट्र के बलवीर्य रूप होकर ( रोदसी ) उभय पक्ष की सेनाओं को ( धमन्ति ) निनादित करते हैं, अग्नि-अध्व से

प्रचण्ड रूप से आग लगाते हैं और (अनु) पश्चात् शत्रुपर (वृष्टिभिः) वाण-  
वर्षाओं से ( उत्सम् ) उठने वाले शत्रु को नाशकर स्वयं ( अक्षितं ) अपना  
अपराजित, राष्ट्र और अक्षय ऐश्वर्य ( दुहन्तः ) पूर्ण करते हुए शोभा  
दिखाते हैं ।

उदुं स्वानेभिरीरत् उद्रथैरुदुं वायुभिः ।

उत्स्तोमैः पृश्निमातरः ॥ १७ ॥

भा०—जिस प्रकार ( पृश्नि-मातरः ) जल सेचन अर्थात् जल वर्षण  
करने वाले मेघों की माता के समान उत्पादक वायुगण ( स्वानेभिः वायुभिः  
उद् ईरते ) शब्दों, प्रबल वायु वेगों से उठते हैं उसी प्रकार (पृश्नि-मातरः)  
मन्त्रद्रष्टा ऋषि, आचार्य वा पृथिवी रूप माता के पुत्र वीर पुरुष (स्वानेभिः)  
सिंह गर्जनाओं सहित ( उत् ईरते ) उठते हैं, ( रथैः उत् ) रथों से और  
( वायुभिः उद् उ ) वायुवत् प्रबल नायकों और ( स्तोमैः उत् ) स्तुति-  
योग्य प्रशंसा-वचनों से ( उत् ईरते ) ऊपर उठते, उत्साहित होते और  
विजय करते हैं । ( २ ) इसी प्रकार विद्वान् गण उत्तम ध्वनियों, ( रथैः )  
उपदेशों और ( स्तोमैः ) वेदमन्त्र समूहों से ( उत् ईरते ) उन्नति प्राप्त  
करते हैं ।

येनाव तुर्वशं यदुं येन करावं धनस्पृतम् ।

राये सु तस्य धीमहि ॥ १८ ॥

भा०—( येन ) जिस साधन से आप लोग ( तुर्वशं ) शत्रु के नाशक  
वा हिंसकों के वशकर्ता वा पुरुषार्थ चतुष्टय के इच्छुक ( यदुं ) यत्नशील,  
उद्योगी मनुष्य वर्ग को और ( येन ) जिस उपाय से ( धन-स्पृतं ) धन की  
कामना करने वाले वैश्य वर्ग और ( कण्वं ) विद्वान् उपदेष्टा ब्राह्मण वर्ग  
की ( आव ) रक्षा करते हो ( तस्य ) उसी उपाय का हम ( राये ) ऐश्वर्य  
के लाभ के लिये ( सु धीमहि ) अच्छी प्रकार धारण और विचार करें ।

इसी प्रकार वृष्टि जल से चारों वर्णों के जो उपकार हो सकते हैं उन सब का हम सदा ध्यान रखें और वर्षा के जल को व्यर्थ न जाने दिया करें ।

इ॒मा उ॑ वः सु॒दानवो घृ॒तं न पि॒प्युपी॑रिषः ।

व॒र्धा॑न्का॒णव॑स्य॒ मन्म॑भिः ॥ १९ ॥

भा०—हे ( सु-दानवः ) उत्तम दानशील एवं छेदन भेदन के कर्म में कुशल जनो ! ( वः ) आप लोगों की ( इ॒माः इ॒पः ) ये जल-वृष्टियों के समान ( इ॒षः ) सेनाएं ( घृ॒तं न पि॒प्युपीः ) जल के समान परस्पर स्नेह और राजा के तेज की वृद्धि करती हुई ( का॒णव॑स्य ) विद्वान् पुरुष के ( मन्म॑भिः ) सुविचारित वचनों से ( व॒र्धा॑न् ) वृद्धि को प्राप्त करें ।

क॑ नूनं सु॒दानवो॑ म॒द॒था वृ॒क्तव॑र्हिषः ।

ब्र॒ह्मा को॑ वः स॒पर्य॑ति ॥ २० ॥ २१ ॥

भा०—जिस प्रकार जल वृष्टि, अन्न प्रदान करने से वायुगण ( सु-दानवः ) उत्तम दानशील हैं वे ( वृ॒क्त-व॑र्हिषः ) अन्तरिक्ष को चीर के जाने वाले होते और सब को आनन्दित करते हैं, उनके सम्बन्ध में भी प्रश्न होता है कि उनको ( कः ब्रह्मा ) कौन महान् शक्तिशाली सञ्चालित करता है । उसी प्रकार हे ( सु-दानवः ) उत्तम धन, ज्ञान, यशादि के देने वाले वीर विद्वान् पुरुषो ! आप लोग ( वृ॒क्त-व॑र्हिषः ) याग के निमित्त कुशादि काट कर लाने वाले वा शत्रुओं और अन्तरात्मा से क्रोध कामादि वासनाओं को समूल उच्छिन्न कर शुद्ध पवित्र होकर आप लोग ( क॑ म॒द॒थ ) कहां २ आनन्द लाभ करते और किस २ स्थान वा अवसर पर अन्यों को आनन्दित करते हो । ( वः ) आप लोगों को ( कः ) कौन ( ब्रह्मा ) महान् शक्ति वाला, ऐश्वर्यवान् और ज्ञानवान् पुरुष ( स॒पर्य॑ति ) आप लोगों का सत्कार करता है ? इत्येकविंशो वर्गः ॥ उत्तर—

न॒हि ष॑म॒ यद्द॑ वः पु॒रा स्तो॑मेभिर्वृ॒क्तव॑र्हिषः ।

श॒र्धा॑ ऋ॒तस्य॑ जि॒न्व॑थ ॥ २१ ॥

भा०—हे ( वृक्तवर्हिषः ) यज्ञशील और शत्रुरहित वीर जनो !  
( पुरा ) पहिले के समान ही ( वः ) आप लोगों के ( यत् नहि स्म ) जो  
बल नहीं प्राप्त हो उन ( ऋतस्य ) धन, अन्न और सत्य ज्ञान के ( शर्धान् )  
जाना बलों को ( त्तोमेभिः ) स्तुति वचनों द्वारा ( जिन्वथ ) बढ़ाओ ।

समु त्ये महतीरपः सं क्षोणी समु सूर्यम् ।

सं वज्रं पर्वशो दधुः ॥ २२ ॥

भा०—जिस प्रकार मेघ लाने वाले सजल वायुगण ( महती अपः  
सं दधुः ) बहुत भारी जल राशि को अच्छी प्रकार धारण करते हैं । ( क्षोणी  
सं दधुः ) भूमि पर उन जलों को प्रदान करते हैं, वा वे वृष्टि युक्त वायुगण  
( क्षोणी सं दधुः ) इस भूमि और अन्तरिक्ष को परस्पर सुसम्बद्ध करते हैं  
वे ही ( सूर्यम् ) सूर्य की दीप्ति को ( सं दधुः ) धारण करते हैं और  
( वज्रं ) विद्युत् को भी ( पर्वशः ) पोर २, खण्ड २ कर धारण करते हैं  
उसी प्रकार ( त्ये ) वे वीर पुरुष भी ( महतीः अपः समु दधुः ) बहुत बड़ी  
प्रजाओं को धारण करें, ( क्षोणी समु ) स्व और पर-राष्ट्रों को सन्धि द्वारा  
व्यवस्थित करें, ( सूर्यं सं दधुः ) सूर्यवत् तेजस्वी राजा वा सेनापति को  
धारण करें, और ( वज्रं पर्वशः सं दधुः ) वज्र की एक २ टुकड़ी का नायक  
महान्ध धारण करे वा वे स्वयं टुकड़ी २ होकर महा सैन्य बलको और अपने  
सन्धि २, जोड़ २ पर बल धारण करें ।

वि वृत्रं पर्वशो ययुर्वि पर्वताँ अराजिनः ।

चक्राणा वृष्णि पौंस्यम् ॥ २३ ॥

भा०—जिस प्रकार पूर्वोक्त वायुगण ( वृत्रं ) जल को ( पर्वशः )  
पोर २ पर ( वि ययुः ) विशेष रूप से व्यापते हैं । वे ( अराजिनः ) स्वयं  
हीस्त्ररहित, श्याम ( पर्वतान् वि ययुः ) मेघों को भी व्यापते हैं और  
( वृष्णि ) वर्षणशील मेघ पर विशेष ( पौंस्यं विचक्राणाः भवन्ति ) बल  
पराक्रम करते हैं उसी प्रकार वे वीर लोग ( वृत्रं ) अपने बढ़ते या घेरने

वाले शत्रु को (पर्वशः वि ययुः) पोरु २, सन्धि २, जोड़ २ में व्याप लें, उसके सैन्य दल में घुस जाय (अराजिनः) राजा के विपरीत, उच्छ्रंखल द्रोही (पर्वतान्) पर्वतवत् अचल शत्रुओं पर भी (वि ययुः) चढ़ाई करें। और (वृष्णि) बलवान् शत्रुपर वा (घृष्णि) उत्तम बलवान् प्रबन्धकः पुरुष के अधीन रहकर (पौंस्यं) बल पौरुष (चक्राणाः) करते रहा करें।

अनु॑ त्रितस्य॑ यु॒ध्यतः॑ शु॒ष्ममाव॑नु॒त क्रतु॑म् ।

अन्विन्द्रं॑ वृत्र॒तूर्ये॑ ॥ २४ ॥

भा०—जिस प्रकार (वृत्रतूर्ये इन्द्रं अनु शुष्मम् क्रतुम् आवन्) मेघ के छिन्न करने के अवसर में वायुगण सूर्य के अनुकूल ही बलयुक्त कर्म को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार वीर सैन्य जन भी (वृत्रतूर्ये) शत्रु के नाशकारी संग्राम के अवसर में (त्रितस्य युध्यतः) स्व और पर से अतिरिक्त तीसरे बलशाली से लड़ते हुए (इन्द्रम् अनु) अपने सेनापति के कथनानुसार (उत) ही (शुष्मम् क्रतुम्) बल और उद्योग कर्म को (अनु आवन्); खूब प्राप्त करते और बलवान् और क्रियावान् भाग की खूब रक्षा करते हैं ॥

त्रितः—तीर्णतमो मेघया बभूव । अपिवा संख्यानामैवाभिप्रेतः स्यादेकतोः द्वितस्त्रित इति त्रयो बभूवः । निरु० अ० ४ । पा० १ । ६ ॥

विद्युद्धस्ता॑ अभिद्य॒वः शिप्राः॑ शी॒र्षन्हि॑र॒ण्ययीः॑ ।

शुभ्र॑ व्यञ्जत श्रिये ॥ २५ ॥ २२ ॥

भा०—हे (मरुतः) वीर पुरुषो ! आप लोग (विद्युद्-हस्ताः) विद्युत् के समान विशेष चमकीले शस्त्र या आभूषण को हाथ में रक्त्वो और स्वयं (अभिद्यवः) कान्ति युक्त (शुभ्राः) शोभायुक्त बख्वालंकार धारण कर (शीर्षन्) शिर पर (हिरण्ययीः) सुवर्ण से सजी, सुनहरी, सुन्दर (शिप्राः) टोपियों या लोह आदि के बने शिर वचाने के टोपों को (श्रिये) शोभा वृद्धि के लिये (वि-अञ्जत) विशेष रूप से प्रकट किया करें ।

शिप्राः—टोपियां । इति द्वाविंशो वर्गः ॥

उशना यत्परावत उक्ष्णो रन्ध्रमयातन ।

धौन चक्रदक्षिया ॥ २६ ॥

भा०—जिस प्रकार पवन गण ( परावतः ) दूर विद्यमान ( उक्ष्णा ) जल-सेचक मेघ के ( रन्ध्रम् ) छिद्र भाग की ओर ( उशनाः ) तीव्र कान्ति-युक्त होकर जाते हैं । तब ( धौः न भिया चक्रदत् ) आकाश व पृथिवी भी भय से कांप जाती या गूँज उठती है उसी प्रकार आप लोग भी ( उशनाः ) राज्य-विजय की कामना करते हुए हे वीरो ! ( यत् ) जब ( परावतः उक्ष्णः ) दूर देश से बलवान् शत्रु के ( रन्ध्रम् ) छिद्र या मर्मस्थान को पाकर ( अयातन ) प्रयाण करो, उस पर चढ़ाई करो तब ( धौः न ) मानों समस्त पृथिवी और आकाश भी ( भिया चक्रदत् ) भय से गूँज उठे और कांप उठे ।

आ नो मखस्य दावनेऽश्वैर्हिरण्यपाणिभिः ।

देवास उप गन्तन ॥ २७ ॥

भा०—हे ( देवासः ) विद्वान् पुरुषो ! आप लोग ( नः ) हमारे ( मखस्य ) यज्ञ के निमित्त ( दावने ) दान देने के लिये ( हिरण्य-पाणिभिः ) हितकारी उत्तम पदार्थों को हाथ में लिये ( अश्वैः ) उत्तम वेगयुक्त अश्वों से हमारे ( उप गन्तन ) समीप आया करो । [ हिरण्य-पाणिभिरिति देवान् विशिनष्टि नाश्वान् । ]

यदेपां पृषती रथे प्रष्टिर्वहति रोहितः ।

यान्ति शुभ्रा रिणन्नपः ॥ २८ ॥

भा०—जिस प्रकार वायुओं के ( रथे ) वेग में ( पृषतीः ) जल सेचन करने वाली मेघमालाओं को ( प्रष्टिः ) वेगवान् वायु और ( रोहितः ) रक्तवर्ण सूर्य ( वहति ) वहन करता है तब वे भी ( यान्ति ) गति करते और ( शुभ्राः अपः रिणन् ) स्वच्छ जल पहुंचाते हैं । उसी प्रकार ( एषां ) इन वीरों के ( रथे ) रथ समुदाय में ( पृषतीः ) हृष्ट-पुष्ट शस्त्रवर्षी सेनाएं

वा नियुक्त अश्व ( प्रष्टिः ) शीघ्र चालक ( रोहितः ) सारथिवत् सेनापति वहन करे तत्र ये भी ( शुभ्राः ) शुद्ध, सुन्दर ( अपः ) जलधाराओंवत् सैन्यधाराओं का सञ्चालन करते हुए ( यान्ति ) प्रयाण करें ।

सुषोमे शर्गणावत्यार्जीके पस्त्यावति ।

ययुर्निचक्रया नरः ॥ २९ ॥

भा०—( नरः ) मनुष्य ( सुषोमे ) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त (शर्गणावति) उत्तम सेना, पोलिस आदि से सुरक्षित, (आर्जीके) धार्मिक निवासियों से बरने योग्य, धार्मिक राजा से शासित ( पस्त्यावति ) उत्तम प्रजा से सम्पन्न या नाना गृह भवनों से समृद्ध नगर या देश में ( निचक्रया ) नीचे लगे चक्रों से युक्त ट्राम आदि गाड़ियों से (ययुः) जाया आया करें । अथवा—उक्त प्रकार के देश में भी ( मरुतः ) वीर सैनिक (नि-चक्रया) नियमित चक्र अर्थात् सैन्यादि चक्र, व्यूह युक्त सेना से आगे बढ़ें ।

कदा गच्छाथ मरुत इत्था विप्रं हवमानम् ।

मार्डीकेभिर्नाधमानम् ॥ ३० ॥ २३ ॥

भा०—हे ( मरुतः ) विद्वान् वीर पुरुषो ! आप लोग ( इत्था ) इस प्रकार ( हवमानं विप्रम् ) स्तुतिशील वा यज्ञकर्त्ता, विद्वान् पुरुष को ( मार्डीकेभिः ) सुखजनक वचनों से ( नाधमानम् ) प्रार्थना करते हुए ( कदा गच्छाथ ) कब प्राप्त होते हैं ? [ उत्तर ] अथवा ( मार्डीकेभिः नाधमानं ) सुखजनक द्रव्यों से समृद्ध ( हवमानं विप्रम् ) दान देते हुए विविध धनों से पूर्ण मनुष्य को ही प्राप्त होते हो । इति त्रयोविंशो वर्गः ॥

कद्ध नूनं कधप्रियो यदिन्द्रमजहातन ।

को वः सखित्व औहते ॥ ३१ ॥

भा०—हे ( कध-प्रियः ) उत्तम कथा, स्तुति, उपदेश आदि से प्रसन्न होने वाले पुरुषो ! ( यद् इन्द्रम् अजहातन ) आप लोग शत्रुहन्ता और संशयच्छेत्ता वीर वा विद्वान् पुरुष वा प्रभु को त्यागते हो ऐसा भला

( कद् ह नूत् ) क्यों कर हो सकता है ? यदि छोड़ दिया करो तो भला ( वः सखित्वे ) आप लोगों की मित्रता में ( कः ओहते ) कौन विश्वास करे ।

सुहो पु णो वज्रहस्तैः कर्वांसो अग्निं मरुद्भिः ।

स्तुषे हिरण्यवाशीभिः ॥ ३२ ॥

भा०—हे ( कर्वांसः ) विद्वान् पुरुषो ! आप लोग ( हिरण्य-वाशीभिः ) लोह, सुवर्णादि के बने शस्त्रों से सजे वा हितरमणीय वाणी बोलने वाले ( वज्र-हस्तैः ) खड्ग और शस्त्र वर्जन करने वाले चर्म आदि हाथ में लिये उत्तम बलवीर्य सम्पन्न, ( मरुद्भिः ) वीरों और विद्वानों के ( सह उ ) सहित ( अग्निम् ) ज्ञानवान् अग्रणी नायक पुरुष का ( नः सुस्तुषे ) हमारे प्रति उत्तम रीति से कथन करो ।

ओ पु वृष्णः प्रयज्युना नव्यसे सुविताय ।

ववृत्यां चित्रवाजान् ॥ ३३ ॥

भा०—सैं ( वृष्णः ) बलवान्, उदार, ( प्र-यज्युन् ) उत्तम दानशील ( चित्र-वाजान् ) अद्भुत बल और ऐश्वर्य के स्वामी जनों से ( सुविताय ) उत्तम धन प्राप्त करने और ( नव्यसे ) नये से नये धन प्राप्त करने के लिये ( आ ववृत्याम् ) अपने सन्मुख प्रार्थना करूं । उसी प्रकार ( नव्यसे सुविताय ) स्तुत्य, उत्तम चरित्र शिक्षण के लिये अद्भुत ज्ञानी पुरुषों की शरण जाकर उनसे प्रार्थना करूं ।

गिरयश्चिन्नि जिहते पर्शानासो मन्यमानाः ।

पर्वताश्चिन्नि येमिरे ॥ ३४ ॥

भा०—( चित् ) जिस प्रकार सजल वायुओं से स्पर्श पाकर ( गिरयः चिन्नि जिहते ) मेघ भी भारी होकर नीचे उतर आते हैं ( पर्वताः चित् नि-येमिरे ) पर्वत भी उनकी रोक थाम करते हैं उसी प्रकार ( पर्शानासः ) उत्तम विद्वानों और वीरों से स्पर्श पाकर ( मन्यमानाः ) अभिमान युक्त ( गिरयः ) विद्वान् जन ( नि जिहते ) विनय से झुकते हैं और ( पर्शा-



नासः ) पीडित होकर (पर्वताः चित् ) पर्वतवत् दृढ अभेद्य, शत्रु जन भी ( नि येमिरे ) बांधे जाते हैं । वश किये जाते हैं ।

आक्षण्यावानो वहन्त्यन्तरिक्षेण पततः ।

घातारः स्तुवते वयः ॥ ३५ ॥

भा०—( अन्तरिक्षेण पततः घातारः यथा वयः वहन्ति ) जिस प्रकार अन्तरिक्ष से जाते हुए सजल पवन गण विश्व के पोषक होकर अन्न वा जीवन प्राप्त कराते हैं उसी प्रकार ( अक्षण-यावानः ) आंख के इशारे से आगे बढ़ने वाले, और ( अन्तरिक्षेण पततः ) आकाश मार्ग से जाने वाले, ( घातारः ) राष्ट्र के धारक, शासक जन ( स्तुवते ) प्रार्थी-प्रजाजन के हितार्थ ( वयः वहन्ति ) बल, जीवन और अन्न धारण करते और प्राप्त कराते हैं ।

अग्निर्हि जानिं पूर्व्यश्छन्दो न सूरों अर्चिषा ।

ते भानुभिर्वि तस्थिरे ॥ ३६ ॥ २४ ॥

भा०—( अग्निः ) अग्नि जिस प्रकार ( पूर्व्यः जनि ) सब से पूर्व विद्यमान रहता है और वह ( अर्चिषा ) ज्वाला से ( सूरः न छन्दः ) सूर्य के समान दीप्तियुक्त मनोहर होता है और नाना वायुगण ( भानुभिः ) विद्युत् आदि दीप्तियों से युक्त होकर ( वि तस्थिरे ) विविध प्रकार से चमकते रहते हैं उसी प्रकार ( अग्निः ) ज्ञानी, तेजस्वी अग्रणी नायक प्रभु ( पूर्व्यः जनि ) सब से पूर्व विद्यमान रहता है । वह ज्ञानदीप्ति से सूर्यवत् सब का उत्पादक और ( छन्दः ) रक्षक रहा । ( ते ) वे नाना जीवगण और सूर्य चन्द्र आदि लोक उसी के ( भानुभिः ) प्रकाशों से ( वि तस्थिरे ) विविध प्रकारों से विविध लोकों में रहते हैं । इति चतुर्विंशो वर्गः ॥

[ ८ ]

सध्वंसः काएव ऋषिः । अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, २, ३, ५, ६, १२, १४, १५, १८—२०, २२ निचृदनुष्टुप् । ४, ७, ८, १०, ११, १३, १७, २१, २३ आर्षी विराडनुष्टुप् । ६, १६ अनुष्टुप् ॥ त्रयोविंशर्चि सूक्तम् ॥

आ नो विश्वाभिरूतिभिरश्विना गच्छतं युवम् ।

दस्त्रा हिरण्यवर्तनी पिवतं सोम्यं मधु ॥ १ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) दिन रात्रिवत्, चन्द्रसूर्यवत् सब के हृद्यों में व्यापने वाले वा 'अश्व' अर्थात् शीघ्रगामी घोड़ों के समान तीव्रवेग से विषय मार्गों में दौड़ने वाले इन्द्रियों के स्वामी जितेन्द्रिय पुरुषो ! ( युवम् ) आप दोनों ( विश्वाभिः ) समस्त ( ऊतिभिः ) रक्षा और ज्ञानों तथा तृप्तिदायक उपायों, अन्नादि के सहित ( नः ) हमें ( आगच्छतम् ) प्राप्त होओ । आप दोनों ( दस्त्रा ) दुःखों और पापों का नाश करने वाले ( हिरण्य-वर्तनी ) सुसज्जित, स्वर्णादि मण्डित रथ पर आरूढ़, एवं हितकारी रमणीय, उत्तम मार्ग से जाने वाले, सदाचारी होकर ( सोम्यं मधु ) ओषधि रस और उत्तम मधुर अन्न और जल का ( पिवतम् ) उपभोग करो । 'सोम' पुत्र, शिष्य, सन्तान लाभ आदि का मधुर सुख उपभोग करो ।

आ नूनं यातमश्विना रथेन सूर्यत्वचा ।

भुजी हिरण्यपेशसा कवी गम्भीरचेतसा ॥ २ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) रथी सारथिवद् अश्वों, इन्द्रियों के स्वामी, स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( सूर्य-त्वचा ) सूर्य के समान कान्तियुक्त आवरण वाले, सुन्दर ( रथेन ) वेगवान् रथ से ( नूनं आयातम् ) अवश्य आया जाया करो । आप दोनों वर्ग ( भुजी ) नाना सुखों के भोगने और प्रजा भृत्यादि को उत्तम रीति से पालने वाले, ( हिरण्य-पेशसा ) सुवर्ण के समान उत्तम कान्तियुक्त, ( कवी ) उत्तम विद्वान्, दीर्घदर्शी, सम्यग्-दर्शी, ( गम्भीर-चेतसा ) गम्भीर चित्त वाले होओ ।

आ यातं नहुपस्पर्यान्तरिक्षात्सुवृक्लिभिः ।

पिवाथो अश्विना मधु करवानां सर्वने सुतम् ॥ ३ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) 'अश्व' अर्थात् राष्ट्र के स्वामी जनो ! सचिव और नृपति के तुल्य प्रधान पुरुषो ! आप दोनों ( नहुषः परि ) मनुष्य वर्ग से ऊपर

(अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष मार्ग से (सुवृत्किभिः) उत्तम हिताचरणों और स्तुति-वाणियों सहित (आयातम्) आया करो और (कण्वानां) विद्वान् पुरुषों के (सत्रने) यज्ञ में (सुतम्) तैयार किये (मधु) मधुर सोम रस, हविष्य, अन्न, यज्ञ शेष और ज्ञान आदि का (पिवाथः) पान किया करो ।

आ नो यातं दिवस्पर्यान्तरिक्षादधप्रिया ।

पुत्रः कण्वस्य वामिह सुपाव सोम्यं मधु ॥ ४ ॥

भा०—हे (अश्विना) दिन रात्रिवत् सम्बद्ध स्त्री पुरुषो ! हे (अध-प्रिया) अपने अधीन दास, भृत्य, सेवक, सहचर आदि को सदा सुप्रसन्न, वृत्त, सुखी रखने वाले एवं उनके भी प्रिय, (यद्वा अधप्रिया = कधप्रिया) उत्तम स्तुति ज्ञानोपदेश के प्रिय पुरुषो ! आप दोनों (दिवः परि) भूमि-मार्ग से (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष मार्ग से भी (नः आयातम्) हमारे पास प्राप्त होओ । (इह) इस स्थान में (वाम्) आप दोनों को लक्ष्य करके (कण्वस्य पुत्रः) विद्वान्, बुद्धिमान् पुरुष का शिष्य, पुत्र, वा विद्वानों के दुःखों को दूर करने वाला, और बहुतों की रक्षा करने में समर्थ पुरुष (सोम्यं मधु) विद्वान् पुरुषों के योग्य, उत्तम मधुर अन्न और ज्ञान को (सुपाव) प्रदान करता है ।

आ नो यातमुपश्रुत्यश्विना सोमपीतये ।

स्वाहा स्तोमस्य वर्धना प्र कवी धीतिभिर्नरा ॥ ५ ॥ २५ ॥

भा०—हे (अश्विना) जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप लोग (स्तोमस्य) स्तुति, और उपदेश करने योग्य वेद-ज्ञान का (स्वाहा) उत्तम वाणी द्वारा कथनोपकथन करते हुए और (धीतिभिः) अध्ययन, मनन, और सत्कर्माचरणों द्वारा उसकी (वर्धना) वृद्धि करते हुए (प्रयातम्) आगे बढ़ो और हे (कवी) विद्वानो ! हे (नरा) उत्तम पुरुषो ! आप दोनों (सोमपीतये) ज्ञान, ऐश्वर्य और अन्नादि के पालन और

उपभोग के लिये (उप-श्रुति) उत्तम ज्ञान श्रवण करने के लिये यज्ञ, सभाभवन, गुरुगृह आदि स्थानों में भी ( नः आयातम् ) हमारे पास प्राप्त होओ ।  
इति पञ्चविंशो वर्गः ॥

यच्चिद्धि वां पुर ऋषयो जुहुरेऽवसे नरा ।

आ यातमश्विना गतमुपेमां सुष्टुतिं मम ॥ ६ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वर्गों ! हे ( नरा ) उत्तम पुरुषो ! ( वां ) आप लोगों के ( अवसे ) ज्ञान करने के लिये ( पुरा ) पहले काल में ( ऋषयः ) मन्त्रार्थ द्रष्टा ऋषियों ने ( यत् चित् हि ) जो कुछ भी ( जुहुरे ) उपदेश किया है और ( इमां सुस्तुतिम् ) इस उत्तम स्तुति, उपदेशादि को ( उप ) प्राप्त करने के लिये ( मम आयातम् ) मेरे समीप आइये ।

दिवश्चिद्रोचनादध्या नो गन्तं स्वर्विदा ।

धीभिर्वत्सप्रचेतसा स्तोमेभिर्हवनश्रुता ॥ ७ ॥

भा०—हे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वर्गों ! आप दोनों. ( दिवः चित् रोचना ) सूर्य के समान प्रकाशमान, ज्ञानवान्, ( रोचनात् ) तेजस्वी गुरु से ( स्वर्विदा ) प्रकाशमय ज्ञान को प्राप्त करके ( स्तोमेभिः ) वेद के सूक्तों से ( हवन-श्रुता ) स्वयं ग्रहण करने और अन्यो को देने योग्य ज्ञान का श्रवण करके ( धीभिः ) उत्तम बुद्धियों और कर्मों से ( वत्स-प्रचेतसा ) 'वत्स' अर्थात् उपदेष्टावत् उत्तम ज्ञानी गुरु के अधीन रह, उत्कृष्ट ज्ञानवान् होकर ( अधि नः गन्तम् ) अनन्तर हमारे पास आओ ।

किमन्ये पर्यासतेऽस्मत्स्तोमेभिरश्विना ।

पुत्रः कर्णस्य वामृषिर्गीर्भिवत्सो अवीषुधत् ॥ ८ ॥

भा०—( अस्मत् अन्ये ) हम से अतिरिक्त अन्य विद्वान् लोग भी ( स्तोमेभिः ) स्तुति-उपदेशों सहित ( किम् परि-आसते ) किस प्रयोजन से विराजते हैं । हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय शिष्य शिष्याओ ! वे सब केवल

ज्ञानोपदेश देने के लिये ही होते हैं । ( कण्वस्य पुत्रः ) विद्वान् पुरुष का पुत्र वा विद्वान् मेधावी परमेश्वर के ( पुत्रः = पुरुत्रायते ) बहुत से ज्ञान का रक्षक ( ऋषिः ) मन्त्रद्रष्टा विद्वान् ( वत्सः ) अभिवादन करने योग्य एवं विद्या का उपदेष्टा होकर ( गीर्भिः ) वेद वाणियों से ( वाम् अचीवृधत् ) तुम दोनों की उन्नति करे ।

आ वां विप्र इहावसेऽह्वस्तोमैभिरश्विना ।

अरिप्रा वृत्रहन्तमा ता नो भूतं मयोभुवा ॥ ९ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वर्गों ! ( इह ) इस आश्रम में ( विप्रः ) विद्वान् आचार्य ( स्तोमेभिः ) वेद के मन्त्रों, सूक्तों से ( वां अवसे ) आप दोनों को ज्ञान प्रदान करने के लिये ( अह्वत् ) आदर पूर्वक उपदेश करे और ( ता ) वे आप दोनों ( अरिप्रा ) पाप रहित और ( वृत्रहन्तमा ) आवरणकारी अज्ञान को को नाश करने वाले होकर ( नः ) हमारे लिये ( मयोभुवा भूतम् ) सुख शान्तिदायक होओ ।

आ यद्वां योषणा रथमतिष्ठद्वाजिनीवसू ।

विश्वान्यश्विना युवं प्र धीतान्यगच्छतम् ॥ १० ॥ २६ ॥

भा०—हे ( वाजिनी-वसू ) 'वाज' अर्थात् ज्ञान और बलशाली विद्या और वीर्यरूप धन के धनी स्त्री पुरुषो ! ( यत् ) जब तक आप दोनों में से ( योषणा ) पति से प्रेम करने वाली स्त्री और स्त्री को प्रेम करने वाला पुरुष ( रथम् आ अतिष्ठत् ) गृहस्थ रूप रमण योग्य आश्रम में प्राप्त होते हो, तब तक हे ( अश्विना ) इन्द्रिय, मनरूप अश्वों के स्वामी, जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वर्गों ! आप दोनों ( विश्वानि धीतानि = अधीतानि ) समस्त अध्ययन करने योग्य विषयों को ( प्र अगच्छतम् ) अच्छी प्रकार ग्रहण करलो । इति षड्विंशो वर्गः ॥

अतः सहस्रनिर्णिजा रथेना यातमश्विना ।

वत्सो वां मधुमद्वचोऽशंसीत्काव्यः कविः ॥ ११ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! जब ( वसः ) विद्या का उपदेश, ब्रह्मचर्यवास काल का गुरु ( काव्यः ) विद्वानों में विद्वान् ( कविः ) स्वयं क्रान्तदर्शी आचार्य ( वां ) तुम दोनों को ( मधुमत् वयः ) मधुविद्या ब्रह्मविद्या से युक्त प्रवचन, उपदेश ( अशंसीत् ) कर चुके ( अतः ) उसके बाद आप दोनों ( सहस्र-निर्णिजा ) बहुत प्रकार के बने ( रथेन ) रथों से ( आयातम् ) गृह के प्रति आओ। अथवा—(सहस्र निर्णिजा रथेन ) सब प्रकार से शुद्ध निष्णात एवं बलवान् दृढ़ शरीर से युक्त होकर गृहपर आओ।

पुरुमन्द्रा पुरुवसू मनोतरा रयीणाम् ।

स्तोमं मे अश्विना विममभि वही अनूषाताम् ॥ १२ ॥

भा०—( पुरु-मन्द्रा ) बहुत से मनुष्यों को सुखी और प्रसन्न, आनन्दित करने वाले, ( पुरु-वसू ) बहुतों को बसाने वाले, वसु, धनों ऐश्वर्यों के स्वामी, ( रयीणां ) नाना प्रकार के धनों के प्राप्ति, विनिमय आदि विषय में मनन या उत्तम ज्ञान प्राप्त करने वाले, ( वही ) कार्य-भार वहन करने में समर्थ, ( अश्विनौ ) जितेन्द्रिय एवं वेगवान् अश्व, रथ, यान आदि सञ्चालन में कुशल स्त्री-पुरुष वर्ग, ( इमं मे स्तोमं ) मेरे इस स्तुत्य ग्राह्य वचन को ( अभि अनूषाताम् ) आदरपूर्वक ग्रहण करें।

आ नो विश्वान्यश्विना धत्तं राधांस्यह्या ।

कृतं न ऋत्वियावतो मा नो रीरधतं निदे ॥ १३ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) उत्तम जितेन्द्रिय पुरुषो ! ( नः ) हमारे ( विश्वानि ) सब प्रकार के ( राधांसि ) धनों को आप दोनों ( अह्या ) विना संकोच या लज्जा के ( आ धत्तम् ) सब ओर से प्राप्त कर धारण करो और हमें प्रदान करो। आप दोनों ( नः ) हमें ( ऋत्वियावतः कृतम् ) ऋतु २ में करने योग्य यज्ञ से सम्पन्न करो। ( नः ) हमें ( निदे ) निन्दक के लाभ के लिये ( मा रीरधतं ) अपने अधीन वश मत करो।

यन्नासत्या परावति यद्वा स्थो अर्धम्बरे ।

अतः सहस्रनिर्णिजा रथेना यातमश्विना ॥ १४ ॥

भा०—हं ( नासत्या ) नासिकावत् मुख्य स्थान पर स्थित वा ( न-  
असत्या ) परस्पर कभी असत्य व्यवहार न करने वाले, आप दोनों ( यद् )  
चाहे जब ( परावति स्थः ) दूर देश में होओ ( यद् वा ) और चाहे ( अम्बरे  
अधिस्थः ) समीप में होओ हे ( अश्विना ) वेगवान् अश्वों के स्वामी जनो !  
( अतः ) वहां से आप लोग ( सहस्र-निर्णिजा रथेन ) दृढ़ बल से युक्त,  
रूपवान् , सुदृढ़ रथ से ही ( आ यातम् ) आया करो ।

यो वाँ नासत्यावृषिर्गिर्भिर्वत्सो अवीवृधत् ।

तस्मै सहस्रनिर्णिजमिपं धत्तं घृतश्चुतम् ॥ १५ ॥ २७ ॥

भा०—हे ( नासत्यां ) कभी असत्य व्यवहार न करने वाले, सत्य  
धर्म के व्यवस्थापक और नासिकावत् प्रमुख पदों पर स्थित जनो ! ( यः )  
जो ( वत्सः ऋषिः ) उत्तम उपदेष्टा, मन्त्रज्ञ पुरुष ( वाँ अवीवृधत् ) आप  
दोनों को वृद्धि प्रदान करता है ( तस्मै ) उसके आदरार्थ, वा रक्षार्थ आप  
दोनों ( घृतश्चुतम् इपम् ) घृतयुक्त नाना रूप अन्न के समान ही ( सहस्र-  
निर्णिजं ) बहुत रूपों का, हज़ारों पुरुषों से बना, ( घृतश्चुतम् ) तेजोयुक्त पद,  
( इपं ) सैन्य, वा नाना प्रकार की स्नेह से युक्त इच्छा को ( धत्तम् )  
धारण करो । इति सप्तविंशो वर्गः ॥

प्रास्मा ऊर्जे घृतश्चुतमश्विना यच्छ्रुतं युवम् ।

यो वाँ सुम्नाय तुष्टवद्वसूयादानुनस्पती ॥ १६ ॥

भा०—( यः ) जो ( वाँ ) तुम दोनों को ( सुम्नाय ) सुख, शान्ति  
लाभ के लिये ( तुष्टवत् ) स्तुति या उपदेश करे, हे ( दानुनः पती ) दान  
शील जन वा दातव्य धन के पालको ! ( यः ) जो जो ( वसूयात् ) आप  
दोनों के सुखार्थ ही अपना धन चाहे, ( अस्मै ) उस पूज्य पुरुष को ( युवं )

तुम दोनों हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय जनो ! ( घृतश्रुतं ) घी, जलादि से युक्त ( ऊर्जं प्रयच्छतम् ) बलकारक अन्न प्रदान करो ।

आ नो॑ गन्तं रिशादसेमं॑ स्तोमं॑ पुरुभुजा ।

कृतं नः॑ सुश्रियो॑ नरे॒मा दा॑तम॒भिष्टये॑ ॥ १७ ॥

भा०—हे (रिशादसा) हिंसकों के नाशक वीर जनो ! हे (पुरुभुजा) बहुतों के पालक और बहुत से ऐश्वर्यों के भोक्ता जनो ! आप लोग ( नः आ गन्तं ) हमें प्राप्त होओ । और (नः) हमारे ( स्तोमं ) इस उत्तम उपदेश या स्तुत्य वचन या व्यवहार का ( कृतम् ) पालन करो । हे ( नरा ) नायक, उत्तम स्त्री पुरुषो ( इमाः ) ये ( सु-श्रियः ) उत्तम २ लक्ष्मियां ( नः ) हमें ( अभिष्टये ) अभीष्ट सुख के लिये ( दातम् ) प्रदान करो ।

आ वां विश्वा॑भिरू॒तिभिः॑ प्रियमे॒धा अ॒हूपत॑ ।

राज॑न्तावध्व॒राणाम॑श्वि॒ना याम॑हृ॒तिपु॑ ॥ १८ ॥

भा०—हे (अश्विना) विद्वान् उत्तम स्त्री पुरुषो ! (प्रिय-मेधाः) यज्ञ सत्संग के द्वारा अन्न, जल, वायु आदि भौतिक तत्वों के सुगन्धादि से पूर्ण करने और विद्वान् पुरुषों को अन्न, जल, वस्त्रादि से प्रसन्न करने वाले जन और ( प्रिय-मेधाः ) शत्रु वा दुष्ट पुरुषों की ताड़ना करने को अच्छा समझने वाले वीर पुरुष भी ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) अपनी समस्त विद्या और रक्षा साधनों, सेनाओं के सहित ( वां आ अहूपत ) तुम दोनों को सब प्रकार से स्वीकार करें और आप दोनों ( अध्वराणां ) नाना हिंसारहित यज्ञों और सत्र को मार्गोपदेश करने वाले कार्यों के बीच में ( याम-हृतिपु ) लोगों को चलने के मार्ग तथा उत्तम यमनियमादि, नियन्त्रण व्यवस्था के उपदेश करने के कार्यों में ( राजन्तौ ) राजावत् चमकते हुए रहो ।

आ नो॑ गन्तं मयो॒भुवा॑श्वि॒ना शम्भु॑वा यु॒वम् ।

यो वां वि॒पन्यू॑ धी॒तिभिर्गी॑र्भिर्वृ॒त्सो अ॒वीवृ॑धत् ॥ १९ ॥



भा०—हे ( अश्विना ) उत्तम स्त्री पुरुषो ! ( यः ) जो ( वत्सः ) उत्तम उपदेष्टा गुरु ( विपन्यू ) विशेष व्यवहार कुशल एवं प्रार्थी ( वां ) आप दोनों को ( धीतिभिः ) उत्तम कर्मों और ( गीर्भिः ) उत्तम वेद वाणियों द्वारा ( अवीवृधत् ) वृद्धि को प्राप्त कराता है उससे उपदिष्ट होकर ( युवम् ) आप दोनों ( मयोभुवा ) सुखप्रद और ( शंभुवा ) शान्तिदायक होकर ( नः आगन्तम् ) हमें प्राप्त होओ ।

याभिः करवृं मेधातिथिं याभिर्वशं दशव्रजम् ।

याभिर्गोशर्यमावृतं ताभिर्नोऽवतं नरा ॥ २० ॥ २८ ॥

भा०—हे उत्तम स्त्री पुरुषो, राजा रानी, सेनापति सभापति आदि जनो! आप लोग ( याभिः ) जिन उपायों से ( कण्वं ) विद्वान् ( मेधातिथिं ) अन्नादि सत्कार और सत्संग योग्य अतिथि की रक्षा करते हो, या उनको प्राप्त होते और ( याभिः ) जिन उत्तम क्रियाओं से ( दश-व्रजम् ) दशों दिशाओं में जाने वाले, और दशों मार्गों से युक्त ( वशं ) वश करने योग्य राष्ट्रजन या मन आदि को वश करते हो, और ( याभिः ) जिन सैन्यादि से ( गो-शर्यम् ) 'गो' अर्थात् धनुष की डोरी और 'शर' वाण इनके चलाने में कुशल सैन्य को ( आवतम् ) रक्षा करते हो, उन्हें प्राप्त होते हो ( ताभिः ) उनसे ही हे ( नरा ) उत्तम प्रधान नायक पुरुषो ! ( नः अवतम् ) हमारी रक्षा करो । ( नः आ अवतम् ) उन सहित हमें प्राप्त होओ । अथवा—अवति-हिंसा-रक्षण-कान्ति-वृत्ति-वृद्धयर्थश्च । ( याभिः ) जिन सेनाओं से ( गोशर्यम् आवतम् ) गो-भूमि के हिंसक कृवकादि की रक्षा करते और गौ आदि पशुओं के हिंसकों का नाश करते हो उन उपायों सहित ( नः आवतम् ) हमें प्राप्त होओ । इत्यष्टाविंशो वर्गः ॥

याभिर्नरा वृसदस्युमावृतं कृत्वये धने ।

ताभिः प्वस्माँ अश्विना प्रावृतं वाजसातये ॥ २१ ॥

भा०—( याभिः ) जिन सेना आदि उपायों से ( धने कृत्वये ) प्राप्त

करने योग्य ऐश्वर्य की रक्षा के निमित्त ( त्रसदस्युम् ) पशुओं को भयभीत करने वाले सिपाही पहरेदार आदि को ( आवतम् ) रखते हो उनसे ही हे ( अश्विना ) राष्ट्र के स्वामी जनो ! ( वाज-सातये ) धन अन्नादि के लाभ के लिये ( अस्मान् सुप्र अवतम् ) हमारी भी अच्छी प्रकार रक्षा करो । अधिकारी जन अपने धन की रक्षार्थ जैसे अपने कर्मचारियों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार वे प्रजा को धन समझ कर उसकी भी अच्छी प्रकार रक्षा किया करें ।

प्र वां स्तोमाः सुवृक्कयो गिरो वर्धन्त्वश्विना ।

पुरुत्रा वृत्रहन्तमा ता नो भूतं पुरुस्पृहा ॥ २२ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय एवं अश्व सैन्य वा राष्ट्र के स्वामी जनो ! स्वामी अमात्य जनो ! ( स्तोमाः ) स्तुतियोग्य कार्य और ( सुवृक्कयः ) उत्तम रीति से पाप से बचाने वाली ( गिरः ) वाणियां ( वां प्रवर्धन्तु ) आप दानों को बढ़ावें । ( ता ) वे आप दोनों ( पुरुत्रा ) बहुतों के रक्षक, ( वृत्र-हन्तमा ) शत्रु और पाप को अच्छी प्रकार नाश करने वाले और ( नः ) हमारे बीच ( पुरु-स्पृहा ) बहुतों के प्रेम पात्र और बहुतों के न्यायपूर्वक स्नेह करने वाले, सब के सच्चे प्रेमी ( भूतम् ) होओ ।

त्रीणि पदान्यश्विनोराविः सान्ति गुहा परः ।

ऋवी ऋतस्य पत्नभिरर्वाग्जीवेभ्यस्परि ॥ २३ ॥ २९ ॥

भा०—( त्रीणि ) तीन ( पदानि ) स्थान, प्राप्तव्य विषय ( अश्विनोः ) विद्वान् स्त्री पुरुषों की ( गुहा ) बुद्धि में ( परः ) सब से अधिक उत्तम रीति से ( आविः सन्ति ) प्रकट होते हैं । उन ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान के ( पत्नभिः ) तीनों पदों से वे दोनों ( अर्वाक् ) साक्षात् ( ऋवी ) विद्वान् क्रान्तदर्शी होकर ( जीवेभ्यः परि ) जीवों के हितार्थ हों । 'ऋत' सत्याचरण, धर्म, यज्ञ और वेद ज्ञान के तीन पद ऋक्, सामः, यजुः, मन्त्र, गीति

और क्रिया; ज्ञान, उपासना और यज्ञ हैं। वे तीनों विद्वानों की बुद्धि में उत्तम रूप से प्रकट हों। इत्येकोनत्रिंशो वर्गः ॥

[ ६ ]

शशकर्णः काण्व ऋषिः ॥ अश्विनौ देवत ॥ छन्दः—१, ४, ६ बृहती । १४, १५ निचृद् बृहती । २, २० गायत्री । ३, २१ निचृद् गायत्री । ११ त्रिपाद् विराड् गायत्री । ५ उष्णिक् ककुप् । ७, ८, १७, १९ अनुष्टुप् । ६ पाद-निचृदनुष्टुप् । १३ निचृदनुष्टुप् । १६ आर्ची अनुष्टुप् । १८ विराडनुष्टुप् । १० आर्षी निचृत् पंक्तिः । १२ जगती ॥ एकविंशत्यृचं सूक्तम् ॥

आ नूनमश्विना युवं वत्सस्य गन्तमवसे ।

प्रास्मै यच्छतमवृकं पृथु छुदिर्युतं या अरातयः ॥ १ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! ( युवं ) आप दोनों ( नूनं ) अवश्य ही ( वत्सस्य अवसे ) अपने अधीन आश्रय रहने वाले बच्चे, बालक, पुत्र भृत्यादि के रक्षण वा भोजनादि से तृप्ति और उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन के लिये आप दोनों ( आ गन्तम् ) आया करो । इसी प्रकार ( वत्सस्य अवसे ) उत्तम उपदेश विद्वान् की रक्षा और उसके ज्ञान और वृद्धि आदि के लिये उसके पास आया जाया करो । ( अस्मै ) उसको ( पृथु छुदिः ) बड़ा विस्तृत गृह, शरण, ( अवृकं ) छल कपटरहित होकर ( प्र यच्छतम् ) प्रदान करो । ( या अरातयः ) जो न देने के क्षुद्रता आदि के विचार हैं उनको ( युयुतं ) दूर करो ।

यदन्तरिक्षे यद्विषि यत्पञ्च मानुषाँ अनु ।

नृम्णं तद्धत्तमश्विना ॥ २ ॥

भा०—( यत् ) जो ( नृम्णम् ) धन ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष में ( यत् दिवि ) जो आकाश में और ( यत् ) जो ( पञ्च मानुषान् अनु ) पाँचों मनुष्यों के अनुकूल सुखदायी धन है ( तत् ) वह धन है ( अश्विना )

जितेन्द्रिय एवं अश्वादि के स्वामी वर्गों ! आप लोग अवश्य (धत्तम्) धारण किया करो। आकाश में वायु, जल, मेघ, वृष्टि आदि और आकाश में सूर्य चन्द्र नक्षत्रादि पांचों मनुष्यों के अनुकूल भूमि पर्वत नदी जलाशय जन, भृत्य, सुवर्ण, हिरण्यादि। ये राष्ट्रीय त्रिविध धन मनुष्य मात्र के सुखप्रद होने से 'नृष्ण' हैं। इनकी अवश्य रक्षा करनी चाहिये।

ये वां दंसांस्यश्विना विप्रासः परिमामृशुः।

एवेत्कारवस्य बोधतम् ॥ ३ ॥

भा०—हे (अश्विना) जितेन्द्रिय, उत्तम स्त्री पुरुषों ! (ये) जो (विप्रासः) विद्वान् पुरुष (वां) आप लोगों के (दंसांसि) नाना प्रकार के कार्यों को (परि ममृशुः) करते और उन कार्यों पर विचार करते हैं, उनके किये कार्य और (कारवस्य एव इत्) विद्वानों के किये ज्ञान, अनुष्ठान आदि का भी (बोधतम्) तुम ज्ञान प्राप्त करो।

अयं वां घर्मो अश्विना स्तोमैः परि पिच्यते।

अयं सोमो मधुमान्वाजिनीवसू येन वृत्रं चिकेतथः ॥ ४ ॥

भा०—हे (अश्विना) जितेन्द्रिय पुरुषों ! (वां) आप दोनों का (अयं) यह (घर्मः) तेजोयुक्त प्रभाव या सामर्थ्य है जिसको (स्तोमैः) स्तुति योग्य वचनों या वेदमन्त्रों द्वारा (परिपिच्यते) परिषेक किया जाता, जिसकी प्रतिष्ठा की जाती है। हे (वाजिनीवसू) ज्ञान, बलादि से युक्त क्रिया के धनी जनो ! (अयं मधुमान् सोमः) यह मधुर अन्नादि से युक्त ऐश्वर्य वा उत्पादक बल है, (येन) जिससे आप दोनों (वृत्रं) जीवन के रोग दुःखादि विघ्न समूह को दूर करने में समर्थ हो। इसी बल वीर्य की ब्रह्मचर्यादि से तुम सदा रक्षा करो, उसी का महान् आदर है। उसी की लोक में प्रतिष्ठा है।

यदप्सु यद्वनस्पतौ यदोपधीषु पुरुदंससा कृतम्।

तेन माविष्टमश्विना ॥ ५ ॥ ३० ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय और उत्तम भोगों को भोगनेहारे ! हे ( पुरुदंससा ) नाना कर्मों को करने में समर्थ विद्वान् स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( यत् अप्सु ) जो जलों, ( यद् वनस्पतौ ) जो वनस्पति और ( यद् ओषधीषु ) जो ओषधि, अन्नादि के प्राप्त करने के लिये ( कृतम् ) यत्न करते हो ( तेन ) उससे ही ( मा अविष्टम् ) तुम दोनों प्रजावत् मेरी रक्षा करते रहो । इति त्रिंशो वर्गः ॥

यन्नासत्या भुरण्यथो यद्वा देव भिषज्यथः ।

श्रयं वां वत्सो मतिभिर्न विन्धते हविष्मन्तं हि गच्छथः ॥ ६ ॥

भा०—हे ( नासत्या ) असत्याचरण न करने वाले सदा सत्यकर्मा, सत्यभाषी, सत्यव्रती होकर आप दोनों ( हविष्मन्तं हि ) नासिकास्थ प्राणों के समान उत्तम अन्न वाले प्रजाजन को माता पितावत् ( भुरण्यथः ) पालन करते हो, ( यद्वा ) जो आप दोनों ( हविष्मन्तं हि भिषज्यथः ) उत्तम पवित्र अन्न वाले के ही रोगों को दूर करते हो और ( हविष्मन्तं हि गच्छथः ) उत्तम अन्नादि के स्वामी राष्ट्रवासी जन को ही तुम प्राप्त होते हो, ( अयं ) यह ( वत्सः ) राष्ट्र निवासी जन बालक के समान होकर ही ( मतिभिः ) बुद्धियों वा स्तुतियों से भी ( वां ) तुम दोनों को ( न विन्धते ) प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात् केवल गुणस्तवन मात्र से यह तुम्हारे उपकार से उर्द्ध्वण नहीं हो सकता है ।

आ नूनमश्विनोर्ऋषिः स्तोमं चिकेत वामया ।

आ सोमं मधुमत्तमं धर्मं सिञ्चादथर्वणि ॥ ७ ॥

भा०—( ऋषिः ) मन्त्रार्थं द्रष्टा विद्वान् पुरुष ( नूनम् ) अवश्य ही, ( वामया ) अपनी उत्तम बुद्धि से और अच्छी रीति से ( अश्विनोः ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषों को ( स्तोमं ) उत्तम स्तुति योग्य मन्त्रों का उपदेश ( आचिकेत ) करे, उनको उसका ज्ञान दे । ( अथर्वणि ) स्थिर, शान्त प्रज्ञावान् पुरुष में ही वह अग्नि ( धर्मः ) तीव्र घृत वा तेज के समान ( मधुम-

त्तमम् ) वां अति मधुर ( सोमं ) ओषधि रसवत् उत्तम ज्ञान और तेज का ( सिञ्चात् ) सेचन, प्रदान करे । अथवा वह विद्वान् गुरु ( अथर्वणि ) अथर्व-वेद की समाप्ति पर वा अहिंसा शम, आदि भाव में ( मधुमत्तमं ) उत्तम वेद के ज्ञान से युक्त ( सोमं ) विद्याक्षेत्र में उत्पन्न ( घर्म ) सुतप्त, तपस्वी, तेजस्वी शिष्य को ( सिञ्चात् ) स्नान करावे, उसे स्नातक बनावे ।

अथवा—सवनं यज्ञः, यजुर्वेदः, मधु ऋग्वेदः । घर्मः सामवेदः । तेषु निष्णातं शिष्यमथर्वणि सिञ्चेत् अथर्ववेदे व्युत्पादयेत् ॥

आ नूनं रघुवर्तनि रथं तिष्ठथो अश्विना ।

आ वां स्तोमा इमे मम नभो न चुच्यवीरत ॥ ८ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) अश्वदि वेगवान्, बलवान् इन्द्रिय, ग्राम और मन को वश में रखने वाले आप दोनों ! ( नूनं ) अवश्य ही ( रघु-वर्तनि ) लघु अर्थात् शीघ्र वेग से युक्त वा ( रघु-वर्तनि ) स्वल्प, छोटे मार्ग से जाने में समर्थ, ( रथं ) रमणीय रथ पर ( आ तिष्ठथः ) विराजा करो । ( वां ) आप दोनों को लक्ष्य करके ( इमे ) मेरे ( स्तोमाः ) स्तुत्य वचन, ( नभः ) आकाश में सूर्य के प्रति किरणोंवत् वा पवनवत् ( चुच्यवीरत ) प्राप्त हों ।

यद्य वां नासत्योक्थैराचुच्यवीमहि ।

यद्वा वाणीभिरश्विनेवेत्कारवस्य बोधतम् ॥ ९ ॥

भा०—हे ( नासत्या ) सत्यभाषी, सत्यकर्मा, प्रमुख स्त्री पुरुषो ! ( यत् अद्य ) जो आज, ( वां ) आप दोनों के प्रति हम ( उक्थैः ) उत्तम वचनों सहित ( अचुच्यवीमहि ) प्राप्त हों और आप दोनों ( यद् वा ) जो भी ( अश्विना इव ) 'अश्व' अर्थात् इन्द्रियों के स्वामी जितेन्द्रिय होकर ( कण्वस्य इत् ) विद्वान् पुरुष की ( वाणीभिः ) वाणियों से ( बोधतम् ) ज्ञान प्राप्त किया करो ।

यद्वाँ कृत्तीवाँ उत यद्वयश्च ऋषिर्यद्वाँ दीर्घतमा जुहाव ।

पृथी यद्वाँ वैन्यः सादनेष्वेवेदतो अश्विना चेतयेथाम् ॥१०॥३१॥

भा०—हे ( अश्विनौ ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! अश्व सैन्यादि के स्वामी राजा सेनापति आदि पुरुषो ! ( वां ) तुम दोनों को ( यत् ) जिससे ( कक्षीवान् ) अंगुलियों वाला, सिद्धहस्त, कुशल वा अन्यों को बागडोर अपने हाथों में रखने वाला पुरुष, ( उत ) और ( यत् ) जब ( व्यश्वः ) विविध या विशेष भक्षों या विद्वानों का स्वामी, विविध विद्याओं में निष्णात और ( यत् ) जिस कारण से ( दीर्घतमाः ) बड़ी २ लम्बी चौड़ी आकांक्षाओं वाला, उत्साही ( ऋषिः ) दूरदर्शी पुरुष ( वां वां ) तुम लोगों को ( जुहाव ) उत्तम उपदेश करे वा तुम्हें किसी उत्तम कार्य के लिये बुलावे और ( यद्वा ) जिससे तुम दोनों को ( वैन्यः ) तेजस्वी, यश का इच्छुक ( पृथी ) बड़े राष्ट्र-ऐश्वर्य का स्वामी ( सादनेषु ) नाना स्थानों, पदों पर ( एव जुहाव इत् ) कार्य करने के लिये बुलावे ( अतः ) उससे पूर्व हे जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप दोनों अवश्य ( चेतयेथाम् ) ज्ञान प्राप्त करलो । अर्थात् स्त्री पुरुषों को बाल्यकाल में खूब ज्ञान प्राप्त करना चाहिये जिससे कोई अधिकारी सेनापति, उत्साही विजिगीषु यशोर्थी राजा आदि उनको उत्तम पदों पर नियुक्त करने के लिये सादर बुलावे । एकत्रिंशो वर्गः ॥

यातं छर्दिष्पा उत नः परस्पा भूतं जगत्पा उत नस्तनुपा ।

चर्तिस्तोकाय तनयाय यातम् ॥ ११ ॥

भा०—हे ( अश्विनौ ) जितेन्द्रिय एवं अश्व रथादि के स्वामी जनो ! आप दोनों ( नः ) हमारे ( तोकाय तनयाय ) पुत्र पौत्रादि के हितार्थ ( वृत्तिः यातम् ) वृत्ति या वेतनादि भी प्राप्त करो । आप दोनों ( नः ) हमारे ( छर्दिष्पा भूतम् ) गृहों की रक्षा करने वाले होवो । ( नः परस्पा भूतम् ) हमें शत्रु से बचाने वाले होवे । ( उत नः जगत्पा तनूपा भूतम् ) और हमारे जंगम पशु सम्पत्ति और हमारे शरीरों के भी रक्षक होवो ।

यदिन्द्रेण सरथं याथो अश्विना यद्वा वायुना भवथः समोकसा ।  
यदादित्येभिर्ऋभुभिः सजोपसा यद्वा विष्णोर्विक्रमणेषु तिष्ठथः १२

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय, अश्वदि के स्वामी, व्यापक सामर्थ्यवान् स्त्री पुरुषो ! ( यत् ) जो आप दोनों ( इन्द्रेण ) ऐश्वर्यवान् शत्रु-विनाशी राजा सेनापति आदि के साथ ( सरथं याथः ) रथ के साथ रथ चलाकर प्रयाण करते, वा ( सरथं याथः ) सरण या युद्ध यात्रा करते हो, ( यद्वा ) अथवा जो आप दोनों ( वायुना समोकसा ) वायु और वायुवत् बलवान् सेनापति के समान भवन या पद वाले ( भवथः ) हो जाओ । ( यद् ) या जो आप दोनों ( ऋभुभिः ) सत्य ज्ञान से प्रकाशित ( आदित्येभिः ) आदित्यवत् तेजस्वी, ब्रह्मचारी विद्वानों के साथ ( स-जोपसा ) समान प्रीति युक्त हीवी ( यद् वा ) या तुम दोनों ( विष्णोः ) व्यापक बलशाली राजा के ( विक्रमणेषु ) विशेष विक्रम के कार्यों में ( तिष्ठथः ) उच्चासनों पर विराजो, वा ( विष्णोः विक्रमणेषु ) परमेश्वर की बनाई सृष्टियों में ज्ञानपूर्वक स्थिर रहो यही तुम्हारे लिये आदर्श, उत्तम कर्त्तव्य और अधिकार है । अर्थात् प्रत्येक स्त्री पुरुष इन उच्च २ पदों तक पहुँचने के लिये साधिकार हैं कि वे यत् करें और बड़ें ।

यद्वाश्विनाव्रह्मं हुवेय वाजसातये ।

यत्पृत्सु तुर्वणे सहस्तच्छ्रेष्ठमश्विनोरवः ॥ १३ ॥

भा०—और ( यत् ) जो ( अद्य ) आज मैं ( अश्विनौ ) जितेन्द्रिय और अश्वदि के नायकों को ( वाज-सातये ) अन्न, ऐश्वर्यादि प्राप्ति के लिये सदावत् ( हुवेय ) बुलाया करूँ । ( यत् ) क्योंकि जो ( पृत्सु ) संग्राम में ( तुर्वणे ) शत्रु के नाश करने में ( सहः ) शत्रु पराजयकारी बल है ( तत् ) वही ( अश्विनोः ) उन जितेन्द्रिय अश्वदि के स्वामी, जनों का ( श्रेष्ठं अवः ) सर्वश्रेष्ठ बल और रक्षा सामर्थ्य है । यदि राष्ट्र के स्त्री पुरुष



युद्ध-काल में शत्रु को परास्त नहीं कर सकें तो वे कुछ नहीं, उनका अन्न  
वेतनादि पाना, भोजन करना, ऐश्वर्य भोगना आदि सब व्यर्थ है और पाप है ।  
आ नूनं यातमश्विनेमा हव्यानि वां हिता ।

इमे सोमासो अधि तुर्वशे यदाविमे कर्वेपु वामथ ॥ १४ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय पुरुषो ! ( तुर्वशे ) चतुर्वर्गों की  
कामना करने वाले और ( यदौ ) यत्नशील, राष्ट्र प्रजाजन और ( कर्वेपु )  
विद्वान् पुरुषों के ( अधि ) बीच में ( वाम् ) तुम दोनों को ( इमे सोमासः )  
ये नाना बल, अधिकार और ऐश्वर्य प्राप्त हों और ( नूनं ) अवश्य ही  
( इमा ) ये ( हव्यानि ) ग्रहण करने योग्य ऐश्वर्य और अन्न भी ( वां  
हिता ) आप लोगों के लिये नियत रूप से हैं, अब आदरपूर्वक ( आ यातम् )  
आओ और स्वीकार करो ।

यन्नासत्या पराके अर्वाके अस्ति भेपजम् ।

तेन नूनं विमदाय प्रचेतसा छुर्दिर्वत्साय यच्छतम् ॥१५॥३२॥

भा०—हे ( नासत्या ) असत्य ज्ञान से रहित, सदा सत्य, सुपरीक्षित  
ज्ञान वाले विद्वान् पुरुषो ! ( यत् भेपजम् पराके ) रोगादि के नाश करने  
वाला जो पदार्थ दूर देश में हो वा जो ( अर्वाके भेपजम् अस्ति ) समीप स्थान  
में औषधादि हो ( तेन ) उससे हे ( प्रचेतसा ) उत्तम ज्ञान और चित्त वाले  
दयालु जनो ! ( वत्साय ) पुत्रवत् राष्ट्र में वसे प्रजाजन के उपकार के लिये  
( वि-मदाय ) विशेष हर्ष और आनन्द लाभ के लिये ( नूनं ) अवश्य  
( छुर्दिः यच्छतम् ) गृह, आवास प्रदान करो । उत्तम औषधि आदि के द्वारा  
समस्त प्रजा को सुख से राष्ट्र में बसने का मौका दो । जिससे सब नगर  
गृहादि नीरोग और सुखप्रद हों । इति द्वात्रिंशो वर्गः ॥

अभुत्स्यु प्र देव्या साकं वाचाहमश्विनोः ।

व्यावर्देव्या मेतिं वि शार्ति मर्त्येभ्यः ॥ १६ ॥

भा०—मैं ( अश्विनोः ) दिन रात दोनों में ( देव्या ) प्रकाशमान

उपा के समान कान्तियुक्त और स्त्री पुरुषों में से ( देव्या ) गुणवती विदुषी के समान ज्ञानवती ( अश्विनोः ) विद्या के पारंगत स्त्री पुरुषों की ( वाचा ) वाणी से ( प्र अभुत्सि ) उत्तम रीति से प्रबोध, ज्ञान जागृति को प्राप्त होजं । हे ( देवि ) विदुषि ! हे वाणि ! तू ( मर्त्येभ्यः ) मनुष्यों के हितार्थ ( मतिं वि आ आवः ) उत्तम सुमति और ज्ञान को विशेष रूप से प्रकट कर । और ( रतिं वि आवः ) दान भी विविध प्रकार से प्रदान कर ।

प्र बोधयोपो अश्विना प्र देवि सूनृते महि ।

प्र यज्ञहोतरानुपक्वप्र मदाय श्रवो बृहत् ॥ १७ ॥

भा०—हे ( उपः ) उपा प्राभातिक सूर्य की कान्ति के समान सुशो-भित देवि ! हे ( देवि ) विदुषि ! ज्ञान का प्रकाश देने वाली ! दानशीले ! हे ( सुनृते ) उत्तम सत्य ज्ञान से युक्त ! हे ( महि ) पूज्ये ! जिस प्रकार उपा सत्र को जगाती है उसी प्रकार तू भी ( प्र प्र बोधय ) अच्छी प्रकार सत्र को ज्ञानोपदेश करके जगा । हे देवि ! गृह में तू ही सबसे प्रथम उठकर पति, बालक आदि को भी जगाया कर । हे ( यज्ञ-होतः ) यज्ञ में होता के समान गृहस्थ, यज्ञ में सत्पात्रों में धन अन्न आदि के देने वाले पुरुष ! तू भी ( आनुपक् ) निरन्तर ( प्र बोधय ) उत्तम ज्ञान का उपदेश किया कर । ( मदाय ) तृप्ति और आनन्द प्राप्ति के लिये ( बृहत् श्रवः ) बहुत उत्तम अन्न प्रदान कर और ( बृहत् श्रवः ) बड़े उत्तम श्रवण योग्य वेदो-पदेश देकर सबको शुद्ध और ज्ञानवान् कर ।

यदुपो यासि भानुना सं सूर्येण रोचसे ।

आ हायमश्विनो रथो वर्तिर्याति नृपाय्यम् ॥ १८ ॥

भा०—हे ( उपः ) कान्तिमति ! विदुषि ! तू जब प्राभातिक सूर्य की दीप्ति के समान ( भानुना ) प्रकाश के साथ ( यासि ) गमन करती है और ( सूर्येण ) सूर्यवत् कान्तिमान् तेजस्वी पुरुष से ( सं रोचसे ) युक्त होकर अधिक अच्छी लगती है तभी ( अश्विनोः ) आप दोनों जितेन्द्रिय

वर वधू, पति पत्नी का (अयम्) यह (रथः) रमणीय सुन्दर गृहस्थ रूप एक रथ, (नृपाय्यं वर्तिः याति) मनुष्यमात्र को पालन करने वाले गृह अर्थात् प्रजापति पद या मार्ग की ओर गति करता है। इसी प्रकार (उपा) शत्रु को दग्ध करने और राष्ट्र को वश करने वाली सेना जब सूर्यवत् तेजस्वी सेनापति को वरती है तो उनका वेगवान् रथ राष्ट्रवासी मनुष्यों के पालन के मार्ग पर गमन करे। तब उनका धर्म प्रजापालन है।

यदापी॑तासो अंश॒वो गा॒वो न दु॒ह ऊ॒र्धभिः॑ ।

यद्वा॑ वा॒णीर॒नूप॒त् प्र दे॒व्यन्तो॑ अ॒श्विना॑ ॥ १९ ॥

भा०—जिस प्रकार (गावः ऊर्धभिः दुहे) गौंवे स्तन-मण्डलों से दूध देती हैं उसी प्रकार (यत्) जब (आपीतासः) ईपत् विंगल वर्ण के, वा ज्ञान को सब प्रकार से पान किये हुए प्रदान करते और जब (देवयन्तः) देव, प्रभु की कामना करते हुए (प्र अनूपत्) वाणियों का उच्चारण करती हैं उस समय हे (अश्विना) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो! आप दोनों भी उसका उत्तम लाभ लो।

प्र द्यु॒म्नाय॑ प्र श॒वसे॑ प्र नृ॒पा॒हाय॑ श॒र्मणे॑ ।

प्र द॒क्षाय॑ प्र॒चेत॒सा ॥ २० ॥

भा०—हे (प्र-चेतसा) उत्तम चित्त और ज्ञान वाले जनो! आप दोनों (द्युम्नाय) उत्तम ऐश्वर्य, (शवसे) बल और (नृ-पाहाय) सब शत्रु-नायकों को पराजय करने, (शर्मणे) शत्रुहिंसक बल और प्रजा को शान्तिदायक शरण देने और (दक्षाय) बल और ज्ञान को प्राप्त करने के लिये (प्र प्र प्र प्र) सदा उत्तम से उत्तम मार्ग पर आगे बढ़ो।

यन्नूनं॑ धी॒भिर॑श्विना॑ पि॒तुर्यो॑ना॑ नि॒षीद॑थः ।

यद्वा॑ सु॒म्नेभि॑रुक्थ्या ॥ २१ ॥ ३३ ॥

भा०—(यत्) जब हे (अश्विना) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो! (नूनं) निश्चय से (धीभिः) उत्तम कर्मों (यद्वा) और जब (सुम्नेभिः) सुख-

जनक कार्यों से (पितुः योना) अपने पूज्य माता पिता गुरु के गृह में (निषी-  
दथः) खूब दृढ़ हो जाते हो तब आप दोनों ( उक्था ) उत्तम प्रशंसा  
योग्य हो जाते हो । इति त्रयोविंशो वर्गः ॥

[ १० ]

प्रगाथः कारव ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, ५ आर्ची स्वराड् बृहती ।  
२ त्रिष्टुप् । ३ आर्ची भुरिगनुष्टुप् । ४ आर्चीभुरिक् पंक्तिः । ६ आर्पी स्वराड्  
बृहती ॥ पठुचं सूक्तम् ॥

यत्स्थो दीर्घप्रसन्ननि यद्वादो रोचने दिवः ।

यद्वा समुद्रे अध्याकृते गृहेऽत आ यातमश्विना ॥ १ ॥

भा०—( यत् ) यदि तुम दोनों ( दीर्घ-प्र-सन्ननि ) बड़े भवनों वाले  
नगर में ( स्थः ) होवो, ( यद्वा ) या चाहे आप दोनों ( अदः ) इस  
दूरस्थ ( दिवः रोचने ) पृथिवी के क्रीड़ा, विनोदयुक्त किसी रुचिकर स्थान  
में होवो ( यद्वा ) अथवा चाहे ( समुद्रे ) जल में या समुद्र से घिरे  
गृह में (अधि स्थः) बैठे हो, तो भी हे ( अश्विना ) वेग से चलने वाले  
अश्वदि साधनों से सम्पन्न जनो! आप ( अतः आ यातम् ) वहां से  
आया जाया करो ।

यद्वा यज्ञं मनवे संमिमिक्षथुः रेवेत्कारवस्य बोधतम् ।

बृहस्पतिं विश्वान्देवाँ अहं हुव इन्द्राविष्णूँ अश्विनावाशुहेषसा २

भा०—( यद्-वा ) और जब आप दोनों ( मनवे ) मनुष्य मात्र के  
हित के लिये ( यज्ञं सं मिमिक्षथुः ) यज्ञ को परस्पर मिलकर एक साथ  
करो, तब भी ( एव इत् काण्वस्य बोधतम् ) विद्वान् जनों को उसका ज्ञान  
करा दिया करो । ( बृहस्पतिम् ) सबसे बड़े राष्ट्र और वेद वाणी के पालक,  
और ( विश्वान् देवान् ) समस्त मनुष्य प्रजावर्ग या विद्याभिलाषी विद्यार्थियों  
को और ( इन्द्राविष्णूँ ) ऐश्वर्यवान् राजा व्यापक सामर्थ्य वाले सेनापति

इन दोनों को और ( आशु-हेपसा ) शीघ्र ही उत्तम ध्वनि करने वाले ( अश्विना ) अश्वारोही वा जितेन्द्रिय जनों को ( अहं हुवे ) आदर पूर्वक प्रार्थना करूं कि वे मेरे यज्ञ में अवश्य आया करें ।

त्या न्व॑श्विना॑ हुवे सु॒दंस॑सा गृ॒भे कृ॑ता ।

य॒योरस्ति॑ प्र राः स॒ख्यं दे॒वेष्व॑ध्याप्य॑म् ॥ ३ ॥

भा०—( त्या अश्विना नु हुवे ) मैं उन दोनों जितेन्द्रिय, गृहस्थ स्त्री-पुरुषों को आदरपूर्वक निमन्त्रित करूं जो दोनों ( सु-दंससा ) उत्तम कर्मों का आचरण करने वाले और ( गृभे कृता ) गृह में एकत्र पति पत्नी रूप से बने हों, ( ययोः ) जिन में ( नः सख्यं प्र अस्ति ) हमारा उत्तम सौहार्द हो और ( ययोः ) जिनका ( आप्यं ) बन्धुभाव ( देवेषु ) विद्वानों के बीच में ( प्र अस्ति ) उत्तम हो ।

य॒योरधि॑ प्र य॒ज्ञा असू॑रे सन्ति॑ सूर॒यः ।

ता य॒ज्ञस्या॑ध्व॒रस्य॑ प्र॒चेत॑सा स्व॒धाभिर्या॑ पि॒वतः॑ सो॒म्यं मधु॑ ॥४॥

भा०—( ययोः अधि ) जिन दोनों स्त्री पुरुषों के ऊपर ( यज्ञाः ) यज्ञ, उत्तम कर्म और ( असूरे ) सूर्यरहित, अन्धकार युक्त काल या देश में भी ( ययोः अधि ) जिन के अधीन वा जिनपर नाना ( सूरयः ) विद्वान् आश्रय पाते वा अध्यक्ष हैं । ( या ) जो दोनों ( स्वधाभिः ) अन्नों सहित ( सोम्यं मधु पिवतः ) ओषधिरस युक्त मधुर जल मधु आदि मधुर पदार्थ का पान करते हैं ( ता ) वे दोनों ( प्र-चेतसा ) उत्तम विद्वान्, शुभ-चित्तवान् होकर ( अध्वरस्य यज्ञस्य ) हिंसा रहित वा अक्षय यज्ञ के ( स्वधाभिः ) अन्नादि से करने वाले हों ।

यद्दु॒द्याश्वि॑नाव॒पाग्य॑त्प्राक्स्थो वा॑जिनीवसू ।

यद्दु॒ह्यव्य॑न॒वि तु॒र्वशे॑ यदौ॑ हुवे वाम॒थ मा ग॑तम् ॥ ५ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! ( यद् अद्य ) जो तुम दोनों ( अपाग् ) पश्चिम में या ( यत् ) जो ( प्राक् स्थः ) पूर्व में भी

होवो, हे ( वाजिनीवसू ) विधा और बलशक्ति युक्त क्रिया से सम्पन्न विद्वानो ! ( यद् ) यदि तुम दोनों ( द्रुह्यवि ) परस्पर के द्रोही जनों में, ( तुर्वशे ) एक दूसरे के हिंसक जनों में और ( अनवि ) छोटे या अप्रसिद्ध जनों में या ( यदौ ) यत्नशील उद्योगी श्रमी जनों में भी होवो तो मैं अवश्य ( अद्य ) आज ही तुरन्त ( हुवे ) आदरपूर्वक निमन्त्रित करूँ । ( अथ ) और तुम दोनों ( मा गतम् ) मुझे अवश्य प्राप्त हो । उत्तम जितेन्द्रिय स्त्री पुरुष कहीं भी हों और किसी भी जनसमाज में हों उनको आदरपूर्वक निमन्त्रित कर लेना चाहिये ।

यदन्तरिक्षे पतथः पुरुभुजा यद्वेमे रोदसी अनु ।

यद्वा स्वधाभिरधितिष्ठथो रथमत आ यातमश्विना ॥६॥३४॥

भा०—हे ( अश्विना ) आशुगामी अश्वों और यन्त्रों के जानने और बनानेवाले शिल्पकार जनो ! ( यत् ) जो आप दोनों ( पुरुभुजा ) बहुतों को पालने में समर्थ होकर ( अन्तरिक्षे पतथः ) अन्तरिक्ष मार्ग से गमन करते हो, ( यत् वा ) और जो आप दोनों ( इमे रोदसी अनु पतथः ) इन आकाश और पृथिवी दोनों में सुख से विचर सकते हों ( यद् वा ) और जो आप दोनों ( स्वधाभिः ) स्वयं अपने आप धारण करने में समर्थ शक्तियों से ( रथम् ) वेग से चलने वाले यन्त्र पर ( अधि तिष्ठथः ) अध्वक्ष रूप से विराजते हो वे आप दोनों ( अतः आयातम् ) उस प्रयोजन से हमारे पास आया करो । इति चतुर्विंशो वर्गः ॥

[ ११ ]

वत्सः काएव ऋपिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः—१ आर्ची भुरिगायत्री । २ वर्धमाना गायत्री । ३, ५—७, ९ निचृद् गायत्री । ४ विराड् गायत्री । ८ गायत्री ।

१० आर्ची भुरिक् त्रिष्टुप् ॥ दशर्चं सूक्तम् ॥

त्वमग्ने व्रतपा असि देव आ मर्त्येष्वाम् । त्वं यज्ञेष्वीज्यः ॥ १ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) ज्ञानवन् ! सर्वव्यापक ! अग्निवत् तेजःस्वरूप सत्यार्थ के प्रकाशक ! विद्वन् ! राजन् ! प्रभो ! ( त्वं ) तू (व्रत-पाः असि) व्रतों, सत्कर्मों, अर्जों का पालक है। और ( मर्त्येषु आ ) मनुष्यों में भी तू ( देवः ) सब सुखों का दाता, दीप्तिमान् है। ( त्वं ) तू (यज्ञेषु) समस्त यज्ञों में ( ईडयः ) स्तुति करने योग्य, पूज्य और चाहने योग्य है।

त्वमसि प्रशस्यो विदथेषु सहन्त्य । अग्ने रथीरध्वराणाम् ॥२॥

भा०—हे ( अग्ने ) अग्निवत् तेजस्विन् ! हे ( सहन्त्य ) शत्रुओं के पराजयकारिन् ! हे सब के साथ व्यापक ! ( त्वम् ) तू (विदथेषु) यज्ञों, संग्रामों और ज्ञान लाभ के अवसरों में ( प्रशस्यः असि ) सब से प्रशंसा करने और उत्तम रीति से उपदेश करने योग्य है। तू ही ( अध्वराणाम् ) यज्ञों और सन्मार्ग, मोक्ष मार्ग में जाने वालों में (रथीः) रथवान् के समान सुख से मार्ग पार करा देने और अन्तिम लक्ष्य तक पहुंचा देने हारा है।

स त्वमस्मदप द्विपां युयोधि जातवेदः । अदेवीरग्ने अरातीः ॥३॥

भा०—हे ( अग्ने ) अग्रणी ! नायक ! अग्निवत् तेजस्विन् ! हे (जात-वेदः ) समस्त उत्पन्न पदार्थों के जानने हारे ! सब में व्यापक प्रभो ! विद्यावान् विद्वन् और धनैश्वर्य के स्वामिन् ! राजन् ! ( त्वं ) तू (सः) वह ( द्विपः ) द्वेष करने वालों और द्वेष के योग्य भाव क्रोधादि अन्तः-शत्रुओं को भी और ( अरातीः अदेवीः ) शुभ उत्तम गुणों से रहित दान या अनेक उचित अधिकारों को न देने वाले भावों, प्रवृत्तियों और वाणियों को भी ( अस्मत् अप युयोधि ) हम से दूर कर।

अन्ति चित्सन्तमहं यज्ञं मर्त्तस्य रिपोः । नोप वेपि जातवेदः ॥४॥

भा०—हे ( जात-वेदः ) समस्त पदार्थों को जानने हारे प्रभो ! हे कृतविद्य विद्वन् ! ( रिपोः मर्त्तस्य ) पापी पुरुष के ( अन्तिचित् सन्तं यज्ञं ) अति समीप विद्यमान यज्ञ को ( न उप वेपि ) प्राप्त नहीं होता,

नहीं स्वीकार करता, तू शत्रुता के भाव को रखने वाले मनुष्य के यज्ञ, पूजा, आदर भाव वा दान को स्वीकार नहीं करता ।

मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे । विप्रासो जातवेदसः ५।३५

भा०—हे प्रभो ! विभो ! ( जात-वेदसः ) समस्त उत्पन्न पदार्थों में व्यापक सर्वेश्वर्यवान्, सर्वज्ञ ( ते ) तुझे ( अमर्त्यस्य ) अविनाशी के ( भूरि नाम ) बहुत सेनानों से हम ( मर्ताः ) मनुष्य, जीवगण ( मनामहे ) तेरी स्तुति करते हैं ।

विप्रं विप्रासोऽवसे देवं मर्तास ऊतये । अग्निं गीर्भिर्हवामहे ॥६॥

भा०—हम ( विप्रासः मर्तासः ) विद्वान् बुद्धिमान् मनुष्य ( अवसे ) रक्षा, ज्ञान, आत्मसंतोष, प्रीति सुखादि के लिये और ( ऊतये ) तुझे प्राप्त होने के लिये ( विप्रं ) त्रिविध ऐश्वर्यों के पूरक ( देवं ) प्रकाशमान ( अग्निं ) ज्ञानस्वरूप की हम ( गीर्भिः ) नाना वेदवाणियों से ( हवामहे ) स्तुति करते हैं ।

आ ते वत्सो मनो यमत्परमाच्चित्सुधस्थात् ।

अग्ने त्वाङ्गामया गिरा ॥ ७ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) प्रकाश स्वरूप ! ( वत्सः ) तेरी स्तुति करने हारा उपासक तेरे पुत्रवत् प्रिय ( परमात् चित् सुधस्थात् ) परम, सर्वोत्कृष्ट तेरे साथ एकत्र रहने की स्थिति से ( ते ) तुझे प्राप्त करने के लिये ( त्वाङ्गामया गिरा ) तुझे चाहने वाली, भक्ति भरी वाणी से ( मनः ) अपने मन को ( आ यमत् ) सब ओर से रोकें और तेरे ही में लगावे ।

पुरुत्रा हि सदृङ्क्षि विशो विश्वा अनु प्रभुः ।

समत्सु त्वा हवामहे ॥ ८ ॥

भा०—हे प्रभो ! राजन् ! तू ( पुरुत्रा ) बहुत से स्थानों में भी सूर्यवत् ( सदृङ् अस्मि ) एक समान सब को देखने और दीखने हारा सर्वत्र एक रस है, तू ( विश्वाः विशः अनु ) समस्त प्रजाओं के ऊपर अनुग्रह



करने हारा, ( प्रभुः ) सर्वोत्तम शासक प्रभु है । ( त्वा ) तुझ से ही ( समत्सु ) हर्ष के अवसरों और युद्धों में भी ( हवामहे ) प्रार्थना करते हैं । समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो हवामहे । वाजेपु चित्रराधसम् ॥९॥

भा०—हम ( समत्सु ) संग्राम में और एक साथ मिलकर आनन्द अनुभव करने के अवसरों में और ( वाजेपु ) ऐश्वर्यों, ज्ञानों, अन्नों के निमित्त ( चित्र-राधसम् ) अद्भुत धन के धनी, ( अग्निम् ) सर्वव्यापक, अग्रणी, ज्ञानस्वरूप प्रभु की ( अवसे ) रक्षा, पालन, ज्ञान आदि के लिये ही ( वाजयन्तः ) ऐश्वर्य ज्ञानादि की कामना करते हुए हम लोग ( हवामहे ) स्तुति करते हैं ।

प्रत्नो हि कृमीड्यो अध्वरेपु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि ।

स्वां चाग्ने तन्वं पिप्रयस्त्वास्मभ्यं च सौभगमा यजस्व १०।३६।८।५

भा०—हे ( अग्ने ) अग्निवत् स्वप्रकाश ! सब जगत् से पूर्व विद्यमान ! सबके नायक ! ( हि ) जिससे तू ( प्रत्नः ) सबसे पुराना, अनादि काल से विद्यमान ( ईड्यः कम् ) स्तुति योग्य, उपास्य ( अध्वरेपु ) अविनाशी पदार्थों में, यज्ञों में भी स्तुति करने योग्य है, तू ( नव्यः च ) अति स्तुति योग्य, सदा नवीन और ( सनात् च ) सनातन काल से ही ( होता ) सर्व सुखदाता होकर ( सत्सि ) विराजता है । तू ( स्वां च तन्वं ) अपने ही विस्तृत सृष्टि को ( पि प्रयस्व ) पालन और तृप्त कर उसको कर्मानुसार भोग भुगा और ( अस्मभ्यं च ) हमें भी ( सौभगम् आ यजस्व ) उत्तम २ ऐश्वर्य प्रदान कर । इति पट्त्रिंशो वर्गः ॥ इत्यष्टमोऽध्यायः ॥

\* इति पञ्चमोऽष्टकः समाप्तः ॥

इति श्रीविद्यालंकार-मीमांसातीर्थविरुदोपशोभितेन श्रीमत्पण्डितजयदेव-  
शर्मणा विरचित आलोकभाष्ये पञ्चमोऽष्टकः समाप्तः ॥

## अथ षष्ठोऽष्टकः

### प्रथमोऽध्यायः

[ १२ ]

पर्वतः काण्वं ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, २, ८, ९, १५, १६, २०, २१, २५, ३१, ३२ निचृदुष्णिक् । ३—६, १०—१२, १४, १७, १८, २२—२४, २६—३० उष्णिक् । ७, १३, १९ आषीविराडुष्णिक् । ३३ आचीं स्वराडुष्णिक् ॥ त्रयस्त्रिंशदृचं सूक्तम् ॥

य इन्द्र सोमपातसो मदः शविष्ट चेतति ।

येना हंसि न्यत्रिणं तमीमहे ॥ १ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे शत्रुओं के नाशक ! हे (शविष्ट) बलशालिन् ! हे ज्ञानवन् ! (यः) जो तू (सोम-पातमः) सोम, ऐश्वर्य की और जगत् वा राष्ट्र-प्रजाजन की पुत्रवत्, ओपधिवनस्पति आदि को मेघ वा सूर्यवत् उत्तम रीति से पालन करने वाला और (मदः) सबको तृप्त एवं प्रसन्न करने वाला, आनन्दमय होकर (चेतति) सबको ज्ञान प्रदान करता है और (येन) जिस कारण से तू (अत्रिणं) जगत् के, प्रजा के भक्षक, नाशक का (नि हंसि) विनाश करता है अतः (तम्) उस तुझको हम लोग (ईमहे) प्राप्त होते और तुझ से रक्षादि की याचना-प्रार्थना करते हैं । अज्ञ ज्ञान देने और पालन, रक्षा करने वाले प्रभु की हम सदा स्तुति करें, उसी से सब कुछ मांगें ।

येना दशग्वमधिगुं वेपयन्तुं स्वर्णरम् ।

येना समुद्रमाविथा तमीमहे ॥ २ ॥

भा०—( येन ) जिससे या जो हे प्रभो ! राजन् ! तू ( दशग्वम् ) 'दशगु' दश भूमि या दस ग्रामों के स्वामी को और ( अधिगु-अधिगुं ) इससे भी अधिक भूमियों के स्वामी को और ( स्वः-नरं ) सबके नेता, सुखों के प्रदान करने वा ज्ञानोपदेश के देने वाले विद्वान् जन को और ( वेदयन्तं ) शत्रुओं को कंपाने वाले बलवान् को और ( येन ) जिस कारण से तू ( समुद्रम् ) समुद्रवत् अपार, उमड़ने वाले, उत्साही राष्ट्र प्रजाजन और सैन्य बल को ( आविथ ) रक्षा करता, प्राप्त करता और उसका पोषण करता है इससे हम सब ( तम् ) उस तुझको ( ईमहे ) प्राप्त होते और तुझ से प्रार्थना करते हैं । अध्यात्म में—'दशगु' दश इन्द्रियों का स्वामी और अधिगु अधिक गति वाला, अधिक ज्ञानी आत्मा, सबका सञ्चालक 'स्वर्नर' वायु, प्राण और 'समुद्र' जलमय सागर और आकाश इन सब की प्रभु रक्षा करता है । वही सर्वोपास्य स्तुत्य, शरणीय है ।

येन सिन्धुं महीरुपो रथो इव प्रचोदयः ।

पन्थामृतस्य यातवे तमीमहे ॥ ३ ॥

भा०—( येन ) जिस कारण वा जो तू हे भगवन् ! जिस प्रकार ( रथान् इव ) रथों, रथारोही वीरों को और ( सिन्धुम् ) अश्व सैन्यों को और ( महीः ) भूमिवासिनी प्रजाओं को और ( अपः ) आपस जनों को राजावत् उत्तम मार्ग में चलाता है उसी प्रकार तू ( सिन्धुं ) महान् समुद्र को ( महीः अपः ) भूमियों और जलों को ( प्रचोदयः ) उत्तम उद्देश्य के लिये चला या प्रेरित कर रहा है । ( ऋतस्य पन्थाम् यातवे ) सत्य के मार्ग पर चलने के लिये ( तं ) उसी देवों के देव, राजाओं के राजा तुझ को हम ( ईमहे ) प्राप्त होते हैं ।

इमं स्तोममभिष्टये घृतं न पूतमद्रिवः ।

येना नु सद्य ओजसा ववक्षिथ ॥ ४ ॥

भा०—हे प्रभो ! ( येन ) जो तू ( सद्यः ) सदा समान सब दिनों ( ओजसा ) बड़े भारी बल पराक्रम से महान् राजा के समान ( ववक्षिथ ) समस्त जगत् को धारण कर रहा है, तू सबसे महान् है, हे ( अद्रिवः ) अखण्ड शक्तिशालिन् ! अतः हम भी ( अभिष्टये ) अपने अभिलषित फल का प्राप्त करने के लिये ( घृतं न पूतं ) पवित्र जल के समान स्वच्छ एवं तृप्ति सुख और आरोग्यकारक और ( घृतं न पूतम् ) पवित्र प्रकाशमय तेज के समान परम पावन, अन्तःकरण के प्रकाशक ( इमं स्तोमं ) इस स्तुति-वचन वेदमय ज्ञान को ( ईमहे ) तेरे से प्राप्त करते हैं । उसी स्तुत्य ज्ञान प्रकाश की तुझ से याचना करते हैं ।

इमं जुपस्व गिर्वणः समुद्र इव पिन्वते ।

इन्द्र विश्वाभिरुतिभिर्ववाक्षिथ ॥ ५ ॥ १ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! शक्तिशालिन् ! इस संसार के द्रष्टः ! तू ( विश्वाभिः ) समस्त ( उतिभिः ) रक्षा और शक्तियों से ( ववक्षिथ ) इस संसार को धारण कर रहा है, तू सबसे महान् है । हे ( गिर्वणः ) वाणियों द्वारा श्रवण भजन करने योग्य ! हे समस्त वेद वाणियों को देनेहारे ! तू ( समुद्रः इव ) महान् सागर के समान ( समुद्रः ) समान रूप से सबको आनन्द हर्ष का देने वाला, परमानन्द का सागर ( पिन्वते ) होकर बढ़ता है, तू ( इमं ) इस स्तुति को भी ( जुपस्व ) प्रेमपूर्वक स्वीकार कर । इति प्रथमो वर्गः ॥

यो नो देवः परावतः सखित्वनाय मामहे ।

दिवो न वृष्टिं प्रथयन्ववाक्षिथ ॥ ६ ॥

भा०—( यः ) जो ( देवः ) दानशील, सब सुखों का दाता, जगत् का प्रकाशक, सूर्यवत् तेजस्वी ( परावतः ) दूर, परम स्थान से भी ( दिवः

वृष्टिं प्रथयन् ) आकाश से वृष्टि करता हुआ इस जगत् को ( ववक्षिथ ) ज्ञान का उपदेश करता है, उसको हम ( सखित्वनाय ) अपना मित्र बना लेने की ( मामहे ) प्रार्थना करते हैं ।

ववक्षुरस्य केतव उत वज्रो गभस्त्योः ।

यत्सूर्यो न रोदसी अवर्धयत् ॥ ७ ॥

भा०—( रोदसी सूर्यः न ) आकाश और भूमि दोनों लोकों को सूर्य जिस प्रकार बढ़ाता, पुष्ट करता है उसी प्रकार ( सूर्यः ) सब जगत् का सञ्चालक, प्रकाशक और उत्पादक प्रभु परमेश्वर ( रोदसी ) इस समस्त संसार को ( अवर्धत् ) शिल्पीवत् बनाता, राजावत् उनकी वृद्धि, और पोषण करता है । अथवा, ( सूर्यः न ) सूर्य के समान बढ़ाता और ( रोदसी न ) अन्तरिक्ष, भूमिवत् वा बालक को माता पितावत् पालता और पुष्ट करता है, ( अस्य ) उस प्रभु के ( केतवः ) सूर्य की किरणों के समान ज्ञान विज्ञान और नाना शक्तियाँ ( उत ) और ( गभस्त्योः वज्रः न ) हाथों में पकड़े शस्त्र के समान ( वज्रः ) ज्ञानमय उपदेश ये सब ( ववक्षुः ) जगत् को धारण करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं ।

यदि प्रवृद्ध सत्पते सहस्रं महिषां अधः ।

आदित्त इन्द्रियं महि प्र वावृधे ॥ ८ ॥

भा०—हे ( प्रवृद्ध ) सबसे महान् ! हे ( सत्पते ) सत्, व्यक्तजगत् सत्पदाथों, सज्जनों और सत्य ज्ञान के पालक ! ( यदि ) जो तू ( सहस्रं महिषान् ) हजारों, अनेक बड़े २ शक्तिशाली सूर्य, मेघ, समुद्र, पवनादि को ( अधः ) संञ्चालित करता है, वा सहस्रों बड़े विघ्नों का नाश करता है ( आत् इत् ) इससे ही तेरा ( महि इन्द्रियं ) महान् ऐश्वर्य, बल, और आत्म-सामर्थ्य ( प्र वावृधे ) बहुत बढ़ा है ।

इन्द्रः सूर्यस्य रश्मिभिर्न्यर्शसानमोषति ।

अग्निर्वनेव सासहिः प्र वावृधे ॥ ९ ॥

भा०—( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् प्रभु ( सूर्यस्य रश्मिभिः ) सूर्य की किरणों से ( अर्शसानम् ) नाशकारी रोग और अन्धकार को (नि-ओपति) सर्वथा ऐसे भस्म कर देता है जैसे ( अग्निः वना इव ) आग वनों और काष्ठों को जला डालती है । वह ( सासहिः ) सर्वोत्कृष्ट बलशाली, सब को पराजित करने में समर्थ होकर ( प्र वावृधे ) सब से अधिक बढ़ जाता है, वह सबसे महान् है । ( २ ) इसी प्रकार इन्द्र, राजा सूर्य-रश्मिवत् अपने नियामक शासकों से प्रजानाशक दुष्ट वर्ग को पीड़ित करे, अग्निवत् भस्म करे, सर्वविजयी होकर बढ़े ।

इयं तं ऋत्वियावती धीतिरेति नवीयसी ।

सपर्यन्ती पुरुप्रिया मिमीते इत् ॥ १० ॥ २ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( इयं ) यह ( ते ) तेरी ( ऋत्वियावतीः ) ऋतु ऋतु में करने योग्य यज्ञादि वाली, ( नवीयसी ) अति स्तुत्य ( धीतिः ) स्तुति, ( पुरु-प्रिया ) बहुतों को प्रसन्न करने वाली, ( सपर्यन्ती ) परमेश्वर की अर्चना करती हुई, वेदवाणी ( मिमीते इत् ) सबको उपदेश करती है । उसी प्रकार ( ते धीतिः ) हे प्रभो ! तेरी जगत्धारक, पोषक शक्ति, ( ऋत्वियावती ) सूर्य से उत्पन्न ऋतुवत् नियम पूर्वक भिन्न २ सामर्थ्यों से विश्व को चलाने वाली, अति स्तुत्य, सर्वप्रिय, ( मिमीते ) जगत् को बनाती है । ( २ ) राजा की राष्ट्रधारक शक्ति, ( ऋत्वियावती ) 'ऋतु' राजसभादि के सदस्यों वा शासक जनों से युक्त, सर्वप्रिय राष्ट्र की सेवा करती हुई, ( मिमीते इत् ) राष्ट्र का निर्माण करती है । इति द्वितीयो वर्गः॥

गर्भो यज्ञस्य देवयुः क्रतुं पुनीत आनुषक् ।

स्तोमैरिन्द्रस्य वावृधे मिमीते इत् ॥ ११ ॥

भा०—( देवयुः ) उस सर्वस्व दाता प्रभु को चाहने वाला मनुष्य ( यज्ञस्य गर्भः ) यज्ञ, परम उपासनीय, पूज्य, सर्वदाता प्रभु की स्तुति करने वाला, उसी का आश्रय ग्रहण करने वाला और उसी के भीतर माता

के पेट में बालक के समान, उसी प्रभु की रक्षा में पालित पोषित होकर ( आनुपक् ) निरन्तर ( क्रतुं ) अपने ज्ञान और कर्म को ( पुनीते ) शुद्ध पवित्र करता है । वह ( इन्द्रस्य स्तोमैः ) ऐश्वर्यवान् प्रभु के उपदेशमय वेदत्रचनों तथा स्तुति-वचनों से ( ववृधे ) बढ़ता और ( मिमीते इत् ) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु का ज्ञान भी कर लेता है ।

सनिमित्रस्य पप्रथ इन्द्रः सोमस्य पीतये ।

प्राची वाशीव सुन्वते मिमीते इत् ॥ १२ ॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् प्रभु ( सोमस्य पीतये ) उत्पन्न जगत् वा जीवगण को पालन और कर्मफलोपभोग करने के लिये (मित्रस्य) अपने को स्नेह करने वाले जीव, भक्त को (सनिः) सब सुखों का दाता होकर (पप्रथे) जगत् को विस्तृत करता है, अर्थात् जीवों के भोग और मोक्ष लिये जगत् को रचता है । (सुन्वते वाशी इव) शिल्पी का वसूला जिस प्रकार उत्तम-रीति से आगे बढ़कर काष्ठ की वस्तुएं बनाता है उसी प्रकार ( वाशी ) सब जगत् को वश करने वाली और जगत्सर्ग करूं ऐसी 'कामना' करने, वा ( सुन्वते = सुन्वतः ) जगत्सर्ग करने वाले विधाता की शक्ति (प्राची) सब से उत्कृष्ट होकर ही ( मिमीते इत् ) इस संसार की रचना करती है । अथवा—( सुन्वते वाशी इव ) जिस प्रकार यज्ञोपासना करने वाले की वाणी ( मिमीते ) शब्द करती है, उसी प्रकार (प्राची) उत्तम पूज्य प्रभु-शक्ति भी गुरुवत् ( सुन्वते मिमीते ) भक्त उपासक को शिष्यवत् ज्ञान प्रदान करती है ।

यं विप्रा उक्थवाहसोऽभिप्रमन्दुरायवः ।

घृतं न पिप्य आसन्वृतस्य यत् ॥ १३ ॥

भा०—( यं ) जिस परमेश्वर को ( उक्थ-वाहसः ) वेद मन्त्रों को धारण करने वाले ( विप्राः ) विद्वान् ( आयवः ) पुरुष ( अभि प्रमन्दुः ) साक्षात् कर प्रसन्न होते, आनन्द लाभ करते हैं उसी प्रकार ( यत् ) जो

( ऋतस्य ) सत्य स्वरूप, परम कारण परमेश्वर सत्य ज्ञान वेद के ( घृतं ) प्रकाशवत् दीप्ति से युक्त है उसको अपने ( आसनि ) मुख में ( घृतम् इव ) पुष्टि दायक घृत के समान ही ( पिप्ये ) पान करूं। अर्थात् मुख से सत्य ज्ञान वेद का अभ्यास, आवर्त्तन मनन आदि अन्न घृतादि आहार के ग्रहण चर्वण आदि के समान ही शनैः २ करना और उसे मनन द्वारा पचाना चाहिये ।

उत स्वराजे अदितिः स्तोममिन्द्राय जीजनत् ।

पुरुप्रशस्तमूतयं ऋतस्य यत् ॥ १४ ॥

भा०—( उत ) और ( स्वराजे ) स्वयंप्रकाश, ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान् प्रभु परमेश्वर के ( स्तोमम् ) स्तुति वा उपदेश-रूप वेद ज्ञान को ( अदितिः ) अखण्ड, अविनाशी वेद ही ( जीजनत् ) प्रकट करता है । और ( यत् ) जो ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान या परम कारणमय प्रभु का ( पुरुप्रशस्तं ) बहुत विद्वानों से उपदेश करने योग्य ज्ञान है उसको ( ऊतये ) जगत् की रक्षा के लिये ( अदितिः ) अखण्ड व्रत वाला तपस्वी पुरुष ही ( जीजनत् ) प्रकट या प्रकाशित करे ।

अभि वह्नय ऊतयेऽनूपतु प्रशस्तये ।

न देव विव्रता हरी ऋतस्य यत् ॥ १५ ॥ ३ ॥

भा०—( वह्नयः ) ज्ञान को धारण करने वाले विद्वान् अध्यापक उपदेशक शुश्रूषु जन ( ऊतये ) ज्ञान प्राप्त करने और ( प्र-शस्तये ) तेरी उत्तम स्तुति और जनों को अच्छी प्रकार शासन या उपदेश के लिये ( ऋतस्य यत् ) सत्य ज्ञानमय वेद या प्रभु का जो अति प्रशस्त ज्ञान है उसका ( अनूपत ) उपदेश करते हैं । हे ( देव ) समस्त सुखों के दाता, ( ज्ञान और जगत् के प्रकाश प्रभो ! ( विव्रता ) व्रत, सत्कर्मों से रहित आचरण करने वाले ( हरी ) स्त्री पुरुष सत्य ज्ञान के उस तत्त्व को ( न ) नहीं पाते । इति तृतीयो वर्गः ॥



यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित आप्तये ।

यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥ १६ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( यत् ) जो तू ( विष्णवि ) व्यापक प्रकाश वाले सूर्य के आधार पर, ( यद्वा घ आप्तये ) और जो तू जलों से पूर्ण ( त्रिते ) तीनों लोकों के आश्रय और ( यद्वा मरुत्सु ) वा प्राणों के आश्रय पर, ( इन्दुभिः ) ऐश्वर्य युक्त पदार्थों द्वारा ( सोमम् ) उत्पन्न होने वाले जीव या जगत् को ( सम् मन्दसे ) भली प्रकार प्रसन्न और आनन्दित करता है इस कारण तू दयालु, सर्वप्रद, सर्वोपास्य है ।

यद्वा शक्र परावति समुद्रे अधि मन्दसे ।

अस्माकमित्सुते रणा समिन्दुभिः ॥ १७ ॥

भा०—हे ( शक्र ) शक्तिमन् ! ( यद् वा ) जो तू ( परावति ) अज्ञानियों से अति दूर, परम ( समुद्रे ) अति उल्लासयुक्त समान रूप से एक रस आनन्द से परिपूर्ण रूप में ( अधि मन्दसे ) अतिशय आनन्द से रमता है । ( सुते ) इस उत्पन्न जगत् में ( इन्दुभिः ) इन ऐश्वर्य युक्त, दीप्तियुक्त और रसवत् द्रुतगति से जाने वाले नाना पदार्थों से ( अस्माकम् इत् रण ) हमें अवश्य सुखी कर ।

यद्वासि सुन्वतो वृधो यजमानस्य सत्पते ।

उक्थे वा यस्य रण्यसि समिन्दुभिः ॥ १८ ॥

भा०—हे ( सत्-पते ) सत् पुरुषों के पालक ! ( यद् वा ) जो तू ( यस्य सुन्वतः ) जिस किसी भी साधक ( यजमानस्य ) देवपूजा करने वाले उपासक को तू ( वृधः ) बढ़ाता है और उसके ( उक्थे ) स्तुति वचन पर ( रण्यसि ) प्रसन्न होता है वह तू उसको ( इन्दुभिः सं रण ) नाना ऐश्वर्यों से प्रसन्न और आनन्दित करता है ।

देवदेवं वोऽवस इन्द्रमिन्द्रं गृणीषणि ।

अर्धा यज्ञाय तुर्वणे व्यानशुः ॥ १९ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! मैं ( वः ) आप लोगों को ( देवं-देवं ) सर्वत्र प्रकाशमान और ( इन्द्रम्-इन्द्रम् ) सर्वत्र ऐश्वर्यवान् विघ्नविनाशक प्रभु को ( अवसे ) प्राप्त करने का ( गृणीषणि ) उपदेश करता हूँ (अध) और ( तुर्वणे ) सब दुःखों और दुष्टों के नाशक ( यज्ञाय ) सर्वोपास्य परमेश्वर के ही ये समस्त ऐश्वर्य जगत् में (वि-आनशुः) विविध प्रकार से व्याप रहे हैं और समस्त ( तुर्वणे यज्ञाय ) दुःख-विघ्ननाशक सर्वदाता प्रभु को ही समस्त भक्त विविध उपायों से प्राप्त होते हैं ।

यज्ञेभिर्यज्ञवाहसं सोमेभिः सोमपातमम् ।

होत्राभिरिन्द्रं वावृधुर्व्यानशुः ॥ २० ॥ ४ ॥

भा०—उस ( यज्ञवाहसं ) देवपूजा को स्वीकार करने वाले प्रभु को विद्वान् लोग ( यज्ञेभिः ) यज्ञों, उपासनाओं से (वावृधुः) बढ़ाते, उसकी महिमा का विस्तार करते और ( वि-आनशुः ) विविध प्रकार से प्राप्त होते हैं । उस ( सोम-पातमम् ) उत्पन्न हुए नाना सगों के परम पालक प्रभु को भक्तजन ( सोमैः ववृधुः ) उसके ऐश्वर्यों के वर्णनों से ही बढ़ाते हैं और उन द्वारा ही उस तक ( वि आनशुः ) पहुंचते हैं । इसी प्रकार वे ( होत्राभिः ) नाना वाणियों से ( इन्द्रं ववृधुः ) ऐश्वर्यवान् प्रभु की महिमा बढ़ाते और उन ( होत्राभिः ) गुरु शिष्यों द्वारा देने लेने योग्य वेद वाणियों से ही उस को (व्यानशुः) विविध प्रकार से प्राप्त करते, उसका ज्ञान करते, उसके गुणों में रमते हैं । इति चतुर्थो वर्गः ॥

महीरस्य प्रणीतयः पूर्वोरुत प्रशस्तयः ।

विश्वा वसूनि दाशुषे व्यानशुः ॥ २१ ॥

भा०—( अस्य ) इसके ( महीः ) बड़ी २ ( प्र-णीतयः ) व्यवस्थाएं और ( पूर्वीः ) पूर्व भी विद्यमान, सनातन, ( प्रशस्तयः ) उत्तम स्तुतियां या उत्तम ज्ञानानुशासन करने वाली वेद वाणियां ( विश्वा वसूनि दाशुषे )

समस्त ऐश्वर्यों के देने वाले उसी प्रभु के वर्णन के लिये ( वि आनशुः ) विविध या विशेष प्रकार से उस तक पहुंचती हैं ।

इन्द्रं वृत्राय हन्तवे देवासो दधिरे पुरः ।

इन्द्रं वाणीरनूपता समोजसे ॥ २२ ॥

भा०—( देवासः ) विद्वान् मनुष्य ( वृत्राय ) बढ़ते या अन्तःकरण को आवरण करने वाले अज्ञान को ( हन्तवे ) नाश करने के लिये ( इन्द्रं ) सूर्यवत् अन्धकार को विदारण करने वाले, दीप्तिमान् प्रभु रूप सूर्य को ( पुरः दधिरे ) सदा अपने समक्ष रखते हैं, उसका ध्यान वा धारण करते हैं । और ( ओजसे ) आत्मिक परम बल प्राप्त करने के लिये ( इन्द्रं ) उसी विघ्ननाशक, तेजस्वी प्रभु की ( वाणीः ) वाणियों द्वारा ( सम् अनूपत ) उसकी अच्छी प्रकार स्तुति करते हैं ।

महान्तं महिना वयं स्तोमेभिर्हवनश्रुतम् ।

अकैरभि प्र णोनुमः समोजसे ॥ २३ ॥

भा०—( महिना महान्तं ) अपने महान् सामर्थ्य से बढ़े ( हवनश्रुतम् ) आह्वानों, उपासक की पुकारों को श्रवण करने वाले, वा 'हवन' दानों से सर्वत्र प्रसिद्ध उस प्रभु की हम ( स्तोमेभिः ) स्तुतियों और ( अकैः ) अर्चना करने योग्य वेदमन्त्रों और यज्ञों से ( ओजसे ) बल प्राप्त करने के लिये ( अभिः सं प्र नोनुमः ) साक्षात् खूब स्तुति करें ।

न यं विविक्तो रोदसी नान्तरिक्षाणि वज्रिणम् ।

अमादिदस्य तित्विषे समोजसः ॥ २४ ॥

भा०—( यं ) जिसको ( रोदसी ) भूमि और आकाश भी ( न विविक्तः ) विवेचन नहीं कर सकते और ( यं ) जिस ( वज्रिणम् ) बलशाली, प्रभु को ( अन्तरिक्षाणि न विविक्तः ) नाना अन्तरिक्ष भाग भी विवेचन नहीं कर सकते अर्थात् आकाश, भूमि और अन्तरिक्ष के नाना सर्ग, सूर्य, नक्षत्र, चन्द्र, वायु, भूमि, पर्वत, समुद्रादि भी जिसके महान्

ऐश्वर्यमय शक्तिशाली रूप का पूरी तरह से विवेचन नहीं करा सकते उसी ( अस्य ओजसः ) बलस्वरूप प्रभु के ( अमात् इत् ) बल से ही यह समस्त जगत् ( तित्विपे ) प्रकाशित होता है । ( २ ) ( रोदसी ) उपदेष्टा और शिष्य भी जिस प्रभु का वाद द्वारा विवेचन नहीं कर सकते ( अन्त-रिक्षाणि ) अन्तःकरणों के व्यापार भी जिसका विवेक, अर्थात् पृथक् स्वरूप नहीं बतला सकते, उसी परम प्रभु के बल से ज्ञान का प्रकाश होता है । वही स्वयंप्रकाशस्वरूप परमेश्वर अपने सामर्थ्य से जगत् को प्रकाशित करता है, वही अपना भी प्रकाश करता है ।

यदिन्द्रं पृतनाज्ये देवास्त्वा दधिरे पुरः ।

आदित्तै ह्यर्यता हरी ववक्षतुः ॥ २५ ॥ ५ ॥

भा०—( पृतनाज्ये ) सेनाओं के भागने के स्थान, या अवसर तथा सेनाओं से विजय करने योग्य संग्राम में जिस प्रकार ( देवाः ) विजिगीषु लोग ( इन्द्रं पुरो दधिरे ) तेजस्वी, राजा या सेनापति को आगे रखते हैं ( ह्यर्यता हरी ववक्षतुः ) वेगवान् सुन्दर दो घोड़े उसको आगे लेजाते हैं, उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! स्वयंप्रकाश प्रभो ! ( यत् त्वा ) जिस तुझे को ( देवाः ) विद्वान् एवं नाना कामना करने वाले मनुष्य ( पृतनाज्ये ) मनुष्यों से प्राप्य ऐश्वर्य या उद्देश्य के लिये ( पुरः दधिरे ) अपने समक्ष साक्षी एवं परम उद्देश्यवत् स्थापित करते हैं ( आत् इत् ) अनन्तर उसी ( ते ) तुझे ( ह्यर्यता हरी ) तेरी कामना करने वाले ज्ञानी अज्ञानी वा स्त्री पुरुष वा ज्ञानी, कर्मी, मनुष्य ( ववक्षतुः ) हृदय में धारण करते हैं । इति पञ्चमो वर्गः ॥

यदा वृत्रं नदीवृतं शवसा वज्रिन्नवधीः ।

आदित्तै ह्यर्यता हरी ववक्षतुः ॥ २६ ॥

भा०—जिस प्रकार सूर्य वा विद्युत् ( नदीवृतं वृत्रं ) गरजती मेघ मालाओं में विद्यमान जल को ( शवसा अवधीत् ) बलपूर्वक आघात करता

और उस विद्युत् को हरणशील कान्तियुक्त धन ऋण दोनों प्रकार की धाराएं दोनों कान्तियुक्त पदार्थ धारण करती हैं। उसी प्रकार ( यदा ) जब ( नदीवृतं ) नदीजलवत् निरन्तर गतिशील आत्मा की धारा में विद्यमान ( वृत्रम् ) आवरणकारी अज्ञान को हे ( वज्रिन् ) ज्ञानवज्र के स्वामिन् ! हे शक्तिशालिन् ! तू ( शवसा ) अपने ज्ञान-प्रकाश से ( अवधीः ) नाश करता है ( आत् इत् ) अनन्तर ही ( हर्यता ) तुझे चाहने वाले ( हरी ) स्त्री पुरुष वा मन और आत्मा ( ते ) तेरे विषयक ज्ञान को ( ववक्षतुः ) धारण करते हैं।

यदा ते विष्णुरोजसा त्रीणि पदा विचक्रमे ।

आदित्ते हर्यता हरी ववक्षतुः ॥ २७ ॥

भा०—हे प्रभो ! ( यदा ) जब ( ते ) तेरे ( ओजसा ) दिये सामर्थ्य, बल से ( विष्णुः ) देह में प्रविष्ट आत्मा ( त्रीणि ) तीनों ( पदा ) ज्ञातव्य और प्राप्तव्य लोकों को ( विचक्रमे ) पार कर लेता है ( आत् इत् ) अनन्तर ( हर्यता हरी ) कान्तियुक्त हरणशील आत्मा और मन दोनों ( ते ) तुझ तक ( ववक्षतुः ) पहुंचाते हैं। अथवा विष्णु, सूर्य जब तीनों लोकों में व्यापता है तब ( हर्यता हरी ) कान्तियुक्त दोनों लोक तेरा ही बल प्रकाश धारण करते हैं।

यदा ते हर्यता हरी वावृधाते दिवेदिवे ।

आदित्ते विश्वा भुवनानि येमिरे ॥ २८ ॥

भा०—( यदा ) जब ( हर्यता हरी ) कान्ति युक्त मनोहर सूर्य और भूमि ( ते ) तेरे बल से ( दिवे-दिवे ) दिनों दिन ( ववृधाते ) बढ़ते हैं ( आत् इत् ) अनन्तर ही ( विश्वा भुवनानि ) समस्त लोक ( येमिरे ) नियम में बंधते हैं।

यदा ते मारुतीर्विशस्तुभ्यमिन्द्र नियेमिरे ।

आदित्ते विश्वा भुवनानि येमिरे ॥ २९ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे तेजस्विन् ! ( यदा ) जब ( ते ) तेरे अधीन ( मारुतोः ) 'मरुत्' अर्थात् प्राणों से प्राणित ( विशाः ) प्रजाएं, ( तुभ्यम् ) तेरे ही लिये ( नियेमिरे ) नियम में बद्ध होती हैं, ( आत् इत् ) अनन्तर, उनके नियम व्यवस्थित होने के कारण ( विश्वा भुवनानि ) समस्त लोक भी ( ते ) तेरे अधीन ही नियम में व्यवस्थित होते हैं ।

यदा सूर्यमसुं दिवि शुक्रं ज्योतिरधारयः ।

आदिक्षे विश्वा भुवनानि येमिरे ॥ ३० ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! ( यदा ) जब तू ( असुं सूर्यम् ) उस सूर्य को और ( दिवि ) सूर्य में ( शुक्रं ज्योतिः ) शुद्ध तेज और अन्तरिक्ष में जल और विद्युत् आदि को ( आधारयः ) स्थापित करता है, ( आत् इत् ) फलतः ( ते ) तेरे ही अधीन, तेरी ही व्यवस्था में ( विश्वा भुवनानि ) समस्त लोक ( येमिरे ) नियन्त्रित हैं ।

इमां त इन्द्र सुष्टुतिं विप्र इयति धीतिभिः ।

जामिं पदेव पिप्रतीं प्राध्वरे ॥ ३१ ॥

भा०—( अध्वरे पिप्रतीं जामिं पदा इव ) यज्ञ में प्रसन्न होती या करती हुई बन्धुभूत पत्नी को वर वा विद्वान् पुरोहित जिस प्रकार सप्तपदी के पैर चलने को ( प्र इयति ) प्रेरणा करता है, अथवा जिस प्रकार विद्वान् गुरु बन्धुवत् शिष्य के प्रति उत्तम ज्ञान का प्रेम से प्रकाश करता है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् प्रभो ! ( विप्रः ) विद्वान् पुरुष ( ते ) तेरी ( इमां सु-स्तुतिम् ) इस उत्तम स्तुति योग्य प्रसन्न करने वाली नीति को ( धीतिभिः ) उत्तम वाणियों और कर्मों से ( प्र-इयति ) अच्छी प्रकार वर्णन करता है ।

यदस्य धामनि प्रिये समीचीनासो अस्वरन् ।

नाभा यज्ञस्य दोहना प्राध्वरे ॥ ३२ ॥

भा०—( यद् ) जब ( अस्य ) इस परमेश्वर के ( प्रिये ) अति प्रिय, मनोहर ( धामनि ) परम-सर्वाश्रय तेज या ब्रह्मपद में ( समीचीनासः )

अच्छी प्रकार सुसंगत होकर विद्वान् लोग ( अस्वरन् ) स्तुति करते हैं, तब ( यज्ञस्य ) परम पूजनीय परमेश्वर के ( अध्वरे ) अविनाशी, हिंसारहित, दयामय ( नाभा ) सब को बांधने वाले, ( दोहना ) सब सुखों के देने वाले उस ( धामनि ) तेजोमय स्वरूप में ही वे आनन्द लाभ करते हैं ।

सुवीर्यं स्वश्वर्यं सुगव्यमिन्द्र दद्वि नः ।

होतेव पूर्वचित्तये प्राध्वरे ॥ ३३ ॥ ६ ॥ २ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! हे तेजोमय ! हे ऐश्वर्यप्रद ! जिस प्रकार ( अध्वरे पूर्वचित्तये होता इव ) यज्ञ में पूर्ण ज्ञानवान् पुरुष के उपकारार्थ दानशील यजमान, उत्तम अश्व गौ आदियुक्त धन प्रदान करता है उसी प्रकार प्रभो ! तू ( नः ) हमें भी ( पूर्वचित्तये ) पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिये और पूर्व विद्यमान पदार्थों का ज्ञान करने के लिये वा हमारे पूर्व विद्यमान चेतनावान् आत्मा को ( सुवीर्यं ) उत्तम वीर्ययुक्त, ( सु-अश्वर्यं ) उत्तम आशुगामी मन से युक्त, ( सुगव्यम् ) उत्तम इन्द्रियगण ( दद्वि ) प्रदान करता है । इति षष्ठो वर्गः ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

[ १३ ]

नारदः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ५, ८, ११, १४, १६, २१, २२, २६, २७, ३१ निचृदुष्णिक् । २—४, ६, ७, ९, १०, १२, १३, १५—१८, २०, २३—२५, २८, २९, ३२, ३३ उष्णिक् । ३०

आर्षी विराडुष्णिक् ॥ त्रयस्त्रिंशदृचं सक्तम् ॥

इन्द्रः सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीत उक्थ्यम् ।

विदे वृधस्य दक्षसो महान्हि वः ॥ १ ॥

भा०—( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्, तेजस्वी और सत्य ज्ञान का द्रष्टा, स्वामी, प्रभु ( सुतेषु सोमेषु ) पुत्रों और शिष्यों में गुरु के समान उत्पन्न वा निष्काम उपासक विद्वानों में ( क्रतुम् ) कर्म, ज्ञान और ( उक्थ्यम् )

वचन को भी ( पुनीते ) रसवत् ही पवित्र, स्वच्छ करता है। इस प्रकार वह उपासक ( वृधस्य ) वर्धक और ( दक्षसः ) बल के ( विदे ) प्राप्त करने के लिये यत्न करता है, क्योंकि ( सः ) वह प्रभु ( महान् हि ) बहुत बड़ा एवं पूज्य है।

स प्रथमे व्योमनि देवानां सद्ने वृधः ।

सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित् ॥ २ ॥

भा०—( सः ) वह ( प्रथमे ) सर्वोत्तम ( व्योमनि ) विशेष रक्षा और ज्ञानमय परम अभय ( देवानां ) दिव्य सूर्यादि एवं विद्वानों को ( सद्ने ) उनके २ स्थान में ( वृधः ) बढ़ाने वाला, ( सुपारः ) सब को सुख से पालन करने, दुःखों से तारने वाला, ( सुश्रवःतमः ) उत्तम यश, ऐश्वर्य और ज्ञान, ख्याति आदि से सम्पन्न और ( अप्सु-जित् ) समस्त अन्तरिक्ष में सूर्यवत् सर्वोपरि वर्तमान और प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं और जीवों पर भी वश करने हारा है।

तमह्वे वाजसातय इन्द्रं भराय शुष्मिणम् ।

भवा नः सुम्ने अन्तमः सखा वृधे ॥ ३ ॥

भा०—मैं ( तम् इन्द्रं ) उस अपार ऐश्वर्यवान् प्रभु को ( वाज-सातये ) बल, ज्ञान और ऐश्वर्य प्राप्त करने और सब में निष्पक्षपात होकर विभक्त करने के लिये और ( भराय ) भरण पोषण के लिये ( शुष्मिणम् ) उस बलवान् प्रभु को ( अह्वे ) बुलाता हूँ। हे प्रभो ! तू ( नः सुम्ने ) हमारे सुख के लिये और ( वृधे ) हमारी वृद्धि के लिये ( अन्तमः सखा भव ) अति समीपतम, परम मित्र हो।

इयं त इन्द्र गिर्वणो रातिः क्षरति सुन्वतः ।

मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि ॥ ४ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ऐश्वर्य के देने हारे ! हे ( गिर्वणः ) वाणियों के देने और सेवन करने हारे वा वाणी द्वारा उपासनीय ! ( सुन्वतः )



ऐश्वर्यं वा जगत् भर पर आधिपत्य करने वाले ( ते ) तेरा ही ( रातिः ) दान, ( क्षरति ) सर्वत्र मेघ से वृष्टिवत्, यजमान के हाथ से घृताहुतिवत् बरसता है। और ( मन्दानः ) स्वयं आनन्दमयः और समस्त ( अस्य बर्हिपः ) इस महान् विश्व को ( मन्दानः ) वृत्त, प्रसन्न करता हुआ ( वि-राजसि ) विशेष रूप से उस पर राजावत् आधिपत्य करता है, सूर्यवत् चमकता है।

नूनं तदिन्द्र दद्धि नो यत्त्वा सुन्वन्त ईमहे ।

रयिं नश्चित्रमा भरा स्वर्विदम् ॥ ५ ॥ ७ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हम लोग ( सुन्वन्तः ) यज्ञादि करते हुए, ( यत् ) जिस ( स्वर्विदम् ) सुख प्राप्त कराने वाले, ( चित्रम् ) संग्राह्य, उत्तम, आश्चर्यजनक ( रयिं ) ऐश्वर्य को ( त्वा ईमहे ) तुझ से मांगते हैं ( नः ) हमें ( नूनं ) अवश्य ( तत् दद्धि ) उस धन को प्रदान कर। वही धन हमें ( आ भर ) ला, दे। इति सप्तमो वर्गः ॥

स्तोता यत्ते विचर्षणिरतिप्रशर्धयद् गिरः ।

वया इवानु रोहते जुषन्त यत् ॥ ६ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! ( विचर्षणिः स्तोता ) विशेष २ गुणों का प्रबल उपासक पुरुष ( गिरः ) वेदवाणियों को ( अति-प्रशर्धयत् ) बहुत अधिक रूप से कहता है, वे ( यत् जुषन्त ) जब प्रेम से सेवन करते हैं ( वयाः इव ) शाखाओं के समान ( अनु रोहते ) तेरे गुणों के अनुरूप ही बढ़ते हैं।

प्रत्नवज्जनया गिरः शृणुधी जरितुर्हवम् ।

मदेमदे ववत्तिथा सुकृत्वने ॥ ७ ॥

भा०—हे प्रभो ! तू ( जरितः ) स्तुति करने वाले की ( गिरः ) वाणियों को ( प्रत्नवत् ) वृद्ध गुरु के समान ( जनय ) प्रकट कर। और ( हवम् ) उसके आह्वान या पुकार को ( शृणुधि ) श्रवण कर। ( मदे-मदे ) अत्येक हर्ष के अवसर में, प्रत्येक सात्विक भाव से पुलकित होने में ( सुकृ-

त्वने ) शुभ कर्म करने वाले पुण्यशील जन के हितार्थ ( ववक्षिथ ) तू उत्तम फल प्राप्त कराता है वा उत्तम उद्यदेश करता है ।

क्रीळन्त्यस्य सूनृता आपो न प्रवता यतीः ।

अया धियाय उच्यते पतिर्दिवः ॥ ८ ॥

भा०—( यः ) जो ( अया धिया ) इस प्रकार की धारणावती बुद्धि-या क्रम और वाणी से ( दिवः पतिः उच्यते ) ज्ञान-प्रकाश और समस्त जगत्-व्यवहार का पालक कहा जाता है ( अस्य ) उस प्रभु की ( सूनृता ) उत्तम सत्यमय वाणियां, अन्न रस धारायें, ( प्रवता ) निम्न मार्ग से ( यतीः ) बहती ( आपः न ) जलधाराओं के समान ( प्रवता ) उत्तम मार्गों से ही ( क्रीडन्ति ) मानो खेलती हुई सीं सर्वत्र विचरण करती हैं ।

उतो पतिर्य उच्यते कृष्ठीनामेक इद्दुशी ।

नमोवृधैरवस्युभिः सुते रण ॥ ९ ॥

भा०—( उतो ) और ( यः ) जो ( नमो-वृधैः ) नमस्कारों आदर वचनों से बढ़ने वाले विनीत, वृद्ध और ( अवस्युभिः ) रक्षा और ज्ञानादि के इच्छुक पुरुषों द्वारा ( एकः ) एक, अद्वितीय ( इत् ) ही ( कृष्ठीनाम् ) आकर्षण करने वाले सूर्यादि लोकों और मनुष्यों का ( पतिः ) स्वामी पालक और ( वशी ) सबको वश करने हारा ( उच्यते ) कहा जाता है, हे मनुष्य ! तू ( सुते रण ) इस उत्पन्न जगत् में उसी की स्तुति किया कर । रमतिः शब्दार्थः ॥

स्तुहि श्रुतं विपश्चितं हरी यस्य प्रसक्षिणा ।

गन्तारा द्राशुषो गृहं नमस्विनः ॥ १० ॥ ८ ॥

भा०—हे विद्वान् मनुष्य ! ( यस्य ) जिस परमेश्वर के ( हरी ) सिनापति के अति बलवान् दो अश्वोंवत् ( हरी ) मनोहर और संहारक दोनों रूप ( प्रसक्षिणा ) सज्जन और दुर्जन, दोनों को बलपूर्वक उत्तम रीति से विजय कर लेते हैं तू उसी ( श्रुतं ) वेदों, उपनिषदों द्वारा गुरुमुखों से

श्रवण किये, विख्यात, ( विपश्चितं ) विद्वानों से जानने योग्य और ( विपश्चितम् ) वेद वाणीसे चेतव्य, ज्ञातव्य प्रभु की ( स्तुहि ) नित्य स्तुति किया कर । और जिसे कान्त, भीम गुण राशियों ( नमस्विनः ) नमस्कार, विनयादिसे पूर्ण ( दाशुपः ) आत्मसमर्पक, दानी पुरुष के ( गृहं गन्तारा ) गृह में प्राप्त होने वाले पुरुषों की ( स्तुहि ) स्तुति कर । इत्यष्टमो वर्गः ॥

तूतुजानो महेमतेऽश्वेभिः प्रुपितप्सुभिः ।

आ याहि यज्ञमाशुभिः शमिद्धि ते ॥ ११ ॥

भा०—जिस प्रकार ( तूतुजानः ) शत्रु का नाश करने वाला सेनापति ( प्रुपितप्सुभिः ) स्निग्ध रूप या परिपक्व रूप वाले, सुदृढ़ शरीरवान् ( आशुभिः अश्वेभिः यज्ञम् आयाति ) अश्वारोहियों से संगति करता है उसी प्रकार हे ( महेमते ) बड़े भारी राष्ट्र को सञ्चालन करने वा बड़ा फल प्राप्त करने के लिये बड़ी भारी मति, बुद्धि ज्ञान वा संकल्प वाले ! तू ( तूतुजानः ) विश्व का पालन करता हुआ ( प्रुपितप्सुभिः ) अग्नि, सूर्यादि से प्रुपित, परिपक्व वा घृतादि से सेचित अन्न का भोजन करने वाले अथवा ( प्रुपितप्सुभिः ) स्निग्ध, परितप्त या तपस्वी देह वाले ( आशुभिः ) शीघ्रगामी, तीव्रबुद्धि, कर्मकुशल ( अश्वेभिः ) दृढ़, विद्वान् पुरुषों और अंगों द्वारा तू ( यज्ञम् ) उपास्य प्रभु और यज्ञ आदि शुभ कर्म को प्राप्त हो । हे विद्वान् पुरुष ! ( ते ) तुझे इस प्रकार ( शम् इत् हि ) . अवश्य शान्ति प्राप्त होगी । ( २ ) इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे यज्ञ अर्थात् आत्मा को तेजोयुक्त, सूर्यादि पदार्थों सहित हमें प्राप्त हो ।

इन्द्र शविष्ठ सत्पते रयिं गृणत्सु धारय ।

श्रवः सुरिभ्योऽमृतं वसुत्वन्म ॥ १२ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवान् ! हे ( शविष्ठ ) बलशालिन् ! हे ( सत्पते ) सत्पदार्थों, सत्य ज्ञान और सत्पुरुषों के पालक ! तू ( गृणत्सु ) विद्वान् उपदेशकों और स्तुतिकर्त्ता भक्त जनों में वा उनके निमित्त ( रयिं ;

धारय ) ऐश्वर्य धारण कर वा उनको प्रदान कर । ( सूरिभ्यः ) विद्वान् पुरुषकों को ( श्रवः ) ज्ञान और ( अमृतं ) मोक्ष और ( वसुत्वन्म ) ऐश्वर्य ( धारय ) धारण करा ।

हवे त्वा सूर उदिते हवे मध्यन्दिने दिवः ।

जुपाण इन्द्र सप्तिभिर्न आ गहि ॥ १३ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् प्रभो ! तू ( सप्तिभिः ) सर्पणशील, वेगवान् सूर्यादि के प्रकाशादि सुखों से ( नः जुपाणः ) हमें प्रेम करता हुआ ( नः आगहि ) हमें प्राप्त हो । हे प्रभो ! हमें ( उदिते ) उदय हुए और ( मध्यन्दिने ) दिन के मध्य समय में विद्यमान ( दिवः सूर ) ज्ञान के प्रकाशक, सूर्यवत् तेजस्वी, प्रखर पाप के नाशक स्वरूप ( त्वा हवे ) तुझ से प्रार्थना करता हूँ और ( त्वा हवे ) तुझे ही स्वीकार करता हूँ ।

आ तू गहि प्र तु द्रव मत्स्वा सुतस्य गोमतः ।

तन्तुं तनुष्व पूर्व्यं यथा विदे ॥ १४ ॥

भा०—हे प्रभो ! हे आत्मन् ! तू ( आ गहि तु ) आ, प्राप्त हो, ( प्र द्रव तु ) खूब दयापूर्ण होकर मेघवत् आनन्द-रस का वर्षण कर, ( गोमतः सुतस्य ) इन्द्रियों से युक्त उत्पन्न जीव को ( मत्स्व ) आनन्दित कर । ( पूर्व्यं ) पूर्व से विद्यमान ( तन्तुं ) सूत्रवत् अविच्छिन्न सृष्टि को ( तनुष्व ) विस्तृत कर ( यथा ) जिससे मैं जीव भी ( विदे ) ज्ञान प्राप्त करूँ । ( २ ) अथवा—हे जीव ! तू आगे आ, आगे बढ़, भूमि से युक्त उत्पन्न ओषधि आदि से तृप्त हो । पूर्व परम्परा से चले आये तन्तु रूप प्रजा सन्तति का विस्तार कर । ( यथा विदे ) जिससे तू आनन्द लाभ करे ।

यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वृत्रहन् ।

यद्वा समुद्रे अन्धसोऽवितेदसि ॥ १५ ॥ ९ ॥

भा०—हे ( शक्र ) शक्तिशालिन् ! हे ( वृत्रहन् ) विघ्न अन्ध-

कारादि के नाशक ! ( यत् परावति ) जो तू दूर देश में ( यत् अर्वावति ) जो तू समीप में और ( यद् वा समुद्रे ) जो तू समुद्र या आकाश में है तू (अन्धसः) प्राणाधारी जीव गण का ( अविता इत् असि ) रक्षक ही है । तू सर्वत्र जीवों का रक्षक है । इति नवमो वर्गः ॥

इन्द्रं वर्धन्तु नो गिर इन्द्रं सुतास इन्द्रवः ।

इन्द्रे हविष्मतीर्विशो अराणिपुः ॥ १६ ॥

भा०—( नः ) हमारी वाणियां ( इन्द्रं वर्धन्तु ) ऐश्वर्य के देने वाले प्रभु को बढ़ावें, उसका गुण गान करें । अथवा ( इन्द्रं ) इन्द्र को लक्ष्य करके कही गई ( गिरः ) वेदवाणियां ( नः वर्धन्तु ) हमारी वृद्धि करें । इसी प्रकार ( सुतासः ) उत्पन्न हुए ( इन्द्रवः ) ऐश्वर्ययुक्त पदार्थ वा जीव गण ( इन्द्रं वर्धन्तु ) इन्द्र को बढ़ावें, वे भी उसी की महिमा बतलावें । ( हविष्मतीः विशः ) अन्नादि से समृद्ध प्रजाएं भी ( इन्द्रे ) ऐश्वर्ययुक्त शत्रुहन्ता राजा के अधीन सुरक्षित प्रजाओं के समान ( इन्द्रे ) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु में निमग्न रहकर ( अराणिपुः ) रमण करें । (२) इसी प्रकार प्रजा की वाणियों और ऐश्वर्यादि राजा की वृद्धि करें । वे राजा के अधीन सुखी रहें ।

तमिद्धिप्रा अवस्यवः प्रवत्वतीभिरूतिभिः ।

इन्द्रं क्षोणीरवर्धयन्वया इव ॥ १७ ॥

भा०—( अवस्यवः ) रक्षण और ज्ञान की कामना करने वाले ( क्षोणीः ) जन ( प्रवत्वतीभिः ऊतिभिः ) उत्तम साधनों से युक्त बलवती सेनाओं के स्वामी भी ( इन्द्रं ) सेनापति के समान अति शक्तियुक्त प्रबल रक्षाओं से समृद्ध ( तम् इत् इन्द्रं ) उस ही परमेश्वर को समस्त (क्षोणीः) मनुष्य और भूमियां ( वयाः इवः ) शाखाओं के समान ( अवर्धयन् ) बढ़ाती हैं । उसकी ही महिमा को बढ़ाती हैं ।

त्रिकट्टुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत ।

तमिद्वर्धन्तु नो गिरः सदावृधम् ॥ १८ ॥

भा०—( देवासः ) समस्त विद्वान् गण और सूर्य पृथिवी आदि लोक-  
भी ( त्रि-कट्टुकेषु ) तीनों लोकों में ( तम् इत् चेतनं ) उस ही, चेतन, ज्ञान-  
वान् ( यज्ञं ) सर्वोपास्य प्रभु को ( अत्नत ) फैला रहे हैं, उसी के महान्  
सामर्थ्य का विस्तार कर रहे हैं । उस ( सदावृधं ) सदा वृद्धिशील, महान्  
प्रभु को ( नः गिरः वर्धन्तु ) हमारी स्तुतियां भी बढ़ावें, उसी की जय-  
कार करें, उसी को बड़ा मनावें ।

स्तोता यत्ते अनुव्रत उक्थान्यृतुथा दधे ।

शुचिः पावक उच्यते सो अद्भुतः ॥ १९ ॥

भा०—( यत् ) जिस प्रकार से ( स्तोता ) स्तुतिकर्ता, उपासक  
( ते अनु-व्रतः ) तेरे अनुकूल व्रत आचरण करता हुआ, ( ऋतुथा ) भिन्न २  
ऋतु आदि कालों में ( उक्थानि ) उत्तम वेद-वचनों को धारण करता है ।  
भगवन् ! ( सः ) वह तू ( शुचिः ) शुद्ध, ( पावकः ) परम पावन और  
( अद्भुतः ) अद्भुत, आश्चर्यकारक और अजन्मा ( उच्यते ) कहा जाता है ।

तदिदृद्रस्य चेतति य्हं प्रत्नेषु धामसु ।

मनो यत्रा वि तद्दधुर्विचेतसः ॥ २० ॥ १० ॥

भा०—( रद्रस्य ) सब दुःखों के दूर करने वाले उस प्रभु का ( तत्  
इत् ) वही ( य्हं ) महान् बल, सामर्थ्य ( प्रत्नेषु धामसु ) पुरातन सूर्यादि  
लोकों में ( चेतति ) जाना जाता है ( यत्र ) जिसमें ( वि-चेतसः ) विशेष,  
ज्ञानी जन ( तत् मनः विदधुः ) अपना मन स्थिर करते और ( तत् दधुः )  
उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं । इति दशमो वर्गः ॥

यदि मे सुख्यमावर इमस्य पाह्यन्धसः ।

येन विश्वा अति द्विषो अतारिम ॥ २१ ॥

भा०—हे विद्वन् ! राजन् ! प्रभो ! ( यदि ) यदि तू ( मे सख्यम् आ-वरः ) मेरे मित्र भाव को स्वीकार करता है ( इमस्य अन्धसः ) इस प्राणधारी जीव सृष्टि का ( पाहि ) पालन कर । ( इमस्य अन्धसः पाहि ) इस प्राणधारक अन्न का उपभोग कर, अहिंसा का पालन कर ( येन ) जिस से ( विश्वाः द्विपः ) समस्त प्रकार के द्वेप के भावों और शत्रुओं को भी हम ( अति अतारिम ) पार करें । जीव संसार का पालन करने से उनके भीतर के द्वेप टूट जाते हैं ।

कदा ते इन्द्र गिर्वणः स्तोता भवाति शन्तमः ।

कदा नो गव्ये अश्व्ये वसौ दधः ॥ २२ ॥

भा०—हे ( गिर्वणः ) 'गिरा' अर्थात् वेद वाणी से स्तवन करने योग्य, हे वेदवाणी के दातः ! हे वाणी द्वारा, स्तवन भजन करने योग्य ! हे ( इन्द्र ) तेजस्विन् ! ( ते स्तोता ) तेरी स्तुति करने वाला ( शन्तमः कदा भवाति ) अति शान्तियुक्त कब होता है ? और ( नः ) हमें ( गव्ये ) गौ आदि, पशु, इन्द्रियों और वाणी से समृद्ध ( अश्व्ये वसौ ) अश्वों, विद्वानों और मन आदि साधनों से युक्त भूमि, देह, ज्ञान एवं निवास करने योग्य गृह, आचार्यगृह और राष्ट्र तथा प्रभु-शरण में ( कदा दधः ) कब रक्खेगा ?

उत ते सुष्टुता हरी वृषणा वहतो रथम् ।

अजुर्यस्य मदिन्तसं यमीमहे ॥ २३ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे तेजस्विन् ! सर्वप्रकाशक ( यम् ) जिस सुख की हम भी ( ईमहे ) याचना करते हैं । ( अजुर्यस्य ) अविनाशी, जरादि रहित ( ते ) तेरे ( रथम् ) रमण करने योग्य, सुखप्रद ( मदिन्तमम् ) अति अधिक हर्षदायक, सुख और ऐश्वर्यमय तेरे स्वरूप या ज्ञानोपदेश को, रथ के घोड़ों के समान ( सु-स्तुता ) उत्तम प्रशंसित और शिक्षित ( वृषणा ) बलवान् ( हरी ) स्त्री पुरुष ही ( वहतः ) धारण करते हैं ।

तमीमहे पुरुष्टुतं यद्दं प्रत्नाभिऋतिभिः ।

नि वर्हिषि प्रिये सदुदधं द्विता ॥ २४ ॥

भा०—हम लोग ( तम् ) उस ( पुरु-स्तुतम् ) बहुतों से स्तुति करने योग्य ( यद्दं ) महान् ( तम् ) उस प्रभु परमेश्वर को ( प्रत्नाभिः ) सनातन से विद्यमान ( ऊतिभिः ) ज्ञान वाणियों से ( ईमहे ) प्रार्थना करते हैं, ( अध ) और उसका ज्ञान करते हैं । वह ( प्रिये ) अतिप्रिय ( वर्हिषि ) वृद्धिशील संसार में प्रिय राष्ट्र में राजा के समान तू ( द्विता ) दोनों ही प्रकार से ( नि सदत् ) विराजता है प्रभु के दो रूप सज्जनों का पालक और दुष्टों को दण्डदाता ।

वर्धस्वा सु पुरुष्टुत ऋषिष्टुताभिऋतिभिः ।

धुक्षस्व पिप्युपीमिपमवा च नः ॥ २५ ॥ ११ ॥

भा०—हे राजन् ! हे ( पुरु-स्तुत ) बहुतों से स्तुति करने योग्य प्रभो ! हे बहुतों द्वारा राजपद के लिये प्रस्तुत राजन् ! तू ( ऋषि-स्तुताभिः ) विद्वान् मन्त्रार्थद्रष्टा, तत्त्वज्ञानी पुरुषों से स्तुति की वा उपदिष्ट ( ऊतिभिः ) ज्ञानवाणियों वा रक्षा के उपायों से वा प्रिय वचनों से ( वर्धस्व ) बढ़ । तू ( पिप्युपीम् ) सब को बढ़ाने वाली और वृत्तिकारक ( इपम् ) अन्नसम्पदा को ( धुक्षस्व ) पृथ्वी से प्राप्त कर और हमें दे और ( निः अव च ) हमारी रक्षा कर । इत्येकादशो वर्गः ॥

इन्द्र त्वमवितेदसीत्था स्तुवतो अद्रिवः ।

ऋतादियमि ते धियं मनोयुजम् ॥ २६ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यप्रद ! स्वामिन् ! हे ( अद्रिवः ) अविदीर्ण, अखण्ड शक्ति के मालिक ! तू ( इत्था स्तुवतः ) इस प्रकार स्तुति करने वाले का ( अविता इत् असि ) रक्षक ही है । ( ऋतात् ) सत्य ज्ञानमय वेद से मैं ( ते ) तेरे उपदिष्ट ( मनोयुजं ) मन के साथ योग करने वाले, वा ज्ञान की सहयोगिनी, ( धियं ) वाणी और कर्म को ( इयमि ) प्राप्त करूँ ।



इह त्या सधमाद्या युजानः सोमपीतये ।

हरीं इन्द्र प्रतद्वसू अभि स्वर ॥ २७ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( सोमपीतये ) 'सोम' ऐश्वर्य के पालन और उपभोग करने के लिये वा हे आचार्य विद्वन् ! तू 'सोम' वीर्य की रक्षा करने के लिये ( सधमाद्या ) एक साथ आनन्द लेने वाले ( त्या ) उन दोनों ( प्रतद्-वसू ) उत्तम विस्तृत ऐश्वर्यों के स्वामी (हरी) स्त्री पुरुषों को ( इह ) इस जगत् वा आश्रम में ( युजानः ) रथ में अश्वों के समान सन्मार्ग में नियुक्त करता हुआ ( अभि स्वर ) उनको उपदेश कर ।

अभि स्वरन्तु ये तव रुद्रासः सक्षत श्रियम् ।

उतो मरुत्वतीर्विशो अभि प्रयः ॥ २८ ॥

भा०—हे राजन् ! हे प्रभो ! ( ये ) जो ( रुद्रासः ) अन्यो का दुःख दूर करनेवाले, अन्यो को दुःखी देख कर करुणा से स्वयं रोने या आंसू बहाने वाले वा उत्तम उपदेष्टा एवं दुष्टों को रुलाने वाले पुरुष (तव अभि) जो तेरे गुणों का साक्षात् कर (स्वरन्तु) स्तुति करते और औरों को उसका उपदेश करते हैं वे (श्रियं सक्षत) लक्ष्मी, शोभा आदि को प्राप्त करते हैं । ( उतो ) और ( मरुत्वतीः विशः ) वे प्राणों से या 'मरुत्' विद्वानों, वीरों और वैश्य जनों से युक्त प्रजाओं को भी ( प्रयः अभि ) भन्न आदि प्राप्ति-योग्य वृत्ति-सुखकारक पदार्थ प्राप्त करावें ।

इमा अस्य प्रतूर्तयः पदं जुषन्त यद्विवि ।

नाभा यज्ञस्य सं दधुर्यथा विदे ॥ २९ ॥

भा०—( इमाः ) ये ( अस्य ) इस राजा की ( प्र-तूर्तयः ) उत्तम) रीति से शत्रु वा दुष्ट पुरुषों का नाश करने वाली सेनाएं और उत्तम एवं शीघ्र कार्य करने में कुशल प्रजाएं ( यत् ) जो ( दिवि ) भूमि में ( पदं ) उत्तम स्थान ( जुषन्त ) प्राप्त करती हैं वे ( यथा विदे ) यथावत् श्रम के

अनुसार द्रव्य लाभ करने के लिये ( नाभा ) नाभिवत् राष्ट्र के उत्तम प्रबन्धक पुरुष के अधीन, उसी के आश्रय पर ( यज्ञस्य सं दधुः ) परस्पर दान-प्रतिदान, संगति, मान-सत्कार आदि का अच्छी प्रकार व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार (प्र-तूर्त्तयः) इस प्रभु की उत्तम प्रजागण जब ( दिवि पदं जुपन्त ) उस प्रकाशस्वरूप प्रभु में स्थिति वा ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वे ( यथा विदे ) यथावत् ज्ञान और आनन्द के लाभ के लिये (नाभौ) नाभि देश में ( यज्ञस्य ) पूज्य प्रभु का ( सं दधुः ) उत्तम रीति से धारण, ध्यानादि करते हैं।

अयं दीर्घाय चक्षे प्राचि प्रयत्यध्वरे ।

मिमीते यज्ञमानुपग्विचक्ष्य ॥ ३० ॥ १२ ॥

भा०—(अयम्) यह विद्वान् (प्राचि) उत्तम रीति से पूज्य (अध्वरे) हिंसादि से रहित एवं अविनाशी (प्रयति) उत्तम यत्न से करने योग्य यज्ञमय प्रभु के आश्रय ही (दीर्घाय) बड़े भारी विस्तृत (चक्षसे) दर्शन या तत्वज्ञान के लाभ के लिये (वि-चक्ष्य) विशेष रूप से देख कर (आनुपक्) निरन्तर (यज्ञम् मिमीते) यज्ञ वा देवपूजा का सम्पादन करता है। इति द्वादशो वर्गः ॥

वृषायमिन्द्र ते रथ उतो ते वृषणा हरी ।

वृषा त्वं शतक्रतो वृषा हवः ॥ ३१ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान्! शत्रुहन्! (अयम्) यह (ते) तेरा (रथः) रथ रमणीय स्वरूप (वृषा) बलवान्, सुदृढ़ है। (ते हरी) तेरे दोनों अश्व भी (वृषणा) बलवान् हैं। हे (शतक्रतो) सैकड़ों, अनेक प्रज्ञा और कर्म वाले! (त्वं वृषा) तू बलवान् है। तेरा (हवः) आह्वान, दान एवं नाम, स्मरणादि भी (वृषा) बलयुक्त, सुखों का देने वाला है। (२) इसी प्रकार राजा का रथ राष्ट्र, उसके वासी स्त्री पुरुष, राजा स्वयं और उसका व्यवहार सब बलवान् हों।

वृषा ग्रावा वृषा मदो वृषा सोमो अयं सुतः ।

वृषा यज्ञो यमिन्वसि वृषा हवः ॥ ३२ ॥

भा०—( ग्रावा वृषा ) मेघवत् उपदेष्टा विद्वान् और प्रस्तरवत् शत्रु-  
नाशक क्षात्रवल बलवान् हो । हे राजन् ! ( मदः वृषा ) तेरा यह 'मद'  
हर्ष, प्रसन्नता भी ( वृषा ) सुखप्रद और दृढ़ हो । ( अयं सुतः ) यह उत्पन्न  
( सोमः ) पुत्रवत् राष्ट्र वा अभिषिक्त राजपुरुष भी ( वृषा ) बलवान् हो ।  
( यज्ञः ) परस्पर का मेल वा दान-प्रतिदान व्यवहार ( यम् इन्वसि )  
जिसको तू करता है, वह भी ( वृषा ) बलवान्, दृढ़, सुखप्रद हो । ( हवः  
वृषा ) शत्रु के साथ प्रतिस्पर्द्धा और ललकार भी ( वृषा ) सुखप्रद और  
बलवान्, दृढ़ हो ।

वृषा त्वा वृषणं हुवे वज्रिञ्चित्राभिरूतिभिः ।

वावन्थ हि प्रतिष्ठति वृषा हवः ॥ ३३ ॥ १३ ॥

भा०—हे ( वज्रिन् ) बलशालिन् ( चित्राभिः ) आश्चर्य-  
जनक नाना ( ऊतिभिः ) रक्षाकारिणी सेनाओं वा रक्षाओं से युक्त  
( वृषणं ) बलवान् तुझ को ( वृषा ) मैं प्रजाजन ( हुवे ) स्वीकार करता  
हूँ । तू ( वृषा ) सब सुखों का दाता, उत्तम प्रबन्धकर्त्ता और ( हवः )  
शत्रुओं के साथ प्रतिस्पर्द्धाशील होकर ही ( प्रतिष्ठति वावन्थ हि ) सर्वत्र  
स्तुति को प्राप्त कर । ( २ ) प्रभु नाना रक्षाओं से सुखप्रद है । वह संसार का  
प्रबन्धक, ( हवः ) स्तुत्य है, सबकी स्तुति प्राप्त करता है । इति त्रयोदशो वर्गः ॥

[ १४ ]

गोपूक्तयश्वसूक्तिनो काण्वायनौ ऋषी ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ११ विराट्  
गायत्री । २, ४, ५, ०, १५ निचृद्गायत्री । ३, ६, ८—१०, १२—१४ )  
गायत्री ॥ पञ्चदशं सूक्तम् ॥

यदिन्द्राहं यथा त्वमीशिय वस्व एक इत् ।

स्तोता मे गोषखा स्यात् ॥ १ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( यथा ) जिस प्रकार ( त्वम् एकः ( इत् ) तू एक अद्वितीय ही ( वस्वः ईशिय ) ऐश्वर्य और वसे जीवगण का स्वामी है, ( यद् अहं ) वैसे ही जो मैं होऊं । फिर जिस प्रकार तेरा ( स्तोता गो-सखा ) स्तुतिकर्ता उत्तम वाणियों और इन्द्रियों का मित्र होता है उसी प्रकार इस लोक में ऐश्वर्यसम्पन्न ( मे ) मेरा ( स्तोता ) स्तुतिकर्ता वा उपदेष्टा विद्वान् भी ( गो-सखा ) भूमि का मित्र, वाणी का मित्र, गोसम्पदा का मित्र, 'गो' धनुष डोरी का मित्र, अर्थात् भूमि, वाणी, पशु और शस्त्रादिसम्पन्न बलवान् ( स्यात् ) हो ।

शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिणे ।

यदहं गोपतिः स्याम् ॥ २ ॥

भा०—हे ( शचीपते ) शक्तियों और वाणियों के स्वामिन् ! ( यद् अहं गोपतिः स्याम् ) जो मैं 'गोपति', भूमिपति, वाणियों का स्वामी विद्वान् एवं धनुर्धर होऊं तो ( अस्मै मनीषिणे ) इस मन पर वश करने वाले मनस्वी शिष्य को ( शिक्षेयं ) ज्ञान की शिक्षा दूं । ( अस्मै मनीषिणे ) इस ज्ञान के देने वाले विद्वान् को ( दित्सेयं ) धनादि देने की इच्छा करूं और ( शिक्षेयं ) दूं भी ।

धेनुष्टं इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वते ।

गामश्वं पिप्युषी दुहे ॥ ३ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ज्ञानप्रद ! तेजस्विन् ! ज्ञानप्रकाशक ! प्रभो ! गुरो ! विद्वन् ! ( सुन्वते ) शुभकर्म करने वाले, ज्ञान-स्नान करने वाले ( यजमानाय ) देवपूजा, सत्संग शील के लिये ( सूनृता ) उत्तम सत्य, न्याययुक्त ( ते धेनुः ) तेरी वाणी ( पिप्युषी ) उसे बढ़ाती हुई ( गाम् अश्वं दुहे ) गौ अश्वदि सम्पदा भी प्रदान करती है ।

न ते वर्तास्ति राधस इन्द्र देवो न मर्त्यैः ।

यदित्ससि स्तुतो मधम् ॥ ४ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यशालिन् ! तू ( स्तुतः ) स्तुति किया जाकर ( यत् ) जब ( मघं दि०ससि ) उत्तम ऐश्वर्य देना चाहता है तो ( ते राधसः ) तेरे दिये धन का ( वर्त्ता ) वारण करने वाला ( न देवः न मर्त्यः ) न कोई देव, विद्वान् तेजस्वी है और न साधारण मनुष्य है । तेरा दिया उसे अवश्य प्राप्त होता है ।

यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्यद्भूमिं व्यवर्तयत् । चक्राण ओपशं दिवि ५।१४

भा०—( दिवि ) आकाश में ( ओपशं ) मेघ को ( चक्राणः ) उत्पन्न करता हुआ ( यत् ) जो यज्ञ ( भूमिं वि-अवर्त्तयत् ) भूमि को विविध सस्यादि से सम्पन्न करता है, वह ही ( इन्द्रम् अवर्धयत् ) सूर्य-वत् प्रभु की महिमा को बढ़ाता है । अथवा—( यत् ) जो इन्द्र, ऐश्वर्यवान् राजा सूर्यवत् ( भूमिं अवर्त्तयत् ) भूमि को विविध प्रकार से काम में लाता, ( दिवि ओपशं चक्राणः ) तेज में या भूमि में स्थिति प्राप्त करता है, उसको ( यज्ञः ) प्रजाओं का संग बढ़ाता है । इति चतुर्दशो वर्गः ॥

वावृधानस्य ते वयं विश्वा धनानि जिग्युषः ।

ऋतिमिन्द्रा वृणीमहे ॥ ६ ॥

भा०—( विश्वा धनानि ) समस्त धनों को ( जिग्युषः ) जीतने वाले और ( वावृधानस्य ) निरन्तर बढ़ने वाले महान् ( ते ) तेरी ( जतिं ) रक्षा को ही हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! शत्रुहन्तः ! ( वयं वृणीमहे ) हम वरण करते हैं ।

व्यन्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । इन्द्रो यदभिनद्वलम् ७

भा०—( इन्द्रः ) शत्रुहन्ता राजा सूर्यवत् तेजस्वी होकर ( यत् ) जब ( वलम् ) घेरने वाले शत्रु को मेघ के समान ( अभिनत् ) छिन्न भिन्न करता है तब वह ( सोमस्य मदे ) ऐश्वर्य प्राप्ति वा राष्ट्र के लाभ रूप हर्ष में ( रोचना ) रुचियुक्त होकर ( अन्तरिक्षम् वि-अतिरत् ) अपने अन्तःकरण को भी आकाशवत् बढ़ा कर लेता है, उदार होजाता है । इसी प्रकार जो

परमेश्वर आवरणकारी अज्ञान को छिन्न भिन्न करदेता है, आनन्द में (रोचना सोमस्य) रुचि करने वाले जीव के (अन्तरिक्षम् वि-अतिरत्) हृदय को बढ़ाता है, उसको उत्साहित करता है ।

उद्गा आजिदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन्गुहा सतीः ।

श्रुवाञ्च नुनुदे वृलम् ॥ ८ ॥

भा०—वह परमेश्वर (अंगिरोभ्यः) तेजस्वी विद्वानों वा प्राणधारी जीवों के उपकार के लिये (गुहा सतीः) अन्तःकरण में प्राप्त हुई (गाः) वेदवाणियों को शिष्यों के गुरु के समान (आविष्कृण्वन्) प्रकट करता हुआ (उत् आजत्) उदित करता है, और (अवाञ्चं) आगे आये (वलम्) आत्मा को घेरने वाले अज्ञान को (नुनुदे) परे भगा देता है । इसी प्रकार प्रभु ऋषियों के हृदय में गुरुवत् ज्ञान प्रकाशित करता है ।

इन्द्रेण रोचना द्विवो दृढहानि दृंहितानि च ।

स्थिराणि न परानुदे ॥ ९ ॥

भा०—(इन्द्रेण) उस ऐश्वर्य के स्वामी, परमेश्वर ने (दिवः) भूमि, अन्तरिक्ष और आकाश के (रोचना) कान्तियुक्त वा रुचिकारक, नाना पदार्थ (दृढानि) दृढ़ किये और (दृंहितानि) बढ़ाये, (स्थिराणि) स्थिर, सदा विद्यमान रहने वाले बनाये, (न परानुदे) जिससे वे फिर चिरकाल तक नाश न होसकें ।

अपामूर्मिर्मदन्निव स्तोम इन्द्राजिरायते ।

वि ते मदा अराजिपुः ॥ १० ॥ १५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (स्तोमः) स्तुतिप्रवाह (मदन् इव) उछलते (अपाम् ऊर्मिः इव) ससुद्धों के तरंग के समान (अपाम् ऊर्मिः) प्राणों के तरंगवत् (अजिरायते) वेग से उठता है, (ते मदा) तेरे आनन्द प्रवाह (वि अराजिपुः) विविध प्रकार से विराजते हैं । परमेश्वर

के प्रति स्तुतिसमूह प्राणों के उठते प्रवाह रूप से जल तरंगवत् हृदय समुद्र से उछलता है, प्रभु के आनन्द ही मानो सर्वत्र प्रकशित हो रहे हैं। इति पञ्चदशो वर्गः ॥

त्वं हि स्तोमवर्धन इन्द्रास्युक्थवर्धनः । स्तोतृणामुत भद्रकृत् ११

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( त्वं ) तू ( स्तोतृणाम् ) स्तुतिकर्ता जनों के ( हि ) अवश्य ( स्तोम-वर्धनः ) स्तुति समूह को बढ़ाने वाला और ( उक्थ-वर्धनः ) उत्तम वचन को बढ़ाने वाला ( उत ) और ( भद्रकृत् ) उनका कल्याण करने वाला है ।

इन्द्रमित्केशिना हरी सोमपेयाय वक्षतः । उप यज्ञं सुरार्धसम् १२

भा०—जिस प्रकार ( केशिना हरी इन्द्रम् वक्षतः ) केशों वाले अश्व ऐश्वर्यवान् पुरुष को ढोते हैं उसी प्रकार ( केशिना हरी ) क्लेशों वाले स्त्री पुरुष वा ज्ञानी और कर्मवान् पुरुष ( सोम-पेयाय ) सुखैश्वर्य को प्राप्त करने और उसके उपभोग के लिये ( इन्द्रम् इत् वक्षतः ) उस परमेश्वर को हृदय में धारण करते और उसकी ही स्तुति करते हैं । वा ( केशिना हरी इन्द्रम् सोमपेयाय वक्षतः ) जटावान् ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी भी इन्द्र आचार्य को ज्ञान प्राप्तार्थ प्राप्त करते हैं । और वे दोनों, ( सु-राधसम् ) उत्तम आराधना योग्य ( यज्ञम् उप ) पूज्य, उपासनीय प्रभु की उपासना करते हैं ।

अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयः ।

विश्व्वा यदजयः स्पृधः ॥ १३ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) शत्रुहन्तः ! ज्ञान के द्रष्टा ! ( यत् ) जब ( विश्वाः ) समस्त ( स्पृधः ) स्पर्धाओं, द्वेषों और कामनाओं को ( अजयः ) जीत लेता है, तब तू ( अपां ) प्राणों के ( फेनेन ) बल से ( नमुचेः ) न छूटने वाले देह के ( शिरः ) शिरो भाग की ओर ( उत् अवर्तयः ) ऊर्ध्व गति करता है । ( २ ) इसी प्रकार राजा जब स्पर्धा से सेनाओं को जीत ले तब ( नमुचेः ) न जीता छोड़ने योग्य शत्रु के शिर या विचार को ( अपां :

फेनेन ) प्राप्त जनों के उपदेश-बल से ( उत् अवर्त्तयः ) उत्तम मार्ग में प्रवृत्त करावे । अथवा—( शिरः ) शत्रु के शिर अर्थात् प्रमुख भाग को ( अपां फेनेन ) प्रजाओं के हिंसाकारी बल सैन्य से ( उद्-अवर्त्तयः ) उखाड़ दे ।

मायाभिरुत्सिसृप्सत इन्द्र द्यामारुरुक्षतः । अब्रदस्यूरधूनुथाः १४:

भा०—हे ( इन्द्र ) सत्यदर्शिन ! हे शत्रुहन्तः ! तू ( मायाभिः ) नाना बुद्धियों से ( उत्-सिसृप्सतः ) ऊपर जाना चाहते हुए और ( द्याम् ) तेजोयुक्त प्रभुपद वा शिरोभाग के मूर्धा स्थान की ओर ( आरुरुक्षतः ) आरोहण करने वाले सज्जनों की रक्षा कर और ( मायाभिः ) छल कपटादिसे ऊंचे जाने वाले ( द्याम् ) भूमि राज्य पर ( आरुरुक्षतः ) आरूढ होने वाले ( दस्यून् अव अधूनुथाः ) दस्युओं को नीचे गिरा दे । अर्थात्पत्ति के बल से यहाँ सज्जनों को वृद्धि करने का अभिप्राय है ।

असुन्वामिन्द्रं संसदं विपूचीं व्यनाशयः ।

सोमपा उत्तरो भवन् ॥ १५ ॥ १६ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! दुष्टों के नाशक ! तू ( सोम-पाः ) ऐश्वर्य, राष्ट्र के प्रजाजन और विद्वान् आदि का रक्षक ( उत्तरः ) सबसे उत्कृष्ट, सबको पार ले जाने वाला ( भवन् ) होकर ( असुन्वां संसदम् ) ऐश्वर्य को न उत्पन्न करने वाली और ( विपूचीम् ) विपरीत अराजक दिशा से जाने वाली ( संसदं ) राजा वा जन-सभा को ( वि-अनाशयः ) विशेषरूप से नष्ट कर । इति षोडशो वर्गः ॥

[ १५ ]

गोपूक्यश्वसूक्तिनौ ऋषी । इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१—३, २—७, ११, १३ निचृदुष्णिक् । ४ उष्णिक् । ८, १२ विराडुष्णिक् । ६, १० पादनिचृदुष्णिक् ॥ त्रयोदशर्चं सूक्तम् ॥



तम्बभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम् ।

इन्द्रं गीर्भिस्तत्रिषमा विवासत ॥ १ ॥

भा०—हे विद्वान् लोगो ! आप लोग ( तम् उ ) उसी ( पुरु-हूतं ) बहुतों से स्वीकृत, ( पुरु-स्तुतम् ) बहुतों से स्तुति किये जाने योग्य ( तत्रिषम् ) बलशाली, सर्वशक्तिमान् ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर को लक्ष्य कर ( अभि प्र गायत ) खूब अच्छी प्रकार गान करो । ( गीर्भिः ) नाना स्तुति वाणियों से ( आ विवासत ) आदरपूर्वक सेवा और उपासना करो ।

यस्य द्विवर्हसो बृहत्सहो दाधार रोदसी ।

गिरीं रज्जा अपः स्वर्वृषत्वना ॥ २ ॥

भा०—( द्वि-वर्हसः ) आकाश और भूमि दोनों को धारण करनेवाले दोनों के स्वामी रूप ( यस्य बृहत् सहः ) जिसका बल बहुत बड़ा है वह ( वृषत्वना ) अपने बड़े भारी सामर्थ्य से ( रोदसी दाधार ) आकाश और भूमि को धारण करता है, वह ( भज्रान् गिरीन् ) वेग से जाने वाले मेघों को ( अपः ) समुद्र वा आकाश के जलों को और ( स्वः ) सूर्य को वा प्रकाश को भी अपने बल से ( दाधार ) धारण करता है ।

स राजसि पुरुष्टुतं एको वृत्राणि जिघ्रसे ।

इन्द्र जैत्रा श्रवस्या च यन्तवे ॥ ३ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! हे सूर्यवत् तेजस्विन् ! ( सः ) वह तू ( पुरु-स्तुतः ) बहुतों से प्रशंसित, बहुतों की स्तुति प्रार्थनादि किये जाने योग्य ( एकः ) अकेला निःसहाय, अद्वितीय रहकर ( राजसि ) राजा के समान है । वह तू ( एकः ) अकेला ही ( जैत्रा ) विजय करने योग्य और ( श्रवस्या ) श्रवण करने योग्य धनों, अन्तों और ज्ञानों को ( यन्तवे ) देने के लिये ( वृत्राणि जिघ्रसे ) मेघों को विद्युत्त्वत्, आवरण-कारी अज्ञानों को नाश करता है ।

तं ते मदं गृणीमसि वृषणं पृत्सु सासहिम् ।

उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम् ॥ ४ ॥

भा०—हे ( अद्रिवः ) वीर्यवन् ! हे अखण्ड शक्तिशालिन् ! ( ते ) तेरे ( तं ) उस ( वृषणं ) महान् शक्तिसम्पन्न, सब सुखों के दाता, ( पृत्सु सासहिं ) संग्रामों में शत्रु को पराजय करने वाले ( लोक-कृत्नुम् ) समस्त लोकों को बनाने वाले और ( हरि-श्रियम् ) सूर्यादि लोकों और समस्त मनुष्यों के आश्रय लेने योग्य ( मदं ) परमानन्द की हम ( गृणीमसि ) स्तुति करते हैं ।

येन ज्योतींष्यायत्रे मनवे च विवेदिथ ।

मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि ॥ ५ ॥ १७ ॥

भा०—हे परमेश्वर ! तू ( येन ) जिस संसार द्वारा ( आयवे ) इस संसार में पुनः २ आने वाले ( मनवे ) मननशील जीव संसार को ( ज्योतींषि ) अग्नि आदि और विद्युत्त्वत् चमकने वाले वेदमय ज्ञान-प्रकाश ( विवेदिथ ) प्राप्त कराता है वह तू ( मन्दानः ) स्वयं आनन्दमय होकर ( अस्य बर्हिषः ) इस महान् संसार के बीच में ( वि राजसि ) विविध प्रकार से चमकता है । इति सप्तदशो वर्गः ॥

तद्द्या चित्त उक्थिनोऽनुष्टुवन्ति पूर्वथा ।

वृषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥ ६ ॥

भा०—( तत् ) वे विद्वान् जन ( अद्य चित् ) आज भी ( पूर्वथा ) पूर्ववत् ( उक्थिनः ) वेद वचन वा मन्त्रों के जानने वाले ( ते ) तेरे यश का ( अनु स्तुवन्ति ) नित्य स्तवन करते हैं । हे बलशालिन् ! ( दिवे दिवे ) प्रति दिन, नित्य, ( वृषपत्नीः ) बलवान् पुरुषों द्वारा पालने योग्य ( अपः ) प्रकृति के परमाणुओं को ( जय ) अपने वश करता है । उसी प्रकार राजा की सब स्तुति करते हैं वह बल पुरुषों से पालन करने योग्य प्रजाओं और भूमियों को प्रतिदिन विजय करे ।

तव त्वदिन्द्रियं बृहत्तव शुष्ममुत क्रतुम् ।

वज्रं शिशाति धिपणा वरेण्यम् ॥ ७ ॥

भा०—हे प्रभो ! राजन् ! ( तव ) तेरे ( त्वत् इन्द्रियम् ) उस इन्द्रिय अर्थात् महान् ऐश्वर्य सामर्थ्य को और ( तव ) तेरे उस ( बृहत् शुष्मम् ) बड़े भारी बल और ( क्रतुम् ) ज्ञान और कर्म को और तेरे ( वरेण्यम् वज्रम् ) सर्वश्रेष्ठ, वरण करने योग्य बल को ( धिपणा ) बुद्धि वा ज्ञान ही ( शिशाति ) अति तीक्ष्ण कर रहा है, प्रबलता से दिखाता है ।

तव द्यौरिन्द्र पौंस्यं पृथिवी वर्धति श्रवः ।

त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे ॥ ८ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यशालिन् ! ( तव पौंस्यं ) तेरे महान् पौरुष वा बल वा पुरुष भाव को ( द्यौः ) यह सूर्य ( वर्धति ) बढ़ा रहा है । और ( तव श्रवः ) तेरे यज्ञ को ( पृथिवी ) अन्नवत् यह पृथिवी ( वर्धति ) बढ़ा रही है । ( आपः ) जल और ( पर्वतासः च ) मेघगण भी ( त्वाम् हिन्विरे ) तेरी बढ़ाई करते हैं ।

त्वां विष्णुर्वृहन्नयो मित्रो गृणान्ति वरुणः ।

त्वां शर्धो मदत्यनु मारुतम् ॥ ९ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! ( विष्णुः ) सर्वत्र फैलने वाला, प्रकाशमान सूर्य ( वृहन् ) महान् ( क्षयः ) सबको अपने में बसाने वाला, गृह के समान आश्रय देने वाला सूर्य ( मित्रः ) स्नेहवान् जन, और दिन और ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ जन वा रात्रि भी ( त्वां गृणाति ) तेरी स्तुति करता है । और ( मारुतं शर्धः ) वायुओं का बल भी ( त्वाम् अनु मदति ) तेरे बलपर क्रीड़ा करता है ।

त्वं वृषा जनानां मंहिष्ठ इन्द्र जज्ञिषे ।

सुत्रा विश्वा स्वपत्यानि दधिषे ॥ १० ॥ १८ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यशालिन् ! सूर्यवत् तेजस्विन् ! ( त्वं ) तू ( जनानां ) मनुष्यों के बीच में ( वृषा ) बलवान् वीर्यसेचक के तुल्य सबका पिता, सुखों का दाता और ( मंहिष्ठः ) सबसे पूज्य, सबसे बड़ा दानी होकर ( जज्ञिषे ) समस्त जगत् को उत्पन्न करता है । ( सत्रा ) साथ ही वा सदा तू ( विश्वा ) समस्त जीवों और लोकों को ( सु-अप-थ्यानि ) उत्तम सन्तानों के समान ( दधिषे ) उनको धारता, अपनी गोद में शरण में लेता और उनको अन्नादि से पालता है । इत्यष्टादशो वर्गः ॥

सत्रा त्वं पुरुष्टुतं एको वृत्राणिं तोशसे ।

नान्य इन्द्रात्करुणं भूय इन्वति ॥ ११ ॥

भा०—हे प्रभो ! स्वामिन् ! शत्रुहन्तः ! ( त्वं ) तू ( सत्रा ) सत्य के बल से वा सदा एक साथ ( पुरु-स्तुतः ) बहुतों से स्तुति करने योग्य होता है । वह तू ( एकः ) अकेला अद्वितीय शक्तिशाली होकर ( वृत्राणि ) शत्रु सैन्यों के समान घेर लेने वाले विघ्नों को, मेघों को सूर्यवत् वा जलों को विद्युत्त्वत् ( तोशसे ) मारता, गिरा देता है । ( इन्द्रात् अन्यः ) उस परमैश्वर्यवान् से दूसरा कोई भी ( भूयः करणं ) अधिक क्रियासामर्थ्य, वा साधन को ( न इन्वति ) नहीं प्राप्त कर सकता है ।

यदिन्द्र मन्मशस्त्वा नाना हवन्त ऊतये ।

अस्माकेभिर्नृभिरत्रा स्वर्जय ॥ १२ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( यत् त्वा ) जिस तुझ को ( नाना ) बहुत से जन ( मन्मशः ) मनन करने योग्य मन्त्रों से ( ऊतये ) रक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिये ( हवन्ते ) पुकारते और आहुति प्रदान वा यज्ञ, उपासना करते हैं वह तू ( अत्र ) इस जगत् में ( अस्माकेभिः ) हमारे। ( नृभिः ) मनुष्यों सहित ( त्वः ) समस्त सुख को ( जय ) सर्वोपरि प्राप्त हो वा नायक वा आदित्यवत् सर्वोपरि विराज ।

अरं क्षयाय नो महे विश्वा रूपाय विशन् ।

इन्द्रं जैत्राय हर्षया शचीपतिम् ॥ १३ ॥ १९ ॥

भा०—हे प्रभो ! ( नः ) हमारे ( महे क्षयाय ) बड़े भारी ऐश्वर्य के लिये ( विश्वा रूपाणि ) सब प्रकार के रुचियुक्त, कान्तियुक्त पदार्थ नाना रूप वाले अश्व, गौआदि प्राणि ( अरं आविशन् ) खूब प्राप्त हों अथवा हमारे ही ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये ( विश्वा ) समस्त जीव ( रूपाणि अविशन् ) नाना देहों को प्राप्त होते हैं । हे विद्वन् ! ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् सेनापति के तुल्य इस अध्यात्मगत तेजस्वी प्रभु को भी ( जैत्राय ) सब अन्तःशत्रुओं और प्राकृतिक ऋद्धियों पर विजय प्राप्त करने के लिये उस ( शचीपतिम् ) शक्तियों के पात्र प्रभु को ( हर्षय ) प्रसन्न कर ॥ इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

[ १६ ]

शरिम्बिठिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ६—१२ गायत्री-।

२—७ निचृद् गायत्री । ८ विराड् गायत्री ॥ द्वादशर्च सूक्तम् ॥

प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीर्भिः ।

नरं नृषाहं मंहिष्ठम् ॥ १ ॥

भा०—( चर्षणीनाम् सम्राजं ) समस्त ज्ञानदर्शी, तत्त्वज्ञानी मनुष्यों के बीच में अच्छी प्रकार प्राप्त होने वाले, सम्राट् के समान सर्वोपरि शोभायमान, ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान्, ( नव्यं ) स्तुति योग्य ( नरं ) नायक, परमपुरुष ( नृ-साहं ) मनुष्यों को वश करने वाले ( मंहिष्ठम् ) अतिदानशीलपुरुष, प्रभु का ( गीर्भिः स्तोत ) वेद वाणियों से स्तुति किया करो ।

यस्मिन्नुक्थानि ररयन्ति विश्वानि च श्रवस्या ।

अपामवो न समुद्रे ॥ २ ॥

भा०—( समुद्रे अपाम् अवः ) जिस प्रकार समुद्र में जलों के नाना प्रवाह वा तरंग आते और इसी में लीन होजाते हैं उसी प्रकार ( यस्मिन् )

जिस प्रभु में ( विश्वानि उक्थानि ) समस्त स्तुति-वचन और ( विश्वानि श्रवस्या च ) सब प्रकार के श्रवण करने योग्य कीर्त्ति वचन भी (रष्यन्ति) रमते हैं, उसी का वर्णन करते हैं। ( तम् सुस्तुत्या विवासे ) उस प्रभु का मैं स्तुति द्वारा भजन, सेवन और प्रकाश करूँ।

तं सुष्टुत्या विवासे ज्यष्टराजं भरे कृत्नुम् ।

महो वाजिनं सनिभ्यः ॥ ३ ॥

भा०—( तं ) उस ( ज्येष्ठ-राजं ) बड़ों २ के राजा, बड़े २ सूर्यादि में प्रकाशमान (भरे कृत्नुम् ) भरण पोषण करने योग्य संसार में जगत् को बनाने वाले ( महः वाजिनम् ) बड़े बल, ज्ञान, ऐश्वर्य के स्वामी को मैं ( सनिभ्यः ) नाना भागों या दानों के लिये ( सुस्तुत्या आविवासे ) उत्तम स्तुति से उसकी सेवा, अर्चा और पूजा तथा उसके गुणों का प्रकाश करूँ।

यस्यानूना गभीरा मदा उरवस्तरुत्राः । हर्षुमन्तः शूरसातौ ॥४॥

भा०—( यस्य ) जिस प्रभु के ( मदाः ) आनन्दमय विकास वा ( मदाः ) आनन्ददायक व्यवहार, तृप्तिदायक जलाशयवत् रस सागर और आनन्द युक्त पुरुष ( अनूनाः ) किसी प्रकार भी न कम, परिपूर्ण, (गभीराः) गंभीर, ( उरवः ) बड़े २ और ( तरुत्राः ) वृक्षों के इर्द गिर्द लगे बाड़ के समान समस्त प्राणियों की रक्षा करनेवाले, वा इस संसार से पार उतारने वाले और ( शूर-सातौ ) शूरवीरों के प्राप्ति के अवसर, संग्रामादि में भी ( हर्षुमन्तः ) अति हर्षयुक्त हैं वही परमेश्वर राजा के समान सबका पालक है।

तमिद्धनेषु हितेष्वधिवाकाय हवन्ते । येषामिन्द्रस्ते जयन्ति ॥५॥

भा०—( हितेषु धनेषु ) हितकारी, कल्याणजनक धनों को प्राप्त करने के निमित्त ( अधिवाकाय ) अध्यक्ष रूप से आज्ञा वा निर्णय वचन कहने वाले अध्यक्ष पद के लिये विद्वान् लोग (सम् इत् हवन्ते) उसी से

प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के ऊपर विराज कर न्याय निर्णय करे।  
 (येपाम् इन्द्रः) जिनके पक्ष में 'इन्द्र' सत्य न्याय का द्रष्टा होता है (ते)  
 वे (जयन्ति) विजय प्राप्त करते हैं। वे ही विवादग्रस्त धन के भागी होते हैं।  
 'इन्द्रः'—इदम् अदर्शत् इति इन्द्रः ।

तमिच्छयौत्नैरायन्ति तं कृतेभिश्चर्षणयः ।

एष इन्द्रो वरिवस्कृत् ॥ ६ ॥ २० ॥

भा०—( एषः इन्द्रः ) यह ऐश्वर्य का स्वामी, तेजस्वी प्रभु ही (वरि-  
 वस्कृत्) उत्तम ऐश्वर्य उत्पन्न करता है। (तम् इत्) उस को (च्यौत्नैः)  
 बलों, ज्ञानों और (कृतेभिः) सत्कर्मों से (चर्षणयः) सब मनुष्य  
 (आयन्ति) सब प्रकार से प्राप्त करते, उसको अपना स्वामी बना लेते हैं,  
 उसकी उपासना प्रार्थना करते हैं। इति विशो वर्गः ॥

इन्द्रो ब्रह्मेन्द्र ऋषिरिन्द्रः पुरु पुरुहूतः ।

महान्महीभिः शचीभिः ॥ ७ ॥

भा०—इन्द्र का लक्षण और नाना भेद। (इन्द्रः ब्रह्मा) ज्ञान का  
 साक्षात् दर्शन करने से चारों वेदों का ज्ञाता महान् ज्ञानी पुरुष 'इन्द्र' है।  
 (ऋषिः इन्द्रः) यथार्थ ज्ञान का तत्त्वदर्शी इन्द्र है। वह अपनी वाणी  
 औरों को प्रदान करता है। वह (पुरुहूतः) बहुतों से आदर प्राप्त होता  
 है। वह (महीभिः शचीभिः) बड़ी २ शक्तियों और पूज्य २ वाणियों  
 करके (महान्) महान् है और (पुरु) बहुत प्रकार से विराजता है।  
 उसी प्रकार परमेश्वर भी महान् होने से 'ब्रह्म' है, सर्वद्रष्टा होने से 'ऋषि'  
 है, वह बड़ी २ शक्तियों से 'महान्' है।

स स्तोम्यः स हव्यः सत्यः सत्वा तु विकुर्मिः ।

एकश्चित्सन्नभिभूतिः ॥ ८ ॥

भा०—(सः) वह परमेश्वर (स्तोम्यः) स्तुति योग्य वचनों से वा  
 सूक्तों से स्तुति करने योग्य है। (सः हव्यः) वह यज्ञ और प्रार्थनादि

से सत्कार योग्य है। वह ( सत्यः ) सत्य स्वरूप, ( सत्त्वा ) बलवान्, ( तुवि-कूर्भिः ) बहुत से नाना कर्म करने हारा है। वह ( एकः चित् ) अकेला ही, ( सन् ) सर्वत्र प्राप्त और ( अभि-भूतिः ) सब विघ्नों और शत्रु जनों का पराजय करने हारा है।

तसर्केभिस्तं सामभिस्तं गायत्रैश्चर्षणयः ।

इन्द्रं वर्धन्ति क्षितयः ॥ ९ ॥

भा०—( तम् इन्द्रं ) उस परमैश्वर्यवान् प्रभु को ( चर्षणयः क्षितयः ) ज्ञान के द्रष्टा विद्वान् लोग ( अर्केभिः ) अर्चना करने योग्य मन्त्रों से और ( तं सामभिः ) उसी को साम गानों से और ( तं गायत्रैः ) उसीको गायत्री आदि नाना छन्दों से ( वर्धन्ति ) बढ़ाते हैं। उसी का गुण गान कर उसकी महिमा का विस्तार करते हैं।

प्रणेतारं वस्यो अच्छा कर्तारं ज्योतिः समत्सु ।

ससह्रांसं युधामित्रान् ॥ १० ॥

भा०—और वे मनुष्य ( वस्यः ) उत्तम ऐश्वर्य को ( अच्छ प्रणेतारम् ) साक्षात् प्रयाण करने वाले और ( समत्सु ) संग्रामवत् संदिग्ध, भययुक्त संकट के अवसरों में भी ( ज्योतिः कर्तारम् ) प्रकाश करने वाले, ( युधा ) युद्ध द्वारा ( अभिन्नान् ससह्रांसं ) स्नेह से रहित शत्रुवर्ग के पराजित करने वाले की ही विद्वान् लोग स्तुति करते हैं।

स नः परिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः ।

इन्द्रो विश्वा अति द्विषः ॥ ११ ॥

भा०—( सः पुरुहूतः ) वह बहुतों से पुकारे जाने वाला ( इन्द्रः ) शत्रुहन्ता, परमैश्वर्यवान् प्रभु, ( परिः ) सब का पालक ( विश्वाः द्विषः ) सब अप्रीति-कर शत्रुओं वा संकटों से ( नावा ) नौका से नदियों के समान ( नः ) हमें ( स्वस्ति ) कल्याणपूर्वक, सुख से ( अति पारयाति ) पार करे।



स त्वं न इन्द्र वाजेभिर्दशस्य च गातुया च ।

अच्छा च नः सुन्नं नेपि ॥ १२ ॥ २१ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! बलवन् ! प्रभो ! ( सः त्वं ) वह तू ( नः ) हमें ( वाजेभिः ) नाना ऐश्वर्यों और बलों करके ( दशस्य ) सुख प्रदान कर और ( गातुया च ) उत्तम सुख की ओर मार्ग दिखा । ( अच्छा च नः सुन्नं नेपि ) हमें सुख की ओर ले चल । इत्येकविंशो वर्गः ॥

[ १७ ]

शरिम्बिठिः काएव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१—३, ७, = गायत्री ।

४—६, ६—१२ निचृद् गायत्री । १३ विराड् गायत्री । १४ आसुरीः

वृहती । १५ आर्षी भुरिग् वृहती ॥ पञ्चदशर्चं सूक्तम् ॥

आ याहि सुसुमा हि त इन्द्र सोमं पिवा इमम् ।

एदं बर्हिः सदो मम ॥ १ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यप्रद ! हे विद्वन् ! राजन् ! तू ( आयाहि ) हमें प्राप्त हो, आ, ( ते ) तेरे लिये ही हम ( इमं सोमं ) इस पुत्र वा ऐश्वर्य को ( सु-सुम ) उत्पन्न करते हैं । हे प्रभो ! तेरे लिये ही इस सोम, आत्मा को सन्मार्ग पर चलाते हैं, ( इमं पिब ) इसकी रक्षा कर । ( इदं बर्हिः ) यह वृद्धियुक्त प्रजाजन एवं आसनवत् ( मम सदः ) मेरा दिया आपके विराजने के लिये है । उस पर ( आ सदः ) आप विराजिये ।

आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना ।

उप ब्रह्माणि नः शृणु ॥ २ ॥

भा०—जिस प्रकार ( केशिना हरी ) केशों वाले दो अश्व स्वामी के रथ को लेजाते हैं उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( ब्रह्म-युजा ) वेद ज्ञान के सहयोगी ( केशिना हरी ) केशोंवत्, रश्मियों तेजों को धारण करने वाले स्त्री पुरुष वा गुरु शिष्य, ( त्वा भा वहताम् ) तुझे अपने में

धारण करें । तू ( नः ब्रह्माणि ) हमारे वेद-मन्त्रों को ( उप शृणु ) श्रवण कर । हे विद्वन् ! गुरो ! तू हमें नाना वेदज्ञान समीप विराज कर ( उप-शृणु ) श्रवण करा ॥ अन्तर्भावितो णिः ॥

ब्रह्माणेस्त्वा वयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः ।

सुतावन्तो हवामहे ॥ ३ ॥

भा०—( वयं ब्रह्माणः ) हम ब्राह्मण, स्तुतिकर्ता एवं ब्रह्मचारी जन, ( सोमिनः ) 'सोम' अर्थात् उत्तम ज्ञान, अन्न, सन्तान से युक्त और ( सुतवन्तः ) उत्तम पुत्रादिमान् होकर ( युजा ) योग द्वारा वा उत्तम गुरु शिष्यरूप सम्बन्ध द्वारा ( सोमपां त्वाम् ) सोम, शिष्यादि के पालक तुझे (हवामहे) प्रार्थना करते हैं । इसी प्रकार हे राजन् ! हम (ब्रह्माणः) धनसम्पन्न जन, ऐश्वर्यवान् और अन्नादिसम्पन्न होकर तुझे ऐश्वर्य पालक स्वीकार करें ।

आ नो याहि सुतावतोऽस्माकं सुष्टुतीरुप ।

पित्रा सु शिप्रिन्नन्धसः ॥ ४ ॥

भा०—हे ( शिप्रिन् ) उत्तम मुकुट वा उत्तम मुख नासिका वाले, सोम्यमुख विद्वन् ! राजन् ! तू ( सुतावतः नः ) पुत्रवान् एवं ऐश्वर्यादि युक्त हमें (आ याहि) प्राप्त हो । ( अस्माकं सुस्तुतीः उप ) हमारी उत्तम स्तुतियों को सुन वा हमें उत्तम उपदेश प्रदान कर । ( अन्धसः सुपित्र ) अन्नों का उपभोग, उत्तम भोजन कीलिये । हे स्वामिन् ! आप (अन्धसः) प्राणधारक जीव का पालन करें ।

आ ते सिञ्चामि कुक्ष्योरनु गात्रा वि धावतु ।

गृभाय जिह्वया मधु ॥ ५ ॥ २२ ॥

भा०—जिस प्रकार अन्न ओषधि सोमादि का रस ( कुक्ष्योः ) कोखों, उदर में डाला जाकर अंश २ में चला जाता है और मनुष्य जिह्वा से

( मधु ) अन्न को ग्रहण करता है इसी प्रकार हे विद्वान् शिष्य मैं ( ते ) तेरे ( कुक्ष्योः ) कोखों को ( आसिञ्जामि ) जल से शुद्ध करता हूँ । वह स्नान-जल ( गात्रा अनु वि धावतु ) अन्य अंगों को भी प्राप्त होकर पवित्र करे । इस प्रकार शुद्ध होकर हे शिष्य ! तू ( जिह्वया ) वाणी से ( मधु ) ब्रह्म-ज्ञान वेद को ( गृभाय ) धारण कर । ( २ ) राजा की दो कुक्षियाँ हैं एक सैन्यबल, दूसरा राजकोप, प्रजा दोनों को भरे । वह ऐश्वर्य राष्ट्र प्रत्येक अंग में पहुँचे, राजा वाणी से सदा मधुर भाषण करे । वा अपनी आज्ञा-मात्र से मधुवत् कर ग्रहण करे । इति द्वाविंशो वर्गः ॥

स्वादुष्टे अस्तु संसुदे मधुमान्तन्वे तव ।

सोमः शमस्तु ते हृदे ॥ ६ ॥

भा०—जिस प्रकार (सोमः स्वादुः तन्वे मधुमान्, हृदेशम्) अन्नादि ओषधिरस स्वादु, शरीर को सुख और पोषणप्रद, और हृदय को शान्ति-दायक होता है इसी प्रकार हे गुरो ! हे विद्वन् ! यह (सोमः) शिष्य (संसदे स्वादुः) उत्तम ज्ञान के दाता तुझ गुरु के ज्ञान को उत्तम रीति से ग्रहण करने हारा हो । और वह (तव तन्वे) तेरी शरीर-सेवा के लिये वा तेरे विस्तृत ज्ञान के लिये (मधुमान्).वेदज्ञान से युक्त हो । वह (ते हृदे) तेरे हृदय के लिये (शम्) शान्तिदायक हो ।

अयमु त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवृतः ।

प्र सोम इन्द्र सर्पतु ॥ ७ ॥

भा०—(जनीः इवः संवृतः अभि) जिस प्रकार स्त्रियें अच्छी प्रकार वस्त्र आभरणादि से युक्त होकर, वा अच्छी प्रकार वरण करके पति को प्राप्त होती हैं अभिमुख होकर उसी प्रकार हे (इन्द्र) आचार्य ! हे विद्या के दाता ! हे (विचर्षणे) विविध विद्याओं के द्रष्टः ! (अयम् सोमः) यह शास्य शिष्य वा सावित्री माता के गर्भ में उत्पन्न पुत्र भी (संवृतः) तेरे द्वारा अच्छी प्रकार वृत, स्वीकृत होकर वा (संवृतः).सम्यक् रीति

से आचरणवान् होकर ( त्वा अभि सर्पतु ) तुझे प्राप्त हो और ( प्र सर्पतु ) विद्या, चरित्र के मार्ग में आगे बढ़े । ( २ ) राष्ट्रपक्ष में 'सोम' प्रजावर्ग ( संवृतः ) अच्छी प्रकार तुझे राजा बरे और ( सं वृतः ) सुरक्षित होकर तुझ उत्तम अध्यक्ष को प्राप्त हो, उन्नति करें ।

तुविग्रीवो वपोदरः सुवाहुर्नधसो मदे ।

इन्द्रो वृत्राणि जिघ्नते ॥ ८ ॥

भा०—वृत्रघ्न इन्द्र का वर्णन । जिस प्रकार ( सुवाहुः ) उत्तम वाहु ( तुवि-ग्रीवः ) अंगुलि आदि विस्तृत एवं बहुत सी गर्दनों वाला, ( वपोदरः ) स्थूल, दृढ़ होकर ( वृत्राणि जिघ्नते ) बाधक विघ्नों का नाश करता है । उसी प्रकार ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्, शत्रु के दृढ़ बलों का नाशक राजा, सेनापति भी ( तुवि-ग्रीवः ) संख्या में बहुत एवं बड़ी ग्रीवा वाला दृढ़ स्कन्ध, नाना सैन्य बलों से युक्त, ( वपोदरः ) 'वपा' छेदन भेदन की शक्ति को अपने राष्ट्र के बीच में धारण करता हुआ ( सुवाहुः ) उत्तम वाहुमान्, दृढ़ भुजा वाला होकर ( नधसः मदे ) ऐश्वर्य से तृप्त होकर, ( वृत्राणि ) राज्य के बाधक कारणों को ( जिघ्नते ) नाश करे । राजा वा सेनापति शरीर में वाहुवत् हैं, यह श्लेष से कहा । ( २ ) इसी प्रकार परमेश्वर सर्व विघ्ननाशक है । वह विश्वतोमुख होने से बहुग्रीवावत् है, 'वपा' सर्व जगदुत्पादक शक्ति से युक्त है, वह जीव सर्ग के तृप्ति अर्थात् अन्न के लिये ( वृत्राणि जिघ्नते ) जलों, मेघों को लाता, बरसाता है ।

इन्द्र प्रेहि पुरस्त्वं विश्वस्येशान् ओजसा ।

वृत्राणि वृत्रहञ्जहि ॥ ९ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( त्वं ) तू ( पुरः प्र इहि ) आ, बढ़, प्रकट हो, तू ( ओजसा ) बल पराक्रम से ( विश्वस्य ईशानः ) सब जगत् का स्वामी है । हे ( वृत्रहन् ) सूर्यवत् मेघों को लाने और दुष्टों

को तारने हारे ! तू ( वृत्राणि जहि ) दुष्टों को दण्ड दे और जलों को बरसा । हे राजन् ! तू ( वृत्राणि जहि ) धनों को प्राप्त कर ।

दीर्घस्ते अस्त्वङ्कुशो येना वसु प्रयच्छसि ।

यजमानाय सुन्वते ॥ १० ॥ २३ ॥

भा०—हे राजन् ! ( येन ) जिसके बल से तू ( सुन्वते यजमानाय ) अन्नादि उत्पन्न करने वाले और करादि देने वाले प्रजावर्ग के हितार्थ ( वसु प्रयच्छसि ) ऐश्वर्य प्रदान करता है । वह ( ते अङ्कुशः ) तेरा अङ्कुश शत्रु-वर्गरूप गज का वश करनेवाला साधन, शासन बल ( दीर्घः अस्तु ) बहुत विस्तृत हो । इति त्रयोविंशो वर्गः ॥

अयं ते इन्द्र सोमो निपूतो अधि वहिषि ।

एहीमस्य द्रवा पिव ॥ ११ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे गुरो ! ( ते ) तेरा ( अयं ) यह ( वहिषि ) उत्तम शासन वा यज्ञ में ( निपूतः ) निरन्तर पवित्र ( सोमः ) शिष्य विराजमान है, ( ईम् अस्य आ इहि ) उसको तू प्राप्त हो ( आ द्रव, आ पिव ) उस पर कृपा कर और उसको अपनी रक्षा में रख । ( २ ) हे राजन् ( वहिषि अधि ) राष्ट्र के, प्रजाजन के अध्यक्ष पद पर विराजमान रहने से नितरां पवित्र यह ऐश्वर्य तुझे प्राप्त हुआ है, तू उसे शीघ्र प्राप्त कर और उसका उपभोग और पालन कर ।

शाचिगो शाचिपूजनाय रणाय ते सुतः ।

आखण्डल प्र हूयसे ॥ १२ ॥

भा०—( शाचि-गो ) शक्तिशाली बैलों, अश्वों, धनुषों और वाणियों वाले राजन् ! विद्वन् ! प्रभो ! हे ( शाचि-पूजन ) शक्तियों से या शक्ति-शाली सेनाओं के कारण पूजनीय, हे ( आखण्डल ) शत्रुओं को सब ओर छिन्न भिन्न करने हारे ! ( अयं ) यह ( सुतः ) ऐश्वर्य देने वाला प्रजाजन ( ते रणाय ) तेरे ही रमण करने के लिये है । तू ( प्र हूयसे ) बड़े आदर से

बुलाया जाता है। (२) हे (शाचि-गो) शक्तिषों से सूर्यादि को सञ्चालित करने वाले वा व्यक्त वाणी से बोलने योग्य वेद वाणि के स्वामिन् ! हे (शाचि-पूजन) व्यक्त वाणि द्वारा पूजने योग्य ! यह उत्पन्न वा शिष्य त्तरी ही (रणाय) प्रसन्नता के लिये है। हे (आखण्डल) प्रलयकारिन् ! विघ्ननाशक ! हे संशयच्छेदक ! तुझे आदर से बुलाते हैं।

यस्ते शृङ्गवृषो नपात्प्रणपात्कुरडपाय्यः ।

न्यस्मिन्दध्र आ मनः ॥ १३ ॥

भा०—हे (शृङ्गवृषः नपात्) हिंसाकारी वाणों की वर्षा करने वाले प्रबल सैन्य को न गिरने देने वाले ! उसके स्वामिन् ! (यः) जो (ते) तेरा (प्रणपात्) उत्तम पुत्रवत् पालनीय (कुरड-पाय्यः) कुण्डों के जलादि से पालन करने योग्य राष्ट्र रूप ऐश्वर्य है (अस्मिन्) उसमें ही (मनः आ दध्रे) सब अपना मनोयोग रक्खें।

वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणांसत्रं सोम्यानाम् ।

द्रुप्सो भेत्ता पुरां शश्वतीनामिन्द्रो मुनीनां सखा ॥ १४ ॥

भा०—हे (वास्तोष्पते) 'वास्तु' अर्थात् नगरादि के पालक ! जिस प्रकार गृह का (स्थूणा ध्रुवा) मुख्य स्तम्भ सर्वाश्रय हो उसी प्रकार तेरे राष्ट्र में (ध्रुवा) तू पृथिवीवत् (स्थूणा) मुख्य स्तम्भ के समान सबका आश्रय है। (सोम्यानां) ऐश्वर्य पाने योग्य शासकों, वा शिष्यों के हितैषी ज्ञानी पुरुषों को (अंसत्रं) कन्धों के विशेष कवचवत् उनके रक्षक हो। (द्रुप्सः) द्रुतगति से आक्रमण करने वालो (इन्द्रः) शत्रुहन्ता सेनापति (शश्वतीनां पुरां) बहुत से शत्रु नगरों का (भेत्ता) तोड़ने वाला हो। और वह (मुनीनां) मन से मनन करने वाले ज्ञानविचारक मनुष्यों का सदा (सखा) मित्र हो।

पृदाकुसानुर्यजतो गवेषण एकः सन्नभि भूर्यसः ।

भूर्णिमश्वं नयत्तुजा पुरो गृभेन्द्रं सोमस्य पीतये ॥ १५ ॥ २४ ॥

भा०—वह ऐश्वर्यवान् राजा ( पृदाकु-सानुः ) 'पृत्' अर्थात् संग्रामों के अवसरों में सन्मार्ग को बतलाने वाला और उन्नति पद पर स्थित, ( यजतः ) पूज्य, दानी और ( गवेपणः ) भूमि राष्ट्र को चाहने वाला होकर ( भूयसः अभि ) बहुत से शत्रुओं पर ( एकः सन् ) अकेला रहकर भी (सोमस्य पीतये) ऐश्वर्य के उपभोग के लिये ( पुरः ) अपने समक्ष ( तुजा गृभा ) शत्रुहिंसाकारी पकड़ या वशीकरण सामर्थ्य से ( भूर्णिम् ) सबके भरण पोषण करने में समर्थ ( अश्वं ) राष्ट्र वा सैन्य को और (हन्द्रं) ऐश्वर्य को भी ( नयत् ) चलावे । अर्थात् राष्ट्र और कोष को अपने अधीन सञ्चालित करे । इति चतुर्विंशो वर्गः ॥

[ १८ ]

इरिभिवाठिः काएव ऋषिः ॥ देवताः—१—७, १०—२२ आदित्याः । ८ अश्विनौ । ९ अग्निसूर्यानिलाः ॥ छन्दः—१, १३, १५, १६ पादनिचृदुष्णिक् ॥ २ आर्ची स्वराडुष्णिक् । ३, ८, १०, ११, १७, १८, २२ उष्णिक् । ४, ६, २१ विराडुष्णिक् । ५—७, १२, १४, १६, २० निचृदुष्णिक् ॥

द्वाविंशत्यृचं सूक्तम् ॥

इदं हं नूनमेपां सुम्नं भिक्षेत मर्त्यः ।

आदित्यानामपूर्व्यं सवीमनि ॥ १ ॥

भा०—( मर्त्यः ) मनुष्य ( आदित्यानां ) आदित्यवत् तेजस्वी वीर्यवान् ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के ( सवीमनि ) शासन में रहकर ( एपां ) इनके ( सुम्नं ) सुखकारक ( अपूर्व्यम् ) अपूर्व ज्ञान की ( ह नूनं ) अवश्य ( भिक्षेत ) याचना किया करे ।

अनर्वाणो ह्येषां पन्था आदित्यानाम् ।

अदब्धाः सन्ति प्रायवः सुगेवृधः ॥ २ ॥

भा०—( एपां ) इन ( आदित्यानां ) तेजस्वी पुरुषों के ( पन्थाः )

मार्ग ( अनर्वाणः ) निर्दोष, हिंसकादि से रहित, निष्कण्टक, ( अदब्धः ) अहिंसित, अक्षय, ( पायवः ) पालक और ( सुगे-वृधः ) सुख के बढ़ाने वाले ( सन्ति ) होते हैं ।

तत्सु नः सविता भगो वरुणो मित्रो अर्यमा ।

शर्म यच्छन्तु सप्रथो यदीमहे ॥ ३ ॥

भा०—( सविता ) उत्पादक माता पिता, आचार्य, ( भगः ) सेवा योग्य एवं ऐश्वर्यवान् स्वामी ( वरुणः ) दुःखवारक राजा, ( अर्यमा ) शत्रुओं का नियन्ता, न्यायकारी अध्यक्ष, ये सब ( स-प्रथः ) अति विस्तृत ( यत् ) जिस ( शर्म ) सुख, शान्ति वा आश्रय को हम ( ईमहे ) चाहते हैं ( यच्छन्तु ) प्रदान करें । ( २ ) सविता, भग, वरुण, मित्र और अर्यमा नाम वाला प्रभु हमें हमारा अभिलपित सुख प्रदान करे । इस पक्ष में— 'यच्छन्तु' अत्र वचनव्यत्ययः ।

देवेभिर्देव्यदितेऽरिष्टभर्मन्ना गहि ।

स्मत्सूरिभिः पुरुप्रिये सुशर्मभिः ॥ ४ ॥

भा०—हे ( अदिते ) अखण्ड चरित्रवाली ! भूमिवत् वा मातावत् पालन करने वाली ! हे ( पुरुप्रिये ) बहुतों को प्रिय लगने हारी, सबको प्रसन्न करने हारी ( देवि ) विदुषि ! हे ( अरिष्टभर्मन् ) सुखों को पूर्ण करने वाली, अहिंसित बालक पुत्रों को पोषण करने वाली वा वाणी ( देवेभिः ) शुभ गुणवान् ( सूरिभिः ) विद्वान् ( सु-शर्मभिः ) उत्तम गृहस्थों सहित ( स्मत् आगहि ) अच्छी प्रकार आदर से प्राप्त हो ।

ते हि पुत्रासो अदितेर्विदुर्द्वेषांसि योतवे ।

अंहोश्चिदुरुचक्रयोऽनेहसः ॥ ५ ॥ २५ ॥

भा०—( ते हि ) वे ( अदितेः पुत्रासः ) भूमि के पुत्र वा भूमिः माता के बहुतों की रक्षा करने वाले तेजस्वी पुरुष, ( उरु-चक्रयः ) बड़े २ कार्य करने वाले ( अनेहसः ) निष्पाप लोग ( अंहोः-चित् ) पापी के भीः



( द्वेषांसि ) अप्रीतिकारक द्वेष भागों को ( योतत्रे विदुः ) दूर करने का उपाय जानते हैं । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥

आदितिर्नो दिवा पशुमदितिर्नक्लमद्वयाः ।

आदितिः पात्वंहंसः सदावृधा ॥ ६ ॥

भा०—( अद्वयाः ) अद्वितीय वा बाहर भीतर दोनों में दो भाव न रखती हुई, ( अदितिः ) विदुषी माता ( नः ) हमारे ( पशुम् ) पशुओं की रक्षा करे । वह ( अदितिः ) अखण्ड और अदीन राजशक्ति ( नक्तम् ) रात को भी ( पातु ) पालन करे । वह ( सदावृधा ) प्रजाजनों को बालकवत् पुष्ट करने वाली होकर ( नः अंहंसः पातु ) हमें पाप से बचावे ।

उत स्या नो दिवा मतिरदितिर्रुत्या गमत् ।

सा शन्ताति मयस्करदपु स्त्रिधः ॥ ७ ॥

भा०—( उत ) और ( स्या ) वह ( अदितिः ) अदीन भाव से रहने वाली शक्ति, ( मतिः ) बुद्धिमती होकर ( नः ) हमें ( दिवा ) दिन के समय ( उत्या ) रक्षा और ज्ञानसहित ( आ गमत् ) आवे । ( सा ) वह ( शन्ताति ) शान्तिदायक ( मयः ) सुख ( करत् ) प्रदान करे और ( स्त्रिधः ) हिंसक शत्रुओं को ( अप करत् ) दूर करे ।

उत त्या दैव्या भिषजा शं नः करतो अश्विना ।

युयुयातामितो रपो अपु स्त्रिधः ॥ ८ ॥

भा०—( उत ) और ( त्या ) वे ( दैव्या ) 'देव' अर्थात् दिव्यगुण युक्त पदार्थों में कुशल वा 'देव' अर्थात् मनुष्यों के हितकारी ( भिषजा ) दोनों प्रकार के रोगचिकित्सक ( अश्विना ) विद्या के क्षेत्र में विस्तृत ज्ञान वाले ( नः शं करतः ) हमें शान्ति प्रदान करें । ( इतः ) इस देह या राष्ट्र से ( रपः ) दुःख वा पापपरिणाम को ( युयुयाताम् ) पृथक् करें और ( स्त्रिधः अपः ) बाधक विघ्नों और रोगादि को भी दूर करें ।

शम॒ग्नि॒र॒ग्निभिः॑ क॒र॒च्छं॑ न॒स्तप॑तु॒ सूर्यः॑ ।

शं वा॒तो वा॒त्वर॒पा अप॑ स्त्रि॒धः ॥ ९ ॥

भा०—( अग्निः ) अग्नि तत्त्व ( अग्निभिः ) अपने व्यापन और दाह आदि गुणों से युक्त पदार्थों से ( नः शम् करत् ) हमें शान्ति प्रदान करे । ( सूर्यः ) सूर्य ( नः ) हमें शान्ति सुखदायक और रोगशमन करने वाला होकर ( तपतु ) तपे । ( वातः ) वायु ( अरपाः ) रोग रहित होकर ( नः शं वातु ) हमें शान्तिदायक होकर बहे । ( स्त्रिधः अप ) रोगादि दुःखजनक पीड़ाएं दूर हों ।

अ॒पा॒मी॒वाम॑प॒ स्त्रि॒धम॑प॒ से॒धत॑ दु॒र्म॒तिम् ।

आ॒दि॒त्यासो॑ यु॒योत॑ना नो अ॒हंसः॑ ॥ १० ॥ २६ ॥

भा०—हे ( आदित्यासः ) उत्तम माता पिता गुरु आदि के पुत्र ! एवं हे पुत्रों के उत्तम पिता मातादि गुरुजनो ! आप लोग ( अमीवाम् अप ) रोग को दूर करो । ( स्त्रिधम् ) नाशकारी ( दुर्मतिम् ) दुष्टमति को ( अप सेधत ) दूर करो । और ( नः अहंसः युयोतन ) हमारे पापों को दूर करो । इति षड्विंशो वर्गः ॥

यु॒योता॑ श॒रु॒म॒स्मदाँ॑ आ॒दि॒त्यास॑ उ॒ताम॑तिम् ।

ऋ॒ध॒ग्द्वेषः॑ कृ॒णुत॑ वि॒श्ववे॑दसः ॥ ११ ॥

भा०—हे ( विश्ववेदसः ) समस्त ज्ञानों के जानने वाले ( आदित्यासः ) आदित्यवत् तेजस्वी एवं संसार के समस्त पदार्थों से ज्ञान और उपयोगी पदार्थों के लेने वाले पुरुषो ! आप लोग ( अस्मत् शरुं ) हम से 'शरु' अर्थात् हिंसक और हिंसाभाव ( उत ) तथा ( अमतिम् ) मूर्ख और मूर्खता को ( युयोत ) पृथक् करो । और ( द्वेषः ) द्वेष को भी ( ऋधक् कृणुत ) पृथक् करो ।

तत्सु॑ नः श॒र्म॑ य॒च्छु॒तादि॑त्या यन्मु॒मो॑चति ।

ए॒न॒स्वन्तं॑ चि॒दे॒नसः॑ सु॒दान॑वः ॥ १२ ॥

भा०—हे (आदित्याः) आदित्य के समान तेजस्वी, एवं अदिति अर्थात् अखण्ड परब्रह्म के उपासक वा वेदवाणी में निष्णात विद्वान् पुरुषो ! हे (सु-दानवः) उत्तम दानशील जनो ! (यत्) जो (एनस्वन्तं चित्) पापी को (एनसः मुमोचति) पाप से मुक्त कर देता है, आप (तत् शर्म) वह शान्ति सुखदायक, शरण वा दण्डव्यवस्था (नः यच्छत) हमें प्रदान करो ।

यो नः कश्चिद्रिरिक्षति रज्जस्त्वेन मर्त्यः ।

स्वैः प एवै रिरिपीष्ट युर्जनः ॥ १३ ॥

भा०—(यः) जो (कश्चित्) कोई (मर्त्यः) हिंसक मनुष्य (रक्षस्त्वेन) अपने हिंसक स्वभाव से (नः) हमें (रिरिक्षति) मारना या पीड़ित करना चाहता है (सः) वह (युः) दुःखदायी (जनः) मनुष्य (स्वैः एवैः) अपने ही आचरणों से (रिरिपीष्ट) पीड़ित होता है । हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः ॥

समित्तम्वधमश्रवदुःशंसं मर्त्यं रिपुम् ।

यो अस्मत्रा दुर्हणावाँ उप द्वयुः ॥ १४ ॥

भा०—(यः) जो (अस्मत्रा) हम लोगों में (दुर्हणावान्) दुःखदायी, पीड़ा देने वाला और (द्वयुः) हमारे प्रति दो प्रकार का भाव—बाहर कुछ और भीतर कुछ, प्रत्यक्ष में कुछ और परोक्ष में कुछ भाव—रखता है, (तं) उस (दुःशंसं) दुर्गुहीत नाम वाले, वदनाम वा बुरी बात करने वाले (रिपुम् मर्त्यम्) शत्रु, पापी पुरुष को (अधम् सम-अश्रवत्) पाप ही व्याप लेता और नष्ट कर देता है ।

पाकत्रा स्थन देवा हृत्सु जानीथु मर्त्यम् ।

उप द्वयुं चाद्वयुं च वसवः ॥ १५ ॥ २७ ॥

भा०—हे (देवाः) विद्वान् मनुष्यो ! हे (वसवः) माता पिता, गृहस्थादि आश्रमों में वास करने वाले मनुष्यो ! आप लोग (पाकत्रा) परिपक्व ज्ञान वाले तपस्वी जनों के अधीन (स्थन) होकर रहो और

(द्वयं अद्वयं च) दो भावों से रहने वाले, कपटी और दो भावों से न रहकर एक भाव से रहने वाले निष्कपट (मर्त्य) मनुष्य को (हृत्सु उप जानीथ) हृदयों तक में खूब जाना करो। मनुष्यों को उनके हृदयों से पहचाना करो। इति सप्तविंशो वर्गः ॥

आ शर्म पर्वतानामोतापां वृणीमहे ।

द्यावाक्षामारे अस्मद्रपस्कृतम् ॥ १६ ॥

भा०—हे (द्यावाक्षाम) सूर्य और पृथिवीवत् तेजस्वी और क्षमाशील, माता पिता गुरु जनो ! हम लोग (पर्वतानां) मेघों वा पर्वतों के और (अपां) जलों के बीच (शर्म) शान्ति सुखदायक शरण या गृह के समान सुरक्षित, (पर्वतानां अपां) पालक साधनों वाले हृदयबलवान् महापुरुषों और आसजनों के बीच (शर्म वृणीमहे) शान्ति सुख को प्राप्त करें। आप दोनों (रपः) पापको (अस्मत्) हम से (आरे) दूर (कृतम्) करो।

ते नो भद्रेण शर्मणा युष्माकं नावा वसवः ।

अति विश्वानि दुरिता पिपर्त्तन ॥ १७ ॥

भा०—हे (वसवः) राष्ट्र में या आश्रमों में बसे माता पितादि जनों (ते) वे आप लोग (युष्माकं) अपने (शर्मणा) दुष्टों के नाशक, शान्तिदायक कर्म से (विश्वानि दुरिता) सब दुष्टाचरणों से (नावा) नौका से जलों के समान (अति पिपर्त्तन) पार करो।

तुचे तनाय तत्सु नो द्राघीय आयुर्जीवसे ।

आदित्यासः सुमहसः कृणोतन ॥ १८ ॥

भा०—हे (आदित्यासः) अपनी शरण में लेने वाले एवं तेजस्वी और हे (सु-महसः) उत्तम प्रकाशवान्, ज्ञानवान् पुरुषो ! आप लोग (नः) हमारे, (तुचे तनाय) पुत्र पौत्र के (जीवसे) जीवन के लिये (तत्) वह (द्राघीयः आयुः कृणोतन) अति दीर्घ आयु करो।

यज्ञो हीळो वो अन्तर आदित्या अस्ति मृळत ।

युष्मे इद्वो अपि षमसि सजात्ये ॥ १९ ॥

भा०—हे ( आदित्याः ) विद्वान् तेजस्वी सूर्य किरणोंवत् ज्ञानों का प्रकाश करने वाले विद्वान् पुरुषो ! ( वः ) आप लोगों का ( हीडः ) प्राप्त करने योग्य ( यज्ञः ) सत्संग और विद्या दान सदा ( अन्तरे अस्ति ) आपके समीप ही रहता है । अतः आप लोग ( मृडत ) सदा सुखी करो ( युष्मे इत् ) हम लोग आप लोगों के अधीन ( अपि ) भी ( वः सजात्ये स्मसि ) आपके पुत्र के समान होते हैं ।

वृहद्वरुथं मरुतां देवं त्रातारमश्विना ।

मित्रमीमहे वरुणं स्वस्तये ॥ २० ॥

भा०—हम लोग ( स्वस्तये ) अपने सुख कल्याण के लिये ( वृहद्वरुथं ) बड़े भारी कष्टनिवारक गृह के समान शरण करने योग्य ( मरुतां ) मनुष्यों वा सैन्य जनों के बीच ( देवं ) सूर्यवत् तेजस्वी और ( अश्विना ) व्यापक सामर्थ्यवान् माता पिता, ( मित्र ) स्नेही बन्धुजन और ( वरुणं ) श्रेष्ठ पुरुष को ( ईमहे ) प्राप्त करें आप लोगों से हम गृहादि की याचना करें ।

अनेहो मित्रार्यममृवद्वरुणं शंस्यम् ।

त्रिवरुथं मरुतो यन्त नश्छर्दिः ॥ २१ ॥

भा०—हे ( मित्र ) प्राणवत् प्रिय ! हे ( वरुण ) श्रेष्ठ ! हे ( मरुतः ) विद्वान् मनुष्यो ! हे ( अर्यमन् ) न्यायकारिन् ! आप लोग ( नः ) हमें ( त्रि-वरुथं ) तीन गृहों से युक्त, वा शीत, आतप, वर्षा तीनों से बचाने वाला ( अनेहः ) विघ्न बाधा से रहित ( छर्दिः ) गृह शरण ( यन्त ) प्रदान करो ।

ये चिद्धि मृत्युवन्धव आदित्या मनवः स्मसि ।

प्र सू न आयुर्जीवसे तिरेतन ॥ २२ ॥ २८ ॥

भा०—हे ( आदित्याः ) अदिति, परमेश्वर के उपासको ! सूर्य की किरणों के तुल्य ज्ञान के प्रकाशक एवं शोकादि को अन्धकारवत् दूर करने हारे तपस्वी जनो ! ( ये चित् हि ) जो हम ( मृत्यु-बन्धवः ) मौत के बन्धु होकर ( मनवः स्मसि ) मननशील मनुष्य हैं । अतः तू ( नः आयुः ) हमारी आयु को ( जीवसे प्र तिरेतन ) दीर्घजीवन के लिये बढ़ा । इत्यष्टाविंशो वर्गः॥

[ १६ ]

सोभरिः कायव ऋषिः ॥ देवता—१—३३ अग्निः । ३४, ३५ आदित्याः । ३६, ३७ त्रसदस्योर्दानस्तुतिः ॥ छन्दः—१, ३, १५, २१, २३, २८, ३२ निचृदुष्णिक् । २७ भुरिगाचीं विराडुष्णिक् । ५, १६, ३० उष्णिक् ककुप् । १३ पुरं उष्णिक् । ७, ९, ३४ पादनिचृदुष्णिक् । ११, १७, ३६ विराडुष्णिक् । २५ आचींस्वराडुष्णिक् । २, २२, २६, ३७ विराट् पांक्तिः । ४, ६, १२, १६, २०, ३१ निचृत् पांक्तिः । = आचीं भुरिक् पांक्तिः । १० सतः पांक्तिः । १४ पांक्तिः । १८, ३३ पादनिचृत् पांक्तिः । २४, २६ आचीं स्वराट् पांक्तिः । ३५ स्वराड् बृहती ॥ सप्तत्रिंशद्वचं सूक्तम् ॥

तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे ।

देवत्रा हव्यमोहिरे ॥ १ ॥

भा०—जिस ( देव ) तेजस्वी, सर्व सुखदाता, परम पुरुष को ( देवासः ) सब मनुष्य और पृथिवी सूर्यादि गण ( अरतिं ) अपना स्वामी, और सबसे अधिक ज्ञानवान् रूप से ( दधन्विरे ) धारण करते हैं और जिसको दे ( देवत्रा ) विद्वानों, तेजस्वियों, दानियों और ज्ञानप्रकाशकों में से ( हव्यम् आ ऊहिरे ) सत्य मानते हैं ( तं ) उस ( स्वः-नरं ) सबके नायक संचालक एवं सूर्य, और प्रकाश को लाने और मोक्ष वा सूर्यवत् प्रभु पद तक पहुँचाने वाले की ( गूर्धय ) स्तुति करो ।

विभूतरातिं विप्र चित्रशोचिषमग्निमीलिष्व यन्तुरम् ।

अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रमध्वराय पूर्व्यम् ॥ २ ॥

भा०—हे ( विप्र ) मेधाविन् ! विद्वन् ! हे ( सोभरे ) उत्तम रीति से प्रजा के पोषण करने हारे ! तू ( इम् ) इस ( अध्वराय ) यज्ञ, और अविनाश के लिये ( पूर्व्यम् ) सब से पूर्व विद्यमान एवं विद्या, बल में पूर्ण ( अस्य सोम्यस्य ) सोम योग्य, पुत्र शिष्यादि के हितकारी ऐश्वर्य से सम्पाद्य इस (मेधस्य) सत्संग यज्ञ के ( यन्तुरं ) नियन्ता, (विभूतरातिं) प्रचुर दानशील, ( चित्र-शोचिषम् ) अद्भुत तेजस्वी, ( अग्निम् ) अग्निवत् ज्ञानप्रकाशक को ( प्र ईडिष्व ) अच्छी प्रकार आदर कर । उसको मुख्य पद पर स्थापित कर । ( २ ) इसी प्रकार इस संसार रूप यज्ञ के नियन्ता प्रभु की स्तुति करो ।

यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होतारममर्त्यम् ।

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॥ ३ ॥

भा०—( अस्य यज्ञस्य ) इस यज्ञ के ( सु-क्रतुम् ) उत्तम रीति से धनाने और जानने वाले, ( होतारम् ) सर्व ऐश्वर्य के दाता, ( अमर्त्यम् ) अविनाशी, ( देवत्रा देवं ) देवों, प्रकाशमान सूर्यादि के भी प्रकाशक, दाताओं के भी दाता, ( यजिष्ठं ) अति पूज्य, दानी, ( त्वा ) तुझ स्वामी को हम ( ववृमहे ) वरण करते हैं, तुझे अपनाते, तेरी स्तुति गाते, और तेरी उपासना करते हैं ।

ऊर्जो नपातं सुभगं सुदीदितिमग्निं श्रेष्ठशोचिषम् ।

स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुमनं यज्ञते दिवि ॥ ४ ॥

भा०—जिस प्रकार अग्नि, विद्युत् बल को नष्ट न होने देने वाला वा बल से उत्पन्न, उत्तम ऐश्वर्य युक्त, दीप्तियुक्त, उत्तम शोधक, वह प्राण अपान देह के रक्तादि में भी सुख देता है, हे विद्वन् ! तू उसको जाने, उसी प्रकार तू ( उर्जः नपातम् ) बल पराक्रम को न गिरने देने वाले, अन्न के

पालक, सैन्य बल को नाव के समान पार लेजाने वाला, (सु-भगं) उत्तम  
 ऐश्वर्यवान्, सुख सेवने योग्य (श्रेष्ठ-शोचिषम्) उत्तम कान्तियुक्त, को  
 (दिवि) ज्ञान और व्यवहार के लिये (प्र ईडिष्व) अच्छी प्रकार उपा-  
 सना कर। (सः) वह (नः) हमें, (मित्रस्य) स्नेही मित्र, (वरुणस्य)  
 चरण करने योग्य श्रेष्ठ राजा, और (सः) वह (अपां) जलवत् शान्ति-  
 सुखदायक आसजनों के (सुभ्रं) सुख को भी (यक्षते) प्रदान करता है।

यः समिधा य आहुती यो वेदेन द्वादश मर्तो अग्नये ।

यो नमसा स्वध्वरः ॥ ५ ॥ २९ ॥

भा०—(यः) जो (स्वध्वरः) उत्तम अहिंसक, यज्ञशील, (मर्तः)  
 पुरुष (नमसा) अन्न से, या विनय श्रद्धा से (यः) जो (समिधा)  
 काष्ठ से, (यः आहुती) जो आहुति से, (यः वेदेन) जो वेद से, वेद के  
 अध्ययन, मनन, श्रवणादि करते हुए (अग्नये) अग्नि में आहुतिवत्,  
 उस ज्ञानवान्, सर्वप्रकाशक, सर्वगुरु परमेश्वर के हाथों अपने को (द्वादश)  
 प्रदान करता है उसी प्रकार जो राष्ट्रजन तेजस्वी अग्रणी राजा के हाथ  
 अपने को सौंप देता है, उसके ही—इत्येकोनत्रिंशो वर्गः ॥

तस्येद्वन्तो रंहयन्त आशवस्तस्य द्युम्नितमं यशः ।

न तमहो देवकृतं कुतश्चन न मर्त्यकृतं नशत् ॥ ६ ॥

भा०—(तस्य इत्) उसके ही (आशवः अर्वन्तः) वेग से जाने  
 वाले अश्व (रंहयन्ते) वेग से गमन करते हैं (तस्य) उसका ही (यशः  
 द्युम्नितमम्) यश अति उज्वल होता है, (तम्) उस तक (देवकृतं)  
 विद्वानों और (मर्त्यकृतं) मनुष्यों का किया (अंहः) पाप या अपराध  
 कर्म (कुतः चन न नशत्) किसी भी प्रकार से नहीं प्राप्त हो। अर्थात्  
 यज्ञशील उपासक को किसी प्रकार का पाप स्पर्श नहीं करता।

स्वग्नयो वो अग्निभिः स्याम सूनो सहस ऊर्जा पते ।

सुवीरस्त्वमस्मयुः ॥ ७ ॥



भा०—हे ( सहस्रः सूनो ) बल के सञ्चालक ! हे ( ऊर्जा पते ) बलवान् पराक्रमी सैन्यों के पालक ! हे ( अग्रयः ) अग्निवत् तेजस्वी विद्वान् पुरुषो ! हम लोग ( वः अग्निभिः ) तुम्हारे अग्रणी, ज्ञानी पुरुषों द्वारा ( सु-अग्रयः ) उत्तम सुखजनक अग्नि्यों वा प्रधान नायकों से युक्त ( स्याम ) होवें । हे अग्रणी ! ( त्वम् ) तू ( अस्मयुः ) हमें चाहने वाला हमारा स्वामी, ( सुवीरः ) उत्तम वीर और वीरों का नायक है ।

प्रशंसमानो अतिथिर्न मित्रियोऽग्नी रथो न वेद्यः ।

त्वे क्षमासो अपि सन्ति साधवस्त्वं राजा रयीणाम् ॥ ८ ॥

भा०—हे प्रभो ! हे राजन् ! हे विद्वन् ! तू ( अतिथिः न ) अतिथि के समान पूज्य, आत्मा के समान व्यापक, ( प्रशंसमानः ) उत्तम रीति से उपदेश करता हुआ, ( मित्रियः ) स्नेही मित्र होने योग्य, ( अग्निः ) अग्निवत् तेजस्वी, ( रथः न ) रथवत् रमणीय, ( वेद्यः ) परम गम्य है । हे प्रभो ! ( त्वे ) तुझ में ( क्षेमासः ) निवास करने वाले ( साधवः ) साधक लोग ( अपि सन्ति ) निमग्न होकर रहते हैं । ( त्वं ) तू ( रयीणां राजा ) समस्त ऐश्वर्यों का राजा है ।

सो अद्वा दाश्वध्वरोऽग्ने मर्तः सुभग स प्रशंस्यः ।

स धीभिरस्तु सनिता ॥ ९ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! ज्ञानवन् ! ( सः ) वह पुरुष ( अद्वा ) सचमुच ( दाश्वध्वरः ) दानशील, सफल यज्ञ वाला ( मर्तः ) मनुष्य होता है और ( सः प्रशंस्यः ) वही प्रशंसनीय होता है, ( सः ) वही ( धीभिः ) कर्मों और उत्तम बुद्धियों से ( सनिता अस्तु ) दान देने और ऐश्वर्य का न्यायपूर्वक विभाग करने वाला भी ( अस्तु ) हो जो तेरे अधीन अपने को सौंपे हुए है ।

यस्य त्वमुध्वो अश्वराय तिष्ठसि जयद्वीरुः स साधते ।

सो अर्वाङ्घ्रिः सनिता स विपन्युभिः स शूरैः सनिता कृतम् १०।३०

भा०—हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! ( यस्य अध्वराय ) जिस को नाश न होने देने के लिये वा जिसके यज्ञ की रक्षा के लिये वा जिस राष्ट्र के अहिंसक, पालक पद के लिये ( क्षयद्-वीरः ) शत्रुओं वा अधीन रहने वाले वीरों का स्वामी होकर ( त्वं ) तू ( ऊर्ध्वः ) ऊपर अध्यक्ष होकर ( तिष्ठसि ) विराजता है, ( सः ) वह ही ( अर्वद्भिः ) वीर विद्वानों और ( सः विपन्युभिः ) वह विशेष व्यवहारज्ञों और ( सः शूरैः ) वह शूरवीरों सहित ( सनिता ) ऐश्वर्य का भोक्ता और ( सः सनिता ) वही ऐश्वर्य का दाता होकर ( कृतं साधते ) कार्य सिद्ध करता है । इति त्रिंशो वर्गः ॥

यस्याग्निर्वपुर्गृहे स्तोमं चनो दधीत विश्ववार्यः ।

हव्या वा वेविपद्विषः ॥ ११ ॥

भा०—जिस प्रकार ( अग्निः गृहे चनः दधीत हव्या वेदिपत् ) घर में आग पाचन करता है, नाना अन्न प्राप्त कराता है, उसी प्रकार ( यस्य ) जिस पुरुष के ( गृहे ) घर में ( अग्निः ) तेजस्वी पुरुष ( वपुः ) संशयो को छेदन करने में कुशल और ( विश्व-वार्यः ) सबसे वरण करने योग्य, सर्व-प्रिय होकर ( चनः स्तोमं ) प्रवचन करने योग्य स्तुति योग्य मन्त्र समूह को ( दधीत ) धारण करता है वा और ( विषः ) विविध प्रकार से उप-भोग्य वा दातव्य नाना ( हव्या वा ) भोज्य अन्नों और ज्ञानों को ( वेवि-पद् ) प्राप्त कराता है । चनः—पचतेर्वा-वचेर्वा । पचनः, वचनः । वर्ण-लोपश्छान्दसः । चनः ।

विप्रस्य वा स्तुवतः सहसो यहो मञ्जूतमस्य रातिपुं ।

अवोदेवमुपरिमर्त्यं कृधि वसो विविदुषो वचः ॥ १२ ॥

भा०—हे ( वसो ) राष्ट्र में बसने वाले ! हे गुरु के अधीन बसने वाले विद्वन् ! हे ( सहसः यहो ) बलवान् पिता के पुत्र ! शिष्य ! तू ( स्तुवतः ) उपदेश ( विप्रस्य ) बुद्धिमान् और ( विविदुषः ) विशेष विद्यावान्, ज्ञानी पुरुष के ( वचः ) वचन को ( अवोः-देवम् ) परमेश्वर से नीचे और ( उपरि-

मर्त्यं) साधारण मनुष्यों से ऊपर (कृधि) कर। और (यक्षतमस्य) अति शीघ्रकारी, अति कुशल वा पुरुष के (रातिषु) दानों में से (वचः) वचन, उपदेश को भी तू ईश्वर से न्यून और सामान्य मानवों से अधिक श्रद्धायोग्य जान।

यो अग्निं हव्यदातिभिर्नमोभिर्वा सुदक्षमा विवासति ।

गिरा वाजिरशोचिषम् ॥ १३ ॥

भा०—(यः) जो (हव्य-दातिभिः) चरु आदि हव्य पदार्थों की आहुतियों से (अग्निम्) जिस प्रकार अग्नि को (आ विवासति) यजमान सेवन करता है उसी प्रकार (यः) जो पुरुष (अग्निम्) अग्निवत् तेजस्वी, ज्ञान प्रकाशक, (सुदक्षम्) उत्तम, कार्यकुशल पुरुष को (हव्य-दातिभिः) उत्तम ग्राह्य तथा भोज्य पदार्थों के दानों से और (नमोभिः) नमस्कार आदि सत्कारयुक्त वचनों से वा अर्चों से (आ विवासति) परिचर्या करता है, (वा) और जो (अजिर-शोचिषम्) न नाश होने वाली दीप्ति से युक्त अग्निवत् अविनाशी कान्ति वाले, प्रकाशस्वरूप आत्मा को (गिरा) वाणी द्वारा (आविवासति) साक्षात् करता है वही पुरुष वास्तविक अग्निहोत्र और वास्तविक स्वप्रकाश आत्मदर्शन वा उपासना करता है।

समिधा यो निशित्ती दाशददिति धामभिरस्य मर्त्यः ।

विश्वेत्स धीभिः सुभगो जनाँ अतिं द्युम्नैरुदन् इव तारिषत् १४

भा०—(समिधा अग्निम्) काष्ठ की समिधा से अग्नि की जिस प्रकार परिचर्या करता है उसी प्रकार (यः) जो पुरुष (निशित्ती) अति तीक्ष्ण बुद्धि से (अदितिं) अखण्ड, अदीन सूर्यवत् सर्वोपरि प्रभु की (दाशत्) सेवा करता, उसके प्रति अपने को सौंपता है (सः) वह (मर्त्यः) मनुष्य (अस्य धामभिः) उसके ही नाना तेजों वा धारण सामर्थ्यों से (धीभिः) कर्मों के अनुसार (द्युम्नैः) ऐश्वर्यों से (विश्वा

इत् जनान् ) समस्त जनों को (उद्ग्नः इव अति तारिषत् ) जलों के समान पार कर जाता है और ( सु-भगः ) वह उत्तम ऐश्वर्यवान् भी हो जाता है ।

तद्ग्रे द्युम्नमा भरु यत्सासहत्सदने कं चिदत्रिणम् ।

मन्युं जनस्य दृढयः ॥ १५ ॥ ३१ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) अग्निवत् तेजस्विन् ! प्रभो ! नायकवर ! तू ( तत् द्युम्नं ) वह उज्ज्वल ज्ञानप्रकाश और तेज ( आ भर ) धारण कर और हमें प्रदान कर ( यत् ) जो ( सदने ) घर में, देह में ( कं चित् अत्रिणं ) किसी भी खाजाने वाले, राक्षसवत् दुखदायी लोभ को ( सासहत् ) पराजित कर सके और जो ( दृढयः जनस्य ) दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य के ( मन्युं सासहत् ) कोध पर विजय पा सके ।

येन चष्टे वरुणो मित्रो अर्यमा येन नासत्या भगः ।

वयं तन्ने शवसा गातुवित्तमा इन्द्रत्वोता विधेमहि ॥१६॥

भा०—हे ( अग्ने ) अग्निवत् तेजस्विन् ! ( येन ) जिस ( शवसा ) बल और ज्ञान से ( वरुणः मित्रः अर्यमा ) श्रेष्ठ, स्नेही और दुष्ट पुरुषों का नियन्ता, न्यायकारी पुरुष ( चष्टे ) न्यायानुकूल प्रजाजन को देखता है, सत् असत् का निर्णय करता है, और ( येन शवसा ) जिस ज्ञान और बल से ( नासत्या ) कमी, असत्याचरण न करने वाले वा नासिकावत् प्रमुख पद पर स्थित स्त्री पुरुष और ( भगः ) ऐश्वर्यवान् स्वामी ( चष्टे ) अधीनस्थों को देखता और आज्ञा वचन कहता है हम ( इन्द्र-त्वोताः ) तुझ सूर्याग्निवत् तेजस्वी और प्रचण्ड विद्वान् और वीर पुरुष द्वारा सुरक्षित रहकर ( ते तत् शवसा ) उसी तेरे बल से ( गातुवित्तमाः ) खूब भूमि और वाणी के धन को अच्छी प्रकार प्राप्त होकर ( ते ) तेरे ( तत् विधेमहि ) उसी बल और ज्ञान को सम्पादन करें ।

ते घेदग्ने स्वाध्योये त्वा विप्र निदधिरे नृचक्षसम् ।

विप्रासां देव सुकृतुम् ॥ १७ ॥

भा०—हे ( विप्र ) विद्वन् ! हे विविध विद्याओं से पूर्ण ! निष्णात ! ( ये ) जो ( त्वा ) तुझ को ( नृ-चक्षसम् ) समस्त मनुष्यों पर द्रष्टा रूप से ( निदधिरे ) नियत करते और निश्चयपूर्वक जानते हैं और ( ये विप्रासः ) जो विद्वान् लोग हे ( देव ) दानशील ! हे प्रकाशस्वरूप, सत्य प्रकाशक ! ( त्वा सुक्रतुं निदधिरे ) तुझ उत्तम कर्म और ज्ञान वाले, तुझको स्थिर करते हैं ( ते घ इत् ) वे ही हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! ( स्वाध्यः ) सुख पूर्वक तेरा ध्यान करने वाले तुझे वरण और अग्निवत् हृदय वेदि में धारण करने वाले होते हैं ।

त इद्वेदिं सुभग त आहुतिं ते सोतुं चक्रिरे दिवि ।

त इद्वाजेभिर्जिग्युर्महद्धनं ये त्वे कामं न्येरिरे ॥ १८ ॥

भा०—हे प्रभो ! ज्ञानवन् ! ( ये ) जो ( त्वे ) तुझ में ( कामम् ) अपने कामना वा इच्छा करने वाले आत्मा वा मन को ( त्वे नि-एरिरे ) तेरे अधीन, तेरे ही में प्रेरित करते हैं ( ते ) वे ( इत् ) ही हे ( सुभग ) उत्तमैश्वर्यवन् ! ( वेदिम् चक्रिरे ) वेदि बनाते, ( ते आहुतिं चक्रिरे ) वे आहुति करते और इस भूमि पर ( ते सोतुं चक्रिरे ) वे हवन यज्ञ करते हैं । इसी प्रकार वे ( वेदिं ) ज्ञान करते, ( आहुतिं ) दान आदान करते, ( सोतुं ) ऐश्वर्य उत्पन्न करते । ( ते इत् ) वे ही ( वाजेभिः ) ज्ञानों और सैन्यादि बल पराक्रमों से ( महद् धनं जिग्युः ) बड़े भारी धन का विजय करते हैं ।

भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः ।

भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ १९ ॥

भा०—( आहुतः ) आदरपूर्वक आहुति किया ( अग्निः ) अग्नि, और आदरपूर्वक बुलाया या वृत या दान सत्कृत विद्वान् ( नः भद्रः ) हमारे लिये कल्याण और सुख का देने वाला हो । ( रातिः भद्रा ) हमारा दिया दान हमें सुखकारी हो । हे ( सु-भग ) उत्तम ऐश्वर्यशालिन् ! ( नः

अध्वरः ) हमारा यज्ञ ( भद्रः ) कल्याणजनक हो । ( उत ) और ( प्र-श-स्तयः ) उत्तम ख्याति या उत्तम उपदेश भी हमें ( भद्राः ) कल्याणकारी हो वा हमारी उत्तम ख्यातियां हों ।

भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतूर्ये येना समत्सु सासहः ।

अव स्थिरा तनुहि भूरि शर्धतां वनेमा ते अभिष्टिभिः २०।३२

भा०—हे नायक ! प्रभो ! तू ( वृत्रतूर्ये ) दुष्टों के नाश करने वाले संग्राम में ( येन ) जिस ज्ञान और मनोबल से ( समत्सु ) संग्रामों में ( सासहः ) शत्रुओं को पराजित करता है, तू उसी ( मनः ) मन और ज्ञान को ( भद्रं ) हमें सुखदायक कर । और ( शर्धतां ) बलवाले हिंसक शत्रुओं के ( स्थिरा ) दृढ़ सैन्यों को भी ( अव तनुहि ) नीचे कर, नाश कर । जिससे हम ( अभिष्टिभिः ) अभिलषित सुखों से ( ते वनेम ) तेरी सेवा करें । तुझ से नाना ऐश्वर्य प्राप्त करें ।

ईळं गिरा मनुहितं यं देवा दूतमरतिं न्येरिरे ।

यजिष्टं हव्यवाहनम् ॥ २१ ॥

भा०—( यम् ) जिस ( यजिष्टं ) अति पूज्य ( हव्य-वाहनम् ) हव्य, उत्तम अन्न को ग्रहण करने वाले, ( दूतम् ) दुष्ट पुरुषों के उपतापक और विद्वानों से उपासित ( अरतिं ) अति मतिमान् स्वामी को ( देवाः ) नाना अर्थों के अभिलाषी होकर ( नि ऐरिरे ) स्तुति करते हैं ( मनुहितम् ) मननशील पुरुषों द्वारा धारित उस पूज्य की मैं ( गिरा ईडे ) वाणी द्वारा स्तुति करूं ।

त्विग्मर्जम्भाय तरुणाय राजते प्रयो गायस्यश्नये ।

यः पिंशते सूनृताभिः सुवीर्यमग्निर्घृतेभिराहुतः ॥ २२ ॥

भा०—जिस प्रकार ( घृतेभिः आहुतः अग्निः ) घी की धाराओं से आहुति पाकर अग्नि ( सूनृताभिः ) उत्तम सत्य वाणियों सहित ( सुवीर्यं पिंशते ) उत्तम वीर्य युक्त रूप प्रकट करता है और जिस प्रकार ( घृतेभिः

आहुतः ) जलों द्वारा प्राप्त ( अग्निः ) विद्युत् ( सूनृताभिः ) उत्तम विज्ञान युक्त क्रियाओं द्वारा वा मेघस्थ विद्युत् उत्तम बल अन्नादि युक्त धाराओं से ( सुवीर्यं ) उत्तम बलयुक्त रूप प्रकट करता है, उसी प्रकार ( घृतेभिः आहुतः ) दीप्ति, तेज वा स्नेहों से आदृत होकर ( अग्निः ) तेजस्वी ज्ञानी पुरुष वा प्रभु ( सूनृताभिः ) उत्तम ज्ञानमय वाणियों से ( सुवीर्यम् ) उत्तम रीति से विशेष रूप से, उपदेश करने योग्य ज्ञान को ( पिंशते ) प्रकट करता है, उस ( तिग्म-जम्भाय ) तीक्ष्णमुख, दुष्टों के हनन करने के लिये तीक्ष्ण हिंसा साधनों से युक्त ( तरुणाय ) सदा युवा, बलवान्, संकटों से तारने वाले, ( राजते ) राजा के समान आचरण करने वाले, ( अग्रये ) अग्रणी, ज्ञानी पुरुष के लिये ( प्रयः ) उत्तम प्रीतिकारक वचन वा स्तुतिका ( गायसि ) गान कर ।

यदीं घृतेभिराहुतो वाशीमग्निर्भरत उच्चाव च ।

असुर इव निर्णिजम् ॥ २३ ॥

भा०—( यदि ) जिस प्रकार ( घृतेभिः आहुतः ) घृत धाराओं से आहुति प्राप्त कर ( अग्निः ) अग्नि ( उत् च अव च ) ऊपर की ओर और नीचे की ओर भी ( वाशीम् भरते ) कान्ति प्रदान करता है तब वह ( असुर इव ) प्राणों के देने वाले वायु या सूर्य के समान ( निर्णिजम् ) रूप को ( भरते ) धारण करता है अर्थात् असुर प्राणप्रद पवन भी जलों से युक्त होकर ( वाशीं भरते ) कान्तिमती विद्युत्, उसकी माध्यमिक वाणी गर्जना को धारण करती है, सूर्य ( घृतैः ) दीप्तियों से युक्त होकर ( वाशीं भरते ) दीप्ति रूप को धारता है उसी प्रकार वह प्रभु और विद्वान् नायक भी, ( यदि ) जब ( घृतेभिः आहुतः ) स्नेहों से उपासित होकर ( वाशीम् ) उत्तम वाणी को ( उत् च अव च ) ऊपर और नीचे स्वरों के आरोहावरोह क्रम सहित ( भरते ) धारण करता है, तब वह ( असुरः इव ) 'असुर' अर्थात् बलवान् वीर पुरुष के ( निर्णिजं भरते ) रूप को धारण करता है,

वीर पुरुष भी ( वाशीं ) वशकारिणी शक्ति, खड्ग आदि को ऊपर नीचे चलाता है, तेजों से चमकाता है ।

यो ह॒व्या॒न्यैर॑य॒ता म॒नुर्हि॑तो दे॒व आ॒सा सु॑ग॒न्धि॒ना ।

वि वा॑स॒ते वा॒र्या॑णि स्व॒ध्वरो॑ होता॑ दे॒वो अ॒मर्त्यः॑ ॥ २४ ॥

भा०—जिस प्रकार ( देवः ) देदीप्यमान अग्नि, ( हव्यानि ) हव्य चरुओं को ( सुगन्धिना आसा ) उत्तम गन्धयुक्त ज्वाला रूप मुख से ( ऐरयत ) दूर २ तक भेजता है ( वार्याणि वि वासते ) ग्राह्य उत्तम २ प्रकाशों को प्रकट करता है उसी प्रकार ( यः ) जो ( मनुः-हितः ) स्वयं मननशील और सर्वहितकारी विद्वान् ( देवः ) मनुष्य होकर ( सुगन्धिना ) पुण्य गन्ध, उत्तम शिक्षा युक्त ( आसा ) मुख से (हव्यानि) ग्राह्य-वचनों को ( ऐरयत ) उच्चारण करता है वह ( सु-अध्वरः ) उत्तम यज्ञशील, अन्यों की हिंसा से रहित, ( देवः ) दानी ( अमर्त्यः ) साधारण मनुष्य वर्ग से भिन्न होकर (वार्याणि वि वासते) वरण करने योग्य उत्तम-गुणों और ज्ञानों को प्रकट करता है ।

यद॑ग्ने॒ मर्त्य॑स्त्वं स्याम॒हं मि॑त्रम॒हो अ॒मर्त्यः॑ ।

सह॑सः॒ सून॑वाहु॒त ॥ २५ ॥ ३३ ॥

भा०—जिस प्रकार आहुति वाले अग्नि में जो कुछ पड़ता है वह अग्नि ही होजाता है उसी प्रकार हे ( सहसः सूनो ) बल के उत्पन्न करने, प्रेरने वाले हे ( आहुत ) उपासना योग्य ! ( अग्ने ) ज्ञानवन् वा अग्निवत् तेजस्विन् ! हे ( मित्र-महः ) स्नेहवान् मित्रों से पूजनीय, मित्रों के आदर करने हारे ! ( यत् ) जो ( मर्त्यः ) मनुष्य (अहं त्वं स्याम् ) मैं तू होजाऊँ इस प्रकार उपासना करता है वह भी ( अमर्त्यः ) अविनाशी वा अन्य साधारण मरणधर्मा प्राणियों से भिन्न तेरे समान ही होजाता है ।

न त्वा॑ रा॒सीया॑भि॒शस्त॑ये व॒सो न पा॑प्त॒वाय॑ स॒न्त्य ।

न मे॑ स्तो॒ताम॑ती॒वा न दु॑र्हि॒तः स्याद॑ग्ने॒ न प्रा॑प॒या ॥ २६ ॥



भा०—हे ( वसो ) धनवत् प्रजा को बसाने और सब में बसने हारे स्वामिन् ! मैं जिस प्रकार ( अभिशस्तये ) निन्दा अपवाद और ( पापत्वाय ) पाप के लिये ( न रासीय ) धन को नहीं दूँ उसी प्रकार ( त्वा ) तुझे भी ( अभिशस्तये ) निन्दा, परापवाद और ( पापत्वाय ) पाप कार्य के लिये ( न रासीय ) कभी त्याग न करूँ वा तेरा नाम अन्यो को पीड़ा पहुंचाने और पाप कर्म करने के निमित्त न लूँ। हे ( सन्त्य ) भजन करने योग्य ! हे ( अग्ने ) ज्ञानप्रकाशक ! प्रभो ! ( मे स्तोता ) मेरा स्तुति करने वा उपदेश करने वाला ( अमतिवा ) मतिहीन, मूर्ख ( न ) न हो और ( दुर्हितः ) दुःखदायी दुष्टाशय पुरुष ( न ) न हो और ( न पापः स्यात् ) वह पापाचारी वा पाप बुद्धि से युक्त भी न हो ।

पितुर्न पुत्रः सुभृतो दुरोण आ देवाँ एतु प्र णो हविः ॥ २७ ॥

भा०—( सुभृतः ) उत्तम रीति से भरण पोषण प्राप्त, सुपुष्ट ( पुत्रः ) पुत्र जिस प्रकार ( दुरोणे ) गृह में ( पितुः ) पिता का भी पालक होता है, उसी प्रकार ( अग्निः ) अग्निवत् तेजस्वी परमेश्वर एवं राजा गृहपति भी ( पितुः न ) अन्न के समान ( पुत्रः ) बहुतों के रक्षा करने में समर्थ, ( सुभृतः ) उत्तम रीति से प्रजा का भरण पोषण करने वाला होकर ( दुरोणे ) अन्यो से कठिनता से प्राप्त करने योग्य राष्ट्रपति वा मोक्ष पद पर है । वह ( देवान् आ एतु ) समस्त मनुष्यों, विद्वानों और दिव्य पदार्थों को प्राप्त हो, और वह ( नः हविः प्र एतु ) हमारे स्तुतिवचन वा कर आदि देने योग्य अंश को भी प्राप्त करे ।

तवाहमग्र ऊतिभिर्नेदिष्टाभिः सचेय जोपमा वसो ।

सदा देवस्य मर्त्यः ॥ २८ ॥

भा०—हे ( वसो ) सब प्राणियों और लोकों को बसाने और उन सब में बसने हारे ! हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! हे अंग २ में व्यापक ! ( सदा ) सर्वदा, सब कालों में ( मर्त्यः ) मैं मरणधर्मा जीव ( देवस्य तव ) सर्व

सुखदाता, सर्वप्रकाशक तेरी (नेदिष्ठाभिः मतिभिः) अति समीपतम रक्षाओं से सुरक्षित होकर ( तव जोषम् आ सचेय ) तेरे प्रेम और सेवा का सब प्रकार से लाभ करूं ।

तव क्रत्वा सनेयं तव रातिभिरग्रे तव प्रशस्तिभिः ।

त्वामिदाहुः प्रमतिं वसो ममाग्रे हर्षस्व दातवे ॥ २९ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) अग्ने ! अग्निवत् सर्वप्रकाशक ! ( क्रत्वा ) उत्तम कर्म, उत्तम बुद्धि से वा यज्ञ से ( तव सनेयम् ) तेरा भजन करूं । ( रातिभिः ) दानों से ( तव सनेयं ) तेरा भजन करूं । और ( प्रशस्तिभिः ) प्रशंसाओं, स्तुतियों से ( तव सनेयम् ) तेरा भजन करूं । हे ( वसो ) गुरुवत् अपने में सब को बसाने और प्राणवत् सब में बसने हारे ! ( त्वाम् इत् प्रमतिम् ) तुझ को सब से उत्कृष्ट बुद्धि और ज्ञान वाला ( आहुः ) विद्वान् लोग बतलाते हैं । हे ( अग्ने ) सर्वज्ञ, सर्वप्रकाशक ! तू ( मम दातवे ) मुझे देने के लिये ( हर्षस्व ) स्वयं प्रसन्न हो वा मुझे दान देने के लिये हर्षित, उत्साहित कर ।

प्र सो अग्रे तवोतिभिः सुवीराभिस्तिरते वाजभर्मभिः ।

यस्य त्वं सख्यसावरः ॥ ३० ॥ ३४ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) सर्वप्रकाशक ! सर्वव्यापक प्रभो ! स्वामिन् ! ( वाजभर्मभिः ) ज्ञान, बल अन्नादि भरण पोषण करने वाली ( सुवीराभिः ) उत्तम वीरों, पुत्रों से युक्त, ( तव ऊतिभिः ) तेरी रक्षाओं और दीक्षियों से ( सः प्र तिरते ) वह बराबर बढ़ा करता है ( यस्य सख्यं ) जिसके मित्र भाव को ( तू आवरः ) स्वीकार कर लेता है ।

तव द्रप्सो नीलवान्वाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णावा ददे ।

त्वं महीनामुपसामसि प्रियः क्षपो वस्तुपु राजसि ॥३१॥

भा०—जिस प्रकार अग्नि ( इन्धानः ) चमकने वाला, ( द्रप्सः )

दुतगति से काष्ठों का खाने वाला, ( नीलवान् ) नील धुएं वाला, ( वाशः ) कान्ति से युक्त, ( ऋत्वियः ) ऋतु २ में यज्ञ, करने योग्य, और ( सिष्णुः ) प्रत्याहुति घृत सेचने योग्य वा यज्ञ द्वारा जगत् भर में चर्पा द्वारा सेचन करने वाला होता है । इस प्रकार ( महीनाम् उपसां प्रियः ) बहुत सी कामना युक्त प्रजाओं या दाहकारिणी शक्तियों का प्रिय या पूरक होता और ( क्षपः वस्तुषु राजति ) रात को बसे घरों में गार्हपत्याग्नि, अन्वाहार्य पचन और दीपक रूप में चमकता है उसी प्रकार हे ( सिष्णो ) प्रेम से सबको सेचन करने वा प्रकृति में जगत् बीज को आसेचन करने वाले, मेघ-वत् सुखवर्षक, सर्वोत्पादक प्रभो ! ( तव द्रप्सः ) तेरा रसस्वरूप, आनन्ददायक रूप, ( नीलवान् ) सबको आश्रय देने वाला, सब विश्व को अपने में लीन करने वाला, ( वाशः ) अति कमनीय, स्तुत्य, और सब जगत् को वश करने वाला, ( ऋत्वियः ) ऋतु, प्राणों द्वारा वा वायु जलादि महान् शक्तियों से जानने योग्य, ( इन्धानः ) सूर्यादिवत् देदीप्यमान रूप से ( आ ददे ) जाना जाता है । ( त्वं ) तू ( महीनाम् ) भूमियों और ( उप-साम् ) दाहक सूर्यादि को भी ( प्रियः ) पूर्ण और तृप्त करने वाला, ( असि ) है और ( क्षपः ) संसार का संहारक और सब ( वस्तुषु ) पदार्थों और वासयोग्य लोकों में ( राजसि ) प्रकाशमान हो रहा है ।

तमागन्म सोभरयः सहस्रमुष्कं स्वभिष्टिमवसे ।

सम्राजं त्रासदस्यवम् ॥ ३२ ॥

भा०—हे ( सोभरयः ) उत्तम रीति से भरण पोषण करने वाले ! हम लोग ( अवसे ) रक्षा के लिये ( तम् ) उस ( सु-अभिष्टिम् ) उत्तम अभिलाषा वाले, ( त्रासदस्यवम् ) दस्युओं, दुष्ट पुरुषों को भयभीत करने वाले, ( सहस्र-मुष्कं ) हजारों के पोषक वा सूर्यवत् बहुत से दुःखदारिद्र्यहारी नाना तेजः-सामर्थ्यों से सम्पन्न, ( सम्राजं आ अगन्म ) सम्राटवत् सर्वत्र दीप्तियुक्त प्रभु-को प्राप्त हों ।

यस्य॑ ते अग्ने॑ अन्ये॑ अग्नय॑ उपक्षितो॑ वया॑ इव॑ ।

विपो॑ न द्युम्ना॑ नि युवे॑ जनानां॑ तव॑ क्षत्राणि॑ वर्धयन् ॥३३॥

भा०—जैसे एक ही अग्नि से अन्य भी अग्नियें प्रज्वलित होकर उसकी नाना शाखा के समान होती हैं उसा प्रकार हे (अग्ने) अग्निवत् तेजस्विन् (यस्ते) जिस तेरे (अन्ये अग्नयः) दूसरे तेजस्वी पुरुष भी (उपक्षितः) समीप रहने वाले (वयाः इव) शाखाओं के समान विराजते हैं उस (तव) तेरे (जनानां) मनुष्यों के (क्षत्राणि) वीथों और धनों को (वर्धयन्) बढ़ाता हुआ मैं (विपः न) वाणियों के समान (द्युम्ना) बहुत से धनों वा यशों को (नि युवे) प्राप्त करूं। वया इति वाङ् नाम ।

यमा॑दित्यासो॑ अद्गृहः॑ पारं॑ नयथ॑ मर्त्यम् ।

मघो॑नां विश्वेषां॑ सुदानवः॑ ॥ ३४ ॥

भा०—हे (आदित्यासः) सूर्य की किरणोंवत् ज्ञान, ऐश्वर्यादि का संचय करने वाले और हे (सु-दानवः) उत्तम रीति से पुनः जलवत् अपने सञ्चित को अन्यो के उपकारार्थ देने वाले हे (अद्गृहः) द्रोहरहित, प्रेममय दयालु पुरुषो ! आप लोग (यम् मर्त्यम्) जिस मनुष्य को (पारं नयथ) ज्ञानसागर के पार कर देते हो वह (विश्वेषां मघोनां) समस्त ऐश्वर्यवानों में पूज्य होजाता है ।

यूयं॑ राजानः॑ कं चिच्चर्पण॑सिहः॑ क्षयन्तं॑ मानुषाँ॑ अनु॑ ।

वयं॑ ते वो वरुण॑ मित्रार्य॑मन्त्स्यामे॑दृतस्य॑ रुथ्यः॑ ॥ ३५ ॥

भा०—हे (चर्पणसिहः) शत्रुकर्षण करने वाली सेनाओं वा शत्रुजनों को दबाकर वश रखने में समर्थ (राजानः) तेजस्वी राजा लोगो ! (यूयं) आप लोग (कं चित्) किसी (मानुषान् क्षयन्तं) मनुष्यों के ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले पुरुष के (अनु) पीछे रहो । हे (मित्र अर्यमन् वरुण) स्नेही, न्यायकारी और सर्वश्रेष्ठ जनो ! (ते वयं) वे हम लोग (वः) आप

लोगों के (ऋतस्य) सत्य, न्याय, तेज, धन, सत्यमार्ग के (स्थः) रथा-रोही गन्ता के समान (स्याम इत्) अग्रेसर हों।

अदान्मे पौरुकुत्स्यः पञ्चाशतं त्रसदस्युर्वधूनाम् ।

मंहिष्ठो अर्यः सत्पतिः ॥ ३६ ॥

भा०—( पौरुकुत्स्यः ) बहुत से वज्र अर्थात् हथियारबन्द वीर पुरुषों का स्वामी ( त्रसदस्युः ) दुष्टों को भयभीत करने वाला राजा ( मंहिष्ठः ) अति दानशील, पूज्य, ( अर्यः ) स्वामी ( सत्पतिः ) सज्जनों का पालक, ( अर्यः ) सबका स्वामी, है। वह ( मे ) मुझ प्रजाजन को धारण करने वाली ( पञ्चाशतं ) ५०, वा, १०५, वा ५०० सेनाओं को ( अदात् ) प्रदान करे।

उत्त मे प्रयियोर्वयियोः सुवास्त्वा अधि तुग्वनि ।

तिसृणां सप्ततीनां श्यावः प्रणेता भुवद्वसुर्दियानां पतिः ॥ ३७ ॥ ३५ ॥

भा०—( सुवास्त्वाः ) उत्तम भवनों वाली नगरी के ( तुग्वनि-अधि ) शत्रुहिंसक और प्रजापालक बल या सैन्य के ऊपर ( उत्त ) और ( प्रयियोः ) प्रयाण करने वाले सैन्य और ( वयियोः ) तन्तु-सन्तान विस्तार करने वाले, वसे ( मे ) मुझ प्रजाजन के ( तुग्वनि ) पालनकारी पद पर विराजमान ( श्यावः ) ज्ञानी और वीर पुरुष ( तिसृणां सप्ततीनां ) तीन ७०। ७० की पंक्तियों का ( प्रणेता ) मुख्य नायक होकर ( दियानां ) करप्रद प्रजाओं का पालक, स्वामी और ( वसुः भुवत् ) 'वसु' होजाता है। अध्यात्म में—सुवास्तु, यह देह है उसमें प्रयाण करने और प्रजा सन्तति का इच्छुक आत्मा है उसके पालक इस देहाधिष्ठाता प्राण पर भी भीतरी 'श्याव' अश्व मन ३ × ७० = २१० नाड़ियों को सञ्चालित करता है, वही ( दियानां पतिः ) ज्ञानप्रद इन्द्रियों का पालक अधिष्ठाता और ( प्रणेता ) मुख्य नायक भी होता है। उसी-का नाम 'वसु' है। इति पञ्चत्रिंशो वर्गः ॥

[ २० ]

सोभरिः काण्व ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः—१, ५, ७, १६, २३ उष्णिक्  
ककुर् । ६, १३, २१, २५ निचृदुष्णिक् । ३, १५, १७ विराडुष्णिक् ।  
२, १०, १६, २२ सतः पंक्तिः । ८, २०, २४, २६ निचृत् पंक्तिः । ४, १८  
विराट् पंक्तिः । ६, १२ पादनिचृत् पंक्तिः । १४ आर्ची भुरिक् पंक्तिः ॥

पङ्क्तिर्विशर्च सूक्तम् ॥

आ गन्ता मा रिषण्यत् प्रस्थावानो मापं स्थाता समन्यवः ।  
स्थिरा चिन्नमयिष्णवः ॥ १ ॥

भा०—हे विद्वान् और वीर पुरुषो ! (आ गन्त) आप लोग आवो !  
( मा रिषण्यत् ) पीड़ित मत करो । हे ( प्रस्थावानः ) प्रधान पद पर  
स्थित पुरुषों वा रणादि में प्रस्थान करने वा आगे बढ़ने वाले ! हे  
( समन्यवः ) समान क्रोध वा ज्ञान वाले वीरो ! आप लोग ( मा अप  
स्थात् ) दूर २ मत रहो, समीप संवीभूत होकर रहो । आप लोग  
( स्थिरा चित् ) स्थिर वृक्षों को वायु के समान दृढ़, स्थिर, बहुत देर के  
जमे हुए शत्रुओं को भी ( नमयिष्णवः ) अपने आगे झुकाने में समर्थ  
होवो ।

वीलुपविभिर्मरुत ऋभुक्षण आ रुद्रासः सुदीतिभिः ।

हृषा नो अद्या गता पुरुस्पृहो यज्ञमा सोभरीयवः ॥ २ ॥

भा०—हे ( मरुतः ) शत्रुओं को मारने वाले ! हे ( ऋभुक्षणः )  
महान् बल वाले ! हे ( रुद्रासः ) दुष्टों को रूलाने और प्रजा के रोगों,  
कृष्टों को दूर करने वाले ! हे ( पुरुस्पृहः ) बहुत से प्रजावर्गों को प्रेम  
करने, बहुतों के प्रेमपात्र होने वाले ! हे ( सोभरीयवः ) उत्तम पालक  
पोषक नायकों को चाहने वाले ! आप लोग ( वीलुपविभिः ) दृढ़ शस्त्रों,  
दृढ़ चक्रधाराओं और ( सु-दीतिभिः ) उत्तम कान्तियों से युक्त होकर

(अद्य) आज (नः) हमारे (यज्ञम्) यज्ञ को (इषा आ गत) इच्छा, अन्न, वा सुभिक्ष और सुवृष्टिसहित पवनों के समान ही (नः आ गत) हमें प्राप्त होवो ।

विद्वा हि रुद्रियाणां शुष्ममुग्रं मरुतां शिमीवताम् ।

विष्णोरेपस्य मीळुपांम् ॥ ३ ॥

भा०—जिस प्रकार (रुद्रियाणां) जनता में फैलने वाले रोगों को वेग से उड़ा लेने वाले प्रचण्ड (मरुतां शिमीवताम्) वातों और कर्मकारी यन्त्रादि सञ्चालक वेगों का (उग्रं शुष्मम्) बड़ा भारी बल होता है । और (एपस्य) अभिलपणीय (विष्णोः) व्यापक, सब ओर विशेष रूप से बरसने वाले जल को (मीळुपां) वृष्टि रूप से भूमि पर सेचने वाले जलधर वायुओं के समान (रुद्रियाणां शिमीवताम् मरुताम्) भव-पीड़ाओं के नाशक गुरु, प्रभुओं के शिष्यों और (शमी वताम्) कर्मनिष्ठ विद्वानों के उग्र बल को और (विष्णोः) सूर्य के (एपस्य) अभिलापणीय तत्त्व (विद्वा हि) ज्ञान करें ।

वि द्वीपानि पापतन्तिष्टुच्छुनोभे युजन्त रोदसी ।

प्र धन्वान्पैरत शुभ्रखादयो यदेजथ स्वभानवः ॥ ४ ॥

भा०—जिस प्रकार वायुगण, (द्वीपानि वि पापतम्) नाना द्वीपों में भ्रमण करते, (उभे रोदसी) आकाश और पृथ्वी दोनों को (दुच्छुना) दुःख से ही युक्त कर देते हैं । वे मरुद्गण आकाश पिण्डों को लपेट कर भूमि पर गिराते हैं और (तिष्ठत्) भूमिस्थ वृक्षों को (दुच्छुना) दुःखदायी पतनादि से युक्त करते हैं । और वे (स्वभानवः) अपनी कान्ति से युक्त (शुभ्रखादयः) शुभ्र दीप्ति वाले होकर (धन्वानि ऐरत) जलों को नीचे गिराते हैं इसी प्रकार हे विद्वानो और वीर पुरुषो ! आप लोग (द्वीपानि वि पापतन्) नाना द्वीपों को विजयादि कार्यों के लिये जाया आया करो । (उभे रोदसी) दोनों स्वप्रक्ष परपक्ष को (दुच्छुना युजन्त) दुःख, शोकादि

से युक्त करते हैं। आप सब (स्व-भानवः) अपने धन की दीप्ति से युक्त और (शुभ्र-खादयः) स्वच्छ भोजन और स्वच्छ खड्गादि वाले, (यत्-यजथः) जब २ जाते हों तो (धन्वानि ऐरत) धनुषों को आगे बढ़ाओ और चलाओ।

अच्युता चिद्धो अज्मन्ना नानदति पर्वतासो वनस्पतिः।

भूमिर्यामेषु रेजते ॥ ५ ॥ ३६ ॥

भा०—जिस प्रकार पर्वतों के चलने पर (पर्वतासः अच्युतासः वन-स्पतिः भूमिः रेजते) दृढ़ पर्वतवत् वा मेष भी गर्जते, वनस्पति और मानो भूमि कांपती है, उसी प्रकार हे वीरो! (वः अज्मन् यांमेषु) आप लोगों के संग्राम में प्रयाण होने पर (अच्युता चित् पर्वतासः) दृढ़ पर्वत भी (आ नानदति) प्रतिध्वनि करते हैं। (वनस्पतिः) सूर्य वा वन के स्वामी वृक्षों वत् ऐश्वर्यपालक शत्रु और (भूमिः) भूमि भी (रेजते) कांपती है। इति पटत्रिंशो वर्गः ॥

अमाय वो मरुतो यातवे द्यौर्जिहीत उत्तरा बृहत्।

यत्रा नरो देदिशते तनूष्वा त्वक्षांसि बाह्वोजसः ॥ ६ ॥

भा०—जिस प्रकार वायुओं के (अमाय यातवे) बलपूर्वक जाने के लिये (द्यौः उत्तरा बृहत् जिहीते) ऊपर का आकाश बीच के बड़े भारी अन्तरिक्ष को त्याग देता है, इसी प्रकार हे (मरुतः) शत्रुओं को मारने में निपुण वीर पुरुषो! (वः अमाय) आप लोगों के बल प्रयोग या व्यायामाभ्यास के लिये और (यातवे) युद्धार्थ प्रयाण करने के लिये (उत्तरा द्यौः) सर्वोपरि शासक शक्ति, (बृहत्) बहुत बड़ा स्थान वा पद (जिहीते) दे, (यत्र) जिस पर स्थित होकर (बाह्वोजसः) बाहुओं में बल पराक्रम धारण करने वाले (नराः) नायक लोग (तनूपु) अपने शरीरों पर (रक्षांसि) जरा-वक्तर वा दीप्तियुक्त पंढक आभूषण आदि (आ



देदिशते ) धारण करते हैं । अथवा (तनूपु त्वक्षांसि आ देदिशते) शत्रुओं के शरीरों वा विस्तृत सैन्यों पर तीक्ष्ण शस्त्रों का रुख करते हैं ।

स्वधामनु श्रियं नरो महि त्वेपा अमवन्तो वृषप्सवः ।  
वहन्ते अहुतप्सवः ॥ ७ ॥

भा०—वे ( नरः ) नायक वीर जन ( त्वेपाः ) तीक्ष्ण कान्तियुक्त ( अमवन्तः ) बलवान्, ( वृषप्सवः ) वृषभ के समान हृष्ट पुष्ट शरीर वाले और ( अहुतप्सवः ) सरल सूधी प्रकृति वाले, निष्कपट होकर ( स्वधाम अनु ) अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ( महि श्रियम् वहन्ते ) घड़ी भारी राजलक्ष्मी को धारण करते हैं ।

गोभिर्वाणो अज्यते सोभरीणां रथे कोशे हिरण्यये ।

गोवन्धवः सुजातास इषे भुजे महान्तो नः स्पर्से नु ॥८॥

भा०—( सोभरीणां ) प्रजा का उत्तम रीति से पालन करने वाले क्षत्रियों और राजाओं के ( हिरण्यये कोशे ) सुवर्णादि से परिपूर्ण खजाने में ( गोभिः ) भूमियों द्वारा ( वाणः ) देने और सेवने योग्य ऐश्वर्य ( अज्यते ) प्राप्त किया जाता है, और ( हिरण्यये ) तेजोमय आत्मा के ( कोशे रथे ) आनन्दमय, विज्ञानमय प्राणमय, मनोमय अन्नमय ( रथवत् ) कोश अर्थात् देह में ( गोभिः ) इन्द्रियों के सहित ( वाणः ) भोक्ता आत्मा ( अज्यते ) प्रकट होता है । ( गोभिः वाणः अज्यते ) वाणियों, वेदमन्त्रों से शब्दमय, ज्ञानमय ज्ञान रस प्रकट होता है । इसी प्रकार उनके ( रथे ) रथ में ( गोभिः ) धनुष डोरियों से बद्ध धनुषों के साथ २ ( वाणः ) वाण भी शोभा देता है । अथवा ( गोभिः ) डोरियों से ( वाणः अज्यते ) वाण दूर फेंका जाता है ।

प्रति वो वृषदञ्जयो वृष्णे शर्घाय मारुताय भरध्वम् ।

हव्या वृषप्रयावणे ॥ ९ ॥

भा०—( वृषद्-अञ्जयः ) बरसते मेघों से प्रकट होने वा उन सहित

आने वाले पवन जिस प्रकार वर्षा करने वाले, बलवान् वायुओं के प्रेरण के लिये ग्राह्य जलराशि को धारण करते हैं। उसी प्रकार हे ( वृषटु-अञ्जयः ) प्रजा पर सुखों की वर्षा करने वाले एवं प्रबन्धकारक, विशेष स्वरूप वा पोशाक पहनने वाले वीर पुरुषो ! और ( वः ) आप में से वा अपने बीच में विद्यमान ( वृष्णे ) बलवान् , ( शर्धाय ) पराक्रमी वा ( शर्-धाय ) शत्रुहिंसक शस्त्रास्त्र बल को धारण करने में समर्थ क्षत्रपति ( भारताय ) मनुष्यों के हितैषी, ( वृष-प्रयाव्णे ) बलवान् पुरुषों वा अश्वों के साथ प्रयाण करने वाले वा राष्ट्रपति या सेनापति की वृद्धि के लिये ( हव्यः ) उत्तम अन्न एवं ग्राह्य स्तुत्य वचन और समस्त आवश्यक अन्न, धनादि रत्न, नाना पदार्थ ( प्र भरध्वम् ) लाभो अथवा ( हव्या = हवयोग्यानि ) यज्ञ और संग्राम के योग्य पदार्थों को लाभो और ( हव्या ) संग्रामोचित शस्त्रों का शत्रुओं पर ( प्र भरध्वम् = प्र हरध्वम् ) प्रहार करो।

वृषणाश्वेन मरुतो वृषप्सुना रथेन वृषनाभिना ।

आ श्येनासो न पक्षिणो वृथा नरो हव्या नो वीतये गत १०।३७

भा०—हे ( मरुतः ) वीर मनुष्यो ! ( श्येनासः पक्षिणः न ) वाज नाम के पक्षी जिस प्रकार वेग से जाते हैं उसी प्रकार आप लोग ( वृषण-श्वेन ) बलवान् अश्व वाले ( वृष-प्सुना ) सुदृढ़ रूप वाले, ( वृष-नाभिना ) सुदृढ़ चक्रनाभि वाले ( रथेन ) रथ से ( वृथा ) अनायास ही ( नः वीतये ) हमारी रक्षा के लिये ( हव्या आ गत ) यज्ञों युद्धों में आया जाया करो। अथवा इसी प्रकार ( मरुतः ) वैश्यगण रथों, यानों द्वारा ( नः वीतये ) हमारे खाने के लिये ( हव्या ) नाना अन्न ( आ गत ) लाया करें। इति सप्तत्रिंशो वर्गः॥

समानमञ्जयेपां वि भ्राजन्ते रुक्मासो अधि बाहुपु ।

द्विद्युतत्यूष्टयः ॥ ११ ॥

भा०—( एपां ) इन वीर पुरुषों के ( अक्षि ) रूप, पोशाक और विह्वलादि सब ( समानम् ) समान हों। ( बाहुपु अधि ) बाहुओं पर

( रुक्मासः ) सुवर्णीय, सुनहरी वैज ( वि भ्राजन्ते ) विशेष रूप से चमकें और ( बाहुषु ) बाहुओं में ही ( ऋष्टयः ) शत्रुनाशक नाना शस्त्र भी ( दविद्युतति ) चमका करें ।

त उ॒ग्रासो वृष॑ण उ॒ग्रवा॑हवो नकि॑ष्ट॒नूपु॑ येतिरे ।

स्थि॒रा धन्वा॑न्यायु॒धा रथे॑षु वोऽनी॑केष्वधि॒ श्रियः॑ ॥१२॥

भा०—( ते ) वै ( उग्रासः ) भयानक, ( वृषणः ) बलवान्, ( उग्र-वाहवः ) प्रचण्ड बाहुबल वाले, वीर पुरुष ( तनूपु ) अपने शरीरों के निमित्त ( नकिः येतिरे ) कोई श्रम न करें । इनको आजीविकोपार्जन के लिये अन्य यत्न की आवश्यकता नहीं । उनका कर्तव्य है कि ( रथेषु ) उनके रथों पर ( धन्वानि आयुधा ) धनुष आदि हथियार ( स्थिरा ) स्थिर हों । हे वीर पुरुषो ! ( नः अनीकेषु अधि ) आप लोगों की सेनाओं के आधार पर ही ( श्रियः ) राष्ट्र की लक्ष्मियां स्थिर हैं ।

येषाम॑र्णो न स॒प्रथो॑ नाम॒ त्वेषं॑ शश्व॑तामेक॒मिन्द्रु॑जे ।

वयो॑ न पि॒त्र्यं सहः॑ ॥ १३ ॥

भा०—( पित्र्यं वयः न ) जिस प्रकार पिता पितामह का सञ्चित अन्न वा ( अर्णः न सप्रथः ) जल के समान विस्तृत धन ( एकम् इत् भुजे ) एक भी प्रजा के भोग के लिये पर्याप्त होता है उसी प्रकार ( येषाम् ) जिन वीरों के ( अर्णः न ) सागर के जल के समान धन, ( सप्रथः नाम ) विख्यात, विस्तृत नाम, शत्रुओं को झुका देने वाला अपार बल, ( त्वेषं ) कान्ति, तेज, और ( पित्र्यं वयः ) पिता, वा राष्ट्र पालक होने योग्य पिता तुल्य वयस्, उमर और रक्षा बल तथा ( सहः ) पराक्रम है, उनको—

तान्व॑न्दस्व म॒रुत॑स्ताँ उप॒ स्तुहि॑ तेषां॒ हि धुनी॑नाम् ।

श्र॒राणां॑ न च॒रम॑स्तदेषां॒ दाना॑ म॒ह्ना तदेषा॑म् ॥ १४ ॥

भा०—हे प्रजाजन ! ( तान् मरुतः ) उन वायुवत् बलवान् और ज्ञानवान् पुरुषों को ( वन्दस्व ) आदर सत्कार कर । ( तान् उप स्तुहि )

उनकी स्तुति कर । ( तेषां हि ) उन शत्रुओं के ( धुनीनाम् ) कंपादेने वाले वा ( धुनीनां ) शास्त्र के उपदेष्टाओं और (अराणां) चक्र में लगे अरों, दण्डों के तुल्य व्यूह में बद्ध, अर्थात् गमन करने और औरों को आगे ले जाने वालों में से ( चरमः न ) कोई भी व्यक्ति चरम या अधम नहीं । ( एषां दाना तत् ) उनके दिये ज्ञान, दान ऐश्वर्यादि और उनके किये वे शत्रुनाश आदि नाना कार्य सब ( एषाम् मह्ना ) इनके ही महान् सामर्थ्यों से होते हैं । अथवा—( अराणां मह्ना चरमः न ) चक्र में लगे दण्डों से जिस प्रकार मार्ग में संचरण होता है उसी प्रकार ( तेषां हि धुनीनां ) उन शत्रुकम्पक, वा वेदोपदेशकों के (मह्ना) महान् सामर्थ्य से ( चरमः ) चरम, अन्तिम लक्ष्य प्राप्त होता है ।

सुभगः स व ऊतिष्वासु पूर्वासु मरुतो व्युष्टिषु ।

यो वा नूनमुतासति ॥ १५ ॥ ३८ ॥

भा०—( उत ) और ( यः वा ) जो भी मनुष्य है ( मरुतः ) वीरो, विद्वानो ! ( नूनम् ) अवश्य ( पूर्वासु व्युष्टिषु ) पूर्व अर्थात् प्रारम्भ के दिनों में वा ब्रह्मचर्य पालन के वयस् में ( वः ऊतिषु ) आप लोगों की रक्षाओं में ( आस ) पहुंच जाता है, ( उत असति ) वा निरन्तर रहता है ( सः सुभगः ) वह उत्तम ऐश्वर्य युक्त और सुखी, सौभाग्यवान् होता है । इत्यष्टात्रिंशो वर्गः ॥

यस्य वा यूयं प्रति वाजिनो नर आ हव्या वीतये गथ ।

अभि ष द्युमैरुत वाजसातिभिः सुम्ना वो धूतयो नशत् १६

भा०—हे ( नरः ) वीर नायक जनो ! ( वा ) और ( यस्य वाजिनः ) बलवान्, ज्ञानवान् और ऐश्वर्यवान् राष्ट्र के ( वीतये ) रक्षा के लिये ( यूयं ) आप लोग ( वाजिनः ) स्वयं बलशाली होकर ( हव्या प्रति आ गथ ) अन्नों को और यज्ञ, युद्धोपयोगी दोनों पदों और हथियारों को प्राप्त करते हो, हे ( धूतयः ) शत्रुकम्पक वीरो ! और हे अज्ञान, मोह, रागादि के त्यागने

वाले विद्वानो ! ( सः ) वह (द्युम्नैः) नाना ऐश्वर्यों और (वाज-सातिभिः) ज्ञान, बलादि की वाणियों सहित ( वः सुम्नानि अभिनशत् ) आप लोगों के सुखों को प्राप्त करता है ।

यथा रुद्रस्य सूनवो दिवो वशन्त्यसुरस्य वेधसः ।

युवान्स्तथेदसत् ॥ १७ ॥

भा०—( रुद्रस्य सूनवः ) गर्जना करने वाले मेघ के प्रेरक वायुगण जिस प्रकार ( असुरस्य वेधसः ) जलप्रद मेघ को उत्पन्न करते और (दिवः वशन्ति ) अन्तरिक्ष पर वश करते वा भूमि को कान्तियुक्त करते हैं उसी प्रकार ( रुद्रस्य ) दुष्टों को रूलाने वाले राजा के ( सूनवः ) सञ्चालक और ( असुरस्य ) शत्रु को उखाड़ फेंकने वाले और प्रजाओं को जीवन-वृत्ति देने वाले राजा को (वेधसः) बनाने वाले विद्वान् और (युवानः) बलवान् पुरुष ( दिवः यथा वशन्ति ) भूमि या राजसभा की जैसी वशकारिणी च्यवस्था करते या जैसे कामनाएं या व्यवहार चाहते हैं ( तथा इत् भसत् ) उसी प्रकार हो ।

ये चार्हन्ति मरुतः सुदानवः स्मन्मीळ्हुपश्चरन्ति ये ।

अतश्चिदा न उप वस्यसा हृदा युवान् आ ववृध्वम् ॥ १८ ॥

भा०—( ये ) जो ( सुदानवः ) उत्तम दानशील ( मरुतः ) मनुष्य (मीळुपः) ज्ञान, धन के दाता, वीर्यादि के सेक्ता माता पिता, गुरु. स्वामी आदि जनों की ( अर्हन्ति ) पूजा करते हैं और ( ये च स्मत् ) जो अच्छी प्रकार ( चरन्ति ) आचरण और सेवा करते हैं वे ( युवानः ) युवा पुरुष ( अतः चित् ) इसी प्रकार ( वस्यसा हृदा ) उत्तम हृदय से ( नः उप आ ववृध्वम् ) हमें आप लोग भी प्राप्त होओ ।

यून ऊ पु नविष्ठया वृष्णः पावकाँ अभि सोभरे गिरा ।

गाय गा इव चर्कपत् ॥ १९ ॥

भा०—हे ( सोभरे ) उत्तम रीति से पालन पोषण करने हारे !

हे उत्तम ज्ञान प्रदान करने हारे गुरो ! विद्वन् ! जिस प्रकार ( चर्कृपत् ) खेती करने हारा ( गा-इव ) बैलों वा भूमियों को देखकर, वा ( वृष्णः अभि ) बरसते बादलों को देखकर, ( गिरा ) वाणी से उनकी ( गायति ) स्तुति करता है उसी प्रकार तू भी ( गाः इव चर्कृपत् ) शिष्यों को भूमियों के समान ज्ञान ग्रहण कराता हुआ ( वृष्णः ) वीर्यवान् , बलवान् ( पावकान् ) पवित्र आचार वाले तेजस्वी ( यूनः ) युवा पुरुषों के (अभि) प्रति ( नविष्ण्या गिरा ) अति स्तुत्य वाणी से उन्हें (अभि गाय) अच्छी प्रकार उपदेश कर, उनके प्रति उत्तम आदरपूर्वक वचन कह और ज्ञान बीजों का वपन कर ।

साहा ये सन्ति मुष्टिहेव हव्यो विश्वासु पृत्सु होतृषु ।  
वृष्णश्चन्द्रान्न सुश्रवस्तमान् गिरा वन्दस्व मरुतो अह ॥२०।३९॥

भा०—( विश्वासु।पृत्सु ) जिस प्रकार समस्त युद्धों में या समस्त ( होतृषु पृत्सु ) ललकारने वाले मनुष्यों में ( मुष्टिहा इव हव्यः ) मुझे से वा मुष्टी के समान पांचों जनों को मिलाकर संव शक्ति से ही शत्रु को मारने वाला उत्तम युद्धकुशल होता है उसी प्रकार ( ये ) जो ( विश्वासु पृत्सु ) सब संग्रामों या सब मनुष्यों में, ( होतृषु ) गुरुजनों के अधीन ( सहाः सन्ति ) शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं उन ( वृष्णः ) बलवान् ( चन्द्रान् ) प्रजाओं को प्रसन्न रखने वाले ( सुश्रवस्तमान् ) उत्तम यशस्वी, उत्तम ज्ञानी ( मरुतः ) वीरों और विद्वान् पुरुषों को (अह) भी (वन्दस्व) अच्छी प्रकार स्तुति और आदर प्रदान कर । अर्थात् वीर, विजयी, सर्वाह्लादक योद्धाओं, शासकों तथा कीर्तियुक्त ज्ञानी सफल विद्वानों को सदा विशेष प्रशंसा प्राप्त होनी चाहिये । इत्येकोनचत्वारिंशो वर्गः ॥

गार्वाश्चिद्धा समन्यवः सजात्यैन मरुतः सर्वन्धवः ।

रिद्धते ककुभौ मिथः ॥ २१ ॥

भा०—जिस प्रकार ( गावः चित् सजात्येन मिथः रिहते ) गौर्वें एक जाति की होने से प्रेमपूर्वक एक दूसरे को चाटती हैं, एक दूसरे से प्रेम करती हैं, और जिस प्रकार ( मरुतः ककुभः रिहते ) सजल वायुगण दिशाओं का स्पर्श करते, उन तक पहुंचते हैं, उसी प्रकार हे ( मरुतः ) वायुवत् बलवान् शत्रुओं के नाशक राष्ट्र के प्राणवत् पुरुषो ! आप लोग भी ( गावः चित् ) गौओं के समान परस्पर प्रेम युक्त होकर, ( गावः चित् ) और किरणों के समान तेजस्वी होकर, (स-मन्यवः) ज्ञान-युक्त एवं (स-जात्येन) एक ही देश में उत्पन्न होने, एक ही समान उत्पत्ति होने से ( स-बन्धवः ) अपने बन्धु वर्ग सहित वा सम रूप से बन्धु, होकर ( मिथः ) परस्पर मिलकर ( ककुभिः ) दिशाओं के समान गुणों में विशाल वा महान् होकर भी ( रिहते ) एक दूसरे के साथ स्नेह का वर्त्ताव करें । ककुभ इति दिङ्नाम । ककुह इति महन्नाम ( निघ० ) ।  
मर्तश्चिद्वो नृतवो रुक्मवक्षस उष भ्रातृत्वमायति ।

अधि नो गात मरुतः सदा हि व आपित्वमस्ति निध्रुवि ॥२२॥

भा०—हे ( मरुतः ) शत्रुओं को मारने वा वायुवत् प्रबल होकर शत्रु को उखाड़ फेंकने में समर्थ वीर पुरुषो ! एवं ( मरुतः ) प्राण के अभ्यासी, ज्ञानी पुरुषो ! हे ( नृतवः ) उत्तम मार्ग में लेजाने वाले नायक जनो ! वा युद्ध क्षेत्र में कर चरणादि सञ्चालन करके नाचने की सी क्रिया करने वाले ! हे ( रुक्म-वक्षसः ) वक्षः-स्थल पर सुवर्ण के हार आदि आभूषण धारण करने वाले वीर पुरुषो ! ( मर्तः चित् ) साधारण मनुष्य भी ( वः भ्रातृत्वम् उष आयति ) आप लोगों के भ्रातृत्व को प्राप्त करता है । और ( हि ) क्योंकि ( वः ) आप लोगों का भी ( आपित्वम् ) परस्पर-बन्धुत्व ( निध्रुवि ) नित्य ध्रुव राजा के अधीन, वा नियम से धारणीय राष्ट्र में ( अस्ति ) है अतः आप लोग ( नः ) हम लोगों पर ( अधि गात ) अध्यक्ष होकर शासन करो । इसी प्रकार विद्वान् ( रुक्म-वक्षसः ) रुचियुक्त तेजो-

मय आत्मज्ञान को धारण करने से 'रुक्म-वक्षस्' है उनका नित्य ध्रुव पर-  
मात्मा में बन्धुत्व भाव है। वे हमें सदा उपदेश करें।

मरुतो मारुतस्य न आ भेषजस्य वहता सुदानवः ।

युयं सखायः सप्तयः ॥ २३ ॥

भा०—वायुएं जिस प्रकार हमें प्राण सम्बन्धी रोगनाशक सामर्थ्य  
प्रदान करते हैं उसी प्रकार हे (मरुतः) वीर और विद्वान् पुरुषो! (सखायः)  
परस्पर मित्र, (सप्तयः) वेग से जाने आने वाले, अश्वघत् तीव्रगामी,  
(सु-दानवः) उत्तम दानशील होकर (मारुतस्य) मरुत् अर्थात् वायुओं  
से प्राप्त होने योग्य, (भेषजस्य) रोग दूर करने वाले उपाय के समान  
(मारुतस्य भेषजस्य) वीर पुरुषों से प्राप्त होने योग्य शत्रुनाशक उपाय  
को (नः आवहत) हमें प्राप्त कराओ। इसी प्रकार प्राण के अभ्यासी  
विद्वान् लोग हमें मनुष्योपयोगी भेषज औषधादि प्राप्त करावें।

याभिः सिन्धुमवथ याभिस्तूर्वथ याभिर्दशस्यथा क्रिविम् ।

मयो नो भूतोतिभिर्मयोभुवः शिवाभिरसचद्विषः ॥ २४ ॥

भा०—जिस प्रकार वायुगण वा प्राणगण (सिन्धुम् अवन्ति) अन्त-  
रिक्ष, प्राण वा देह में रक्तप्रवाह की रक्षा करते, (तूर्वन्ति) रोग नाश  
करते, (क्रिविं दशस्यन्ति) कर्त्ता आत्मा को बल प्रदान करते, (शिवाभिः  
ऊतिभिः मयोभुवः) गतियों से नाना सुख प्रदान करते हैं। उसी प्रकार  
हे वीरो! विद्वान् पुरुषों! आप लोग (याभिः) जिन (ऊतिभिः) रक्षा  
साधनों से (सिन्धुम्) समुद्र के समान गंभीर सेनापति वा सैन्य समूह  
की (अवथ) रक्षा करते हो, और (याभिः तूर्वथ) जिन उपायों से  
शत्रुओं का नाश करते हो, और (याभिः) जिन उपायों से (क्रिविं दशस्यथ)  
कूप, जलाशय आदि प्रदान करते हो, उन (शिवाभिः ऊतिभिः) कल्याण-  
कारी क्रियाओं से (मयो-भुवः) सुख उत्पन्न करने वाले आप लोग



( असचद्विपः ) समवाय रहित शत्रुओं वाले होकर ( नः मयः भूत ) हमारे लिये सुखकारी होवो ।

यत्सिन्धौ यदसिक्न्यां यत्समुद्रेषु मरुतः सुवर्हिपः ।

यत्पर्वतेषु भेषजम् ॥ २५ ॥

भा०—हे (सु-वर्हिपः) उत्तम यज्ञ वाले और ओषधियों वाले (मरुतः) विद्वान् पुरुषो ! ( यत् ) जो ( भेषजम् ) रोगनाशक पदार्थ ( सिन्धौ ) नदी प्रवाह में और यत् ( असिक्न्यां ) रात्रि काल में, ( यत् समुद्रेषु ) जो समुद्रों में, और ( यत् पर्वतेषु ) जो पर्वतों में रोगनाशक ओषधि हैं उनको ( आवहत ) प्राप्त कराओ । उत्तम औषधि को जानने वाले विद्वान् सुवर्हिप् मरुत् कहाते हैं । इसी प्रकार देह में रक्त नाडियां सिन्धु हैं, नीली असिक्नी हैं, हृदय फुस्फुसादि समुद्र और अस्थिपर्व पर्वत हैं । उनमें प्राप्त रोगनाशक तत्त्वं पापों के बलपर कर्म करते हैं ।

विश्वं पश्यन्तो विभृथा तनूष्वा तेना नो अधि वोचत ।

क्षमा रपो मरुत् आतुरस्य न इष्कर्ता विहुतं पुनः ॥२६।४०।१।३॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! हे ( मरुतः ) प्राणवत् सुखकारी जनो ! आप लोग ( तनूषु ) शरीरों में ( विश्वं पश्यन्तः ) सब विश्व को ज्ञान-पूर्वक देखते हुए ( विश्वं विभृथ ) समस्त प्राणी वर्ग वा देह में आत्मा को धारण कराओ, सबको पुष्ट करो । ( तेन ) उसे ज्ञानपूर्वक देखें, विवेक से ( नः अधिवोचत ) हमें भी उपदेश करो । ( नः ) हममें से ( आतुरस्य ) व्याधिपीडित मनुष्य के ( रपः ) रोग वा दुःखदायी कारण की ( क्षमा ) शान्ति हो । और ( नः ) हमारे शरीरों में ( वि-हुतम् ) विपरीत भाव से अङ्गों में कुटिल भाव आगत्य हो तो उसे ( पुनः इष्कर्ता ) फिर से ठीक कर दो । इति चत्वारिंशो वर्गः ॥ इत्यष्टमे मण्डले तृतीयोऽनुवाकः ॥ इति षष्ठेऽष्टके प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥

द्वितीयोऽध्यायः । चतुर्थोऽनुवाकः ॥

[ २१ ]

सोमरिः काण्व ऋषिः ॥ १—१६ इन्द्रः । १७, १८ चित्रस्य दानस्तुतिर्देवता ॥

छन्दः—१, ३, १५ विराडुष्णिक् । १३, १७ निचृदुष्णिक् । ५, ७, ९, ११

उष्णिक् ककुप् । २, १२, १४ पादानिचृत् पंक्तिः । १० विराट् पंक्तिः ।

६, ८, १६, १८ निचृत् पंक्तिः । ४ भुरिक् पंक्तिः ॥

वयम् त्वामपूर्व्यं स्थुरं न कञ्चिद्भरन्तोऽवस्यवः ।

वाजे चित्रं हवामहे ॥ १ ॥

भा०—हे ( अपूर्व्यं ) अपूर्व ! सबसे पूर्व विद्यमान ! सबसे अधिक पूर्ण ! तेरे से पूर्व और अधिक पूर्ण दूसरा नहीं । ( वयम् उ ) हम लोग ( अवस्यवः ) रक्षा और ज्ञान, प्रेम और आनन्द की कामना करते हुए और ( स्थुरं कत् चिन् ) किसी स्थिर या बड़े आश्रय को ( न भरन्तः ) न धारण करते हुए ( वाजे ) संग्राम या ऐश्वर्य के लिये ( चित्रं ) आश्चर्यकारक ( त्वा ) तुझ प्रभु वा स्वामी को ( हवामहे ) पुकारते और तुझ से प्रार्थना करते हैं ।

उप त्वा कर्मन्नुतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत् ।

त्वामिद्धयवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम् ॥ २ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( यः ) जो तू ( धृषत् ) दुष्टों को पराजित करने वाला, ( युवा ) नित्य बलवान् और ( उग्रः ) भयंकर होकर ( नः चक्राम ) हमें प्राप्त होता है, उस ( त्वा ) तुझको हम ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( कर्मन् ) प्रत्येक कार्य में ( उप ववृमहे ) स्वीकार करते हैं । और हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हम ( सखायः ) तेरे मित्रजन ( सानसिम् ) सेवा करने योग्य उपास्य वा न्यायपूर्वक ऐश्वर्य का विभाग करने वाले ( त्वाम् इत् ) तुझको ही ( अवितारं ) रक्षक रूप से ( ववृमहे ) वरण करते हैं ।

आ याहि॑म इन्द्र॒वोऽश्व॑पते॒ गोप॑त॒ उर्व॑रापते ।

सोम॑ सोमपते॒ पिव ॥ ३ ॥

भा०—हे (अश्व-पते) अश्वों, इन्द्रियों और सूर्यादि लोकों के पालक ! स्वामिन् ! हे (गो-पते) गौवाँ, वाणियों और समस्त भूमियों के पालन करने हारे ! हे (उर्वरा-पते) उत्पादक भूमि के स्वामिन् ! हे (सोम-पते) उत्पन्न अन्न ओषधिवत् शिष्यपुत्रादि एवं जगत् के पालक ! आत्मन् ! प्रभो ! विद्वन् ! तू (आ याहि) आ, प्राप्त हो, (इमे इन्द्रवः) ये ऐश्वर्य वा, स्नेहयुक्त प्रजाजन हैं तू उनका (पिव) पालन कर ।

व॒यं हि त्वा व॑न्धु॒मन्तम॑व॒न्धवो॑ वि॒प्रा॑स इन्द्र॒ येमि॑म ।

या ते॑ धामा॒नि वृ॑प॒भ॒ तेभि॑रा ग॒हि वि॒श्वेभिः॑ सोम॑पीतये ॥४॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन्तः ! ऐश्वर्य के देने हारे ! तेजस्विन् ! (वयं विप्रासः) हम विद्वान् लोग (अवन्धवः) विना बन्धु के, निःस्सहाय वा बन्धनरहित, सब सांसारिक बन्धनों, सम्बन्धादि को शिथिल किये हुए (बन्धुमन्तं त्वा) बन्धु वाले तुझको ही (येमिम) हम अपने साथ बांधते हैं । हे (वृपभ) बलशालिन् ! समस्त सुखों की वर्षा करने हारे ! (या ते धामानि) जो तेरे नाना धारण सामर्थ्य, तेज हैं तू (तेभिः विश्वेभिः) उन सबों से (सोमपीतये) ऐश्वर्य वा जगत् के पालन के लिये राजा के समान हमें (सोमपीतये) ओषधि रसवत् आत्मानन्दरस के पान कराने के लिये (आ गहि) प्राप्त हो ।

सीद॑न्तस्ते वयो॒ यथा॑ गोश्री॒ति मधौ॑ मदिरे वि॒वक्ष॑णे ।

श्र॒भि त्वा॑मिन्द्र॒ नोनु॑मः ॥ ५ ॥ १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यथा वयः) जिस प्रकार पक्षी-गण (गोश्रीते = गोश्रिते) भूमि पर आश्रित वा सूर्य द्वारा परिपक्व, फलवान् (विवक्षणे) विविध स्कन्धों वाले, वृक्षपर, (मदिरे मधौ) आनन्दमय वसन्त में वा अन्न पर आश्रित, (सीदन्तः अभिनोनुवन्ति)

बैठे हुए सब तरफ कलरव किया करते हैं उसी प्रकार हम भी ( ते ) तेरे ( गो-श्रीते ) वाणियों द्वारा आश्रय करने या सेवने योग्य, वाणी द्वारा स्तुति योग्य, ( मदिरे ) हर्षजनक ( विवक्षणे ) विविध प्रकार से कथनोपकथन करने एवं धारण करने योग्य ( मधौ ) मधुर, मधु, ज्ञानमय वेद एवं तेरे रूप में ( सीदन्तः ) आश्रय लेते हुए ( त्वाम् अभि नोनुमः ) तेरी ही साक्षात् स्तुति करें । वा, ( गोश्रीते ) इन्द्रियों से सेव्य हर्षजनक ( विवक्षणे ) विविध लोकों को उठाने वाले ( मधौ ) सुखमय संसार में आश्रय पाते हुए हम जीवगण तेरी स्तुति करते हैं ।

अच्छा च त्वैना नमसा वदामसि किं मुहुश्चिद्वि दीधयः ।

सन्ति कामासो हरिवो इदिष्ट्वं स्मो वयं सन्ति नो धियः ॥६॥

भा०—हे (हरिवः) मनुष्यों के स्वामिन् ! सूर्यादि लोकों के स्वामिन् ! हम ( त्वा एना नमसा अच्छ वदामसि ) तुझे लक्ष्य कर इस विनय से

समान अब भी हम लोग ( नहि तु विद्म ) कुछ भी नहीं जान पाये । तू भगव्य, महान्, असीम, सर्वशक्तिमान् परमेश्वर है ।

विद्वा सखित्वमुत् शूर भोज्यमा ते ता वज्रिन्नीमहे ।

उतो संस्मिन्ना शिशीहि नो वसो वाजे सुशिप्र गोमति ॥८॥

भा०—हे ( शूर ) दुष्टों के नाशक ! हम लोग ( ते ) तेरे ( सखित्वम् ) मित्र भाव को ( विद्म ) जानें ( उत् ) और हे ( वज्रिन् ) वीर्य-वन् ! शक्तिशालिन् ! हम लोग ( ते ) तेरे ( ता ) वे नाना प्रकार के ऐश्वर्य तथा ( भोज्यं ) भोग और पालन करने योग्य सुख, ऐश्वर्य तथा बल को ( ते ईमहे ) तुझ से मांगते और पाते हैं । हे ( वसो ) सबमें वसे ! सब जीवों को संसार में बसाने वाले ! ( उतो ) और हे ( सु-शिप्र ) उत्तम सुखप्रद तेज देनेहारे सुखमय स्वरूप ! तू ( गोमति वाजे ) इन्द्रियों से युक्त आत्मिक ऐश्वर्य, भूमि से युक्त ऐहिक ऐश्वर्य और वेद वाणी से युक्त ( अस्मिन् ) इस ज्ञान में ( नः ) हमें ( शम् आ शिशीहि ) अच्छी प्रकार अनुशासन कर, आशान्वित और सफल तेजस्वी बना ।

यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु वः स्तुपे ।

सखाय इन्द्रमुतये ॥ ९ ॥

भा०—हे ( सखायः ) मित्रजनो ! ( यः ) जो प्रभु ( पुरा ) पहले भी ( नः ) हमें ( इदम् इदम् ) ये ये नाना गौ, भूमि, हिरण्य आदि ( वस्यः ) उत्तम २ ऐश्वर्य ( आनिनाय ) देता रहा है, उसी ( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान् प्रभु परमेश्वर को ( उतये ) रक्षा और उपासना करने के लिये मैं ( वः स्तुपे ) आप लोगों को भी उपदेश करता हूँ ।

हर्यश्वं सत्पतिं चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अमन्दत ।

आ तु नः स वयति गव्यमश्व्यं स्तोतृभ्यो मघवा शतम् ॥१०।२॥

भा०—( सः हि स्म मघवा ) वह ही निश्चय से परमैश्वर्यवान् है

( यः अमन्दत ) जो स्वयं आनन्दमय होकर सब संसार को भी आनन्दित करता है । ( सः तु ) वही, ( मघवा ) ऐश्वर्यवान् प्रभु ( नः ) हम में से ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करने वाले उपासक जनों के उपकारार्थ ( शतम् ) अनेक ( गव्यम् ) गौ और ( अश्व्यम् ) अश्वदि सम्पन्न नाना धन ( आवयति ) निरन्तर दिया करता और बनाता रहता है, सन्तति-परम्परा से उनका तांता लगाये रखता है । मैं उपासक भी ( तं ) उस ही ( हर्यश्वं ) सब मनुष्यों और लोकों में व्यापक, किरणों में सूर्य के समान तेजस्वी, ( सत्-पतिम् ) सज्जनों और सत्-कारण, प्रकृति के पालक और ( चर्पणी-सहं ) सब मनुष्यों को सहनेवाले प्रभु की ( स्तुपे ) स्तुति करता हूँ । इति द्वितीयो वर्गः ॥

त्वया ह स्विद्युजा वयं प्रति श्वसन्तं वृषभ व्रुवीमहि ।  
संस्थे जनस्य गोमतः ॥ ११ ॥

भा०—(गो-मतः) कान, आंख आदि इन्द्रियगण और वाणी से युक्त, अविकलेन्द्रिय ( जनस्य ) मनुष्य के ( संस्थे ) समीप ( श्वसन्तं ) और श्वास लेने वाले प्रत्येक प्राणी के ( प्रति ) प्रति हे ( वृषभ ) सुखों की वर्षा करने हारे ! ( त्वया ह स्विद्युजा ) तुझ अपने सहायक के साथ ( प्रति व्रुवीमहि ) बात चीत करें । जनसमुदाय या किसी भी प्राणी के साथ बात चीत करते हुए तुझे अपना सहायक साथी जानें, किसी से मिथ्या व्यवहार न करें और न डरें । ( २ ) इसी प्रकार ( जनस्य संस्थे ) मनुष्यों के संग्राम में ( श्वसन्तं ) क्रोध से फुफकारते शत्रु के प्रति तुझ सहायकसे निर्भय होकर प्रतिवचन कहा करें ।

जयेम कारे पुरुहूत कारिणोऽभि तिष्ठेम दुह्यः ।

नृभिर्वृत्रं हन्याम शूशुयाम चावेरिन्द्र प्र णो धियः ॥ १२ ॥

भा०—हे ( पुरु-हूत ) हे बहुतों से आदरपूर्वक स्तुत ! प्रभो ! राजन् ! हम ( कारिणः ) संग्राम करने में कुशल, एवं स्वयं भी कार्यकुशल होकर

(कारे) करने योग्य कार्य के अवसर में, वा संग्राम में (दूढयः) दुष्ट बुद्धि वाले पुरुषों को (जयेम) पराजित करें और (अभि तिष्ठेम) उनका मुकाबला करें। (वृत्रं) बढ़ते और विघ्न करने वाले शत्रु को (नृभिः हन्याम) उत्तम नेता जनों से दण्डित करें और (शूश्रुयाम च) हम बढ़ें, उन्नति करें। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (नः धियः) हमारी बुद्धियों और कर्मों की (प्र भवेः) अच्छी प्रकार रक्षा कर और आगे बढ़।

अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुपा सनादसि ।

युधेदापित्वमिच्छसे ॥ १३ ॥ ५

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (अभ्रातृव्यः) शत्रुरहित (अना) नेता रहित और (सनात्) अनादि काल से (जनुपा) स्वभावतः (अनापिः असि) बन्धुरहित है। तू (युधा इत्) युद्ध द्वारा ही (आपित्वम् इच्छसे) बन्धुता को चाहता है। जैसे कोई बलवान् राजा निर्बल पर आक्रमण करके ही उसके द्वारा प्रस्तुत सन्धि से बंधकर उसे अपना मित्र वा सम्बन्धी बना लेता है उसी प्रकार प्रभु परमेश्वर जीवगण को उनके कर्मानुसार (युधा) दण्डित करके ही उनको अपना भक्त बना लेता है, दुष्कर्म के बदले दण्ड पा कर दुःखी होकर वे प्रभु की शरण में ही आते हैं।

नकी र्वन्त सुख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः ।

यदा कृणोषि नदनुं समूहस्यादित्पितेव ह्यसे ॥ १४ ॥

भा०—हे प्रभो ! तू (रेवन्तं) धन से सम्पन्न पुरुष को (सख्याय) अपने मित्रभाव के योग्य (नकिः विन्दसे) कभी नहीं पाता। सम्पन्न जन (सुराश्वः) 'सुरा', मद्य पी कर घमण्ड में फूलने वाले, मत्त जनों के समान 'सुरा' अर्थात् सुख से रमण करने योग्य स्त्री भोग आदि विषय तथा राज्य लक्ष्मी से बढ़ते हुए, मदमत्त होकर (ते पीयन्ति) तेरे भक्त जनों को पीड़ित करते हैं। और जब तू उन को (नदनुं) स्तुति करने वाला (कृणोषि) कर लेता है (आत् इत्) अनन्तर ही तू उन्हें (सम् ऊहसि) अच्छी

प्रकार अपने साथ लेता है, अपनी गोद में उठा लेता है अथवा जब तू ( नदनुं ) उपदेश करता है, तू उनको अपने साथ संगठित करता और ( आत् इत् ) अनन्तर ही ( पिता इव ह्यसे ) पिता के समान पुकारा जाता है ।

मा ते अमाजुरो यथा मुरास इन्द्र सख्ये त्वावतः ।

नि षदाम सचा सुते ॥ १५ ॥ ३ ॥

भा०—( मुरासः यथा अमा-जुरः ) मूढ़, मरणोन्मुख मनुष्य जिस प्रकार रोग पीड़ाओं वा जड़ गृहादि, वा पुत्र पौत्रादि, 'अ-मा' अर्थात् अज्ञान के साथ ही जीवन भर अज्ञानी रहकर बूढ़े हो जाते हैं, हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! उसी प्रकार ( त्वावतः ते सख्ये ) तेरे जैसे, तुझ अद्वितीय प्रभु के मित्र-भाव में रहकर हम लोग वैसे (मा) कभी न हों । अर्थात् हम रोगों में या पुत्र पौत्रादि के मोह में कभी बूढ़े न हों । प्रत्युत ( सुते ) ऐश्वर्य होजाने पर भी हम ( सचा ) तेरे साथ मिलकर (नि षदाम) स्थिर होकर विराजें । इति तृतीयो वर्गः ॥

मा ते गोदत्र निरराम राधस इन्द्र मा ते गृहामहि ।

दृळहा चिदर्यः प्र मृशाभ्या भर न ते दामान आदभे ॥ १६ ॥

भा०—हे ( गोदत्र ) भूमियों, वाणियों और इन्द्रियों के देने हारे प्रभो ! हम लोग ( ते राधसः ) तेरे दिये धन-आराधना से ( मा निरराम ) कभी वञ्चित न हों । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हम ( ते ) तेरे होकर ( मा गृहामहि ) दूसरे का ग्रहण न करें । तू ( अर्यः ) स्वामी होकर ( दृढा ) दृढ़, स्थिर धनों का ( प्र मृश ) प्रदान कर वा तू दृढ़ होकर हमें पकड़, और हमारे विषय में निर्णय, विचार कर । ( अभि आ भर ) हमें उत्तम रीति से पालन कर, सब ओर से हमें पकड़, (ते दामानः) तेरे दान और वन्धन ( न आ-दभे ) कभी विनष्ट नहीं हो सकते ।



इन्द्रो वा घेदियन्मघं सरस्वती वा सुभगा इदिर्वसु ।  
त्वं वा चित्र दाशुपे ॥ १७ ॥

भा०—हे ( चित्र ) समस्त जगत् में पूज्य एवं आश्चर्यजनक शक्ति-  
वाले प्रभो ! तू ( दाशुपे ) दानशील, उपासक को ( इन्द्रः वा ) ऐश्वर्य-  
वान् के समान ( घ ) ही ( इयत् मघं ददिः ) इतना धन देता और  
तू ( सरस्वती वा सुभगा ) सौभाग्यवती सरस्वती, उत्तम ज्ञान वाली विदुषी  
स्त्री वा उत्तम जल वाली नदी के समान ( इयत् वसु ददिः ) जलवत् अप-  
रिमित इतना धन-प्रवाह देने वाला है कि जिसका पारावार नहीं । अत्र  
वेत्युपमार्थीयः ॥

चित्र इद्राजा राजका इदन्यके यके सरस्वतीमनु ।

पर्जन्य इव ततन्नद्धि वृष्ट्या सहस्रमयुता ददत् ॥ १८ ॥ ४ ॥

भा०—( यके ) जो ( सरस्वतीम् ) नदीवत् प्रशस्त ज्ञान से  
सम्पन्न प्रभु के ( अनु ) ऊपर निर्भर हैं वे ( अन्यके राजकाः इत् ) और  
सब छोटे २ राजाओं के तुल्य स्वप्रकाश आत्मा हैं । और ( चित्र इत् )  
सबको चेतना वा ज्ञान देने वाला है वही आश्चर्यकारी प्रभु ( राजा )  
बड़ा भारी राजा के तुल्य, सूर्यवत् प्रकाशमान है । इति चतुर्थो वर्गः ॥

[ २२ ]

सोभरिः काएव ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१ विराट् बृहती । ३, ५  
निचृद् बृहती । ७ बृहती पथ्या । २ विराट् पंक्तिः । ६, १६, १८ निचृत्  
पंक्तिः । ४, १० सतः पंक्तिः ॥ २४ मुरिक् पंक्तिः । ८ अनुष्टुप् । ९, ११,  
१७ उष्णिक् । १३ निचृदुष्णिक् । १५ पादनिचृदुष्णिक् । १२ निचृत् त्रिष्टुप् ॥

अष्टादशार्चं सूक्तम् ॥

ओ त्यमह्व आ रथमद्या दंसिष्ठमुतये ।

यमश्विना सुहवा रुद्रवर्तनी आ सूर्यायै तस्थथुः ॥ १ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय, अश्वों के स्वामीवत् जनो ! हे ( सु-हवा ) उत्तम नाम और उत्तम वचन वाले, हे ( रुद्र-वर्तनी ) दुष्टों को रूलाने वाले सेनापतिवत् वा दुःख दूर करने वाले, वैद्यवत् कार्य व्यवहार करने वाले स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( यं ) जिस ( दंसिष्ठं ) दुष्टों के नाशक और खूब कर्म करने में समर्थ, ( रथम् ) रमणीय, सुखजनक रथवत् गृहस्थ पर ( सूर्यायै ) सूर्य की कान्ति के समान तेजस्विनी, एवं दीप्तिमती कन्या वा वधू वा सन्तानजनक माता की ( उतये ) रक्षा के लिये ( आ तस्थुः ) स्थित होते हैं ( ओ ) हे स्त्री पुरुषो ! मैं ( त्वं रथम् ) उस रमण करने योग्य गृहस्थ रूप रथ का ( अह्ने ) वर्णन करता हूँ ।

पूर्वापुषं सुहवं पुरुस्पृहं भुज्युं वाजेपु पूर्व्यम् ।

सचनावन्तं सुसतिभिः सोभरे विद्वेषसमनेहसम् ॥ २ ॥

भा०—उसी गृहस्थ रथ का वर्णन करते हैं । हे ( सोभरे ) प्रजा का उत्तम रीति से भरण पोषण करने में समर्थ पुरुष ! मैं तुझे ऐसे उस रथ का उपदेश करता हूँ जो ( पूर्व-आ-पुपम् ) अपने पूर्वज जन को पुष्ट करता, उनके वंश की वृद्धि करता है, ( सु-हवं ) शुभ नाम वाला, ( पुरुस्पृहं ) बहुतों के साथ स्नेह करने वाला, ( वाजेपु पूर्व्यम् ) ऐश्वर्यों और ज्ञानों से पूर्ण, ( सचनावन्तं ) आसक्ति और प्रेम से युक्त ( भुज्युं ) भोगों की कामना वाला और प्रजा सन्तानादि के रक्षा करने वाला, ( विद्वेषसम् ) परस्पर के द्वेष से रहित, ( अनेहसम् ) पापों, अपराधों से रहित हैं, उस गृहस्थ रूप रथ का मैं ( अह्ने ) उपदेश करूँ । गृहस्थ स्त्री पुरुषों से भिन्न नहीं होता अतः ये सब गुण विशेष स्त्री-पुरुषों के ही हैं । स्त्री पुरुषों को ही ऐसा होना चाहिये ।

इह त्या पुरुभूतमा देवा नमोभिरश्विना ।

श्रवाचीना स्ववसे करामहे गन्तारा दाशुपो गृहम् ॥ ३ ॥

भा०—( इह ) यहां ( दाशुपः ) आतिथ्यादि देने वाले के ( गृहं

गन्तारा ) गृह पर जाने वाले, ( पुरु-भूतमा ) बहुतों के प्रति संद्भावना करने वाले, ( देवा ) उत्तम गुणों से अलंकृत ( त्या ) उब दोनों ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषों को ( अवसे ) उत्तम रूप से तृप्त, प्रसन्न करने के लिये, ( नमोभिः ) अन्नों और आदरयुक्त वचनों से ( सु करामहे ) सत्कार करें ।

युवो रथस्य परि चक्रमीयत ईर्मान्यद्वामिपण्यति ।

अस्माँ अच्छा सुमतिर्वा शुभस्पती आ धेनुरिव धावतु ॥ ४ ॥

भा०—गृहस्थ रथ के दो चक्र । हे ( ईर्मा ) एक शरीर में लगे दो बाहुओं के समान ( शुभःपती ) उत्तम ब्रतों, कर्मों के पालक, एवं शोभा युक्त पति-पत्नी जनो ! ( युवोः रथस्य चक्रम् ) तुम दोनों के बने रथ अर्थात् रमणीय रथवत् गृहस्थ का एक 'चक्र' वत् कर्ता पुरुष, ( परि ईयते ) सर्वत्र बाहर जाता है, और ( वाम् अन्यत् ) तुम दोनों में दूसरा चक्र स्त्री, वह केवल ( इषण्यति ) चाहना करती है । ( वां सु-मतिः ) तुम दोनों की उत्तम बुद्धि ( धेनुः इव ) गौ के समान ( अस्मान् अच्छ आ धावतु ) हम को भली प्रकार प्राप्त होवे ।

रथो यो वां त्रिवन्धुरो हिरण्याभीशुरश्विना ।

परि द्यावापृथिवी भूषति श्रुतस्तेन नासत्या गतम् ॥५॥५॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय विद्वान् स्त्री पुरुषो ! ( यः ) जो ( वां ) तुम दोनों का ( रथः ) रथ के समान सुख देने वाला, उत्तम गृहस्थ रूप रथ है वह रथ के समान ही ( त्रि-बन्धुरः ) तीन ऋण रूप बन्धनों के समान कायिक, मानसिक और वाचिक तीनों बन्धनों से युक्त है, इसमें ( हिर-ण्याभीशुः ) हित रमणीय वचन वा सुवर्णादि ही अभीशु अर्थात् लगाम के समान है । वह ( श्रुतः ) विख्यात, एवं गुरुपदेशादि श्रवण करके विद्या से सम्पन्न होकर ( द्यावापृथिवी ) सूर्य और भूमि के सदृश ( परि भूषति ) सुशोभित होता है । हे ( नासत्या ) कभी व्यभिचार आदि-असत्याचरण

न करने वाले आप दोनों ( तेन ) उसी रथ से ( आ गतम् ) आओ, जाओ, संसार मार्ग की यात्रा किया करो । इति पञ्चमो वर्गः ॥

दशस्यन्ता मनवे पूव्यं दिवि यवं वृक्रेण कर्षथः ।

ता वामद्य सुमतिभिः शुभस्पती अश्विना प्र स्तुवीमहि ॥६॥

भा०—आप दोनों ( दशस्यन्ता ) दानशील होकर ( मनवे ) मनुष्यों के हितार्थ, ( पूव्यं यवं ) पूर्वों से उपदिष्ट यव आदि धान्य की ( दिवि ) भूमिपर ( वृक्रेण कर्षथः ) हल द्वारा कृषि करो । हे (शुभः-पती) शोभा-युक्त पति पत्नी ! हे ( अश्विना ) रथी सारथिवत् पति पत्नी ! ( ता ) उन ( वाम् ) तुम दोनों को हम ( सु-मतिभिः ) उत्तम बुद्धियों और ज्ञानों से ( प्र स्तुवीमहि ) उत्तम उपदेश करें । विवाह के अनन्तर वृद्धयर्थ जौ के खेत बुवाने की प्रथा की जाती हैं । वर वधू को उत्तम आसन पर विठला कर उनको जौ देकर बैठा दिया जाता है और अधीन कृषकों के प्रतिनिधि-भू त अन्य स्त्री पुरुष उनके चारों ओर घूमते हैं वे दोनों उनकोबोने के लिये जौ वांटते हैं ।

उप नो वाजिनीवसू यातमृतस्य पथिभिः ।

येभिस्तृक्षि वृषणा त्रासदस्यवं महे क्षत्राय जिन्वथः ॥७॥

भा०—हे ( वाजिनी-वसू ) ज्ञानवाली, बलवती, और अन्नवती; बुद्धि, सेना आर कृषि रूप धन के धनी स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( येभिः ) जिन ( ऋतस्य पथिभिः ) सत्य, ज्ञान, और न्याय के प्राप्त कराने वाले उपायों से ( त्रासदस्यवं ) भयभीत शत्रुओं को उखाड़ने और दुष्टों को भय देने वाले सैन्य बल के नायक ( तृक्षि ) विजिगीषु नायक को ( महे क्षत्राय ) बड़े भारी धन बल को प्राप्त करने के लिये ( जिन्वथः ) बढ़ा सकते हो, आप दोनों ( वृषणा ) बलवान् होकर उन ही ( ऋतस्य पथिभिः ) सत्य, न्या-यादि मार्गों से ( नः उप यातम् ) हमें प्राप्त होवो ।

श्रयं वामद्रिभिः सुतः सोमो नरा वृषणवसू ।

आ यातं सोमपीतये पिवतं दाशुषो गृहे ॥ ८ ॥

भा०—हे ( वृषणवसू ) उत्तम मुख की वर्षा करने वाले, बलवान् अंगों के स्वामी जनो ! हे ( नरा ) उत्तम नायक नायिका जनो ! ( वाम् ) आप दोनों का ( अयम् ) यह ( सुतः ) उत्पादित ऐश्वर्य ( अद्रिभिः ) भेदों से उत्पादित वा पापाणादि से पीस कर तैयार किये अन्न के समान ( अद्रिभिः ) अखण्ड शस्त्रों, बलों से उत्पन्न किया जाता है । आप दोनों ( सोम-पीतये ) ऐसे ऐश्वर्य के उपभोग और पालन के लिये ( दाशुषः गृहम् ) दानशील यज्ञकर्त्ता पुरुष के गृह पर ( आ यातम् ) आवो और ( पिवतम् ) उसका पालन और उपभोग करो ।

आ हि रुहतमश्विना रथे कोशे हिरण्यये वृषणवसू ।

युजाथां पीवरीरिषः ॥ ९ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) वेगवान् साधनों के स्वामी जनो ! हे ( वृषणवसू ) हे बलवान् पुरुषों के अधीन जनो ! या बलशाली पुरुषों के बीच बसने वाले ! आप दोनों ( रथे ) रथ के समान सुखजनक ( हिरण्यये ) सुवर्ण से पूर्ण ( कोशे ) कोश, खजाने पर ( आरुहतम् ) स्थिर होवो । और ( पीवरीः इषः ) सम्पन्न अन्नों, और अभिलाषाओं को ( युजाथाम् ) प्रदान करो ।

याभिः पक्थमवथो याभिरध्रिगुं याभिर्वभुं विजोषसम् ।

ताभिर्नो मच्छू तूर्यमश्विना गतं भिषज्यतं यदातुरम् ॥१०॥६॥

भा०—हे ( अश्विना ) वेगवान्, अश्व रथादि के स्वामी जनो ! आप दोनों ( याभिः ) जिन उपायों से ( पक्थम् अवथः ) पके अन्न की रक्षा करते हो, और ( याभिः ) जिन उपायों से ( अध्रिगुं अवथः ) अस्थिर रूप से गमन करने वाले, निर्बल बालकवत् दीन जन की रक्षा करते हो, और ( याभिः ) जिन उपायों और शक्तियों से ( वि-जोषसम् ) विशेष

प्रीति युक्त (बभ्रुं) भरण पोषणकारी माता पितावत् पालक एवं सेवक जन की रक्षा करते हो, ( ताभिः ) इन सब शक्तियों वा साधनों सहित (नः) हमें ( मक्षु तूयम् ) शीघ्रातिशीघ्र ( आ गतम् ) आओ और ( यत् आतुरम् ) जो पीड़ित जन हो उसके ( भिषज्यतम् ) दुःखों को दूर करो । इति षष्ठो वर्गः ॥

यदधिगावो अधिगू इदा चिदहो अश्विना हवामहे ।

वयं गीर्भिर्विपन्यवः ॥ ११ ॥

भा०—हे (अधि-गू) इन्द्रियों पर अधिकार करने वाले! हे (अश्विना) अश्ववत् वेगवान् मन पर वश करने वाले जनो! ( यत् ) जब हम ( अधि-गावः ) वाणियों पर वशी ( विपन्यवः ) स्तुतिकर्ता हो ( अन्हः चित् इदा ) दिन के उसी उत्तम समय में आप दोनों की (गीर्भिः हवामहे) वाणियों से स्तुति करें, आप दोनों को आदर से बुलावें । उत्तम वाणियों से आप दोनों को उपदेश करें ।

ताभिरायातं वृषणोप मे हवं विश्वप्सुं विश्ववार्यम् । इषा मंहिष्ठा पुरुभूतमा नरा याभिः क्रिविं वावृधुस्ताभिरा गतम् १२

भा०—हे ( वृषणा ) बलवान्, सुखों की वृष्टि करने वाले मेघ पवन-वत् स्त्री पुरुषो ! आप लोग ( विश्व-प्सुं ) नाना रूप के ( विश्ववार्य ) सब साधनों से सम्पन्न, सब कष्टों के वारण करने वाले, (मे हवं) मेरे यज्ञ को आप ( ताभिः ) उन शक्तियों सहित ( आयातम् ) आओ ( याभिः ) जिनसे आप दोनों ( इषा ) इच्छवान्, ( मंहिष्ठा ) दानशील ( पुरु-भूतमा ) अधिक सामर्थ्यवान् ( नरा ) नायक होकर ( क्रिविं वावृधुः ) शत्रुनाशक स्वामी की वृद्धि करते हो, ( ताभिः ) उन सहित ही ( आ ग-तम् ) हमारे पास भी आओ ।

ताविदा चिदहानां तावश्विना वन्दमान उप ब्रुवे ।

ता ऊ नमोभिरीमहे ॥ १३ ॥

भा०—( अहानां इदा चित् ) दिनों के वर्त्तमान काल में, सब दिनों, ( तौ ) उन दोनों की मैं स्तुति करूं और ( तौ अश्विनौ ) उन दोनों जितेन्द्रिय पुरुषों को ( वन्दमानः ) नमस्कार करता हुआ ( उप ब्रुवे ) उनके समीप जाकर वचन कहूं । ( नमोभिः ) हम लोग आदर युक्त वचनों से ( ता उ ईमहे ) उनसे प्रार्थना करें ।

ताविहोषा ता उपसि शुभस्पती ता यामत्रद्रवर्तनी ।

मा नो मर्ताय रिपवे वाजिनीवसू पुरो रुद्रावति ख्यतम् ॥१४॥

भा०—( तौ इत् दोषा ) वे दोनों रात्रि में, ( ता उपसि ) वे दोनों, प्रभात वेला में, ( शुभः-पती ) शुभ गुण, कर्मों और शोभा और अन्न जलादि के पालक, एवं शोभा युक्त पति पत्नी हों । ( यामन् ) मार्ग में, वा नियम व्यवस्थाओं में ( ता ) वे दोनों ( रुद्र-वर्त्तनी ) दुष्टों को रूलाने और रोग दूर करने और उपदेष्टा आदि के समान उत्तम व्यवहार करने वाले हों । हे ( वाजिनी-वसू ) बल, ज्ञान, अन्नादि युक्त प्रजा के धनी जनो ! हे ( रुद्रौ ) दुष्टों को रूलानेवालो ! आप दोनों ( नः ) हमें ( रिपवे मर्ताय ) शत्रु या पापी मनुष्य के लाभ या वृद्धि के लिये ( मा अति ख्यतम् ) मत परि त्याग करें ।

आ सुग्म्याय सुग्म्यं प्राता रथेनाश्विना वा सक्षणी ।

हुवे पितेव सोभरी ॥ १५ ॥ ७ ॥

भा०—हे ( सक्षणी ) एक साथ रहने वाले, ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( प्रातः ) प्रातःकाल, ( सुग्म्याय ) सुख प्राप्त करने के लिये ( सुग्म्यं ) सुखपूर्वक ( रथेन ) रमण योग्य, सुख से सेवने योग्य, गृहस्थ रूप रथ से ( आ ) जीवन व्यतीत करो । मैं ( सोभरा ) उत्तम रीति से पोषण करने वाला ( पिता इव ) पिता के समान तुम दोनों को ( हुवे ) बुलाता हूं और उपदेश करता हूं । इति सप्तमो वर्गः ॥

मनोजवसा वृषणा मदच्युता मक्षुङ्गमाभिरूतिभिः ।

आरात्ताच्चिद्रूतमस्मे अवसे पूर्वीभिः पुरुभोजसा ॥ १६ ॥

भा०—हे ( मनो-जवसा ) ज्ञानपूर्वक एवं मन के वेग से जाने वाले, ( वृषणा ) बलवान्, एवं वीर्यसेचन में समर्थ, पूर्ण युवा, ( मद-च्युता ) हर्ष से जाने वाले, वा शत्रुओं के मद को दूर करने में समर्थ, और ( पुरु-भोजसा ) बहुतों की रक्षा करने वाले आप दोनों ( अस्मे अवसे ) हमारी रक्षा के लिये, ( पूर्वीभिः ) पूर्व विद्यमान, बल से पूर्ण ( मक्षु-गमाभिः ) अति वेग से जाने वाली ( ऊतिभिः ) रक्षाकारिणी सेनाओं सहित ( आरात्तात् चित् ) हमारे अति समीप और दूर भी ( भूतम् ) होवो ।

आ नो अश्वावदश्विना वर्तिर्यासिष्टं मधुपातमा नरा ।

गोमहस्रा हिरण्यवत् ॥ १७ ॥

भा०—हे ( मधु-पातमा ) मधुर अन्न जल, आदि हर्षदायक पदार्थ और ज्ञान के उपभोग और रक्षा करने वाले ( नरा ) उत्तम स्त्री पुरुषो ! हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय जनो ! आप दोनों ( नः ) हमारे ( अश्वावत् ) अश्वों, ( गोमद् ) गौओं और ( हिरण्यवत् ) सुवर्ण से समृद्ध ( वर्तिः ) गृह में ( आ यासिष्टम् ) आओ, और हमारा आतिथ्य स्वीकार करो ।

सुप्रावर्गं सुवीर्यं सुष्टु वार्यमनाधृष्टं रक्षस्विना ।

अस्मिन्ना वामायाने वाजिनीवसू विश्वा वामानि धीमहि ॥ १८ ॥

भा०—हे ( वाजिनी-वसू ) ज्ञान, बल, अन्न ऐश्वर्यादियुक्त, विद्या, सेना, कृषि, राज्यलक्ष्मी आदि के धनी स्त्री पुरुषो ! हम लोग ( रक्षस्विना अनाधृष्टं ) 'रक्षस्' अर्थात् नाना दुष्ट जनों के सर्दार द्वारा भी बलात्कार से न पराजित होने वाला ( सुष्टु ) उत्तम ( वार्य ) धन और ( सु-प्रावर्गं ) शत्रुओं को वर्जन करने वाला ( सु-वीर्यं ) उत्तम बल युक्त, सैन्य और ( वाम-आयाने ) आप दोनों के आजाने पर ( अस्मिन् ) इस राष्ट्र में ( विश्वा



चामानि ) समस्त उत्तम पदार्थ हम लोग ( आ धीमहि ) धारण करें ।  
इत्यष्टमा वर्गः ॥

[ २३ ]

विश्वमना वैयथ ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः—१, ३, १०, १४—१६,  
१६—२२, २६, २७ निचृदुष्णिक् । २, ४, ५, ७, ११, १७, २५, २६,  
३० विराडुष्णिक् । ६, ८, ९, १३, १८ उष्णिक् । १२, २३, २८ पाद-  
निचृदुष्णिक् । २४ आर्ची स्वराडुष्णिक् ॥ विशदृचं यत्नम् ॥

ईडिष्व हि प्रतीव्यं यजस्व ज्ञातवेदसम् ।

चरिष्णुधूममगृभीतशोचिपम् ॥ १ ॥

भा०—जिस प्रकार अग्नि ( प्रतीव्यः ) प्रत्यक्ष में कान्तियुक्त (जात-  
वेदाः) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान, ( चरिष्णु-धूमः ) फैलने वाले  
धूम वाला, ( अगृभीत-शोचिः ) न स्पर्श करने योग्य ज्वाला वाला होता है  
उसी प्रकार हे मनुष्य तू ( प्रतीव्यं ) प्रत्यक्षतः कान्तिमान् तेजोमय (जात-  
वेदसम्) समस्त पदार्थों को जानने वाले, ( चरिष्णु-धूमम् ) विश्वभर में  
व्यापक सञ्चालक शक्ति वाले, ( अगृभीत-शोचिपम् ) अपरिचित वा प्रत्यक्ष  
चक्षुओं से न देखने योग्य तेज वाले, प्रभु परमेश्वर की ( हि ) अवश्य  
( ईडिष्व ) उपासना कर ।

ज्ञामानं विश्वचर्पणेऽग्निं विश्वमनो गिरा ।

उत स्तपे विष्पर्धसो रथानाम् ॥ २ ॥

भा०—हे (विश्व-चर्पणे) संसार भर में प्रविष्ट, व्यापक एक ही महान्  
प्रभु को देखने वाले ! हे ( विश्व-मनः ) उसी सर्वव्यापक, कामना न करने  
वाले, उसमें निमग्न मन वाले ! तू ( गिरा ) वाणी से ( वि-स्पर्धतः )  
विविध प्रकार की स्पर्द्धाएं करने वाले, नाना ऐश्वर्यों के इच्छुक जीव को

( रथानां ) नाना रमण करने योग्य देहों के ( दामानं ) देने वाले (अग्नि) अग्निवत् तेजस्वी और व्यापक परमेश्वर की (उत्त) भी (स्तुपे) स्तुति कर ।

येषामावाध ऋग्मिय इषः पृक्षश्च निग्रमे ।

उपविदा वह्निर्विन्दते वसु ॥ ३ ॥

भा०—( ऋग्मियः ) वेदमन्त्रों से स्तुति करने योग्य, ( वह्निः ) जगत् को धारण करने वाला, ( आ-वाधः ) दुष्ट पुरुषों को सब प्रकार से पीड़ित करने वाला होकर ( इषः पृक्षः च ) उनकी इच्छा और अन्नादि को भी ( नि-ग्रमे ) रोक देता है, उन पर प्रतिबन्ध लगा देता है । वह ( उप-विदा ) विवेक पूर्वक ( वसु विन्दते ) धन प्राप्त कराता है । ( २ ) राजा अग्रणी नायक होने से 'अग्नि' है । वह स्तुति योग्य, दुष्टों का बाधक होता, अन्न, सेनादि का निग्रह, व्यवस्था करता, प्रजा के साथ आमन्त्रणा करके करद्वारा ऐश्वर्य संग्रह करता है ।

उदस्य शोचिरस्थाद्दीदियुषो व्यजर्म् ।

तपुर्जम्भस्य सुद्युतो गणश्रियः ॥ ४ ॥

भा०—जिस प्रकार (अस्य शोचिः उत् अस्थात्) इस भौतिक अग्नि की ज्वाला ऊपर को उठती है, वह (वि-अजरम्) प्रत्येक पदार्थ को विच्छिन्न करके दूर २ तक फेंकती या फौला देती हैं, ( तपुः-जम्भः ) अग्नि का प्रताप ही मानो उसकी दाढ़ों के समान काष्ठादि को खाजाने का साधन है । वह ( सु-द्युत् ) उत्तम कान्ति युक्त ( गण-श्रीः ) गणनीय, दर्शनीय शोभा से युक्त होता है । इसी प्रकार ( अस्य ) इस ( सु-द्युतः ) उत्तम कान्तियुक्त, तेजस्वी, ( गण-श्रियः ) अनुयायी सैन्य गण का आश्रयणीय, उनके बीच में शोभावान् ( दीदियुषः ) देदीप्यमान, ( अस्य ) इस राजा वा-प्रभु का ( वि-अजरम् ) विशेष रूप से अविनाशी वा विविध प्रकार से शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाला, ( शोचिः ) तेजः ( उत् अस्थात् ) सर्वोपरी उठता है और विराजता है । ( तपुर्जम्भस्य ) शत्रुसन्तापक शस्त्रास्त्र

बल ही उसकी जम्भ या दंष्ट्रा के समान दुष्टों शत्रुओं को हड़प जाने का साधन होता है । ( ३ ) इसी प्रकार प्रभु की अविनाश्वर दीप्ति सर्वोपरि विराजती है । वह विकृति आदि गण में विराजता और उनका आश्रय है । दुष्टों का सन्तापक बल ही उसकी महान् दाढ़ है, जिनमें दुष्ट पिसते, नाना नरक भोगते हैं । वह स्वभावतः उत्तम कान्तिमान् है ।

उद्दु तिष्ठ स्वध्वर स्तवानो देव्या कृपा ।

अभिख्या भासा बृहता शुशुक्निः ॥ ५ ॥ ९ ॥

भा०—हे अग्रणी नायक ! हे प्रभो ! राजन् ! विद्वन् ! हे (स्वध्वर) उत्तम अविनाशिन् ! उत्तम हिंसारहित ! प्रजापालक ! तू ( देव्या कृपा ) तेजोयुक्त प्रजा को सुख देने वाली राजशक्ति से और ( अभि-ख्या ) सब ओर स्पष्ट घोषणा करने वाली वा प्रसिद्ध वाणी और ( भासा ) कान्ति और ( बृहता ) बड़े भारी ज्ञान और बल से युक्त होकर ( शुशुक्निः ) निरन्तर अभिवत् शुद्ध, कान्तिमान्, तेजस्वी, और ( स्तवानः ) स्तुति किया जाकर वा अन्यो को उपदेश वा आज्ञावचन कहता हुआ ( उद्दु तिष्ठ उ ) उत्तम आसन पर विराज । इति नवमो वर्गः ॥

अग्ने याहिसुशस्तिभिर्हव्या जुह्वान आनुषक् ।

यथा दूतो बभूथ हव्यवाहनः ॥ ६ ॥

भा०—जिस प्रकार अग्नि ( सुशक्तिभिः हव्या आनुषक् जुह्वानः ) उत्तम वेद-स्तुतियों सहित उत्तम हव्यों का ग्रहण करता हुआ ( दूतः ) ताप-कारी होकर ( हव्य-वाहनः भवति ) हव्य, चरु आदि पदार्थों को दूर २ तक पहुंचाने में समर्थ होता है उसी प्रकार हे ( अग्ने ) राजन् ! विद्वन् ! तू भी ( सु-शक्तिभिः ) उत्तम शासनों द्वारा ( आनुषक् ) निरन्तर ( हव्या जुह्वानः ) राजा के ग्रहणयोग्य करों और विद्वानों के ग्राह्य उत्तम अन्नादि पदार्थों को लेता हुआ ( दूतः यथा ) दूत, संदेश हर के समान ( हव्य-

वाहनः बभूथ ) ग्राह्य वचन और ज्ञान को पहुंचाने वाला होता है । वह तू ( याहि ) हमें प्राप्त हो ।

अग्निं वः पुर्व्यं हुवे होतारं चर्षणीनाम् ।

तमया वाचा गृणे तमु व स्तुपे ॥ ७ ॥

४ मनुष्यो ! मैं ( वः ) आप लोगों को ( चर्षणीनां ) ज्ञान को देखने वाले इन्द्रियों के ( होतारं ) बल देने वाले आत्मा के समान ( चर्षणीनां ) ज्ञानद्रष्टा ऋषियों के ( व्यं ) सब से पूर्व विद्यमान ज्ञान और शक्ति में परिपूर्ण ( अग्निः ) उस ज्ञानी प्रभु का ( वः हुवे ) तुमको ज्ञानोपदेश करता हूं । और ( तम् ) उस प्रभु की मैं ( अया वाचा ) इस व्यक्त वेदवाणी से ( गृणे ) स्वयं स्तुति करता हूं और ( तम् उ वः स्तुपे ) उसका ही मैं आप लोगों को उपदेश करता हूं ।

यज्ञेभिरद्भुतक्रतुं यं कृपा सूदयन्त इत् ।

मित्रं न जने सुधितमृतावनि ॥ ८ ॥

भा०—( ऋतावनि जने ) सत्य, वेदज्ञान एवं न्यायमार्ग का सेवन करने वाले मनुष्य के बीच ( सुधितम् ) उत्तम रीति से धारित एवं ( मित्रं न ) मित्र, स्नेही जन के समान, प्राणप्रद, प्राणरक्षक रूप से ( कृपा ) अपने दया एवं जगद्-रचनादि सामर्थ्य से ( अद्भुत-क्रतुं ) अद्भुत ज्ञान और कर्म वाले ( यं ) जिसकी ओर सब उपासकजन ( यज्ञेभिः ) यज्ञों, उपासनाओं से ( सूदयन्त इत् ) अति द्रवित, प्रेमाद्रं होकर जलोंवत् स्वभावतः बह ही जाते हैं मैं उसीका तुमको उपदेश करता हूं । उसीकी स्तुति करता हूं ।

ऋतावानमृतायवो यज्ञस्य सार्धनं गिरा ।

उपो एनं जुजुपुर्नमसस्पदे ॥ ९ ॥

भा०—जिस प्रकार ( ऋतायवः ) अन्नार्थी ( नमसः पदे ) अन्न के पाने के लिये ( ऋतावानं जुजुषुः ) अन्न के स्वामी की सेवा करते हैं उसी

प्रकार ( ऋतायवः ) सत्य ज्ञान की आकांक्षा करने वाले, पुरुष ( यज्ञस्य साधनम् ) यज्ञ को साधने वाले, ( ऋतावानम् ) सत्य ज्ञान के दाता, ( एनं ) उसको ही ( नमसः पदे ) आदर नमस्कार के योग्य प्रतिष्ठापद पर स्थापित ( एनं ) उसकी ( गिरा ) वेदवाणी से ही ( उपो जुजुपुः ) उपासना पूर्वक सेवन और प्रेम करें।

अच्छा नो अङ्गिरस्तमं यज्ञासो यन्तु संयतः ।

होता यो अस्ति विक्ष्वा यशस्तमः ॥ १० ॥ १० ॥

भा०—( यः ) जो ( विक्षु ) प्रजाओं में ( होता ) सब सुखों का दाता और ( यशः-तमः ) कीर्ति और बल में सबसे अधिक ( अस्ति ) है। उसी ( अङ्गिरस्तमं ) सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानी और तपस्वितम पुरुष को ( अच्छा ) प्राप्त कर ( यज्ञासः ) यज्ञ और संगठित दल भी ( सं-यतः सन्तु ) सुसम्बद्ध होकर आगे बढ़ें। इति दशमो वर्गः ॥

अग्ने तव त्वे अजुरेन्धानासो बृहद्भाः ।

अश्वा इव वृषणस्तविपीयवः ॥ ११ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! स्वामिन् ! हे ( अजर ) शत्रुओं को उखाड़ फेंकने में समर्थ ? हे अविनाशिन् ! ( तव ) तेरे ( त्वे ) वे ( इन्धानासः ) देदीप्यमान ( तविपीयवः ) बलवान्, ( वृषणः ) मेघवत् सुखों की और शत्रुओं पर शस्त्रों की वर्षा करने वाले ( बृहद्-भाः ) बड़े २ प्रकाशों से चमकने वाले और ( अश्वाः इव ) अश्वों वा सूर्यों के समान सुदृढ़ हैं।

स त्वं न ऊर्जापते रयिं रास्व सुवीर्यम् ।

प्रावं न स्तोके तनये समत्स्वा ॥ १२ ॥

भा०—हे ( ऊर्जा पते ) अश्वों और बलों के स्वामिन् ! ( सः त्वं ) वह तू ( नः ) हमें ( सुवीर्यं ) उत्तम वीर्ययुक्त ( रयिं ) ऐश्वर्य ( रास्व )

प्रदान कर । ( समस्त ) संग्रामों में ( नः तोके तनये ) हमारे पुत्र पौत्रों के निमित्त हमारे धन की ( प्र-भव ) अच्छी प्रकार रक्षा कर ।

यद्वा उ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशि ।

विश्वेदग्निः प्रति रक्षांसि सेधति ॥ १३ ॥

भा०—( यत् वै उ विश्पतिः ) जब भी प्रजाओं का पालक ( शितः ) तीक्ष्ण, बलवान् ( सुप्रीतः ) अच्छी प्रकार तृप्त, प्रसन्न होकर ( मनुषः विशि ) मनुष्यों के प्रजाजन के बीच विराजता है वह ( अग्निः ) अग्नि के समान तेजस्वी नायक ( विश्वा इत् रक्षांसि प्रति सेधति ) समस्त राक्षसों को उनका मुकाबला करके दूर करता है, उनका नाश कर देता है ।

श्रुष्ट्यग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते ।

नि मायिनस्तपुषा रक्षसो दह ॥ १४ ॥

भा०—हे ( वीर विश्पते ) शूरवीर प्रजा के पालक ! ( अग्ने ) तेजस्विन् ! तू ( मे स्तोमस्य ) मेरे स्तुत्य वचन को ( श्रुष्टी ) श्रवण करके शीघ्र ( मायिनः रक्षसः ) मायावी, राक्षस, दुष्ट पुरुष को ( नि दह ) भस्म कर ।

न तस्य मायया च न रिपुरीशीत् मर्त्यः ।

यो अग्नये ददाश हव्यदातिभिः ॥ १५ ॥ ११ ॥

भा०—( यः ) जो ( अग्नये ) अग्नि में ( हव्य-दातिभिः ) हव्य चरु की आहुतियों द्वारा ( ददाश ) प्रदान करता है उसी प्रकार जो प्रजाजन ( अग्नये ) अग्रणी, तेजस्वी नायक राजा को ( हव्य-दातिभिः ) ग्राह्य कर-आदि अंशों से ( ददाश ) उसको प्रदान करता है ( तस्य ) उस पर ( रिपुः मर्त्यः ) शत्रु मनुष्य ( मायया च न ) माया, कुटिल बुद्धि से भी ( न च न ईशीत् ) कभी अधिकार नहीं कर सकता । इसी प्रकार जो विद्वानों को अन्नादि से पालता है शत्रु उससे बुद्धि बल से बढ़ नहीं सकता । पर-मेश्वर के प्रति स्तुत्य वचनों से जो अपने को सौंपता है शत्रु उस पर छल कपट से वश नहीं कर सकता है । इत्येकादशो वर्गः ॥

व्यश्वस्त्वा वसुविदमुत्तरयुरप्रीणादपिः ।

महो राये तमु त्वा समिधीमहि ॥ १६ ॥

भा०—( उक्षण्युः ) जलसेचक मेघ की इच्छा करने वाला, (ऋपिः) तत्त्वदर्शी पुरुष ( वि-अश्वः ) विशेष विद्वान् होकर ( वसु-विदम् ) जीवन को प्राप्त कराने वाले सूर्य या अग्नि को ( अप्रीणात् ) हव्यों से तृप्त करता है, उसी प्रकार ( उक्षण्युः ) समस्त संसार को वहन करने और सुखों के वर्षक प्रभु को चाहने वाला ( वि-अश्वः ) विशेष सुख आनन्द के भोगने या प्राप्त करने वाला ( ऋपिः ) तत्त्वदर्शी पुरुष ( वसु-विदम् ) समस्त ऐश्वर्यों के देने वाले प्रभु को ( अप्रीणात् ) प्रसन्न करे, उसकी प्रार्थना करे। हम भी ( महः राये ) बड़े भारी ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये ( तम् उ त्वा ) उस तुझको ( सम् इधीमहि ) अच्छी प्रकार अपने हृदय में, कुण्ड में अग्नि के समान प्रज्वलित करें ।

उशना काव्यस्त्वा नि होतारमसादयत् ।

आयजि त्वा मनवे जातवेदसम् ॥ १७ ॥

भा०—( काव्यः ) कवि, विद्वान् क्रान्तदर्शी पुरुषों का पुत्र वा शिष्य अथवा स्वयं कवि, सर्वोपदेष्टा प्रभु का उपासक ( उशनाः ) कामनावान् जीव ( मनवे ) मनुष्यमात्र के कल्याण के लिये ( होतारं ) सर्व सुखदाता, ( आयजि ) सब प्रकार से पूज्य ( जात-वेदसं ) सर्वज्ञानी, सर्वैश्वर्यवान् ( त्वा ) तुझे ही ( वि-असादयत् ) सर्वात्मना प्राप्त करे ।

विश्वे हि त्वा सजोपसो देवासो दूतमक्रत ।

श्रुष्टी देव प्रथमो यज्ञियो भुवः ॥ १८ ॥

भा०—हे ( देव ) प्रकाशस्वरूप ! ज्ञानैश्वर्य के देने वाले ! ( स-जोपसः ) समान प्रीति से युक्त ( विश्वे हि देवासः ) सब विद्वान् तेरी कामना करने वाले और तुझे चाहने वाले जन ( त्वा ) तुझको ( दूतम् अक्रत ) अपना संदेशहर, ज्ञानदाता स्वीकार करते हैं । हे ( देव ) देव ! तू ही

( श्रुष्टी ) शीघ्र ( प्रथमः ) सब से प्रथम ( यज्ञियः भुवः ) सर्वोपास्य है ।  
( २ ) इसी प्रकार विद्वान् लोग अग्नि, विद्युत् को एवं विद्वान् ज्ञानी को अपना संदेशहर दूत बनाते हैं । वह अग्नि ही प्रथम यज्ञ का साधन बनाया गया है ।

इमं घा वीरो अमृतं दूतं कृण्वीत मर्त्यः ।

पावकं कृष्णवर्त्तनिं विहायसम् ॥ १९ ॥

भा०—( वीरः मर्त्यः ) विशेष विद्वान् मनुष्य ( पावकं ) पवित्र करने वाले ( कृष्ण-वर्त्तनिम् ) पापों के नाशक व्यवहार वाले वा चित्ताकर्षक मार्ग वाले, वा ( कृष्ण-वर्त्तनिं ) आकर्षणशील सूर्यादि लोकों को अपने २ मार्गों से संचालन करने वाले, ( विहायसं ) महान् आकाशवत्, व्यापक ( इमं घ ) इस प्रभु को ही ( दूतं ) उपास्य ( कृण्वीत ) बनावे । ( २ ) अग्नि भी शोधक होने से पावक है, कृष्णधूम को उत्पन्न करता वा जहाँ से गुजरता है जलाकर काला करता है वा मनुष्य आकर्षण करने वाले व्यापक विद्युत् को संदेशहर दूत बनावे, टेलिफोन, तार, रेडियो आदि यन्त्रों में प्रयोग करे ।

तं हुवेम यत्सुचः सुभासं शुक्रशोचिषम् ।

विशामग्निमजरं प्रत्नमीड्यम् ॥ २० ॥ १२ ॥

भा०—( सु-भासं ) उत्तम कान्तिमान्, ( शुक्र-शोचिषम् ) शुद्ध प्रकाशवान्, अग्नि के समान प्रकाशस्वरूप, ( तम् ) उसी ( विशाम् अग्निम् ) प्रजाओं या देह में प्रविष्ट होने वाले जीवों को अग्रणी नायकवत् कर्म व्यवस्था में संचालक, ( अजरं ) अविनाशी, ( प्रत्नम् ) सदातन, ( ईड्यम् ) स्तुत्य प्रभु को हम ( यत्-सुचः ) सुच आदि यज्ञ साधनों के समान अपने प्राणों को संयम करके ( हुवेम ) उसकी उपासना करें । इति द्वादशो वर्गः ॥

यो अस्मै हव्यदातिभिराहुतिं मतोऽविधत् ।

भूरि पोषं स घत्ते वीरवधशः ॥ २१ ॥



भा०—( यः ) जो ( मर्तः ) मनुष्य ( अस्मै ) इस अग्नि की ( हव्य-दातिभिः ) चरु की आहुतियों द्वारा ( आहुतिं ) आहुति, यज्ञ, ( अविधत् ) करता है, इसी प्रकार जो ( अस्मै ) उस प्रभु का ( हव्य-दातिभिः ) स्तुत्य वचनों द्वारा ( आहुतिं ) प्रार्थनोपासना ( अविधत् ) करता है, ( सः ) वह ( भूरि-पोषं धत्ते ) बहुत पुष्टिकारक अन्न, धन धारण करता है और ( वीर-वद् यशः धत्ते ) वीर पुत्रादि से युक्त यश भी प्राप्त करता है। वह पुत्रवान् यशस्वी, अन्नवान् और समृद्धिमान् हो जाता है।

प्रथमं जातवेदसमग्निं यज्ञेषु पूर्ण्यम् ।

प्रति स्रुगेति नमसा हविष्मती ॥ २२ ॥

भा०—जिस प्रकार ( यज्ञेषु अग्निं प्रति हविष्मती स्रुग् नमसा प्रति एति ) यज्ञों में अग्नि को लक्ष्य कर हविष्य से युक्त स्रुक्, चमसा नमस्कार-युक्त मन्त्र से आता है उसी प्रकार ( यज्ञेषु ) समस्त उपास्य एवं सत्संग-योग्य पूज्य जनों में ( पूर्ण्यम् ) पूर्ण एवं ज्ञानशक्ति आदि में पूर्ण ( प्रथमं ) सबसे प्रथम विद्यमान ( जातवेदसम् ) ज्ञानवान्, सर्वैश्वर्यवान्, सर्वज्ञ ( अग्निम् ) प्रकाशस्वरूप प्रभु को लक्ष्य कर ( हविष्मती ) ज्ञान से युक्त ( स्रुक् ) बुद्धि, वाणी ( नमसा ) आदरपूर्वक ( प्रति एति ) उसी को प्राप्त होती और उसी का ज्ञान करती है।

आभिर्विधेमाग्नये ज्येष्ठाभिव्यश्ववत् ।

मंहिष्ठाभिर्मतिभिः शुक्रशोचिषे ॥ २३ ॥

भा०—हम ( शुक्र-शोचिषे ) शुद्ध तेज वाले, प्रकाशस्वरूप ( अग्नये ) ज्ञानस्वरूप प्रभु के लिये ( व्यश्ववत् ) विशेष रूप से संयतेन्द्रिय वा ज्ञानवान् होकर ( ज्येष्ठाभिः ) सर्वश्रेष्ठ ( मंहिष्ठाभिः ) अतिपूज्य, ज्ञान-प्रद ( आभिः ) इन ( मतिभिः ) वाणियों और बुद्धियों से ( विधेम ) उपासना करें।

नूनमर्चं विहायसे स्तोमेभिः स्थूरयूपवत् ।

ऋषे वैयश्व दम्यायाग्नये ॥ २४ ॥

भा०—हे ( वैयश्व ऋषे ) जितेन्द्रिय ज्ञानदर्शिन् मनुष्य ! तू ( द-  
म्याय अग्नये ) गृह में स्थापन करने योग्य गार्हपत्याग्नि के समान ( दम्याय  
अग्नये ) सब संसार को दमन करने में समर्थ, ज्ञानवान् ( विहायसे )  
महान् प्रभु की ( स्थूर-यूपवत् ) बड़े २ यूपों से युक्त यज्ञ के समान ( नूनम् )  
अवश्य ( स्तोमेभिः ) वेदमन्त्रों से ( अर्च ) उपासना किया कर ।  
अध्याधम में—( स्थूरयूपवत् ) स्थिर आत्मा वा सूर्य के समान सर्वप्रकाशक  
प्रभु की स्तुति किया कर ।

अतिथिं मानुषाणां सूनुं वनस्पतीनाम् ।

विप्रांश्च अग्निमवसे प्रत्नमीळते ॥ २५ ॥ १३ ॥

भा०—( मानुषाणाम् ) मननशील विद्वानों ले बीच ( अतिथिम् )  
अतिथिवत् पूज्य ( वनस्पतीनाम् ) तेज के पालक, सूर्यों और वनस्प-  
तियों के ( सूनुं ) सञ्चालक और उत्पादक ( प्रत्नम् अग्निम् ) सनातन  
ज्ञानवान् प्रभु की ( विप्राः ) विद्वान्, बुद्धिमान् पुरुष ( अवसे ) रक्षा और  
ज्ञान के लिये ( ईडते ) स्तुति करते हैं । ( २ ) लौकिक अग्नि, मनुष्यों  
में जाठर रूप से व्यापक, और वनस्पति काष्ठादि से उत्पन्न होता है ।  
इति त्रयोदशो वर्गः ॥

महो विश्वां अभि पतोऽभि हव्यानि मानुषा ।

अग्ने नि सत्सि नमसाधि बर्हिषि ॥ २६ ॥

भा०—हे ( अग्नये ) अग्नि के समान तेजस्विन् ! स्वामिन् ! तू ( महतः  
विश्वान् सतः ) बड़े २ विश्वों और विद्यमान पदार्थों को ( अभि सत्सि )  
व्यापता है । तू ( मानुषा हव्या अभि सत्सि ) मनुष्यों के वचनों को स्वीकार  
करता है । हे प्रभो ! तू ( अधि बर्हिषि ) इस महान् संसार में ( नमसा )  
बड़े भारी बल के साथ ( नि सत्सि ) यज्ञ में अन्नसहित अग्नि के समान

विराजता है । ( २ ) उसी प्रकार सत्र पर ( नमसा ) शस्त्र बल से राष्ट्र-प्रजाजन के ऊपर शासक रूप से विराजे ।

वंस्वा॑ नो वार्या॑ पुरु वंस्व॑ रायः पु॑रुस्पृ॒हः ।

सु॒वीर्य॑स्य प्र॒जाव॑तो यश॑स्वतः ॥ २७ ॥

भा०—हे स्वामिन् ! तू ( नः ) हमें ( पुरु-वार्या ) बहुत से उत्तमोत्तम धनादि ( वंस्व ) प्रदान कर । और तू हमें ( प्रजावतः ) प्रजा का उत्पादक ( सु-वीर्यस्य ) उत्तम वीर्य और ( यशस्वतः ) उत्तम यश, कीर्ति, बल और अन्न से सम्पन्न ( नाना रायः वंस्व ) अनेक ऐश्वर्य दे ।

त्वं व॑रो सु॒षाम्णे॑ऽग्ने जना॑य चोदय ।

सदा॑ वसो॑ रातिं य॑विष्ट॒ शश्व॑ते ॥ २८ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) ज्ञानप्रकाशक ! हे ( वरो ) वरण योग्य ! हे ( वसो ) सब जगत् को बसाने और उसमें बसने वाले ! हे ( यविष्ठ ) अतिशय बलशालिन् ! हे सबसे बड़े दुःख दूर करने हारे ! ( त्वं ) तू ( सदा ) सब कालों ( शश्वते ) बहुत से ( सु-साम्ने ) उत्तम साम गान करने वाले स्तुतिकर्ता उपासक ( जनाय ) मनुष्यों के हितार्थ ( रातिं ) दान राशि और उत्तम ज्ञान को ( चोदय ) प्रेरित कर, प्रदान कर ।

त्वं हि सु॑प्र॒तूर॑सि॒ त्वं नो॑ गोम॑तीरिषः ।

स॒हो रा॒यः सा॒तिम॑ग्ने॒ अपा॑ वृधि ॥ २९ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) प्रकाशक ! प्रकाशस्वरूप ! उन्नति के मार्ग में लेजाने हारे ! ( त्वं हि ) तू निश्चय से ( सु-प्रतूरः असि ) उत्तम रीति से धन प्रदान करने हारा है । ( त्वं ) तू ( नः ) हमें ( गोमतीः इषः ) इन्द्रियों या वाणी से युक्त उत्तम इच्छाओं और भूमि, गवादि पशु समेत अन्न, ( महः रायः सातिम् ) बड़े भारी ऐश्वर्य के भाग को ( अप वृधि ) खोल, हमें प्रदान सर ।

अग्ने त्वं यशा अस्या मित्रावरुणा वह ।

ऋतावाना सम्राजा पुतदक्षसा ॥ ३० ॥ १४ ॥

भा०—हे ( अग्ने त्वं यशाः असि ) ज्ञानवन् ! हे वेजस्विन् ! तू यशःस्वरूप, कीर्तिमान् है । तू ( ऋतावाना ) सत्यनिष्ठ, ( सम्राजा ) समान भाव से तेजोयुक्त, ( पूत-दक्षसा ) पवित्र बल और ज्ञान वाले, ( मित्रावरुणा ) सर्व-स्नेही ब्राह्मण, और 'वरुण' अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष क्षत्रिय दोनों को ( महो रायः सातिम् ) बड़े भारी धन का विभाग (वह) प्राप्त करा । प्रभु परमेश्वर विद्वानों को ज्ञान का और क्षत्रियों को बल का धन देता है । इति चतुर्दशो वर्गः ॥

[ २४ ]

विश्वमना वैयश्व ऋषिः ॥ १—२७ इन्द्रः । २८—३० वरोः सौषाम्यस्य दानस्तुतिदेवता ॥ छन्दः—१, ६, ११, १३, २०, २३, २४ निचृदुष्णिक् । २—५, ७, ८, १०, १६, २५—२७ उष्णिक् । ९, १२, १८, २२, २८ २९ विराडुष्णिक् । १४, १५, १७, २१ पादनिचृदुष्णिक् । १९ आर्चीं स्वराडुष्णिक् । ३० निचृदनुष्टुप् ॥ त्रिशदृचं सूक्तम् ॥

सखाय आ शिषामहि ब्रह्मेन्द्राय वज्रिणे ।

स्तुष ऊ षु वो नृतमाय धृष्णवे ॥ १ ॥

भा०—हे ( सखायः ) मित्रो ! ( वज्रिणेः ) बलशाली, सर्वशक्तिमान ( इन्द्राय ) परमैश्वर्यवान्, सर्वद्रष्टा, सर्वप्रकाशक प्रभु के ( आशिषामहि ) आदरपूर्वक गुणों का वर्णन करें । मैं ( धृष्णवे ) दुष्टों को नाश करने, जगत् को धारण करने वाले ( नृतमाय ) परम पुरुषोत्तम, सर्वश्रेष्ठ नेता की ही ( वः ) आप लोगों के प्रति ( ऊ सु स्तुषे ) अच्छी प्रकार स्तुति करता हूँ । शवसा ह्यसि श्रुतो वृत्रहृत्येन वृत्रहा ।

मधैर्मघोनो अति शूर दाशसि ॥ २ ॥

भा०—हे ( शूर ) दुष्टों के नाशक ! प्रभो ! तू ( वृत्त्यहत्येन ) प्रकृति के 'सरिर'मय'स्वरूपमें आघात या स्पन्दोत्पन्न करने वाले मेघके आघातकारी विद्युत् के समान ( शवसा ) बल से ही तू ( वृत्र-हा ) 'वृत्रहा' नाम से ( श्रुतः असि ) प्रसिद्ध है । हे प्रभो ! अथवा, तू ( वृत्र-हत्येन शवसा ) दुष्टों के नाशक बल से 'वृत्र-हा' दुष्टहन्ता प्रसिद्ध है । तू ( मघैः ) उत्तम २ ऐश्वर्यों से ( मघोनः ) बड़े २ धनवानों को भी पार कर । उनसे भी अधिक ( अति दाशसि ) बहुत बहुत दान देता है ।

स नः स्तवान् आ भर रयिं चित्रश्रवस्तमम् ।

निरेके चिद्यो हरिवो वसुर्ददिः ॥ ३ ॥

भा०—हे ( हरिवः ) मनुष्यों वा जीवों के स्वामिन् ! ( सः ) वह तू ( स्तवानः ) हमें ज्ञान उपदेश करता हुआ, ( चित्र-श्रवस्तमम् ) ज्ञान-प्रद एवं गुरुपरम्परा से श्रवण करने योग्य ज्ञान रूप ( रयिं ) धन ( नः आ भर ) हमें प्रदान कर । ( यः ) जो तू ( निरेके ) सर्वातिशायी पद पर विराजमान ( वसुः चित् ) सम्पूज्य, सबको बसाने हारा और ( ददिः ) सबका दाता है ।

आ निरेकमुत प्रियमिन्द्रं दर्षि जनानाम् ।

धृषता धृष्णो स्तवमान् आ भर ॥ ४ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! तू ( जनानाम् ) मनुष्यों के ( प्रियम् ) अति प्रीतिकारी ( निरेकम् ) सबसे उत्तम धन ( आ दर्षि ) प्रदान करता है । हे ( धृष्णो ) दुष्टों के धर्षक ! तू ( धृषता ) अपने दुष्ट-अज्ञान के नाशक बल से ( स्तवमानः ) जगत् भर को उपदेश करता हुआ, वा अन्यों से स्तुति किया जाता हुआ ( नः आ भर ) हमें भी प्रिय उत्तम धन प्रदान कर ।

न ते स्रव्यं न दक्षिणं हस्तं वरन्त आमुः ।

न परिवाधो हरिवो गविष्टिषु ॥ ५ ॥ १५ ॥

भा०—हे ( हरिवः ) समस्त मनुष्यों के स्वामिन् ! हे समस्त सूर्यादि लोकों के स्वामिन् ! ( गविष्टिपु ) वाणी द्वारा तेरी उपासना करने के अवसर में ( आमुरः ) अभिमुख आकर मरने मारने वाले शत्रुजन भी ( ते ) तुझ महाबलवान् पुरुष के ( न दक्षिणं न सव्यं हस्तं ) न दायें और न बायें हाथ को ( वरन्त ) रोक सकते हैं । वे ( गविष्टिपु न परिबाधः ) वाणियों द्वारा करने योग्य यज्ञों में भी किसी प्रकार बाधा नहीं कर सकते । ( २ ) निर्बल शत्रु बलवान् राजा के दायें बायें के सैन्य या प्रमुख नेतृ-बल को भी नहीं सह सकते । वे उसकी ( गविष्टिपु ) श्रूमियों के दान या ग्रहण में वा धनुषों द्वारा करने योग्य युद्धयज्ञों में भी बाधा नहीं कर सकते । इति पञ्चदशो वर्गः ॥

आ त्वा गोभिरिव ब्रजं गीर्भिर्ऋणोभ्यद्रिवः ।

आ स्मा कामं जरितुरा मनः पृण ॥ ६ ॥

भा०—हे ( अद्रिवः ) मेघवत् उदार और पर्वतवत् दृढ़ पुरुषों के या शस्त्रबल के स्वामिन् ! ( गोभिः ब्रजम् इव ) बैलों या अश्वों से जिस प्रकार कोई गन्तव्य मार्ग को प्राप्त करता है उसी प्रकार मैं ( गीर्भिः ) वाणियों द्वारा ( ब्रजं ) प्राप्य एवं गन्तव्य परम शरणरूप ( त्वा ) तुझको ही ( आ ऋणोभि ) प्राप्त होजाता हूँ । तू ( जरितुः ) स्तोता प्रार्थी के ( कामं आ पृण स्म ) अभिलाषा को पूर्ण कर और ( मनः आ पृण ) उसके मन को पूर्ण कर वा उसे ज्ञान से भरपूर कर ।

विश्वानि विश्वमनसो धिया नो वृत्रहन्तम ।

उग्रं प्रणेतुरधि षू वसो गहि ॥ ७ ॥

भा०—हे ( वृत्र-हन्तम ) प्रकृति तत्त्व के संचालक, प्रवर्त्तक वा दुष्टों के नाशक, हे ( उग्र ) अति बलवान् ! हे ( प्रणेतः ) श्रेष्ठ नायक ! हे ( वसो ) जगत् को बसाने वाले ! तू ( विश्व-मनसः नः ) सबमें प्रविष्ट

विश्वात्मा प्रभु के दिये हम लोगों की ( धिया ) बुद्धि कर्मानुसार  
( नः अधि गहि ) हमें प्राप्त हो और हम पर शासन कर ।

वयं ते अस्य वृत्रहन्विद्याम शूर नव्यसः ।

वसोः स्पार्हस्य पुरुहूत राधसः ॥ ८ ॥

भा०—हे ( वृत्रहन् ) दुष्टों के नाशक ! प्रकृति तत्व के संचालक !  
प्रवर्त्तक ! हे ( शूर ) शक्तिशालिन ! हे ( पुरुहूत ) सबजनों से स्तुतियोग्य,  
सबों से नाना प्रकारों से स्तुत्यरूप में स्वीकृत ! ( वयं ) हम लोग ( ते ) तेरे  
( अस्य ) इस ( नव्यसः ) अति नवीन वा स्तुतियोग्य ( वसोः ) सबको  
अपने भीतर बसाने वाले ( स्पार्हस्य ) मनोहर, अभिलषणीय ( राधसः )  
धनैश्वर्य का ( विद्याम ) ज्ञान और लाभ करें ।

इन्द्र यथा ह्यस्ति तेऽपरीतं नृतो शवः ।

अमृक्ता रातिः पुरुहूत दाशुषे ॥ ९ ॥

भा०—हे ( नृतो ) सबको अपनी इच्छा पर नचाने या यथेच्छ  
संचालित करने वाले हे ( पुरुहूत ) बहुधा स्तुत्य ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य-  
वन् ! ( यथा ) जैसा ( ते ) तेरा ( शवः ) बल ( अपरीतं अस्ति ) अवि-  
नाशित, तुझसे कभी पृथक् नहीं होता । उसी प्रकार ( दाशुषे ) दानशील  
उपासक के लिये भी तेरा ( रातिः ) दान भी ( अमृक्ता ) कभी नष्ट  
नहीं होता ।

आ वृषस्व महामह महे नृतम् राधसे ।

दृढश्चिद्दृह्य मघवन्मघत्तये ॥ १० ॥ १६ ॥

भा०—( महामह ) बड़ों से बड़े ! महतो महीयान् ! सर्वपूज्य !  
हे ( नृतम् ) सर्वश्रेष्ठ नायक ! हे पुरुषोत्तम ! तू ( महे राधसे ) बड़े भारी  
ऐश्वर्य के लिये ( आ वृषस्व ) स्वयं बलवान् बन । हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् !  
तू ( मघत्तये ) ऐश्वर्य दान करने के लिये ( दृढः चित् ) दृढ़ से दृढ़ को  
( दृह्य ) विदीर्ण कर । उसको दयार्द्र कर । इति षोडशो वर्गः ॥

नू अन्यत्रा चिदद्रिवस्त्वन्नो जग्मुराशसः ।

मघवञ्छुग्धि तव तन्न ऊतिभिः ॥ ११ ॥

भा०—हे ( अद्रिवः ) अखण्ड शक्ति के स्वामिन् ! ( नः आशसः ) हमारी आशाएं ( त्वत् अन्यत्र चित् जग्मुः ) तुझ से अन्य में भला क्योंकर जावें । हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! ( तव ऊतिभिः ) तेरी रक्षाकारिणी शक्तियों से तू ( नः तत् शग्धि ) हमें वही आशाएं या कामनाएं प्रदान कर ।

नह्यंग नृतो त्वदन्यं विन्दामि राधसे ।

राये द्युम्नाय शवसे च गिर्वणः ॥ १२ ॥

भा०—हे ( नृतो ) सब के नायक ! ( अंग ) हे ( गिर्वणः ) वाणी द्वारा, प्रार्थनीय ! मैं ( राधसे ) आराधना करने और ( राये ) ऐश्वर्य प्राप्त करने लिये और ( द्युम्नाय ) तेज, यश और ( शवसे ) बल प्राप्त करने के लिये ( त्वत् अन्यं ) तुझ से दूसरे को ( न विन्दामि ) नहीं पाता हूं ।

एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिवाति सोम्यं मधु ।

प्र राधसा चोदयाते महित्वना ॥ १३ ॥

भा०—जो परमेश्वर ( राधसा ) अपनी आराधना वा वशीकारक ऐश्वर्य से और ( महित्वना ) महान् सामर्थ्य से ( प्र चोदयाति ) समस्त जगत् को और जीव संसार को अच्छी प्रकार, ठीक राह पर प्रेरित करता है और जो ( सोम्यं मधु ) उत्पन्न होने वाले जगत्, अन्न वा जल को जीव के सदृश ( पिवाति ) पी लेता वा खालेता, अपने भीतर लीन करलेता है, उस ( इन्द्राय ) महान् ऐश्वर्यवान् प्रभु परमेश्वर के लिये ( इन्दुम् ) इस प्रेमार्द्र आत्मा को उसकी ओर ( आ सिञ्चत ) प्रवाहित कर, आत्मा को उसी की ओर प्रवृत्त कर ।

उपो हरीणां पतिं दक्षं पृञ्चन्तमव्रवम् ।

नूनं शुधि स्तुवतो अश्व्यस्य ॥ १४ ॥



भा०—मैं ( हरीणां पतिम् ) सूर्य, चन्द्रादि लोकों, और मननशील पुरुषों के पालक, ( दक्षम् ) सब पापों के भस्म करने वाले, वा कर्म करने वाले ( पृञ्चन्तम् ) सब के स्नेही, प्रभु को लक्ष्य करके ( उप व्रवम् उ ) उपासना, प्रार्थना करता हूँ । ( नूनं ) अवश्य, निश्चय करके ( अद्वयस्य ) इन्द्रियों के द्वारा सुख दुःखों के भोक्ता, वा मन, इन्द्रियादि के स्वामी ( स्तुवतः ) स्तुतिकर्ता जीव की तू ( श्रुधि ) प्रार्थना को श्रवण कर ।

नृह्यंग पुरा च न जज्ञे वीरतरस्त्वत् ।

नकी राया नैवथा न भन्दना ॥ १५ ॥ १७ ॥

भा०—( अंग ) हे प्रभो ! ( पुरा च न ) पहले भी, और अब भी ( त्वत् ) तुझ से अधिक ( वीरतरः ) बड़ा वीर, जगत् संचालक, और विविध विद्याओं का उपदेष्टा, ( नहि जज्ञे ) नहीं पैदा हुआ, और ( नकिः राया ) न कोई ऐश्वर्य से ( न एवथा ) न ज्ञान, और रक्षण सामर्थ्य से और ( न भन्दना ) न जगत् के कल्याण और सुखदायक सामर्थ्य से तुझ से कोई बड़ा है, न होगा । इति सप्तदशो वर्गः ॥

एदु मध्वो मदिन्तरं सिञ्च वाध्वर्यो अन्धसः ।

एवा हि वीरः स्तवते सदावृधः ॥ १६ ॥

भा०—( वीरः एव हि ) वीर, विद्वान् ( सदा-वृधः ) सदा सबको बढ़ाने वाला ही ( स्तूयते ) स्तुति करने योग्य है । हे ( अध्वर्यो ) अविनाशिन् ! तू ( अन्धसः ) अन्न के समान प्राणपोषक ( मध्वः ) जलवत् शान्तिदायक आनन्द रस से ( मदिन्तरं ) अतिशय आनन्ददायक आत्मा को ( आ सिञ्च इत् ) आ, सेचन कर, उसकी वृद्धि कर ।

इन्द्रं स्थातहरीणां नकिष्टे पूर्व्यस्तुतिम् ।

उदानंश शवसा न भन्दना ॥ १७ ॥

भा०—हे ( हरीणां स्थातः ) मनुष्यों के बीच वा अश्व सेनाओं के बीच सेनापति के समान सर्वोपरि विराजमान ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( ते

पूर्व्यं स्तुतिम् ) तेरी पूर्व विद्यमान और पूर्ण स्तुति को ( शवसा ) बल या ज्ञान से भी ( नकिः उत् आनंश ) कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता और ( न भन्दना उत् आनंश ) सुख, कल्याण और ऐश्वर्य से भी कोई नहीं बढ़ सकता ।

तं वो वाजानां पतिमहूमहि श्रवस्यवः ।

अप्रायुभिर्यज्ञेभिर्वावृधेन्यम् ॥ १८ ॥

भा०—( अप्रायुभिः ) आयु से रहित दीर्घायु वा अप्रमादी पुरुषों और ( यज्ञेभिः ) यज्ञों, उपासनादि सत्कर्मों से ( वावृधेन्यम् ) अतिवृद्धिशील, ( वाजानां पतिम् ) आप सबके ज्ञान, ऐश्वर्यादि के पालक-उसको ( नः ) हम ( अवस्यवः ) ज्ञान, कीर्ति और अन्नादि के इच्छुक होकर ( अहूमहि ) पुकारते, उसीकी उपासना करते हैं ।

एतो न्विन्द्रं स्तवाम् सखायः स्तोम्यं नरम् ।

कृष्टीर्यो विश्वा अभ्यस्त्येक इत् ॥ १९ ॥

भा०—हे ( सखायः ) मित्रजनो ! ( एत उ नु ) आप लोग आभो-न भला, ( स्तोम्यं नरं ) स्तुति करने योग्य सर्वप्रणेता पुरुष की ( स्तवाम् ) स्तुति करें, ( यः विश्वाः कृष्टीः ) जो समस्त मनुष्यों के प्रति ( एक इत् अभि अस्ति ) एक, अद्वितीय, सबके प्रति समान रूप से उपास्य है ।

अगौरुधाय गविषे द्युक्षाय दस्म्यं वचः ।

घृतात्स्वादीयो मधुनश्च वोचत ॥ २० ॥ १८ ॥

भा०—हे विद्वान् लोगो ( अगो-रुधाय ) जो पुरुष आप लोगों की वाणी पर रोक न करे, और ( गविषे ) जो आपकी वेद वाणी को चाहे, उस ( द्युक्षाय ) तेजस्वी पुरुष के लिये ( घृतात् स्वादीयः ) घी से भी अधिक स्वाद, शान्तिप्रद, और ( मधुनः च ) मधु वा अन्न से भी अधिक मधुर, पुष्टिप्रद, बलप्रद ( दस्म्यं वचः ) दर्शनीय वा ज्ञान के नाशक वचन का ( वोचत ) उच्चारण करो । इत्यष्टादशो वर्गः ॥

यस्यामितानि वीर्याः न राधः पर्यंतवे ।

ज्योतिर्न विश्वम्भ्यस्ति दक्षिणा ॥ २१ ॥

भा०—(यस्य) जिसके (वीर्या अमितानि) वीर्य अपरिमित हैं और (राधः) जिसके धनैश्वर्य (पर्यंतवेन) पूर्णतया जाने नहीं जा सकते और (यस्य दक्षिणा) जिसका बल और दान भी (ज्योतिः न) सूर्य प्रकाश के समान (विश्वम् अभि अस्ति) सबके प्रति समान रूप से प्राप्त है ।

स्तुहीन्द्रं व्यश्वदन्मिं वाजिनं यमम् ।

अर्यो गयं मंहमानं वि दाशुषे ॥ २२ ॥

भा०—उस (अन्मिम्) तरङ्ग या धारा से रहित प्रशान्त और अगाध, (वाजिनम्) ज्ञान और ऐश्वर्य के स्वामी, (यमम्) सर्वनियन्ता, (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान्, प्रभु को (वि-अश्वत्) विविध अश्वों, इन्द्रियों से युक्त आत्मा के समान ही (स्तुहि) स्तुति कर और (दाशुषे) भक्त को (गयं मंहमानं) प्राण और देह, गृहादि देने वाले उस स्वामी की स्तुति कर जो (अर्यः) स्वामी (वि) विविध प्रकार से ऐश्वर्य प्रदान करता है ।

एवा नूनमुप स्तुहि वैश्व दशमं नवम् ।

सुविद्वांसं चर्कृत्यं चरणीनाम् ॥ २३ ॥

भा०—हे (वैश्व) विविध अश्वों, अश्वसैन्यों वा भोक्ता शासकों से युक्त सेनापति के समान, विविध अश्वों, प्राणों के स्वामिन् ! आत्मन् ! तू (नूनम्) अवश्य (दशमं) नव प्राणों के बीच (दशमम्) दशवें और (चरणीनाम्) आचरण करने वालों में भी (सुविद्वांसं) उत्तम ज्ञानी विद्वान् और (चर्कृत्यं) कार्य करने वाले ज्ञानवान् कर्मवान् आत्मा की (उप स्तुहि) स्तुति वा उपदेश कर ।

वेत्था हि निऋतीनां वज्रहस्त परिवृजम् ।

अहरहः शुन्ध्युः परिपदांमिव ॥ २४ ॥

भा०—( शुन्ध्युः ) सर्वशोधक सूर्य जिस प्रकार ( परिपदांस् निर्ऋ-  
तीनां ) चारों ओर चलने वाली भूमियों के ( परिवृजं वेत्ति ) परिक्रमा-  
मार्ग को जानता है उसी प्रकार हे ( वज्र-हस्त ) बाहुवीर्य, राजन्, शक्ति-  
शालिन् प्रभो ! तू ( अहरहः ) दिन प्रतिदिन ( परिपदाम् ) निरन्तर  
चलने वाले ( निर्ऋतीनां ) लोकों के ( परिवृजं ) जाने योग्य मार्ग को  
( वेत्थ ) जानता है और ( शुन्ध्युः ) सब दुःखों और पापों का सूर्य वा  
अश्विवात् शोधन करने वाला है ।

तदिन्द्राव् आ भर येना दंसिष्ठ कृत्वने ।

द्विता कुत्साय शिश्रथो नि चोदय ॥ २५ ॥ १९ ॥

भा०—हे ( दंसिष्ठ ) दुष्टों और दुःखों के नाशक ! तू ( येन ) जिस  
रक्षा सामर्थ्य से ( कृत्वने कुत्साय ) कर्म करने में तत्पर स्तुतिकर्ता भक्त-  
जन के ( द्विता शिश्रथः ) इस और उस दोनों लोकों के दुःखों को शिथिल  
कर देता है तू ( तत् ) उसी ( अवः ) रक्षा और ज्ञान को हमें ( आभर )  
प्रदान कर । ( नि चोदय ) उसी से हमें नित्य सन्मार्ग में प्रेरित कर ।  
इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

तमु त्वा नूनमीमहे नव्यं दंसिष्ठ संन्यसे ।

स त्वं नो विश्वा अभिमातीः सक्षणिः ॥ २६ ॥

भा०—हे ( दंसिष्ठ ) दुःखों के नाशक ! ( नूनं ) निश्चय ( त्वा तम्  
उ ) उस पूज्य तुझ ( नव्यं ) स्तुति योग्य को ही ( संन्यसे ) सर्व वासना  
और बन्धनों के त्यागने के लिये, ( ईमहे ) हम याचना करते हैं । ( सः  
त्वं ) वह तू ( सक्षणिः ) सब दुःखों का नाशक, सबका पराजयकारी होकर  
( विश्वाः अभिमातीः ) समस्त अभिमानी जीवों को पराजित करता है ।

य ऋक्षादहसो मुचद्यो वार्यात्सप्त सिन्धुपु ।

वधर्दासस्य तुविनृम्ण नीनिमः ॥ २७ ॥

भा०—( यः ) जो प्रभु ( ऋक्षात् ) मनुष्यों के नाश करने वाले,

रीछ के समान भयंकर, एवं मनुष्यनाशक दुष्ट पुरुषवत् दुःखदायी (अंहसः) पाप से (मुचत्) मुक्त करता है (यः वा) और जो, (सप्त-सिन्धुपु) वेग से जाने वाले जलों में विद्युत्-बल वा जल को (अर्यात्) प्रेरित करता है, हे (तुवि-नृम्ण) बहुत से ऐश्वर्यों के स्वामिन् ! तू (दासस्य) सूर्य या पवनवत् जलप्रद मेघ में, दुष्ट पुरुष के नाशार्थ (वधः नीनमः) हिंसाकारक अस्त्र का प्रहार कर ।

यथा वरो सुषाम्णे सनिभ्य आर्वहो रयिम् ।

व्यश्वेभ्यः सुभगे वाजिनीवति ॥ २८ ॥

भा०—हे (वरो) श्रेष्ठ पुरुष ! (यथा) जिस प्रकार तू (सुषाम्णे) उत्तम साम द्वारा स्तुति करने वाले, उत्तम निष्पक्षपात और (सनिभ्यः) उत्तम दान पात्रों को (रयिम् आवहः) ऐश्वर्य प्राप्त कराता है उसी प्रकार हे (सुभगे) उत्तम ऐश्वर्यशालिन् ! हे (वाजिनी-वति) ऐश्वर्य सम्पदा की स्वामिनी ! वधू ! तू भी (व्यश्वेभ्यः) विजितेन्द्रिय पुरुषों को (रयिम्) अन्नैश्वर्य (आ वहः) प्राप्त करा । वर वधू दोनों को चाहिये कि वे सत्पात्रों में दान दिया करें । इसी प्रकार परमेश्वर 'सुसामा' सम्यग् दृष्टि और समदर्शी तथा भक्तजनों को ऐश्वर्य देता है । और सुभगा प्रकृति भी अस्त्र अर्थात् विविध इन्द्रियों से सम्पन्न जीवों को अपनी विभूति देती है ।

आ नार्यस्य दक्षिणा व्यश्वान् एतु सोमिनः ।

स्थूरं च राधः शतवत्सहस्रवत् ॥ २९ ॥

भा०—(नार्यस्य) मनुष्यों में श्रेष्ठ और उनके हितैषी (सोमिनः) ऐश्वर्यवान् पुरुष की (दक्षिणा) दान का द्रव्य (वि-अश्वान्) विविध विद्याओं में पारंगत एवं जितेन्द्रिय पुरुषों को (आ एतु) प्राप्त हो । वा (सोमिनः) पुत्र शिष्यादि के गुरुजनों को प्राप्त हो और उसका (स्थूरं) स्थायी (शतवत् सहस्रवत्) सौ, हजार संख्या वाला (राधः) धन भी ऐसे ही पुरुषों को प्राप्त हो । परमेश्वर नरों, जीवों का स्वामी होने से नर्य

वा 'नार्य' है। उसका दान विविध इन्द्रियोपभोगभूमियों में वर्तमान कर्मफल वाले जीवों को प्राप्त होता है।

यत्त्वा पृच्छादीजानः कुहया कुहयाकृते ।

एषो अपश्रितो वलो गोमतीमव तिष्ठति ॥ ३० ॥ २० ॥

भा०—( कुहया-कृते ) आत्मा वा प्रभु उपास्य कहां है ? इस प्रकार की जिज्ञासा करने वाली है बुद्धे ! ( ईजानः ) देवोपासना करने वाला ( यः ) जो पुरुष ( त्वा पृच्छात् ) तुझ से पूछता है कि ( एषः अपश्रितः ) वह संसार-बन्धन से दूर देहादि में अनाश्रित ( वलः = वरः ) सब से वरणीय, सबको व्यापने वाला प्रभु ( कुहया ) कहां है तो इसका समाधान श्रवण कर। ( एषः ) वह ( वलः ) सर्वव्यापक प्रभु ( गोमतीम् ) इन्द्रिय और वाणी से युक्त इस चित्त भूमि को ( अव ) नीचे छोड़ कर, ( तिष्ठति ) उसके भी ऊपर परम अवर्णनीय रूप में विद्यमान है। इति विंशो वर्गः ॥

### [ २५ ]

विश्वमना वैश्व ऋषिः ॥ १—६, १३—२४ मित्रावरुणौ । १०—१२

विरवेदेवा देवताः ॥ छन्दः—१, २, ५—६, १६ निचृदुष्णिक् । ३, १०,

१३—१६, २०—२२ विराडुष्णिक् । ४, ११, १२, २४ उष्णिक् ।

२३ आर्ची उष्णिक् । १७, १० पादनिचृदुष्णिक् ॥ चतुर्विंशत्यृचं सूक्तम् ॥

ता वां विश्वस्य गोपा देवा देवेषु यज्ञिया ।

ऋतवाना यजसे पूतदक्षसा ॥ १ ॥

भा०—( ता वां ) वे आप दोनों ( विश्वस्य ) समस्त विश्व के वा सबके ( गोपा ) पालक ( देवेषु ) विद्वान् मनुष्यों के बीच में ( यज्ञिया देवा ) पूजा सत्कार के योग्य, दानशील और तेजस्वी होवो। आप दोनों ( ऋतावाना ) सत्य न्यायवान्, ( पूत-दक्षसा ) पवित्र बल वा ज्ञान वाले जनों को हे मनुष्य ! तू ( यजसे ) पूजा कर।

मित्रा तना न रथ्या वरुणो यश्च सुक्रतुः ।

सनात्सुजाता तनया धृतव्रता ॥ २ ॥

भा०—स्त्री पुरुष कैसे हों ? वे दोनों ( मित्रा ) स्नेहवान् ! ( रथ्या न तना ) रथ में लगे दो अश्वों वा रथ में विराजमान रथी सारथी के समान शरीर में सुशोभित और ( वरुणः ) वरण करने योग्य पुरुष भी ऐसा हो ( यः च सुक्रतुः ) जो स्वयं उत्तम क्रियावान्, बुद्धिमान् हो । वे दोनों ( सनात् ) सदा ( सु-जाता ) उत्तम वंश और गुणों में शिक्षित और ( तनया ) माता पिता के उत्तम पुत्र और ( धृत-व्रता ) व्रत को धारण करने वाले हों । अर्थात् तनया, कन्या स्वयं स्नेहवती, रथ में चढ़ने योग्य उत्तम कर्मकुशल, सुजाता, सुपुत्री व्रतधारिणी हो और वर भी स्नेही, गृहस्थ रथ के योग्य, सुकर्मा, सुजात और व्रती हो ।

ता माता विश्ववेदसासुर्याय प्रमहसा ।

मही जज्ञानादिति ऋतावरी ॥ ३ ॥

भा०—( प्र-महसा ) अति उत्तम तेजस्वी ( विश्व-वेदसा ) समस्त ज्ञानों और धनों के स्वामी ( ता ) उन दोनों ( माता ) उत्पन्न करने वाली ( ऋतावरी ) सत्य व्रत का वरण करने वाली, ( अदितिः ) अखण्ड व्रत-पालिनी ( मही ) पूज्या ( माता ) जननी ही ( असुर्याय ) बल पराक्रम के लिये ( जज्ञान ) पैदा करता है ।

महान्ता मित्रावरुणा सम्राजा देवाचसुरा ।

ऋतावानावृतमा घोषतो बृहत् ॥ ४ ॥

भा०—वे दोनों ( महान्ता ) गुणों में महान्, ( सम्राजा ) अच्छी प्रकार दीप्तिमान्, तेजस्वी, ( देवा ) दानशील ( असुरा ) बलवान्, शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले, ( ऋतावानौ ) सत्य ज्ञान से युक्त, दोनों ( बृहत् ऋतम् आ घोषतः ) बड़े भारी सत्य ज्ञान, वेद और न्याय की घोषणा किया करें, उसका पठन, पाठन और उपदेश किया करें ।

नपा॑त्ता श॒वसो॑ महः॒ सू॒नु॒ दक्ष॑स्य सु॒क्रतू॑ ।

सृ॒प्रदा॑न् इ॒षो वास्त्व॑र्धि चि॒तः ॥ ५ ॥ २१ ॥

भा०—दोनों ( महः शवसः नपाता ) बड़े भारी बलके पालक और ( महः दक्षस्य सूनु ) बड़े भारी बल और धर्म के उत्पादक और परिचालक ( इषः ) अन्न के ( सृप्रदान् ) विस्तृत रूप से देने वाले होकर ( वास्तु अधि ) बड़े २ गृहों में ( क्षितः ) निवास करें । इत्येकविंशो वर्गः ॥

सं या दानू॑नि येमथु॒र्दिव्याः॑ पार्थि॒वीरिषः॑ ।

नभ॑स्वती॒रा वां चरन्तु॑ वृष्ट्यः॑ ॥ ६ ॥

भा०—( या ) जो आप दोनों ( दानूनि ) दान योग्य वीर्यों, धनों का ( सं येमथुः ) संयमपूर्वक रक्षा करते रहे उन ( वां ) आप दोनों को ( नभस्वतीः ) आकाश की, ( दिव्या ) अन्तरिक्ष की ( वृष्टयः ) वृष्टियाँ और ( पार्थिवीः इषः ) पृथिवी पर उत्पन्न होने वाले अन्न ( आचरन्तु ) प्राप्त हों ।

अधि॑ या वृ॒हतो॑ दि॒वो॒भि यूथे॑व पश्य॒तः ।

ऋ॒तावा॑ना स॒म्राजा॑ नम॒से हि॒ता ॥ ७ ॥

भा०—( अभि यूथा इव ) जिस प्रकार गौओं के समूहों को उनके पालक जन देखते हैं उसी प्रकार ( या ) जो ( बृहतः दिवः अधि पश्यतः ) बड़े भारी कामनाओं वा अभिलोपाओं को देखते हैं वे दोनों ( ऋतावाना ) सत्य और धन वाले, ( सम्राजा ) उत्तम दीप्ति से दीप्तिमान् होकर ( नमसे ) अन्न और बल को प्राप्त करने के लिये ( हिता ) परस्पर हिताचरण करें वा स्थिर भाव से रहें ।

ऋ॒तावा॑ना नि पे॒दतुः॑ सा॒म्राज्या॑य सु॒क्रतू॑ ।

धृ॒तव्र॑ता क्ष॒त्रिया॑ क्ष॒त्रमा॑शतुः॑ ॥ ८ ॥

भा०—( ऋतावाना ) सत्य न्याय के स्वामी होकर ( धृतव्रता ) व्रत, नियम के धारण करने वाले ( क्षत्रिया ) बल, और धन के स्वामी



( साम्-राज्याय ) साम्राज्य पालनार्थ ( सु-क्रतू ) उत्तम कर्म वाले होकर  
( क्षत्रम् आशतुः ) बल ऐश्वर्य को प्राप्त करें ।

श्रद्धाश्चिद्गातुवित्तरानुत्वणेन चक्षसा ।

नि चिन्मिपन्ता निचिरा नि चिक्यतुः ॥ ९ ॥

भा०—वे ( अक्ष्णः चित् गातुवित्-तरा ) आंख से भी अधिक मार्ग  
जानने वाले, वा आंखों वा इन्द्रियमात्र के भी इशारों को खूब समझने  
वाले हों । वे दोनों ( अनुत्वणेन ) सोम्य ( चक्षसा ) दृष्टि वा ( अनुत्वणेन  
वचसा ) कोमल, दुःख न देने वाले हृदयहारी वचन से ( निमिपन्ता )  
नियम से व्यवहार करने वाले ( नि-चिरा ) खूब चिरायु होकर  
( नि चिक्यतुः ) पूजा सत्कार योग्य हों ।

उत नो देव्यदितिरुष्यतां नासत्या ।

उरुष्यन्तु मरुतो वृद्धशवसः ॥ १० ॥ २२ ॥

भा०—( उत ) और ( देवी अदितिः ) उत्तम सुख देने वाली  
विदुषी स्त्री माता और ( नासत्या ) असत्य व्यवहार से रहित माता  
पिता ( नः उरुष्यताम् ) हमारी रक्षा करें । और ( वृद्ध-शवसः )  
बड़े बली और अधिक ज्ञान वाले पुरुष ( मरुतः ) शत्रुओं को मारने वाले  
वा वायुवत् जीवनप्रद, दूरगामी विद्वान् क्षत्रिय और वैश्य जन ( उरु-  
ष्यन्तु ) हमारी रक्षा करें । इति द्वाविंशो वर्गः ॥

ते नो नावमुरुष्यतु दिवा नक्तं सुदानवः ।

अरिष्यन्तो नि प्रायुभिः सचेमहि ॥ ११ ॥

भा०—हे ( सु-दानवः ) उत्तम दानशील पुरुषो ! ( ते ) वे आप लोग  
( दिवा नक्तं ) दिन और रात ( नः नावम् ) हमारी नौका वा प्रेरणा  
करने योग्य यान की ( उरुष्यत ) रक्षा करो । और हम ( अरिष्यन्तः )  
विना पाँड़ित हुए किसी का हिंसा न करते हुए ( प्रायुभिः ) पालन  
करने वालों के साथ ( सचेमहि ) सदा संघ बना कर रहें ।

अघ्नते विष्णवे वयमरिष्यन्तः सुदानवे ।

श्रुधि स्वयावन्त्सिन्धो पूर्वचित्तये ॥ १२ ॥

भा०—( वयम् ) हम लोग ( अरिष्यन्तः ) किसी की हिंसा न करते हुए, स्वयं भी पीड़ित न होते हुए, ( अघ्नते ) अहिंसक (सु-दानवे) उत्तम दानशील, ( पूर्व-चित्तये ) पूर्ण ज्ञानी और सबसे पूर्व कर्मकर्ता, पूर्ण संसार के बनाने-वाले परमेश्वर की स्तुति करें । हे (स्व-यावन्) अपने ही सामर्थ्य से संसार को चलाने हारे ! हे ( सिन्धो ) समुद्रवत् गम्भीर, आनन्द रस के सागर ! तू ( श्रुधि ) हमारी प्रार्थना को श्रवण कर !

तद्वार्यं वृणीमहे वरिष्ठं गोपयत्यम् ।

मित्रो यत्पान्ति वरुणो यदर्यमा ॥ १३ ॥

भा०—( यत् ) जिस धन और बल की ( मित्रः ) स्नेहवान्, मृत्यु से रक्षक, ( यत् वरुणः ) जिसकी सबको वरण करने योग्य, सब दुःखों का वारक, और ( अर्यमा ) शत्रु वा दुष्टों का नियन्ता पुरुष ( पान्ति ) रक्षा करते वा उपभोग करते हैं हम ( तत् ) उस ( वार्यं ) वरण करने, दुःखों को दूर करने वाले ( वरिष्ठं ) सर्वश्रेष्ठ, ( गोपयत्यम् ) सबके प्रालक धन वा बल की ( वृणीमहे ) याचना करते हैं ।

उत नः सिन्धुरपां तन्मरुतस्तदश्विना ।

इन्द्रो विष्णुर्मीढ्वांसः सजोषसः ॥ १४ ॥

भा०—( अपां सिन्धुः ) जलों का बहने वाला प्रवाह, ( मरुतः ) शत्रुहन्ता बलवान् पुरुष और वैश्यगण, ( अश्विना ) अश्वारोही योद्धा और रथी, सारथी, ( इन्द्रः ) सेनापति, राजा, ( विष्णुः ) व्यापक सामर्थ्यवान्, वा विविध विद्याओं में निष्णात ये सब ( मीढ्वांसः ) प्रजापर सुखों की वर्षा करने वाले और ( स-जोषसः ) एक समान सब से प्रीति रखने हारे होकर ( नः तत् तत् ) हमारे उन २ धनों की रक्षा करें और दें ।

ते हि ष्मा वनुषो नरोऽभिमातिं कयस्य चित् ।

तिग्मं न क्षोदः प्रतिघ्नन्ति भूर्णयः ॥ १५ ॥ २३ ॥

भा०—( ते हि ) वे ( भूर्णयः ) जगत् के पोषक ( नरः ) नायक पुरुष, ( वनुषः ) शत्रुओं के नाशक और सेवा योग्य जन ( कयस्य चित् अभिमातिं ) किसी भी प्रतिद्वन्द्वी के अभिमान को ( तिग्मं क्षोदः न ) तीव्र वेग से जाने वाले जल के समान ( प्रति घ्नन्ति ) विनाश कर सकते हैं । इति त्रयोविंशो वर्गः ॥

अयमेक इत्था पुरुष चष्टे वि विश्पतिः ।

तस्य व्रतान्यनु वश्चरामसि ॥ १६ ॥

भा०—( अयम् एकः ) यह एक ( पुरुः ) पालक, सबकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, ( विश्पतिः ) प्रजाओं का पालक हो । ( इत्था ) इस प्रकार सत्य न्याय को वह ( वः वि चष्टे उ ) विविध या विशेष प्रकार से तुम सब के व्यवहारों को सूर्यवत् देखता है । ( तस्य व्रतानि ) इस प्रजापति के उपदिष्ट और कृत कर्मों का हम ( अनु चरामसि ) अनुकरण करते हैं ।

अनु पूर्वाण्योक्या साम्राज्यस्य सश्चिम ।

मित्रस्य व्रता वरुणस्य दीर्घश्रुत् ॥ १७ ॥

भा०—( साम्राज्यस्य ) महान् साम्राज्य के मालिक प्रभु के ( पूर्वाणि ) पूर्व विद्यमान वा पूर्ण, त्रुटिरहित ( ओक्या ) भुवनों, या गृहों के व्यवस्थापक नियमों को ( अनु सश्चिम ) पालन करें । ( मित्रस्य ) सर्वस्नेही, ( वरुणस्य ) सर्वश्रेष्ठ ( दीर्घश्रुतः ) दीर्घदर्शी, बहुज्ञ, पुरुष के ( व्रता ) कर्मों का हम अनुकरण करें ।

परि यो रश्मिना दिवोऽन्तान्ममे पृथिव्याः ।

उभे आप्रौ रोदसी महित्वा ॥ १८ ॥

भा०—( यः ) जो परमेश्वर ( रश्मिना ) तेजोवत् व्यापक सामर्थ्य

से ( दिवः पृथिव्याः अन्तान् ) आकाश और भूमि इनकी परली सीमाओं को भी ( परि ममे ) मापता है । वही ( महित्वा ) अपने महान् सामर्थ्य से ( उभे रोदसी ) आकाश और भूमि दोनों लोकों को ( आ पप्रौ ) पूर्ण करता है ।

उदु ष्य शरणे दिवो ज्योतिरयंस्तु सूर्यः ।

अग्निर्न शुक्रः समिधान आहुतः ॥ १९ ॥

भा०—( स्यः ) वह ( दिवः शरणे ) प्रकाश को बखेर कर दूर २ तक फैलाने में ( सूर्यः ) सूर्य के समान ( ज्योतिः ) स्वयं प्रकाशस्वरूप प्रभु ( शरणे ) इस महान् विश्व में ( उत् अयंस्तु ) सबके ऊपर विराज कर सब को बश करता है । वह ( अग्निः न शुक्रः ) अग्नि के समान देदीप्यमान, ( समिधा आहुतः न ) काष्ठ से आहुति युक्त चमकने वाले अग्नि के तुल्य ही ( आहुतः ) सबसे स्तुति किया जाता है ।

वचो दीर्घप्रसन्नानीशे वाजस्य गोमतः ।

ईशे हि पितृवोऽविपस्य दावने ॥ २० ॥ २४ ॥

भा०—जो ( गोमतः वाजस्य ) गौ, भूमि, वाणी और इन्द्रियों से युक्त ( वाजस्य ) ऐश्वर्य, ज्ञान और विभूति का ( ईशे ) स्वामी है और जो ( अविपस्य ) विपरहित ( पितृवः ) अन्न के ( दावने ) देने में ( ईशे हि ) निश्चय से सबका स्वामी है उस ( दीर्घ-प्रसन्नानि ) महा-भवन के समान सब के शरणदाता वा महाभवनवत् विश्व के स्वामी के विषय में ( वचः ) स्तुति वाणी का प्रयोग किया करो । ( २ ) इसी प्रकार जो राजा बड़े भवन में रहता, भूमि पशु सम्पदा स्वामी, और शुद्ध अन्न को देने में समर्थ है उसी से प्रजा शरण की प्रार्थना करे । इति चतुर्विंशो वर्गः ॥

तत्सूर्यं रोदसी उभे दोषा वस्तोरुपं ब्रुवे ।

भोजेष्वस्माँ अभ्युच्चरा सदा ॥ २१ ॥

भा०—( दोषा वस्तोः ) दिन और रात ( उभे रोदसी ) आकाश

वा सूर्य और पृथिवी, संमस्त जगत् के ( सूर्यम् ) संचालक, प्रकाशक, सूर्यवत् तेजस्वी ( तत् ) उस प्रभु की मैं ( उप द्रुवे ) स्तुति करता हूँ । हे प्रभो ! तू ( सदा ) सब काल, ( अस्मान् ) हमें ( भोजेषु ) पालक जनों और भोगैश्वर्य देने वाले लोकों में ( अभि उत् चर ) उन्नति की ओर ले जा ।

ऋ॒ज्रमु॑क्ष॒रया॑यने र॒ज॒तं ह॑र॒याणे ।

रथं॑ यु॒क्तम॑स॒नाम सु॒पाम॑णि ॥ २२ ॥

भा०—जिस प्रकार ( उक्षण्यायने ) बलवान् बैल या अश्व से जाने योग्य, वां ( हरयाणे ) हरणशील वेगवान् अश्वों या यन्त्रों से जाने योग्य ( सु-सामनि ) उत्तम समभूमियुक्त मार्गों में ( ऋज्रम् ) ऋजु, वेग से, जाने वाले, ( रजतं ) सुन्दर, ( युक्तं ) अश्वों से जुते ( रथं ) रथ को ( असनाम ) उपयोग करते हैं इसी प्रकार हम लोग ( सु-सामनि ) सबके प्रति समान भाव से रहने वाले, सुखप्रद, ( उक्षण्यायने ) बलवान्, सुख-सेचक पुरुषों के भी आश्रय स्थान, ( हरयाणे ) दुःखों के हरने वाले, प्रभु के अधीन हम ( युक्तं ) इन्द्रियादि अश्वों से युक्त, रथवत् ( ऋज्रम् ) ऋजु, धर्म मार्ग से चलने वाले इस देह को ( असनाम ) प्राप्त करें और उसका सुख भोग करें ।

ता मे॑ अ॒श्व्या॑नां ह॒रीणां॑ नि॒तो॒शना॑ ।

उ॒तो नु॑ कृ॒त्व्या॑नां नृ॒वाह॑सा ॥ २३ ॥

भा०—( ता ) वे दोनों प्रधान स्त्री पुरुष ( मे ) मुझ राजा के अधीन ( अश्व्यानां हरीणां ) अश्वारोही जनों के बीच ( नि-तोशना ) शत्रुओं को नाश करने वाले, ( उत नु ) और ( कृत्व्यानां ) कर्मकुशल पुरुषों के बीच में ( नृ-वाहसा ) मनुष्यों को सन्मार्ग में लेजाने वाले हों ।

स्म॒दभी॑शु क॒शाव॑न्तौ वि॒प्रा न॑वि॒ष्ठया॑ म॒ती ।

म॒हो वा॑जि॒नाव॑र्वन्ता स॒चा॑सनम् ॥ २४ ॥ २५ ॥

भा०—(स्मत्-अभीशू) शोभायुक्त अगुलियों, धर्म-भर्यादाओं, व्यवस्थाओं से युक्त, (कशावन्ता) अर्थप्रकाशक, शुभ वाणी वाले, (विप्रा) मेंधावी, बुद्धिमान् (नविष्टया) अतिस्तुत्य (मती) बुद्धि से युक्त, (महः वाजिनी) बड़े भारी ज्ञानी (अर्वन्ता) दुःखों का नाश करने वाले, सन्मार्गगामी, स्त्री पुरुषों को सैं दो अश्वों वा प्राणों के सदृश (सचा असनम्) सदा एक साथ प्राप्त करूं। इति पञ्चविंशो वर्गः ॥

[ २६ ]

विश्वमना वैयश्वो वाङ्गिरस ऋषिः ॥ १—१६ अश्विनौ । २०—२५ वायु-  
देवता ॥ छन्दः—१, ३, ४, ६, ७ उष्णिक् । २, ८, २३ विराडुष्णिक् ।  
५, ९—१५, २२ निचृदुष्णिक् । २४ पादनिचृदुष्णिक् । १६, १९ विराड्  
गायत्री । १७, १८, २१ निचृद् गायत्री । २५ गायत्री । २० विराडनुष्टुप् ॥

पञ्चविंशत्युचं सूक्तम् ॥

युवोरु पू रथं हुवे सधस्तुत्याय सूरिपु ।

अतूर्त्तदक्षा वृषणा वृषणवसू ॥ १ ॥

भा०—हे (वृषणवसू) सुखप्रद, धन और बलवान् पुरुष रूप धन से धनी प्रधान नायक पुरुषो! राजा प्रजा वा पति पत्नी जनो! आप दोनों (वृषणा) बलवान्, उत्तम सुखों और वीर्यादि के सेक्ता और (अतूर्त्त-दक्षा) न नष्ट होने वाले स्थायी बल सामर्थ्य से युक्त होवो। (सूरिपु) विद्वान् पुरुषों के बीच में (सध-स्तुत्याय) एक साथ मिलकर स्तुति प्राप्त करने के लिये (युवोः) तुम दोनों को (रथं) उत्तम उपदेश, उत्तम आचार, उत्तम रमणकारी साधन रथादि (सु-हुवे उ) उत्तम रीति से प्रदान करूं।

युवं वरो सुषाम्णे महे तने नासत्या ।

अवोभिर्याथो वृषणा वृषणवसू ॥ २ ॥

भा०—हे ( नासत्या ) कभी असत्य भाषण और असत्याचरण न करने वाले, वा नासिकावत् प्रमुख पुरुषो ! हे ( वृषणा ) बलवान् ! वीर्यवान्, ( वृषण्वसू ) सुखप्रद, बलवान् धन, जन के स्वामियो ! हे ( वरो ) दोनों वरण करने योग्य, श्रेष्ठ जनो ! ( युवं ) आप दोनों (सुपा-ग्णे ) सुखप्रदाता, निष्पक्षपात, सर्वोपरि विराजमान प्रभु के ( महे तने ) बड़े विस्तृत राज्य में ( अवोभिः ) रक्षासाधनों, ज्ञानों और रथादि से ( याथः ) गमनागमन करो !

ता वामिद्य ह्वामहे ह्वयेभिर्वाजिनीवसू ।

पूर्वोरिष इपयन्तावति क्षपः ॥ ३ ॥

भा०—हे ( वाजिनी-वसू ) ऐश्वर्ययुक्त भूमि, ज्ञानयुक्त विद्या और बलयुक्त सेना को बसाने, बसाने और उनको धनवत् पालने वाले राजा प्रजा जनो ! ( पूर्वीः ) पूर्व की, नाना, वा पूर्ण, राज्यादि के पालक ( इपः ) सेना और नाना उत्तम अभिलाषाओं और पूर्ण अभिलाषा योग्य अन्नादि समृद्धियों को ( इपयन्तौ ) चाहते हुए ( ता वाम् ) उन आप दोनों का ( भति क्षपः ) रात्रि व्यतीत कर प्रातः, वा नाशकारिणी, शत्रु सेनाओं को पार करके बाद ( ह्वयेभिः ) उत्तम अन्नों और वचनों से ( ह्वामहे ) सत्कार करें ।

आ वां वाहिष्ठो अश्विना रथो यातु श्रुतो नरा ।

उप स्तोमान्त्तुरस्य दर्शथः श्रिये ॥ ४ ॥

भा०—हे (अश्विना)अश्व के स्वामी, रथी सारथीवत् राजा सचिव जनो ! वा स्त्री पुरुषो ! वा माता पिता गुरु जनो ! हे (नरा) सन्मार्ग से लेजाने वालो ! ( वां ) तुम दोनों का (वाहिष्ठः ) ज्ञान प्राप्त कराने वाला (रथः) रमणीय ( श्रुतः ) श्रवण करने योग्य उपदेश हमें ( रथः ) रथवत् ( आ यातु ) प्राप्त हो । आप दोनों ( तुरस्य ) सर्वदुःखनाशक प्रभु के ( स्तोमान् ) उपदेश किये वेद मन्त्रों का ( श्रिये ) अपने आश्रय वा

शोभा, और ज्ञान धनादि समृद्धि के लिये ( उप दर्शयः ) गुरु देवादि की उपासना द्वारा ज्ञान किया करो ।

जुहुराणा चिदश्विना मन्येथां वृषण्वसू ।

युवं हि रुद्रा पर्पथो अति द्विषः ॥ ५ ॥ २६ ॥

भा०—हे ( वृषण्वसू ) बलवान् प्राणों वाले ! हे बलवान् पुरुषो ! और सुखप्रद धनों के स्वामियो ! हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय पुरुषो ! हे 'अश्व' अर्थात् राष्ट्र एवं बलवान् अश्व सैन्यादि के स्वामियो ! आप दोनों ( जुहुराणा चित् ) कुटिलता करने वालों को भी अच्छी प्रकार (मन्येथाम्) जानों, उनको दुष्टता करने से रोको । हे ( रुद्रा ) दुष्टों को रलाने वाले, दुःखों को दूर भगाने वाले जनो ! ( युवं हि ) तुम दोनों अवश्य ही ( द्विषः ) द्वेष करने वाले, अप्रिय शत्रुओं और रोगादि, काम क्रोधादि को ( अति पर्पथः ) पराजित किया करो । इति षड्विंशो वर्गः ॥

दत्त्वा हि विश्वमानुषङ्मक्षूभिः परिदीयथः ।

धियञ्जिन्वा मधुवर्णा शुभस्पती ॥ ६ ॥

भा०—हे ( दत्त्वा ) दर्शनीय, रूपवान्, चरित्रवान्, दुष्टों के नाश करने वाले, ( धियञ्जिन्वा ) अपने उत्तम कर्मों से सबको प्रसन्न करने वाले, ( मधुवर्णा ) मधुर वर्ण, कान्तिमान् रूपवान्, वा मधु द्वारा एक दूसरे को वरने वाले वा मधुर शब्दों को बोलने वाले, ( शुभस्पती ) उत्तम शोभा-जनक अलंकार युक्त पति पत्नी एवं स्वामी जनो ! आप दोनों ( आनुषक् ) सदा साथ रहते हुए ( मक्षुभिः ) शीघ्रगामी रथों से ( विश्वम् परिदीयथः ) समस्त संसार का, वा सब काल में परिश्रमण करो ।

उप नो यातमश्विना राया विश्वपुषा सह ।

मधवाना सुवीरावनपच्युता ॥ ७ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) अश्वदि सैन्यों, वा राष्ट्र के स्वामी जनो ! आप दोनों ( विश्वपुषा राया सह ) सबके पोषणकारी ऐश्वर्य के साथ



( नः उप यातम् ) हमें प्राप्त होवो ॥ तुम दोनों ( मघवाना ) उत्तम, पूज्य धन से युक्त, ( सु-वीरौ ) उत्तम, पूज्य वीर, बलवान् एवं विद्यावान्, और ( अनपच्युतौ ) दृढ़ एवं कुमार्ग में न जाने वाले होवो ।

आ मे अस्य प्रतीव्यमिन्द्रनासत्या गतम् ।

देवा देवेभिरद्य सचनस्तमा ॥ ८ ॥

भा०—हे ( इन्द्र-नासत्या ) ऐश्वर्ययुक्त एवं कभी असत्याचरण न करने वाले स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( देवा ) एक दूसरे की सदा चाहना करने वाले, शुभ गुणयुक्त, विद्वान् ( सचनस्तमा ) परस्पर बहुत अधिक दृढ़ सम्बन्ध से सम्बद्ध होकर ( मे ) मुझ ( अस्य ) इस प्रियजन के ( प्रतीव्यम् ) पुनः रक्षण करने वाले गृह को ( देवेभिः ) अन्य प्रिय, विद्वान् जनों और शुभ गुणों सहित, सूर्य और वायु के समान ( आ गतम् ) आवो ।

वयं हि वां हवामह उक्षण्यन्तो व्यश्ववत् ।

सुमतिभिरुप विप्राविहा गतम् ॥ ९ ॥

भा०—जिस प्रकार ( वि-अश्ववत् ) विशेष अश्वसैन्य का स्वामी बलवान् स्त्री पुरुषों को राष्ट्र के शासनादि कार्य के लिये चाहता है उसी प्रकार ( वयं हि ) हम भी ( उक्षण्यन्तः ) उत्तम सन्तानोत्पादक, वीर्य से विजारों के समान दृढ़, दृष्टपुष्ट बलवान् पुरुषों को चाहते हुए, ( वां हि ) आप दोनों ऐश्वर्यवान्, असत्य व्यवहार से रहित स्त्री पुरुष वर्गों, या प्रजाराजवर्गों को ( हवामहे ) प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों ( विप्रौ ) बुद्धिमान्, धनादि से विशेष पूर्ण होकर ( सुमतिभिः ) उत्तम बुद्धियों सहित ( उप आगतम् ) हमें प्राप्त होवो ।

अश्विना स्वृषे स्तुहि कुवित्ते श्रवतो हवम् ।

नेदीयसः कूळयातः पुरीरुत ॥ १० ॥ २७ ॥

भा०—हे ( ऋषे ) विद्वन् ! विद्या व्यवहारादि के द्रष्टा ! तू ( अश्विनौ )

राष्ट्र, सेना के स्वामी वा जितेन्द्रिय स्त्री पुरुष वर्गों को (सुस्तुहि) अच्छी प्रकार उपदेश कर, उनकी अच्छी प्रशंसा कर। (ते) तेरे (हवम्) वचन को वे दोनों (कुवित् श्रवतः) बहुत बार श्रवण करते हैं। (उत्) और दोनों (नेदीयसः पणीन्) समीपस्थ उपदेष्टा एवं व्यवहारवान् पुरुषों को (कूलयातः) तट के समान आश्रय और नदीवत् मर्यादा प्रजा को स्थापित करते हैं। इति सप्तविंशो वर्गः ॥

वैयश्वस्य श्रुतं नरोतो मे अस्य वेदथः।

सजोषसा वरुणो मित्रो अर्यमा ॥ ११ ॥

भा०—हे (नरा) उत्तम नेताओ ! हे स्त्री पुरुषो ! आप लोग (वैयश्वस्य) विविध अश्वों के स्वामी, विविध इन्द्रियों के साधक जितेन्द्रिय राजा वा विद्वान् के आज्ञा वा उपदेश वचन (श्रुतं) श्रवण किया करो। (उतो) और (मे अस्य) मुझ इस प्रिय प्रजाजन को भी (वेदथः) जाना करो। (वरुणः) सर्वश्रेष्ठ मित्र, स्नेही और (अर्यमा) उत्तम जनों का स्वामी, उनका आदरकर्ता, दुष्टों का नियन्ता पुरुष (सजोषसा) समान प्रीति से युक्त हों। वे प्रजा के व्यवहार जानें।

युवादत्तस्य धिष्ण्या युवानीतस्य सूरिभिः।

अहरहवृषणा मह्यं शिक्षतम् ॥ १२ ॥

भा०—हे (धिष्ण्या) स्तुतियोग्य, बुद्धियुक्त, उत्तम आसनाहं के योग्य हे (वृषणा) उत्तम ज्ञान, सुख, धनैश्वर्य बल-वीर्यादि के वर्षण करने वाले, बलवान् एवं माता पितावत् पालक प्रबन्धकर्ता जनो ! आप लोग (युवादत्तस्य) आप दोनों से देने योग्य, और (युवानीतस्य) आप दोनों से प्राप्त कराने और सिखाने योग्य ज्ञान और ऐश्वर्य (सूरिभिः) विद्वानों द्वारा (मह्यं) मुझ प्रजाजन को पुत्रवत् (अहरहः) दिन प्रति दिन (शिक्षत्) दो और सिखाओ।

यो वां यज्ञभिरावृतोऽधिवस्त्रा वधूरिव।

सपर्यन्ता शुभे चक्राते अश्विना ॥ १३ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) अश्व, व्यापक तेजस्वी किरणों वाले सूर्य चन्द्र-  
वत् वा दिन रात्रिवत् पति पत्नी जनो ! ( यः ) जो पुरुष ( अधिवस्त्रा वधूः  
इव ) अधिक वा उत्तम वस्त्र धारण करने वाली नव-वधू के समान स्वयं भी  
( अधिवस्त्रः ) ऊपर उत्तरीय वस्त्र धारण कर या उत्तम 'वस्त्र' अर्थात् रहने  
योग्य गृह का अधिकारी होकर ( वां ) आप दोनों के योग्य ( यज्ञेभिः )  
दान, सत्संग, पूजा सत्कारादि से ( आवृतः ) अपने को ढकलेता है उस  
विद्वान् की ( सपर्यन्ता ) सेवा शुश्रूषा करने वाले आप दोनों ( शुभे )  
शुभ कर्म या फल के लिये ( चक्राते ) यत्न करो ।

यो वा॑ मुरु॒व्यच॑स्तमं॒ चिके॑तति नृ॒पाय्य॑म् ।

व॒र्तिर॑श्विना परि॑ यातमस्म॒यू ॥ १४ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) सूर्य चन्द्रवत् तेजस्वी पुरुषो ! ( यः ) जो  
( वाम् ) आप दोनों के ( नृ-पाय्यम् ) मनुष्यों के पालक और नायक जनों  
से रक्षा करने योग्य ( उरु-व्यचसम् ) अति अधिक व्यापक ( वर्तिः )  
व्यवहार को ( चिकेतति ) जानता है ( अस्मयू ) हमें चाहने वाले आप  
दोनों उसको ( परि यातम् ) प्राप्त होवो ।

अ॒स्मभ्यं॑ सु वृष॒णव॑सू या॒तं व॒र्तिर्नृ॑पाय्य॑म् ।

वि॒षुद्दु॑हे॒व य॒ज्ञमू॑हथु॒र्गिरा ॥ १५ ॥ २८ ॥

भा०—हे ( वृषण्वसू ) बलवान् पुरुषों के स्वामी जनो ! हे प्रजा-  
जनों में बलवान् प्रबन्धक जनो ! आप दोनों ( अस्मभ्यम् ) हमारे हितार्थ  
ही ( नृ-पाय्यं ) मनुष्यों के पालन करने वाले ( वर्तिः ) व्यवहार को  
( सु-यातम् ) अच्छी प्रकार प्राप्त करो । जिस प्रकार ( वि-सु-द्दुहा, विषु =  
द्दुहा गिरा यज्ञम् इव ) विविध अर्थदात्री या विविध वादप्रतिवाद वाली  
वाणी से जिस प्रकार ( यज्ञम् ) उपास्य प्रभु की तर्क द्वारा विवेचना की  
जाती है उसी प्रकार ( वि-सु-द्दुहा इव ) विविध प्रकार के परस्पर काटने  
वाली, विवादग्रस्त, एक दूसरे का प्रतिवाद करने वाली ( गिरा ) वाणी से

( यज्ञम् ) प्राप्त करने योग्य, निर्णय रूप से देने योग्य सत्य तत्त्व को  
( ऊहथुः ) तर्क वितर्क द्वारा प्राप्त करो । इत्यष्टाविंशो वर्गः ॥

वाहिष्ठो वां हवानां स्तोमो दूतो हुवन्नरा ।

युवाभ्यां भूत्वश्विना ॥ १६ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) सूर्य चन्द्रवत् तेजस्वी पुरुषो ! हे ( नरा )  
नायक जनो ! ( हवानां ) ग्राह्य उपदेशों, ज्ञानों को ( वाहिष्ठः ) उत्तम  
रीति से अन्यों तक पहुंचाने वाला ( स्तोमः ) वेदमन्त्रों का समूह (वां)  
तुम दोनों को ( दूतः हुवत् ) उत्तम संदेशहर के समान ज्ञानप्रद हो,  
और वह सदा ( युवाभ्यां ) तुम दोनों के लिये हितकारी ( भूतु ) होवे ।

यद्ददो दिवो अर्णव इषो वा मदथो गृहे ।

श्रुतमिन्मे अमर्त्या ॥ १७ ॥

भा०—हे ( अमर्त्या ) साधारण मनुष्यों से भिन्न असाधारण पुरुषो !  
( यत् ) जो आप दोनों ( अदः ) उस ( दिवः ) परम ज्ञानमय, तेजोमय  
प्रभु के ( अर्णवे ) सागरवत् आनन्द में वा ( इषः ) अन्न, और नाना  
कामना आदि के ( गृहे ) इस गृह या देह में ( मदथः ) प्रसन्न,  
सुखी, आनन्दवान् होवो तो भी ( मे ) मुझ आत्मा के विषय में, वा विद्वान्  
ज्ञानी का वचन अवश्य ( श्रुतम् इत् ) श्रवण किया करो ।

उत स्याश्वेतयावरी वाहिष्ठा वां नदीनाम् ।

सिन्धुर्हिरण्यवर्तनिः ॥ १८ ॥

भा०—( श्वेतयावरी नदीनां वाहिष्ठा ) नदियों में से जिस प्रकार  
हिमाच्छादित पर्वत से चलने वाली नदी अति वेग से जाने वाली होती है,  
उसी प्रकार ( नदीनां ) उपदेश देने वाली वाणियों में से ( उत ) भी  
( स्या ) वह, सब दुःखों को काटने वाली और ( श्वेत-यावरी ) श्वेत, शुक्ल,  
विशुद्ध प्रभु से आने वा उस तक पहुंचा देने वाली वेदवाणी ही ( वां  
वाहिष्ठा ) तुम को अतिशय सुख देने और उद्देश्य तक पहुंचा देने में सर्वश्रेष्ठ

है । ( हिरण्य-वर्त्तनिः सिन्धुः ) जिस प्रकार हिरण्य अर्थात् लोह के बने मार्ग पर चलने वाला रथ वेग से जाने वाला तुम्हें उद्देश्य तक अच्छी प्रकार पहुँचाने का उत्तम सवारी होता है उसी प्रकार ( हिरण्य-वर्त्तनिः ) हित रमणीय, व्यवहारवान् ( सिन्धुः ) समुद्रवत् गम्भीर पुरुष ही ( वां वाहिण्डः ) तुम दोनों को उद्देश्य तक पहुँचाने में समर्थ होता है । (२) उसी प्रकार हे स्त्री पुरुषो ! (वां) तुम दोनों में से (श्वेत-यावरी) सर्वोत्तम विशुद्ध ज्ञानमार्ग वा सदाचार मार्ग से जाने वाली स्त्री (नदीनां वाहिण्डा) सर्वश्रेष्ठ समृद्धियों को लाने वाली होती है और तुम में से जो पुरुष (हिरण्य-वर्त्तनिः) हित, रमणीय व्यवहार मार्ग से चलता, सुवर्णादि का व्यवहार-व्यापार करता है वह पुरुष ( सिन्धुः ) सम्पदाओं को बाँधने और धारण करने वाला होता है । सिन्धुः—सिनाति दधाति च । पिञ् वन्धने ।

स्मद्वेतया सुकीर्त्याश्विना श्वेतया धिया ।

वहेथे शुभ्रयावाना ॥ १९ ॥

भा०—पूर्व मन्त्र में कहे 'श्वेतयावरी' को और स्पष्ट करते हैं । हे (शुभ्र-यावाना) शुभ्र, शुद्ध, शोभायुक्त, शिष्टसम्मत पवित्र मार्ग से जाने वाले ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( एतया ) इस (श्वेतया) निर्दोष कलंकरहित ( सु-कीर्त्या ) उत्तम कीर्ति युक्त, ( धिया ) धी, वाणी, ज्ञानोपदेश, सन्मति और सत् कर्म, शक्ति से ( स्मत् ) उत्तम २ फलों को ( वहेथे ) प्राप्त करो ।

युक्त्वा हि त्वं रथासहा युवस्व पोष्या वसो ।

आन्नो वायो मधुं पिवास्माकं सवना गहि ॥ २० ॥ २९ ॥

भा०—हे ( वसो ) वसु ! ब्रह्मचारिन् ! विद्वन् ! ( त्वं ) तू ( हि ) अवश्य (रथ-सहा) रथ को उठाने में समर्थ, अश्वों के समान अपने इन्द्रिय और मन दोनों को ( युक्त्वा ) सन्मार्ग में लगा । और ( पोष्या ) पोषण करने योग्य, दृढ़ अंगों को ( युवस्व ) कार्यों में योजित कर । इसी प्रकार

प्रजा का बसाने वाला विद्वान् वा राजा भी रथ में लगाने योग्य अश्वों के समान ही स्त्री पुरुषों को राष्ट्रकार्य में वा गृहस्थ में जोड़े और उनको मिलावे । हे ( वायो ) वायुवत् चलशालिन् ! वा ज्ञान के इच्छुक, ज्ञान देने वाले ! ( आत् ) अनन्तर तू ( नः ) हमारे ( मधु ) मधुर जल, अन्न और मधुपर्क आदि का पान, उपभोग कर । और ( अस्माकम् ) हमारे ( सबना ) यज्ञों, गृहों आर ऐश्वर्यों को ( आ गहि ) प्राप्त कर । इत्ये-  
कीर्तिशो वर्गः ॥

तव वायवृतस्पते त्वष्टुर्जामातरद्भुत ।

अवांस्या वृणीमहे ॥ २१ ॥

भा०—हे ( वायो ) जलपालक ! आकाश गतवायु के समान ( ऋतः-पते ) सत्यज्ञान, धन, यज्ञ और तेज के पालक ! हे ( अद्भुत ) अभूतपूर्व आश्चर्यजनक ! ( जामातः ) प्रजादि के उत्पन्न करने हारे ! हे ( वायो ) वायुवत् प्राणप्रद ! बलवन् ! सर्वगत ! हम ( त्वष्टुः तव ) सूर्यवत् देदीप्यमान, जगत् के कर्त्ता तेरे ( अवांसि ) ज्ञानों, रक्षाओं, वृत्ति आनन्द-दायक सुखों की ( वृणीमहे ) प्रार्थना याचना करते हैं । ( २ ) हे ज्ञानवन् बलवन् ! अभूतपूर्व जामातः ! अविवाहितनवयुवक ! हम तेरे ( अवांसि ) सुखदायक आगमनों को चाहते हैं । श्वशुर सदा कन्या के लिये अभूतपूर्व अविवाहित जमाई को ही चाहे, वही 'त्वष्टा', प्रजा का उत्पादक होवे ।

त्वष्टुर्जामातरं वयमीशानं राय ईमहे ।

सुतावन्तो वायुं द्युम्ना जनांसिः ॥ २२ ॥

भा०—( वयं ) हम ( द्युम्नाः ) धन, यश से सम्पन्न ( सुतावन्तः, सुतावन्तः ) पुत्र पुत्री वाले मनुष्य, ( त्वष्टुः ) समस्त कार्यसाधक, तेजोयुक्त ( रायः ईशानं ) धन के स्वामी, ( जामातरं ) नाती के उत्पादक जामाता, जंवाई को ( ईमहे ) प्राप्त करें । ( २ ) हम यशस्वी, ऐश्वर्यवान् जन

उत्तम ऐश्वर्यादि के स्वामी (जामातरम्) सर्व जगदुत्पादक प्रभु से (हूमहे) याचना करें ।

वायो॑ याहि॑ शिवा॑ दिवो॑ वह॑स्वा सु॑ स्वश्व्य॑म् ।

वह॑स्व महः॑ पृथु॑पक्ष॑सा रथे॑ ॥ २३ ॥

भा०—हे (वायो) ज्ञानवन् ! बलवन् ! हे (शिव) कल्याणकारिन् ! हे जगत् को सूत्रवत् गूँथने वाले प्रभो ! तू (दिवः) समस्त सूर्यादि लोकों को (याहि) सञ्चालित कर, उनको प्राप्त कर और (सु-अश्व्यम्) उत्तम सूर्यादि युक्त जगत् को (वहस्व) धारण कर । और (रथे) रथ में (पृथु-पक्षसा = पृथु-वक्षसा) विस्तृत पार्श्वों वाले दो अश्वों को जैसे वीर हांक्ता है उसी प्रकार तू भी (पृथु-पक्षसा) महान् जगत् के वशकारक बल से (महः वहस्व) महान् संसार को धारण कर । लिङ्ग-विभक्ति-वचनादि श्लेषः । (२) इसी प्रकार हे बलवान् राजन् ! तू (दिवः स्वश्व्यम्) भूमि के उत्तम अश्व सैन्य को सञ्चालित कर । बड़े वक्षःस्थल वाले अश्वों को रथ में जोड़ ।

त्वां हि सु॒प्सर॑स्तमं नृ॒षद॑नेषु हूमहे ।

ग्रावा॑णं नाश्व॑पृष्टं मंहना॑ ॥ २४ ॥

भा०—हे प्रभो ! हम लोग (सुप्सरस्तमं) उत्तम, पूज्य रूप कान्ति वाले ! वा कान्तियुक्त तेजस्वियों में सर्वश्रेष्ठ (त्वा हि) तुझ को ही (नृ-सदनेषु) सब मनुष्यों के सञ्चालन कार्यों में या मनुष्यों के गृहों में (हूमहे) तेरी ही स्तुति करते, तुझे ही पुकारते हैं । और तुझ को (अश्व-पृष्ठं) सूर्य के द्वारा सेचन समर्थ (मंहना) महान् सामर्थ्य से युक्त मेघ के सदृश, (अश्व-पृष्ठं) बड़े २ विद्वानों के ऊपर विद्यमान (ग्रावाणं न) सर्वोपदेष्टा गुरुवत् (हूमहे) स्वीकार करते हैं । (२) इसी प्रकार अश्वों के बल पर पुष्ट 'ग्राव' अर्थात् शस्त्रबलयुक्त राजा को हम मनुष्यों में से वसे राष्ट्रों में राजा रूप से स्वीकार करें ।

स त्वं नो देव मनसा वायो मन्दानो अग्रियः ।

कृधि वाजाँ अपो धियः ॥ २५ ॥ ३० ॥

भा०—हे (देव) प्रभो ! सर्व सुखों के दातः ! हे (वायो) सर्वप्राण ! सर्वसञ्चालक ! ( सः त्वं ) वह तू ( अग्रियः ) सर्वश्रेष्ठ, ( नः मनसा मन्दानः ) हमें ज्ञान से वृत्त, आनन्दित करता हुआ, ( वाजान् अपः धियः कृधि ) सज, ऐश्वर्य, ज्ञान और कर्म प्रदान कर । इति त्रिंशो वर्गः ॥

[ २७ ]

मनुर्वेवस्वत ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः—१, ७, ६ निचृद् वृहती । ३ शङ्कुमती वृहती । ५, ११, १३ विराड् वृहती । १५ आर्ची वृहती ॥ १८, १९, २१ वृहती । २, ८, १४, २० पंक्तिः । ४, ६, १६, २२ निचृत् पंक्तिः । १० पादानिचृत् पंक्तिः । १२ आर्ची स्वराट् पंक्तिः । १७ विराट् पंक्तिः ॥ द्वाविंशत्यृचं सूक्तम् ॥

अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो बर्हिर्ध्वरे ।

ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पतिं देवाँ अवो वरेण्यम् ॥ १ ॥

भा०—( अध्वरे ) अविनाशी ( उक्थे ) [ उत्तम वेदवचन और ईश्वरविषयक ज्ञानोपदेश प्राप्त करने के लिये ( अग्निः ) ज्ञानी पुरुष ( पुरोहितः ) आगे अग्रासन पर स्थापित हो, और ( ग्रावाणः ) उपदेष्टा-जन और ( बर्हिः ) यज्ञ वा आकाश वा सूर्यवत् तेजस्वीजन भी अग्रासन पर स्थापित हों । मैं ( ऋचा ) वेदवचन, अर्चा सत्कार सहित, ( मरुतः ) विद्वान् पुरुषों और ( ब्रह्मणः पतिम् ) वेद और ब्रह्मज्ञान के पालक विद्वान् और ( देवान् ) ज्ञानप्रकाशक पुरुषों से ( वरेण्यम् ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ ( अवः ) ज्ञान की ( यामि ) याचना करूँ और उनसे उस ज्ञान को प्राप्त करूँ ।



आ पशुं गांसि पृथिवीं वनस्पतीनुपासा नक्तमोपधीः ।

विश्वे च नो वसवो विश्ववेदसो धीनां भूत प्रादितारः ॥ २ ॥

भा०—हे विद्वन् ! तू ( पशुम् ) पशु को, ( पृथिवीम् ) भूमि को और ( वनस्पतीन् ) वड़े २ वृक्षों को और ( ओपधीः ) अन्न लतादि को ( उपासानक्तम् ) दिन रात, प्रातः सायं ( आ गांसि ) प्राप्त किया कर । हे ( विश्व-वेदसः ) सब प्रकार के ज्ञानों को जानने वाले ( वसवः ) राष्ट्रवासी ज्ञानी पुरुषो ! आप लोग ( विश्वे ) सब ( नः धीनां ) हमारी बुद्धियों और सत्कर्मों के ( प्र-अदितारः भूत ) उत्तम रीति से रक्षक होकर रहो ।

प्र सू न एत्वध्वरोऽशा देवेषु पूर्यः ।

आदित्येषु प्र वरुणे धृतव्रते मरुत्सु विश्वभानुषु ॥ ३ ॥

भा०—( अध्वरः ) जो हिंसारहित, नित्य, स्थायी यज्ञ ( अग्ना ) ज्ञानवान् पुरुष, अश्रिवत् प्रकाशस्वरूप परमेश्वर और ( देवेषु ) अग्नि, भूमि, जलादि तत्त्वों, सूर्यादि लोकों और विद्वान् दाताजनों में ( पूर्यः ) पूर्व भी विद्यमान होता रहा, वह ( नः प्र एतु ) हमें अच्छी प्रकार, उत्तम-फलदायक होकर प्राप्त हो । इसी प्रकार ( आदित्येषु ) १२हों महीनों में या पूर्ण ब्रह्मचारियों में ( धृत-व्रते ) व्रतों सत्-कर्मों के धारण व्यवस्थित करने वाले पुरुष के अधीन और ( विश्व-भानुषु ) सब तेजों, प्रकाशों को धारण करने वाले ( मरुत्सु ) विद्वान् और बलवान् पुरुषों में है वह भी ( नः प्र एतु ) हमें प्राप्त हो ।

विश्वे हि ष्मा मनवे विश्ववेदसो भुवन्वृधे रिशादसः ।

अरिष्टेभिः प्रायुभिर्विश्ववेदसो यन्ता नोऽवृकं छुर्दिः ॥ ४ ॥

भा०—( विश्वे ) सब ( विश्व-वेदसः ) समस्त ज्ञानों और ऐश्वर्यों के स्वामी ( रिशादसः ) दुष्टों के नाशक लोग ( मनवे वृधे हि भुवन् )

मनुष्य की वृद्धि के लिये ही हों। हे ( विश्व-वेदसः ) समस्त ज्ञानों के ज्ञाता, सब धनों के धनी जनो ! आप लोग ( भरिष्टेभिः ) हिंसादि से रहित, ( पायुभिः ) पालनकारक उपायों से युक्त ( नः ) हमें ( भवृकं छर्दिः ) चोरादि कष्ट बाधा से रहित गृह ( यन्त ) प्रदान करो।

आ नो अद्य समनसो गन्ता विश्वे सजोपसः।

ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते सदने पस्त्ये महि ॥ ५ ॥ ३१ ॥

भा०—हे ( मरुतः ) विद्वान् मनुष्यो ! आप लोग ( विश्वे ) सब ( स-जोपसः ) समान प्रीतियुक्त और ( स-मनसः ) समान चित्त होकर ( नः अद्य आ गन्त ) आज हमें प्राप्त होवो। हे ( देवि ) विदुषि ! हे ( अदिते ) मातः ! तू भी ( ऋचा गिरा ) अर्चना योग्य सत्कारयुक्त वेद-चाणी से युक्त होकर ( सदने ) सभा भवन और ( महि पस्त्ये ) बड़े भवन में आओ। इत्येकत्रिंशो वर्गः ॥

अभि प्रिया मरुतो या वो अश्व्या हव्या मित्र प्रयाथन।

आ वहिरिन्द्रो वरुणस्तुरा नर आदित्यासः सदन्तु नः ॥ ६ ॥

भा०—हे ( मरुतः ) वीर, विद्वान् मनुष्यो ! हे ( मित्र ) स्नेहवान् जनो ! ( वः या प्रिया ) आप लोगों को जो प्रिय, ( अश्व्या ) अश्व आदि साधन और ( हव्या ) ग्रहण करने, दान देने और खाने योग्य, अन्न धनादि पदार्थ हैं उन सबको ( अभि प्रयाथन ) अच्छी प्रकार प्राप्त करो और अन्यों को प्राप्त कराया करो। ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् ( वरुणः ) श्रेष्ठ राजादि और ( तुराः नराः ) शीघ्रगामी और नायक जन एवं ( आदित्यासः ) लेन देन करने में कुशल वा तेजस्वी विद्वान् लोग, ( वहिः आ सदन्तु ) उत्तम आसन और राष्ट्र पर आदरपूर्वक विराजें।

वियं वो वृकवर्हिपो हितप्रयस आनुपक्।

सुतसोमासो वरुण हवामहे मनुष्वदिद्धाग्रयः ॥ ७ ॥

भा०—हे ( वरुण ) श्रेष्ठ पुरुषो ! ( वयम् ) हम लोग ( वृक्त-

वर्हिषः) दर्भ प्राप्त करके, (हित-प्रयसः) अन्न धारण करके (सुत-सोमासः) सोम का सवन करके ( इद्धाग्नयः ) अग्निमें प्रज्वलित करके ( वः ) आप श्रेष्ठ जनों को ( मनुष्वत् ) उत्तम ननुष्यों से युक्त यज्ञ में ( हवामहे ) आदरपूर्वक बुलावें । वा हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर तेरी उपासना, प्रार्थना करें ।

आ प्र यातु मरुतो विष्णो अश्विना पूषन्माकीनया धिया ।

इन्द्र आ यातु प्रथमः सनिष्युभिर्वृषा यो वृत्रहा गृणे ॥ ८ ॥

भा०—हे ( मरुतः ) विद्वान् और वीर जनो ! हे ( विष्णो ) व्यापक शक्तिशालिन् ! हे ( अश्विना ) रथीसारथिवत् जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप लोग ( माकीनया धिया ) मेरे कर्म, बुद्धि और स्तुति आदि से ( आ यात प्र यात) आया और जाया करो । ( सनिष्युभिः ) दान, वेतन ऐश्वर्यादि के इच्छुक लोग ( यः ) जिसे ( वृषा वृत्रहा ) बलवान्, सुखवर्षक मेघ के छेदक भेदक विद्युत्त्वत् दुष्टों का नाशक (गृणे) बतलाते हैं वह ( इन्द्रः ) सूर्य या विद्युत्त्वत् बलवान् तेजस्वी पुरुष (प्रथमः आ यातु)सबसे प्रथम, मुख्य होकर आवे ।

वि नो देवासो अद्रुहोऽच्छिद्रं शर्म यच्छत ।

न यद्दुराद्वसवो नू चिदन्तितो वरूथमादधर्षति ॥ ९ ॥

भा०—हे ( देवासः ) दानशील और उत्तम शुभ गुणों से युक्त, तेजस्वी, और विजयेच्छुक, एवं व्यवहारवान् पुरुषो ! आप लोग (अद्रुहः) द्रोहरहित होकर ( नः ) हमें ( अच्छिद्रं ) छिद्ररहित, त्रुटि दोषादि से रहित, अविच्छिन्न, निर्भय (शर्म) सुखप्रद, गृह वा शरण (वि यच्छत) विशेष रूप से प्रदान करो । हे ( वसवः ) प्रजा के वसने वसाने वाले ! मातृपितृवत् शासक जनो ! (यत् ) जिसे (न दूरात्) न दूर से और (नु चिद् अन्तितः) न पास से ही कोई उस दुःखवारक गृह, नगर, प्रकोट आदि को ( आ-दधर्षति ) हमसे छीन सके और न उस घर पर आक्रमण कर सके ।

अस्ति हि वः सजात्यं रिशादसो देवासो अस्त्याप्यम् ।

प्र णः पूर्वस्मै सुविताय वोचत मच्च सुम्नाय नव्यसे ॥१०॥३२॥

भा०—हे ( रिशादसः ) हिंसकों को नाश करने हारे ! ( वः ) आप लोगों की (सजात्यं अस्ति हि) जाति, उद्भव स्थान समान हो । हे (देवासः) विद्वान् मनुष्यो ! (वः आप्यम् अस्ति हि) तुम लोगों की परस्पर बन्धुता भी हो । आप लोग (मक्षू) शीघ्र ही (पूर्वस्मै) पूर्ण, पूर्व विद्यमान (सुविताय) ऐश्वर्य प्राप्त करने तथा उत्तम मार्ग में चलने, सदाचार पालन करने और (नव्यसे) नये, उत्तम सुख प्राप्त करने के लिये (नः प्रवोचत) हमें अच्छा २ उपदेश किया करें । इति द्वात्रिंशो वर्गः ॥

इदा हि व उपस्तुतिमिदा वामस्य भक्तये ।

उप वो विश्ववेदसो नमस्युरां असृक्ष्यन्यामिव ॥ ११ ॥

भा०—हे ( विश्व-वेदसः ) विश्व के धन के स्वामियो ! वा समस्त ज्ञानों और धनों को धारण करने वाले विद्वान् वीर पुरुषो ! मैं राजा (नमस्युः) 'नमस्' अर्थात् शत्रुओं को विनय की शिक्षा देने वाले दण्ड को अपने वश में करना चाहने वाला होकर ( वः ) आप लोगों को (वामस्य भक्तये) उत्तम ऐश्वर्य के सेवन करने के लिये ( इदा हि वः ) अब आप लोगों को ( अन्याम् उप स्तुतिम् इव ) नई से नई शिक्षा ( आ उप असृक्षि ) प्रदान करूँ ।

उदु ध्य वः सविता सुप्रणीतयोऽस्थादूर्ध्वो वरेण्यः ।

नि द्विपाद्श्चतुष्पादो अर्थिनोऽविश्रन्पतयिष्णवः ॥ १२ ॥

भा०—हे ( सु-प्र-णीतयः ) पूज्य, उत्तम नीति और व्यवहार वाले पुरुषो ! (स्यः सविता) वह सबका उत्पादक परमेश्वर (वरेण्यः) सबसे वरण करने योग्य, सबको श्रेष्ठ मार्ग में ले चलने हारा, (ऊर्ध्वः) ऊपर ( वः उत् अस्थात् ) आप सबके ऊपर अधिष्ठाता रूप में विराजमान है । और (पत-यिष्णवः) वेग से जाने और ऐश्वर्यों के स्वामी बनना चाहने वाले

( द्विपादः चतुष्पादः ) दो पाये और चौपाये भी ( अर्थिनः ) याचकवत् ( नि भविश्रन् ) उसके अधीन विराजते हैं ।

देवन्देवं वोऽवसे देवन्देवमभिष्टये ।

देवन्देवं हुवेम वाजसातये गृणन्तो देव्या धिया ॥ १३ ॥

भा०—हम लोग ( देव्या धिया ) उत्तम ज्ञानमय प्रकाश के देने वाली, सुखदायी ( धिया ) वाणी से ( वः गृणन्तः ) आप लोगों के प्रति उपदेश करते हुए ( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये ( देवं-देवम् ) सर्व सुखदाता, सर्वप्रकाशक प्रभु को और ( अभिष्टये ) अभीष्ट सुखादि को प्राप्त करने के लिये भी ( देवं-देवं ) सर्व प्रकाशक, सर्वप्रद, अति कमनीय प्रभु की और ( वाजसातये ) ऐश्वर्य, बल, अन्न और ज्ञान प्राप्त करने के लिये ( देवं-देवं ) सर्व सुखादि के दाता, ज्ञानप्रकाशक प्रभु की ( हुवेम ) प्रार्थना करें ।

देवासो हि ष्मा मनवे समन्यवो विश्वे साकं सरातयः ।

ते नो अद्य ते अपुरं तुचे तु नो भवन्तु वरिवोविदः ॥ १४ ॥

भा०—( समन्यवः देवासः ) ज्ञानवान्, और दानशील और तेजस्वी और ( विश्वे ) समस्त ( स-रातयः ) धनादि सम्पन्न पुरुष ( मनवे ) मननशील व्यक्ति के उपकार के लिये ही ( वरिवः-विदः भवन्तु ) उत्तम धन को प्राप्त कराने वाले हों । और ( ते ) वे ( अद्य ) आज ( नः ) हमें भी ( वरिवः-विदः भवन्तु ) धनदाता हों । ( अपुरं तु ) वाद में भी ( नः तुचे ) हमारे पुत्रादि के लिये भी ( वरिवः-विदः भवन्तु ) धनादि के दाता हों ।

प्र वः शंसाभ्यद्रुहः संस्थ उपस्तुतीनाम् ।

न तं धूर्तिर्वरुण मित्र मर्त्यो यो वो धामभ्योऽविधत् ॥ १५ ॥

भा०—हे ( अद्रुहः ) द्रोहरहित पुरुषो ! ( संस्थे ) एकत्र मिलकर बैठने के योग्य सभा आदि में ( उप-स्तुतीनां ) स्तुति योग्य ( वः ) आप लोगों की ( प्र शंसाभि ) प्रशंसा करता हूँ । ( यः मर्त्यः ) जो मनुष्य हे ( वरुण )

श्रेष्ठ, हे ( मित्र ) स्नेहवान् ! ( धामभ्यः ) उत्तम जन्म, स्थान और तेज को प्राप्त करने के लिये ( वः भविष्यत् ) आप लोगों की सेवा करता है ( तं ) उसको ( धूर्तिः ) किसी प्रकार की हिंसा या बाधा नहीं सत्ताती ।

प्र स क्षयं तिरते वि महीरिपो यो वो वराय दाशति ।

प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्पर्यरिष्टः सर्व एधते ॥ १६ ॥ ३३ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! ( यः ) जो मनुष्य ( वः ) आप लोगों को ( वराय ) श्रेष्ठ कार्य के लिये ( दाशति ) दान करता है ( सः ) वह ( क्षयं ) अपने गृहादि और ऐश्वर्य को ( प्र तिरते ) बढ़ा लेता है, वह ( महीः इपः प्र तिरते ) बहुत उत्तम अन्नों और उत्तम, वा बड़ी अभिलाषाओं को भी पूर्ण कर लेता है, वह ( सर्वः ) सब प्रकार से ही ( अरिष्टः ) आवाधित, दुःखरहित होकर ( धर्मणः परि ) धर्म के द्वारा ( प्रजाभिः प्र जायते ) प्रजाओं से प्रजावान् होता और ( परि एधते ) खूब बढ़ता है । इति त्रयस्त्रिंशो वर्गः ॥

ऋते स विन्दते युधः सुगेभिर्यात्यध्वनः ।

अर्यमा मित्रो वरुणः सरातयो यं त्रायन्ते सजोपसः ॥ १७ ॥

भा०—( अर्यमा ) शत्रुओं वा दुष्ट पुरुषों का नियन्ता न्यायवान्, ( मित्रः ) स्नेहवान् और ( वरुणः ) श्रेष्ठजन ( सरातयः ) दानशील, कृपालु और ( स-जोपसः ) प्रीतियुक्त होकर ( यं त्रायन्ते ) जिसकी रक्षा करते हैं ( सः ) वह राष्ट्रवासी जन ( युधः ऋते ) विना युद्ध के ही ( विन्दते ) ऐश्वर्य प्राप्त करता और ( सु-गेभिः ) उत्तम सुखप्रद यानों से ( अध्वनः याति ) मार्गों को जाता आता है ।

अज्ञे चिदस्मै कृणुथा न्यञ्चनं दुर्गे चिदा सुसरणम् ।

एषा चिदस्मादुशनिः पुरो नु सास्त्रेधन्ती वि नश्यतु ॥ १८ ॥

भा०—आप लोग ( अस्मै ) इस राष्ट्र वा जनलोक के हितार्थ हे विद्वानो ! वीर जनो ! ( अज्रे चित् ) न पराजित होने योग्य, शत्रु सैन्य, वा शत्रु नगर में भी ( नि-अञ्जनं कृणुथा ) नित्य आया जाया करो । और ( अस्मत् ) इस रक्षा योग्य जन से ( अशनिः ) विद्युत्त्वत् घातक शस्त्र अस्त्रादि वा (अशनिः) मार कर खाजाने वाली क्षुधा, वा महामारी आदिः फैलने वाली विपत्ति भी ( सास्त्रेधन्ती ) विनाश करती हुई बला, ( परः विनश्यतु ) दूर चली जाय ।

यद्द्य सूर्य उद्यति प्रियक्षत्रा ऋतं दध ।

यन्निष्प्रुचि प्रबुधि विश्ववेदसो यद्वा मध्यन्दिने दिवः ॥ १९ ॥

भा०—( यत् ) जिस प्रकार ( दिवः निष्प्रुचि ) सूर्य के अस्त काल में, ( प्रबुधि ) प्रबोध या उदयकाल में ( यद्वा ) अथवा ( मध्यन्दिने ) मध्याह्न में भी सूर्य की किरणें ( ऋतं दधे ) तेज को धारण किये ही रहती हैं उसी प्रकार हे ( विश्व-वेदसः ) वा समस्त धनों और ज्ञानों के स्वामियो ! हे विद्वानो और वीर पुरुषो ! आप लोग भी ( प्रियक्षत्राः ) 'क्षत्र' अर्थात् बल वीर्य, जल अन्नादि के प्रिय, तदभिलाषी जनो ! आप लोग भी ( अद्य ) आज ( सूर्ये ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष के अधीन वा ज्ञान के सूर्यवत् प्रकाशक आचार्य के ( उद्-यति ) उदय होने वा उत्तम यत्नवान् होने पर आप लोग ( नि-ष्प्रुचि ) निष्प्र गति, विनयशील होने पर सूर्यास्त होने के काल में ( प्रबुधि ) प्रबोध काल में, वा सूर्योदय काल में, ( यद्वा ) अथवा ( मध्यन्दिने ) मध्याह्न काल में ( ऋतं दधे ) ऋत अर्थात् सत्य न्याय, वेद, तेज और अन्न को धारण करो ।

यद्वाभिपित्वे असुरा ऋतं यते हृदियेम वि दाशुषे ।

वयं तद्वो वसवो विश्ववेदस उप स्थेयाममध्य आ ॥ २० ॥

भा०—हे ( असुरः ) बलवान्, दुष्टों को उखाड़ फेंकने में समर्थ वीर पुरुषो ! प्राणों के दाता वा प्राणों के अभ्यास में लगे विद्वानो ! आप

लोग (अपिपित्वे) प्राप्त होकर (यत् वा ऋतं वियेम) जो भी सत्य ज्ञान है उसे हम प्रदान करें और (यते दाशुपे) यत्न शील वा शरणागत, दानशील वा सेवक जन को भी (छर्दिः) आश्रय और ज्ञान दीसि (वि-येम) विशेष रूप में प्रदान करें। हे (वसवः) विद्वान जनो ! हे (विश्व-वेदसः) समस्त धनों और ज्ञानों के स्वामि जनो ! हम लोग भी (वः) आप लोगों के (मध्ये) बीच में (तत् छर्दिः) उस गृह वा शरण में (उप स्थेयाम) सदा उपस्थित रहें।

यद्दृष्ट्य सूर उदिते यन्मध्यन्दिन आतुचि ।

वामं धत्थ मनवे विश्ववेदसो जुह्वानाय प्रचेतसे ॥ २१ ॥

भा०—(यत्) जिस प्रकार (उद्-इते) उदय, को प्राप्त करते हुए और (मध्यन्दिने) मध्य दिन में (आ-तुचि) सब ओर संतापित करने वाले (सूरे) सूर्य के किरणोंवत् उसके समान तेजस्वी पुरुष के अधीन (यत् यत् वामं धत्थ) जिस २ उत्तम ज्ञान और धन को धारण करो उसको आप लोग (विश्व-वेदसः) समस्त धनों और ज्ञानों के स्वामी होकर, (जुह्वानाय) दान देने वाले और (प्र-चेतसे) उत्तम चित्त और उत्तम ज्ञानी पुरुष के लिये (धत्थ) दे दिया करो।

वयं तद्वः सम्राज आ वृणीमहे पुत्रो न बहुपाय्यम् ।

अश्याम तदादित्या जुह्वतो हविर्येन वस्योऽनशामहे ॥२२॥३४॥

भा०—हे (सम्-राजः) सम्मिलित होकर अतिदीप्ति से चमकने वाले किरणों वत् वीर पुरुषो ! (पुत्रः न) पुत्र के समान (वयं) हम लोग भी (वः) आप लोगों के (तत्) उस (बहु-पाय्यं) बहुतों के पालक, और बहुतों से भोग्य ऐश्वर्य की (आ वृणीमहे) याचना करते हैं ! हे (आदित्याः) सूर्य की किरणों वत् 'अदिति' भूमिमाता के सत्पुत्रो ! हम लोग (जुह्वतः) आहुति देने वाले यज्ञकर्ता की पवित्र



(हविः) अन्नवत् हम भी अपने दाता स्वामी के दिये (हविः) अन्न का (अश्रयमा) भोग करें (येन) जिससे हम भी (वस्यः) उत्तम धन को (अनशामहै) प्राप्त करें। इति चतुस्त्रिंशो वर्गः ॥

[ २८ ]

मनुर्वैवस्वत ऋपिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ इन्द्रः—१, २ गायत्री । ३, ५, विराड् गायत्री । ४ विराड्भृष्णिक् ॥ पञ्चर्च सूक्तम् ॥

ये त्रिंशति त्रयस्पुरो देवासो विहिरासदन् ।  
विदन्नहं द्वितासनन् ॥ १ ॥

भा०—(ये) जो (देवासः) तेजस्वी, उत्तम दानशील, और विजयेच्छुक, (त्रिंशति त्रयः) तीस ऊपर तीन अर्थात् संख्या में ३३ विद्वान् वीर जन, (विहिः आसदन्) यज्ञ, उत्तम आसन वा राष्ट्र के उत्तम पद प्राप्त करते हैं, वे (द्विता विदन्) सत् और असत् दोनों का ज्ञान करें। और (असनन्) निग्रह और अनुग्रह दोनों के देने वाले हों।

वरुणो मित्रो अर्यमा स्मद्रातिपाचो अग्रयः ।

पत्नीवन्तो वषट्कृताः ॥ २ ॥

भा०—(वरुणः) दुष्टों को वारण करने वाला और सज्जनों से वरण करने योग्य (मित्रः) और सर्वस्नेही, (अर्यमा) दुष्टों को दमन करने वाला न्यायकारी जन ये तीनों (अग्रयः) अग्रणी, प्रधान तेजस्वी पुरुष (स्मद्रातिपाचः) उत्तम कर वेतनादि धन का सेवन करने वाले और (पत्नीवन्तः) प्रजापालक शक्ति और नीति से युक्त होकर (वषट्कृताः) उत्तम सत्कार से युक्त हों।

ते नो गोपा अपाच्यास्त उदङ्क इत्था न्यक् ।

पुरस्तात्सर्वया विशा ॥ ३ ॥

भा०—( ते ) वे उक्त अधिकारी जन ( सर्वया विशा ) समस्त प्रजा से युक्त होकर ( नः ) हमारे ( अपाच्याः ) पश्चिम से, ( ते उद्क ) वे उत्तर से ( इत्थः ) और इसी प्रकार ( ते ) वे ( न्यक् पुरस्तात् ) नीचे से और आगे से भी ( गोपाः ) रक्षक हों ।

यथा वशन्ति देवास्तथेदसत्तदेपां नक्रिरामिनत् ।

अरावा चन मर्त्यः ॥ ४ ॥

भा०—( देवाः यथा वशन्ति ) विद्वान्, तेजस्वी, उत्तम जन जैसा चाहते हैं ( तेषां ) उनकी वह इच्छा ( तथा इत् असत् ) वैसी ही सफल होती है, ( मर्त्यः अरावा चन ) अदानशील, मूर्ख मनुष्य ( तेषां नक्रिः आमिनत् ) उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता ।

सप्तानां सप्त ऋष्टयः सप्त द्युम्नान्येषाम् ।

सप्तो अधि श्रियो धिरे ॥ ५ ॥ ३५ ॥

भा०—( सप्तानां ) वेग से आगे बढ़ने वाले वीरों और विद्वानों के ( ऋष्टयः सप्त ) हथियार और दृष्टियों भी सर्पणशील, और दूर २ तक वेग से जाने वाली हों । ( एषाम् द्युम्नानि सप्त ) इनके धन और यश भी फैलने वाले हों । वे ( सप्त उ श्रियः अधि धिरे ) वे व्यापक सम्पदाओं को ही धारण करें । अथवा विद्वानों और वीरों के सात विभाग, उनके सात प्रकार के आयुध और सात प्रकार के दर्शन और सात प्रकार के धन, और सात प्रकार की शोभाएं हैं । अध्यात्म में—शरीर में सात प्राणों की सात प्रकार की शक्तियां, सात प्रकार के तेज, और वे सात प्रकार की ही शोभाएं हैं । इति पञ्चत्रिंशो वर्गः ॥

[ २६ ]

मनुषैवस्वतः कश्यपो वा मारीच ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः—१, २ आर्ची गायत्री । ३, ४, १० आर्ची स्वराड् गायत्री । ५ विराड् गायत्री । ६—६ आर्ची सुरिङ्गायत्री ॥ नवचं सूक्तम् ॥

वभ्रुरेको विपुणः सूनरो युवाञ्ज्यङ्क्ते हिरण्यम् ॥ १ ॥

भा०—( वभ्रुः ) सबका भरण पोषण करने में समर्थ, ( वि-पुणः ) सब ओर जाने में समर्थ, ( सु-नरः ) उत्तम नेता, ( युवा ) बलवान् ( हिरण्यम् ) सुवर्ण के समान दीप्तियुक्त, सुन्दर ( अक्षि ) रूप को ( अंक्ते ) प्रकट करता है, वह विश्व में प्रभु, और देह में आत्मा है।

योनिमेक आससाद् द्योतनोऽन्तर्देवेषु मेधिरः ॥ २ ॥

भा०—( एकः ) एक अद्वितीय, ( मेधिरः ) सब शत्रुओं को हनन करने, सबके साथ संगति करने में समर्थ एवं उत्तम बुद्धिमान्, ( द्योतनः ) सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाला, ( देवेषु अन्तः ) इन्द्रियों के क्षेत्र, आत्मा के तुल्य, समस्त पृथिव्यादि पदार्थों के बीच में, ( योनिम् ) सब संसार के मूलकारण भूत प्रकृति को, गृह को गृहपति के समान ( आससाद् ) अध्यक्ष रूप से अपने वश करता है।

वाशीमेको विभर्ति हस्त आयसीमन्तर्देवेषु निध्रुविः ॥ ३ ॥

भा०—वह ( एकः ) अद्वितीय ( देवेषु अन्तः ) विद्वानों, विजये-च्छुकों के बीच सेनापतिवत्, प्राणों के बीच आत्मवत्, समस्त तेजो-मय एवं पृथिव्यादि तत्त्वों के बीच ( हस्ते ) अपने हाथ में ( आयसीम् वाशीम् ) सुवर्णमयी वंशी को गायक के समान, एवं लोह की बनी वसौली को शिल्पियों के समान, ( आयसीम् ) सबको संचालन करने में समर्थ ( वाशीम् ) ज्ञान वाणी वेद को वा सर्वसंचालिका, वशकारिणी प्रभुशक्ति को ( निध्रुविः ) स्थिर होकर, सबका धारक होकर ( विभर्ति ) धारण करता है।

वज्रमेको विभर्ति हस्त आहितं तेन वृत्राणि जिघ्रते ॥ ४ ॥

भा०—वह ( एकः ) एक अद्वितीय ( हस्ते आहितं वज्रम् ) हाथ में पकड़े शस्त्र के समान स्वयं ( वज्रम् ) वीर्य, बल को ( आहितं ) सर्वत्र व्यापक रूप से ( विभर्ति ) धारण करता है। ( तेन ) उससे वह ( वृत्राणि )

मेघस्थ जलों को विद्युत् के तुल्य, प्रकृति के आवरणकारा परमाणुओं को ( जिघ्नते ) आघात करता, उनमें स्पन्द उत्पन्न करता और संचालित करता है ।

तिग्ममेको विभर्ति हस्त आयुधं शुचिरुग्रो जलापभेषजः ॥ ५ ॥

भा०—वह ( एकः ) एक, अकेला, अद्वितीय, दूसरे की अपेक्षा न करने वाला, प्रभु ( शुचिः ) दीप्तिमान् शुद्ध पवित्र, ( उग्रः ) सबसे बलवान्, दुष्टों को भयदाता, ( जलाप-भेषजः ) जलवत् शान्तिदायक दुःख-नाशक, सब बाधाओं को दूर करने में समर्थ, वैद्य के समान, ही ( तिग्मम् ) तीक्ष्ण ( आयुधम् ) शस्त्र को ( हस्ते विभर्ति ) अपने हाथ में, उत्तम शल्यचिकित्सकवत् अपने वश में रखता है । वह उसका अत्यन्त विवेक से उपयोग करता है ।

पथ एकः पीपाय तस्करो यथा एष वेद निधीनाम् ॥ ६ ॥

भा०—( यथा तस्करः निधीनां वेद ) जिस प्रकार चोर खजानों का पता लगा लेता है वह ( पथः पीपाय ) मार्ग रोक रखता है उसी प्रकार ( एषः ) वह ( एकः ) अद्वितीय प्रभु ( पथः ) सब जीवों से प्राप्त करने योग्य मार्गों की, ( पीपाय ) रखवारी करता, वा ( पथः पीपाय ) सब नाना मार्गों से जाने वाले जीवों को पुष्ट करता है । वह ( यथा ) यथावत् ( तस्करः = तत्-करः ) उन नाना सृष्टि रचन, पालन, संहारादि अद्भुत कर्मों के करने हारा, प्रभु ( निधीनाम् ) समस्त ऐश्वर्यों को ( वेद ) स्वयं जानने, प्राप्त और अन्यों को प्राप्त कराने हारा है ।

त्रीण्येक उरुगायो वि चक्रमे यत्र देवासो मदन्ति ॥ ७ ॥

भा०—( यत्र ) जिनमें ( देवासः ) नाना सुखों की कामना करने वाले जीवगण, प्रकाशमान सूर्यादि लोक और विद्वान् जन ( मदन्ति ) आनन्द लाभ करते हैं, उन ( त्रीणि ) तीन लोकों को ( एकः ) एक, अद्वितीय ( उरु-गायः ) विशाल वाणी, वेद का स्वामी, महान् लोकों में व्यापक,

महान् कीर्त्तिमान् प्रभु ( वि-चक्रमे ) विशेष रूप से बनाता और उनमें व्यापता है ।

विभिर्द्वा चरत एकया सह प्र प्रवासेव वसतः ॥ ८ ॥

भा०—(प्रवासा इव एकया चरतः) जिस प्रकार दो प्रवासी एक स्त्री के साथ ( प्रवसतः ) प्रवास करें उसी प्रकार ( द्वा ) दो जीवात्मा और परमात्मा (विभिः) अपनी विषयभोग साधन इन्द्रियों, प्राणों, और ईश्वर व्यापक सामर्थ्यों से ( एकया सह ) एक प्रकृति के साथ एक काल में ही ( चरतः ) अच्छी प्रकार विचरते और ( प्र वसतः ) रहते हैं । जीव तो उस प्रकृति का उत्तम गृहस्थवत् भोग करता है और दूसरा ईश्वर उसमें व्यापक होकर भी प्रवासगत विरही पथिकवत् उससे निःसंग रहता है । इससे दोनों प्रवासीवत् हैं ।

सदो द्वा चक्राते उपमा दिवि सम्राजा सर्पिरासुती ॥ ९ ॥

भा०—( द्वा ) वे दोनों ( उपमा ) एक दूसरे के तुल्य होकर ही ( दिवि ) द्यौ अर्थात् जीव कामना में और प्रभु तेजोमय आनन्दमय मोक्ष में ( सदः चक्राते ) अपना स्थान बनाये रहते हैं । वे दोनों (सम्राजा ) खूब दीप्तिमान्, ( सर्पिः-आसुती ) घृत आसेचन योग्य दो अग्नि्यों के तुल्य हैं । प्रभु ( सर्पिः-आसुतिः ) सर्पणशील सूर्यादि लोकों का उत्पादक, और उनका संचालक है । इसी प्रकार जीव भी प्राणों का संचालक है ।

अर्चन्त एके महि साम मन्वत तेन सूर्यमरोचयन् ॥१०॥३६॥

भा०—( एके ) एक, विद्वान् जन ( अर्चन्तः ) उस प्रभु की अर्चना करते हुए (महि साम) बड़े भारी सर्वत्र समस्त, व्यापक बल को (मन्वत) जान लेते हैं और ( तेन ) उसी से वे ( सूर्यम् ) सर्वोत्पादक प्रभु को ( अरोचयन् ) सबसे अधिक चाहते हैं । इति षट्त्रिंशो वर्गः ॥

[ ३० ]

मनुर्वेवस्वत ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः—१ निचृद् गायत्री । २ पुर  
उष्णिक् । ३ विराड् बृहती । ४ निचृदनुष्टुप् ॥ चतुर्ऋचं सूक्तम् ॥

नहि वो अस्त्यर्भको देवासो न कुमारकः ।

विश्वे सतो महान्त इत् ॥ १ ॥

भा०—हे ( देवासः ) विद्वान् वीर पुरुषो ! हे जीवो ! ( वः ) आप  
लोगों में से कोई मी ( अर्भकः नहि अस्ति ) छोटा बच्चा नहीं, ( न  
कुमारकः ) न बालक है, वा ( कुमारकः ) कुत्सित उपायों से दूसरे को  
वा अपने आपको मारने वाला भी ( न अस्ति ) नहीं हो । आप ( विश्वे )  
सब लोग ( सतः महान्तः इत् ) सत् प्रकृति से महान् वा विद्यमान  
बड़े २ गुणों से अधिक शक्तिशाली हो ।

इति स्तुतासो असथा रिशादसो ये स्थ त्रयश्च त्रिंशच्च ।

मनेर्देवा यज्ञियासः ॥ २ ॥

भा०—( ये ) जो आप लोग ( मनोः ) मननशील और राष्ट्र को  
अपने वश में करने वाले ( यज्ञियासः ) यज्ञ, पूजा, सत्संगादि के योग्य  
( देवाः ) ज्ञानी, ( रिशादसः ) दुष्टों के नाशक ( त्रयः च त्रिंशत् च स्थ )  
तेतीस ( ३३ ) होते हो वे सब । ( इति ) इस प्रकार ( स्तुताः असथ )  
स्तुति युक्त, प्रशंसित होवो ।

ते नखाध्वं तेऽवत त उ नो अधि वोचत ।

मा नः पथः पिड्यान्मानवादिधि दूरं नैष्ट परावतः ॥ ३ ॥

भा०—( ते ) वे आप लोग ( नः त्राध्वम् ) हमारी रक्षा करो ।  
( ते अवत ) वे आप लोग हमें बचाओ । ( ते उ नः ) वे ही आप  
लोग हम पर ( अधि वोचत ) अध्यक्ष होकर आज्ञा या शासन करो  
और अधिकाधिक उपदेश किया करो । और आप लोग ( नः ) हमें (परा-

वतः ) दूर, परम प्रभु से चले आए ( पित्र्यात् ) पालक पिता के ( मान-  
वात् ) मनु, मननशील विद्वान् के बनाये ( पथः ) मार्ग से ( दूरं मा  
नैष्ट ) दूर मत लेजाओ, उससे हमें प्रथमप्रथम मत करो ।

ये देवास इह स्थन विश्वे वैश्वानरा उत ।

अस्मभ्यं शर्म सप्रथो गवेऽश्वाय यच्छत ॥ ४ ॥ ३७ ॥ ४ ॥

भा०—( इह ) इस लोक या राष्ट्र में ( ये देवासः स्थन ) जो  
विद्वान् विजयाभिलाषी वा ज्ञानादि के दाता हैं ( उत ) और जो ( विश्वे )  
सब ( वैश्वानराः ) सब के संचालक प्रभु के भक्त, वा सब मनुष्यों के  
हितैषी हैं, वे ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये और हमारे ( गवे अश्वाय ) गौ,  
घोड़े आदि पशुओं के लिये भी ( सप्रथः शर्म ) विस्तृत सुख और गृहादि  
( यच्छत ) प्रदान करो । इति सप्तत्रिंशो वर्गः ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

[ ३१ ]

मनुर्वेवस्वत ऋषिः ॥ १—४ इज्यास्तवो यजमानप्रशंसा च । ५—६ दम्पती ।

१०—१८ दम्पत्योराशिषो देवताः ॥ छन्दः—१, ३, ५, ७, १२ गायत्री ।

२, ४, ६, ८ निचृद् गायत्री । ११, १३ विराड् गायत्री । १० पादानिचृद्  
गायत्री । ९ अनुष्टुप् । १४ विराडनुष्टुप् । १५—१७ विराट् पंक्तिः ।

१८ आचीं भुरिक् पंक्तिः ॥

यो यजाति यजात इत्सुनवच्च पचाति च ।

ब्रह्मेदिन्द्रस्य चाकनत् ॥ १ ॥

भा०—( यः ) जो ( यजाति ) यज्ञ करता, दान देता, ईश्वरोपासना  
करता है ( यजाते इत् ) दान देता और पूजा ही करता चला जाता  
है, ( सुनवत् ) सोमरस का सम्पादन कर, उत्तम ऐश्वर्य लाभ करता,  
और ( पचाति च ) पाक यज्ञ करता, वा अपने आपको ज्ञानाम्नि, तप आदि  
में परिपक्व करता है । वह ( इन्द्रस्य ब्रह्म ) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु के महान्  
गुण-वचनों, वेद-वचनों को ( चाकनत् ) सदा चाहता है ।

पुरोळाशं यो अस्मै सोमं ररत आशिरम् ।

पादित्तं शक्रो अंहसः ॥ २ ॥

भा०—( यः ) जो परमेश्वर ( अस्मै ) इस समस्त संसार को ( आशिरं ) खाने योग्य ( पुरोडाशं ) पूर्व ही देने योग्य, अन्न ( सोमं ) ओषधिलतादि रूप में ( ररते ) प्रदान करता है वही ( शक्रः ) शक्तिशाली परमेश्वर ( तं ) उस संसार को ( अंहसः ) पाप, और नाश होने से भी ( पात् ) बचाता है । ( २ ) ( यः ) जो प्रजाजन इस शक्तिमान् राजा को ( सोमं ) ऐश्वर्य ( पुरोडाशं ) अन्नवत् भोगने के लिये प्रदान करता है शक्तिशाली राजा उस प्रजाजन को पाप वा पापी जन से नाश होने से बचावे ।

तस्य द्युमाँ असद्रथो देवजूतः स शूशुवत् ।

विश्वा वन्वन्नमित्रिया ॥ ३ ॥

भा०—( सः ) वह पूर्वोक्त शक्तिशाली स्वामी ( विश्वा ) सब प्रकार के ( अमित्रिया ) शत्रुओं के किये छल कपटादि के कार्यों को ( वन्वन् ) नाश करता हुआ ( देव-जूतः ) विद्वानों से सेवित होकर ( शूशुवत् ) बहुत वृद्धि को प्राप्त होता है । ( तस्य ) उसका ( रथः ) रथ भी ( द्युमान् ) कान्तियुक्त और ( देव-जूतः ) अग्नि, वायु, विद्युत् आदि पदार्थों से चलने वाला ( असत् ) होता है । ( २ ) वह विद्वान् सब अभिन्नभावों का नाश करता है, उसका ( रथः ) उपदेश ( देव-जूतः ) विद्याभिलाषियों से सेवित होकर ( द्युमान् ) अति तेजस्वी हो प्रसिद्ध हो जाता और वह वृद्धि को प्राप्त होता है ।

अस्य प्रजावती गृहेऽसश्चन्ती दिवेदिवे ।

इळा धेनुमती दुहे ॥ ४ ॥

भा०—( अस्य इडा ) उसकी भूमि ( प्रजावती ) प्रजा से युक्त होकर ( दिवे दिवे ) दिनों दिन ( गृहे असश्चन्ती ) गृह में स्थिर रहने वाली



पत्नी वा गौ के समान (धेतुमती) गवादि पशु युक्त और वाणी, आज्ञा युक्त होकर (दुहे) नाना सुखों को प्रदान करती है ।

या दम्पती समनसा सुनुत आ च धावतः ।

देवासो नित्ययाशिरा ॥ ५ ॥ ३८ ॥

भा०—हे (देवासः) विद्वान् लोगो ! (या) जो (दम्पती) पति पत्नी, (समनसा) समान चित्त होकर (सुनुतः) पुत्र उत्पन्न करते हैं और (नित्यया) नित्य (आशिरा) उपभोग करने योग्य दुग्ध आदि उत्तम द्रव्य से (आ धावतः च) उसे शुद्ध करते हैं और पालते हैं वे दोनों—

प्रति प्राश्व्याँ इतः सम्यञ्चा बर्हिराशाते ।

न ता वाजेषु वायतः ॥ ६ ॥

भा०—(प्राश्व्यान्) उत्तम खाने योग्य पदार्थों को (प्रति इतः) प्रतिदिन प्राप्त करें । वे (सम्यञ्चौ) अच्छी प्रकार जीवन निर्वाह करते हुए (बर्हिः आशाते) उत्तम धान्य का उपभोग करें और (ता) वे दोनों (वाजेषु) अन्नों, बलों और ऐश्वर्यों से (न वायतः) वञ्चित नहीं रहते ।

न देवानामपि हुतः सुमतिं न जुगुक्षतः ।

श्रवो बृहद्विवासतः ॥ ७ ॥

भा०—वे दोनों विवाहित पति पत्नी (देवानाम्) विद्वान् पुरुषों के बीच रहते हुए (अपि) भी, कभी भी (न हुतः) कुटिलता का व्यवहार नहीं करें । और वे दोनों (सुमतिम्) अपनी उत्तम सगमति, शुभ ज्ञान को (न जुगुक्षतः) कभी न छिपावें, प्रत्युत परस्पर हित के उत्तम ज्ञान देते रहा करें । वे दोनों नित्य (बृहत् श्रवः) बड़े भारी वेद-ज्ञान का (विवासतः) प्रकाश करें, उसका अभ्यास करें, और श्रवण करने योग्य महान् प्रभु की सेवा किया करें ।

पुत्रिणा ता कुमारीणा विश्वमायुर्व्यश्नुतः ।

उभा हिरण्यपेशसा ॥ ८ ॥

भा०—वे दोनों स्त्री पुरुष, पति पत्नी ( पुत्रिणा ) पुत्रों वाले और ( कुमारीणा ) प्रथम वयस में वर्तमान कुमार अर्थात् नवयुवक सन्तानों के माता पिता होकर ( विश्वम् आयुः ) पूर्ण आयु का ( वि अश्नुतः ) भोग करें । और ( उभा ) दोनों ( हिरण्य-पेशसा ) सुवर्ण के उत्तम अलंकार धारण करने वाले हों ।

वीतिहोत्रा कृतद्वसू दशस्यन्तामृतायकम् ।

समूर्धो रोमशं हतो देवेषु कृणुतो दुवः ॥ ९ ॥

भा०—वे दोनों ( वीति-होत्रा ) विशेष ज्ञानयुक्त वाणी को बोलने हारे और ( कृतद्वसू = कृत-वसू ) उत्तम धन, गृह, बल, वीर्यादि प्राप्त करके ( दशस्यन्ताम् ) दान दिया करें । वे ( अमृताय कम् ) अमृत अर्थात् न मरने वाली जीवित सन्तान को प्राप्त करने के लिये ( ऊधः रोमशं ) उत्तम सन्तान आधान और धारण करने वाले, रोम युक्त अर्थात् यौवनयुक्त अंगों को ( सं-हतः ) संयोजित करें, उत्तम सन्तान उत्पन्न करें और ( देवेषु ) विद्वानों को ( दुवः ) सेवा ( कृणुतः ) किया करें ।

ये पार्चो ऋचाणं गृहस्थ स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्यों का उपदेश करती हैं । पञ्चभिर्दम्पती अस्तूयेताम् इति सायणः ।

आ शर्म पर्वतानां वृणीमहे नदीनाम् ।

आ विष्णोः सचाभुवः ॥ १० ॥ ३९ ॥

भा०—हम लोग ( पर्वतानां ) पर्वतों, मेघों और पालन शक्ति से युक्त पुरुषों और ( नदीनाम् ) नदियों, वाणियों और समृद्ध प्रजाओं के ( शर्म ) सुख को ( आवृणीमहे ) प्राप्त करें । और हम ( सचाभुवः ) समवाय बनाकर रहने वाले ( विष्णोः ) व्यापक शक्ति वाले प्रभु वा स्वामी के ( शर्म ) सुख को भी प्राप्त करें । इत्येकोनत्रिंशो वर्गः ॥

ऐतुं पुषा रयिर्भगः स्वस्ति सर्वधातमः ।

उरुरध्वा स्वस्तये ॥ ११ ॥

भा०—( स्वस्तये ) सुख, कल्याण की वृद्धि के लिये, ( पूषा ) सर्व-पोषक स्वामी, वा भूमि हमें ( आ-एतु ) प्राप्त हो ( सर्व-धातमः ) सबको उत्तम रीति से पालन पोषण करने में समर्थ ( रयिः ) ऐश्वर्य, ( भगः ) सम्पदा और ( उरुः अध्वा ) बड़ा मार्ग प्राप्त हो । ( २ ) परमेश्वर पोषक होने से 'पूषा', ऐश्वर्यवान् सेवनीय होने से रयि और भग है । वही महान् प्राप्तव्य होने से 'उरु अध्वा' है । वह हमें सुख-कल्याणकारक हो ।

अरमतिरत्तर्वणो विश्वो देवस्य मनसा ।

आदित्यानामनेह इत् ॥ १२ ॥

भा०—( अनर्वणः ) अहिंसक ( देवस्थ ) सर्वदाता, सर्वप्रकाशक प्रभु के ( मनसा ) मनन और ज्ञान से ( विश्वः ) समस्त मनुष्य ( अर-मतिः ) बड़ा ज्ञानवान्, बुद्धिमान् हो जाते हैं और ( आदित्यानाम् ) आदि-त्य ब्रह्मचारी, तेजस्वी पुरुषों के ( मनसा ) ज्ञानोपदेश से सब कोई ( अनेहः इत् ) पाप रहित भी हो जाते हैं ।

यथा नो मित्रो अर्यमा वरुणः सन्ति गोपाः ।

सुगा ऋतस्य पन्थाः ॥ १३ ॥

भा०—( यथा ) जिस प्रकार ( मित्रः ) स्नेहवान् ( अर्यमा ) न्यायकारी और ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ, कष्टों के वारक जन ( नः ) हमारे ( गोपाः सन्ति ) रक्षक होते हैं उसी प्रकार ( ऋतस्य ) सत्य, न्याय और वेद का ( पन्थाः ) मार्ग ( सु-गाः ) सुखसे गमन करने योग्य है ।

अग्निं वः पुर्व्यं गिरा देवमील्ले वसूनाम् ।

सपर्यन्तः पुरुप्रियं मित्रं न क्षत्रसाधिसम् ॥ १४ ॥

भा०—हे विद्वान् जनो ! मैं ( वः ) आप लोगों के बीच ( वसूनां देवम् ) मनुष्यों में सर्व-सुखदाता, ऐश्वर्यों के देने वाले, वा ब्रह्मचा-

परियों में ज्ञानप्रद ज्ञानप्रकाशक को ( पूर्ण्यं भद्रिं ) पूर्ण ज्ञानवान् नायक-  
वत् 'भद्रि' तुल्य तेजस्वी होने से 'भद्रि' नाम से ( ईषे ) उसकी स्तुति  
करता हूँ । और उसी ( पुरु-प्रियं ) सब के लिये, ( क्षेत्र-साधसम् ) निवास  
योग्य गृह वा देह के वशीकर्ता, आत्मवत् प्रिय ( मित्रं न ) मित्र के  
समान स्नेही प्रभु की ( सपर्यन्तः ) सेवा, परिचर्या और भजन करते हुए  
उसी प्रभु की स्तुति किया करें ।

मद्भू देववतो रथः शूरो वा पृत्सु कासु चित्तं ।

देवानां य इन्मनो यजमान इयक्षत्यभीदयज्वनो भुवत् ॥ १५ ॥

भा०—जिस प्रकार ( कासु चित् पृत्सु शूरः वा ) किन्हीं भी शत्रु  
सेनाओं में शूरवीर पुरुष निर्भय होकर प्रवेश कर जाता है उसी प्रकार  
( देववतः रथः ) देव, सर्वप्रद, सर्वप्रकाशक प्रभु के भक्त जन का  
रथ के समान आनन्दप्रद उपदेश ( मक्षु ) शीघ्र ही ( पृत्सु ) मनुष्यों के  
बीच प्रवेश कर जाता है । ( यः ) जो ( यजमानः ) दानशील वा ईश्वर  
का उपासक, समर्थ पुरुष ( देवानां मनः इत् ) युद्धविजयी, वीरों और  
विद्वानों के चित्त को ( इयक्षति ) आदर पूर्वक सन्तुष्ट कर देता है वह  
( अयज्वनः ) अदाता, कर न देने वाले वा अनीश्वरोपासकों को ( अभि )  
परास्त करके ( भुवत् ) उनसे बढ जाता है ।

न यजमान रिप्यसि न सुन्वान् न देवयो ।

देवानां य इन्मनो यजमान इयक्षत्यभीदयज्वनो भुवत् ॥ १६ ॥

भा०—हे ( यजमान ) दानशील ! हे यज्ञकर्ता ! हे ईश्वरोपासक !  
तू कभी ( न रिप्यसि ) नष्ट वा पीड़ित न होगा । हे ( सुन्वान् ) ऐश्वर्य  
उत्पन्न करने हारे ! हे पुत्र सन्तानादि के उत्पादक ! हे उपासना करने हारे  
( न रिप्यसि ) तू कभी नाश को प्राप्त न हो । हे ( देवयो ) विद्वानों के  
इच्छुक ! हे ( देवयो ) शुभ गुणों के स्वामिन् ! तू कभी ( न रिप्यसि )

दुःखित, पीड़ित न हो । क्योंकि ( यः इत् देवानां मनः इयक्षति ) जो उत्तम पुरुषों के मन को प्रसन्न रखता है वह ( अयज्वनः अभि भुवत् ) अदानशील अनीश्वरोपासकों को पराजित करता है ।

नकिष्टं कर्मणा नशन्न प्र योपन्न योपति ।

देवानां य इन्मनो यजमान इयक्षत्यभीदयज्वनो भुवत् ॥ १७ ॥

भा०—( यः इत् ) जो मनुष्य अवश्य ही निश्चयपूर्वक ( यजमानः देवानां मनः इयक्षति ) विद्वान् पुरुषों के ज्ञान की उपासना करता है वह ( अयज्वनः ) ज्ञान की उपासना न करने वालों को ( अभि भुवत् इत् ) अवश्य ही परास्त करता है । ( तं कर्मणा नकिः नशत् ) उस तक कर्म के सामर्थ्य से भी कोई नहीं पहुंचता, न उसे नष्ट कर सकता है, और ( न प्र योपत् ) उसे कोई अपने स्थान से डिगा नहीं सकता । और वह स्वयं ( न प्र योपति ) पुत्र धनादि से वियुक्त नहीं होता ।

असदत्र सुवीर्यमुत् त्यदाश्वश्व्यम् । देवानां य इन्मनो  
यजमान इयक्षत्यभीदयज्वनो भुवत् ॥ १८ ॥ ४० ॥ २ ॥

भा०—( यत् इत् देवानां मनः ) जो देव, उत्तम तेजस्वी विद्वान् पुरुषों के ज्ञान का ( इयक्षति ) आदर, सत्संग करता है, वह ( अयज्वनः ) सत्संग न करने वाले कदाचारी पुरुषों को ( अभि भुवत् इत् ) अवश्य परास्त करता है, क्योंकि उसका ( अत्र ) इस लोक में ( सुवीर्यम् असत् ) उत्तम वीर्य बल और विद्या सामर्थ्य हो जाता है और उसको ( त्यत् ) वह अलौकिक ( आशु अश्व्यम् ) शीघ्रगामी अश्वों से युक्त सैन्यादि और बलवान् इन्द्रिय-बल, सामर्थ्य प्राप्त होता है । इति चत्वारिंशो वर्गः ॥

इति षष्ठेऽष्टके द्वितीयोध्यायः समाप्तः ॥

तृतीयोऽध्यायः

[ ३२ ]

काण्वो मेधातिथिः ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ७, १३, १५, २७, २८ निचृद् गायत्री । २, ४, ६, ८—१२, १४, १६, १७, २१, २२, २४—२६ गायत्री । ३, ५, १९, २०, २३, २६ विराड् गायत्री । १८, ३० भुरिग् गायत्री ॥

प्र कृतान्यृजीपिणः करावा इन्द्रस्य गाथया ।

मदे सोमस्य वोचत ॥ १ ॥

भा०—हे ( कणाः ) विद्वान् पुरुषो ! आप लोग ( ऋजीपिणः ) ऋजु, धर्मानुकूल इच्छा वाले पुरुष होकर ( ऋजीपिणः ) सत्य न्याय मार्ग पर प्रेरणा करने वाले ( सोमस्य मदे ) ओपधि, अन्न, ऐश्वर्यादि से खूब तृप्त, प्रसन्न होकर ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यवान् प्रभु के ( कृतानि ) किये कार्यों और राजा के कर्त्तव्यों का ( गाथया ) गान करने योग्य वेदवाणी से ( प्र वोचत ) अच्छी प्रकार उपदेश करो ।

यः सृविन्दमनर्शन्ति पिप्रुं दासमह्रीशुवम् ।

वधीदुग्रो रिणन्नपः ॥ २ ॥

भा०—( यः ) जो तेजस्वी ( सृविन्दम् ) आक्रमण करके प्रजा का धन हरण करने वाले ( अनर्शन्ति ) अहिंसित बल के नेता ( पिप्रुं ) अपने ही पेट भरने वाले ( दासम् ) प्रजा के नाशक ( अह्रीशुवम् ) सर्प वा मेघवत् बढ़ने वाले दुष्टजन को ( उग्रः ) भयंकर होकर ( वधीत् ) विनाश या दण्डित करे वह ही ( अपः ) आस प्रजाओं और जलों को सूर्य या विद्युत्-वत् ( रिणन् ) मार्ग में चलाने में समर्थ होता है ।

न्यर्वुदस्य विष्टपं वृष्माणं बृहत्स्तिर । कृषे तदिन्द्र पौंस्यम् ॥३॥

भा०—जिस प्रकार त्रिजुली (अर्बुदस्य वृहतः विस्तपं वर्ष्माणं कृपे नि तिरति) बड़े भारी मेघ के तापरहित वृष्टिकारक रूप को छिन्न भिन्न करके कृपि के लिये दे देता है, उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् शत्रुहन्तः ! तू भी ( अर्बुदस्य ) प्रजा को दुःख देने वाले वा मेघवत् वा सहस्रों की संख्या में ( वृहतः ) बड़े भारी शत्रु सैन्य के ( विस्तपं ) विशेष तापकारी, ( वर्ष्माणं ) अस्त्रवर्षी प्रबल भाग को ( नि तिर ) विनाश कर, और हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! शत्रुहन्तः ! तू ( तत् पौत्यं ) ऐसा ही बल पराक्रम ( कृपे ) किया कर ।

प्रति श्रुताय वो धृपतूर्णांशं न गिरेरधि । हुवे सुशिप्रमूतये ॥४॥

भा०—जिस प्रकार ( गिरेः तूर्णांशं अधि धृपत् ) विद्युत् मेघ से जल को बलपूर्वक गिरा देता है उसी प्रकार वह शत्रुहन्ता राजा ( श्रुताय ) प्रसिद्ध होने के लिये ( वः ) आप प्रजा जनों के ( उर्णांशं ) हिंसा द्वारा नाश करने वाले दुष्ट दल को ( गिरेः अधि ) स्वयं पर्वतवत् उच्च पद से ( प्रति अधि कृपत् ) उसका मुकाबला करके खूब अधिक धर्षण करे उसे अधिकारपूर्वक दण्डित करे । जिससे वह फिर सिर न उठा सके । उसी ( सुशिप्रम् ) सुन्दर मुख, नासिका, वा मुकुट से सजे वा उत्तम वीर्यवान् राजा को मैं ( उतये ) प्रजागण अपनी रक्षा के लिये ( हुवे ) पुकारूं, उससे प्रार्थना करूं ।

स गोरश्वस्य वि व्रजं मन्दानः सोम्येभ्यः ।

पुरं न शूर दर्षसि ॥ ५ ॥ १ ॥

भा०—हे ( शूर ) वीर पुरुष ! तू ( मन्दानः ) प्रसन्न होकर अन्यो को भी प्रसन्न करता हुआ ( सोम्येभ्यः ) ऐश्वर्य के पालन करने में योग्य कुशल पुरुषों के लिये, ( गोः व्रजं ) वाणियों, भूमियों के समूह तथा ( अश्वस्य ) आशुगामी, अश्व सैन्य के ( व्रजं ) प्रयाणकारी बल को और ( पुरं न वि दर्षसि ) प्राकार या नगरी को विविध प्रकार से विदीर्ण कर ।

यदिं मे रारणः सुत उक्थे वा दधसे चनः ।

आरादुष स्वधा गहि ॥ ६ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! ( यदि ) यदि तू ( मे सुते ) मेरे उत्पन्न किये ऐश्वर्य में ( रारणः ) रमण करे, उसका उपभोग करे, और यदि ( मे उक्थे ) मेरे उत्तम वचन में ही ( रारणः ) प्रसन्न तो और ( चनः दधसे ) बहुत अन्न को धारण करे, तो तू ( आरात् ) दूर या समीप से भी ( स्वधा ) अपने धारण पोषण करने के नाना पदार्थों को ( उप गहि ) क्रय विक्रय या व्यापार द्वारा प्राप्त कर ।

चयं घां ते अपि ष्मसि स्तोतारं इन्द्र गिर्वणः ।

स्वं नो जिग्व सोमपाः ॥ ७ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( गिर्वणः ) वाणी द्वारा याचना करने योग्य ! ( चयं घ ) हम अवश्य ( ते स्तोतारः ) तेरे स्तुति करने वाले ( अपि ष्मसि ) हों । हे ( सोमपाः ) ऐश्वर्य के पालक ! ( त्वं नः जिग्व ) तू हमें प्रसन्न और तृप्त कर, हमारी वृद्धि कर ।

उत नः पितुमा भर संरराणो अविक्षितम् । मघवन्भूरि ते वसु ८

भा०—तू ( संरराणः ) समान भाव से प्रजासहित राष्ट्र में सुख भोग करता हुआ ( नः ) हमारे ( अवि-क्षितम् ) अविनष्ट ( पितुम् ) अन्न को ( आ भर ) प्राप्त करा । और हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( नः ) हमें ( ते ) अपने ( भूरि वसु आ भर ) बहुत सा धन ऐश्वर्य भी प्राप्त करा ।

उत नो गोमतस्कृधि हिरण्यवतो अश्विनः ।

इळाभिः सं रभेमहि ॥ ९ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन्तः ! तेजस्विन् ! ( उत ) और तू ( नः ) हमें ( गोमतः ) गौ आदि पशु और भूमि आदि से सम्पन्न ( कृधि ) कर । तू हमें ( हिरण्यवतः अश्विनः ) उत्तम सुवर्ण धन और अश्वों का स्वामी ( कृधि ) कर । हम ( इळाभिः ) नाना उत्तम वाणियों



और अन्नो, भूमियों से ( संरभे महि ) अच्छी प्रकार जीवन का सुख प्राप्त करें । ( २ ) हे ( इन्द्र ) आचार्य ! तूहमें ( गोमतः ) वाणी सम्पन्न ( हिरण्यवतः अश्विनः ) आत्मवान् जितेन्द्रिय कर, हम ( इडाभिः ) उत्तम वेदवाणियों से आनन्द लाभ करें ।

वृ॒वदु॑क्थं हवामहे सू॒प्रकर॑स्नमृतये ।

साधु॑ कृण्वन्तुमवसे ॥ १० ॥ २ ॥

भा०—हम लोग ( वृहदुक्थम् ) वेद वाणी के उत्तम वचन जानने हारे, ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( सूप्रकरस्तम् ) आगे बढ़ेबाहु वाले, अन्योँ दीनों को आगे हाथ बढ़ा कर बचाने वाले और ( साधु कृण्वन्तम् ) उत्तम काम करने वाले धर्मात्मा, पुण्यवान् पुरुष को ( अवसे ) रक्षा के निमित्त प्रार्थना करें ।

यः सं॒स्थे चि॑च्छ्र॒तक्र॑तुरादी॑ कृणोति॑ वृ॒त्रहा॑ ।

ज॒रितृ॑भ्यः पुरु॒वसुः॑ ॥ ११ ॥

भा०—( यः ) जो ( संस्थे चित् ) संग्राम में भी ( शतक्रतुः ) नाना कर्म करने हारा, नाना प्रज्ञावान् ( वृत्रहा ) शत्रुहन्ता होकर ( आत् ) अनन्तर ( ई कृणोति ) नाना शत्रुओं का नाश करता है । वह ( जरितृभ्यः ) विद्वानों के लिये ( पुरु-वसुः ) बहुत से ऐश्वर्यों का स्वामी हो । ( २ ) अध्यात्म में पुरः इन्द्रियों में बसने वाला आत्मा इन्द्र है ।

सं॒ नः श॑क्रश्चि॒दा श॑क्र॒दानवाँ॑ अ॒न्तरा॑भरः ।

इन्द्रो॑ विश्वा॑भिरू॒तिभिः॑ ॥ १२ ॥

भा०—( सः ) वह ( शकः ) शक्तिशाली ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् राजा ( दानवान् ) नाना दान योग्य धनैश्वर्यवान् होकर ( नः आ शकत् ) हमें सब ओर से शक्तिमान् करे । और वह ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सब प्रकार की रक्षाओं से ( नः अन्तः-आ-भरः ) हमें अपने राष्ट्र के भीतर गर्भ में माता के समान धारण पोषण एवं पालन करने वाला हो ।

यो रायो३ वनिर्महान्सुपारः सुन्वतः सखा ।  
तमिन्द्रमभि गायत ॥ १३ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! ( यः ) जो प्रभु ( रायः वनिः ) ऐश्वर्य का देने हारा ( महान् ) गुण और शक्ति में महान् ( सु-पारः ) उत्तम रीति से पालन और पोषण करने और संकटों से पार उतारने हारा और ( सखा ) मित्र के समान स्नेही है ( तम् इन्द्रं ) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु स्वामी की ( अभि प्रगायत ) खूब स्तुति वा गुणों का गान करो ।

आयन्तारं महि स्थिरं पृतनासु श्रवोजितम् ।  
भूरेरीशान्मोजसा ॥ १४ ॥

भा०—( आयन्तारं ) सब ओर से वश करने वाले, ( महि स्थिरं ) महान्, स्थिर, कूटस्थ, ( पृतनासु ) संग्रामों वा सेनाओं के बीच ( श्रवः-जितम् ) यश कीर्ति को विजय करने वाले और ( भोजसा ) पराक्रम से ( भूरेः ) बड़े भारी ऐश्वर्य वा जगत् के ( ईशानम् ) स्वामी की ( अभि गायत ) स्तुति करो ।

नकिरस्य शचीनां नियन्ता सूनृतानाम् ।  
नकिर्वक्ता न दादिति ॥ १५ ॥ ३ ॥

भा०—( अस्य ) इसकी ( शचीनाम् ) शक्तियों और ( सूनृतानां ) उत्तम सत्ययुक्त वाणियों का ( नियन्ता ) रोकने वाला ( नकिः ) कोई भी नहीं है । ( न दात् इति वक्ता नकिः ) वह नहीं देता ऐसा भी कहने वाला कोई नहीं । वह सबको श्रमानुरूप और कर्मानुरूप फल बड़े अनुग्रह से देता है ।

न नूनं ब्रह्मणामृणं प्राशूनामस्ति सुन्वताम् ।  
न सोमो अप्रता पपे ॥ १६ ॥

भा०—( सुन्वताम् ) ऐश्वर्य, अन्नादि उत्पन्न करने वाले, वा ( सुन्वतां ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने वाले, ( प्राशूनां ) उत्तम मार्ग

से जाने वाले, ( ब्रह्मणां ) विद्वान् ब्राह्मणों और ब्रह्मवेत्ताओं का ( नूनं ) निश्चय से कोई (ऋणं न अस्ति) ऋण शेष नहीं रहता। ( सोमः ) परम ऐश्वर्य वा यज्ञ में सोमरस, उत्तम अन्नादि का भोग भी ( अप्रतां ) कोश न भरने वाले पुरुष को ( न पपे ) प्राप्त नहीं होता।

पन्थ इदुप गायत पन्थ उक्थानि शंसत ।

ब्रह्मा कृणोत पन्थ इत् ॥ १७ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग ( पन्थे इत् ) स्तुति योग्य परमेश्वर के निमित्त ही, उसको लक्ष्य करके ही ( उप गायत ) उपासना पूर्वक स्तुति गान करो। ( पन्थे उक्थानि शंसत ) उस स्तुत्य प्रभु के निमित्त ही उत्तम वेद-वचनों का उच्चारण करो। ( पन्थे इत् ब्रह्म कृणोत ) उस स्तोतव्य प्रभु के निमित्त ही वेद मन्त्रों का और यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करो।

पन्थ आ दीर्घिच्छता सहस्रा वाज्यवृतः ।

इन्द्रो यो यज्वनो वृधः ॥ १८ ॥

भा०—( यः ) जो ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् ! प्रभु ( यज्वनः ) दानी, सत्संगी, यज्ञोपासक का ( वृधः ) बढ़ाने हारा है वही ( पन्थः ) स्तुति योग्य है वही ( वाजी ) ऐश्वर्यवान्, ( अवृतः ) मोहादि से अनावृत, नित्य युक्त ( शता सहस्रा ) सैकड़ों हज़ारों बन्धनों को ( आ दीर्घि ) काट देता है।

वि षू चर स्वधा अनु कृष्टीनामन्वाहुवः ।

इन्द्र पिव सुतानाम् ॥ १९ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! तू ( सुतानां ) जगत् में उत्पन्न जीवों का ( पिव ) पालन कर। तू ( कृष्टीनाम् ) समस्त मनुष्यों को ( आ-हुवः ) सब से आदरपूर्वक प्रार्थना करने योग्य और सब सुख देने वाला है तू ( स्वधा अनु ) अपनी शक्ति से जगत् का धारक होकर ( वि षू चर )

अच्छी प्रकार सर्वत्र व्याप, ( अनु चर ) कर्मों के अनुसार उनको फल प्रदान कर । अथवा हे इन्द्र ! जीवात्मन् ! तू ( कृष्टीनां ) अपने आप कृष्टिवत् परिश्रम से बोये बीजों की ( स्वधाः अनु ) स्वयं परिपुष्ट, स्वयं उत्पन्न के समान अपने किये कर्मों का ( वि सु चर ) उत्तम और विपरीत फल प्राप्त कर । ( अनु भा हुवः ) उनके अनुकूल ही सुख, दुःख प्राप्त कर ( सुतानां ) उत्पन्न फलों का ही ( पिव ) पालन कर ।

पिव स्वधैनवानामुत यस्तुग्रथे सचा । उतायमिन्द्र यस्तव २०।४

भा०—जिस प्रकार मनुष्य ( स्वधैनवानां पिवति ) अपनी गौवों का दूध पीता है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! आत्मन् ! तू ( स्वधैनवानाम् ) अपनी वाणियों द्वारा प्राप्त सत्-असत् फलों का उपभोग कर और ( यः ) जो पदार्थ ( तुग्रथे ) पालन करने योग्य पुत्रादि में ( सचा ) विद्यमान है, ( उत भयम् ) और यह ( यः तव ) जो तेरा है तू उसे ( पिव ) पालन या उपभोग कर ।

अतीहि मन्युप्राविणं सुपुवांसमुपारणे । इमं रातं सुतं पिव ॥२१॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( मन्यु-साविनम् ) मन्यु, कोधा वा अभिमान से आधिपत्य करने वाले को ( अति इहि ) अतिलंबन कर । और ( उप-अरणे ) अरमणीय, कष्टदायी स्थान में ( सुपुवांसम् ) स्वामित्व करने वाले से भी ( अति इहि ) अधिक बढ़ जा । तू ( इमं ) इस ( रातम् ) अपने हाथ सौंपे ( सुतं ) उत्पन्न प्रजागण को ( पिव ) पालन कर ।

इहि तिस्रः परावत इहि पञ्च जनाँ अति ।

धेना इन्द्रावचाकशत् ॥ २२ ॥

भा०—तू ( परावतः ) दूर के ( तिस्रः ) तीनों प्रकार के उत्तम मध्यम, निकृष्ट प्रजाओं को ( अति इहि ) अपने वश कर । और ( पञ्चजान् अति इहि ) चार वर्ण और पांचवें निषाद इन पाँचों को भी अपने वश

कर । हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! राजन् ! तू ( धेना ) नाना वाणियों को ( अव चाकशत् ) देख । अथवा हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! तू ( परावतः ) दूर से भी ( तिस्रः ) धेनाः ( इहि ) तीनों प्रकार के ऋग यजुः साम वाणियों को प्राप्त कर ( अव चाकशत् ) उनसे देख, न्याय और ज्ञान का दर्शन कर । पाँचों जनों का अपने अधीन कर, उन इन्द्रियों पर आत्मावत् शासन कर ।

सूर्यो रश्मि यथा सृजा त्वा यच्छन्तुमे गिरः ।

निम्नमापो न स्रध्यक् ॥ २३ ॥

भा०—(यथा सूर्यः रश्मि सृजति ) जिस प्रकार सूर्य तेज और राष्ट्र को व्यापने और रक्षा करने वाला शासन करता है इसी प्रकार तू भी ( रश्मि सृज ) तेज और राष्ट्र को व्यापने और वश करने वाला शासन कर । ( आपः न स्रध्यक् निम्नम् ) जिस प्रकार जलधाराएं एकही साथ सब नीचे प्रदेश में आकर उसे घेर लेती हैं उसी प्रकार ( मे गिरः ) मेरी वाणियां भी ( त्वा ) तुझ सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष को ( आयच्छन्तु ) प्राप्त हों ।

अध्वर्यवा तु हि पिञ्च सोमं वीराय शिप्रिणे ।

भरा सुतस्य पीतये ॥ २४ ॥

भा०—हे ( अध्वर्यो ) यज्ञ करने हारे, यज्ञ के स्वामिन् ! तू ( शिप्रिणे ) मुकुट धारण करने वाले ( वीराय ) वीर पुरुष के लिये ( सोमं आ सिञ्च ) ओषधि रसवत् ऐश्वर्यवान् राष्ट्र का आसेचन कर, उसके ऐश्वर्य के पद की वृद्धि कर । ( पीतये ) पालन करने के लिये ( सुतस्य ) उत्पन्न राष्ट्रजन को पुत्रवत् ( भर ) पुष्ट कर ।

य उद्दन् फलिगं भिनन्त्य क्विसन्धूरवासृजत् ।

यो गोषु पक्वं धारयत् ॥ २५ ॥ ५ ॥

भा०—जिस प्रकार तीव्र विद्युत् ( फलिगं भिनत् ) मेघ का छेदन

भेदन करता और ( उद्नः सिन्धून् न्यक् अव असृजत् ) जल की धाराओं को नीचे फेंकता है और ( गोपु पक्कं धारयत् ) भूमियों में परिपक्व अन्न को पुष्ट करता है, उसी प्रकार जो राजा ( फलिंगं भिनत् ) फलयुक्त सशस्त्र सैन्य से आक्रमण करने वाले शत्रु को छिन्न भिन्न करता, और राष्ट्र में ( उद्नः सिन्धून् न्यक् अव असृजत् ) जल की नाना नहरों को नीची भूमियों में प्रवाहित करता है और जो ( गोपु ) भूमियों में ( पक्कम् ) पके अन्न को लेता है वही भूमि का स्वामी ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् कहाता है ।

अहन्वृत्रमृचीपम और्णवाभमहीशुवम् । हिमेनाविध्यदर्वुदम् २६

भा०—( ऋचीपमः ) तेज से सर्वत्र समान भाव से प्रदीप्त होने वाला सूर्य जिस प्रकार ( और्णवाभम् ) ऊँच से बने कमल के समान आच्छादक, ( अहीशुवम् ) मेघ से बढ़ने वाले ( वृत्रम् ) मेघस्थ जल को ( अहन् ) आघात करता है और ( हिमेन ) शीत से ( अर्वुदम् ) जलप्रद मेघ को ( अविध्यत् ) वेध देता है, उसी प्रकार ( ऋचीपमः ) तेज और आदर, प्रतिष्ठा वा शासन वाणी से सर्वत्र समान निष्पक्षपात राजा ( और्णवाभम् ) ऊँच देने वाले भेड़ के समान टक्कर लेने वाले, ( अहीशुवम् ) सूर्य के समान क्रोध से बढ़ने वाले ( वृत्रम् ) शत्रु को ( अहन् ) नाश करता है, और वह ( अर्वुदम् ) शस्त्र बल से नाश करने वाले शत्रु को ( हिमेन ) अपने हनन साधन शस्त्र-बल से ( अविध्यत् ) वेधता, पीड़ित, ताड़ित करता है, वही बलवान् 'इन्द्र' है ।

प्र व उग्राय निष्टुरेऽपाह्लाय प्रसक्षिणे । देवत्तं ब्रह्म गायत ॥२७॥

भा०—हे प्रजाजनो ! हे विद्वानो ! आपःलोग ( वः ) अपने में से ( उग्राय ) शत्रु के प्रति उग्रस्वभाव वाले; ( निःस्तुरे ) शत्रु का सर्वथा नाश करने में समर्थ, ( अपाहाय ) और स्वयं कभी पराजित न होने और ( प्र-सक्षिणे ) पर पक्ष को अच्छी प्रकार पराजित करने वाले पुरुष को

और अधिक बलवान् करने के लिये ( देवत्तं ब्रह्म ) विद्वानों के द्वारा गुरु-परम्परा से प्रदत्त वा प्रभु से दिये वेद-ज्ञान का ( गायत ) उपदेश करो ।

यो विश्वान्यभि व्रता सोमस्य मदे अन्धसः ।

इन्द्रो देवेषु चेतति ॥ २८ ॥

भा०—( यः ) जो ( देवेषु ) इन्द्रियों के बीच में ( अन्धसः मदे ) अन्न से तृप्ति लाभ करके जिस प्रकार आत्मा ( विश्वानि व्रता अभि चेतति ) सब कार्यों को जानता है उसी प्रकार ( यः ) जो पुरुष ( देवेषु ) विद्वानों और विजगीषु पुरुषों के बीच ( सोमस्य मदे ) ऐश्वर्य से तृप्त होने पर वा ऐश्वर्य युक्त राष्ट्र के शासन-कार्य में ( विश्वानि व्रता अभि ) सब कर्त्तव्यों को ( चेतति ) ठीक जानता है, वह ( इन्द्रः ) 'इन्द्र' है ।

इह त्या सधमाद्या हरी हिरण्यकेश्या ।

वोहूळामभि प्रयो हितम् ॥ २९ ॥

भा०—( इह ) यहां ( त्या ) वे दोनों ( सध-माद्या ) एक साथ आनन्द, वा अन्नादि की तृप्ति लाभ करने वाले, ( हिरण्य-केश्या ) सुवर्ण के समान केशों के तुल्य दीप्सियों को धारण करने वाले तेजस्वी, ( हरी ) राजा प्रजा, वा स्त्री पुरुष ( हितम् प्रयः ) हितकारी अन्न, ज्ञान ( अभि बोढाम् ) प्राप्त करावें । और सुवर्णवत् सुन्दर केशों से युक्त दो अश्व सेनापति को हित-मार्ग में ले चलें ।

अर्वाञ्च त्वा पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरी ।

सोमपेयाय वक्षतः ॥ ३० ॥ ६ ॥

भा०—हे ( पुरु-स्तुत ) बहुतों से स्तुति योग्य ! ( अर्वाञ्च त्वा ) साक्षात् प्राप्त तुझ को ( प्रियमेध-स्तुता ) यज्ञ सत्संगादि के प्रिय विद्वान् पुरुषों द्वारा उपदिष्ट, उत्तम विद्वान् स्त्री पुरुष ( सोम-पेयाय ) राष्ट्र के ऐश्वर्य के पालन और उपभोग के लिये ( वक्षतः ) सन्मार्ग से ले जावें वा उत्तम उपदेश करें । इति षष्ठो वर्गः ॥

[ ३३ ]

मेधातिथिः कायव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१—३, ५ बृहती । ४, ७, ८, १०, १२ विराड् बृहती । ६, ९, ११, १४, १५ निचृद् बृहती । १३ आर्ची भुरिग् बृहती । १६, १८ गायत्री । १७ निचृद् गायत्री । १९ अनुष्टुप् ॥ एकोनविंशत्युचं सूक्तम् ॥

व्रथं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्त्वर्हिषः ।

पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते ॥ १ ॥

भा०—जिस प्रकार ( आपः न ) जलधाराएं ( वृक्त-वर्हिषः ) कुशा काशादि की वृद्धि करने वाली होकर ( प्र-स्रवणेषु ) निर्झरों में नीचे की ओर बहा करती हैं उसी प्रकार हे ( वृत्र-हन् ) शत्रुनाशक स्वामिन् ! ( व्रथं घ ) हम भी ( सुत-वन्तः ) उत्पन्न उत्तम प्रजावान् और अन्न ऐश्वर्यादिमान् ( वृक्त-वर्हिषः ) यज्ञ में आसनादिवत् विस्तीर्ण एवं प्रजाओं की वृद्धि करके ( त्वा परि ) तुझे प्राप्त हों ( पवित्रस्य ) शुद्ध पवित्र जल एवं ज्ञान के ( प्र-स्रवणेषु ) प्रवाहों के तटों पर विराजें और ( स्तोतारः ) स्तुतिकर्ता उपासक लोग भी ( परि आसते ) विराजते हैं ।

स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः ।

कदा सुतं तृपाण ओक् आ गम इन्द्र स्वब्दीव वंसगः ॥ २ ॥

भा०—हे ( वसो ) समस्त जगत् को बसाने, सबकी रक्षा करने वाले हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( उक्थिनः नरः ) उत्तम वेद-वचन को धारण करने वाले जन, ( सुते ) इस उत्पन्न जगत् में, ( निरेके ) एकान्त में भी ( त्वा स्वरन्ति ) तुझे लक्ष्य कर पुकारते हैं । हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्, उत्तम गति से चलने हारा ( सु-अब्दीव ) गर्जते मेघवत् या महा वृषभवत् ( तृपाणः ) पिपासित के समान भति उत्कण्ठित होकर ( सुतं कदा आगमः ) इस उत्पन्न जीव संसार को कब प्राप्त हो ।



करवैभिर्धृष्णावा धृषद्वाजं दर्षि सहस्रिणाम् ।

पिशङ्गरूपं मघवन्विचर्षणे मञ्जू गोमन्तमीमहे ॥ ३ ॥

भा०—हे ( मघवन् ) उत्तम धनसम्पन्न ! हे ( विचर्षणे ) विविध प्रजाओं के ऊपर द्रष्टः ! हे ( धृष्णो ) दुष्टों के दलन करने हारे ! हम ( पिशङ्गरूपं ) उज्वल, पीतरूप वाले और ( गोमन्तं ) भूमि से युक्त ( वाजं ) ऐश्वर्य की तुझ से ( मञ्जू ) शीघ्र ही ( ईमहे ) याचना करते हैं और तू ( कण्वेभिः ) विद्वानों और वीरों द्वारा ( सहस्रिणं वाजं दर्षि ) सहस्रों सुखों, संख्याओं से युक्त ऐश्वर्य हमें दे । अथवा हे ( विचर्षणे ) विविध विद्याओं के द्रष्टः ! विद्वन् ! ( पिशङ्गरूपं ) तेजस्वी, ( गोमन्तं ) वेदवाणी के विद्वानों से ( मञ्जू ) अति शीघ्र ( वाजम् ईमहे ) ज्ञान प्राप्त करें । और ( कण्वेभिः ) विद्वानों द्वारा ( सहस्रिणं वाजं दर्षि ) सहस्रों ऋचाओं से युक्त ज्ञान प्रदान कर ।

पाहि गायान्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे ।

यः समिश्लो हयोर्यः सुते सचा वज्री रथो हिरण्ययः ॥४॥

भा०—हे ( मेध्यातिथे ) 'मेध' अर्थात् सत्संग और अन्नादि द्वारा सत्कार करने योग्य अतिथे ! विद्वन् ! तू ( अन्धसः मदे ) अन्न द्वारा तृप्ति और आनन्द लाभ करने पर ( इन्द्राय ) उस ऐश्वर्यवान् के सम्बन्ध में ( गाय ) उपदेश कर और ( पाहि ) उसका ज्ञान-रस पान कर । ( यः ) जो ( हयोर्यः समिश्लः ) स्त्री पुरुष दोनों में समान रूप से व्यापक है, ( यः सुते सचा ) जो उत्पन्न हुए पुत्रवत् जगत् में भी सदा सत्य विद्यमान है जो ( वज्री ) बलवान् ( रथः ) रसरूप, रमणीय ( हिरण्ययः ) सुवर्णवत् तेजोमय है ।

यः सुप्रव्यः सुदक्षिण इनो यः सुक्रतुर्गृणे ।

य आक्ररः सहस्रा यः शतामव इन्द्रो यः पुभिर्दारितः ॥५॥७॥

भा०—पुरुषोत्तम कैसा है ? ( यः ) जो ( सु-प्रव्यः सु-दक्षिणः )

द्वार्ये और दार्ये दोनों हाथों से उत्तम कुशल, कर्म करने में समर्थ वा (सु-सव्यः) उत्तम रीति से पूजा करने योग्य वा जगत् को उत्पन्न करने, शासन करने और संचालन करने में समर्थ, और (सु-दक्षिणः) उत्तम धन दान, बल, बुद्धि से सम्पन्न, (इनः) सबका स्वामी, (यः) जो (सु-ऋतुः) उत्तम कर्म व प्रज्ञावान् (गृणे) स्तुति किया जाता है। (यः सहस्रा-आकरः) जो सहस्रों उत्तम कर्मों का करने वाला, वा खनि के समान सहस्रों गुणों, ऐश्वर्यों को धरने वाला है, (यः शत-मघः) जो सैकड़ों ऐश्वर्यों का स्वामी, (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् (यः पूर्भिन्) शत्रु-नगरों को तोड़ने वाला, वा ज्ञानपूर्वक योगिजनों के देह-बन्धन का विच्छेदक, मुक्तिदाता और जो (आरितः) स्तुति द्वारा प्राप्त होता है। इति सप्तमो वर्गः ॥  
यो धृपितो योऽवृतो यो अस्ति श्मश्रुपु श्रितः।

विभूतद्युम्नश्च्यवनः पुरुषुतः क्रत्वा गौरिव शाकिनः ॥ ६ ॥

भा०—(यः) जो (धृपितः) पराजय करने वाला, सबका वशकर्ता, (यः अवृतः) जो न विरा, असंग, (यः) जो (श्मश्रुपु श्रितः) युद्ध कालों में आश्रय करने योग्य, वा (श्मश्रुपु = श्मसु शरीरेषु श्रूयन्ते इति श्मश्रवो जीवाः) शरीरों में विद्यमान जीवों या श्मश्रु अर्थात् मूछों वाले, वीर पुरुषों में (श्रितः) आश्रय करने योग्य, उन द्वारा सेवित, (विभूत-द्युम्नः) अति ऐश्वर्यवान्, तेजस्वी, (च्यवनः) शत्रुओं को विचलित करने वाला, वा सर्वव्यापक, (पुरु-स्तुतः) बहुतों से प्रशंसित, और (क्रत्वा) कर्मसामर्थ्य से (शाकिनः) शक्ति प्राप्त करने वाले जीव के लिये (गौः इव) गौ, भूमि के समान अनेक सुख उत्पन्न करने वाला है।  
क ई वेद सुते सचा पिवन्तं कद्वयो दधे।

अयं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दानः शिष्यन्धसः ॥ ७ ॥

भा०—(यः) जो (ओजसा) पराक्रम से (पुरः) शत्रु के पुरों, दुर्गों, प्रकोटों को (वि-भिनन्ति) तोड़ डालता है. (अयं) वह (अन्धसः)

अन्न वा जीवनधारक पदार्थ से ( मन्दानः ) आनन्द लाभ करता हुआ रहे । ( सुते ) ऐश्वर्य के बल पर ( पिवन्तं ) राष्ट्र का पालन करते हुए ( ईं ) इसको ( कः वेद ) कौन जानता है, और कौन जनाता है कि वह ( कत् वयः दधे ) कितना बल धारण करता है । इसी प्रकार प्रभु परमेश्वर अपने बल से नाना ब्रह्माण्ड पुरों को संहार करता, ( शिप्री ) बलवान्, ( अन्धसः मन्दानः ) प्राणधारी जीवों को आनन्द देता रहता है । ( वयः ) वह उत्सन्न जगत् में व्यापक होकर सबका पालन करता है : उसके अपार बल, आयु और ज्ञान को कौन जानता है ?

दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे ।

नकिंष्ट्वा नि यमदा सुते गमो महान्श्वरस्योजसा ॥ ८ ॥

भा०—( मृगः न वारणः ) जिस प्रकार पशु हस्ती ( पुरुत्रा दाना-दधे ) बहुत से मदजल धारण करता है और ( पुरुत्र चरथं दधे ) बहुत से स्थानों पर विचरण करता है उसी प्रकार वह प्रभु, ऐश्वर्यवान् स्वामी ( वारणः ) सब दुःखों को वारण करने वाला, ( मृगः ) अति शुद्धस्वरूप वा योगी मुमुक्षुओं से खोजने योग्य ( पुरुत्रा ) पालनीय जीवों के निमित्त ( दाना ) दान देने योग्य नाना ऐश्वर्य प्रदान करता है और ( पुरुत्रा चरथं दधे ) बहुत से भोग्य कर्मफल भी प्रदान करता है । हे प्रभो ! ( सुते ) इस जगत् में या ऐश्वर्य में ( त्वा नकिः नियमत् ) तुझे कोई भी रोकने में समर्थ नहीं है । तू ( ओजसा ) अपने महान् सामर्थ्य से ( गमः ) सर्वत्र व्यापक है और ( महान् ) सब से महान् होकर ( चरसि ) सब में व्यापक रहा है ।

य उग्रः सन्ननिष्ठः स्थिरो रणाय संस्कृतः ।

यदि स्तोतुर्मघवा शृण्वद्भवं नेन्द्रो योपत्या गमत् ॥ ९ ॥

भा०—( यः ) जो ( उग्रः सन् ) दुष्टों के प्रति उग्र होकर ( अनिस्तृतः ) अहिंसित, अमर, ( स्थिरः ) स्थिर, कूटस्थ ( रणाय )

रण के लिये सुसाज्जत वा 'रण' परम आनन्द देने के लिये ( संस्कृतः ) सदा उपासित है । ( यदि ) यदि ( मघवा ) वह ऐश्वर्यवान्, ( स्तोतुः हवं शृणवत् ) स्तुतिकर्ता की प्रार्थना सुनले तो वह ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् वीर ( न योपति ) कभी स्त्रीवत् भय नहीं करता, ( आगमत् ) आही जाता है, इसी प्रकार जल की प्रार्थना सुन कर प्रभु भी ( न योपति ) पृथक् न रहकर ( आ गमत् ) उसे प्राप्त ही होजाता है ।

सत्यमित्था वृषेदसि वृषजूतिर्नोऽवृतः ।

वृषा ह्युग्रं शृणिवृषे परावति वृषो अर्वावति श्रुतः ॥१०॥८॥

भा०—( इत्था ) इस प्रकार ( सत्यम् ) सचमुच, ( वृषा इत् असि ) समस्त सुखों का वर्षाने वाला ही है । तू ( नः ) हमारे बीच ( अवृतः ) किसी से न घिरा, असंग, ( वृषजूतिः ) सुखवर्षक सूर्यादि को सञ्चालन करने में समर्थ सब का सारथिवत् नेता है । तू ( परावति ) दूर, परमार्थ में भी हे ( उग्र ) बलवान् ! ( वृषा हि शृणिवृषे ) बलवान् ही सुना जाता है, और ( अर्वावति ) समीप, इह लोक में भी ( वृषः श्रुतः ) जगत् का प्रबन्धक, बलवान्, सुखों का वर्षक ही प्रसिद्ध है । इत्यष्टमो वर्गः ॥

वृषणस्ते अभीशवो वृषा कशा हिरण्ययी ।

वृषा रथो मघवन्वृषणा हरी वृषा त्वं शतक्रतो ॥ ११ ॥

भा०—जिस प्रकार वीर पुरुष की ( अभीशवः कशा रथः हरी ) रासों, चाबुक, रथ और घोड़े बलवान् हों तो वह युद्ध करने में समर्थ होता है उसी प्रकार हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों बलों कर्मों और ज्ञानों वाले ! स्वामिन् ! तेरी ( ते अभीशवः ) सर्वत्र शासनकारिणी शक्तियां ( वृषणः ) बलवती और सुखों का वर्षण करने वाली हैं । ( ते कशा ) तेरी वाणी वेदमयी, ( हिरण्ययी ) हितकारिणी और सुन्दर सुखदायी है और ( वृषा ) सुख ज्ञान के देने वाली है । हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवान् ! ( ते रथः वृषा )

तेरा रमणीय रूप और उपदेश भी सुखप्रद है। ( ते हरी ) तेरे उपासक स्त्री पुरुष ( वृषणा ) बलवान् हैं। ( त्वं वृषा ) तू स्वयं बलवान्, सर्वसुखवर्षक है।

वृषा सोता सुनोतु ते वृषन्नृजीपिन्ना भर।

वृषा दधन्वे वृषणं नदीष्वा तुभ्यं स्थातर्हरीणाम् ॥ १२ ॥

भा०—हे ( वृषन् ) बलवन् ! हे ( ऋजीपिन् ) ऋजु, सरल सत्य, धर्ममार्ग में मनुष्यों को प्रेरित करने हारे ! ( सोता ) ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला ( वृषा ) बलवान् होकर ( ते सुनोतु ) तेरा अभिषेक करे। तू उसको ( आ भर ) सब ओर से पुष्ट कर। हे ( हरीणां स्थातः ) विद्वानों और वीर पुरुषों के बीच स्थिर रहने हारे ! ( तुभ्यं ) तेरी ही वृद्धि के लिये ( नदीषु ) समृद्ध प्रजाओं में ( वृषा ) बलवान् वीरसमूह ( वृषणं ) उत्तम प्रबन्धक, प्रमुख तुझ पुरुष को ही ( दधन्वे ) पुष्ट, धारण करे।

एन्द्र याहि पीतये मधु शविष्ठ सोम्यम्।

नायमच्छा मघवा श्रवणवद्गिरौ ब्रह्मोक्था च सुक्रतुः ॥ १३ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! वा आत्मन् तू ( मधु ) मधुर सुखप्रद ( सोम्यं ) उत्तम बलकारक ओषधि आदि रसवत् शिष्योचित विद्वानों के उपदेश को ( पीतये ) पान करने, ज्ञान श्रवण करने के लिये ( आयाहि ) आ। हे ( शविष्ठ ) उत्तम बलशालिन् ! ( अयम् ) यह ( सुक्रतुः ) उत्तम कर्मकर्ता, ( मघवा ) केवल धनवान् पुरुष भी ( ब्रह्म उक्था च ) वेदज्ञान और 'उक्थ' उत्तम वचन और ( गिरः ) वाणियों को ( न अच्छ श्रवणवद् ) साक्षात् श्रवण नहीं कर सकता। वह भी ज्ञान-श्रवणार्थ गुरु के समीप जाकर ही ज्ञान का श्रवण कर सकता है।

वहन्तु त्वा रथेष्ठामा हरयो रथयुजः।

तिराश्चिदर्य सर्वनानि वृत्रहन्न्येषां या शतक्रतो ॥ १४ ॥

भा०—हे ( वृत्रहन् ) विघ्नों के नाशक ! हे दुष्टों के दण्डकर्त्तः !

हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों कर्म करने हारे ! हे बहुयज्ञ ! ( रथ-युजः ) रथ में नियुक्त, ( हरयः ) अश्वों के समान, राष्ट्र में नियुक्त विद्वान् जन ( रथे-ष्टाम् त्वा ) रथ पर अधिष्ठाता वा स्वामी के समान विराजमान तुझ को ( या ) जो ( अन्येषां सवनानि ) अन्यो के यज्ञ वा ऐश्वर्य हैं उनको भी ( तिरः चित् आवहन्तु ) उत्तम रीति से प्राप्त करावें ।

अस्माकं मृद्यान्तमं स्तोमं धिष्व महामह ।

अस्माकं ते सवना सन्तु शन्तमा मदाय द्युक्ष सोमपाः १५१९

भा०—हे ( महामह ) बड़ों के भी पूज्य ! तू ( अद्य ) आज ( अस्माकं ) हमारे ( अन्तमं ) अति समीपतम ( स्तोमं ) स्तुति-वचन को ( धिष्व ) धारण कर । हे ( द्युक्ष ) तेजस्विन् ! हे ( सोम-पाः ) ऐश्वर्यादि के पालक ! ( अस्माकं सवना ) हमारे पूजा, उपचारादि वा ऐश्वर्य ( ते मदाय ) तेरे आनन्द वृद्धि के लिये और ( ते शन्तमा ) तुझे अति शान्तिदायक ( सन्तु ) हों । इति नवमो वर्गः ॥

नहि पस्तव नो मम शास्त्रे अन्यस्य ररयति ।

यो अस्मान्वीर आनयत् ॥ १६ ॥

भा०—( यः वीरः ) जो वीर वा विशेष विद्वान् ( अस्मान् ) हम सब को ( आ अनयत् ) आगे ले जाता है ( सः ) वह हे मित्र ! ( नहि पस्तव, नो मम अन्यस्य ) न तेरे और न मेरे या किसी और सामान्य पुरुष के ( शास्त्रे ररयति ) शासन में प्रसन्न होता है । वह हम सब से ऊपर सर्वोपरि है ।

इन्द्रश्चिद् घा तद्व्रवीत्सित्रया अशास्यं मनः ।

उतो अह क्रतुं रघुम् ॥ १७ ॥

भा०—( इन्द्रः चित् घ ) ज्ञानद्रष्टा विद्वान् भी ( सित्रियाः ) 'स्त्री' अर्थात् संघात बनाकर रहने वाली प्रबल सेना के ( तत् मनः ) उस मन, या स्तम्भन बल को ( अशास्यं अववीत् ) शासन न होने योग्य अति

प्रबल वतलाता है, ( उतो ) और उसके ( रघुं ) वेगयुक्त ( क्रतुं ) कर्म सामर्थ्य को भी ( अशास्यं अह ) अशास्य, अदम्य ही वतलाता है । पक्षान्तर में—उत्तम उपदेश और गुणों के ग्रहण करने वाली शिक्षिता स्त्री का चित्त विशेष शासन की अपेक्षा नहीं करता और उसका कर्मसामर्थ्य भी, 'रघु' अर्थात् कुशल होता है । स्वयै ष्टै शब्दसंघातयोः । स्त्यायतेर्दृट् । उ० १०४ । १६६ । स्त्री ॥

सतीं चिद्धा मदच्युता मिथुना वहतो रथम् ।

एवेद्धूर्वृष्णा उत्तरा ॥ १८ ॥

भा०—स्त्री और पुरुष ( मिथुना ) दोनों मिलकर ( मदच्युता ) आनन्द को प्राप्त करते हुए ( सप्ता चित् ) दो अश्वों के समान ही ( रथम् वहतः ) गृहस्थ रूप रथ वा गृहस्थ के सुख को वहन करते और रथ में जिस प्रकार ( धूः वृष्णाः उत्तरा ) धुरा बलवान् अश्व से अधिक ऊंची होती है उसी प्रकार ( धूः ) गृहस्थ या प्रजा को धारण करने में समर्थ स्त्री, ( वृष्णाः ) बलवान्, वीर्यसेचक पुरुष की अपेक्षा ( उत्तरा एव इत् ) उत्कृष्ट गुणों से युक्त, अधिक आदर योग्य ही होती है । मातः का मान पिता से अधिक है ।

अधः पश्यस्व मोपरि सन्तरां पादिकौ हर ।

मा ते कशप्लकौ दृशन् स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ ॥ १९ ॥ १० ॥

भा०—स्त्री को उपदेश । हे स्त्री ! तू ( अधः पश्यस्व ) नीचे देख, विनयशील हो । ( मा उपरि ) ऊपर मत देख, उद्धत मत हो । ( पादिकौ ) दोनों पैरों को ( संहरतराम् ) अच्छी प्रकार एकत्र कर रख, असभ्यता से पैर मत फैला । ( ते ) तेरे ( कशप्लकौ मा दृशन् ) टखनों को कोई भी न देखे । ऐसे विनयाचार से तू ( स्त्री हि ) स्त्री होकर भी अवश्य ( ब्रह्मा बभूविथ ) वेदवेत्ता वा पूज्य हो सकती है । इति दशमो वर्गः ॥

[ ३४ ]

नीपातिथिः काण्वः । १६—१८ सहस्रं वसुरोचिषोऽङ्गिरस ऋषयः ॥ इन्द्रो देवता ॥

छन्दः—१, ३, ८, १०, १२, १३, १५ निचृदनुष्टुप् । २, ४, ६, ७, ९ अनुष्टुप् । ५, ११, १४ विराडनुष्टुप् । १६, १८ निचृद्गायत्री । १७ विराड् गायत्री ॥ अष्टादशर्चं सूक्तम् ॥

एन्द्रं याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम् ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ १ ॥

भा०—हे (दिवा-वसो) दिन को आकाश में रहने वाले सूर्य के समान (दिवावसो) ज्ञान प्रकाश से अपने अधीन शिष्यों को बसाकर उनको ज्ञान-मय वस्त्र से आच्छादित करने हारे विद्वन् ! तू ( अमुष्य ) उस (शासतः) सबका शासन करने वाले ( दिवः ) सूर्य के समान तेजस्वी प्रभु के (दिवं) ज्ञान प्रकाश को ( यय ) प्राप्त कर । हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू (हरिभिः) विद्वानों द्वारा या हरणशील प्राणों, इन्द्रियादि अंगों सहित ( कण्वस्य सुस्तुतिम् उप भा याहि ) विद्योपदेष्टा के उत्तम उपदेश वाणी को प्राप्त कर, उसको समीप जाकर शिष्यवत् ग्रहण कर ।

आ त्वा त्रावा वदन्निह सोमी घोषेण यच्छतु ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ २ ॥

भा०—हे विद्याभिलाषिन् ! (इह) इस आश्रम में (सोमी) ज्ञानवान् शिष्यों का स्वामी (त्रावा) उत्तम उपदेष्टा विद्वान् (त्वा) तेरे प्रति (वदन्) व्यक्त वाणी से उपदेश करता हुआ ( घोषेण ) वेद द्वारा ( दिवः ) परम तेजोमय ( शासतः ) परम शासक और शास्ता ( अमुष्य ) उस प्रभु के ( दिवं यच्छतु ) प्रकाशमय तेज को प्रदान करे । हे ( दिवावसो ) विद्या की कामना से गुरु के अधीन बसने हारे विद्यार्थिन् ! तू भी उसके ( दिवं यय ) ज्ञान को प्राप्त कर ।



अत्रा वि नेमिरेपासुरां न धूनुते वृकः ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ३ ॥

भा०—(वृकः उरां न) भेड़िया जिस प्रकार भेड़ को बल से (धूनुते) कंपा देता है । उसी प्रकार ( एपां ) इन विद्वानों का ( वृकः ) विशेष ज्योति को प्रकाशित करने वाला ( नेमिः ) अनुशासन ( अत्र ) इस लोक में ( उराम् ) अति विस्तृत वाणी को ( विधूनुते ) विशेष रूप से प्रदान करता है । ( दिवः अमुष्य शासतः ) अनुशासन करने वाले उस तेजस्वी ज्ञानी पुरुष के (दिवं) ज्ञानप्रकाश को हे विद्यार्थिन् ! तू (यय) प्राप्त कर ।

आ त्वा कर्वा इहावसे हवन्ते वाजसातये ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ४ ॥

भा०—हे विद्वन् ! गुरो ! ( कणाः ) विद्वान् बुद्धिमान् पुरुष (इह) इस आश्रम में ( वाज-सातये ) ज्ञान प्राप्त करने और ( अवसे ) रक्षा के लिये (त्वा आ हवन्ते) तुझे आदरपूर्वक प्रार्थना करते हैं । (दिवः अमुष्य०) इत्यादि पूर्ववत् ।

दधामि ते सुतानां वृष्णे न पूर्वपाय्यम् ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ५ ॥ ११ ॥

भा०—( वृष्णे पूर्व-पाय्यम् ) बलवान् पुरुष को जिस प्रकार पूर्व ही पालन करने का उचित आदर-भेंट दिया जाता है उसी प्रकार हैं विद्वन् ! ( ते वृष्णे ) बरसते मेघवत् निष्पक्षपात होकर प्रचुर ज्ञान देने वाले तुझे मैं ( सुतानां ) अपने पुत्रों का ( पूर्व-पाय्यं ) पूर्ण पालन वा पूर्व आयु का पालन रक्षण का भार ( दधामि ) प्रदान करता हूँ । ( दिवावसो ) सूर्यवत् तेजस्विन् ! वा विद्यार्थिन् ! तू (शासतः) उस शास्ता के ज्ञान को प्राप्त कर । वा हे विद्वन् ! तू उस परम प्रभु का ज्ञान विद्यार्थी को प्राप्त करा । इत्येकादशो वर्गः ॥

स्मत्पुरान्धिर्न आ गहि विश्वतोधीर्न ऊतये ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ६ ॥

भा०—हे विद्वन् ! हे वीर ! तू ( स्मत्-पुरन्धिः ) सर्वोत्तम बहुत से ज्ञानों को धारण करने और बहुतों का भरण पोषण करने में समर्थ उत्तमः शासक, गृहणीवत् उत्तम प्रबन्धक और ( विश्वतः-धीः ) सब तरफ जाने वाली बुद्धि, वा सर्वगामी कर्मसामर्थ्य से सम्पन्न होकर ( नः ऊतये ) हमारी रक्षा और हमें ज्ञान प्रदान करने के लिये ( नः आगहि ) हमें प्राप्त हो । हे ( दिवावसो ) ज्ञान, प्रकाश और उत्तम व्यवहार शुभ कामना से रहने वाले तू ( शासतः अमुष्य ) शासन और विद्योपदेश करने वालेः उस ( दिवः ) परम ज्ञानी और प्रकाश के ( दिवं ) ज्ञानप्रकाश और उत्तम कामना को ( यय ) प्राप्त कर ।

आ नो याहि महेमते सहस्रोते शतामघ ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ७ ॥

भा०—हे ( महे-मते ) महामते ! पूजनीय ज्ञानवन् ! हे ( सहस्रोते ) बलवान् रक्षा सामर्थ्य वा सहस्रों रक्षणों से युक्त ! हे ( शतामघ ) सैकड़ों उत्तम धनों के स्वामिन् ! तू ( नः आ याहि ) हमें प्राप्त हो । और हे ( दिवावसो ) ज्ञान दीप्ति से सबको आच्छादित करने वाले ! विद्वन् ! वा ज्ञान कामना से विद्वान् के अधीन ब्रह्मचर्यपूर्वक रहने हारे ब्रह्मचारिन् ! तू ( अमुष्य दिवं शासतः ) उस ज्ञान के अनुशासन करने वाले ( दिवः ) ज्ञान-प्रकाशक गुरु के समीप ( यय ) प्राप्त हो ।

आ त्वा होता मनुर्हितो देवत्रा वक्षदीड्यः ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ८ ॥

भा०—( दिवावसो ) ज्ञान की कामना करने हारे ब्रह्मचारिन् ! ( देवत्रा ईड्यः ) विद्वानों के बीच स्तुति करने योग्य पूज्य, ( मनुः ) ज्ञानवान् ( हितः ) हितकारी ( होता ) ज्ञानादि के देने में समर्थ, कुशलः

पुरुष ( त्वा आवसत् ) तुझे धारण करे और उत्तम उपदेश कहे । और तू भी ( अमुष्य दिवं शासतः ) आकाश और भूमि के शासक, ( दिवः ) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष को ( यय ) प्राप्त करा ।

आ त्वा॑ मद॒च्युता॑ ह॒रीं श्ये॑नं प॒क्षेव॑ व॒क्षतः॑ ।

दिवो॑ अ॒मुष्य॒ शास॑तो दि॒वं य॒य दि॑वावसो ॥ ९ ॥

भा०—( श्येनं पक्षा इव ) जिस प्रकार वाज नामक पक्षी को दोनों पांख बल पूर्वक वहन करते हैं और जिस प्रकार ( श्येनं ) श्येन व्यूह से गमन करने वाले वीर योद्धा को (पक्षा इव) आजू बाजू के दोनों सेना दल ( आ वक्षतः ) सब तरफ से धारण करते हैं उसी प्रकार ( त्वा श्येनं ) तुझ उत्तम आचार-चरित्र से सम्पन्न पुरुष को ( मद-च्युता) उत्तम आनन्द देने वाले ( हरी ) स्त्री और पुरुष ( पक्षा इव वक्षतः ) ग्रहण, करने वा अपनाने वाले बन्धु जनों के तुल्य ( आवक्षतः ) आदर पूर्वक आगे बढ़ावें और (आवक्षतः) उत्तम वचनोपदेश किया करें। (दिवोः अमुष्य० पूर्ववत्)

आ या॑ह्य॒र्य आ परि॑ स्वाहा सोम॑स्य पी॒तये॑ ।

दिवो॑ अ॒मुष्य॒ शास॑तो दि॒वं य॒य दि॑वावसो ॥ १० ॥ १२ ॥

भा०—हे ( अर्थ ) स्वामिन् ! तू ( सोमस्य पीतये ) ऐश्वर्य को पालन करने के लिये (आयाहि ) आ, और ( स्वाहा ) उत्तम वाणी, और उत्तम दान से तू ( सोमस्य परि आयाहि ) सोम, ऐश्वर्य, शासन, राष्ट्र, अन्न और जीवन गण के रक्षार्थ आ । ( २ ) हे विद्वन् तू ( सोमस्य ) शिष्यगण के रक्षार्थ आ । ( ३ ) हे ( अर्थ ) इन्द्रियों के स्वामिन् ! तू ( सोमस्य ) वीर्य के रक्षार्थ उत्तम वाणी और क्रिया साधन से आगे बढ़ । और (अमुष्य दिवं शासतः दिवः यय) उस ज्ञान के उपदेशा ज्ञानी गुरु के ज्ञानों को प्राप्त कर । इति द्वादशो वर्गः ॥

आ नो॑ या॒ह्युप॑श्रुत्यु॒क्थेषु॑ रणया इ॒ह ।

दिवो॑ अ॒मुष्य॒ शास॑तो दि॒वं य॒य दि॑वावसो ॥ ११ ॥

भा०—हे ( दिवावसो ) ज्ञानप्रकाश के हेतु ब्रह्मचर्य वास करने हारे ! तू ( नः ) हम विद्वानों के ( उप-श्रुति ) समीप आकर ज्ञान श्रवण करने के निमित्त ( आ याहि ) प्राप्त हो और ( उक्थेषु ) वेद-वचनों और उपदेशों के निमित्त ( इह ) इस आश्रम में ( नः रणय ) हमें उपदेश कर । हे ( दिवा-वसो ) ज्ञानप्रकाश के हेतु उसके अधीन वास करने वाले ! शिष्य ! तू ( अमुष्य दिवं शासतः दिवः ) उस ज्ञान के अनुशासक तेजस्वी गुरु के ज्ञानों को ( यय ) प्राप्त कर ।

सरूपैरा सु नो गहि संभृतैः सम्भृताश्वः ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ १२ ॥

भा०—हे विद्वन् ! तू ( सम्भृताश्वः ) अश्वोंवत् विषयों की उपभोग करने वाले इन्द्रिय गण को अच्छी प्रकार अपने वश करके ( संभृतैः ) उत्तम रूप से पुष्ट और ( सरूपैः ) समान रूप कान्ति से युक्त अंगों वा सहयोगियों सहित ( नः सु गहि ) हमें सुख से प्राप्त कर । ( दिवः अमुष्य० ) इत्यादि पूर्ववत् ।

आ याहि पर्वतेभ्यः समुद्रस्याधि विष्टपः ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ १३ ॥

भा०—हे विद्वन् ! तू ( पर्वतेभ्यः ) पर्वतों या मेघों से जलों के समान और ( समुद्रस्य ) समुद्र के ( वि-स्तपः ) ताप रहित शीतल स्थान से मेघमाला या पवन के समान ( आ याहि ) हमें प्राप्त हो । ( दिवः अमुष्य० इत्यादि पूर्ववत् )

आ नो गव्यान्यश्व्या सहस्रा शूर दर्दहि ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ १४ ॥

भा०—हे ( शूर ) वीर ! तू ( सहस्रा ) बलवान् वा सहस्रों ( गव्यानि अश्व्या ) गौओं और अश्वों की ( नः आदर्दहि ) हमारे लिये वृद्धि

कर । वा हमारे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और प्राणों के (सहस्रा) अनेक ज्ञानों बलों को बढ़ा (दिवः अमुष्य०) इत्यादि पूर्ववत् ॥

आ नः सहस्रशो भ्रायुतानि शतानि च ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ १५ ॥

भा०—हे विद्वन् ! हे राजन् ! शूर ! तू (नः) हमें (सहस्रशः अयुतानि शतानि च) सैकड़ों, हजारों और लाखों की संख्या में (आभर) पुष्ट कर, वा हमें अनेक ऐश्वर्य दे । (दिवः अमुष्य० इत्यादि पूर्ववत्) इति त्रयोदशो वर्गः ॥

आ यदिन्द्रश्च दद्वहे सहस्रं वसुरोचिपः ।

ओजिष्टमश्व्यं पशुम् ॥ १६ ॥

भा०—हम लोग और (इन्द्रः च) हमारा ऐश्वर्यवान् राजा, नेता, (वसुरोचिपः) धन, प्रजादि की कान्ति से सम्पन्न होकर (ओजिष्टं) अति पराक्रमशील, बलयुक्त, (अश्व्यं) अश्व बल से युक्त (पशुम्) पशु सम्पदा को (सहस्रं) सहस्र संख्या में (आ दद्वहे) प्राप्त करें ।

यऋज्रा वातरंहसोऽरुषासो रघुष्यदः । भ्राजन्ते सूर्या इव ॥१७॥

भा०—(ये) जो (ऋज्राः) ऋजु, धर्म मार्ग से जाने वाले, (वातरंहसः) वायु के वेग से गमन करने वाले (अरुषासः) अति कान्तियुक्त, वा रोपरहित, अति शान्त, (रघुष्यदः) वेगवान् रथ से जाने वाले, वीर पुरुष (सूर्याः इव) सूर्यों के समान (भ्राजन्ते) चमकते हैं ।

पारावतस्य रातिपु द्रवचक्रेष्वाशुपु ।

तिष्ठं वनस्य मध्य आ ॥ १८ ॥ १३ ॥

भा०—परम स्थान पर विराजमान, परम पालक प्रभु के (रातिपु) ये ऐश्वर्यों के बीच में और (द्रवत्-चक्रेषु) अति शीघ्रता से चलने वाले, चक्रों से युक्त, (आशुपु) शीघ्रगामी अश्वों, सैन्यों के बीच में सुरक्षित रहने

कर ( वनस्य मध्ये ) जल के बीच कमलवत्, तेजों के बीच सूर्यवत् और  
ऐश्वर्यों के बीच मैं ( आ तिष्ठम् ) विराजूं । इति त्रयोदशो वर्गः ॥

[ ३५ ]

श्यावाश्व ऋषिः ॥ आश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१—५, १६, १८ विराट् त्रिष्टुप् ॥  
७—६, १३ निचृत् त्रिष्टुप् । ६, १०—१२, १४, १५, १७ भुरिक्  
पंक्तिः । २०, २१, २४ पंक्तिः । १६, २२ निचृत् पंक्तिः । २३ पुरस्ता-  
ज्ज्योतिर्नामजगती ॥ चतुर्विंशत्यृचं सूक्तम् ॥

अग्निनेन्द्रेण वरुणेन विष्णुनादित्यै रुद्रैर्वसुभिः सचाभुवा ।  
सजोषसा उपसा सूर्येण च सोमं पिवतमश्विना ॥ १ ॥

भा०—हे (अश्विना) उत्तम जितेन्द्रिय विद्वान् स्त्री पुरुषो ! हे रथी  
सारथिवत् राजा सचिवादि जनो ! आप दोनों ( अग्निना ) अग्नि (इन्द्रेण)  
विद्युत्, ( वरुणेन ) जल, ( विष्णुना ) व्यापक, एवं विविध पदार्थों के  
शोधक, सूर्य ( आदित्यैः ) सूर्य की किरणों और ( रुद्रैः वसुभिः ) रोग-  
नाशक और जीव के बसाने योग्य साधनों से और ( उपसा सूर्येण ) उपा,  
प्रभात की दीप्ति और सूर्य के समान ( स-जोषसा ) समान प्रीति युक्त  
होकर ( सोमं पिवतम् ) 'सोम' अर्थात् ऐश्वर्य का पालन, उत्पन्न जगत्  
और पुत्र राष्ट्रादि का पालन करो तथा ऐश्वर्य अन्न जलादि का उपभोग करो ।  
इसी प्रकार वे दोनों ( सचा-भुवा ) सदा साथ, संगत, एवं समवाय से  
परस्पर सहयोगी रहकर ( अग्निना ) अग्रणी नायक, तेजस्वी विद्वान्  
( इन्द्रेण ) ऐश्वर्यवान्, ( वरुणेन ) श्रेष्ठ, ( विष्णुना ) व्यापक बलशाली  
और ( आदित्यैः रुद्रैः वसुभिः ) सूर्य की किरणों, प्राणों और प्रजाजनों  
आदि से मिलकर ऐश्वर्यादि का उपभोग और पालन करो ।

विश्वाभिर्धीभिर्भुवनेन वाजिना दिवा पृथिव्याद्रीभिः सचाभुवा ।  
सजोषसा उपसा सूर्येण च सोमं पिवतमश्विना ॥ २ ॥

भा०—( उपसा सूर्येण च ) सूर्य की प्रातःकालिक उपा, और 'सूर्य' के समान ( स-जोषसा ) समान प्रीतियुक्त होकर हे ( अश्विनौ ) रथी सारथिवत् उत्तम सहयोगी जितेन्द्रिय स्त्रीपुरुषो ! आप दोनों (वाजिना सचाभुवा ) बल, ज्ञान, ऐश्वर्यादि के स्वामी और एक साथ संगत रहते हुए, ( विश्वाभिः धीभिः ) समस्त वाणियों, कर्मों और ज्ञानों से और ( भुवनेन ) उत्पन्न संसार और ( दिवा पृथिव्या ) सूर्य और पृथिवी और ( अद्रिभिः ) मेघों से उत्पन्न ( सोमं ) ऐश्वर्य, अन्नादि का ( पिवतम् ) उपभोग करो ।

विश्वैर्देवैस्त्रिभिरेकादशैरिहाद्भिर्मरुद्भिर्भृगुभिः सचाभुवा ।

सजोषसा उपसा सूर्येण च सोमं पिवतमश्विना ॥ ३ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) उत्तम जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( सचा-भुवा ) सदा एक साथ ( स-जोषसा ) प्रेमपूर्वक रहते हुए ( उपसा सूर्येण च ) उपा, सूर्य के सदृश सुशोभित रहकर ( त्रीभिः एकादशैः ) तीन ग्यारह, अर्थात् ३३ ( विश्वैः देवैः ) समस्त विद्वानों ( अद्भिः ) जलवत् शान्तिदायक आप्त जनों, ( मरुद्भिः ) वातों के समान बलवान्, ( भृगुभिः ) दुष्टों के नाशकारी, तेजस्वी पुरुषों द्वारा ( सोमं पिवतम् ) ऐश्वर्य का पालन और उपभोग करो ।

जुषेथां यज्ञं बोधतं हवस्य मे विश्वेह देवौ सवनाव गच्छतम् ।

सजोषसा उपसा सूर्येण चेषं नो बोह्लमश्विना ॥ ४ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( यज्ञं ) यज्ञ, आदर-सत्कार, परस्पर सत्संग और दान धर्म का ( जुषेथाम् ) प्रेमपूर्वक सेवन करो । और ( मे हवस्य ) मेरे उत्तम स्तुतियुक्त आह्वान वा देने योग्य उपदेश का ( बोधतम् ) अच्छी प्रकार ज्ञान करो । आप दोनों ( देवौ ) दानशील और उत्तम कामनायुक्त होकर ( इह ) इस जगत् में ( विश्वा सवना अव गच्छतम् ) समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करो । आप दोनों

( उपसा सूर्येण च सजोपसा ) उपा और सूर्य के समान प्रीति युक्त होकर  
 ( नः ) हमारे लिये ( इपं आ वोढम् ) उत्तम अन्न प्राप्त कराओ ।  
 स्तोमं जुपेथां युवशेव कन्यनां विश्वेह देवौ सवनावं गच्छतम् ।  
 सजोपसा उपसा सूर्येण चेपं नो वोळ्हमश्विना ॥ ५ ॥

भा०—( युवशा इव )-जिस प्रकार उत्तम युवा युवति दोनों ( स-  
 जोपसा ) समान प्रीतियुक्त होकर ( कन्यनां स्तोमं जुपतः ) कन्याओं वा गृह  
 में विद्यमान मित्रों के स्तुति वचनों के पात्र होते हैं उसी प्रकार हे  
 ( अश्विना ) दिन रात्रिवत् स्त्री पुरुषो ! आप दोनों भी ( उपसा सूर्येण च )  
 कामना युक्त स्त्री से पुरुष और सूर्यवत् तेजस्वी प्रजोत्पादन समर्थ पुरुष  
 से स्त्री ( स-जोपसा ) समान प्रीतियुक्त होकर ( देवौ ) उत्तम व्यवहार,  
 एवं कामनावान् दानशील होकर ( इह ) इस संसार से ( विश्वा सवना )  
 सब सवन, यज्ञ, प्रजाएं तथा ऐश्वर्यों को ( अव गच्छतम् ) प्राप्त करें ।  
 ( च ) और ( नः ) हमें ( इपं वोढम् ) हमारी इच्छाएं प्राप्त करावें ।  
 अथवा—( नः ) हमारे बीच ऐसे पूर्वोक्त स्त्री पुरुष ही ( इपं आवोढम् )  
 उत्तम कामना को रखकर परस्पर विवाह करें ।

गिरो जुपेथामध्वरं जुपेथां विश्वेह देवौ सवनावं गच्छतम् ।

सजोपसा उपसा सूर्येण चेपं नो वोळ्हमश्विना ॥ ६ ॥ १४ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) बलवान्, ऐश्वर्य भोगने और इन्द्रियों को  
 चश करने वाले स्त्री पुरुषो ! आप लोग ( गिरः जुपेथाम् ) विद्वान् उप-  
 देष्टा पुरुषों और वेद वाणियों का प्रेमपूर्वक सेवन करो । ( देवौ ) दान-  
 शील और कामना युक्त वा व्यवहारज्ञ होकर ( अध्वरं जुपेथाम् ) यज्ञ  
 और अहिंसाव्रत का प्रेमपूर्वक सेवन करो ( इह विश्वा सवना अव गच्छ-  
 तम् ) यहां जगत में समस्त ऐश्वर्यों, अधिकारों, ज्ञानादि को प्राप्त करो ।  
 ( स-जोपसा उपसा ) प्रीतियुक्त कान्तिमती प्रभात वेला वा दाहक शक्ति  
 और ( स-जोपसा सूर्येण च ) प्रीतियुक्त सूर्यवत् परस्पर के साथ मिलकर



प्रीतियुक्त होकर ( इषं वोढम् ) अन्न, वृष्टि आदि के तुल्य अपनी उत्तम कामना को धारण करो । परस्पर विवाह करो । इति चतुर्दशो वर्गः ॥  
 हारिद्रवेव पतथो वनेदुप् सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः ।  
 सजोषसा उपसा सूर्येण च त्रिर्वर्तिर्यातमश्विना ॥ ७ ॥

भा०—जिस प्रकार ( हारिद्रवा इव वना ) दो हरिद्रव नामक जल के पक्षी जलों में ( पतथः ) सुखपूर्वक गति करते हैं उसी प्रकार हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! आप दोनों भी ( वना उप पतथः ) सेवने योग्य ऐश्वर्यों को लक्ष्य कर आगे बढ़ो । उनको प्राप्त कर ऐश्वर्यवान् होवो । ( महिषा इव सोमं ) जिस प्रकार दो महिष, विशालकाय अरणा भैंसा वा भैंसी, ( वना इत् उपपतथः ) बनों में विचरते, नाना भोग्य सुखों को समीप रहकर प्राप्त करते हैं उसी प्रकार तुम दोनों भी ( महिषा ) बड़े दानशील होकर ( उप पतथः ) नाना भोग्य पदार्थों को प्राप्त करो, ( सुतं सोमं अथ गच्छथः ) उत्पन्न सोम्य, पुत्र वा शिष्य को प्राप्त करो । ( सजोषसा, उपसा, सजोषसा-सूर्येण च ) प्रीतियुक्त, प्रभात वेलावत् कान्तियुक्त स्त्री से पुरुष और प्रीतियुक्त सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष से स्त्री समान प्रीतियुक्त होकर दोनों ( त्रिः वर्तिः ) तीन प्रकार के मार्ग को गमन करें । तीन मार्ग अर्थात् तीन आश्रमों का पालन करें ।

हंसाविव पतथो अध्वगाविव सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः ।  
 सजोषसा उपसा सूर्येण च त्रिर्वर्तिर्यातमश्विना ॥ ८ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( हंसौ इव ) दो राजहंसों के समान और ( अध्वगौ इव ) दो पथिकों के समान ( पतथः ) गमन करो । ( शेष पूर्ववत्—)

श्येनाविव पतथो हव्यदातये सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः ।  
 सजोषसा उपसा सूर्येण च त्रिर्वर्तिर्यातमश्विना ॥ ९ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( हव्यदातये )

ग्राह्य पदार्थ वा उत्तम खाद्य पदार्थ के देने वा यज्ञ के लिये (श्येनौ इव )  
दो श्येनों के समान वेग से उत्तम विमान रथादि से जाते हुए वा उत्तम  
आचारवान् होकर (सुतं सोमं भव गच्छथः) यज्ञ में उत्पादित सोम ओषधि  
रस, तद्वत् आनन्द को प्राप्त करो । शेष पूर्ववत् ।

पिव॑तं च तृ॒ण्यु॑तं चा॒ च गच्छ॑तं प्र॒जां च॑ ध॒त्तं द्रवि॑णं च धत्तम् ।  
स॒जोष॑सा उ॒पसा॑ सू॒र्येण॑ चो॒र्जा॑ नो धत्तमश्विना ॥ १० ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! हे अश्वदि के स्वामी  
नायक वा सैन्य जनो ! आप दोनों (पिवतं च तृण्युतं च) पान करो, ऐश्वर्य  
का भोग करो और तृप्त भी होवो, (आ गच्छतं च) आओ और ( प्रजां च  
आ धत्तम् ) उत्तम सन्तान धारण करो, और (द्रविणं च आ धत्तम् ) धन  
भी प्राप्त करो, और ( नः ऊर्जा च धत्तम् ) परस्पर प्रीतियुक्त होकर हमारे  
बीच बल और अन्न धारण करो । शेष पूर्ववत् ।

जय॑तं च प्र स्तु॑तं च प्र चा॑वतं प्र॒जां च॑ ध॒त्तं द्रवि॑णं च धत्तम् ।  
स॒जोष॑सा उ॒पसा॑ सू॒र्येण॑ चो॒र्जा॑ नो धत्तमश्विना ॥ ११ ॥

भा०—( जयतं च ) दोनों आप जय प्राप्त करो, ( प्र स्तुतं च ) उत्तम  
रीति से स्तुति करो और ( प्र अवतं च ) अच्छी प्रकार रक्षा भी करो  
( प्रजां च धत्तं, द्रविणं च धत्तम् ) प्रजा और धन को धारण करो ।  
( शेष पूर्ववत् )

ह॒तं च॑ शत्रू॒न्यत॑तं च मि॒त्रिणः॑ प्र॒जां च॑ ध॒त्तं द्रवि॑णं च धत्तम् ।  
स॒जोष॑सा उ॒पसा॑ सू॒र्येण॑ चो॒र्जा॑ नो धत्तमश्विना ॥ १२ ॥ १५ ॥

भा०—( शत्रून् हतं च ) और शत्रुओं को मारो । ( मित्रिणः यततं च )  
स्नेहयुक्त जनों को यत्नपूर्वक प्राप्त करो, ( शेष पूर्ववत् ) इति पञ्चदशो वर्गः ॥  
मि॒त्रावरु॑णवन्ता उ॒त ध॑र्मवन्ता म॒रुत्व॑न्ता ज॒रितु॑र्गच्छ॒थो ह॑वम् ।  
स॒जोष॑सा उ॒पसा॑ सू॒र्येण॑ चा॒दित्यै॑र्या॒तम॑श्विना ॥ १३ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रियं स्त्री पुरुषो ! वा सैन्य एवं नायक जनो ! आप दोनों ( मित्रावरुण-वन्ता ) स्नेहवान् एवं श्रेष्ठ पुरुषों, ब्राह्मण और क्षत्रिय राजाओं से युक्त, ( धर्म-वन्ता ) धर्मवान् और ( मरुत्वन्ता ) उत्तम प्राणों, नाना मनुष्यों और बलवान् पुरुषों के स्वामी होकर ( जरितुः हवं गच्छथः ) विद्वान्, उपदेष्टा पुरुष के उपदेश को प्राप्त करो । ( उपसाः सूर्येण सजोषसा ) उपा सूर्यवत् समान परस्पर प्रीतियुक्त हो ( आदित्यैः यातम् ) किरणोंवत् तेजस्वी पुरुषों के साथ वा बारहों महीने ( यातम् ) जीवन मार्ग पर गमन करो ।

अङ्गिरस्वन्ता उत विष्णुवन्ता मरुत्वन्ता जरितुर्गच्छथो हवम् ।  
सजोषसा उपसा सूर्येण चादित्यैर्यातमश्विना ॥ १४ ॥

भा०—आप दोनों ( अंगिरस्वन्ता ) उत्तम विद्वानों और देह में बलवान् प्राणों से युक्त ( उत ) और ( विष्णुवन्ता ) व्यापक सामर्थ्य से युक्त ( मरुत्वन्ता ) उत्तम पुरुषों वा प्राणों से युक्त होकर ( जरितुः हवं गच्छथः ) विद्वान् उपदेष्टा के यज्ञ, वा उपदेश को रणवत् प्राप्त करो । शेष पूर्ववत् ।

ऋभुमन्ता वृषणा वाजवन्ता मरुत्वन्ता जरितुर्गच्छथो हवम् ।  
सजोषसा उपसा सूर्येण चादित्यैर्यातमश्विना ॥ १५ ॥

भा०—आप दोनों ( ऋभु-मन्ता ) सत्य ज्ञान से चमकने वाले पुरुषों से युक्त, ( वृषणा ) बलवान्, सुखों के दाता, ( वाजवन्ता ) ऐश्वर्य ज्ञानवान् ( मरुत्वन्ता ) प्राणों और पुरुषों के स्वामी होकर ( जरितुः हवं गच्छथः ) उपदेष्टा, विद्वान् के आह्वान वा उपदेश को प्राप्त करो । शेष पूर्ववत् । इसी प्रकार सैन्य एवं नायक भी शिल्पियों से युक्त, बलवान्, ऐश्वर्यवान् और मरने मारने वाले वीर भटों से युक्त होकर ( जरितुः ) राष्ट्र को जीर्ण करने वाले शत्रु के ( हवम् ) आह्वान, रण ललकार को प्राप्त करें ( शेष पूर्ववत् )

ब्रह्म जिन्वतमुत जिन्वतं धियोहृतं रक्षांसि सेधतममीवाः ।  
सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अश्विना ॥ १६ ॥

भा०—आप दोनों ( ब्रह्म जिन्वतम् ) ज्ञान, वेद और धन की वृद्धि करो, ( धियः जिन्वतम् ) बुद्धियों और सत्कर्मों की वृद्धि करो, ( रक्षांसि ) दुष्ट पुरुषों, विघ्न करने वालों को ( हतम् ) मारो । और ( अमीवाः ) रोगों को ( सेधतम् ) दूर करो । ( सुन्वतः सोमम् ) यज्ञ करने, सोम सवन करने वाले का सोम पान करें वा ऐश्वर्य उत्पादक प्रजा के ( सोमं ) ऐश्वर्य का उपभोग और रक्षण करें ।

क्षत्रं जिन्वतमुत जिन्वतं नृन्हृतं रक्षांसि सेधतममीवाः ।  
सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अश्विना ॥ १७ ॥

भा०—( क्षत्रं जिन्वतम् ) आप दोनों धन और बल-वीर्य की वृद्धि करो । ( नृन् जिन्वतम् ) नायक पुरुषों को बढ़ावो । शेष पूर्ववत् ।  
धेनूजिन्वतमुत जिन्वतं विशो हृतं रक्षांसि सेधतममीवाः ।

सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अश्विना ॥ १८ ॥१६॥

भा०—( धेनूः जिन्वतम् ) गौओं की वृद्धि करो, उनको अन्न, घास जलादि से खूब तृप्त, प्रसन्न कर रक्खो, और ( विशः जिन्वतम् ) प्रजाओं को बढ़ाओ, उनको तृप्त रक्खो । शेष पूर्ववत् । इति षोडशो वर्गः ॥

अत्रैरिव शृणुतं पूर्यस्तुतिं श्यावाश्वस्य सुन्वतो मदच्युता ।  
सजोषसा उषसा सूर्येण चाश्विना तिरोभ्रह्मम् ॥ १९ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) रथी सारथीवत् स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( अत्रेः इव ) तीनों दुःखों, बन्धनों, आश्रमों से रहित संन्यासी पुरुष के समान ही ( सुन्वतः ) शासन करने वाले ( श्यावाश्वस्य ) रक्त श्याम अश्वों के स्वामी, राजा वा जितेन्द्रिय, विद्वान् की ( पूर्यस्तुतिं ) श्रेष्ठ स्तुति या उपदेश को ( मदच्युता ) तृप्त या हर्षित होकर ( शृणुतं ) श्रवण करो । ( सूर्येण उपसा स-जोषसा ) सूर्य और उषावत् परस्पर प्रीतियुक्त होकर

( तिरः-अह्वयम् ) दिनावसान और दिन प्राप्ति के प्रातःसायं कृत्यों का भी पालन किया करो ।

तिरः सतः इति प्राप्तस्य । निरु० ॥

सर्गा इव सृजतं सुपुतीरुप श्यावाश्वस्य सुन्वतो मदच्युता ।

सजोषसा उपसा सूर्येण चाश्विना तिरोअह्वयम् ॥ २० ॥

भा०—आप दोनों शासन करने वाले ( श्यावाश्वस्य ) उत्तम अश्वों के स्वामी राजा वा जितेन्द्रिय विद्वान् की ( सु-स्तुतीः ) उत्तम स्तुतियों और उपदेशों को ( सर्गान् इव उप सृजतम् ) आभूषणों के समान धारण करो वा जलों के समान पान करो वा उत्तम पदार्थों के समान उत्तम उपभोग करो । शेष पूर्ववत् ।

रश्मीरिव यच्छतमध्वराँ उप श्यावाश्वस्य सुन्वतो मदच्युता ।

सजोषसा उपसा सूर्येण चाश्विना तिरोअह्वयम् ॥ २१ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! रथी सारथिवत् राजा सचिवादि जनो ! आप दोनों ( मद-च्युता ) हर्षप्रद होकर ( सुन्वतः ) सवन, ऐश्वर्य वा शासन करने वाले ( श्यावाश्वस्य ) बलवान् उत्तम अश्वों वाले पुरुषों और ( अध्वरान् ) यज्ञों और न विनष्ट होने वाले, प्रबल जनों को ( रश्मीन् इव ) रश्मियों के समान ( उप यच्छतम् ) नियन्त्रित करो । शेष पूर्ववत् ।

अर्वाग्रथं नियच्छतं पिवतं सोम्यं मधु ।

आ यातमश्विना गतमवस्युर्वामहं हुवे धत्तं रत्नानि दाशुषे ॥२२॥

भा०—हे ( अश्विना ) अश्व के ऊपर वश करने वाले रथी सारथिवत् जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! आप लोग ( रथं ) रथ के तुल्य रमण या सुख के साधन अपने देह और आत्मा को ( अर्वाक् ) अपने समक्ष (नियच्छतं) नियम में रक्खो । और ( सोम्यं मधु ) ओषधिरस से मिश्रित अन्न, या मधु के समान आत्मा या परमेश्वर के मधुर सुख को ( पिवतम् ) पान

करो । (अहं अवस्युः वां हुवे) मैं रक्षार्थी आप दोनों को बुलाता हूँ । आप दोनों ( आयातम् ) आवें ( गतम् ) जावें । आप दोनों ( दाशुपे ) दानशील पुरुष को नाना ( रत्नानि ) उत्तम रत्नादि, सुखप्रद पदार्थ ( धत्तम् ) प्रदान करें ।

नमोवाके प्रस्थिते अध्वरे नरा विवक्षणस्य पीतये ।

आ यातमश्विना गतमवस्युर्वामहं हुवे धत्तं रत्नानि दाशुपे ॥२३॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय पुरुषो ! ( नरा ) हे उत्तम नायक और नेय जनो ! ( अध्वरे ) यज्ञ में ( नमो-वाके प्रस्थिते ) नमःयुक्त वचन प्रारम्भ होने पर ( विवक्षणस्य ) विशेष रूप से वहन करने योग्य, विशेष वचन योग्य पद या ज्ञान के ( पीतये ) रक्षा और पान करने के लिये आप लोग ( आयातम् ) आवें और ( गतम् ) जावें । मैं ( अवस्युः ) रक्षा और ज्ञान-तृप्ति चाहता हुआ ( वां हुवे ) आप दोनों को बुलाता, प्रार्थना करता हूँ, आप ( दाशुपे रत्नानि धत्तम् ) दानशील, आत्मसमर्पक पुरुष को उत्तम २ पदार्थ प्रदान करें ।

स्वाहाकृतस्य तृप्तस्य सुतस्य देवान्धसः ।

आ यातमश्विना गतमवस्युर्वामहं हुवे धत्तं रत्नानि दाशुपे २४।१७

भा०—हे ( देवा ) उत्तम विद्वान् दानशील पुरुषो ! आप दोनों, ( स्वाहा-कृतस्य ) उत्तम रीति से आहुति किये वा उत्तम वचनों द्वारा प्रशंसित ( सुतस्य ) कूट, पीस, छान कर तैयार किये ( अन्धसः ) अन्न और जीवनप्रद ओषधि पदार्थसे ( तृप्तस्य ) क्षुधा की तृप्ति करो । शेष पूर्ववत् । इति सप्तदशो वर्गः ॥

[ ३६ ]

श्यावाश्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ५, ६ शक्वरी । २, ४ निचृच्छक्वरी । ३ विराट् शक्वरी । ७ विराड् जगती ॥ सप्तच सूक्तम् ॥

आवितासि सुन्वतो वृक्तवर्हिपः पिवा सोमं मदाय कं शतक्रतो ।  
यं ते भागमधारयन्विश्वाः सेहानः पूतना उरु जूयः समप्सुजि-  
न्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥ १ ॥

भा०—हे ( शतक्रतो ) अनेक प्रज्ञानों और अनेक कर्म करने हारे !  
राजन् ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! विद्वन् ! प्रभो ! तू ( सुन्वतः ) उपासना-  
करने वाले, यज्ञशील, ( वृक्त-वर्हिपः ) आसनार्थ कुशादि विछाकर बैठे-  
हुए विद्वान् जन का ( अविता असि ) रक्षा करने वाला है । तू ( मदाय )  
आनन्द लाभ के लिये ( सोमं पिब ) सोम, उत्पन्न जगत्, पुत्रवत् प्रजा-  
शिष्यादि का पालन कर । हे ( सत्पते ) सज्जनों के पालक ! ( इन्द्र )  
शत्रुओं और दुष्ट पुरुषों के नाशक ! तू ( मरुत्वान् ) बलवान् पुरुषों का  
स्वामी होकर ( अप्सु-जित् ) प्राप्त प्रजाओं में सर्वातिशायी होकर ( उरु जूयः )  
बड़े भारी वेग और बल को तथा ( विश्वाः पूतनाः ) समस्त सेनाओं को  
( संसेहानः ) अच्छी प्रकार पराजित करता हुआ तू उस ( सोमं पिब )  
ऐश्वर्य का भोग कर ( यं भागं ) जिस सेवनयोग्य अंश को ( ते ) तेरे  
लिये ( अधारयन् ) निर्धारित कर दे ।

प्राव स्तोतारं मधवन्नव त्वां पिवा सोमं मदाय कं शतक्रतो ।  
यं ते भागमधारयन्विश्वाः सेहानः पूतना उरु जूयः समप्सु-  
जिन्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥ २ ॥

भा०—हे ( मधवन् ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( स्तोतारं प्र अव ) तू स्तुति-  
कर्त्ता, विद्वान् उपदेष्टा की अच्छी प्रकार रक्षा कर और ( त्वां प्र अव ) तू  
तृप्त हो । ( पिवा सोमं इत्यादि पूर्ववत् ) त्वां । त्वं । छान्दसो दीर्घः ।  
अथवा सोरमादेशः । विभक्तिव्यत्ययः ।

ऊर्जा देवाँ अवस्योजसा त्वां पिवा सोमं मदाय कं शतक्रतो ।  
यं ते भागमधारयन्विश्वाः सेहानः पूतना उरु जूयः समप्सुजि-  
न्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥ ३ ॥

भा०—( त्वां = त्वं ) तू ( देवान् ) सुख ऐश्वर्यादि के चाहने वाले विजिगीषु, एवं विद्वान् जनों को ( ऊर्जा भोजसा ) अन्न और बल पराक्रम से ( अवसि ) रक्षा करने में समर्थ है, अतः तू ( हे शतक्रतो मदाय सोमं पिव० ) इत्यादि पूर्ववत् ।

जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः पित्रा सोमं मदाय कं शतक्रतो ।  
यं ते भागमधारयन्विश्वाः सेहानः पृतना उरु ज्यः समप्सुजि-  
न्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥ ४ ॥

भा०—हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों कर्म करने और सैकड़ों ज्ञानों के जानने हारे ! सहस्रों यज्ञ करने हारे ! प्रभो ! तू ( दिवः जनिता ) सूर्य, प्रकाश, महान् आकाश का ( जनिता ) उत्पादक और ( पृथिव्याः जनिता ) पृथिवी का भी उत्पादक है । हे ( सत्पते इन्द्र ) सज्जनों के पालक, दुष्टों के नाशक ! तू ( मरुत्वान् ) समस्त जीवों का स्वामी और ( अप्सु-जित् ) प्राणों, प्रकृति के परमाणुओं और समस्त लोकों में व्यापक रहकर सबको वश करने वाला, सब से महान्, ( उरुज्यः ) महान् वेग, बलस्वरूप होकर उसी ( यं ) जिस ( ते ) तेरे दिये ( भागम् ) सेवनीय अन्न को वे ( अधारयन् ) धारण करते हैं उसीसे तू उन ( विश्वाः पृतनाः संसेहानः ) समस्त जीव प्रजाओं को अच्छी प्रकार तृप्त करता हुआ ( मदाय ) परमानन्द लाभ कराने के लिये ( सोमं पिव ) समस्त जगत् का पालन करता है । सेहानः—सह मर्षणे, सह चक्षर्थे । चक्र तृप्तौ प्रतिघाते च । भ्वादिः ।

जनिताश्वानां जनिता गवामसि पित्रा सोमं मदाय कं शतक्रतो ।  
यं ते भागमधारयन्विश्वः सेहानः पृतना उरु ज्यः समप्सुजि-  
न्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥ ५ ॥

भा०—हे ( इन्द्र सत्पते शतक्रतो ) ऐश्वर्यवन् ! सज्जनों के पालक सैकड़ों यज्ञों कर्मों के स्वामिन् ! तू ( अश्वानां जनिता, गवां जनिता असि ) अश्वों



और गौओं, सूर्यों और भूमियों का भोक्ता आत्मा और इन्द्रियों का भी उत्पन्न करने वाला है। शेष पूर्ववत् ।

अत्रीणां स्तोममद्रिवो महस्कृधि पित्रा सोमं मदाय कं शतक्रतो ।  
यं ते भागमधारयन्विश्वाः सेहानः पृतना उरु जूयः समप्सुजि-  
न्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥ ६ ॥

भा०—हे (अद्रिवः) मेघों के स्वामिन् सूर्यवत् तेजस्विन् ! वा अखण्ड शक्तियों के स्वामिन् ! तू (अत्रीणां) तीनों दुःखों से रहित, जनो के (स्तोमं) स्तुति वचन को (महः कृधि) पूजित, पूर्ण कर । हे राजन् शक्तिशालिन् ! तू (अत्रीणां) इस राष्ट्र में विद्यमान प्रजाओं की प्रार्थना का आदर कर । शेष पूर्ववत् ।

श्यावाश्वस्य सुन्वतस्तथा शृणु यथाशृणोरत्रेः कर्माणि कृण्वतः ।  
प्र त्रसदस्युमाविथ त्वमेक इन्नुषाह्य इन्द्र ब्रह्माणि वर्धयन् ॥७॥१८

भा०—(कर्माणि कृण्वतः) कर्म करनेवाले (अत्रेः) 'अत्रि' अर्थात् त्रिविध दुःखों वा बन्धनों से रहित शुद्धात्मा जन की स्तुति को (यथा अशृणोः) जिस प्रकार श्रवण करता तथा उसी प्रकार (सुन्वतः) पूजा करने वाले (श्यावाश्वस्य) बलवान्, दृढ़, जितेन्द्रिय पुरुष के भी (स्तोमम् अशृणोः) स्तुति वचन को श्रवण करता है । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (ब्रह्माणि वर्धयन्) अज्ञों, ज्ञानों और धनों की वृद्धि करता हुआ (नृ-साह्ये) मनुष्यों और नायकों को वश करने में (त्वम् एकः इत्) तू अकेला ही (त्रसदस्युम्) दस्युओं को भय देने वाले सैन्य बल को वा दस्यु से भयभीत प्रजाजन को वा (त्रसद्-अस्युम्) भयभीत शत्रु को उखाड़ने वाले सैन्य को (प्र आविथ) उत्तम रीति से रक्षा कर । इत्यष्टादशो वर्गः ॥

[ ३७ ]

श्यावाश्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ विराडतिजगती । २—६ नि-  
चृज्जगती । ७ विराड् जगती ॥ सप्तर्चं सूक्तम् ॥

प्रेदं ब्रह्म वृत्रतूर्येष्वविथ प्र सुन्वतः शचीपत इन्द्र विश्वाभिरुतिभिः । माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहन्नेद्य पिव सोमस्य वज्रिवः ॥ १ ॥

भा०—सूर्य जिस प्रकार (वृत्र-तूर्येषु ब्रह्म प्र अवति) मेघ के आघातों या जलों के वेगवत् प्रवाहों पर अन्नों की रक्षा करता है और (सुन्वतः) उत्पन्न जीवों की रक्षा करता है वह (माध्यन्दिनस्य सवनस्य सोमस्य पिवति) मध्याह्न में तीव्र ताप से जल का पान करता वा जगत् की रक्षा करता है उसी प्रकार हे (इन्द्र) शत्रुओं को नाश करने हारे ! तू (वृत्र-तूर्येषु) शत्रुओं और विघ्नों को नाश करने के कार्यों के निमित्त (इदं ब्रह्म प्र आविथ) इस महान् ऐश्वर्य की खूब अच्छी प्रकार रक्षा कर । और (सुन्वतः प्र आविथ) सवन अर्थात् ऐश्वर्य उत्पन्न करने वाले वा तेरा अभिपेक करने वाले प्रजागण की भी उन अवसरों पर (विश्वाभिः उतिभिः अविथ) समस्त रक्षाकारिणी शक्तियों, सेनाओं द्वारा रक्षा किया कर । हे (अनेद्य) अनिन्दनीय ! हे प्रशस्त स्तुति योग्य ! हे (वज्रिवः) शक्तिशालिन् ! हे (शचीपते) शक्ति और वाणी के पालक ! तू (मध्यन्दिनस्य) दिन के मध्य काल में विद्यमान सूर्य के तेज के समान (सवनस्य) बलयुक्त शासन के (सोमस्य) ऐश्वर्य राष्ट्र आदि का हे (वृत्रहन्) दुष्टों के नाशक ! (पिव) उपभोग और पालन कर ।

सेहान उग्र पृतना अभि द्रुहः शचीपत इन्द्र विश्वाभिरुतिभिः । माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहन्नेद्य पिव सोमस्य वज्रिवः ॥२॥

भा०—हे (शचीपते इन्द्र) शक्तिशालिन् ! मतिमन् ! ऐश्वर्यशालिन् ! तू (विश्वाभिः उतिभिः) समस्त शक्तियों से (द्रुहः पृतनाः) द्रोह करने वाले मनुष्यों को (अभि सेहानः) पराजित करके अथवा (द्रुहः अभि सेहानः) द्रोहिषों को पराजित और (पृतनाः अभि सेहानः) सामान्य मनुष्य प्रजाओं को अन्नादि से वृत्त करता हुआ, हे (उग्र) बल-

वन् ! हे- ( अनेद्य ) अनिन्द्य ! प्रशंसनीय ! हे वज्रिवः शक्तिशालिन् ! हे ( वृत्रहन् ) दुष्ट, विघ्नकर्त्ताओं के नाशक ! तू ( माध्यन्दिनस्य सवनस्य सोमस्य पिव ) मध्य दिन के सूर्यवत् शासन और ऐश्वर्य का उपभोग और पालन कर ।

एकराष्टस्य भुवनस्य राजसि शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः ।  
माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहन्नेद्य पित्रा सोमस्य वज्रिवः ॥३॥

भा०—हे ( शचीपते ) सर्वशक्तिमन् ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! तू ( अस्य भुवनस्य ) इस भुवन, जगत् ब्रह्माण्ड के बीच ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) समस्त रक्षक शक्तियों द्वारा ( एकराट् ) अद्वितीय प्रकाशमान होकर, एक छत्र सम्राट् के समान ( राजसि ) विराजता है, विश्व के राजा के समान शासन करता है । ( माध्यन्दिनस्य० ) इत्यादि पूर्ववत् ।

सस्थावाना यवयसि त्वमेक इच्छीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः ।  
माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहन्नेद्य पित्रा सोमस्य वज्रिवः ॥४॥

भा०—हे ( शचीपते ) शक्ति और वाणी के पालक ! जिस प्रकार ( सस्थावाना ) समान बल से युद्धार्थ खड़े दो बलवान् राष्ट्रों को जिस प्रकार मध्यम राजा जुदा २ कर थामे रहता है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन्तः ! तू भी ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सब शक्तियों से सम्पन्न होकर ( सस्थावाना ) समान बल से स्थिर सूर्य पृथिवी आदि लोकों को परस्पर के तुलित बल से ( एकः त्वम् ) अकेलो ही ( यवयसि ) पृथक् २ थामे रहता है । शेष पूर्ववत् ।

क्षेमस्य च प्रयुजश्च त्वमीशिषे शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः ।  
माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहन्नेद्य पित्रा सोमस्य वज्रिवः ॥५॥

भा०—हे ( शचीपते ) शक्तिशालिन् ! ( त्वम् ) तू ( क्षेमस्य च ईशिषे ) क्षेम अर्थात् प्रजाओं के रक्षा करने में समर्थ है और ( प्रयुजः

त्र ईशिपे ) उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त कराने और उनको प्राप्त हुए नाना ऐश्वर्यों का भी स्वामी है । शेष पूर्ववत् ।

क्षत्राय त्वमवसि न त्वमाविथ शचीपत इन्द्र विश्वाभिरुतिभिः ।  
माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्नेद्य पित्रा सोमस्य वज्रिवः ॥६॥

भा०—हे ( शचीपते ) तू ( विश्वाभिः उतिभिः ) अपनी समस्त रक्षक शक्तियों से धनैश्वर्य और बल की वृद्धि के लिये ही ( अवसि ) रक्षा करता है ।

श्यावाश्वस्य रेभतस्तथा शृणु यथाशृणोरत्रेः कर्माणि कृण्वतः ।  
प्र त्रसदस्युमाविथ त्वमेक इन्द्रोपाह्य इन्द्र क्षत्राणि वर्धयन् ७।१९

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( यथा कर्माणि कृण्वतः तथा ) नाना कर्म करने वाले ( अत्रेः ) विविध बन्धनों से रहित या, इस संसार या राष्ट्र में विद्यमान मनुष्यों के समान ही ( रेभतः श्यावाश्वस्य शृणु ) स्तुति और उपदेश करनेवाले जितेन्द्रिय पुरुष के वचनों को भी श्रवण किया कर । अर्थात् राजा उद्योगी पुरुषों के समान विद्वान् जितेन्द्रियों की भी सुनकर उन पर ध्यान देवे । और ( नृ-सह्ये ) नायक पुरुषों द्वारा विजय करने योग्य संग्राम में ( क्षत्राणि वर्धयन् ) धनों और बलों की वृद्धि करता हुआ ( त्वम् एकः इत् ) तू एक, अद्वितीय ही सर्वोपरि, ( त्रसदस्युम् प्र आविथः ) दुष्टों को उखाड़ देने वाले बल की खूब रक्षा कर । इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

### [ ३८ ]

श्यावाश्व ऋषिः ॥ इन्द्राग्नी देवते ॥ छन्दः—१, २, ४, ६, ९ गायत्री ।

३, ५, ७, १० निचृद्गायत्री । ८ विराड् गायत्री ॥ दशर्चं सूक्तम् ॥

यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कर्मसु ।

इन्द्राग्नी तस्य वोधतम् ॥ १ ॥

भा०—हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र, ऐश्वर्यवन् ! हे अग्ने ! ज्ञानवन् ! तुम दोनों विद्युत् और अग्नि के समान ( यज्ञस्य ऋतिवजा ) यज्ञ को ऋतु २ में अनुष्ठान करने वाले ( वाजेषु ) बलों, धनों और ज्ञानों में ( सस्नी ) निष्णात, शुद्ध और अन्धों को भी पवित्र और निष्णात करने वाले और (कर्मसु) कर्मों में भी (सस्नी) शुद्ध, पवित्र आचारवान् (हि स्थः) होवो । आप दोनों ( तस्य बोधतम् ) उस यज्ञ का ज्ञान करो, और अन्धों को उसका ज्ञान करावो ।

तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता ।

इन्द्राग्नी तस्य बोधतम् ॥ २ ॥

भा०—हे ( इन्द्राग्नी ) विद्युत् और अग्नि, वा सूर्य और अग्निवत् शत्रुनाशक राजन् ! और ज्ञानवन् विद्वन् ! आप दोनों (तोशासा) शत्रुओं और अज्ञानों, दुष्टाचरणों का नाश करते हुए (रथ-यावाना) रथ, स्वयं वेगवान् रमण योग्य, वा उत्तम यान से जाने वाले, ( वृत्र-हणा ) बढ़ते शत्रु को दण्ड देने वाले, ( अपराजिता ) कभी न हारने वाले होवो । आप दोनों ( तस्य बोधतम् ) उस प्रजाजन को भली प्रकार जानो ।

इदं वां मदिरं मध्वधुक्षत्रिभिर्नरः । इन्द्राग्नी तस्य बोधतम् ३ ।

भा०—हे ( इन्द्राग्नी ) ऐश्वर्यवन् ! ज्ञानवन् ! वा शत्रुहन् ! नेतः ! ( वां ) आप दोनों के लिये ( नरः ) उत्तम नायक जन ( इदं मदिरं ) इस तृप्तिकारक हर्षदायक ( मधु ) मधुर रस, जल, अन्न, ज्ञानों और बल को ( अद्रिभिः ) मेघ, पर्वत और शस्त्रास्त्र बलों वा पापाणादि से ( अधुक्षन् ) दोहें, प्राप्त करें । ( तस्य बोधतम् ) आप दोनों उस ज्ञान को भी भली प्रकार जानें । ( अद्रिभिः मधु ) मेघों से जल और अन्न, पर्वतों से, पापाणों से निर्झर और ओषधिरस शस्त्रों से ऐश्वर्य और बल, तथा ( अद्रिभिः ) अखण्ड गुरुजनों से ज्ञान का दोहन किया जाता है । जुपेथां यज्ञमिष्टये सुतं सोमं सधस्तुती । इन्द्राग्नी आ गतं नरा ४ ।

भा०—हे ( इन्द्राग्नी ) विद्युत् और अग्नि के तुल्य ( नरा ) उत्तम नायक, स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( इष्टये ) अभीष्ट सुख प्राप्त करने के लिये ( यज्ञम् ) यज्ञ, परस्पर सत्संग, दान का ( जुपेथाम् ) प्रेमपूर्वक सेवन करो, आप दोनों ( सध-स्तुती ) एक साथ स्तुति प्राप्त कर ( सुतं सोमं ) उत्पन्न पुत्र को, ऐश्वर्य को और ओषध्यादि रस को भी ( जुपेथां ) प्रेमपूर्वक प्राप्त करो । ( आ गतम् ) आप दोनों आदरपूर्वक आओ ।

इमा जुपेथां सवना येभिर्हुव्यान्युहथुः । इन्द्राग्नी आ गतं नरा ५

भा०—हे ( इन्द्राग्नी ) सूर्य अग्निवत् तेजस्वी वा वायु, अग्निवत् परस्पर के सहायक ! एक दूसरे से चमकने, बढ़ने वाले ( नरा ) नायको, वा स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( आ गतम् ) आओ ! ( इमा सवना ) ये नाना धन, ऐश्वर्य ( जुपेथां ) प्रेम से प्राप्त करो, ( येभिः हन्यानि ) जिनों से नाना उत्तम खाद्य पदार्थ भी ( ऊहथुः ) प्राप्त कर सकते हैं । ( २ ) इसी प्रकार विद्युत् और अग्नि दोनों को नाना प्रकार के ( सवना ) प्रेरक यन्त्रों में लगाकर उनसे 'हव्य' ग्राह्य पदार्थ प्राप्त कर सकते और लेने देने योग्य व्यापार योग्य पदार्थों को ढो लेजा सकते हैं ।

इमां गायत्रवर्तनिं जुपेथां सुष्टुतिं मम । इन्द्राग्नी आ गतं नरा ६।२०

भा०—हे ( इन्द्राग्नी नरा ) अग्निवत् नायकः जनो ! आप दोनों ( आ गतं ) आओ । ( इमां ) इस ( गायत्र-वर्तनिं ) गायत्री छन्द में विद्यमान ( सु-स्तुतिं ) उत्तम स्तुति वा उपदेश को ( जुपेथाम् ) प्रेमपूर्वक स्वीकार करो । अथवा—गायत्र वर्तनिं, गायत्री वा इयं पृथिवी श० । ४।३।४।९॥ गायत्रोऽयं भूलोकः । तां० ७ । ३ । प्राणः । ९। कौ०८।५॥ अग्निः । श० १ । ८ । २ । १३ ॥ इति विंशो वर्गः ॥

प्रातर्यावभिरा गतं देवेभिर्जेन्यावसू । इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥७॥

भा०—हे ( जेन्यावसू ) विजय करने योग्य धनों को प्राप्त करने हारे ( इन्द्राग्नी ) सूर्याग्निवत् तेजस्वी जनो ! आप दोनों ( प्रातः-यावभिः )

प्रातःकाल वा जीवन के पूर्व भाग में ही प्राप्त होने वाले (देवेभिः) विद्वान् जनों से (सोम-पीतये) उत्तम ज्ञान ग्रहण करने और बलवीर्य की रक्षा करने के लिये आप (आ गतम्) आओ।

श्यावाश्वस्य सुन्वतोऽत्रीणां शृणुतं हवम् । इन्द्राग्नी सोमपीतये ८

भा०—हे (इन्द्राग्नी) सूर्य, अश्वित् तेजस्वी पुरुषो ! आप दोनों (सोम पीतये) उत्तम ज्ञान के दान करने और उत्तम वीर्य की रक्षा के लिये (सुन्वतः श्यावाश्वस्य) शासन करने वाले, जितेन्द्रिय विद्वान् और (अत्रीणां) त्रिविध दुःखों से रहित, तीन आश्रमों से रहित संन्यासियों के (हवम्) उत्तम उपदेश को (शृणुतम्) श्रवण करो।

एवा वामह्व ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः । इन्द्राग्नी सोमपीतये ९

भा०—(यथा) जिस प्रकार (मेधिरा) विद्वान् मतिमान्, मेधावी पुरुष (वाम्) आप दोनों को अपने पास (सोम-पीतये) ज्ञान ग्रहण और वीर्य पालन के लिये (आहुवन्त) बुलाते रहें। हे (इन्द्राग्नी) सूर्याश्वित् तेजस्वी जनो ! (एवा) उसी प्रकार मैं भी (वाम्) आप दोनों को (सोम-पीतये) ऐश्वर्य और पुत्र प्रजादि के उपभोग और पालन के लिये बुलाता हूँ।

आहं सरस्वतीवतोरिन्द्राग्न्योरवो वृणे ।

याभ्यां गायत्रमृच्यते ॥ १० ॥ २१ ॥

भा०—(अहं) मैं (सरस्वतीवतोः) उत्तम वेदवाणी वाले (इन्द्रा-ग्न्योः) ऐश्वर्य और तेज को धारण करने वाले ज्ञानी स्त्री पुरुषों के (भवः) ज्ञान और रक्षा की (वृणे) याचना करता हूँ, (याभ्याम्) जिनके आदर्श (गायत्रम्) गायत्री मन्त्र वा गायत्र साम द्वारा (ऋच्यते) स्तुति की जाती है। उसी प्रकार प्रशस्त ज्ञानमयी विद्या और उत्तम स्त्री 'सरस्वती' कहाती है। उनके स्वामी ऐश्वर्यवान् और ज्ञानवान् पुरुषों के ज्ञान और रक्षा को चाहूँ। (याभ्यां) वे गायत्री का उपदेश करें। इत्येकविंशो वर्गः॥

[ ३६ ]

नाभाकः काण्व ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः—१, ३, ५ भुरिक् त्रिष्टुप् ॥  
२ विराट् त्रिष्टुप् । ४, ६—८ स्वराट् त्रिष्टुप् । १० त्रिष्टुप् । ६ निचृ-  
ज्जगती ॥ दचर्शं सूक्तम् ॥

अग्निमस्तोष्युग्मियमग्निमीळा यजध्वै । अग्निर्देवाँ अनक्तु न उभे  
हि विदथे कविरन्तश्चरति दूत्यं नभन्तामन्यके समे ॥ १ ॥

भा०—मै ( ऋग्मियम् ) स्तुति योग्य ( अग्निम् ) ज्ञानवान् तेजस्वी  
अमु, विद्वान्, नेता की ( अस्तोषि ) स्तुति करता हूं, ( यजध्वै ) सत्संग  
करने और पूजा करने के लिये भी उसी ( अग्निम् ) अग्रणी, ज्ञानी की  
( ईडा ) वाणी द्वारा स्तुति करूं। वह ( अग्निः ) अग्निवत् प्रकाशक ( नः )  
हमारे ( देवान् ) किरणोंवत् दिव्य गुणों, काम्य पदार्थों वा विज्ञान के  
इच्छुक शिष्य जनों को ( अनक्तु ) प्रकट करे और ज्ञान द्वारा प्रकाशित  
करे। वह ( कविः ) क्रान्तदर्शी विद्वान् ( विदथे ) यज्ञ में अग्नि के तुल्य  
( विदथे ) ज्ञान लाभ के कर्म में ( उभे हि अन्तः ) आकाश और भूमि  
के बीच सूर्य के समान तेजस्वी होकर ( उभे अन्तः चरति ) राजा प्रजा  
मित्र वा शत्रु दोनों वर्गों के बीच विचरता है। ( समे अन्यके ) अन्य  
समस्त शत्रुगण आप से आप ( नभन्ताम् ) नाश को प्राप्त हों।

न्यथे नव्यसा वचस्तनूपु शंसमेषाम् । न्यराती रराव्णां विश्वा  
श्रयो अरातीरितो युच्छन्त्वामुरो नभन्तामन्यके समे ॥ २ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) विद्वन् ! तेजस्विन् ! ( एषां तनूपु ) इनके  
शरीरों या आत्माओं में ( नव्यसा वचः ) अति नवीन, स्तुति वचन से  
( शंसं ) उत्तम उपदेश ( निधेहि ) स्थापित कर, वे विद्वान् बनें। अथवा—  
( नव्यसा वचः तनूपु एषां शं नियुच्छ ) अपने स्तुति वचन से हमारे शरीरों  
पर आने वाले इनके किये प्रहारों को दूर कर और ( रराव्णां ) दानशीलों



के बीच जो ( अरातीः ) अदानशील हैं उन ( विश्वाः ) सबको (अर्थः) स्वामी होकर तू निकाल, दण्डित कर । और ( आमुः ) मूढ़ या सर्वत्र मारामारी करने वाले हिंसक ( अरातीः ) शत्रु लोग भी ( इतः नि युच्छन्तु ) इस राष्ट्र से दूर हो जावें । और ( समे अन्यके ) समस्त अन्य शत्रु दुष्ट जन ( नभन्ताम् ) नष्ट हों ।

अग्ने मन्मानि तुभ्यं कं घृतं न जुह्व आसनि । स देवेषु प्रचिकिद्धि त्वं ह्यसि पूर्यः शिवो दूतो विवस्वतो नभन्तामन्यके समे ॥३॥

भा०—हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! ( घृतं न आसनि जुह्वति ) जिस प्रकार अग्नि के मुख अर्थात् ज्वाला में यज्ञकर्त्ता लोग घृत की आहुति देते हैं उसी प्रकार हे शिष्य वा विद्वन् ! मैं शिष्य ( तुभ्यं आसनि ) तेरे हितार्थ तेरे मुख में ( मन्मानि ) मनन करने योग्य ज्ञानयुक्त वचनों को ( जुह्वे ) प्रदान करता हूँ तू उनको मुख में धारण कर, ( सः ) वह तू ( प्र चिकिद्धि ) अच्छी प्रकार जान, ( हि त्वं ) क्योंकि तू ( पूर्यः ) पूर्ण ज्ञानी, उत्तम पद योग्य वा पूर्व ब्रह्मचर्यावस्था में विद्यमान ( शिवः ) कल्याणकारी, सौम्य, ( विवस्वतः ) विविध विद्यार्थी रूप वसुओं के स्वामी गुरु आचार्य का ( दूतः ) ज्ञानमय संदेश को दूर तक पहुंचाने में दूत के समान ही ( असि ) है । इस प्रकार ज्ञान धारण करते हुए के ( समे अन्यके ) समस्त अन्य तुच्छ विरोधी विघ्नकारक जन ( नभन्ताम् ) नष्ट हों । गुरु जिस प्रकार अपना वचन शिष्य में धारण कराता या आहुतिकर्त्ता घृत को अग्नि के मुख में देता है उसी प्रकार राजादि भी विद्वान् पुरुष के मुख में अपना सुविचारित वचन स्थापित कर अन्य प्रजा वा राजान्तर के प्रति संदेशार्थ भेजें ।

तत्तदग्निर्वयो दधे यथायथा कृपयति । ऊर्जाहुतिर्वसूनां शं च योश्च मयो दधे विश्वस्यै देवहृत्यै नभन्तामन्यके समे ॥ ४ ॥

भा०—(यथा यथा कृपयति) जिस २ प्रकार का बल वा अन्न याचक-

चाहता है ( अग्निः तत् तत् वयः दधे ) गृहपति, तेजस्वी स्वामी जन  
 वैसा २ ही बल वा अन्न उसे प्रदान करता है, उसी प्रकार शिष्य भी (यथा  
 यथा कृप्यति ) जिस २ विज्ञान की याचना करता है ( अग्निः तत् तत्  
 वयः दधे ) अग्नि उसी २ प्रकार का विज्ञान उसे धारण करावे इसी प्रकार  
 प्रजाजन राजा वा नायक से जैसा ( वयः ) बल अन्नादि चाहे उसी २  
 प्रकार का वह धारण करे । ( वसूनां ऊर्जाहुतिः ) गुरु के अधीन बसने  
 वाले शिष्यों को बल, ज्ञान, अन्नादि का दान ( विश्वस्यै देवहृत्यै ) समस्त  
 प्रकार को शुभ गुणों को प्राप्त कराने के लिये ( शं च योः च ) शान्ति देता,  
 दुःख दूर करता और ( मयः दधे ) सुख प्रदान करता है । इसी प्रकार  
 प्रजा जिस २ बल की याचना करे तेजस्वी राजा उसी २ को स्वयं और  
 प्रजा में भी धारण करे । ( वसूनां ऊर्जाहुतिः विश्वस्यै देवहृत्यै ) राष्ट्र में  
 वसे प्रजाजनों की यह बल की प्राप्ति समस्त विजयेच्छुक सैनिकों और  
 विद्वानों को वेतन भोजनादि देने के लिये होती है और उसे राजा शान्ति,  
 दुःखनाश और सुख स्थापित करता और ( अन्यके समे ) और सब शत्रु  
 गण ( नभन्तां ) नष्ट होते हैं ।

स चिक्रेत् सहीयसाग्निश्चित्रेण कर्मणा । स होता शश्वतीनां  
 दक्षिणाभिरभिवृत इनोति च प्रतीव्यम् । नभन्तामन्यके समे ५।२२

भा०—( सः ) वह ( अग्निः ) अग्नि के समान तेजस्वी विद्वान्  
 (सहीयसा) अत्यधिक सहन करने और प्रतिपक्ष रूप बाधक विघ्न को परा-  
 जित करने वाले (चित्रेण कर्मणा) अद्भुत, ज्ञानप्रद कर्म से बलवान् होकर  
 (चिक्रेत्) ज्ञान प्राप्त करता वा जाना जाता है । ( सः ) वह (दक्षिणाभिः)  
 दक्षिणाओं से यज्ञाग्नि के समान दान, भिक्षान्नों से ( अभिवृतः ) पुष्ट  
 होकर ( शश्वतीनां होता ) नित्य विद्याओं का ग्रहण करने वाला होकर  
 ( प्रतीव्यम् इनोति च ) ज्ञेय तत्व को प्राप्त होता है । इसी प्रकार नायक  
 भी ( सहीयसा ) शत्रुपराजयकारी ( चित्रेण कर्मणा ) अद्भुत कर्म से

(चिकेत) प्रसिद्ध हो । वह (दक्षिणाभिः) अपनी बलवती शक्तियों, सेनाओं से (अभि-वृतः) विरा हुआ (शश्वतीनां होता) बहुत सी मौल प्रजाओं और सेनाओं को स्वीकार करने और उनको वेतन भोजनादि देने वाला होकर (प्रतीच्यं इनोति) आक्रमण करने योग्य शत्रु तक पहुंचता है और इस प्रकार (समे अन्यके नभन्ताम्) समस्त छोटे मोटे शत्रुगण नाश को प्राप्त होते हैं । इति द्वाविंशो वर्गः ॥

अग्निर्जाता देवानामग्निर्वेद मर्त्तानामपीच्यम् । अग्निः स द्रविणोदा अग्निर्द्वारा व्यूर्णुते स्वाहुतो नवीयसा नभन्तामन्यके समे ६.

भा०—जिस प्रकार (अग्निः) अग्नि, या विद्युत्, वा जाठराग्नि, (नवीयसा) नये से नये अन्नादि द्वारा (सु-आहुतः) अच्छी प्रकार आहुति किया जाकर, उत्तम मन्त्र द्वारा गृहीत, या अन्नादि से तृप्त होकर (देवानां जाता वेद) देव अर्थात् प्रकाशक किरणों के स्वरूपों को प्राप्त करता वा जाठराग्नि अन्नाहुति प्राप्त कर देव अर्थात् इन्द्रियों के द्वारा ब्राह्मण पदार्थों को ज्ञान प्राप्त कराता है और (मर्त्तानाम् अपीच्यं वेद) मनुष्यों को छुपे, गुप्त, अन्धकार से आवृत पदार्थ भी ज्ञात करादेता है, और जाठराग्नि, मनुष्यों के गुह्य बल और सुन्दर रूप को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार (अग्निः) अग्रणी नायक (देवानां) विजिगीषु जनों के (जाता वेद) सब जन्मादि को जाने, (मर्त्तानाम् अपीच्यं वेद) मनुष्य प्रजाओं के गुह्य रहस्यों को भी जाने । (सः अग्निः द्रविणोदाः) वह अग्रणी नायक ऐश्वर्य का देने वाला हो । वह (अग्निः) तेजस्वी पुरुष द्वारा (व्यूर्णुते) प्रजाओं और सेनाओं के व्यवहार और रण के मार्गों को खोलता और प्रकाशित करता है । इस प्रकार (समे अन्यके नभन्ताम्) समस्त शत्रुगण नाश को प्राप्त होते हैं । अग्निर्देवेषु संवसुः स विन्दु यज्ञियास्वा । स मुदा काव्या पुरु विश्वं भूर्मेव पुष्यति देवो देवेषु यज्ञियो नभन्तामन्यके समे ॥७॥

भा०—जिस प्रकार (अग्निः देवेषु संवसुः) अग्नि समस्त सूर्यादि

तेजस्वी पदार्थों में उनको अच्छी प्रकार आच्छादित करता है वही अग्नि-तत्व ( यज्ञियासु ) यज्ञ योग्य प्रजाओं के बीच यज्ञाग्नि और जाठराग्नि रूप में विद्यमान रहता है उसी प्रकार ( अग्निः ) तेजस्वी विद्वान् और अग्रणी नायक भी ( देवेषु ) विद्वानों और विजिगीषु पुरुषों के बीच ( सं-वसुः ) अच्छी प्रकार रहने वाला और उत्तम रीति से ऐश्वर्य का स्वामी हो । ( सः ) वह ( यज्ञियासु विश्वु ) यज्ञ, परस्पर सत्संग करने वाली, यज्ञशील, प्रजाओं में ( सं-वसुः ) सम्यक् प्रकार से रहता, उनकी रक्षा करता हुआ, ( आ ) विद्यमान रहे । ( सः ) वह ( मुदा ) अति प्रसन्नतापूर्वक ( पुरु काव्या ) बहुत से विद्वानों के योग्य कार्यों को ( पुष्यति ) पुष्ट करता, उनको वृद्धि देता, और ( भूम इव ) भूमि के समान वा प्रभु के समान ( विश्वं पुष्यति ) सबका अन्नादि से पोषण करता है । वह ( देवः ) स्वयं तेजस्वी, दानशील, होकर ( देवेषु यज्ञियः ) विद्वान्, दानशील तेजस्वी पुरुषों में भी आदर सत्कार और सत्संगति के योग्य होता है । इस प्रकार भी उसके ( समे अन्यके ) समस्त शत्रु ( नभन्ताम् ) नाश को प्राप्त होते हैं वह अजात-शत्रु होजाता है ।

यो अग्निः सप्तमानुषः श्रितो विश्वेषु सिन्धुषु । तमार्गन्म  
त्रिपस्त्यं मन्धातुर्दस्युहन्तममग्निं यज्ञेषु पूर्व्यं नभन्तामन्यके समे८

भा०—जिस प्रकार ( अग्निः सप्त-मानुषः ) अग्नि तत्व जीवन रूप से मनुष्य के सातों प्राणों में विद्यमान और ( विश्वेषु सिन्धुषु श्रितः ) समस्त रक्त-नाडियों या प्राणों में भी विद्यमान रहता है, वह ( त्रि-पस्त्यं ) भूमि, अन्तरिक्ष और द्यौ वा उदर, हृदय और मूर्धा तीनों स्थानों में विद्यमान रहता है वही शरीर के नाशकारी रोगादि कारणों का नाशक होता है उसी प्रकार ( यः अग्निः ) जो अग्नि, तेजस्वी अग्रणी, नायक राजा, ( सप्त-मानुषः ) सात मननशील विद्वानों के बीच स्वयं आठवां होकर ( विश्वेषु सिन्धुषु ) समस्त प्रजाओं के बीच ( श्रितः ) आश्रय करने योग्य है । और ( मन्धातुः )

मुझको धारण या रक्षा करेगा इस प्रकार स्वीकृत प्रजागण के ( दस्यु-हन्तमम् ) नाशकारी दुष्ट पुरुषों के सर्वोपरि नाशक ( यज्ञेषु पृथ्व्यम् ) यज्ञों, सत्संगों और दानों में सर्वश्रेष्ठ, पूर्ण (त्रि-पस्थं) त्रिभूमिक, तिमंजिले गृह में रहने वाले वा उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तीनों प्रकार की प्रजाओं को गृहवत् बसाने वाले ( तम् अग्निम् ) इस अग्रणी, अग्निवत् तेजस्वी पुरुष को हम ( आ गन्म ) प्राप्त हों ।

अग्निस्त्रीणि त्रिधातून्या क्षिति विदथा क्विः । स त्रींकादृशाँ  
इह यक्षच्च पिप्रयच्च नो विप्रो दूतः परिष्कृतो नभन्तामन्यके समे १

भा०—जिस प्रकार ( अग्निः त्रिधातूनि आ क्षेति ) अग्नि तत्व तीनों तैजस रूप से धातुओं की तीनों प्रकारों में रहता है, और वह (त्रीन् एकादशान् यक्षत् पिप्रयच्च ) ३३ (तैंतीस) पदार्थों को बल देता और नृस करता है उसी प्रकार ( अग्निः ) अग्रणी तेजस्वी पुरुष वात पित कफ के वनी तीनों कोटियों में ( आ क्षेति ) अपने आप विराजता है, वह (क्विः) क्रान्तदर्शी होकर ( विदथा ) ज्ञान करता और प्राप्त करने योग्य पदार्थों को प्राप्त करता है । (सः) वह (इह) इस राष्ट्र में ( त्रीन् एकादशान् यक्षत् ) तीनों ग्यारह (तैंतीस) अधिकारियों को सुसंगत करता और (पिप्रयत् च) पूर्ण नृस करता, वह ( दूतः ) शत्रुओं का सन्तापक ( परिष्कृतः ) सुसज्जित, ( विप्रः ) विद्वान् पुरुष ( नः यक्षत् पिप्रयत् च ) हमें भी दे और पालन करे । इस प्रकार उसके ( समे अन्यके नभन्ताम् ) समस्त शत्रु नाश को प्राप्त हों ।

त्वं नो अग्न आगुपु त्वं देवेषु पृथ्व्यं वस्व एकं इरज्यसि ।

त्वामापः परिस्त्रुतः परियन्ति स्वसेतवो नभन्तामन्यके समे १०।२३

भा०—जिस प्रकार अग्नि ( देवेषु पृथ्व्यः ) सब मनुष्यों में भी जाठर रूप से विद्यमान है, उसको ( परिस्त्रुतः स्वसेतवः आपः परि यन्ति ) सब ओर से बहने वाली, स्वयं बद्ध जल धाराएं विद्युत् रूप अग्नि को प्राप्त होती

हैं उसी प्रकार हे ( अग्ने ) तेजस्विन् विद्वन् ! राजन् ! ( त्वं ) तू ( नः ) हमारे ( आयुषु ) सामान्य मनुष्यों और ( देवेषु ) विद्वानों, विजिगीषु, अर्थ की कामना युक्त जनों में ( पूर्व्यः ) सर्वश्रेष्ठ हैं । तू ( एकः ) एक अद्वितीय होकर ( वसवः इरज्यसि ) समस्त वसे प्रजाजन और ऐश्वर्य का स्वामी है । ( स्व-सेतवः परिस्त्रुतः आपः ) अपने ही बन्धों से बंधी सब ओर बहती जल-धाराओं के समान ( आपः ) आस प्रजाएं भी ( परि-स्त्रुतः ) सब ओर से प्राप्त होकर ( स्व-सेतवः ) स्वयं अपने आपको नियम मर्यादा में बांधे रखने वाली वा 'स्व' धन वेतनादि में वा स्वजनों के सम्बन्धों से बद्ध होकर ( त्वाम् परि यन्ति ) तुझे प्राप्त होती हैं, तेरी शरण आती हैं । ( अन्यके समे नभन्ताम् ) तेरे समस्त शत्रुगण नाश को प्राप्त हों । इति त्रयोविंशो वर्गः॥

[ ४० ]

नाभाकः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्राग्नी देवते ॥ छन्दः—१, ११ भुरिक् त्रिष्टुप्  
३, ४ स्वराट् त्रिष्टुप् । १२ निचृत् त्रिष्टुप् । २ स्वराट् शकवरी । ५, ७,  
८ जगती । ६ भुरिजगती । ८, १० निचृजगती ॥ द्वादशर्चं सूक्तम् ॥

इन्द्राग्नी युवं सु नः सहन्ता दासथो रयिम् ।

येन दृह्ला समत्स्वा वीळु चित्साहिपीमहाग्निर्वनेव वात इ-  
क्षभन्तामन्यके समे ॥ १ ॥

भा०—हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र, ऐश्वर्यवन् वा वायुवत् बलशालिन् ! हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! राजन् ! सेनापते ! ( युवं ) आप दोनों ( सहन्ता ) शत्रुओं को पराजय करते हुए ( नः रयिम् दासथः ) हमें वह ऐश्वर्य और बल प्रदान करो जिस प्रकार ( अग्निः वाते वना इव ) वायु के बहते समय अग्नि वनों को भस्म कर देता है उसी प्रकार ( येन ) जिस ऐश्वर्य के बल से हम लोग ( समत्सु ) संग्रामों में ( वीळुचित् ) बड़े २ बलशाली और ( दृह्ला ) दृढ़, शत्रु सैन्यों को ( साहिपीमहि ) पराजित करते हैं

और जिससे ( अन्यके समे नभन्ताम् ) अन्य सब हमारे शत्रु नाश को प्राप्त हों । वायु और अग्निवत् ही इन्द्र और अग्नि परस्पर सहायक हों । अध्यात्म में—इन्द्र आत्मा और अग्नि आप दोनों मिलकर 'रयिं' मूर्तिमान् इस देह को ( दासथः ) दास या भृत्यवत् संचालित करते हैं और समस्त विघ्न विनष्ट होते हैं ।

नहि वां वत्रयामहेऽथेन्द्रमिद्यंजामहे शविष्ठं नृणां नरम् ।  
स नः कदा चिद्वता गमदा वाजसातये गमदा मेघसातये  
नभन्तामन्यके समे ॥ २ ॥

भा०—हे ( इन्द्राग्नी ) ऐश्वर्यवत् शत्रुहन्तः ! हे अग्ने विद्वान् ! हम ( वां नहि वत्रयामहे ) आप दोनों से कुछ याचना नहीं करते । ( अथ ) प्रत्युत ( नृणां ) मनुष्यों के बीच ( नरम् ) नायक ( शविष्ठं ) सब से अधिक बलशाली, ( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान्, शत्रुहन्ता ऐश्वर्यप्रद की ( यजामहे ) प्रतिष्ठा और सत्संगति करते हैं । ( सः नः कदाचित् ) वह कभी हमें ( अर्वाता आगमत् ) अथ, या शत्रुहन्ता सैन्यसहित, ( वाजसातये ) ऐश्वर्य प्राप्ति के लिये प्राप्त हो और कभी ( मेघसातये आगमत् ) अन्न, यज्ञ और संग्रामादि के लिये प्राप्त हो । इस प्रकार उसके ( समे अन्यके नभन्ताम् ) समस्त शत्रु नाश को प्राप्त हों ।

ता हि मध्यं भराणामिन्द्राग्नी अधिक्षितः ।  
ता उ कवित्वना कवी पृच्छयमाना सखीयते संधीतमश्नुतं नराः  
नभन्तामन्यके समे ॥ ३ ॥

भा०—( ता हि इन्द्राग्नी ) वे दोनों इन्द्र और अग्नि, वायु और अग्निवत् बलवान् और तेजस्वी विद्वान् जन ( भराणां मध्यं ) भरण पोषण योग्य जनों के बीच ( अधिक्षितः ) अध्यक्ष होकर रहते हैं । ( ता उ ) वे दोनों ( कवी ) विद्वान्, क्रान्तदर्शी ( पृच्छयमाना ) अन्यों से आज्ञा ग्रहणार्थ एवं सन्देह निवारणार्थ प्रश्न किये जाते हुए ( कवित्वना ) अपनी

विद्वत्ता के कारण, ( नरा ) आप दोनों नायक ( सखीयते ) मित्रवदा-  
चरण करने वाले पुरुष के लिये ( धीतं ) किये कर्म को ( समश्नुतम् )  
अच्छी प्रकार प्राप्त होवो ।

अभ्यर्चं नभाकवदिन्द्राग्नी यजसा गिरा । ययोर्विश्वंमिदं जग-  
दियं द्यौः पृथिवी मह्युपस्थे विभृतो वसु नभन्तामन्यके समे ४ः

भा०—( नभाकवत् ) उत्तम प्रबन्धकर्त्ता जनों से युक्त ( इन्द्राग्नी )  
उन इन्द्र, अग्नि और राजा; और नायक को तू हे विद्वन् ! ( यजसा  
गिरा ) उत्तम संगतिकारक वाणी से ( अभि-अर्चं ) स्तुति कर, उनका आदर  
सत्कार कर । ( ययोः ) जिनके आश्रय पर ( इयं द्यौः ) यह सूर्य और  
( इयं महीः पृथिवी ) यह बड़ी भारी पृथिवी जिस प्रकार ( इदं विश्वं  
वसु ) इस समस्त वसे जगत् और ऐश्वर्य को ( विभृतः ) धारण करते हैं उसी  
प्रकार राजा, नायक दोनों के बलपर सूर्य पृथिवीवत् पुरुष स्त्री वा राजा  
प्रजावर्ग दोनों ( इदं विश्वं वसु ) इस समस्त राष्ट्ररूप ऐश्वर्य को अपने  
पास धारण करते हैं । ( अन्यके समे नभन्ताम् ) और विरोधी शत्रु नष्ट  
हो जाते हैं । वायु और अग्नि दो तत्वों पर ही समस्त प्राणी जीते हैं ।  
वायु और अग्नि के बल पर ही समस्त शत्रुओं को नहीं सा कर सकते हैं ।  
विद्वान् उन दोनों को 'नभाक' अर्थात् शत्रुनाशक जान कर उनका उत्तम  
प्रयोग करें ।

प्र ब्रह्माणि नभाकवदिन्द्राग्निभ्यामिरज्यत । या सप्तबुध्नमर्णवं  
जिह्ववारमपोर्णुत इन्द्र ईशान् ओजसा नभन्तामन्यके समे ॥५॥

भा०—( या ) जो इन्द्र और अग्नि, वायु और अग्नि या सूर्य और  
अग्नि ( सप्तबुध्नम् ) सात मूलों वाले ( जिह्व-वारम् ) गुप्त द्वार वाले,  
दुष्प्राप्य ( अर्णवं ) सागरवत् अपार ऐश्वर्य को ( अपोर्णुतः ) खोल देते  
हैं उन ( नभाकवत् इन्द्राग्निभ्याम् ) नभाक अर्थात् अदृश्य रूप से विद्य-  
मान वा बंधनकारक, आकर्षक और आघातकारक ( इन्द्राग्निभ्याम् )



विद्युत् और अग्नि तत्त्वों से ( ब्रह्माणि ) नाना ऐश्वर्यों को ( इरज्यत ) अपने वश करो और उनके बल से ही ( इन्द्रः ) सूर्य भी ( ईशानः ) सबका स्वामी है । उनके बल से ही ( अन्यके समे नभन्ताम् ) समस्त शत्रु नहींसे हो जावें ।

अपि वृश्च पुराणवद्भवततेरिव गुप्पितमोजो दासस्य दम्भय ।

वयं तदस्य सम्भृतं वस्विन्द्रेण विभजेमहि नभन्तामन्यके समे ६।२४

भा०—जिस प्रकार ( पुराणवत् ) पुराने ( वततेः गुप्पितम् ) लता के शाखा पुञ्ज को कोई सुगमता से ही काट लेता है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! तू ( दासस्य गुप्पितम् ओजः ) प्रजा के नाशक दुष्ट पुरुष के गुप्त बल को ( दम्भय ) नष्ट कर । ( अस्य तत् सम्भृतं वसु ) उसके उस एकत्र किये धन को हम ( इन्द्रेण ) ऐश्वर्यवान् तेजस्वी राजा के द्वारा ही ( विभजेमहि ) विशेष प्रकार से सेवन करें । और ( अन्यके समे नभन्ताम् ) अन्य समस्त शत्रु भी नष्ट हों । इति चतुर्विंशो वर्गः ॥

यदिन्द्राग्नी जना इमे विह्वयन्ते तना गिरा । अस्माकैभिर्नृभिर्वयं सासह्याम पृतन्यतो वनुयाम वनुष्यतो नभन्तामन्यके समे ॥७॥

भा०—( इमे जनाः ) ये मनुष्य ( तना गिरा ) धन और वचन से ( यत् ) जिन ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और अग्नि, सूर्य अग्निवत् तेजस्वी नायकों को ( विह्वयन्ते ) विशेष रूप से बुलाते हैं, ( अस्माकैभिः नृभिः ) अपने ही आदमियों से सहायवान् होकर ( वयं ) हम लोग ( पृतन्यतः सासह्याम ) सेनाओं द्वारा युद्ध करने वाले शत्रुओं का पराजय करें और ( वनुष्यतः वनुयाम ) हिंसाकारियों को हम भी मारें । ( अन्यके समे नभन्ताम् ) हमारे अन्य समस्त शत्रु नष्ट हों ।

या नु श्वेतावधो दिव उच्चरात उप द्युभिः । इन्द्राग्न्योरनु व्रतमुहाना यन्ति सिन्धवो यान्त्सीं वन्धादमुञ्चतां नभन्तामन्यके समे ॥ ८ ॥

भा०—( या नु ) जो दोनों इन्द्र अग्नि, सूर्य और अग्नि, ( श्वेतौ ) श्वेत वर्ण के, तेजस्वी होकर ( द्युभिः ) किरणों से ( दिवः उप उत् चरातः ) आकाश और पृथिवी पर ऊर्ध्व मार्ग से गति करते हैं उन ( इन्द्रान्योः ) अनु ) सूर्य और अग्नि के अनुकरण में ( व्रतम् उहानाः ) उत्तम व्रतों को धारण करते हुए ( सिन्धवः ) नदी के समान वेग से जाने वाले वीर पुरुष व्रतबद्ध होकर ( अनु यन्ति ) उनके पीछे २ अनुगमन करते हैं ( यान् ) जिनको वे दोनों ( सीम् ) सय प्रकार से ( बन्धात् ) बन्धनों से ( अमुञ्जताम् ) मुक्त करें । और ( अन्यके समे नभन्ताम् ) अन्य समस्त विघ्नकारी भी नष्ट हों, बांधे जावें ।

पूर्वाष्टं इन्द्रोपमातयः पूर्वोरुत प्रशस्तयः सूनो हिन्वस्य हरिवः ।  
वस्वो वीरस्यापृचो या नु साधन्त नो धियो नभन्तामन्यके समे ९ ।

भा०—हे ( हरिवः इन्द्र ) किरणों से युक्त ऐश्वर्यवन् सूर्यवत् तेजस्विन् ! हे ( सूनो ) सर्वैश्वर्यवन् ! सर्वोत्पादक ! सर्वप्रेरक ! ( वस्वः ) सबको बसाने वाले, ( आपृचः ) सबसे प्रेम करने वाले ( वीरस्य ) शूरवीर ( हिन्वस्य ) सबको बढ़ाने वाले ( ते ) तेरी ( उप-मातयः ) उपमान ( उत प्रशस्तयः ) और तेरे उत्तम उपदेश ( पूर्वीः पूर्वीः ) सदा पूर्ण और उत्तम हैं । ( याः ) जो ( नः धियः साधन्त ) हमारी बुद्धियों और कर्मों को अपने वश करें और उन्नत करें । इस प्रकार ( समे अन्यके नभन्ताम् ) समस्त विघ्नकारी नष्ट हों ।

तं शिशीता सुवृक्लिभिस्त्वेपं सत्वानमृगिमयम् ।

उतो नु चिद्य ओजसा शुष्णस्याण्डानि भेदति जेपन्स्वर्वतीरपो  
नभन्तामन्यके समे ॥ १० ॥

भा०—( उतो नु चित् ) और ( यः ) जो सूर्य या विद्युत्तमय इन्द्र ( शुष्णस्य ) शोषणकारी ताप वाले सूर्य के ( ओजसा ) बल पराक्रम या तेज से ( आण्डानि भेदति ) रोगकारी संयोगी अंशों को छिन्न भिन्न करता है, अथवा—

वह (शुष्णस्य आण्डानि) शरीर के शोषण करनेवाले यक्ष्मादि के रोगांशों को छिन्न भिन्न करता है और (स्वर्वतीः अपः) शब्द, या गर्जन करने वाले मेघस्थ जनों को (जेपत्) विजय करता है (तं) उस (त्वेषं) अति तीक्ष्ण, तेजस्वी, (सत्वानम्) बलवान् (ऋग्मियम्) स्तुति योग्य पुरुष को (सु-वृक्तिभिः) उत्तम योजनाओं स्तुतियों से (शिशीत) तीक्ष्ण करो। उसके बलको अधिक बढ़ाओ। इसी प्रकार विद्युत्त्वत् तीक्ष्ण, तेजस्वी, बलवान् स्तुत्य पुरुष को भी बढ़ावें जो अपने शोषणकारी बल पराक्रम से दुःखदायक परसैन्यों को नाश करे, और सुखप्रद प्रजाओं को विजय करे। (अन्यके समे नभन्ताम्) समस्त अन्य, शत्रुगण नाश को प्राप्त हों।

अमन्ति रोगान् कुर्वन्ति इत्याण्डानि । अमेरीणादिको ङः । १।१।१४॥

तं शिशीता स्वध्वरं सत्यं सत्वानमृत्वियम् ।

उतो नु चिद्य ओहत आण्डा शुष्णस्य भेदत्यज्ञैः स्वर्वतीरपो नभन्तामन्यके समे ॥ ११ ॥

भा०—जिस प्रकार सूर्य अपने (शुष्णस्य) शोषक ताप के बल से (आण्डा ओहते) रोगकारी जन्तुओं को नाश करता है (भेदति) छिन्न भिन्न करता है और (स्वर्वतीः अपः अज्ञैः) गर्जना वा सुखप्रद जलों को अपने वश करता है उसी प्रकार जो पुरुष (शुष्णस्य आण्डा) शोषकत्वत् यक्षादि रोगों, शत्रु के अण्डों वा मर्मस्थलों को भेदता, और सुखप्रद आस जनों को अपने गुणों से अपने वश करता है (तं) उस (सु-अध्वरं) उत्तम अहिंसनीय (सत्यं) सत्याचरण से युक्त, सज्जनों में उत्तम, (सत्वानम्) बलवान् (ऋत्वियम्) ऋतुओं के स्वामी सूर्यवत् ऋतु अर्थात् ज्ञानी सदस्यों के स्वामी पुरुष को (शिशीत) तीक्ष्ण करो, उसके बल को बढ़ाओ। (नभन्तां०) पूर्ववत् ।

एवेन्द्राग्निभ्यां पितृवन्नवीयो मन्धातृवदङ्गिरस्वदवाचि ।

त्रिधातुना शर्मणा पातमस्मान्वयं स्याम पतयो रयीणाम् १२।२५

भा०—(एव) इस प्रकार (पितृवत्) माता मिताओं के तुल्य, पालक पोषक, (मन्धातृवत्) ज्ञानधारक उसके समान ज्ञानप्रकाशक (अंगिरस्वत्) अग्नि वा प्राणों के समान जीवनप्रद (इन्द्राग्नीभ्यां) इन्द्र विद्युत् और अग्नि वा ऐश्वर्यवान् और ज्ञानवान् पुरुषों के यह (नवीयः) अति स्तुत्य, वचन (अवाचि) उपदेश किया है। वे दोनों (त्रिधातुना शर्मणा अस्मान् पातम्) तीनों धातु के बने गृह एवं वात, पित्त, कफ से युक्त त्रिधातु गृह, इस देह से हमारी रक्षा करें। (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम सब ऐश्वर्यों बलों के पालक स्वामी हों। इति पञ्चविंशो वर्गः ॥

[ ४१ ]

नाभाकः काण्व ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः—१, ५ त्रिष्टुप् । ४, ७ भुरिक् त्रिष्टुप् । ८ स्वराट् त्रिष्टुप् । २, ३, ६, १० निचृज्जगती । ९ जगती ॥  
दशर्चं सक्तम् ॥

अस्मा ऊ पु प्रभूतये वरुणाय मरुद्भ्योऽर्चां विदुष्टरेभ्यः ।  
यो धीता मानुपाणां पश्वो गा इव रक्षति नभन्तामन्यके समे १  
भा०—हे विद्वान् पुरुष ! तू (अस्मै) इस (प्रभूतये) उत्तम भूति, जन्म, सामर्थ्य और यश वाले (वरुणाय) श्रेष्ठ पुरुष और (विदुष्टरेभ्यः) अपने से अधिक जानने वाले विद्वान्, (मरुद्भ्यः) बलवान् मनुष्यों का (अर्चं) आदर सत्कार कर। और उसका भी आदर करो (यः) जो (धीता) सुविचारित (पश्वः गाः) गौ आदि पशुओं के समान ही (पश्वः गाः) ज्ञान दर्शाने वाली वाणियों की (मनुष्याणां) मनुष्यों के उपकारार्थ (रक्षति) रक्षा करता है। (अन्यके समे नभन्ताम्) समस्त हानिकारक जन नष्ट हों।

तमु पु समना गिरा पितृणां च मन्मभिः । नाभाकस्य प्रशस्ति-  
भिर्यः सिन्धूनामुपोदये सप्तस्वसा स मध्यमो नभन्तामन्यके समे २  
भा०—(यः) जो (सिन्धूनाम्) स्यन्दनशील रक्तधाराओं के

वा गतिशील प्राणों के ( उपोदये ) ऊपर उठने में ( सप्त-स्वसा ) सात स्वयं गतिशील मुख्य प्राणों से युक्त होने से सात भगिनियों वाला ( सः ) वह ( मध्यमः ) सबके मध्य में मुख्य रूप से स्थित राजा के समान है । ( तम् ) उसको ( समना गिरा ) मान सहित वा ज्ञान सहित वाणी से और ( पितृणां च मन्मभिः ) पालक उपदेष्टा गुरुओं के मनन योग्य वचनों से और ( नाभाकस्य ) साक्षात् द्रष्टा पुरुष की ( प्रशस्तिभिः ) उत्तम उपदेश वाणियों से ( अर्च ) अर्चना कर । राजा भी ( सिन्धूनाम् ) वेगवान् अश्वादि सैन्य नायकों के (उदये) उत्थान काल में (सप्त-स्वसा) सर्पण-शील सेनाओं को उत्तम रीति से संचालित करने में समर्थ ( मध्यमः ) मध्यस्थित प्रधान पुरुषवत् है उसको ( समना गिरा ) समान, अनुरूप वाणी और पालकों के वचनों और ( नाभाकस्य ) शत्रु हिंसक रक्षक की ( प्रशस्तिभिः ) उत्तमाधिकार शासन वाणियों से ( उप ) युक्त करो । ( नभन्ताम् अन्यके समे ) जिससे अन्य सब द्वेष बुद्धि वाले दुर्बुद्धि पुरुष ( नभन्ताम् ) बुराई करने में समर्थ न रहें ।

स क्षपः परि षस्वजे न्युः स्रो मायया दधे स विश्वं परि दर्शतः ॥  
तस्य वेनीरनु व्रतमुपास्ति चो अवर्धयन्नभन्तामन्यके समे ॥३॥

भा०—( क्षपः परि षस्वजे ) जिस प्रकार चन्द्रमा रात्रियों को प्राप्त होता है उसी प्रकार ( सः ) वह वरुण, सर्वश्रेष्ठ पुरुष भी ( क्षपः परि षस्वजे ) शत्रु पक्ष को नाश करने वाली सेनाओं को सदा अपने साथ संगत रखे । वह ( उन्नः ) उत्तम पद को प्राप्त होकर ( मायया ) अपनी बुद्धि और कर्म के द्वारा विश्व को प्रभु के समान ही ( विश्वं नि दधे ) समस्त राष्ट्र को नियम में स्थापित करे ( सः ) वह ( दर्शतः ) सबका द्रष्टा स्वामी होकर रहे । ( तस्य व्रतम् अनु ) उसके कर्म के अनुकूल ही रहकर ( तिष्ठः वेनीः ) तीनों प्रकार की प्रजाएं उसे चाहती हुई ( तम् अवर्धयन् ) उसको बढ़ावें । इस प्रकार ( समे अन्यके ) उसके समस्त शत्रुगण ( नभन्ताम् ) नष्ट हों ।

यः ककुभो निधारयः पृथिव्यामधि दर्शतः । स माता पुर्व्यं पदं  
तद्वरुणस्य सप्त्यं स हि गोपा इवेर्यो नभन्तामन्यके समे ॥४॥

भा०—( यः दर्शतः ) जो दर्शनीय वा सर्वद्रष्टा स्वामी होकर  
( पृथिव्याम् अधि ) भूमि पर ( ककुभः ) पार्थिव देह में प्राणों के समान,  
समस्त दिशाओं वा उनमें निवासिनी विनीत प्रजाओं को ( नि धारयः )  
नियम में रखता है ( सः ) वह (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ, प्रभु के ( सप्त्यं )  
उस सर्पण योग्य, प्राप्य ( पूर्व्यं पदम् ) सर्वोपरि पद को (माता) बनाने  
वाला, माता के समान पूज्य है । ( सः हि ) वही ( गोपाः इव ) रक्षक के  
समान ( इर्यः ) रक्षक, स्वामी है । उसके द्वारा (अन्यके समे नभन्ताम् )  
समस्त अन्य दुष्ट संकल्प वाले पापी पुरुष नष्ट हों ।

यो धर्ता भुवनानां य उच्चाणामपीच्या उवेद नामानि गुह्या ।

स कविः काव्या पुरुरूपं द्यौरिव पुष्यति नभन्तामन्यके समे ५।२६

भा०—( यः ) जो ( भुवनानां धर्ता ) समस्त लोकों को धारण  
करने वाला है, ( यः ) जो ( उच्चाणां ) उत्तम, ऊपर के मार्ग से जाने  
वाले सूर्यादि के ( गुह्या ) बुद्धि से गम्य, ( अपीच्या ) अन्तर्हित, छुपे हुए  
( नामानि ) नाम, स्वरूपों को ( वेद ) जानता है । ( सः ) वह (कविः)  
क्रान्तदर्शी, परम मेधावी, ( द्यौः इव ) सूर्य के समान ( काव्या ) विद्वान्  
मेधावी पुरुषों के अभ्यास करने योग्य ज्ञानों को ( पुरुरूपं पुष्यति ) बहुत  
प्रकार से पुष्ट करता है । उसके रहते हुए (अन्यके समे नभन्ताम् ) समस्त  
द्वेषीजन नष्ट हो जाते हैं । इति षड्विंशो वर्गः ॥

यस्मिन्विश्वानि काव्या चक्रे नाभिरिव श्रिता । त्रितं जुती संपर्यत  
व्रजे गावो न संयुजे युजे अश्वान् अयुक्तत् नभन्तामन्यके समे ॥६॥

भा०—( चक्रे नाभिः इव ) चक्र में नाभि के समान ( यस्मिन् )  
जिस प्रभु में ( विश्वानि काव्या ) विद्वान् मेधावी पुरुषों के समस्त ज्ञान

और कर्म ( श्रिता ) आश्रित हैं, ( त्रितं ) तीनों लोकों में व्यापक उस परमेश्वर को आप लोग ( जूती ) अति शीघ्र, प्रेमपूर्वक ( सपर्यत ) उपासना करो । हे विद्वान् पुरुषो ! ( व्रजे गावः न ) जिस प्रकार गोशाला में समस्त गौवें ( संयुजे ) एकत्र रहने के लिये आती हैं उसी प्रकार ( व्रजे ) परम गन्तव्य उस प्रभु में ( संयुजे ) अच्छी प्रकार योग करने के लिये ( गावः ) समस्त वाणियों और ज्ञानेन्द्रियों को भी संयुक्त करो । और ( युजे ) उसी योग साधन के लिये ( अश्वान् अयुक्षत ) अश्वों के तुल्य कर्मेन्द्रियों और मन की वृत्तियों को भी उसी परम पद में एकाग्र करो । इस प्रकार ( अन्यके समे नभन्ताम् ) अन्य समस्त दुष्ट संकल्प उत्पन्न नहीं होते और विशेष प्रतिपक्ष के भाव भी प्रबल नहीं होते ।

य आस्वत्क आशये विश्वा जातान्येषाम् । परि धामानि मर्मृ-  
शद्वरुणस्य पुरो गये विश्वे देवा अनु व्रतं नभन्तामन्यके समे ७

भा०—( यः ) जो सर्वश्रेष्ठ प्रभु ( आसु ) इन समस्त दिशाओं में और प्रजाओं में ( अत्कः ) व्यापक होकर ( आशये ) सर्वत्र गुप्तरूप से विद्यमान है और जो ( एषां विश्वा जातानि ) इन समस्त लोकों के समस्त पदार्थों को और ( धामानि ) सब स्थानों को ( परि मर्मृशत् ) सब प्रकार से जानता है उस ( वरुणस्य पुरः ) सर्वश्रेष्ठ स्वामी के समक्ष ( गये ) उसके शासन में ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वान् गण और समस्त सूर्यादि पदार्थ आत्मा या प्राण के अधीन इन्द्रियों के तुल्य ( व्रतम् अनु ) अधीन रहकर कार्य करते हैं । ( अन्यके समे ) इससे विपरीत बुद्धि वाले द्वेषीजन ( नभन्तां ) नष्ट होते हैं ।

स समुद्रो अपीच्यस्तुरो धामिव रोहति नि यदासु यजुर्दधे ।  
स माया अर्चिना पदास्तृणान्नाक्रुमारुहन्नभन्तामन्यके समे ॥८॥

भा०—( सः ) वह ( समुद्रः ) समुद्र के समान गम्भीर, अपार,

समस्त भानन्दों, सुखों का दाता, ( अपीच्यः ) पूज्य, अप्यय होने योग्य, प्राप्य एवं हृदयों में सुगुप्त, ( तुरः ) अति शीघ्रकारी है। वह ( घाम इव ) आकाश में सूर्यवत् ( रोहति ) सबसे ऊपर प्रकाशित होता है। ( यत् ) जो ( आसु ) इन समस्त प्रजाओं वा समस्त प्राकृतिक शक्तियों में ( यजुः निदधे ) नाना दान और संगति, परस्पर सामञ्जस्य स्थापित करता है। और वह ( अर्चिना पदा ) अर्चना करने योग्य, परम स्तुत्य 'पद' अर्थात् ज्ञान से ( मायाः अस्तृणात् ) सब कुटिल बुद्धियों का नाश करता है वह ( नाकम् अरुहत् ) परम सुखमय लोक को प्राप्त होता है। उसके ( अन्यके समे नभन्ताम् ) अन्य सब विरोधी नष्ट हो जाते हैं। यस्य श्वेता विचक्षणा तिस्रो भूमीरधिष्ठितः।

त्रिरुत्तराणि प्रप्रतुर्वरुणस्य ध्रुवं सदः स सप्तानामिरज्यति ।  
नभन्तामन्यके समे ॥ ९ ॥

भा०—( तिस्रः भूमीः ) तीनों भूमि लोकों में ( अधि-क्षितः ) अध्यक्ष-वत् निवास करने वाले ( यस्य ) जिसके ( विचक्षणा श्वेताः ) विविध पदार्थों को दर्शाने वाले उज्वल तेज, सूर्य विद्युदादि, ( उत्तराणि ) उनसे भी उत्कृष्ट ( त्रिः ) तीन लोकों को पूर्ण करते हैं उस ( वरुणस्य ) सर्वश्रेष्ठ प्रभु का ( ध्रुवं सदः ) विराजना या सत्तारूप से विद्यमान रहना ( ध्रुवम् ) नित्य है। ( सः ) वह प्रभु ( सप्तानाम् इरज्यति ) सातों का भी स्वामी रहता और उनको वश करता है। ( अन्यके समे नभन्ताम् ) उसके शासन में समस्त दुष्ट पुरुष नाश को प्राप्त होते हैं। (२) राजा के श्वेत, तेजस्वी वीर और अश्व हैं। उसका सर्वोपरि ( सदः ) आसन स्थिर है। वह ( सप्तानां ) सातों प्रकृतियों पर वशी होता है।

यः श्वेताँ आधिनिर्णिजश्चक्रे कृष्णाँ अनु व्रता ।

। स घामं पुर्व्यं ममे यः स्कम्भेन वि रोदसी अजो न घामधार-  
यन्नभन्तामन्यके समे ॥ १० ॥ २७ ॥



भा०—( यः ) जो प्रभु, सबका स्वामी सूर्यवत् ( अधिनिर्निजः ) अति शुद्ध, ( श्वेतान् ) श्वेत किरणों को वा सूर्यादि लोकों को भी ( व्रता अनु चक्रे ) नियमों के अनुकूल चलाता है, और जो ( कृष्णान् ) रात्रि-कालों के समान अन्धकारमय या आकर्षणमय, प्रकाशशून्य पृथिवी आदि लोकों को भी ( व्रता अनु चक्रे ) नियमों के अनुसार ही अपने अधीन रखता है और ( यः ) जो ( स्कम्भेन ) सबको थामने वाले महान् बल से ( रोदसी वि ममे ) सूर्य और भूमि को आकाश में थामता है, ( अजः न द्याम् अधारयत् ) स्वयं अजन्मा होकर, सर्व संचालक के समान ही सूर्य या आकाश को धारण, स्थापन करता है, ( सः ) वह सर्वश्रेष्ठ वरुण ( पूर्ण धाम ) सबसे पूर्ण धारण सामर्थ्य या लोक वा तेज को ( ममे ) धारण करता है । ( अन्यके समे न भन्ताम् ) उसके द्वारा सब पापींजन नष्ट हो जाते हैं । इति सप्तविंशो वर्गः ॥

## [ ४२ ]

नाभाकः काएवोऽर्चनाना वा । अथवा १—३ नाभाकः काएवः । ४—६ नाभाकः काएवोऽर्चनाना वा ऋषयः ॥ १—३ वरुणः । ४—६ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१—३ त्रिष्टुप् । ४—६ अनुष्टुप् ॥ षडृचं सूक्तम् ॥

अस्तभ्नाद्यामसुरो विश्ववेदा अमिमीत वरिमाणं पृथिव्याः ।  
आसीद्विश्वा भुवनानि सम्राड्विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि ॥१॥

भा०—( असुरः ) बलवान् ( विश्व-वेदाः ) समस्त ज्ञानों का भण्डार परमेश्वर ( द्याम् अस्तभ्नात् ) आकाशस्थ तेजोमय पिण्डों को थामे रहता है, वह ही ( पृथिव्याः परिमाणं ) पृथिवी के बड़े भारी परिमाण को ( अमिमीत ) मापता है, ( सम्राड् विश्वा भुवना ) सबका प्रकाशक परमेश्वर समस्त लोकों पर ( आसीदत् ) अध्यक्ष शासकवत् विराजता है । ( विश्वा इत् व्रतानि ) ये समस्त कार्य और नियम व्यवस्थाएं ( वरुणस्य इत् ) उस सर्वश्रेष्ठ स्वामी, सबसे वरण करने योग्य प्रभु परमेश्वर की ही हैं ।

एवा वन्दस्व वरुणं बृहन्तं नमस्या धीरममृतस्य गोपाम् ।  
स नः शर्म त्रिवरुथं वि यंसत्पातं नो द्यावापृथिवी उपस्थे ॥२॥

भा०—हे मनुष्य ! तू ( वरुण एव ) उस सर्वश्रेष्ठ, सर्वदुःखों के चारण करने वाले, सबसे वारण करने योग्य ( बृहन्तं ) महान् प्रभु की ( वन्दस्व ) स्तुति, वन्दना, प्रार्थना किया कर । और उसी ( धीरम् ) बुद्धि ज्ञान के दाता, कर्म के फलों के देने वाले, ( अमृतस्य गोपाम् ) अमृतमय मोक्ष के रक्षक को ( नमस्य ) नमस्कार किया कर । ( सः ) वह ( नः ) हमें ( त्रि-वरुथं शर्म ) तीनों प्रकार के कष्टों से बचाने वाले गृहवत् देह का ( वि यंसत् ) विविध प्रकार से प्रदान करता है । ( उपस्थे ) समीप विद्यमान ( द्यावा-पृथिवी ) सूर्य भूमि माता पिता भी ( नः पातम् ) हमारी रक्षा करें ।

इमां धियं शिक्षमाणस्य देव क्रतुं दक्षं वरुण सं शिशाधि ।

ययाति विश्वां दुरिता तरेम सुतर्माणमधि नावं रुहेम ॥ ३ ॥

भा०—हे ( देव ) सब सुखों के दाता सब ज्ञानों के प्रकाशक ! हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ ! तू ( इमां धियं ) इस ज्ञान, और कर्म का ( शिक्ष-माणस्य ) अनुष्ठान करने और अन्यो को उपदेश देने वाले की ( क्रतुं दक्षं ) बुद्धि और बल को ( सं शिशाधि ) सम्यक् प्रकार से तीक्ष्ण कर और अच्छे मार्ग में चला । ( यया ) जिससे हम ( विश्वा दुरिता ) सब दुष्कर्मों को ( अति तरेम ) पार कर जावें और ( सु-तर्माणं नावं ) सुख से पार उतार देने वाली नौकावत् वेदवाणी पर ( अधि रुहेम ) चढ़ें, उसका आश्रय लें ।

आ वां प्रावाणो अश्विना धीभिर्विप्रा अचुच्यवुः ।

नासत्या सोमपीतये नभन्तामन्यके समे ॥ ४ ॥

भा०—हे ( नासत्या ) सदा सत्य का आचरण करने और सदा सत्य ज्ञान का ही उपदेश देने वाले ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो !

( वां ) आप दोनों ( ग्रावाणः ) उत्तम उपदेष्टा, ( विप्राः ) विद्वान् पुरुष ( सोमपीतये ) उत्तम ज्ञानरस का पान करने के लिये ( धीभिः ) बुद्धियों और सत्कर्मों सहित ( अचुच्यवुः ) प्राप्त हों । ( अन्यके समे नभन्ताम् ) आप सब दुर्बुद्धि जन नष्ट हों ।

यथा वामत्रिरश्विना गीर्भिर्विप्रो अजोहवीत् ।

नासत्या सोमपीतये नभन्तामन्यके समे ॥ ५ ॥

भा०—हे ( नासत्या ) प्रमुख पद पर स्थित एवं सदा सत्याचरण-शील जनो ! ( यथा ) जिस प्रकार ( अत्रिः विप्रः ) तीनों प्रकार के दुःखों से रहित विद्वान् पुरुष ( गीर्भिः ) उत्तम वेदवाणियों द्वारा ( वाम् ) आप दोनों को ( सोम-पीतये ) ओषधिरस के पान करने और वीर्य रक्षा करने का ( अजोहवीत् ) उपदेश करता है उस प्रकार से ( अन्यके समे ) समस्त अन्य दुःखदायी रोग और पापादि के संकल्प ( नभन्ताम् ) नष्ट होते और फिर पैदा नहीं होते ।

एवा वामह्व ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः ।

नासत्या सोमपीतये नभन्तामन्यके समे ॥ ६ ॥ २८ ॥ ५ ॥

भा०—व्याख्या देखो ८ । ३८ । ९ ॥ इत्यष्टाविंशो वर्गः ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ इत्यष्टाविंशो वर्गः । इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

४३ ]

विरूप आङ्गिरस ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः—१, ६—१२, २२, २६, २८, २९, ३३ निचृद् गायत्री । १४ ककुम्भती गायत्री । ३० पादानिचृद् गायत्री ॥ त्रयस्त्रिंशदृचं सूक्तम् ॥

इमे विप्रस्य वेधसोऽग्नेरस्तृतयज्वनः । गिरः स्तोमास ईरते ॥ ११ ॥

भा०—( इमे ) ये ( स्तोमासः ) स्तुतियुक्त वेद के मन्त्रों द्वारा स्तुति करने वाले विद्वान् जन ( विप्रस्य ) विद्वान्, मेधावी, ( वेधसः )

जगत् के कर्ता ( अस्तुत-यज्वनः ) दानशील, यज्ञ कर्ता के नाश न करने वाले ( अग्नेः ) ज्ञानमय प्रभु के विषय में ( गिरः ईरते ) वेदवाणियों का उच्चारण करते हैं ।

अस्मै ते प्रतिहर्यते जातवेदो विचर्षणे । अग्ने जनामि सुष्टुतिम् २

भा०—हे (जात-वेदः) सर्वज्ञ ! सर्वैश्वर्य के स्वामिन् ! हे (विचर्षणे) (अग्ने) ज्ञानवन् ! सर्वप्रकाशक ! प्रकाशस्वरूप ! विशेष द्रष्टा ! (प्रतिहर्यते ते) प्रत्येक जीव को चाहने हारे तेरी मैं (सु-स्तुतिम् जनामि) उत्तम स्तुति प्रकट किया करूं ।

आरोका इव घेदहं तिग्मा अग्ने तव त्विषः । दद्भिर्वनानि वप्सति ३

भा०—(दद्भिः वनानि) जिस प्रकार पशुगण दांतों से जंगलों को खाते हैं और जिस प्रकार अग्नि की ज्वालाएं काष्ठों को मानो खा जाती हैं उसी प्रकार हे (अग्ने) अग्ने ! प्रकाशस्वरूप ! (तव त्विषः) तेरी कान्तियां (तिग्माः) तीक्ष्ण होकर, (आंरांकाः इव) सब ओर चमकती हुई ज्वालाओं के समान (वनानि) जलों को सूर्य किरणोंवत् (वनानि) नाश करने योग्य दोषों को (वप्सति) मानो खायें डालती हैं, उनका नाश करती हैं । सब पापों को भस्म कर देती हैं ।

हरयो धूमकेतवो वातजूता उप ह्यवि । यतन्ते वृथगग्रयः ॥४॥

भा०—जिस प्रकार (अग्रयः) अग्नियें (हरयः) पीतवर्ण (धूम-केतवः) धूम की ध्वजाओं से युक्त होकर (वात-जूताः) वायु से प्रेरित होकर, (ह्यवि) आकाश में (वृथक् = पृथक् उपयतन्ते) अलग २ प्रज्वलित होते हैं उसी प्रकार (अग्रयः) अग्नि के बने सूर्यादि लोक और (धूम-केतवः) धूम की ध्वजा से युक्त धूमकेतुगण, (वात-जूता) वायु वेग से प्रेरित होकर आकाश में अलग २ घूम रहे हैं इसी प्रकार (अग्रयः) अग्निवत् स्वप्रकाश विद्वान्, (हरयः) जीवगण, (धूम-केतवः) पाप को दूर करने में समर्थ ज्ञान से सम्पन्न होकर (वात-जूताः) प्राण वायु से

प्रेरित होकर (द्यवि) उस प्रकाशस्वरूप प्रभु को लक्ष्य कर उसके आश्रय, पृथक् २ मोक्ष प्राप्ति का यत्न करते हैं। 'पृथगग्रयः' इति वाजसने यिनां पाठः ।

एतेत्ये वृथगग्रय इद्धासः समदक्षत । उपसामिव केतवः ५।२९

भा०—( एते त्ये ) ये वह (अग्रयः) अग्निवत् स्वयं प्रकाश जीवगण ( इद्धासः ) प्रदीप्त या प्रज्वलित अग्नियों के समान, और ( उपसाम्-इव केतवः ) उपा, प्रभात कालों के ज्ञापक ध्वजाओं वा किरणों के समान ( उपसाम् ) नाना कामनाओं के ( केतवः ) प्रकट करने वाले ( वृथक् ) पृथक् २ ही (सम्-अदक्षत) अच्छी प्रकार विवेकपूर्वक दिखाई देते वा देखते हैं । पूर्व मन्त्र में बतलाया था कि इन जीवों के सबके अपने यत्न पृथक् हैं, इसमें बतलाया कि इनकी इच्छाएं भी भिन्न हैं । वे एक महान् आत्मा के अंश नहीं प्रत्युत सम्यग् दर्शन द्वारा भी पृथक् २ ही हैं । इत्येकोनत्रिंशो वर्गः॥

कृष्णा रजांसि पत्सुतः प्रयाणे जातवेदसः । अग्निर्यद्रोधति क्षमिदि

भा०—( अग्निः यत् क्षमि रोधति ) अग्नि जब भूमि पर जाता है तब उसके ( प्रयाणे रजांसि कृष्णा ) जल जाने पर भूमि के धूलि भस्मादि कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं, इसी प्रकार ( यत् ) जब ( अग्निः ) ज्ञानी जीव ( क्षमि ) क्षमा, सहनशीलता में वा योग की किसी भूमिपर अपने को ( रोधति ) निरोध करता है तब ( पत्सुतः ) ज्ञान में निष्णात, ( जात-वेदसः ) ज्ञानवान् पुरुष के लिये ( प्रयाणे ) आगे बढ़ते हुए मार्ग में ( रजांसि ) समस्त राजस वस्तुएं नाना तेजोमय लोक ( कृष्णा ) अति आकर्षक होते हैं, वे उसे मार्ग में भ्रष्ट करने वाले होते हैं ।

धासिं कृण्वान ओषधीर्वप्सदग्निर्न वायति । पुनर्यन्तरुणीरपि॥७॥

भा०—जिस प्रकार (अग्निः ओषधीः धासिं कृण्वानः वप्सत् ) नाना ओषधियों को अपना अन्न बना २ कर खाता है, ( न वायति ) शान्त नहीं होता है और ( पुनः तरुणीः अपि यन् ) फिर बड़ी लताओं को भी प्राप्त करता है

उसी प्रकार यह ( अग्निः ) अग्नि के समान स्वप्रकाश जीव भी इस देह-भूमि में प्राप्त होकर ( ओषधीः धासिं कृष्वानः ) नाना अन्नादि ओषधियों को अपने धारण पोषणकारी खाद्य पदार्थ बनाता हुआ ( वप्सद् ) उनका भक्षण करता है और वह ( न वायति ) शान्त नहीं होता, वह नहीं मरता, जीवित रहता है, और वह ( पुनः ) बार २ ( तरुणीः अपि यत् ) खादि भोगों वा तरुण अर्थात् यौवनादि दशाओं को प्राप्त होता हुआ भी ( न वायति ) भोगों से तृप्त नहीं होता । उन्हीं में लिप्त होजाता है ।

जीर्यन्ति जीर्यतः केशाः दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः ।

गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते ॥

अर्थात् उस जीव को राजस भोग प्राप्त होकर इतने अधिक 'कृष्ण' अर्थात् आकर्षक होते हैं कि वह उनको साधन शिथिल होने पर भी नहीं त्यागता ।

जिह्वाभिरह नन्नमदर्चिषा जञ्जणाभवन् । अग्निर्वनेषु रोचते ॥८॥

भा०—जिस प्रकार ( अग्निः ) अग्नि ( जिह्वाभिः ) जिह्वाओं, ज्वालाओं से ( अह ) ही ( नन्नमत् ) लपट मारता, और ( अर्चिषा ) दीप्ति से ( जञ्जणाभवत् ) खूब प्रज्वलित होता हुआ ( वनेषु रोचते ) काष्ठों में चमकता है उसी प्रकार यह ( अग्निः ) स्वयं प्रकाश जीव, ( जिह्वाभिः अह ) पदार्थों को ग्रहण करने वाले इन्द्रिय रूप जिह्वाओं से ही ( नन्नमत् ) विषयों की ओर खूब बार २ झुकता है, और ( अर्चिषा ) अर्चि मार्ग से ही बार २ इस लोक में ( जञ्जणाभवत् ) उत्पन्न होता हुआ ( वनेषु ) सेवनीय पदार्थों या लोकों में, काष्ठों में अग्निवत्, वा जलों में सूर्यवत्, सेव्य लोकों में जीव ( रोचते ) रुचि अनुकूल विचरता है, उनमें ही रुचि करता है ।

अप्स्वग्ने सधिष्व सौषधीरनु रुध्यसे । गर्भे सञ्जायसे पुनः ॥९॥

भा०—जिस प्रकार इस अग्नि का ( सधिः अप्सु ) मेघस्थ जलों में

विद्युत् रूप से स्थित है, और (सः) वह (ओपधीः अनु रुध्यते) ओपधियों को प्राप्त होता है, और (गर्भे सन् पुनः जायते) पुत्रवत् उनके भीतर छुपा रहकर भी वर्षणादि से पुनः उत्पन्न होता है। इसी प्रकार हे (अग्ने) जीव (तव सधिः) तेरी समान रूप से स्थिति (अप्सु)। वीर्यों में रहती है, (सः) वह तू (ओपधीः अनु) 'ओप' तेजोमय वीर्य को धारण करने में समर्थ माताओं को प्राप्त होकर वहां (रुध्यसे) ९ मास तक रुका रहता है, (गर्भे सन्) गर्भ में विद्यमान रहकर पुनः (जायसे) जन्म लेकर उत्पन्न होता है।

उदग्ने तव तद्घृतादर्ची रोचत आहुतम् । निसानं जुहो मुखे १०।३०

भा०—जिस प्रकार अग्नि की (अर्चिः) ज्वाला या दीप्ति (जुहः मुखे) जुहू नाम चमस के मुखपर (निसानं) चुम्बन करती हुई (आहुतम्) आहुति प्राप्त कर (घृतात् उत् रोचते) घृत के कारण ऊपर को उठकर चमकती है उसी प्रकार हे (अग्ने) स्वप्रकाश जीवात्मा (तव तद् अर्चिः) तेरा वह प्रकाशमय बीज (जुहः मुखे) आदान या शुक्र ग्रहण करने वाले मातृगर्भस्थ शुक्रधारक नाड़ी के मुख पर (निसानं) चुम्बन या स्पर्श करता हुआ (आहुतं सत्) पुरुष द्वारा प्रदत्त होता है और उसी (घृतात्) क्षरित, तेजोमय शुक्र से (तद्वत्) तेरा वह रूप (उत् रोचते) उत्तम रीति से प्रकट होता है। इति त्रिंशो वर्गः ॥

उक्षान्नाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे । स्तोमैर्विधेसाग्नये ॥११॥

भा०—हम (उक्षान्नाय) वीर्यसेचन में समर्थ अन्न खाने वाले और (वशान्नाय) यथेच्छ अन्न के भोगने वाले, (सोम-पृष्ठाय) वीर्य स्वरूप (अग्ने) अग्निवत् आकाशस्वरूप आत्मा का (स्तोमैः) वेद मन्त्रों द्वारा (विधेम) प्रतिपादन और ज्ञान करें। (२) 'उक्षाः' जल-सेचक, नाना लोकों को वहन करने वाले, सूर्यादि और 'वशा' सर्व वशकारिणी शक्ति का अन्नवत् उपभोग करने वाले (सोम-पृष्ठाय) सर्व

प्रेरक, परमैश्वर्यवान् ( वेधसे ) जगत् विधाता ( अग्नये ) अग्निवत् तेजो-  
मय परमेश्वर की हम ( स्तोमैः ) स्तुति वचनों से ( विधेम ) परिचर्या  
और स्तुति-उपासना करें ।

उत त्वा नमसा वयं होतर्वरेण्यक्रतो । अग्ने समिद्धिरीमहे ॥१२॥

भा०—( उत ) और हे ( होतः ) सब सुखों के देने वाले ! हे ( वरे-  
ण्य-क्रतो ) सर्वश्रेष्ठ ज्ञानवन् ! वा हे ( वरेण्य ) सर्वश्रेष्ठ ! हे ( क्रतो )  
जगत्कर्ता ! हे ( अग्ने ) ज्ञानप्रकाशमय ! ( त्वा ) तुझ को ( वयं )  
हम ( नमसा ) विनय से ( समिद्धिः ) समिधाओं से आहवनीयाग्नि के  
तुल्य ( समिद्धिः ) उत्तम, उज्वल, दीप्तियुक्त ज्ञानों द्वारा ( ईमहे )  
प्राप्त होते हैं ।

उत त्वा भृगुवच्छुचे मनुष्वदग्ना आहुत । अङ्गिरस्वद्ध्वामहे १३.

भा०—( उत ) और हे ( शुचे ) प्रकाशस्वरूप ! शुद्ध ! पापों के  
दहन करने हारे ! हे ( अग्ने ) ज्ञानमय ! हे ( आहुत ) सर्वात्मना स्वीकृत  
हम लोग ( भृगुवत् ) पापों को दग्ध करने में समर्थ तपस्वी जनों के समान,  
और ( मनुष्वत् ) मननशील ज्ञानी पुरुषों के समान और ( अंगिरस्वत् )  
देह में प्राणोंवत् अंगारों के समान तेजस्वी ज्ञानी पुरुषों के समान होकर  
( त्वा ह्वामहे ) तुझ से प्रार्थना करते हैं ।

त्वं ह्यग्ने अग्निना विप्रो विप्रेण सन्त्सता। सखा सख्या समिध्यसे १४.

भा०—जिस प्रकार ( अग्निना अग्निः समिध्यते ) एक अग्नि से दूसरी  
अग्नि मिलकर और अधिक दीप्तियुक्त होता है और जिस प्रकार ( विप्रः  
विप्रेण समिध्यते ) विद्वान् पुरुष विद्वान् से मिलकर और अधिक  
ज्ञान का प्रकाश करता है और जिस प्रकार ( सन् सता ) सज्जन सज्जन  
से मिलकर प्रसन्न होता है, ( सखा सख्या समिध्यते ) स्नेही मित्र से  
स्नेहवान्, जन मिलकर अधिक प्रसन्न होता है उसी प्रकार हे ( अग्ने )  
ज्ञानस्वरूप सर्वप्रकाशक प्रभो ! तू भी ( अग्निना ) स्वप्रकाश आत्मा द्वारा



(समिध्यसे) अच्छी प्रकार प्रकाशित होता है, तू (विप्रः) विविध ज्ञानों से पूर्ण है, वह तू (विप्रेण) विशेष आत्मज्ञान से 'पूर्ण' आत्मा द्वारा ही (समिध्यसे) अच्छी प्रकार प्रकाशित होता, जाना जाता है। तू (सन्) सत् स्वरूप (सता) सत् नित्य आत्मा से ही जाना जाता है। तू (सखा) आत्मा का परम स्नेही है, तू (सख्या) अपने मित्र आत्मा द्वारा ही जाना जाता है।

स त्वं विप्राय दाशुषे रयिं देहि सहस्रिणाम् ।

अग्ने वीरवतीमिषम् ॥ १५ ॥ ३१ ॥

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवन् ! विद्वन् ! तेजस्विन् ! (सः त्वं) वह तू (दाशुषे) ज्ञानादि देने वाले (विप्राय) मेधावी विद्वान् को (सहस्रिण रयिं) सहस्रों की संख्या से युक्त ऐश्वर्य और (वीरवतीम् इषम्) वीरों और पुत्रों से युक्त अन्न, (देहि) प्रदान कर। इसी प्रकार वह परमेश्वर इस जीव को (सहस्रिणम्) सब सुखों और बलयुक्त प्राणों से युक्त 'रयिं' अर्थात् मूर्त्तदेह और (वीरवतीम् इषम्) प्राणों वाली इच्छा शक्ति प्रदान करता है। इत्येकत्रिंशो वर्गः ॥

अग्ने भ्रातः सहस्कृते रोहिदश्व शुचिव्रत ।

इमं स्तोमं जुषस्व मे ॥ १६ ॥

भा०—हे (अग्ने) तेजस्विन् ! हे (भ्रातः) भ्रातृवत् स्नेहकारिन्, समस्त जीवों के भरण पोषण करनेहारे ! हे (सहस्कृत) सर्ववशकारी बल से सम्पन्न, हे (रोहित-अश्व) रक्तवर्ण अश्व अर्थात् व्यापक तेज वाले, वेगवान् सूर्यादि पिण्डों के स्वामिन् ! हे (शुचिव्रत) शुद्धव्रत ! नियमकारिन् ! विद्वन् ! तू (मे) मेरे (इमं स्तोमं जुषस्व) इस स्तुतिवचन को प्रेमपूर्वक स्वीकार कर।

उत त्वाग्ने मम स्तुतो वाश्राय प्रतिहर्यते ।

गोष्ठं गाव इवाशत ॥ १७ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप प्रभो ! ( वाश्राय प्रतिहर्यते ) : पुकारने वाले और माता को चाहने वाले बछड़े के लाभ के लिये ( गोष्ठं गावः इव ) गोशाला में गौओं के समान ( मम स्तुतः ) मेरी स्तुतियां ( त्वा ) तुझे को ( आशत ) प्राप्त हों ।

तुभ्यं ता अङ्गिरस्तम विश्वाः सुक्षितयः पृथक् ।

अग्ने कामाय येमिरे ॥ १८ ॥

भा०—हे ( अंगिरस्तम ) प्राणों में मुख्य प्राणवत् वा आत्मवत् ! सर्वश्रेष्ठ ! हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! ( ताः विश्वाः सुक्षितयः ) वे समस्त उत्तम प्रजाएं ( कामाय तुभ्यं ) कामना करने योग्य, कान्तिमान् तेरे लिये ही अपने को ( पृथक् ) पृथक् २ दलों में ( नि येमिरे ) नियंत्रित करते हैं, तुझे ही प्राप्त करने के लिये उत्तम जन अपने को वर्ण आश्रमादि की व्यवस्थाओं में बांधते हैं ।

अग्निं धीभिर्मनीषिणो मेधिरासो विपश्चितः ।

अद्भ्यसद्याय हिन्विरे ॥ १९ ॥

भा०—( मेधिरासः ) अज्ञादि के स्वामी, ( मनीषिणः ) मनों को सन्मार्ग में चलाने वाले, ( विपश्चितः ) ज्ञानवान् विद्वान् लोग ( धीभिः ) उत्तम ज्ञानों, कर्मों तथा धारण योग्य वेदवाणियों, स्तुतियों से ( अद्भ्यसद्याय ) कालाग्नि रूप से अन्नवत् खाने योग्य, समस्त विश्व में अधिष्ठातृवत् विराजने और व्यापने के अर्थ ( हिन्वन्ति ) तेरी स्तुति करते हैं । ( २ ) यज्ञ में विद्वान् चरु ग्रहणार्थ अग्नि को बढ़ाते हैं । गृह में अन्न भोजनार्थ अतिथि विद्वान् को प्रार्थना करते हैं ।

तं त्वामज्मेपु वाजिनं तन्वाना अग्ने अध्वरम् ।

वह्निं होतारमीळते ॥ २० ॥ ३२ ॥

भा०—लोग ( त्वाम् तं ) उस तुझे ( वाजिनम् ) बलवान्, ऐश्वर्यवान् को, हे ( अग्ने ) अग्निवत् तेजस्विन् ! ( अज्मेपु ) संग्रामों में भी

( अध्वरं ) अविनाशी ( वह्नि ) कार्यवहन में समर्थ ( होतारम् ) दातारूप से ( ईडते ) स्तुति करते हैं । इति द्वात्रिंशो वर्गः ॥

पुरुत्रा हि सदृङ्ङसि विशो विश्वा अनु प्रभुः ।  
समत्सु त्वा हवामहे ॥ २१ ॥

भा०—हे विभो ! प्रभो ! स्वामिन् ! तू ( विश्वाः विशः अनु प्रभुः ) समस्त प्रजाओं के अनुकूल, सबका स्वामी और ( पुरुत्र हि ) पालने योग्य इन्द्रियों में आत्मा के समान ही ( सदृङ् असि ) सबको समान भाव से देखने वाला तदनुरूप है । ( समत्सु ) संग्रामों और हर्षावसरों में भी ( त्वा हवामहे ) तेरी ही प्रार्थना करते हैं ।

तमीळिष्व य आहुतोऽग्निर्विभ्राजते घृतैः ।

इमं नः शृण्वद्भवम् ॥ २२ ॥

भा०—जिस प्रकार ( आहुतः अग्निः ) आहुति किया अग्नि ( घृतैः ) घृतों से ( वि-भ्राजते ) विशेष रूप से प्रकाशित होता है उसी प्रकार जो वह ( अग्निः ) तेजःस्वरूप, स्वप्रकाश प्रभु ( घृतैः ) तेजोमय आत्माओं से ( आ-हुतः ) बुलाया, पुकारा और प्रार्थित किया जाकर ( वि-भ्राजते ) विशेष रूप से हृदयों में प्रकाशित होता है ( तम् ईळिष्व ) तू उसकी ही स्तुति किया कर । क्योंकि वही ( नः ) हमारी ( हवम् शृणवत् ) उस स्तुति को श्रवण करता है ।

तं त्वा वयं हवामहे शृण्वन्तं जातवेदसम् ।

अग्ने घ्नन्तमप द्विषः ॥ २३ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) अग्निवत् तेजस्विन् ! ज्ञानप्रकाशक विद्वन् ! ( जात-वेदसम् ) ज्ञान में निष्णात, ( शृण्वन्तं ) श्रवण करने वाले और ( द्विषः अप घ्नन्तम् ) समस्त द्वेष करने वालों और समस्त द्वेष के भावों का विनाश करने वाले ( त्वा तं ) उस तुझ को ( वयं ) हम लोग ( हवामहे ) पुकारते और स्तुति-प्रार्थना और उपासना करते हैं ।

विशां राजानमद्भुतमध्यक्षं धर्मणामिमम् ।

अग्निमीळि स उ श्रवत् ॥ २४ ॥

भा०—( विशां राजानम् ) प्रजाओं के बीच राजा के तुल्य, देह में प्रविष्ट आत्माओं के बीच प्रकाशित होने वाले ( धर्मणाम् ) समस्त धर्मों के ( अद्भुतम् अध्यक्षं ) अद्भुत अध्यक्ष, साक्षी द्रष्टा, ( अग्निम् ) उस तेजस्वी प्रभु की मैं ( ईडे ) स्तुति करूं, ( सः उ श्रवत् ) वह ही वस्तुतः सब कुछ सुनने वाला है ।

अग्निं विश्वायुवेपसं मर्यं न वाजिनं हितम् ।

ससिं न वाजयामसि ॥ ३३ ॥

भा०—जिस प्रकार हम विश्वायु-वेपसं मर्यं वाजयामसि ) समस्त मनुष्यों को कंपाने वाले बलवान् पुरुष को अधिक बल ऐश्वर्य से युक्त करते हैं । वा ( वाजिनं ससिं वाजयामसि ) बलशाली वेग से जाने वाले अश्व को अधिक तीव्र वेग से जाने के लिये प्रेरित करते हैं उसी प्रकार हम (विश्वायु-वेपसं) समस्त मनुष्यों को चलाने वाले, (वाजिनं) ज्ञानैश्वर्यवान् बली, ( हितम् ) सर्वहितकारी ( ससिं ) प्रकृति के सातों विकृतियों के स्वामी, ( अग्निम् ) सर्वप्रकाशक का ( वाजयामसि ) समस्त गुणों से अलंकृत करते, उसकी स्तुति करते हैं । इति त्रयस्त्रिंशो वर्गः ॥

घ्नन्मृध्राण्यप द्विपो दहृन्नक्षींसि विश्वहा ।

अग्ने तिग्मेन दीदिहि ॥ २६ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! तू ( मृध्राणि ) हिंसक ( द्विपः ) द्वेष करने वालों को ( घ्नन् ) दण्डित करता और ( रक्षांसि दहन् ) विघ्नकारियों को दग्ध या निर्मूल करता हुआ ( तिग्मेन ) तीक्ष्ण तेज से ( दीदिहि ) प्रकाशित हो ।

यं त्वा जनांस इन्धते मनुष्वदाङ्गिरस्तम ।

अग्ने स वीधि मे वचः ॥ २७ ॥

भा०—हे ( अङ्गिरस्तम ) अति तेजस्विन् ! ( अग्ने ) अग्रणी नायक-  
वत् मार्गप्रकाशक ! ( यं त्वा ) जिस तुझ को ( जनासः ) मनुष्य ( मनु-  
ष्वत् ) ज्ञानी के समान होकर ( त्वाम् इन्धते ) तुझे ही प्रज्वलित करते  
हैं ( सः त्वं ) वह तू ( मे वचः बोधि ) मेरे वचन का ज्ञान कर ।

यदग्ने दिविजा अस्यप्सुजा वा सहस्कृत ।

तं त्वा गीर्भिह्वामहे ॥ २८ ॥

भा०—अग्नि जिस प्रकार तीन प्रकार का है, ( दिविजाः ) आकाश  
में प्रकट सूर्य, ( अप्सुजाः ) जलों में प्रकट वा अन्तरिक्ष में उत्पन्न विद्युत्,  
और ( सहस्कृतः ) बल या मथन से उत्पन्न यह अग्नि, इसी प्रकार आत्मा  
भी तीन प्रकार से प्रकट होता है। (१) (दिविजाः) कामना रूप से प्रकट,  
( २ ) ( अप्सुजाः ) प्राणों में प्रकट, ( ३ ) ( सहस्कृतः ) प्रतिरोधी  
उष्ण शीतादि को सहन करने वाले बल रूप में प्रकट । इसी प्रकार परमे-  
श्वर के तीन गुण, ( दिविजाः ) परम आकाश में सूर्यादि का उत्पादक,  
( अप्सुजाः ) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं वा जलों में और अन्तरिक्ष में गत  
पदार्थों का उत्पादक, ( सहस्कृत ) सर्वातिशायी, सर्वव्यवस्थापक बल  
होकर विश्व के उत्पादक, हे ( अग्ने ) स्वयं प्रकाशस्वरूप आत्मन् प्रभो !  
हे उक्त तीनों विशेषणों वाले ! ( तं त्वा ) उस तुझ को हम ( गीर्भिः )  
नाना उत्तम वाणियों से ( ह्वामहे ) स्तुति करते हैं, तेरा गुण वर्णन  
करते हैं ।

तुभ्यं घेत्ते जना इमे विश्वाः सुक्षितयः पृथक् ।

धासिं हिन्वन्त्यत्तवे ॥ २९ ॥

भा०—( अत्तवे धासिं ) भोक्ता जन को जिस प्रकार अन्न देते हैं  
उसी प्रकार ( इमे जनाः ) ये उत्पन्न हुए प्राणि, या लोक और ( विश्वाः  
सुक्षितयः ) समस्त उत्तम मनुष्य ( पृथक् ) पृथक् २ ( तुभ्यं अत्तवे घ इत् )

सब चराचर को अपने में लेने वाले तेरी ही ( धासिं हिन्वन्ति ) धारणा-सामर्थ्य की स्तुति करते हैं ।

ते घेदग्ने स्वाध्योऽहा विश्वा नृचक्षसः ।

तरन्तः स्याम दुर्गहा ॥ ३० ॥ ३४ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप, [ ( विश्वा अहा ) सब दिनों, ( नृ-चक्षसः ) नायक प्रभु-को देखने वाले और ( ते घ इत् ) तेरे ही ( सु-आध्यः ) सुख से ध्यान, उपासना करने वाले होकर हम ( दुर्ग-हा ) दुःख से पार करने योग्य संकटों-को ( तरन्तः स्याम ) पार करने वाले हों ।

अग्निं मन्द्रं पुरुप्रियं शीरं पावकशोचिषम् । हृद्धिर्मन्द्रेभिरीमहे ३१

भा०—हम ( मन्द्रं ) स्तुत्य, आनन्दप्रद ( पुरु-प्रियं ) बहुतां के प्रिय, इन्द्रियों को आत्मा के तुल्य प्रजाओं को प्रसन्न करने वाले ( पावक-शोचि-षम् ) पवित्रकारक तेज वाले, ( शीरं ) व्यापक, ( अग्निं ) अग्निवत् प्रकाशक को हम ( मन्द्रेभिः ) हर्षयुक्त ( हृद्धिः ) हृदयों से ( ईमहे ) प्रार्थना; स्तुति करें ।

स त्वमग्ने विभावसुः सृजन्सूर्यो न रश्मिभिः ।

शर्धन्तमांसि जिघ्रसे ॥ ३२ ॥

भा०—( सृजन् सूर्यः न ) उगते हुए सूर्य के समान ( विभावसुः ) विशेष कान्ति से आच्छादन करने वाला, दीप्तिमान् होकर हे ( अग्ने ) प्रकाशक ! ( रश्मिभिः ) अपने किरणों से ( शर्धन् ) बलवान् होकर ( सः त्वं ) वह तू ( तमांसि जिघ्रसे ) अन्धकारों को नाश करता है, दुःखदायी दुष्टों को दण्डित करता है ।

तत्ते सहस्व ईमहे द्वात्रं यन्नोपदस्यति ।

त्वदग्ने वार्यं वसु ॥ ३३ ॥ ३५ ॥

भा०—हे ( सहस्व ) सब से महान् प्रभो ! बलवन् ! ( यत् ) जो ( ते ) तेरा ( वार्यं वसु ) सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य कभी ( न उप-दस्यति ) नष्ट

नहीं होता हम (तत् ते दात्रं) वह तेरा दातव्य दान हम (त्वत् ईमहे) तुझ से मांगते हैं । इति पञ्चत्रिंशो वर्गः ॥

[ ४४ ]

विरूप आङ्गिरस ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः—१, ३, ४, ६, १०, २०—  
२२, २५, २६ गायत्री । २, ५, ७, ८, ११, १४—१७, २४ निचृद्  
गायत्री । ६, १२, १३, १८, २८, ३० विराड् गायत्री । २७ यवमध्या  
गायत्री । २६ ककुम्भती गायत्री । १६, २३ पादनिचृद् गायत्री ॥ त्रिशदृचं सूक्तम् ॥

समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्वोधयतातिथिम् ।

आस्मिन्हव्या जुहोतन ॥ १ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! ( समिधा घृतैः अग्निं ) जिस प्रकार यज्ञाग्नि को समिधा और घृताहुतियों से परिचरण करते और ( हव्या जुहोतन ) उत्तम हव्य चरु की आहुति देते हो उसी प्रकार आप लोग ( अतिथिम् ) अतिथिवत् पूज्य ( अग्निं ) ज्ञानवान् विद्वान् की ( समिधा ) समित्पाणि होकर ( घृतैः ) ज्ञानप्रकाशों और स्नेहों के निमित्त ( दुवस्यत ) उसकी सेवा परिचर्या करो । ( अस्मिन् ) उसके निमित्त ( हव्या आ जुहोतन ) उत्तम २ ग्रहण करने योग्य अन्न आदि पदार्थ प्रदान करो ।

अग्ने स्तोमं जुषस्व मे वर्धस्वानेन मन्मना ।

प्रति सूक्तानि हर्य नः ॥ २ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) ज्ञानप्रकाशक ! तू ( मे स्तोमं जुषस्व ) मेरी स्तुति को स्वीकार कर । और ( अनेन मन्मना ) इस मनन करने योग्य ज्ञान से ( वर्धस्व ) वृद्धि को प्राप्त हो । ( नः सूक्तानि प्रति हर्य ) हमारे सूक्तों, उत्तम वचनों को तू चाह और हमें उत्तम वचनों का उपदेश कर ।

अग्निं द्रुतं पुरो दधे हव्यवाहमुप ब्रुवे ।

देवाँ आ सादयादिह ॥ ३ ॥

भा०—जिस प्रकार कोई (अग्नि दूतं पुरो धत्ते) तप्त अग्नि को आगे स्थापित करता है और अग्नि ( देवान् आसादयति ) प्रकाशक किरणों को प्रदान करता है, उसी प्रकार मैं ( पुरः ) अपने समक्ष ( दूतं ) स्तुति योग्य ( हव्य-वाहम् ) स्तुत्य गुणों के धारक, ज्ञानप्रकाशक गुरु और प्रभु को धारण करूँ और (उप द्रुवे) उसकी स्तुति करूँ। वह (इह) इस अन्तःकरण में ( देवान् आसादयत् ) शुभ गुणों, ज्ञानों को प्राप्त करावे।  
उत्ते वृहन्तो अर्चयः समिधानस्य दीदिवः। अग्ने शुक्रास ईरते४

भा०—हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! तपस्विन् ! हे ( दीदिवः ) कान्तियुक्त ! हे उज्वल चरित्र, जिस प्रकार (समिधानस्य वृहन्तः शुक्रासः अर्चयः उत् ईरते ) अच्छी प्रकार प्रदीप्त हुए अग्नि की बहुत बड़ी, २ प्रदीप्त ज्वालाएं ऊपर उठती हैं और जिस प्रकार सूर्य की उज्ज्वल कान्तियें ऊपर को उठती हैं और जिस प्रकार ( शुक्रासः उत् ईरते ) पृथिवीस्थ जल भी ऊपर को उठते हैं उसी प्रकार ( समिधानस्य ) अति तेजस्वी ( ते ) तेरे (वृहन्तः) प्रवृद्ध (अर्चयः) उत्तम कान्तिएं और ( शुक्रासः ) शुक्र अर्थात् वीर्य ( उत् ईरते ) ऊपर मस्तक की ओर जाते हैं।

उप त्वा जुहो मम घृताचीर्यन्तु हर्यत।

अग्ने हव्या जुषस्व नः ॥ ५ ॥ ३६ ॥

भा—जिस प्रकार (घृताचीः जुहः अग्निं यन्ति) घृत वाली जुहू नाम चुचाएं यज्ञ-काल में अग्नि को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार हे ( अग्ने ) विद्वन् ! प्रभो ! हे ( हर्यत ) कान्तियुक्त ! उत्तम कामनावान् ! ( मम ) मेरी ( घृताचीः ) स्नेहयुक्त ( जुहः ) वाणियां (त्वा उप यन्तु) तुझे प्राप्त हों ! हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! तू ( नः हव्या ) हमारे दिये भद्रादि दातव्य पदार्थों को ( जुषस्व ) प्रेमपूर्वक स्वीकार कर। इति षट्त्रिंशो वर्गः ॥

मन्द्रं होतारमृत्विजं चित्रभानुं विभावसुम्।

अग्निमीळे स उ श्रवत् ॥ ६ ॥



भा०—मैं (मन्द्रं) सुखजनक, ( होतारम् ) सुखों और ज्ञानों के देने वाले, (ऋत्विजं) ऋतु २ में यज्ञ करने वाले, (चित्र-भानुं) अद्भुत, सौम्य कान्तियुक्त (विभा-वसुम्) दीप्तियुक्त धन के स्वामी, (अग्निम् ईडे) प्रमुख तेजस्वी पुरुष की स्तुति करता हूँ, उसको चाहता हूँ। (सः उ श्रवत्) वह ही हमारी प्रार्थना श्रवण करे।

प्र॒तनं॑ हो॒तार॑मी॒डयं॑ जु॒ष्टम॑ग्निं कृ॒विक्र॑तुम् ।

अ॒ध्वराणां॑मभि॒श्रिय॑म् ॥ ७ ॥

भा०—मैं (प्रतनं) पुराण, नित्य, सर्वश्रेष्ठ, ( होतारम् ) ज्ञानों, ऐश्वर्यों के देने वाले, ( ईडयं ) स्तुत्य, ( जुष्टं ) सेवा करने योग्य, (कविक्रतुम्) दूरदर्शी विद्वान् के समान ज्ञान और कर्म से युक्त, विद्वानों को भी ज्ञान देने वाले, ( अध्वराणां ) यज्ञों के आश्रय, देवपूजा, सत्कार आदि के सत्पात्र की स्तुति करता हूँ।

जु॒ष्टाणो॑ अ॒ङ्गिर॑स्तमे॒मा ह॒व्यान्या॑नुषक् ।

अग्ने॑ य॒ज्ञं न॑य ऋ॒तुथा ॥ ८ ॥

भा०—हे ( अंगिरःतम ) प्राणों के प्राण ! हे ( अग्ने ) सबके नेतः ! तू ( आनुषक् ) निरन्तर ( हव्यानि जुषाणः ) उत्तम ग्राह्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, स्तुतिवचन, अन्नादि का सेवन करता हुआ ( ऋतुथा ) ऋतु अनुसार ( यज्ञं नय ) यज्ञ को चला।

स॒मि॒धान॑ उ॒ सन्त्य॑ शु॒क्रशो॑च इ॒हा व॑ह ।

चि॒कित्वा॑न्दै॒व्यं ज॑न॒म् ॥ ९ ॥

भा०—हे ( सन्त्य ) आदरसत्कार, सत्संगादि से सेवने योग्य ! हे ( शुक्र-शोचे ) शुद्ध कान्तियुक्त ! वीर्य की उज्ज्वल कान्ति से युक्त ब्रह्मचारिन् ! तू ( चिकित्वान् ) विद्वान् होकर (सम्-इधानः) अग्निवत् देदीप्यमान होकर (दैव्यं जनं) उत्तम विद्वान् जनों को ( इह आ वह ) यहाँ प्राप्त करा।

विप्रं होतारमद्रुहं धूमकेतुं विभावसुम् ।

यज्ञानां केतुमीमहे ॥ १० ॥ ३७ ॥

भा०—हम ( विप्रम् ) विद्वान् ( होतारम् ) ज्ञानप्रद, उत्तम उप-  
देष्टा, ( अद्रुहं ) द्रोहरहित, अहिंसापरायण, निर्द्वेष, ( धूम-केतुम् )  
अज्ञान मोहादि के नाशक, सत् ज्ञान से युक्त, ( विभा-वसुम् ) विशेष  
कान्ति से युक्त, कान्ति से अन्यों को आच्छादित वा प्रभावित करने वाले,  
( यज्ञानां केतुम् ) यज्ञों के जानने वाले विद्वान् वा प्रभु से हम ( ईमहे )  
याचना करें । इति सप्तत्रिंशो वर्गः ॥

अग्ने नि पाहि नस्त्वं प्रति ष्म देव रीपतः ।

भिन्धि द्वेषः सहस्कृत ॥ ११ ॥

भा०—हे ( देव ) तेजस्विन् ! विजिगीषो ! कान्तियुक्त ! हे (अग्ने)  
अग्रणी ! ( त्वं ) तू ( नः ) हमें ( रीपतः ) हिंसक पुरुष से (नि पाहि)  
रक्षा कर, बचा और उसका (प्रति) मुकाबला कर । हे (सहस्कृत) बल से  
सम्पन्न ! तू ( नः ) हमारे ( द्वेषः ) शत्रुओं को (भिन्धि) छिन्न भिन्न कर,  
उनमें भेद नीति का प्रयोग कर ।

अग्निः प्रत्नेन मन्मना शुम्भानस्तन्वं स्वाम् ।

कविर्विप्रेण वावृधे ॥ १२ ॥

भा०—( अग्निः ) अग्रणी वा ज्ञानी ( कविः ) क्रान्तदर्शी पुरुष  
( प्रत्नेन मन्मना ) अनादि ज्ञान वेद से (स्वां तन्वं शुम्भानः) अपने देह,  
मुख आदि को सुशोभित करता हुआ ( विप्रेण ) विद्वान् पुरुष के संग से  
( वावृधे ) बढ़ता है ।

ऊर्जां नपात्तमा हुवेऽग्निं पावकशोचिषम् ।

अस्मिन्यज्ञे स्वध्वरे ॥ १३ ॥

भा०—( अस्मिन् सु-अध्वरे यज्ञे ) इस अविनाशी, प्रबल यज्ञ में,  
( पावक-शोचिषम् ) पवित्रकारक दीप्ति वाले ( ऊर्जाः नपात्तम् ) बल के

उत्पादक, बल पराक्रम को न गिरने देने वाले, ( अग्नि ) अग्रणी नायक पुरुष को ( आहुवे ) आदरपूर्वक बुलाऊं और प्रमुख रूप से स्वीकार करूं ।

स नो मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्रेण शोचिषा ।

देवैरा सत्सि वहिषि ॥ १४ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! ( त्वम् ) तू ( मित्रमहः ) मित्रों का आदर करने वाला और मित्रों से स्वयं पूजित होकर ( शुक्रेण शोचिषा ) उज्ज्वल कान्ति से युक्त होकर ( नः ) हमारे ( वहिषि ) वृद्धिशील राष्ट्र और उत्तमासन पर ( देवैः ) विद्वान् विजय के इच्छुक पुरुषों सहित ( आ सत्सि ) आदरपूर्वक प्रतिष्ठित हो ।

यो अग्निं तन्वो३ दमे देवं मर्तः सपर्यति ।

तस्मा इदीदयद्वसु ॥ १५ ॥ ३८ ॥

भा०—( यः मर्तः ) जो मनुष्य ( दमे ) गृह में अथवा ( तन्वः दमे ) शरीर के अंगों को दमन करने के लिये ( अग्निं देवं ) अग्निवत् तेजस्वी, ज्ञानप्रकाशक, ( देवं ) ज्ञानी, दाता, विद्वान् और प्रभु की ( सपर्यति ) सेवा-शुश्रूषा करता है ( तस्मै इत् ) उसी के लिये वह ( वसु दीदयत् ) ज्ञानमय धन का प्रदान करता है । इत्यष्टात्रिंशो वर्गः ॥

अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् ।

अपां रेतंसि जिन्वति ॥ १६ ॥

भा०—( अयम् ) यह ( पृथिव्याः पतिः ) पृथिवी का स्वामी ( दिवः ककुत् ) ज्ञान में श्रेष्ठ, आकाश में सूर्यवत् उन्नत, ( मूर्धा ) शिर के समान सर्वोपरि विराजमान, ( अग्निः ) अग्रणी विद्वान् ( अपां ) आप्त पुरुषों के बीच रहकर ( रेतंसि जिन्वति ) वीथों का पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे । (२) वीर पुरुष प्रजाओं के बीच धनों और बलों की वृद्धि करे । (३) सूर्य अपने तेज से अन्तरिक्ष के बलों को पूर्ण करता, और आकाशस्थ वायु को वर्षणार्थ तैयार करता है ।

उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते ।

तव ज्योतीष्यर्चयः ॥ १७ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) विद्वन् ! ( तव शुचयः ) तेरे शुद्ध चरित्र, ( शुक्राः ) जलों या तेजों के समान ( उत् ईरते ) शुद्ध रूप से प्रकट होते हैं और ( तव ज्योतीषि ) तेरे तेज, ( तव अर्चयः ) तेरे आदरसत्कार भी अग्नि के प्रकाश में और ज्वालाओं के समान ( उत् ईरते ) उत्तम रीति से प्रकट होते हैं ।

ईशिपे वार्यस्य हि दात्रस्याग्ने स्वर्पतिः ।

स्तोता स्यां तव शर्मणि ॥ १८ ॥

भा०—( हि ) क्योंकि हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! तू ( स्वः पतिः ) समस्त सुखों का पालक, स्वामी है और तू ही ( वार्यस्य दात्रस्य ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ दातव्य धन का भी ( ईशिपे ) स्वामी है, अतः मैं ( शर्मणि ) सुखमय शरण में रहकर ( तव स्तोता स्याम् ) तेरी स्तुति करने वाला होऊँ ।

त्वामग्ने मनीषिणस्त्वां हिन्वन्ति चित्तिभिः ।

त्वां वर्धन्तु नो गिरः ॥ १९ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! ( मनीषिणः ) मन को सन्मार्ग में चलाने वाले, ज्ञान के अभिलाषी ( त्वां ) तुझे चाहते हैं । ( त्वां चित्तिभिः हिन्वन्ति ) तुझे कर्मों से प्रसन्न करते हैं । ( नः गिरः ) हमारी वाणियों भी ( त्वां वर्धन्तु ) तुझे ही बढ़ावें, तेरा ही गुणगान करें ।

अदब्धस्य स्वधावतो दूतस्य रेभतः सदा ।

अग्नेः सुख्यं वृणीमहे ॥ २० ॥ ३९ ॥

भा०—( अदब्धस्य ) विनाशरहित, ( स्वधावतः ) स्वयं जगत् को धारण करने वाली शक्ति से युक्त ( दूतस्य ) दुष्टों को संताप देने वाले,

( रेभतः ) ज्ञान का उपदेश देने वाले, ( अग्नेः ) तुझे तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष के ( सख्यं ) मैत्रीभाव की हम (सदा वृणीमहे) सदा याचना करें। इत्येकोनचत्वारिंशो वर्गः ॥

अग्निः शुचि॑व॒त॒त॒मः॑ शुचि॑र्वि॒प्रः॑ शुचिः॑ क॒विः॑ ।

शुची॑ रोच॒तु आ॑हु॒तः॑ ॥ २१ ॥

भा०—( शुचि॑व॒त॒त॒मः॑ ) अत्यन्त शुद्ध पवित्र कर्मों वाला पुरुष, ( वि॒प्रः शुचिः ) शुद्ध चरित्रवान्, विद्वान् ( शुचिः क॒विः ) शुद्ध चरित्रवान्, क्रान्तदर्शी, तत्त्व ज्ञानी पुरुष ( शुचिः ) शुद्ध, तेजस्वी ( आहु॒तः ) आहुति किये अग्नि के समान ही सत् दान प्राप्त कर (राचते) प्रकाशित होते, और सबके मन को अच्छा लगता है ।

उ॒त॒ त्वा॑ धी॒त॒यो म॒म गि॒रो॑ वर्ध॒न्तु॑ वि॒श्व॒हा॑ ।

अ॒ग्ने॑ स॒ख्य॒स्य॑ वो॒धि नः॑ ॥ २२ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) अग्रणी, नायक ! हे विद्वन् ! ( म॒म ) मेरे ( धी॒त॒यः ) उत्तम कर्म, और ( म॒म गि॒रः ) मेरी वाणियां ( त्वा॑विश्व॒हा वर्ध॒न्तु ) तुझे सदा बढ़ावें और तू ( नः स॒ख्य॒स्य वो॒धि ) हमारे मित्रभाव को सदा जान ।

य॒द॒ग्ने॑ स्या॒म॒हं त्वं॑ त्वं वा॑ घ्रा॒ स्या॑ अ॒ह॒म् ।

स्यु॒ष्टे॑ स॒त्या इ॒हाशि॑षः ॥ २३ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) ज्ञानवन् ! हे प्रभो ! ( यद् ) यदि ( अ॒हं त्वं स्या॒म् ) मैं तू हो जाऊं ( त्वं वा घ्रा॒ अ॒ह॒म् स्याः ) और तू मैं बन जावे, तब ( इ॒हा ) इस लोक में ( ते आशि॑षः सत्याः स्युः ) तेरी कामनाएं, वा तेरे विषय में मेरी भावनाएं सत्य हों ।

वसु॑र्वसु॒पति॑र्हि॒ क॒म॒स्य॑ग्ने॒ वि॒भा॒व॒सुः॑ । स्या॒म॑ ते सु॒म॒ता॒वपि॑ २४

भा०—हे ( अग्ने ) ज्ञानवन् ! तू ( विभा॒व॒सुः ) दीप्तियुक्त, दीप्ति से जगत् भर को आच्छादित करने हारा, ( वसुः ) सर्वव्यापक और

( वसु-पतिः ) समस्त वसु, जीवों का पालक, ( असि ) है । हम भी ( ते सुमती स्याम ) तेरी शुभ मति और उत्तम ज्ञान में रहें ।

अग्ने॑ धृत॑व्र॒ताय॑ ते समु॒द्रायै॑व॒ सिन्ध॑वः ।

गि॒रो वा॒श्रास॑ ई॒रते ॥ २५ ॥ ४० ॥

भा०—( धृत-व्रताय समुद्राय सिन्धवः इव ) जल को धारण करने वाले समुद्र को प्राप्त होने के लिये जिस प्रकार नदी वेग से (ईरते) चलती हैं उसी प्रकार हे ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप (धृत-व्रताय) व्रतों कर्मों के धारक (ते) तेरे लिये ही (वाश्रासः गिरः) शब्दमय वाणियां (ईरते) निकलती हैं । तेरी स्तुतियां अनायास हृदय में उठती हैं । इति चत्वारिंशो वर्गः ॥

यु॒वानं॑ वि॒शपति॑ कृ॒विं विश्वा॑द॒ पुरु॑वे॒पस॑म् ।

अग्निं॑ शु॒म्भामि॑ मन्म॒भिः ॥ २६ ॥

भा०—मैं ( युवानं ) बलवान्, ( विशपतिं ) प्रजाओं के पालक, ( कविं ) विद्वान् मेधावी, ( विश्व-अदं ) समस्त जगत् को अपने भीतर लेने वाले, ( पुरु-वेपसम् ) नाना कर्म करने वाले, ( अग्निं ) तेजःस्वरूप, ज्ञान प्रकाशक प्रभु को ( मन्मभिः ) मन्त्रों से अलंकृत करता हूँ ।

य॒ज्ञानां॑ र॒थ्ये व॒यं ति॒ग्मज॑म्भाय वी॒ळवे॑ । स्तो॒मैरि॑षे॒माश्र॑ये ॥२७॥

भा०—( यज्ञानां ) यज्ञों के बीच ( रथ्ये ) रथी के समान नायक, ( तिग्म-जम्भाय ) तीक्ष्ण वशकारी साधनों से सम्पन्न, ( वीळवे ) बलवान्, ( अश्रये ) अश्विबत् तेजस्वी प्रभु को हम ( स्तोमैः इषेम ) स्तुति योग्य वचनों से सदा चाहें ।

अ॒यम॑श्रे॒ त्वे अ॒पि ज॑रि॒ता भू॑तु॒ सन्त्य॑ । तस्मै॑ पा॒वक॑ मृ॒ळय॑ ॥२८॥

भा०—हे ( सन्त्य ) उपास्य ! ( अग्ने ) स्वप्रकाश ! ( अयम् जरिता ) यह स्तुतिकर्ता ( ते अपि-भूतु ) तेरे में अप्यय या मद्गता को प्राप्त हो, हे ( पावक ) पवित्र करने हारे परम पावन ! ( तस्मै मृड ) तू उसको सुखी कर ।

धीरो ह्यस्यद्भ्यसद्विप्रो न जागृविः सदा । अग्नें दीदयसि घवि २९

भा०—हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! तू ( विप्रः न ) चिद्वान् पुरुष के समान ( धीरः हि असि ) कर्मों, ज्ञानों, और बुद्धियों का प्रेरक, ( अद्भ्य-सत् ) समस्त भोग्य ऐश्वर्यमय ब्रह्माण्ड में, गृह में दीपकवत् विराजमान ( सदा जागृविः ) सदा जागरणशील है । तू ( घवि ) आकाश में सूर्य-वत् ( दीदयसि ) प्रकाश करता है ।

पुराग्नें दुरितेभ्यः पुरा मृध्रेभ्यः कवे ।

प्र ण आयुर्वसो तिर ॥ ३० ॥ ४१ ॥

भा०—हे ( कवे ) क्रान्तदर्शिन् ! हे ( वयो ) सबमें बसने वाले ! सबको बसाने हारे ! ( दुरितेभ्यः ) दुष्टाचारों और ( मृध्रेभ्यः ) हिंसकों के भी ( पुरा ) पूर्व ही ( नः आयुः प्र तिर ) हमारे जीवनो को बढ़ा । इत्येकचत्वारिंशो वर्गः ॥

[ ४५ ]

त्रिशोकः काण्व ऋषिः ॥ १ इन्द्राग्नी । २—४२ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—  
१, ३—६, ८, ९, १२, १३, १५—२१, २३—२५, ३१, ३६, ३७,  
३९—४२ गायत्री । २, १०, ११, १४, २२, २८—३०, ३३—३५  
निचृद् गायत्री । २६, २७, ३२, ३८ विराड् गायत्री । ७ पादनिचृद् गायत्री ॥

आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुपक् ।

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ १ ॥

भा०—( ये घ ) जो मनुष्य ( अग्निम् ) अग्नि को ( आ इन्धते ) अपने सन्मुख प्रज्वलित कर लेते हैं और ( येषाम् ) जिनका ( युवा इन्द्रः ) बलवान् ऐश्वर्यवान् प्रभु ( सखा ) मित्र है, वे ( आनुपक् ) निरन्तर ( बर्हिः )

यज्ञवत् इस लोकस्थ प्रजा को ( स्तृणन्ति ) पृथिवी पर विस्तृत करते हैं ।  
अर्थात् जो अपने सन्मुख विद्वान्, न्यायाधीश और ऐश्वर्यवान्, बलवान्  
राजा को अपने सन्मुख रखते हैं उनकी प्रजाएं यज्ञवत् अविच्छिन्न रहती हैं ।

वृहन्निदिधम एपां भूरि शस्तं पृथुः स्वरुः ।

येपामिन्द्रो युवा सखा ॥ २ ॥

भा०—( येपाम् इन्द्रः युवा सखा ) ऐश्वर्यवान्, बलवान् प्रभु,  
राजा, वा विद्युत् सूर्य आदि जिनका मित्र के तुल्य सहायक है ( एपां  
इधमः वृहन् इत् ) उनका तेज भी महान् होता है । ( एपां शस्तं भूरि )  
उनका उत्तम ज्ञान भी बहुत अधिक होता है । ( एपां स्वरुः पृथुः ) उनका  
शब्द वा शत्रु को सन्ताप देने का बल भी बड़ा भारी होता है ।

अयुद्ध इद्युधा वृतं शूर अजति सत्वभिः ।

येपामिन्द्रो युवा सखा ॥ ३ ॥

भा०—( येपाम् इन्द्रः युवा सखा ) जिनका मित्र, बलवान्, शत्रुहन्ता  
है वह ( शूरः ) शूरवीर होकर ( सत्वभिः ) अपने बलों से ही ( युधा-  
वृतं ) योधा जन से घिरे, बड़े सैन्यवान् शत्रु को भी ( आ अजति ) उखाड़-  
डालता है और ( अयुद्ध ) उससे खूब युद्ध करता है ।

आ बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छद्भि मातरम् ।

क उग्राः के ह शृणिवरे ॥ ४ ॥

भा०—( जातः ) अभिषिक्त हुआ, प्रसिद्ध ( वृत्र-हा ) दुष्ट पुरुषों  
का मेवों को विद्युत्-वत् ताड़ित करने वाला वीर पुरुष जब ( बुन्दं ) वाण,  
दुष्ट के भेदन करनेवाले, भयप्रद आयुध या सैन्य आदि को ( आ ददे ) अपने  
हाथ में ले तो वह ( मातरं ) अपनी माता के समान भूमि, राष्ट्र-प्रजा  
वा विदुषी राजसभा से ( पृच्छद् ) पूछे, कि ( के उग्राः ) कौन दुष्ट उग्र  
होकर प्रजा को सताते हैं और ( के ह ) कौन ( शृणिवरे ) दुष्ट-सन्तापकारी सुने  
जाते हैं । वह उनका पता लगा २ कर उनको दण्डित करे । बुन्दः—इषु-



भंवति बुन्दो वा, भिन्दो वा, भयदो वा, भासमानो द्रवतीति वा ॥ नि०  
६।६।४ ॥

प्रति त्वा शवसी वदद् गिरावप्सो न योधिपत् ।

यस्ते शत्रुत्वमाचके ॥ ५ ॥ ४२ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! ( त्वा प्रति ) तेरे प्रति ( शवसी ) बलवती  
सेना ( अवदत् ) कहे कि ( यः ) जो ( ते शत्रुत्वम् आचके ) तेरी शत्रुता  
चाहता है उससे तू ( गिरौ ) मेघ में विद्यमान ( अप्सः न ) रूपयुक्त तेजस्वी  
विद्युत् के समान ( योधिपत् ) प्रहार कर । इति द्वाचत्वारिंशो वर्गः ॥

उत त्वं मघवञ्छृणु यस्ते वष्टि ववक्षि तत् ।

यद्वीळयासि वीळु तत् ॥ ६ ॥

भा०—हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! ( उत त्वं शृणु ) और तू श्रवण  
कर, ( यः ते वष्टि ) जो तुझ से किसी पदार्थ की कामना करे उसे तू ( तत्  
ववक्षि ) वह पदार्थ प्रदान कर । तू ( यद् वीळयासि ) जिसको बलवान्  
करे ( तत् वीळु ) वह सैन्य भी बलवान्, दृढ़ हो जावे ।

यदाजि यात्याजिकृदिन्द्रः स्वश्वयुरुप । रथीतमो रथीनाम् ॥७॥

भा०—( इन्द्रः ) शत्रु-नाशकारी सेनापति ( यत् ) जब या जो  
( आजि याति ) युद्ध के लिये प्रयाण करता है वह ( इन्द्रः ) शत्रुहन्ता  
पुरुष ( आजिकृत् ) युद्ध करने में कुशल, ( सु- अश्वयुः ) उत्तम अश्व  
सैन्यों का स्वामी और ( रथीनाम् रथीतमः ) रथवान् योद्धाओं के बीच  
सर्वश्रेष्ठ रथी, महारथी हो ।

विषु विश्वा अभियुजो वज्रिन्विष्वग्यथा वृह ।

भवा नः सुश्रवस्तमः ॥ ८ ॥

भा०—हे ( वज्रिन् ) बलवीर्य से सम्पन्न, शस्त्रबल के स्वामिन् !  
तू ( विश्वा अभि-युजः ) समस्त आक्रमणकुशल सेनाओं को ( विश्वक्  
यथा ) जिस प्रकार हो उसी प्रकार सब ओर ( वि सु वृह ) विविध प्रकार

से और अच्छी प्रकार उद्यमन कर, उनको सुसज्जित खड़ा रख । और तू ( नः ) हमारे बीच ( सुश्रवस्तमः भव ) उत्तम यशस्वी, ज्ञानी और धनैश्वर्यादिवान् हो ।

अस्माकं सु रथं पुर इन्द्रः कृणोतु सातये ।

न यं धूर्वन्ति धूर्तयः ॥ ९ ॥

भा०—( यं धूर्तयः ) जिसको हिंसक जन ( न धूर्वन्ति ) नाश न कर सकें वह ( इन्द्रः ) शत्रुहन्ता सेनापति होकर ( अस्माकं सातये ) हमारे अभीष्ट लाभ के लिये ( रथं पुरः सु कृणोतु ) हमारे रथ सैन्य को आगे अच्छी प्रकार करे ।

वृज्याम ते परि द्विषोऽरं ते शक्र दावने ।

गमेमेदिन्द्र गोमतः ॥ १० ॥ ४३ ॥

भा०—हे ( शक्र ) शक्तिशालिन् ! हम ( ते द्विषः ) तेरे शत्रुओं को ( अरं ) खूब ( परि वृज्याम ) दूर करें । ( गोमतः ते ) भूमि, वाणी [ हुकूमत ] और गवादि पशु सम्पन्न जितेन्द्रिय ( ते दावने ) तेरे दिये अन्न, भूमि, ज्ञान, शासन, वेतनादि प्राप्त करने के लिये ( ते गमेम इत् ) तुझे अवश्य प्राप्त करें ।

शनैश्चिद्यन्तो अद्रिवोऽश्वान्तः शतग्विनः ।

विवक्षणा अनेहसः ॥ ११ ॥

भा०—हे ( अद्रिवः ) बलवन्, शक्तिशालिन् ! हम ( शनैः चित् यन्तः ) शनैः २ जाते हुए, ( अश्वान्तः ) अश्वों वाले, ( शतग्विनः ) सौ २ भूमियों वा सौ २ गायों के स्वामी, वा शतवर्षजीवी, ( अनेहसः ) निष्पाप और ( विवक्षणाः ) राष्ट्र में विशेष अधिकार पद को धारण करने वाले हों । युद्धादि में विशेष पराक्रमी लोग अवश्य बल, अधिकार और ऐश्वर्यादि चाहते हैं ।

ऊर्ध्वा हि ते दिवेदिवे सहस्रा सुनृता शता ।

जरितृभ्यो वि मंहते ॥ १२ ॥

भा०—( विमंहते ) विविध ऐश्वर्य देने वाले ( ते ) तेरे लिये ( जरि-  
तुभ्यः ) स्तुतिकर्ता विद्वानों की ( शता सहस्रा ) सैकड़ों, हज़ारों ( सूनुता  
ऊर्ध्वा ) वाणियां ऊपर उठती हैं । उसी प्रकार विद्वानों के लिये तुझ दान-  
शील के सैकड़ों हज़ारों उत्तम २ ( सूनुता ) धनैश्वर्य हों ।

विद्महि त्वां धनञ्जयमिन्द्रं दृहला चिदारुजम् ।

आदारिणं यथा गयम् ॥ १३ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) शत्रुहन्तः ! ऐश्वर्यवान् ! द्रष्टः ! हम ( त्वा )  
तुझ को ही ( धनञ्जयम् ) सब ऐश्वर्यों को जीतने वाला ( दृढा चित्  
आरुजम् ) शत्रु के दृढ़ से दृढ़ दुर्गों तक को तोड़ने वाला ( विद्महि )  
जानते हैं और ( यथा गयं आदारिणम् ) जिस प्रकार गृह उत्तम दारा अर्थात्  
धर्मपत्नी से युक्त होकर सुखप्रद होता है उसी प्रकार हम ( त्वा ) तुझ को भी  
( आदारिणम् विद्महि ) उत्तम गृहपतिवत् वा शत्रु जनों को आक्रमण कर  
छेदन भेदन करने में कुशल जानते हैं ।

ककुहं चित्त्वा कवे मन्दन्तु धृष्णविन्दवः ।

आ त्वां परिणं यदीमहे ॥ १४ ॥

भा०—हे ( कवे ) क्रान्तदर्शिन् ! विद्वन् ! हे ( धृष्णो ) शत्रुओं  
को पराजित करने हारे ! ( ककुहं ) विनीत, श्रेष्ठ ( त्वां ) तुझको  
( इन्दवः ) नाना ऐश्वर्य ( मन्दन्तु ) सदा प्रसन्न, तृप्त, भरा पूरा किये  
रखते हैं । ( यत् ) जिससे हम ( परिणं त्वां ) उत्तम व्यापारी तुझ से ( आ  
ईमहे ) धनादि की याचना करते हैं । तू व्यापारी होकर ऐश्वर्य से भरपूर  
होकर खूब प्रसन्नता से दान दे ।

यस्ते रेवाँ अदाशुरिः प्रममर्षं मघत्तये ।

तस्य नो वेद आ भर ॥ १५ ॥ ४४ ॥

भा०—( यः ) जो ( रेवान् ) धनवान् होकर भी ( अदाशुरिः ) दान,  
यज्ञादि नहीं करता और ( ते मघत्तये ) तेरे दिये पूज्य धन को लेने के लिये

( प्र ममर्ष ) बलात्कार करता है, ( तस्य वेदः ) उसका धन ( नः आभर ) हमें लादे । इति चतुश्चत्वारिंशो वर्गः ॥

इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः ।

पुष्टावन्तो यथा पशुम् ॥ १६ ॥

भा०—( पुष्ट-वन्तः ) उत्तम हृष्ट पुष्ट पशु के स्वामी ( यथा पशुम् ) जिस प्रकार अपने पशु को विशेष स्नेह से देखते हैं उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( सोमिनः सखायः ) ऐश्वर्यवान् मित्रगण ( इमे ) ये ( त्वा उ विचक्षते ) तुझे विशेष आदर और स्नेह से देखते हैं । और विविध प्रकार की स्तुति करते हैं ।

उत त्वाऽवधिरं वयं श्रुत्कर्णं संतमुतये । दूराद्दिह हवामहे ॥१७॥

भा०—( उत ) और ( वयं ) हम लोग ( अवधिरम् ) श्रोत्रेन्द्रिय की शक्ति से सम्पन्न ( श्रुत्-कर्णं ) श्रवण करने में समर्थ, बहुश्रुत एवं जैसे साधनों सहायकों वाले ( संतं ) सज्जन तुझ को हम ( दूराद् ) दूर रहते भी ( उतये ) रक्षार्थ वहां से ( इह ) यहां ( हवामहे ) बुलाते हैं ।

यच्छुश्रूया इमं हवं दुर्मर्षं चक्रिया उत । भवेरापिनो अन्तमः १८

भा०—( यत् ) जब ( उत ) भी ( इमं ) इस ( हवं शुश्रूया ) आह्वान, ललकार को श्रवण करले तो तू ( दुर्मर्षं ) दुःसह्य ( चक्रियाः ) पराक्रम कर और ( नः ) हमारा ( अन्तमः आपिः भवेः ) निकटतम बन्धु हो ।

यच्चिद्धि ते अपि व्यथिर्जगन्वांसो अमन्महि ।

गोदा इदिन्द्र वोधि नः ॥ १९ ॥

भा०—( यत् चित् हि ) जब भी ( व्यथिः ) दुःखित होकर हम ( ते जगन्वांसः ) तेरे शरण जाकर ( अमन्महि ) तेरा मनन करें, हे

( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! तब भी तू ( नः ) हमें ( गो-दाः ) उत्तम वाणी देने हारा होकर हमें ( बोधि ) ज्ञान प्रदान कर ।

आ त्वा रम्भं न जिब्रयो ररम्भा शिवसस्पते ।

उष्मसि त्वा सधस्थ आ ॥ २० ॥ ४५ ॥

भा०—हे ( शिवसः पते ) बल और ज्ञान के पालक ! ( जिब्रयः रम्भं न ) बूढ़े जिस प्रकार दण्ड का आश्रय लेते हैं उसी प्रकार हम ( त्वा आ ररम्भ ) तेरा आश्रय लेवें । ( सधस्थे ) सब स्थानों में हम ( त्वा आ उष्मसि ) तेरी ही सदा कामना करते हैं । इति पञ्चचत्वारिंशो वर्गः ॥

स्तोत्रमिन्द्राय गायत पुरुनृम्णाय सर्वने ।

नक्रियं वृषवते युधि ॥ २१ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! ( यं ) जिसको ( युधि ) युद्ध में ( नक्रिः वृषवते ) कोई रोक नहीं सकता, उस ( सर्वने ) बलशाली, ( पुरुनृम्णाय ) बहुत धनों के स्वामी, ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान् पुरुष के लिये ( स्तोत्रं गायत ) स्तुति-वचन, प्रशंसा का गान करो ।

श्रुभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये ।

तृम्पा व्यश्नुही मदम् ॥ २२ ॥

भा०—हे ( वृषभ ) बलवान् ! ( सुतं त्वा ) अभिषिक्त ( सुते ) ऐश्वर्ययुक्त इस पद पर ( पीतये ) रक्षा करने के लिये ( श्रुभि सृजामि ) तुझे नियुक्त करता हूँ । तू ( मदम् वि अश्नुहि ) सुख आनन्द विविध प्रकार से प्राप्त कर और ( तृम्प ) तृप्तिकारक आनन्द का भोग कर ।

मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान् आ दभन् ।

माकीं ब्रह्मद्विषो वनः ॥ २३ ॥

भा०—( अविष्यवः ) हिंसाशील ( मूराः ) घातक लोग ( त्वा मा आदभन् ) तुझे नाश न करें और ( मा उपहस्वानः ) उपहास करने

वाले जन भी तुझे हानि न पहुंचावें । ( ब्रह्म-द्विपः ) वेद के, ब्राह्मण वर्ग के और तेरे धन के द्वेषी जनों का तू ( मार्की वनः ) संग मत कर ।

इह त्वा गोपरीणसा महे मन्दन्तु राधसे ।

सरो गौरो यथा पिव ॥ २४ ॥

भा०—हे राजन्! (इह) इस राष्ट्र में या हे विद्वन्! इस उत्तम पद पर (गो-परीणसा) भूमि या वाणी के महान् बल से ( महे राधसे ) बड़े भारी ऐश्वर्य के लिये ( त्वा मन्दन्तु ) तुझे हर्षित करें । ( यथा गौरः सरः ) तालाब के जल को मृग जिस प्रकार यथेच्छ पीता है उसी प्रकार तू भी ( गौरः ) पृथ्वी पर या ज्ञान-वाणी में रमण करता हुआ ( सरः ) प्रशस्त ज्ञानरूप जल का ( पिव ) पान कर ।

या वृत्रहा परावति सना नवा च चुच्युवे ।

ता संसत्सु प्र वोचत ॥ २५ ॥ ४६ ॥

भा०—(वृत्रहा) दुष्टों का नाशक सेनापति विघ्नादि का नाश करके सफल विद्वान् ( परावति ) दूर देश में भी (या) जिन ( सना ) सनातन से चले आये धनों और ज्ञानों को ( नवा च ) और नये ऐश्वर्यों और नये तत्वों को ( चुच्युवे ) प्राप्त करे ( ता ) उनको ( संसत्सु ) सभाओं, परिपदों में ( प्र वोचत ) अच्छी प्रकार उत्तम भावर से कहो, जिससे उनका यश हो, श्रोताओं को ज्ञान प्राप्त हो । राजा और विद्वान् के श्रम, संकटों, और विघ्नों को पार करके प्राप्त नये पुराने अन्वेषणों की सभा आदि में चर्चा करते रहना चाहिये । इससे उत्साह की वृद्धि होती है । इति षट्चत्वारिंशो वर्गः ॥

अपिवत्कद्रुवः सुतमिन्द्रः सहस्रवाहे । अत्रादेदिष्टु पौंस्यम् ॥ २६ ॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, दुष्टों का हन्ता वा सत्य ज्ञान का द्रष्टा पुरुष ( कद्रुवः ) उपदेष्टा विद्वान् के ( सुतम् ) प्रकट किये ज्ञान को भूमि से उत्पन्न ऐश्वर्य, अन्नादि के समान ( सहस्र-वाहे ) सहस्रों वा बल-

शाली बाहुबल की वृद्धि के लिये ( अपिबन् ) पान करे । ( अन्न ) इस प्रकार उसका इस लोक में ( पौंस्यं अदेदिष्ट ) पौरुष चमकता है ।

कद्रूः—इयं पृथिवी ( श० ३ । ६ । २ । २ ॥ ) । कवते उपदिशति असौ कद्रूः, उपदेष्टा ब्रह्मविद्या वा । उणादिपाठे जञ्वादिषु निपातितः ।

सत्यं तत्तुर्वशे यदौ विदानो अह्नवाय्यम् । व्यानट् तुर्वणे शमि २७

भा०—विद्वान् वा राजा पुरुष ( तुर्वशे ) चारों अर्थों को चाहने वाले यत्नवान् जन में ( सत्यं ) यथार्थ ज्ञान और ( अह्नवाय्यं ) दिन भर में करने योग्य कार्य की मात्रा को ठीक २ प्रकार से ( विदानः ) जानता हुआ ( तुर्वणे ) शीघ्र कार्य करने में कुशल पुरुष पुरुष पर ( शमि ) कार्य का ( वि-आनट् ) विभाग करे ।

तरणिं वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः । समानमु प्रशंसिषम् २८

भा०—मैं ( जनानां वः ) आप लोगों के बीच ( तरणिं ) संकटों से पार उतारने वाले ( त्रदं ) शत्रु के नाशक और ( गोमतः वाजस्य ) भूमि से युक्त ऐश्वर्य के दाता की भी ( समानम् उ प्रशंसिषम् ) समान रूप से, आदरपूर्वक प्रशंसा करता हूं ।

ऋभुक्षणं न वर्तव उक्थेषु तुग्यावृधम् ।

इन्द्रं सोमे सचा सुते ॥ २९ ॥

भा०—( सोमे ) सोम, अर्थात् पुत्रवत् शासन करने योग्य पुत्र के ( सुते ) अभिषेक कर देने पर ( ऋभुक्षणं ) महान् ( न ) और ( तुग्यावृधम् ) शत्रु की हिंसा करने वाली, बल बढ़ाने वाली, राष्ट्र का पालन करने वाली, राजा प्रजा को आश्रय देने वाली, शक्ति को बढ़ाने वाले, ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् प्रभु वा राजा को ( वर्तवै ) वरण करने के लिये ( उक्थेषु ) उत्तम २ वचनों में उसकी ( सचा ) एक साथ मिलकर प्रशंसा करें, उसका गुणानुवाद करें ।

यः कृन्तदिद्वि योन्यं त्रिशोकाय गिरिं पृथुम् ।

गोभ्यो गातुं निरेतवे ॥ ३० ॥ ४७ ॥

भा०—जिस प्रकार सूर्य ( योन्यं ) जल से पूर्ण ( पृथुम् गिरिम् ) भारी मेघ को ( विकृन्तत् ) विविध प्रकार से छिन्न भिन्न करता और ( गोभ्यः निरेतवे गातुं ) किरणों के निकलने के लिये मार्ग बना लेता है, उसी प्रकार ( यः ) जो पराक्रमी पुरुष ( त्रि-शोकाय ) तीनों प्रकार के तेजों को प्राप्त करने के लिये, ( योन्यं ) जल से पूर्ण ( पृथुम् गिरिम् ) भारी पर्वत को, ( विकृन्तत् ) विविध स्थानों से काटता और ( गोभ्यः निरेतवे ) वेगयुक्त जलधाराओं के निकलने के लिये मार्ग, भूमि तैयार करता है वही राजा श्रेष्ठ है उसी की प्रशंसा करें । इसी प्रकार परमेश्वर भी ( त्रि-शोकाय ) जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों स्थानों में प्रकट होने वाले जीव के लिये ( योन्यं ) योनि अर्थात् गृहवत् देहमयं ( पृथुम् गिरिम् ) भारी पर्वतवत् पिण्ड को ( विकृन्तत् ) विविध प्रकार से छेदन करता और ( गोभ्यः ) इन्द्रियों के ( निरेतवे ) बाहर निकलने के लिये चक्षु नाक आदि के ( गातुं ) द्वार बनाता है वही आत्मा प्रभु गुण-गान करने योग्य है । अध्यात्म का इस पक्ष का स्पष्टीकरण देखो ऐतरेय उपनिषत् में इन्द्रिय-भेद प्रकरण । इति सप्तचत्वारिंशो वर्गः ॥

यद्दधिषे मनस्यसि मन्दानः प्रेदियत्सि ।

मा तत्करिन्द्र मृळय ॥ ३१ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ( यत् ) जिस जगत् वा देह को आत्मवत् तू ( दधिषे ) धारण करता है, ( यत् मनस्यसि ) जिसको तू मनन द्वारा संकल्प करता है और ( मन्दानः ) हर्षित होकर ( यत् प्र इयक्षसि इत् ) प्राप्त या व्याप्त होता है, ( मा तत् कः ) क्या तू उसको नहीं बनाता, अथवा हे प्रभो स्वामिन् ! तू ( तत् मा कः ) उसे तू नाश मत कर । ( मृळय ) उस-जगत् को तू सुखी कर ।



दभ्रं चिद्धि त्वावतः कृतं शृण्वे अधि क्षमिं ।

जिगात्विन्द्र ते मनः ॥ ३२ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( त्वावतः ) तेरे जैसे स्वामी का ( दभ्रं चित् ) थोड़ा भी ( कृतं ) किया कार्य ( अधि क्षमि ) भूमि पर ( शृण्वे ) प्रसिद्ध सुना जाता है ( ते मनः ) तेरा मन ( जिगातु ) आगे बढ़े ।

तवेदु ताः सुकीर्तयोऽसन्नुत प्रशस्तयः ।

यदिन्द्र मृळयासि नः ॥ ३३ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( यत् ) जो तू ( नः मृळयासि ) हमें सुखी करता है ( ताः सुकीर्तयः ) वे नाना उत्तम कीर्तियां और ( उत्त प्रशस्तयः ) उत्तम प्रशंसाएं भी ( तव इत् ) तेरी ही हैं ।

मा न् एकस्मिन्नागसि मा द्वयोरुत त्रिपु ।

वधीर्मा शूर भूरिपु ॥ ३४ ॥

भा०—हे ( शूर ) शूरवीर ! ( एकस्मिन् आगसि ) एक अपराध पर ( नः मा वधीः ) हम प्रजाओं को पीड़ित मत कर, ( मा द्वयोः ) दो अपराधों पर भी हम सबको पीड़ित मत कर, ( उत् त्रिपु ) और तीन अपराधों पर हम सब को पीड़ित मत कर ( भूरिपु ) बहुत अधिक अपराध होने पर भी हम सबको दण्डित मत कर, प्रत्युत जिसका अपराध हो उसी को न्यायानुसार दण्डित कर ।

विभया हि त्वावत उग्रादभिप्रभङ्गिणः ।

दस्माद्दहमृतीषहः ॥ ३५ ॥ ४८ ॥

भा०—( ऋति-सहः ) शत्रुकृत हिंसा वा हिंसक सेनाओं को पराजित करने में समर्थ, ( अभि-प्र-भङ्गिणः ) आगे आये शत्रु को अच्छी प्रकार विनाश कर देने वाले, ( दस्मात् ) शत्रुनाशक, ( उग्रात् त्वावतः ) तुझ जैसे बलवान् प्रचण्ड स्वामी से, ( विभया हि ) मैं सदा भय करूँ ।

सब पीड़ाओं को मिटा देने से “ऋतीसह” और विश्व भर के सब संकटों को प्रलय करने में समर्थ होने से ‘अभि-प्रभङ्गी’ है। इत्यष्टाचत्वारिंशो वर्गः॥

मा सख्युः शूनमा विदे मा पुत्रस्य प्रभुवसो ।

आवृत्वद्भूतु ते मनः ॥ ३६ ॥

भा०—हे ( प्रभु-वसो ) प्रभूत धन के स्वामिन् ! प्रचुर प्रजा के स्वामिन् ! मैं ( सख्युः शूनम् मा आ विदे ) मित्र के सुखकारक धन को न अपहरण करूं। ( पुत्रस्य मा ) मैं पुत्र के धन को भी अपहरण न करूं। ( ते मनः ) तेरा मन ( आवृत्वत् भूतु ) हमारी ओर आने वाला, प्रेम अनुराग से युक्त हो।

को नु मर्या अमिथितः सखा सखायमब्रवीत् ।

जहा को अस्मदीषते ॥ ३७ ॥

भा०—हे ( मर्याः ) मनुष्यो ! ( कः सखा ) कौन मित्र स्नेही ( अमिथितः ) विना अनादर युक्त वचन कहा जाकर ही ( सखायम् अब्रवीत् ) अपने मित्र को कह सकता है। ( कः जहा ) कौन किसको मारता है ( क अस्मत् ईषते ) कौन हम से विना ताड़ित हुए भयभीत होकर भागता है ? जब कोई किसी का नहीं मारता तो कोई किसी से भय खा कर भी नहीं भागता और न कोई किसी पर उपालम्भ देता है।

एवारो वृषभा सुतेऽसिन्वन्भूर्यावयः । श्वघ्नीव निवता चरन् ३८

भा०—( श्वघ्नी इव ) अपना द्रव्य नाश करने वाला, वा अपने आश्रित जन को मारने वाला, जिस प्रकार ( निवता चरन् ) लज्जा से नीचा मुख करके चलता है, हे ( वृषभ ) पुरुष ( एवारे ) आदरों से प्राप्त होने योग्य तेरे ( सुते ) ऐश्वर्य प्राप्त होजाने पर, ( आवयः ) नाना रक्षक जन ( भूरि असिन्वन् ) बहुत बांध लेते हैं और ( निवता चरन् ) नम्र शिर होकर आचरण करते हैं।

आ त एता वचोयुजा हरीं गृभ्णे सुमद्रथा ।

यदीं ब्रह्मभ्य इददः ॥ ३९ ॥

भा०—( यत् ) जो तू ( ब्रह्मभ्यः ) विद्वान् वेदज्ञ पुरुषों के हितार्थ ( इ ददः ) यह सब देता है इसलिये ( ते ) तेरे ( एता ) इन ( वचो-युजा ) वाणीमात्र से लगाने वाले ( सुमद्-रथा ) उत्तम बल युक्त रथों वाले, ( हरी ) अश्वों के समान उत्तम देहवान् स्त्री पुरुषों को ( आगृभ्णे ) तेरे अधीन करता हूँ ।

भिन्धि विश्वा अप द्विपः परिवाधो जही मृधः ।

वसुं स्प्राहं तदा भर ॥ ४० ॥

भा०—( विश्वाः द्विपः अप भिन्धि ) सब शत्रुओं को छिन्न भिन्न करके दूर कर । ( परि वाधः ) पीड़ित कर और ( मृधः जहि ) हिंसकों का नाश कर । ( तत् स्प्राहं वसु आ भर ) वह नाना उत्तम चाहने योग्य ऐश्वर्य हमें प्राप्त करा ।

यद्वीलाविन्दु यत्स्थिरे यत्पर्शान्ते पराभृतम् ।

वसुं स्प्राहं तदा भर ॥ ४१ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( यत् वसु ) जो ऐश्वर्य वा ज्ञान ( वीदौ ) बलवान् पुरुष में, ( यत् स्थिरे ) जो स्थिर शासक में, ( यत् पर्शान्ते ) जो विचारशील पुरुष में ( स्प्राहं ) अभिलाषा करने योग्य ( पराभृतम् ) विद्यमान है, तू हमें ( तत् आ भर ) वह प्राप्त करा ।

यस्य ते विश्वमानुषो भूरदत्तस्य वेदति ।

वसुं स्प्राहं तदा भर ॥ ४२ ॥ ४९ ॥ ३ ॥

भा—हे स्वामिन् ! ( ते दत्तस्य ) तेरे दिये ( यस्य भूरेः ) जिस बहुत से ऐश्वर्य को ( विश्व-मानुषः ) समस्त मनुष्य जानते और प्राप्त करते हैं तू वह ( स्प्राहं वसु आ भर ) चाहने योग्य उत्तम ऐश्वर्य हमें प्राप्त करा । इत्येकोनचत्वारिंशो वर्गः ॥

इति तृतीयोऽध्यायः ॥

चतुर्थोऽध्यायः

[ ४६ ]

वशोऽश्व्य ऋषिः ॥ देवताः—१—२०, २६—३१, ३३ इन्द्रः । २१—२४ पृथुश्रवसः कानीनस्य दानस्तुतिः । २५—२८, ३२ वायुः ॥ छन्दः—१ पाद-  
निचृद् गायत्री । २, १०, १५, २६ विराड् गायत्री । ३, २३ गायत्री ।  
४ प्रतिष्ठा गायत्री । ६, १३, ३३ निचृद् गायत्री । ३० आर्चो स्वराट्  
गायत्री । ३१ स्वराड् गायत्री । ५ निचृदुष्णिक् । १६ भुरिगुष्णिक् । ७, २०,  
२७, २८ निचृद् बृहती । ६, २६ स्वराड् बृहती । ११, १४ विराड् बृहती ।  
२१, २५, ३२ बृहती । ८ विराडनुष्टुप् । १८ अनुष्टुप् । १६ भुरिगनुष्टुप् ।  
१२, २२, २४ निचृत् पंक्तिः । १७ जगती ॥ त्रयोदशर्चं सूक्तम् ॥

त्वावतः पुरुवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । स्मसि स्यातर्हरीणाम् ॥१॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( पुरुवसो ) बहुत से धनों और प्रजाओं के स्वामिन् ! हे ( हरीणां प्रणेतः ) मनुष्यों के उत्तम नायक ! उत्तम मार्ग से ले जाने वाले ! हे ( स्यातः ) अधिष्ठातः ! ( वयं ) हम ( त्वावतः स्मसि ) तेरे जैसे स्वामी की प्रजा होकर रहें ।

त्वां हि सत्यमद्रिवो विद्म दातारमिषाम् ।

विद्म दातारं रयीणाम् ॥ २ ॥

भा०—हे ( अद्रिवः ) शक्तिशालिन् ! मेघवन् उदार पुरुषों के स्वामिन् ! हम ( त्वां हि ) तुझ को ही ( सत्यम् ) सच्चा ( इषां दातारम् ) अन्नों और सकल इच्छाओं, कामनाओं का देने वाला, ( विद्म ) जानें और ( त्वां रयीणां दातारं विद्म ) तुझको ही समस्त ऐश्वर्यों का देने वाला जानें ।

आ यस्य ते महिमानं शतमूते शतक्रतो ।

ग्रीभिर्गृणन्ति कारवः ॥ ३ ॥

भा०—( यस्य ते ) जिस तेरे ( महिमानं ) महान् सामर्थ्य को

( कारवः ) विद्वान् जन ( गीभिः ) वाणियों से ( गृणन्ति ) बतलाते हैं  
 हैं ( शतम्-उक्ते ) सैकड़ों रक्षाओं से सम्पन्न ! हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों प्रजाओं  
 और कर्म समाथ्यों से युक्त उस तुझको ही हम सच्चा अन्नदाता, अभीष्ट-  
 प्रद और ऐश्वर्यदाता जानें ।

सुनीथो घा स मर्त्यो यं मरुतो यमर्यमा । मित्रः पान्त्यद्रुहः ॥४॥

भा०—( यं ) जिस मनुष्य को ( मरुतः ) विद्वान् लोग ( यम्  
 अर्यमा ) जिसको न्यायकारी पुरुष और ( मित्रः ) स्नेहवान् जन ( अद्रुहः )  
 द्रोह रहित होकर ( पान्ति ) रक्षा करते हैं ( सः मर्त्यः ) वह मनुष्य  
 ( घ ) अवश्य ( सुनीथः ) शुभ मार्ग में जाता है, उत्तम वाणी प्राप्त  
 करता और उत्तम चक्षुष्मान् है । वही उत्तम यज्ञ करता है ।

दधानो गोमदश्ववत्सुवीर्यमादित्यजूत एधते ।

सदा राया पुरुस्पृहा ॥ ५ ॥ १ ॥

भा०—और वह पुरुष ( गोमत् ) गौ आदि पशुओं से समृद्ध ( अश्व-  
 वत् ) अश्वादि साधनों से युक्त, ( सु-वीर्यम् ) उत्तम बल को ( दधानः )  
 धारण करता हुआ ( आदित्य-जूतः ) सूर्यवत् तेजस्वी विद्वान्, अखण्ड शक्ति  
 के धारक और उपासक पुरुषों से प्रेरित ( पुरु-स्पृहा राया ) बहुतों से चाहने  
 योग्य धनैश्वर्य से ( एधते ) वृद्धि को प्राप्त होता है । इति प्रथमो वर्गः ॥

तमिन्द्रं दानमीमहे शवसानमभीर्वम् । ईशानं राय ईमहे ॥ ६ ॥

भा०—हम ( तम् ) उस ( रायः ईशानम् ) धन के स्वामी, ( शव-  
 सानम् ) बलशाली ( अभीर्वम् ) अभीरु, निर्भीक, किसी से भय न करने  
 वाले ( इन्द्रं ) शत्रुनाशी, ऐश्वर्य वाले, सत्यदर्शी स्वामी पुरुष को प्राप्त कर  
 उससे ( दानम् ईमहे ) दातव्य धन और ज्ञान की याचना करें ।

तस्मिन्हि सन्त्युतयो विश्वा अभीरवः सचा ।

तमा वंहन्तु सप्तयः पुरुवसुं मदाय हरयः सुतम् ॥ ७ ॥

भा०—( तस्मिन् हि ) उसके अधीन, ( विश्वाः ऊतयः ) समस्त ऐसी रक्षक शक्तियां ( सचा ) सदा समवाय से रहतीं और ( अभीरवः ) भयरहित, अन्य से भय न करने वाली ( सन्ति ) हैं। ( तम् ) उस ( पुरुचसुम् ) बहुत सी वसी प्रजा के अनेक धनों के स्वामी ( सुतम् ) अभिपिक्त पुरुष को ( सप्तयः हरयः ) उसके शरणागत मनुष्य ( मदाय ) आनन्द प्राप्त करने के लिये ( आवहन्तु ) सारथि को अश्ववत् अपने ऊपर धारण करें, उसे प्रमुख बनावें। अथवा—वे उसे बहुत ऐश्वर्य प्राप्त करावें।

यस्ते मदो वरेण्यो य इन्द्र वृत्रहन्तमः ।

य आददिः स्व नृभिर्यः पृतनासु दुष्टरः ॥ ८ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( यः ) जो ( ते ) तेरा ( मदः ) हर्ष वा प्रसन्न होने का साधन शासन है ( यः वृत्रहन्तमः ) जो दुष्टों का अत्यन्त नाशकारी है, ( यः ) जो ( नृभिः ) उत्तम नायक पुरुषों द्वारा ( स्वः ) सुख और तेज को ( आ ददिः ) प्राप्त करने वाला, और ( यः ) जो ( पृतनासु ) संग्रामों में भी ( दुस्तरः ) शत्रुओं से पराजित न होने वाला है वह ( वरेण्यः ) सर्वश्रेष्ठ है।

यो दुष्टरो विश्ववार श्रवाय्यो वाजेष्वस्ति तरुता ।

स नः शविष्ट सवना वसो गहि गमेम गोमति व्रजे ॥ ९ ॥

भा०—हे ( विश्ववार ) सबसे वरण करने योग्य ! हे सब दुःखों को वारण करने वाले ! ( यः ) जो ( दुस्तरः ) कभी पराजित न होने वाला, ( वाजेषु ) संग्रामों वा ज्ञानों में ( श्रवाय्यः ) श्रवण करने योग्य, सुप्रसिद्ध, ( तरुता अस्ति ) सब शत्रुओं का हिंसक और समस्त प्रजा को पार उतारने वाला है, ( सः ) वह तू हे ( शविष्ट ) बलशालिन् ! हे ( वसो ) सब में वसे, सबको बसाने वाले ! ( नः गहि ) हमारे ( सवना ) ऐश्वर्यों को प्राप्त हो। और हम ( गोमति व्रजे ) उत्तम बैलों वाले रथ के समान इस

इन्द्रियों से सम्पन्न देह में बैठकर ( सवना ) समस्त ऐश्वर्यों, जन्मों और नाना लोकों को ( गमेम ) प्राप्त करें, संसार मार्ग पर गमन करें ।

गव्यो षु णो यथा पुराश्वयोत रथया ।

वरिवस्य महामह ॥ १० ॥ २ ॥

भा०—हे ( महामह ) महा धनाधिपते प्रभो ( यथा पुरा ) पूर्व कल्पवत् तू ( नः ) हमें ( गव्यो ) गौओं ( अश्वया रथया ) अश्वों और रथों से ( वरिवस्य ) युक्त कर । इति द्वितीयो वर्गः ॥

नहि ते शूर राधसोऽन्तं विन्दामि सत्रा ।

दशस्या नो मघवन्नू चिदद्रिवो धियो वाजेभिराविथ ॥ ११ ॥

भा०—हे ( शूर ) शूरवीर ! दुष्टों के नाश करने हारे प्रभो ! ( सत्रा ) सचमुच मैं ( ते राधसः अन्तं नहि विन्दामि ) तेरे धनैश्वर्य के अन्त को नहीं पाता हूँ । हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवान् ! हे ( अद्रिवः ) बलशालिन् ! ( नः ) हमें ( दशस्य ) प्रदान कर ( नू चित् ) और शीघ्र ही, ( वाजेभिः ) बलों, ज्ञानों और ऐश्वर्यों से ( नः आविथ ) हमारी रक्षा कर ।

य ऋष्वः श्रवयत्सखा विश्वेत्स वेदं जनिमा पुरुषुतः ।

तं विश्वे मानुषा युगेन्द्रं हवन्ते तविषं यतस्रुचः ॥ १२ ॥

भा०—( यः ) जो ( ऋष्वः ) महान् ( सखा ) मित्रवत् स्नेही होकर ( विश्वा इत् ) समस्त ज्ञानों को ( श्रवयत् ) गुरुवत् उपदेश करता है, ( सः ) वह ( इत् ) वही ( पुरुस्तुतः ) बहुतों से स्तुति किया हुआ ( विश्वा जनिमा ) सब उत्पन्न पदार्थों को ( वेद ) जानता है, ( तं इन्द्रं ) उस ऐश्वर्यवान् को ( विश्वे ) समस्त मनुष्य ( यत-स्रुचः ) स्रुच्, जुहू आदि को हाथ में लिये ऋत्विजों के समान ( यत-स्रुचः ) इन्द्रियों को वश कर ( मानुषा युगा ) समस्त मनुष्योपयोगी युगों-वर्षों तक ( तं ) उस ( इन्द्रं ) प्रभु परमेश्वर की ( हवन्ते ) उपासना करते हैं ।

स नो वाजेष्वविता पुरुवसुः पुरः स्थाता ।

मघवा वृत्रहा भुवत् ॥ १३ ॥

भा०—( सः ) वह ( वाजेषु ) संग्रामों, बलों में ( पुरु-वसुः ) बहुत धनों और प्रजाओं का स्वामी ( पुरः स्थाता ) अग्र पद पर स्थिर रहने वाला, ( मघवा ) धनैश्वर्य का स्वामी ( वृत्रहा ) दुष्टों और विघ्नों का नाशकारी ( भुवत् ) होता है ।

अभिं वीं वीरमन्धसो मदेपु गाय गिरा महा विचेतसम् ।

इन्द्रं नाम श्रुत्यं शाकिनं वचो यथा ॥ १४ ॥

भा०—हे मनुष्यो! ( वः मदेपु ) आप लोग अपने हर्ष और ( अन्धसः ) अन्नादि पदार्थों के द्वारा प्राप्त आनन्द के अवसरों में ( वीरम् ) वीर, ( विचेतसम् ) विविध चित्तों और ज्ञानों के स्वामी, ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् ( श्रुत्यं ) श्रुति-प्रसिद्ध, वेदगम्य, ( शाकिनं ) शक्तिशाली प्रभु की ( यथा वचः ) वाणी, के अनुसार ही, ( महागिरा गाय ) श्रेष्ठ वाणी से स्तुति गान करो ।

दृदी रेक्णस्तन्वे दृदिर्वसु दृदिर्वाजेपु पुरुहूत वाजिनम् ।

नूनमथ ॥ १५ ॥ ३ ॥

भा०—हे ( पुरु-हूत ) बहुतों से पुकारने योग्य बहु-स्तुत ! तू ( तन्वे ) हमारे शरीर के लिये ( रेक्णः ददिः ) धन देने वाला हो । ( वाजेषु वसु ददिः ) संग्रामों और ऐश्वर्यों के लिये नाना ऐश्वर्य देने वाला हो, ( नूनम् अथ ) और शीघ्र ही ( वाजिनम् ददिः ) अन्नादियुक्त ऐश्वर्य प्रदान कर । इति तृतीयो वर्गः ॥

विश्वेपामिरज्यन्तं वसूनां सास्र्हांसं चिदस्य वर्षसः ।

कृपयतो नूनमत्यथ ॥ १६ ॥

भा०—( अथ ) और ( विश्वेपां वसूनां ) समस्त प्रजाजनों के ( इर-ज्यन्तम् ) स्वामी और ( अस्य ) इस ( कृपयतः ) सामर्थ्यवान् ( वर्षसः ) रूपवान्, देहधारी वा तेज को ( सास्र्हांसं ) अपने अधीन रखने वाले तेरी स्तुति करते हैं ।



महः सु वो अरमिपे स्तवामहे मीह्लुपे अरङ्गमाय जग्मये ।  
यज्ञेभिर्गीभिर्विश्वमनुपां मरुताभियक्षसि गाये त्वा नमसा गिरा १७

भा०—हे विद्वान् लोगो ! हम लोग ( वः ) आप लोगों के प्रति ( अरंगमाय ) प्राप्त होने योग्य ( जग्मये ) ज्ञानवान्, सर्वत्र गत, ( मीह्लुपे ) सुखों के वर्षक उस प्रभु की ( यज्ञेभिः गीभिः ) यज्ञों और वेद-वाणियों से ( स्तवामहे ) स्तुति करें, उसका उपदेश करें । वह हमें और हम उस ( महः ) पूज्य को ही ( अरम् ) बहुत अधिक ( सु इपे ) उत्तम रीति से चाहें । हे प्रभो ! तू ( विश्व-मनुपां मरुतां ) सब मननशील मनुष्यों को ( इयक्षसि ) सब कुछ देता है । ( त्वा ) तेरी ही मैं ( नमसा गिरा ) विनययुक्त वाणी से ( गाये ) स्तुति करता हूँ ।

ये पातयन्ते अज्मभिर्गिरीणां स्नुभिरेपाम् ।

यज्ञं महिष्वनीनां सुम्नं तुविष्वनीनां प्राध्वरे ॥ १८ ॥

भा०—( ये ) जो ( स्नुभिः ) वहने वाले ( अज्मभिः ) जलों से ( पातयन्ते ) आकाश-मार्ग में गमन करते हैं ( एपाम् ) उन ( महि-स्वनीनां, तुवि-स्वनीनाम् ) बड़े भारी घोर शब्दकारी, बहुत से शब्द करने वाले मेवों के ( यज्ञं सुम्नं ) दिये जल और सुख को ( अध्वरे ) अविनाशित यज्ञ के आश्रय पर प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार ( ये ) जो शूरवीर वा महास्रगण अपने ( स्नुभिः अज्मभिः ) बहते या वर्षा धारावत् निकलते बलयुक्त अर्धों से ( पातयन्ते ) वेग से जाते, वे शत्रु बलों को मार गिराते हैं, ( एपां गिरीणां ) इन मेघवत् या पर्वतवत् महान्, ( महि-स्वनीनाम् ) घोर गर्जनाकारी और ( तुवि-स्वनीनां ) बहुत से ध्वनि करने वाले वीरों और महास्रों के ( यज्ञं ) संग लाभ और सुख को हम ( अध्वरे ) यज्ञ और युद्ध में ( प्र ) खूब प्राप्त करें ।

प्रभङ्गं दुर्मतीनामिन्द्रं शविष्ठा भर । रयिसस्मभ्यं  
युज्यं चोदयन्मते ज्येष्ठं चोदयन्मते ॥ १९ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( शविष्ठ ) बलशालिन् ! तू ( अस्मभ्यम् ) हमें ( प्र-भङ्गं ) नाना प्रकार के कष्टों को नाश करने वाला, ( रयिम् आ भर ) ऐश्वर्य प्राप्त करा । हे ( चोदयन्-मते ) सन्मार्ग में प्रवृत्त कराने वाली बुद्धि और वाणी वाले ! तू ( प्रभङ्गं-युज्यं आ भर ) शत्रुओं के बल तोड़ने वाले सहयोगी को प्राप्त करा वा, ( युज्यं रयिम् आ भर ) सहयोगी जनों के हितकारी ऐश्वर्य को प्राप्त करा । हे ( चोदयन्-मते ) प्रेरक-वाणी के स्वामिन् ! तू ( ज्येष्ठं रयिम् आ भर ) सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य और ( प्रभङ्गं ज्येष्ठं ) सर्व-कष्टनाशक सर्वश्रेष्ठ पुरुष को हमें प्राप्त करा ।

सनितः सुसनितरुग्र चित्र चेतिष्ठ सूनृत ।

प्रासहा सम्राट् सहुरिं सहन्तं भुज्युं वाजेषु पूर्व्यम् ॥२०॥४॥

भा०—हे ( सनितः ) दातः ! हे ( सु-सनितः ) उत्तम विभक्त करने हारे ! हे ( उग्र ) बलवन् ! हे ( चित्र ) अद्भुत ! हे ( चेतिष्ठ ) सर्वश्रेष्ठ ज्ञानिन् ! हे ( सूनृत ) उत्तम धनवान्, ज्ञानवान् ! हे ( सम्राट् ) सर्वोपरि विराजमान ! ( सहुरिं ) सबको पराजित करने वाले ( सहन्तं ) सहन-शील ( वाजेषु ) संग्रामों में ( पूर्व्यं ) सबसे पूर्व विद्यमान, सर्वश्रेष्ठ, ( भुज्युं ) भोक्ता वा पालक तुम को ( प्र-सहा ) उत्कृष्ट बल से युक्त जान-तेरी शरण लेते हैं । इति चतुर्थो वर्गः ॥

आ स एतु य ईवदाँ अदेवः पुर्तमाददे ।

यथा चिद्वशो अश्व्यः पृथुश्रवसि कानीतेऽस्या व्युष्याददे ॥२१॥

भा०—( यथा चित् ) जिस प्रकार ( अश्व्यः वशः ) अश्वों, सैन्यों वा बलवान् पुरुषों की कामना करने वाला राष्ट्र ( पृथु-श्रवसि ) विस्तृत ज्ञानवान्, यशस्वी ( कानीते ) तेजस्वी पुरुष के अधीन रहकर ( अस्याः वि-उपि ) इस प्रजा की विशेष कामनानुसार ही ( आददे ) राज्य को वश करता है, उसी प्रकार ( यः ) जो ( अदेवः ) असाधारण पुरुष भी ( ईवद् ),

प्राप्त हुए ( पूर्तम् ) पूर्ण राज्य को ( आददे ) ग्रहण करने में समर्थ होता है । ( सः ) वह ( आ एतु ) हमें प्राप्त हो ।

पृष्टिं सहस्राश्वर्यस्यायुतासनमुष्ट्राणां विंशतिं शता ।

दश श्यावीनां शता दश त्र्यरूपीणां दश गवां सहस्रा ॥२२॥

भा०—( पृष्टिं सहस्रा ) साठ हजार और ( अयुता ) दश सहस्र ( अश्वस्य ) उत्तम अश्वों के और ( उष्ट्राणां शता विंशतिं ) ऊँठों के २० सौ, ( श्यावीनां गवां दशशता ) श्याव, काले लाल रंग वाली गौओं या भूमियों के सौ, और ( त्रि-अरूपीणां ) तीनों चमकने वाली शुभ्र रंग की ( गवां दश दश सहस्रा ) दस दस हजार गौएँ ( असनम् ) में दान करूँ और प्राप्त करूँ ।

दश श्यावा ऋधद्रयो वीतवारास आशवः ।

मथा नेमिं नि वावृतुः ॥ २३ ॥

भा०—( दश श्यावाः ) दस श्याव अर्थात् लाल-काले वर्ण के ( ऋधद्रयः ) अति वेग वाले ( वीतवारासः ) चमकते वालों वाले, ( आशवः ) शीघ्रगामी, ( मथाः ) शत्रुओं का मथन करने वाले, वीर ( नेमिं ) रथ चक्रवत् राष्ट्र को ( नि वावृतुः ) नियम से संचालित करें ।

दानासः पृथुश्रवसः कान्तिमहिष्ठः सुरिरभूद्वर्षिष्ठमकृत श्रवः ।

रथं हिरण्यं ददन्महिष्ठः सुरिरभूद्वर्षिष्ठमकृत श्रवः ॥२४॥

भा०—( पृथु-श्रवसः ) अधिक ज्ञान वा यश वाले, ( सुराधसः ) उत्तम ऐश्वर्य से सम्पन्न, उस स्वामी के ( दानासः ) उत्तम दान हैं । वंह ( महिष्ठः ) अति पूज्य दानी, ( हिरण्यं रथं ददत् ) हित, रमणीय, कान्तिमय रथ प्रदान करता है, और वह ( सुरिः ) विद्वान् सर्वोत्पादक ( अभूत् ) हो, ( वर्षिष्ठम् ) प्रभूत, प्रचुर ( श्रवः ) ज्ञान, अन्नादि ( अकृत ) उत्पन्न करता है ।

आ नो वायो महे तने याहि मखाय पाजसे ।

वयं हि ते चकृमा भूरिं दावने सद्यश्चिन्महि दावने ॥ २५ ॥ ५ ॥

भा०—हे ( वायो ) वायुवत् बलशालिन् ! तू ( महे तने ) बड़े भारी धनैश्वर्य और ( मखाय पाजसे ) उत्तम पूज्य, बल प्राप्त करने के लिये ( नः ) हमें ( आयाहि ) प्राप्त हो । ( दावने ते ) दानशील तेरे लिये ( वयं ) हम ( हि ) अवश्य ( भूरि चक्रम ) बहुत कुल करें और ( दावने ) ज्ञान के दाता गुरु के लिये हम ( सद्यः चित् महि चक्रम ) आज के समान सदा ही आदर सत्कार किया करें । इति पञ्चमो वर्गः ॥ यो अश्वेभिर्वहते वस्ते उच्चास्त्रिः सप्त सप्ततीनाम् ।

एभिः सोमेभिः सोमसुद्धिः सोमपा दानाय शुक्रपूतपाः ॥२६॥

भा०—( यः ) जो ( अश्वेभिः वहते ) अश्वारोही गणों के साथ मिलकर राष्ट्र के शासनादि कार्य को अपने कन्धों लेता है, ( त्रिःसप्त सप्ततीनाम् ) ७० के २१ गुणा अर्थात् १४७० ( उच्चाः ) भूमियों, गौओं या किरणोंवत् प्रजाओं को ( वस्ते ) अपने अधीन करता है, हे ( सोमपाः ) ऐश्वर्य के पालक ! हे ( शुक्रपूतपाः ) शुद्ध पवित्र रीति से प्राप्त ऐश्वर्य के पालक सूर्यवत् तेजस्विन् ! वायुवत् शुद्ध जल के ग्रहीतः ! तू ( एभिः ) इन ( सोमसुद्धिः ) सोम अर्थात् अभिषेक योग्य विद्वान् पुरुषों का अभिषेक करने वाले और ( सोमेभिः ) उत्तम विद्वान् शासकों सहित स्वयं भी ( दानाय ) दान देने के लिये प्रवृत्त रहता है, वह बड़ा आनन्द लाभ करता । अत्र द्वात्रिंशत्तममन्त्रगत भदन्ति क्रियापदेन सर्वत्र सम्बन्धः ।

यो म इमं चिदुत्मनामन्दच्चित्रं दावने ।

अरद्वे अद्वे नहुषे सुकृत्वानि सुकृत्तराय सुकृतुः ॥ २७ ॥

भा०—( यः ) जो राजा ( मे ) मुझ प्रजा के हित के लिये, ( त्मना ) स्वयं ही, ( इमं ) इस ( चित्रं ) अद्भुत, नाना धन राशि के ( दावने ) देने के लिये ( अमन्दत् ) प्रसन्न होता है वह ( अरद्वे = अलद्वे ) बालकपन से

मुक्त, युवा, ( अक्षे ) व्यवहारकुशल, ( सुकृत्वनि ) उत्तम कार्यकुशल, ( नहुपे ) सुप्रबद्ध मनुष्य समाज के बीच स्वयं भी ( सुकृत्तराय ) उत्तम कार्य करने वाले के हितार्थ ( सु-ऋतुः ) उत्तम कर्म करने वाला होता है वह सदा ( अमन्दत् ) सुख पाता है ।

उच्यथेवपुपि यः स्वराळुत वायो घृतस्नाः ।

अश्वेपितं रजेपितं शुनेपितं प्राञ्ज्म तदिदं नु तत् ॥ २८ ॥ .

भा०—(यः) जो पुरुष ( उच्यथे ) वचन योग्य, स्तुति पात्र ( वपुपि ) भव्य, बलवान् दर्शनीय शरीर में ( घृत-स्नाः ) जल से वा तेज से सदा स्नान करने वाला, नित्य शुद्ध, तेजस्वी ( उत स्वराड् ) और स्वयं अपने तेज से वा धन से चमकने वाला, शुद्ध पवित्र कान्तिमान् हो ( तत् ) वह ( अश्वेपितं ) अश्वों से प्राप्त होने योग्य, और ( रजेपितं ) गर्दभों या ऊंटों से वा लोक में वसे प्रजाजनों से प्राप्त होने योग्य और ( शुनेपितम् ) सुख से प्राप्त होने योग्य ( इदं नु तत् ) यह सब नाना प्रकार के उत्तम ( अञ्ज्म ) अन्न, बल और ऐश्वर्य ( प्र ) अच्छी प्रकार प्राप्त करता है ।

अथ प्रियमिपिराय पृष्टि सहस्रासनम् ।

अश्वानामिन्न वृष्णाम् ॥ २९ ॥

भा०—मैं ( इपिराय ) इच्छा और प्रेरणा करने वाले विद्वान् वीर पुरुष के हितार्थ ( वृष्णाम् अश्वानाम् ) बलवान् घोड़ों के ( इत् न ) भी समान बलवान् आशुगामी, ( पृष्टि सहस्रा ) ६० हजार ( असनम् ) प्रदान करूं ।

गावो न यूथमुप यन्ति वध्रय उप मा यन्ति वध्रयः ॥ ३० ॥

भा०—(गावः न यूथम्) गौएँ जिस प्रकार अपनी रक्षा के लिये यूथ को प्राप्त होती हैं, अपने यूथ में आकर अपने को सुरक्षित समझती हैं उसी प्रकार ( वध्रयः ) निर्वीर्य, अल्पबल, भीरु जन भी ( यूथम् उपयन्ति ) अपने यूथ, समूह को प्राप्त होते, समूह बनाकर रहते और

अपने गोल में रहकर अपने को सुरक्षित समझते हैं वा (वधयः) निर्वीर्य, अल्पबल जन (मा उपयन्ति) मुझ बलवान् जन को अपना शरण जान प्राप्त होते हैं और रक्षा प्राप्त करते हैं। अथवा—(वधयः) शत्रुओं का वध करने वाली वीर सेनाएं संघ को प्राप्त हों और मुझ सेनापति को प्राप्त हों।

अध यच्चारथे गणे शतमुष्ट्रं अचिक्रदत् ।

अध श्वित्नेषु विंशतिं शता ॥ ३१ ॥

भा०—(यत्) जो (चारथे गणे) विचरण करने वाले सैन्य गण के ऊपर (अध) और (उष्ट्रान् शतम्) शत्रु को संन्ताप देने वाले सौ जनों को (अचिक्रदत्) नियुक्त करता है (अध) और (श्वित्नेषु) श्वेत वर्ण के, शुद्ध चरित्र वाले वा तेजस्वी पुरुषों के अधीन (शता विंशतिं) सौ २ के २० दस्ते नियुक्त कर देता है वह शासक राज्य में सुख भोग करता है।

शतं दासे बल्वूथे विप्रस्तर्हन्त आ ददे ।

ते ते वायविमे जना मन्दन्तीन्द्रगोपा मदन्ति देवगोपाः ॥३२॥

भा०—(तरुक्षः) वृक्ष के नीचे की भूमि के समान सब को आश्रय देने वाला, दुःखों से तारने, पार लगाने वाला (विप्रः) बुद्धिमान् राजा (बल्वूथे) बलशाली, (दासे) भृत्य जन के आधार पर ही (शतम् आददे) सैकड़ों को अपने कन्धे लेता है। (वायो) हे बलवन् ! राजन् ! (ते) तेरे वे नाना प्रकार के (इमे जनाः) वे जन (इन्द्र-गोपाः) ऐश्वर्यवान् शत्रुहन्ता नायक की रक्षा में रहते हुए (मन्दन्ति) प्रसन्न रहते हैं और (देव-गोपाः मदन्ति) विद्वानों की रक्षा में रहकर वे सदा सुखी रहते हैं।

अध स्या योषणा मही प्रतीची वशमश्वयम् ।

अधिरुक्त्वा वि नीयते ॥ ३३ ॥ ६ ॥

भा०—जिस प्रकार (योषणा) स्त्री (मही) बड़ी पूज्य (प्रतीची)

प्रिय के अभिमुखी होकर (अधि-रूक्मा) देह पर नाना सुवर्णादि के कान्तियुक्त आभरणों को धारण करके ( अद्वयम् वशम् ) अश्वारोही कान्तियुक्त वा कामना योग्य वर के प्रति ( विनीयते ) विशेष रूप से लेजाई जाती है ( अध स्या ) ठीक उसी प्रकार वह ( मही ) बड़ी भारी पृथिवी-निवासिनी प्रजा ( प्रतीची ) सन्मुख प्राप्त ( अधि-रूक्मा ) अधिकाधिक सुवर्ण रत्नादि से मण्डित होकर ( अद्वयम् ) अश्व सैन्यादि के नायक वा राष्ट्र-पति, ( वशं ) सर्व वश करने में कुशल पुरुष के अधीन ( वि नीयते ) विशेष रूप से प्राप्त करा दी जाती है, उसको शासन और उपभोग के लिये सौंप दी जाती है । इति षष्ठो वर्गः ॥

### ४७ ]

त्रित आप्य ऋषिः ॥ १-१३ आदित्याः । १४-१८ आदित्या उपाश्व देवताः ॥

छन्दः—१ जगती । ४, ६—८, १२ निचृज्जगती । २, ३, ५, ६, १३, १६, १८ मुरिक् त्रिष्टुप् । १०, ११, १७ स्वराट् त्रिष्टुप् । १४ त्रिष्टुप् ॥

अष्टादशर्चं सूक्तम् ।

महि॑ वो मह॑ताम॒वो वरु॑ण मि॒त्रं दा॑शुषे । यमा॑दित्या अ॒भि द्रु॑हो  
रक्ष॑था नेम॒घं न॑शदनेहसो॑ व ऊ॒तयः॑ । सुऊ॒तयो॑ व ऊ॒तयः॑ ॥ १ ॥

भा०—हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ राजन् ! प्रभो ! हे ( मित्र ) स्नेह-वन् ! हे मृत्यु से बचाने हारे, वायुवत् प्राणवत् प्रिय ! हे ( आदित्याः ) सूर्यकिरण वा १२ मासों के समान अदिति अर्थात् भूमि या अखण्ड शासन के हितकारी जनो ! ( वः महतां दाशुषे महि अवः ) तुम महापुरुषों का दानशील, आत्मसमर्पक के लिये बड़ी भारी रक्षा वा कृपा रहती है । आप लोग ( यं ) जिसको (द्रुहः अभि रक्षथ) द्रोहकारी जन से बचा लेते हो ( ईम् अघं न नशत् ) उसको पाप, हत्यादि प्राप्त नहीं होता । ( वः

ऊतयः अनेहसः ) आप लोगों की रक्षाएं निष्पाप और ( वः ऊतयः सु-ऊतयः ) आप लोगों की रक्षाएं व रक्षा साधन उत्तम रक्षासाधन होते हैं । वि॒दा दे॒वा अ॒घा न॒मादि॒त्यासो अ॒पाकृ॑तिम् । प॒क्षा वयो॑ यथो-परि॒व्य॑स्मे शर्म॑ यच्छ॒ताने॒हसो॑ व ऊ॒तयः॑ सुऊ॒तयो॑ व ऊ॒तयः॑ २

भा०—हे (देवाः आदित्यासः) सूर्य किरणवत् प्रकाश, ज्ञान के देने वाले आदित्य ब्रह्मचारियो ! तेजस्वी एवं पूज्यपुरुषो ! आप लोग (अघानाम् अपाकृतिम्) पापों को दूर करना (विद) जानते हो । (यथा वयः पक्षा उपरि शर्म यच्छन्ति) जिस प्रकार पक्षी बच्चों के ऊपर दोनों पांखों को गृह के समान रक्षार्थ तान लेते हैं उसी प्रकार (अस्मे उपरि) हमारे ऊपर (शर्म वि यच्छत) सुख शरणादि विविध प्रकार से प्रदान करो । (अनेहसः वः ऊतयः, वः ऊतयः सु-ऊतयः) आप लोगों की रक्षा पापरहित और आप लोगों की रक्षा उत्तम रक्षाएं होती हैं ।

व्य॑स्मे अधि॒ शर्म॑ तत्प॒क्षा वयो॑ न यन्त॒न । विश्वानि॑ विश्व-वेदसो॑ वरू॒थ्या मना॑महे॒ऽनेहसो॑ व ऊ॒तयः॑ सुऊ॒तयो॑ व ऊ॒तयः॑ ३

भा०—(वयः पक्षा न) पक्षीगण जिस प्रकार दोनों पक्षों को अपने बच्चों पर शरणवत् प्रदान करते हैं उसी प्रकार आप लोग (अस्मे अधि) हमारे ऊपर (शर्म वि यन्तन) सुख, शरण विविध प्रकार से दें । हे (विश्व-वेदसः) समस्त ज्ञानों और धनों के स्वामी जनो ! हम लोग आप लोगों से (विश्वानि वरूथ्या) समस्त गृहोचित धन धान्यादि सुख और समस्त, (वरूथ्या) दुःख वारण में समर्थ साधनों की (मनामहे) याचना करते हैं । उनको हम ज्ञानपूर्वक प्राप्त करें । (अनेहसो वः० इत्यादि) पूर्ववत् ॥ यस्मा अ॒रास॑तु क्ष्यं जी॒वातुं॑ च प्रचे॒तसः॑ । मनो॑र्वि॒श्वस्य॑ घेदि॒म आ॑दि॒त्या गाय॑ ई॒शते॒ऽनेहसो॑ व ऊ॒तयः॑ सुऊ॒तयो॑ व ऊ॒तयः॑ ॥४॥

भा०—(प्रचेतसः) उत्तम ज्ञान से वा चित्त से सम्पन्न जन (यस्मै) जिसको (क्ष्यं) ऐश्वर्य और (जीवातुं च) जीवन (अरासत)



प्रदान करते हैं ( इमे आदित्याः ) वे सूर्य के तुल्य ज्ञानी जन ( विश्वस्य मनोः घ ) समस्त मनुष्यों के उपयोगी ( रायः ईशते ) धनों के स्वामी हो जाते हैं । ( अनेहसः वः० इत्यादि ) पूर्ववत् ।

परिं शो वृणजन्नघा दुर्गाणि रथ्यो यथा । स्यामेदिन्द्रस्य शर्म-  
र्यादित्यानामुतावस्यनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ५।७

भा०—( यथा रथ्यः दुर्गाणि ) जिस प्रकार रथ में लगे अश्व दुर्गम स्थानों से बचाते हैं उसी प्रकार ( रथ्यः ) उत्तम उपदेश युक्त जन ( नः अघा परि वृणजन् ) हमारे पापों को दूर करें और हमारी पापों से रक्षा करें । हम लोग ( इन्द्रस्य शर्मणि इत् स्याम ) ऐश्वर्यवान् प्रभु के ही शरण में, उसके ही सुख में रहें ( उत ) और हम ( आदित्यानाम् अवसि ) सूर्य रश्मियों के तुल्य तेजस्वी पुरुषों की रक्षा में ( स्याम ) रहें । इति सप्तमो वर्गः ॥

परिह्वृतेदना जनो युष्मादत्तस्य वायति । देवा अदभ्रमाशत्रो  
यमादित्या अहेतनानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥ ६ ॥

भा०—हे ( देवाः ) दानशील, ( आशवः ) शीघ्रगामी, ( आदित्याः ) सूर्य किरणवत् तेजस्वी जनो ! आप लोग ( यम् अदभ्रम् ) जिस अनल्प गुणवान्, अधिक बलशाली, वा अहिंसनीय, जन को ( अहेतन ) शासन करते, संचालित करते हो वह ( जनः ) जन ( परिह्वृता इत् अना ) कुटिलता से रहित ही जीवन से ( युष्मा-दत्तस्य ) आप लोगों के दिये ज्ञान और धन को ( वायति ) परम्परा से प्राप्त कर सकता है । ( अनेहसः० इत्यादि पूर्ववत् )

न तं त्रिगं च न त्यजो न द्रासद्भि तं गुरु । यस्मा उ शर्म  
सप्रथ आदित्यासो अराध्वमनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ७

भा०—हे ( आदित्यासः ) विद्वान्, तेजस्वी पुरुषो ! आप लोग ( स-प्रथः ) सर्व प्रकार से महान्, सामर्थ्यवान् होकर ( यस्मै उ शर्म भरा-

ध्वम् ) जिस किसी को भी सुख, शरण प्रदान करते हो, ( तं ) उस तक ( तिग्मं च न त्यजः ) तीक्ष्ण क्रोध या उसकी ओर फेंका हुआ अस्त्रादि भी ( न द्रासत् ) नहीं पहुंचता और ( तं गुरु च न त्यजः न द्रासत् ) उस पर किसी का भारी क्रोध वा दुर्वचन, वाण आदि भी कुटिल चाल से नहीं पहुंच पाता । ( अनेहसः वः० इत्यादि पूर्ववत् )

युष्मे देवा अपि ष्मसि युध्यन्त इव वर्मसु । युयं महो न एनसो युयमर्भादुरुष्यतानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥ ८ ॥

भा०—हे ( देवाः ) विद्वान् जनो ! ( वर्मसु युध्यन्तः इव ) थोड़ा लोग जिस प्रकार कवचों के भीतर सुरक्षित रहते हैं उसी प्रकार हम लोग भी ( युष्मे अपि ष्मसि ) आप लोगों के बीच सुरक्षित रहें । ( युयम् ) आप लोग ( नः ) हमें ( महः एनसः ) बड़े भारी पाप, अपराध और ( अर्भात् एनसः ) छोटे से भी पाप से ( उरुष्यत ) बचाइये । शेष पूर्ववत् ॥

अदितिर्न उरुष्यत्वदितिः शर्म यच्छतु । माता मित्रस्य रेवतो ऽर्यम्णो वरुणस्य चानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥ ९ ॥

भा०—( अदितिः ) अखण्ड ब्रह्मचारिणी, वा माता, जो ( रेवतः ) ऐश्वर्यसम्पन्न ( मित्रस्य ) न्यायाधीश, ब्राह्मण वर्ग, ( अर्यम्णः ) न्यायकारी, शत्रुनियन्ता, और ( वरुणस्य ) सर्वश्रेष्ठ राजा की भी ( माता ) उत्पन्न करने वाली माता के तुल्य जननी, भूमि, वा प्रकृति है वह ( नः ऋष्यतु ) हमारी रक्षा करे और वह ( अदितिः ) अदीन व्रत की पालक, अखण्ड शक्ति ( नः शर्म यच्छतु ) हमें सुख शान्ति प्रदान करे ।

यद्देवाः शर्म शरणं यद्भद्रं यदनातुरम् । त्रिधातु यद्वरुथ्यं तद्स्मासु विर्यन्तनानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥ १० ॥ ८ ॥

भा०—हे ( देवाः ) विद्वान् एव विजय कामना वाले तेजस्वी पुरुषो ! ( यत् शर्म ) जो गृह, ( शरणं ) शत्रुओं और दुःखों का नाशक, ( यत्

भद्रं ) जो सुख कल्याणकारक, ( यत् अनातुरम् ) जो रोगों-कष्टों से रहित, बाधाओं-पीड़ाओं से शून्य, ( यत् त्रिधातु ) जो वात पित्त कफ के बने देह के समान स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि तीनों प्रकार की धातुओं से दृढ़, ( यत् वरुध्यम् ) जो सुखप्रद, कष्टवारक और गृह होने योग्य है ( तत् अस्मासु वि यन्तन ) वह हमें प्रदान करो । ( अनेहसः० इत्यादि पूर्ववत् ) ।

आदित्या अत्र हि ख्यताधि कूलादिव स्पशः । सुतीर्थमर्वतो  
यथानु नो नेपथा सुगमनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ११

भा०—हे (आदित्याः) सूर्य किरणों के समान सब संसार से ग्रहण करने योग्य समाचार आदि के ले आने वाले और (स्पशः) सब पदार्थों के देखने वाले जनो ! (कूलात् इव) तट पर से जिस प्रकार द्रष्टा निष्पक्ष होकर जल स्थित पदार्थों को सावधानी से देखता है इसी प्रकार निष्पक्ष, अनुद्विग्न और दयाशील विवेकी, ( यथा अर्वतः सुतीर्थम् ) जिस प्रकार अश्वादि को तीर्थ या उतरने की जगह से जल में उतार दिया जाता है उसी प्रकार आप लोग भी ( अर्वतः नः ) शत्रुहिंसक हम को ( सुगम् सुतीर्थं नु ) सुगम और उत्तम तीर्थ अर्थात् परपक्ष के राजभृत्यादि को वश कर सुखमय मार्ग से ( अनु नेपथाः ) लेजाओ । ( अनेहसः० इत्यादि पूर्ववत् ) ।

नेह भद्रं रक्षस्विने नावयै नोपया उत । गवे च भद्रं धेनवे  
वीराय च श्रवस्यतेऽनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१२॥

भा०—( इह ) इस लोक में ( रक्षस्विने भद्रं न ) दुष्ट पुरुषों के स्वामी को सुख ऐश्वर्य आदि न हो, ( न अवयै उत न उपयै ) और वह न दूर जा सके न समीप आ सके । वा विपरीत इसके ( गवे च धेनवे भद्रं ) दुधार बैल और गौ का कल्याण हो और ( श्रवस्यते वीराय च भद्रं )

अन्न, बल, यश के इच्छुक वीर और ज्ञान के इच्छुक विद्वान् को सुख, कल्याण हो ( अनेहसः० इत्यादि ) पूर्ववत् ।

यदाविर्यदपीच्यं देवासो अस्ति दुष्कृतम् । त्रिते तद्विश्वमाप्त्य  
शारे अस्मद्घातनानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१३॥

भा०—हे ( देवासः ) विद्वान् पुरुषो ! ( यद् दुष्कृतं आविः ) जो बुरा काम प्रकट में है और ( यत् दुष्कृतं अपीच्यं अस्ति ) जो बुरा काम छुपा हुआ है, ( त्रिते आस्ये ) तीनों विद्याओं में निष्णात, आस जन के अधीन ( अस्मत् ) हम से ( आरे दघातन ) उस दुष्ट कर्म को दूर करो । ( अनेहसः० इत्यादि पूर्ववत् ) । सायण प्रोक्त 'मा' पद मन्त्र में नहीं है ।

यच्च गोषु दुःष्वप्यं यच्चास्मे दुहितर्दिवः । त्रिताय तद्विभाव-  
र्याप्त्याय परा वहानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१४॥

भा०—हे ( दिवः दुहितः ) उपाकालवत् ज्ञानप्रकाश का दोहन पूरण, एवं प्रदान करने वाली ! ( विभावरि ) विशेष ज्ञान प्रकाश से वरण करने योग्य श्रेष्ठ ज्ञान को देने वाली ( !यत् च गोषु ) जो भी हमारी वाणियों और इन्द्रियों में ( दुःष्वप्यं ) दुःस्वप्नों का बुरा प्रभाव हो । और ( यत् च अस्मे ) जो हममें बुरे स्वप्नों का दुष्परिणाम हो उसको ( आप्त्याय त्रिताय ) आस जनों के हितकारी, तीनों दुःखों से मुक्त जन के हितार्थ ( परा वह ) दूर कर । ( अने० इत्यादि पूर्ववत् )

निष्कं वा वा कृणवते स्रजं वा दुहितर्दिवः । त्रिते दुःष्वप्यं  
सर्वमाप्त्ये परि दन्नस्यनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः १५।९

भा०—हे ( दिवः दुहितः ) प्रकाशवत् ज्ञान और सद् व्यवहार के देने वाली ! उपावत् प्रकाश करने हारी प्रभु-मातः ! ( वा ) और ( निष्कं कृणवते ) स्वर्णादि मुद्रा बनाने या धारने वाले ( वा स्रजं कृणवते ) अथवा माला बनाने वा धारने वाले के लिये हुआ जो ( दुःष्वप्यं ) बुरा स्वप्न वा

विकार है (सर्व) उस सबको (त्रिते आप्ये) तीनों कष्टों वा पृषणाओं से मुक्त विद्वान् के अधीन रहकर हम (परि दग्नासि) दूर करें। सुवर्णादि आभूषण, माला आदि बनाने वाले वा धारने वाले को देखकर चित्त में दुर्विचार भावें तो विद्वान् जन के अधीन रहकर उस विकार का नाश करें, दृढ़व्रती होकर सुवर्णादि देखकर वा अलंकृत त्वक् चन्दन वनिता आदि देखकर स्वप्न में भी प्रलुब्ध न हों। (अनेहसः० इत्यादि पूर्ववत्) इति नवमो वर्गः ॥

तदज्ञाय तदपसे तं भागमुपसेदुपे। त्रिताय च द्विताय चोपो  
दुःस्वप्न्यं वहानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥ १६ ॥

भा०—(तदज्ञाय) नाना प्रकार के भोज्यान्न प्राप्त करने वाले, (तद-अपसे) नाना श्रेष्ठ कर्म करनेवाले, (तं भागम् उपसेदुपे) अपने उस उत्तम २ सेव्य अंश को प्राप्त करने वाले (त्रिताय) मन, वाणी, कर्म तीनों पर वशी और (द्विताय च) भीतर और बाहर वश करने वाले पुरुष के भी (दुःस्व-प्न्यं) बुरे स्वप्न के प्रभाव को हे (उपः) प्रभातवेला के समान अन्धकार के तुल्य पापों को दूर करने वाली मातः ! तू (वह) दूर कर।

यथा कलां यथा शफं यथ ऋणं स नयामसि। एवा दुःस्वप्न्यं  
सर्वमाप्त्ये सं नयामस्यनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः १७

भा०—(यथा) जिस प्रकार हम (कलां सं नयामसि) काल की मात्रा को शनैः २ व्यतीत करते हैं, (यथा शफं) जिस प्रकार चरण को (सं नयामसि) समान रूप से आगे बढ़ाते हैं और (यथा ऋणं) जिस प्रकार अपने पर के ऋण या पराये धन को (संनयामसिः) अच्छी प्रकार ईमान-दारी से चुका देते हैं, (एवा) इसी प्रकार हम लोग भी (आप्ये) आप पुरुष के अधीन रहकर वा आप जनों में विद्यमान रहकर शनैः २ (दुःस्वप्न्यं सं नयामसि) दुःस्वप्नादि बुरे प्रभावों को दूर करें। (अनेहसः० इत्यादि पूर्ववत्)

अजैष्माद्यासनाम् चाभूमानांगसो वयम् । उपो यस्माद्दुःष्व-  
पन्याद्भैष्माप तदुच्छत्वनेहसो व ऊतयः सु ऊतयो व ऊतयः ८।१०

भा०—हम लोग ( अजैष्म ) विजय प्राप्त करें, ( असनाम च ) दान करें, ( वयं अनागसः अभूम ) हम निष्पाप, निरपराध होकर रहें । हे ( उषः ) प्रभात वेला, के समान ज्ञान को देने और पाप को वश करने वाली मातः ! ( यस्मात् दुःस्वप्यात् भैष्म ) हम जिस दुःस्वप्न के दुष्प्रभाव से भय करते हैं ( तद् अप उच्छतु ) वह दूर हो । ( अनेहसः० इत्यादि पूर्ववत् ) इति दशमो वर्गः ॥

[ ४८ ]

प्रगाथः कायव ऋषिः ॥ सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २, १३ पादनिचृत् त्रिष्टुप् ।  
१२, १५ आर्ची स्वराट् त्रिष्टुप् । ३, ७—६ विराट् त्रिष्टुप् । ४, ६, १०,  
११, १४ त्रिष्टुप् । ५ विराट् जगती ॥ पञ्चदशार्धं सूक्तम् ॥

स्वादोरभक्ति वयसः सुमेधा स्वाध्यां वरिवोवित्तरस्य ।

विश्वे यं देवा उत मर्त्यासो मधुं ब्रुवन्तो अभि सञ्चरन्ति ॥१॥

भा०—मैं ( सु-मेधाः ) उत्तम ज्ञान से युक्त, उत्तम बुद्धिमान्, सत्संगी होकर ( स्वादोः ) सुस्वादु ( वयसः ) अन्न का ( अभक्षि ) भोजन करूं । और ( स्वाध्यः ) उत्तम रीति से धारण करने योग्य ( परिवोवित्तरस्य ) अति पूजनीय, उस धन का भी सेवन करूं, ( यं विश्वे देवाः ) जिसको सब उत्तम मनुष्य और ( उत मर्त्यासः ) साधारण मनुष्य ( मधुं ब्रुवन्तः ) मधुर, आनन्दप्रद कहते हुए ( अभि सं चरन्ति ) प्राप्त होते और उपभोग करते हैं । इसी प्रकार मैं ( सु-मेधाः ) उत्तम बुद्धिमान् शिष्य, ( सु-आध्यः ) उत्तम अध्ययनशीलादि, ( वरिवोवित्-तरस्य ) उत्तम धन, आदर पूजादि लाभ करने वाले, ( स्वादोः वयसः ) उत्तम भोजन के भोक्ता, दीर्घायु, उस वृद्ध, प्रभु, पुरुष की सेवा करूं, जिसके प्रति सब विद्वान् जन ( मधुं ब्रुवन्तः ) मधुर

वचन कहते हुए वा 'मधु' आनन्दप्रद, मधुर ज्ञान, प्रवचन करते हुए उसके समीप उसकी शरण आते हैं ।

अन्तश्च प्रागा अदितिर्भवास्यवयाता हरसो दैव्यस्य ।

इन्द्रविन्द्रस्य सख्यं जुपाणः श्रौष्टीव धुरमनु राय ऋध्याः ॥२॥

भा०—हे ( इन्द्रो ) चन्द्रवत् आह्लादकारक सोम ! शिष्यजन ! तू (अन्तः च प्र अगाः) भीतर गुरुगृह में, माता के गर्भ में बालक के समान आ । तू (अदितिः भवासि) अखण्डित व्रत होकर पुत्रवत् रह । तू (दैव्यस्य हरसः) देव, विद्या चाहने वाले शिष्य जनों के उचित, ( हरसः) क्रोध या तीक्ष्णता को ( अव-याता ) विनीत होकर प्राप्त कर । तू ( इन्द्रस्य ) ज्ञानी, तत्त्वदर्शी आचार्य के ( सख्यं जुपाणः ) मैत्री को प्राप्त करता हुआ, (श्रौष्टी इव धुरम्) जूए के नीचे क्षिप्रगामी अश्व या बैल के समान विनीत होकर ( राये अनु ऋध्याः ) दानयोग्य ज्ञान ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये अनुगामी होकर रह, और ज्ञान से सम्पन्न हो । (२) इसी प्रकार विद्वान्, अदीन हो, भीतर आवे, मनुष्यों के क्रोधादि को दूर करे, ऐश्वर्यवानों का मित्र होकर उनका कार्य करके स्वयं भी सम्पन्न हो । ( ३ ) इसी प्रकार (इन्द्रुः) इस देह में द्रुतरूप से विद्यमान वीर्य देह के भीतर रहे, अखण्ड रहे, ( दैव्यस्य हरसः ) इन्द्रियों के वेग को शान्त करे, आत्मा का सख्य लाभ कर ऐश्वर्य सुखादि से सम्पन्न हो ।

अपाम् सोमममृता अभुमागन्म ज्योतिरविदाम देवान् ।

किं नूनमस्मान्कृणवदरात्रिः किमु धूर्तिरमृत मर्त्यस्य ॥ ३ ॥

भा०—हम लोग ( सोमम् अपाम ) ओषधिरस का जिस प्रकार पान करते और ( अमृताः अभूम ) अमृत, सुखी, दीर्घायु होते हैं उसी प्रकार हम लोग ( सोमम् अपाम ) ऐश्वर्य, वीर्य और पुत्र शिष्यादि का पालन करें और 'अमृत' दीर्घायु, अमर होंगे । हम लोग ( ज्योतिः आगन्म ) प्रकाश को प्राप्त हों । ( देवान् अविदाम ) शुभ गुणों, विद्वान्

पुरुषों, और वायु पृथिवी आदि पदार्थों को प्राप्त करें, जानें। हे (अमृत) अमृतस्वरूप ! (अरातिः) शत्रु (नूनम् अस्मान् किं कृणवत्) निश्चय से हमारे प्रति क्या कर सकता है? कुछ नहीं। और (मर्त्यस्य धूर्तिः किमु) मनुष्य का हिंसा स्वभाव भी विद्वान् ब्रह्मचारी का कुछ नहीं कर सकता। शं नो भव हृद् आ पीत इन्दो पितेव सोम सूनवे सुशेवः।

सखैव सख्य उरुशंस धीरः प्र ण आयुर्जीवसे सोम तारीः॥४८॥

भा०—(आपीतः हृदे शम्) जिस प्रकार पान किया हुआ सोम-रस, या ओषधिरस हृदय को शान्तिदायक होता है उसी प्रकार (आपीतः) सब प्रकार से पालित, रक्षित वीर्य, पुत्र और शिष्य भी (नः हृदे शं भव) हमारे हृदय को शान्तिकारक हों। हे (इन्दो) प्रेमरस से आर्द्र! ऐश्वर्य-वन्! हे (सोम) सोम! (सूनवे पिता इव) पुत्र के लिये पिता के समान तू (सु-शेवः) उत्तम सुखदायक हो। हे (उरुशंस) बहुत-उत्तम उपदेश वचन करने वाले विद्वान्! बहुत स्तुतियुक्त प्रभो! बहुतसी विद्याओं के उपदेश योग्य शिष्य! (सख्ये सखा इव) मित्र के लिये मित्र के तुल्य होकर (धीरः) बुद्धिमान् होकर (जीवसे) दीर्घ जीवन के लिये (नः आयुः प्र तारीः) हमारी आयु की वृद्धि कर।

इमे मा पीता यशस उरुष्यवो रथं न गावः समनाह पर्वसु।  
ते मा रक्षन्तु विश्वसश्चरित्रादुत मा आम्राद्यवयन्त्वन्दवः ५।११

भा०—(इमे) ये (पीताः) पान किये ओषधिरसों के तुल्य पालन किये देह में वीर्य, और राष्ट्र में विद्वान्, गृह में पुत्र, शिष्य और वीर जन (यशसः) वीर्य, बल, और कीर्ति से युक्त (उरुष्यवः) रक्षा की कामना करते हुए (गावः रथं न) रथ को अश्वों के समान (पर्वसु) पर्व २, पोरु २, खण्ड २ पर (सम् अनाह) सुसम्बद्ध, सुदृढ़ हों और राष्ट्र के खण्ड को शरीर के पोरु २ के समान सुदृढ़ करें। (ते) वे (मा) मुझे (विश्वसः चरित्रात्) शिथिल आचरण से (रक्षन्तु) बचावें। वे (इन्दवः) दयार्द्र-



जन ( मा ) मुक्षे ( क्षामात् यवयन्तु ) व्याधि से भी ओपधिवत् पृथक् करें । इत्येकादशो वर्गः ॥

अग्निं न मा मथितं सं दिदीपः प्र चक्षय कृणुहि वस्यसो नः ।  
अथा हि ते मद आ सोम मन्ये रेवाँ इव प्र चरा पुष्टिमच्छ ॥६॥

भा०—हे ( सोम ) अन्न ओपधि रसवत् वीर्य एवं विद्वन् ! वीर ! तू ( मथितं अग्निं न ) मथित अग्नि के समान ( मा सं दिदीपः ) मुझे अच्छी प्रकार तेजस्वी कर । ( प्र चक्षय ) उत्तम ज्ञान का दर्शन करा । ( नः वस्यसः कृणुहि ) हमें उत्तम धन सम्पन्न कर । ( अथ ) और ( ते हि मदः मन्ये ) मैं स्वीकार करता हूं कि तेरा ही यह सब सुख, हर्ष है । तू ( रेवान् इव ) धनसम्पन्न के समान ( अच्छ पुष्टिम् प्र चर ) उत्तम पुष्टि प्रदान कर ।

इषिरेण ते मनसा सुतस्य भक्षीमहि पित्र्यस्येव रायः ।

सोम राजन्प्र ण आयूषि तारीरहानीव सूर्यो वासुराणि ॥ ७ ॥

भा०—हे ( सोम ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( राजन् ) तेजस्विन् ! प्रभो ! ( सुतस्य ते ) अभिपिक्त हुए तेरा हम ( पित्र्यस्य इव रायः ) माता पिता के धन के समान ( इषिरेण मनसा ) इच्छायुक्त चित्त से ( भक्षीमहि ) भजन, सेवन करें । ( सूर्यः वासुराणि अहानि इव ) जगत् को आच्छादन करने वाले दिनों को सूर्य के समान ( नः आयूषि प्र तारीः ) हमारी आयुओं की वृद्धि कर ।

सोम राजन्मृळया नः स्वस्ति तव स्मसि ब्रत्यास्तस्य विद्धि ।

अलर्ति दत्त उत मन्युरिन्दो मा नो अर्यो अनुकामं परादाः ॥८॥

भा०—हे ( सोम राजन् ) ऐश्वर्यवन् राजन् ! तेजस्विन् ! देह में वीर्यवत् पोषक ! तू ( नः मृडय ) हमें सुखी कर, ( स्वस्ति ) हमारा कल्याण हो । हम ( तव ब्रत्याः स्मसि ) तेरे व्रत का पालन करने वाले

हों, । ( तस्य विद्धि ) तू उस व्रत को जान । ( दक्षः अलर्ति ) बलवान् पुरुष आगे बढ़ता है ( उत ) और ( मन्युः ) जानी पुरुष भी आगे बढ़ता है, हे ( इन्दो ) ऐश्वर्यवान् ! तू ( अर्यः ) हमारा स्वामी होकर ( नः ) हमें ( अनु-कामं ) यथेच्छ होकर ( मा परा दाः ) मत त्याग कर । अथवा ( अर्यः अनुकामं मा परादाः ) शत्रु की इच्छानुसार हमें मत त्याग ।

त्वं हि नस्तन्वः सोम गोपा गात्रेगात्रे निपसत्था नृचक्षाः ।

यत्ते वयं प्रमिनाम व्रतानि स नो मृळ सुपखा देव वस्यः ॥१॥

भा०—हे ( सोम ) सर्व-शासक ! राजन् ! ( त्वं ) तू ही ( नः तन्वः ) हमारे शरीरों का ( गोपाः ) रक्षक है । ( गात्रे-गात्रे ) अंग २ में वा प्रत्येक शरीरधारी पर तू ( नृ-चक्षाः ) नेता जनों को देखने वाला सर्वसाक्षी के तुल्य ( नि-ससत्थ ) आसन पर विराज । ( वयं ) हम ( यत् ) जब २ ( ते व्रतानि प्र-मिनाम ) तेरे व्रतों को नाश करें तब २ हे ( देव ) तेजस्विन् ! ( सः ) वह तू ( नः ) हमें ( मृळ ) सुधार और सुखी कर और तू ( सु-सखाः ) हमारा उत्तम मित्र होकर हमें ( वस्यः ) उत्तम बना ।

ऋदूदरेण सख्या सचेय यो मा न रिप्येद्धर्यश्व पीतः ।

अयं यः सोमो न्यघायस्मे तस्मा इन्द्रं प्रतिरमेभ्यायुः १०।१२

भा०—( यः ) जो ( पीतः ) ओषधि रसवत् पान-पालन किया जाकर ( मा न रिप्येत् ) मेरा विनाश न करे, हे ( हर्यश्व ) उत्तम-मनुष्यों को अश्ववत् सन्मार्ग में चलाने वाले राजन् ! ऐसे ( ऋदूदरेण ) मृदु पेट वाले, भीतर कोमल, दयार्द्र स्वभाव वाले ( सख्या सचेय ) मैं मित्र से सदा संगत रहूँ । ( यः ) जो ( अयं ) यह ( सोमः ) बलवान्, ऐश्वर्यवान् पुरुष ( अस्मे ) हमारे बीच ( निअघायि ) नियत किया जाता है, ( तस्मै ) उसके हितार्थ ही मैं ( प्रतिरम् आयुः ) सुदीर्घ आयु और ( इन्द्रं ऐमि ) ऐश्वर्य की याचना करूँ ।

अप त्या अस्थुरनिरा अमीवा निरत्रसन्तमिषीचीरभैपुः ।

आ सोमो अस्माँ अरुहद्विहाया अगन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ११

भा०—जिस प्रकार सोम ओषधि के पान करने पर ( अनिराः ) चल-रहित कर देने वाली वा जल अन्न न खाने देने वाली ( त्याः अमीवाः ) वे दुःखजनक रोगपीड़ाएं ( अप अस्थुः ) दूर हो जाती हैं उसी प्रकार राजा के अभिषेक कर देने पर समस्त दुःखदायी विपत्तियां भी ( अप अस्थुः ) दूर हो जाती हैं । ( तमिषीचीः ) अन्धकार ला देने वाली बाधाओं के समान बलवती सेनाएं भी उससे ( निःअत्रसन् अभैपुः ) डरती और भय मानती हैं । वह ( सोमः ) सोम ( विहायाः ) आकाश के समान महान् होकर ( अस्मान् आ अरुहत् ) हम पर अध्यक्ष होकर रहे, ( यत्र ) जिसके आश्रय रह कर लोग ( आयुः प्रतिरन्ते ) अपना जीवन बढ़ा लेते हैं हम उसी को ( अगन्म ) प्राप्त हों ।

यो न इन्दुः पितरो हृत्सु पीतोऽमर्त्यो मर्त्याँ आविवेश ।

तस्मै सोमाय हविषा विधेम मृळीके अस्य सुमतौ स्याम ॥१२॥

भा०—हे ( पितरः ) पालक गुरुजनो ! ( यः इन्दुः ) जो ऐश्वर्यवान् आर्द्र स्वभाव, ओषधि रसवत् ( पीतः ) पान वा पालन किया जाकर ( मर्त्यः ) दुःखों वा दुष्टों का नाशक होकर आत्मा के तुल्य अमृत होकर ( मर्त्याँ आविवेश ) देहों वा मनुष्यों में प्रविष्ट है, ( तस्मै ) उस ( सोमाय ) सर्वप्रेरक ऐश्वर्यवान् की हम ( हविषा ) उत्तम अन्न वचनादि से ( विधेम ) परिचर्या करें । उसके ( मृळीके ) सुख और ( सुमतौ ) शुभ-ज्ञान उत्तम वाणी में हम सदा ( स्याम ) रहें । इति द्वादशो वर्गः ॥

त्वं सोम पितृभिः संविद्वानोऽनु द्यावापृथिवी आ ततन्थ ।

तस्मै त इन्दो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो रथीणाम् ॥१३॥

भा०—हे ( सोम ) ऐश्वर्यवान् ! ( त्वा ) तू ( पितृभिः ) पालक-

शासक जनों से ( संविदानः ) संमति करता हुआ, ( धावापृथिवी ) सूर्य पृथिवीवत् स्त्री पुरुष, गुरु शिष्य और शास्य शासक दोनों वर्गों को ( भनु आ ततन्थ ) अपने वश करता है, हे ( इन्दो ) ऐश्वर्यवान् ! ( वयं तस्मै ते ) हम उस तेरे लिये उत्तम ( हविषा ) अन्न वचनादि से ( विधेम ) सेवा करें ( वयं रयीणां पतयः स्याम ) हम देह, प्राण, धनैश्वर्यादि के स्वामी हों ।

त्रातारो देवा अधि वोचता नो मा नो निद्रा ईशत मोत जल्पिः ।  
वयं सोमस्य विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम ॥१४॥

भा०—हे ( देवाः ) ज्ञानप्रद विद्वान् पुरुषो ! आप लोग ( त्रातारः ) हमारे रक्षक होकर ( नः अधि वोचत ) हमें सदा उपदेश करो कि जिससे ( नः ) हम पर ( निद्रा ) निन्दित कुत्सित गति, वा निद्रा, आलस्यादि ( मा ईशत ) अधिकार न करे ( उत ) और ( जल्पिः मा ईशत ) बकवास करने की बुरी आदत वा बकवासी पुरुष भी हम पर वश न करे । ( विश्वहा ) सदा, सब दिनों, ( वयं ) हम ( सोमस्य प्रियासः ) सोम, पुत्र, शिष्य, ऐश्वर्यवान् आदि के प्रिय और ( सुवीरासः ) उत्तम वीर्यवान्, उत्तम पुत्रवान् और विद्वान् होकर ( विदथम् भावदेम ) ज्ञान का उपदेश और कथोपकथन किया करें ।

त्वं नः सोम विश्वतो वयोधास्त्वं स्वर्विदा विशा नृचक्षाः । त्वं न इन्द ऊतिभिः सजोपाः पाहि पश्चातादुत वा पुरस्तात् १५।१३।६

भा०—हे ( सोम ) विद्वन् ! वीर्यवत् पालक पोषक ! ( त्वं नः विश्वतः वयोधाः ) तू हमें सब प्रकार से ज्ञान, बल, आयु धारण कराने वाला, तू ( स्वर्विद् ) सुखदाता, ज्ञानप्रकाशक, सर्वज्ञ, तू ( नृचक्षाः ) सबका द्रष्टा, होकर ( नः आविश ) हमें प्राप्त हो । हे ( इन्दो ) ऐश्वर्यवान् ! ( त्वं ) तू ( नः ) हमें ( सजोपाः ) सप्रेम ( ऊतिभिः पाहि ) रक्षा साधनों

से सदा पालन कर । और तू ( पश्चात्तात् उत वा पुरस्तात् ) हमारी पीछे  
और आगे से भी रक्षा कर । इति त्रयोदशो वर्गः ॥

## अथ वालखिल्यम्<sup>१</sup>

[ ४६ ]

प्रकरवः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ बृहती । ३ विराड् बृहती ।  
५ भुरिवृहती । ७, ६ निचृद् बृहती । २ पंक्तिः । ४, ६, ८, १० निचृत्  
पंक्तिः ॥ दशचै मूक्तसू ॥

अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमर्च यथा विदे ।

यो जरितृभ्यो मघवा पुरुवसुः सहस्रेणैव शिक्षति ॥ १ ॥

भा०—( यः ) जो ( मघवा ) उत्तम, पूज्य धन का स्वामी ( पुरु-  
वसुः ) नाना धनों जनों का स्वामी होकर ( जरितृभ्यः ) स्तुतिकर्ता  
विद्वानों के हितार्थ ( सहस्रेण इव ) सहस्रों के समान ( शिक्षति ) दान देता है,  
उस ( सुराधसम् ) उत्तम धनवान्, सुखपूर्वक आराधना करने योग्य,  
सब कर्मों के साधक ( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान् की ( यथा विदे ) यथावत्  
ज्ञान और धन का लाभ करने के लिये ( अभि प्र अर्च ) उत्तम रीति से  
अर्चना करो और उसी को ( प्र वः ) उत्तम रीति से वरण करो ।

शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णया हन्ति वृत्राणि दाशुषे ।

गिरेरिव प्ररसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ॥ २ ॥

भा०—वह इन्द्र ऐश्वर्यवान्, शत्रुओं का नाश करने हारा ( शत-अनीकः  
इव ) सैकड़ों सेनाओं और बलों का स्वामी, सेनापति के समान ( प्र

<sup>१</sup> सर्वानुक्रमण्यां वालखिल्यसूक्तानामप्यनुक्रमणदर्शनात् संहितान्तर्गतत्वम्।  
तानि च षष्ठानुवाकान्तर्गतान्येव ॥

जिगाति ) सबका विजय करता है और ( दांशुषे ) दानशील, करप्रद राष्ट्र के हित के लिये ( वृत्राणि ) विघ्नकारी शत्रुओं का ( धृष्णुया ) अपनी धर्षणकारिणी शक्ति से ( हन्ति ) नाश करता है, ( गिरेः इव रसा ) पर्वत से झरने वाले जलों के समान ( अस्य पुरुभोजसः ) इस बहुतों के पालक, नाना भोग्य ऐश्वर्य के स्वामी के ( दत्राणि ) नाना प्रकार के दान ( पिन्विरे ) प्रजाओं को पुष्ट करते हैं ।

आ त्वा सुतास इन्द्रो मदा य इन्द्र गिर्वणः ।

आपो न वज्रिन्नन्वोक्तं सरः पूणन्ति शूर राधसे ॥ ३ ॥

भा०—हे ( गिर्वणः ) वाणी द्वारा भजन करने योग्य ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( ये ) जो ( मदाः ) वृत्तिकारक ( इन्द्रवः ) ऐश्वर्यवान्, आर्द्र-हृदय ( सुतासः ) अभिषिक्त जन ( त्वा आ पूणन्ति ) तुझे हर्षजनक हैं हे ( शूर ) शूरवीर ! हे ( वज्रिन् ) वीर्यवान् ! वे सब ( राधसे ) धन को प्राप्त करने के लिये ही ( भोक्तं सरः आपः न ) अपने आश्रयभूत सरोवर को पूर्ण करने वाले जलप्रवाहों के समान ( त्वा आपूणन्ति ) तुझे ही पूर्ण करते हैं, तुझे ही प्रसन्न करते, तेरी सेवा करते, तुझ में ही आश्रय लेते हैं । उसी प्रकार ये समस्त उत्पन्न सूर्यादि लोक भी उसी परमेश्वर को पूर्ण करते, उसी में आश्रय पाते हैं ।

अनेहसं प्रतरणं विवक्षणं मध्वः स्वादिष्टमीं पिव ।

आ यथा मन्दसानः किरासि नः प्र क्षुद्रेव त्मना धृषत् ॥ ४ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवान् ! तू ( मध्वः ) मधुर अन्न और ज्ञान का ( अनेहसं ) निष्पाप ( प्र-तरणम् ) दुःखों से पार उतारने वाला, ( विवक्षणं ) विविध वचनों से स्तुत्य, वा विविध हर्षदायक ( स्वादिष्टम् ) अति स्वादुरस का ( पिव ) पान कर ( यथा ) जिस प्रकार ( मन्दसानः ) वृक्ष होकर ( क्षुद्रा इव ) क्षुद्र मधु मक्खी के समान ( त्मना धृषत् ) स्वयं

अपने सामर्थ्य से शत्रुगण पर विजयी होकर ( नः ) हमें भी ( प्र किरासि ) नाना ऐश्वर्य यथायोग्य रूप से प्रदान कर ।

आ नः स्तोममुप द्रवद्वियानो अश्वो न सोतृभिः ।

यं ते स्वधावन्त्स्वदयन्ति धेनव इन्द्र कण्वेषु रातयः ॥५॥१४॥

भा०—हे ( स्वधावन् ) अन्नपत्ने ! हे ऐश्वर्य को धारण करने वाली शक्ति के स्वामिन् ! ( ते ) तेरे ( कण्वेषु ) विद्वान् पुरुषों के निमित्त ( रातयः ) दिये नाना दान ही ( यं स्तोमम् ) जिस स्तुतियोग्य पद को ( धेनवः ) वाणियों या गोरसों के समान ( स्वदयन्ति ) अधिक स्वादु, सुखद कर देते हैं तू उस ( नः स्तोमम् ) हमारे स्तुत्य वचन या पद को ( सोतृभिः हियानः ) अभिपिक्त वर्ग से प्रेरित होकर ( अश्वः न ) अश्व के समान ( आ उप द्रवद् ) प्राप्त हो । इति चतुर्दशो वर्गः ॥

उग्रं न वीरं नमसोप सेदिम विभूतिमक्षितावसुम् ।

उद्रीव वज्रिन्नवतो न सिञ्चते क्षरन्तीन्द्र धीतयः ॥ ६ ॥

भा०—( उग्रं वीरं न ) वीर के समान, उग्र, शत्रुओं के लिये भयंकर ( विभूतिम् ) विशेष शक्तिमान् ( अक्षिता वसुम् ) अक्षय धन से सम्पन्न पुरुष को हम ( उप सेदिम ) प्राप्त हों । हे ( वज्रिन् ) वीर्यशालिन् ! ( अवतः न उद्रीवः ) ऊपर मुख किये कूप के समान तू भी अपने प्रजा के क्षेत्र को ( सिञ्चते ) सेचन करता है, हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( धीतयः ) नाना स्तुतियें ( क्षरन्ति ) तेरी ओर ही बहती हैं ।

यद्ध नूनं यद्वा यज्ञे यद्वा पृथिव्यामधि ।

अतो नो यज्ञसाशुभिर्महेमत उग्र उग्रेभिरा गहि ॥ ७ ॥

भा०—( यत् ह ) चाहे जहां भी हो ( यद् वा यज्ञे ) चाहे यज्ञ में हो, ( यद् वा पृथिव्याम् अधि ) चाहे तू पृथिवी पर हो, हे ( महे मते ) महा मतिमन् ! हे ( उग्र ) बलवन् ! तू ( नः ) हमारे ( यज्ञम् ) यज्ञ को

( उभ्रेभिः आशुभिः ) बलवान्, शीघ्रगामी अश्वों सहित (अतः) इस स्थान से (आ गहि) प्राप्त हों ।

अजिरासो हरयो ये त आशवो वाता इव प्रसक्षिणः ।

येभिरपत्यं मनुषः परीयसे येभिर्विश्वं स्वर्दृशे ॥ ८ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! ( ते ) तेरे ( ये ) जो ( अजिरासः ) कभी नाश को प्राप्त न होने वाले ( हरयः ) अश्व, ( आशवः ) शीघ्रगामी, ( वाताः इव ) वायु के झकोरों के समान ( प्र-सक्षिणः ) बलात् शत्रुओं को विजय करने वाले, हैं । ( येभिः ) जिनसे तू ( मनुषः अपत्यं ) मनुष्यों के समीप ( परीयसे ) आता है और ( येभिः ) जिनसे तू ( स्व-दृशे ) सबको देखने के लिये ( विश्वं परि ईयसे ) समस्त जगत् में व्याप रहा है ।

एतावतस्त ईमहे इन्द्र सुमनस्य गोमतः ।

यथा प्रावो मघवन्मेध्यातिथिं यथा नीपातिथिं धने ॥९॥

भा०—हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ( यथा ) जिस प्रकार भी हो तू ( मेध्यातिथिं ) अन्नादि से सत्कार करने योग्य अतिथिवत् पूज्य पुरुष को ( प्र भवः ) उत्तम रीति से तू एवं प्रसन्न करता है, और ( यथा ) जिस प्रकार और जितने ( धने ) धन में तू ( नीपातिथिं ) सन्मार्ग दिखाने वाले अतिथिवत् पूज्य पुरुष का ( प्रावः ) आदर सत्कार करता है हम भी ( ते ) तुझ से हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( एतावतः ) इतने ( गोमतः सुमनस्य ) गौ आदि पशुओं से समृद्ध सुखप्रद धन की ( ईमहे ) याचना करते हैं ।

यथा कण्वे मघवन्त्रसदस्यवि यथा पक्थे दशत्रजे ।

यथा गोशर्ये असनोर्ऋजिश्वनीन्द्र गोमृद्धिरण्यवत् ॥१०॥१५॥

भा०—हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! ( यथा ) जैसे ( कण्वे ) मेधावी विद्वान्, ( त्रसदस्यवि ) दस्यु को भय देने वाले के निमित्त ( यथा ) जैसे ( पक्थे दशत्रजे ) दश मार्गयुक्त परिपक्व शरीर के निमित्त, ( यथा



(गो-शयै) जैसे गो अर्थात् धनुष की डोरी और शर अर्थात् वाणों के चलाने में कुशल धनुर्धारी के निमित्त और ( ऋजिश्चनि ) अश्वों को ऋजु-मार्ग में चलाने हारे, अश्वसाधक जितेन्द्रिय पुरुष के निमित्त तू ( गोमत् हिर-प्यवत् ) गवादि पशुयुक्त और सुवर्णादि युक्त चल अचल धन ( असनोः ) न्याय, एवं पात्रापात्र विवेक से प्रदान करता है उसी प्रकार का धन हम भी तुझ से चाहते हैं । इति पञ्चदशो वर्गः ॥

[ ५० ]

पुष्टिः कारव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ५, ७ निचृद् वृहती । ६ विराड् वृहती । २, ४, ६, १० पंक्तिः । ८ निचृद् पंक्तिः ॥ दचर्षा सक्तम् ॥

प्र सु श्रुतं सुराधसमर्चं शक्रमभिष्टये ।

यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वसु सहस्रेणैव मंहते ॥ १ ॥

भा०—( यः ) जो ( सुन्वते ) उत्तम आदर सत्कार करने वाले, ( स्तुवते ) स्तुतिशील पुरुष को ( काम्यं वसु ) कामना करने योग्य धन ( सहस्रेण-इव मंहते ) सहस्रों संख्या में प्रदान करता है, उस ( श्रुतं ) जगत्-प्रसिद्ध ( सु-राधसम् ) सुख से आराधना करने योग्य, उत्तम धन-सम्पन्न ( शक्रम् ) शक्तिशाली परम पुरुष की ( अभिष्टये ) अभीष्ट कार्य के लिये ( प्र सु भर्च ) उत्तम रीति से पूजा, आदर सत्कार कर ।

शतानीका हेतयो अस्य दुष्टरा इन्द्रस्य समिषो महीः ।

गिरिर्न भुज्मा मधवत्सु पिन्वते यदी सुता अमन्दिषुः ॥ २ ॥

भा०—( अस्य इन्द्रस्य ) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु की ( शत-अनीका ) सैकड़ों सैन्य, सैकड़ों बल, सैकड़ों मुख, ( हेतयः दुष्टराः ) हनन या दण्ड देने के साधन दुस्तर, अपार, अजेय हैं और इस की ( महीः समिषः ) समस्त भूमियां भी उत्तम अन्न सम्पदाओं से सम्पन्न हैं, ( यदि ) जब

( सुताः ) नाना उत्पन्न पदार्थ एवं ऐश्वर्यगण ( अमन्दिपुः ) समस्त जीव प्रजागण को हर्षयुक्त, प्रसन्न करते हैं तब प्रतीत होता है कि वही ( भुज्मा ) सबका पालक परमेश्वर ( गिरिः न ) मेघ वा पर्वत के समान महान् उदार होकर ( मघवत्सु ) पूज्य धनवानों में ( पिन्वते ) ऐश्वर्य की मानो वर्षा किया करता है ।

यदीं सुतासु इन्द्रवोऽभि प्रियममन्दिपुः ।

आपो न धायि सर्वनं म आ वसो दुघा इवोप दाशुषे ॥३॥

भा०—( सुतासः इन्द्रवः ) उत्पन्न हुए, ये ऐश्वर्ययुक्त, वा आर्द्र, ओषधि रसवत् आनन्दमय जीवगण, ( यदि ) जब ( प्रियम् अमन्दिपुः ) अपने प्रिय प्रभु को प्रसन्न कर लेते हैं तब हे ( वसो ) सबको बसाने हारे ! ( दाशुषे दुघाः इव ) यज्ञशील वा घास आदि देने वाले स्वामी के लिये दुधार गौवों के समान वा ( सर्वनं ) अभिषेकार्थ ( आपः न ) जल-धाराओं के समान उन सबको ( मे उप आ धायि ) मेरे लिये प्राप्त कराओ ।

अनेहसं वो हवमानमृतये मध्वः क्षरन्ति धीतयः ।

आ त्वा वसो हवमानासु इन्द्रव उप स्तोत्रेषु दधिरे ॥ ४ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! ( वः ) आप लोगों की ( धीतयः ) स्तुतियाँ और नाना कर्म ( अनेहसं ) पाप से मुक्त ( हवमानम् ) सब ऐश्वर्यों के देने वाले को उद्देश्य करके किये जाकर ही ( उतये ) तुम्हारी ही रक्षा, वृत्ति और सुख प्राप्ति के लिये ( मध्वं क्षरन्ति ) मधुर रसों, आनन्दयुक्त उत्तम फलों को उत्पन्न करते हैं । हे ( वसो ) सबमें बसने हारे ! सर्व-व्यापक प्रभो ! ( हवमानासः ) तेरी स्तुति करने वाले ( इन्द्रवः ) तेरी तरफ भक्तिप्रवाह व प्रेमरस में द्रवित जीवगण ( त्वा आ ) तुझे ही अपने ( स्तोत्रेषु ) स्तोत्रों, स्तुति वचनों में ( उप दधिरे ) वर्णन करते हैं ।

आ नः सोमे स्वध्वर इयानो अत्यो न तोशते ।

यं ते स्वदावन्त्स्वदन्ति गूर्तयः पौरै छन्दयसे हवम् ॥ ५ ॥ १६ ॥

भा०—हे ( स्वदावन् ) उत्तम अन्न वा कर्म फल के देने हारे ! (यं) जिस ( ते ) तेरे दिये को ( गूर्तयः ) उद्यमी, स्तुतिकर्ता जन उत्तम रूप से सुखपूर्वक भोगते हैं हे ऐश्वर्ययन् स्वामिन् ! ( तोशते ) हिंसाकारी शत्रु को दमन करने के लिये ( इयानः ) गमन करने वाले ( अत्यः ) अश्वारोही के समान तू ( नः स्वध्वरे सोमे ) हमारे उत्तम यज्ञ वा हिंसारहित और अहिंसित ऐश्वर्य के निमित्त ( पौरै ) नाना प्रजाओं के समूह की ( हवं छन्दयसे ) स्तुति को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर । इति षोडशो वर्गः ॥

प्र वीरमुग्रं विविचिं धनस्पृतं विभूतिं राधसो महः ।

उद्गीव वज्रिन्नवतो वसुत्वना सदा पीपेथ दाशुपे ॥ ६ ॥

भा०—हम ( महः राधसः ) बड़े भारी धनैश्वर्य के स्वामी ( वीरम् ) वीर, ( उग्रं ) बलवान्, ( विविचिं ) न्यायपूर्वक विवेक करने वाले ( धनस्पृतम् ) धन से प्रजादि को पूर्ण और पालन करने वाले, ( विभूतिम् ) विशेष सामर्थ्यवान्, परमेश्वर की हम सदा स्तुति करते हैं । हे वज्रिन् ) वीर्यवन् ! तू ( उद्गीव ) गर्दन ऊपर उठाये पराक्रमी के समान ( अवतः ) जगत् की रक्षा करने हारा, ( वसुत्वना ) अपने बड़े ऐश्वर्य के द्वारा ही ( दाशुपे पीपेथ ) आत्मसमर्पक भक्त का पालन करता है ।

यद्ध नूनं परावति यद्वा पृथिव्यां दिवि ।

युजान इन्द्र हरिभिर्महेमत ऋष्व ऋष्वेभिरा गहि ॥ ७ ॥

भा०—( यत् ह नूनं परावति ) जो तू परम 'दूर भी है, ( यद्-वा पृथिव्यां ) वा जो तू पृथिवी पर और ( दिवि घ नूनं ) सूर्य या महान् आकाश में भी सर्वत्र व्यापक है तू भी हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( महे-मते ) महाज्ञानिन् ! तू ( ऋष्वः ) सब से महान् है । हे ( इन्द्र )

ऐश्वर्यवन् ! ( हरिभिः युजानः ) विद्वान् मनुष्यों द्वारा और ( ऋष्वेभिः ) अपने महान् गुणों करके ( युजानः ) योग द्वारा चिन्तन किया जाकर हमें ( नूनं ) शीघ्र ही ( आ गहि ) प्राप्त होता है ।

रथिरासो हरयो ये ते अस्त्रिध्र्यो ज्यो वातस्य पिप्रति ।

येभिर्नि दस्युं मनुषो निघोषयो येभिः स्वः परीयसे ॥ ८ ॥

भा०—(ये) जो (हरयः) मनुष्य, जीवगण बलवान् अश्वों के समान ही (रथिरासः) रथारोही वीर वा रमण योग्य देहधारी (अस्त्रिध्र्यः) अविनाशी वा अहिंसक हैं वे भी (वातस्य) वातवत् बलवान् और जीवनों के जीवन रूप तेरे ही (ओजः) बल पराक्रम को (पिप्रति) धारण करते हैं । (येभिः) जिनसे तू (मनुष्यः) मननशील जीव के (दस्युं) विनाशकारी शत्रु, रोगादि को भी (निघोषयः) नष्ट करता है और (येभिः) जिन्हों से तू (स्वः परि ईयसे) समस्त आकाशों को पूर्ण करता है ।

एतावतस्ते वसो विद्याम शूर नव्यसः ।

यथा प्राव एतशं कृत्व्ये धने यथा वशं दशत्रजे ॥ ९ ॥

भा०—वे (वसो) सबको वसाने हारे ! सब में वसने वाले प्रभो ! स्वामिन् ! हे (शूर) दुष्टों के नाशक ! तू (यथा) जिस धन से या जितने ऐश्वर्य से (कृत्व्ये धने) करने योग्य संग्राम के अवसर पर (एतशं) अश्वसैन्यों को (प्रावः) अच्छी प्रकार रक्षा करता और (यथा दशत्रजे) जैसे दशों दिशाओं में दश मार्ग वाले नगर में जितना ऐश्वर्य (वशं) वशकारी नगर के अध्यक्ष राजा (प्रावः) सन्तुष्ट करे हम (नव्यसः ते) अति स्तुति योग्य तेरे (एतावतः) इतने भारी ऐश्वर्य का (विद्याम) लाभ करें ।

यथा करावे मघवन्मेघे अध्वरे दीर्घनीथे दसूनसि ।

यथा गोशर्ये अस्त्रिषासो अद्रिवो मयि गोत्रं हरिश्चियम् १०।१७

भा०—हे (मघवन्) पूज्य धनसम्पन्न ! हे (अद्रिवः) शक्ति-

शालिन् ! ( यथा ) जितना ऐश्वर्य ( कण्वे ) विद्वान् जन में ( अध्वरे ) हिंसारहित ( मेधे ) पवित्र यज्ञ में, ( दीर्घ-नीथे ) दीर्घ काल तक और दीर्घ मार्ग में लेजाने वाले ( दमूनसि ) दान्त चित्त वाले, जितेन्द्रिय पुरुष में, ( यथा ) जितना ऐश्वर्य तू ( गोशर्ये ) धनुषवाण की शक्ति से सम्पन्न योद्धा में ( असिपासः ) प्रदान करता है, उतना ही ( हरि-श्रियम् ) नाना अश्वों, मनुष्यों और विद्वानों को आश्रय देने वाला ( गोत्रं ) भूमि, इन्द्रिय गण, वाणी और गवादि पशु सम्पदा की रक्षा करने वाला धन ( मयि ) मुझ में भी प्राप्त करा । इति सप्तदशो वर्गः ॥

[ ५१ ]

श्रुष्टिगुः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ६ निचृद्बृहती ।  
५ विराड् बृहती । ७ बृहती । २ विराट् पंक्तिः । ४, ६, ८, १० निचृत् पंक्तिः ॥  
दशार्चं सूक्तम् ॥

यथा मनौ सांवरणौ सोममिन्द्रापिवः सुतम् ।

नीपातिथौ मघवन्मेध्यातिथौ पुष्टिगौ श्रुष्टिगौ सचा ॥ १ ॥

भा०—( यथा ) जितना और जिस प्रकार ( सांवरणौ ) उत्तम रीति से वरण करने योग्य ( मनौ ) प्रजा को थामने, उनको मर्यादा में स्थापित करने वाले राजा के पद पर विराज कर हे ( मघवन् ) उत्तम ऐश्वर्यवन् ! तू ( सुतम् सोमम् ) उत्पन्न ऐश्वर्य, राष्ट्र का ( अपिवः ) भोग करता है उतना ही हे ( इन्द्र ) शत्रुहन्तः ! तू ( नीपातिथौ ) मार्गदर्शी के अतिथिवत् पूज्य पद पर और ( मेध्यातिथौ ) अन्न यज्ञादि से सत्कार योग्य अतिथिवत् पूज्य परिव्राजक के पद पर और ( पुष्टिगौ ) उतना ही पुष्टि अर्थात् पशु सम्पदायुक्त भूमि के स्वामी एवं अन्नादि से समृद्ध भूमि के स्वामी के पद पर ( सचा ) समवेत होकर भी भोग सकता है । अर्थात् क्षत्रिय राजा के ऐश्वर्य से परिव्राट् तथा सम्पन्न वैश्य का ऐश्वर्य भी कम नहीं है ।

पार्षद्वाणः प्रस्करवृं समसादयच्छ्रयानं जित्रिमुद्धितम् ।

सहस्राण्यसिपासद्गवामृषिस्त्वोतो दस्यवे वृकः ॥ २ ॥

भा०—( पार्षद्-वाणः ) वाणी अर्थात् वेदवाणी का सेवन करने वाला विद्वान् ( शयानम् ) अन्धकार में सोते के समान (जित्रिम्) जीर्ण, वा प्रसन्न करने वाले, ( उद्-हितम् ) उत्तम सम्बन्ध में बद्ध ( प्रस्करणं ) उत्तम तेजस्वी, शिष्य वर्ग को ( सम् असादयत् ) प्राप्त करे और ( वृकः दस्यवे गवां सहस्राणि सिपासद् ) हल जिस प्रकार भूमि के तोड़ने वाले किसान के लाभ के लिये सहस्रों अन्न प्रदान करता है, उसी प्रकार (त्वा-उतः) तेरी रक्षा में रहने वाला ( वृकः ) तेजोमय ज्ञान को प्रकट करने वाला ( ऋषिः ) ज्ञानदर्शी पुरुष ( दस्यवे ) दानशील आत्मसमर्पक शिष्य के लाभ के लिये ( गवां सहस्राणि ) सहस्रों वेदवाणियों को ( असिपासत् ) प्रदान करे । अथवा वह ऋषि ( दस्यवे वृकः ) दस्यु, दुष्ट जन के लिये वृक के समान भयजनक होकर ( गवां सहस्राणि असिपासत् ) सहस्रों भूमियों का भोग करता है ।

य उक्थेभिर्न विन्धते चिकिद्य ऋषिचोदनः ।

इन्द्रं तमच्छ्रा वद नव्यस्या मृत्यविष्यन्तं न भोजसे ॥३॥

भा०—( यः ) जो ( चिकिद्यः ) जानने योग्य, सर्ववेद्य, ( ऋषि-चोदनः ) ऋषियों, साक्षात् तत्त्वदर्शी पुरुषों से उपदेश करने योग्य आत्मा ( उक्थेभिः ) नाना शास्त्र-वचनों से भी ( न विन्धते ) नहीं जाना जाता ( तम् ) उस ( अविष्यन्तं न इन्द्रम् ) सर्वरक्षक के समान ऐश्वर्यवान् प्रभु को ( भोजसे ) रक्षा और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये, ( नव्यस्या मती ) अति स्तुति वाणी, द्वारा ( अच्छ वद ) साक्षात् उपदेश कर ।

यस्मा श्रुर्कं सुप्तशीर्षाणामानृचुस्त्रिधातुमुत्तमे पदे ।

स त्विमा विश्वा भुवनानि चिक्रद्दादिज्जनिष्ट पौंस्यम् ॥ ४ ॥

भा०—इन्द्र विषयक उपदेश । (उत्तमे पदे ) परम, उत्तम पद पर विद्यमान ( यस्मै ) जिस प्रभु के वर्णन करने के लिये ( त्रिधातुम् ) तीनों प्रकार से धारित ( सप्तशीर्षाणम् अर्कं ) सात शिरों वाले अर्चना योग्य मन्त्रगण की ( आनृचुः ) स्तुति करते हैं, ( सः तु ) वही परमेश्वर ( इमा विश्वा भूतानि ) इन समस्त भुवनों को ( चिक्रदत् ) शासन करता है और ( पौस्यं जनिष्ट ) पौरुष, बल, महती शक्ति प्रकट करता है, वेदमन्त्र प्रभु की स्तुति करने योग्य होने से 'अर्क' है । ऋक् यजुः साम तीन रूप से धारण करने योग्य होने से 'त्रिधातु' और सात छन्द उसके प्राण हैं ।

अथवा—( यस्मै उत्तमे पदे ) उत्तम पद, पर विद्यमान जिसके लिये ( सप्तशीर्षाणम् त्रिधातुम् आनृचुः ) सात शिरों वाला, तीनों लोकों का धारक बतलाते हैं वही इन समस्त विश्वों का शासक और शक्तिप्रकाशक है । प्रभु के सात शिर सप्त भुवन वा सप्त विकृति हैं ।

यो नो दाता वसूनामिन्द्रं तं हूमहे वयम् ।

विद्वा ह्यस्य सुमतिं नवीयसीं गमेम गोमति ब्रजे ॥५॥१८॥

भा०—( यः ) जो ( नः ) हम ( वसूनां दाता ) समस्त जीवों का दाता, वा समस्त ऐश्वर्यों और लोकों का देने वाला है ( तम् इन्द्रम् हूमहे ) हम उसी ऐश्वर्यवान् को पुकार वा उसी से प्रार्थना करें । ( अस्य ) उसी ( नवीयसीं ) अति स्तुत्य ( सुमतिं ) उत्तम ज्ञानयुक्त वेदवाणी को हम ( विद्वा ) जानें और ( गोमति ब्रजे ) इन्द्रियों रूप अश्वों से युक्त गमन साधन रथवत् इस देह में ही हम उसे ( गमेम ) प्राप्त करें, जानें वा ( गोमति ब्रजे ) गौओं से युक्त ब्रजवत् ज्ञान वाणियों से युक्त उपगन्तव्य आचार्य वा गुरु के अधीन रहकर हम इस 'इन्द्र' प्रभु का ज्ञान वा प्राप्ति करें । आचार्यों ब्रह्मणो मूर्तिः । मनु० ।

यस्मै त्वं वसो दानाय शिञ्जसि स रायस्पोषमश्नुते ।

तं त्वा वयं मध्वान्निन्द्रं गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ॥ ६ ॥

भा०—हे ( वसो ) सबको बसाने हारे, सबमें बसने हारे, सबको आच्छादन पालन करने हारे प्रभो ! ( यस्मै दानाय शिक्षसि ) जिस दानशील पुरुष को तू दान करता है ( सः ) वह ( रायः पोपम् अश्नुते ) ऐश्वर्य की वृद्धि को प्राप्त करता है । हे ( गिर्वणः ) वेदवाणियों से सेवने योग्य, वा वाणियों के दातः ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( मघवन् ) पूजित पदयुक्त ! ( वयं ) हम ( सुतावन्तः ) उत्पन्न अनित्य पदार्थों वाले ( ते त्वा हवामहे ) उस तेरी प्रार्थना करते हैं । हमें भी नाना ऐश्वर्य प्रदान कर ।

कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्वसि दाशुषे ।

उपोपेक्षु मघवन्भूय इक्षु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥ ७ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! स्वामिन् ! प्रभो ! तू ( कदा चन ) कभी भी ( स्तरीः न ) हिंसक नहीं है, अथवा निर्दुग्ध गाय के समान अदानशील नहीं है । तू ( दाशुषे सश्वसि ) दानशील, यजमान आत्मसमर्पक के सदा साथ रहता है । ( मघवन् ) पूजित धन युक्त ! ( देवस्य ते ) दानशील तेरा ( दानं ) दिया धन ( उप-उप इत् नु पृच्यते ) बराबर प्राप्त होता है और ( भूयः उत् नु ) खूब अधिक मात्रा में प्राप्त होता है ।

प्र यो ननक्षे अभ्योजसा क्रिवि वधैः शुष्णं निघोषयन् ।

यदेदस्तम्भीत्प्रथयन्मू दिवमादिज्जनिष्ट पार्थिवः ॥ ८ ॥

भा०—( यः ) जो ( ओजसा ) बलपूर्वक ( शुष्णम् ) मेघ के विद्युत् के समान प्रजा के शोषण करने वाले बलवान् शत्रु को ( वधैः ) आघातकारी शस्त्रास्त्रों से ( नि घोषयन् ) विनाश करता हुआ ( क्रिवि ) जल से कृप तड़ागवत् इस समस्त संसार को अपने पराक्रम से ( अभि प्र ननक्षे ) पूर्ण करता, व्यापता है और ( यत् ) जो ( अमू दिवम् प्रथयन् अस्तम्भीत् ) इस पृथिवी को विस्तृत करता हुआ उस आकाश वा सूर्य को भी स्थिर करता



है, और ( आत् इत् ) अनन्तर वह ( पार्थिवः ) समस्त पृथिवियों का स्वामी स्वयं पृथिवीवत् माता होकर ( जनिष्ट ) समस्त स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करता है ।

यस्यायं विश्व आर्यो दासः शेवधिपा अरिः ।

तिरश्चिदर्ये रुशमे पवीरवि तुभ्येतसो अज्यते रयिः ॥ ९ ॥

भा०—( यस्य ) जिस प्रभु का ( विश्वः आर्यः ) समस्त श्रेष्ठ ( अरिः ) पुरुष ( दासः ) सेवकवत् ( शेवधि-पाः ) उसी के खजाने की रक्षा करने वाला है । उस ( अर्ये ) स्वामी ( रुशमे ) सर्व नियन्ता, ( पवीरवि ) पापनिवारक राजदण्डवत् परम तप रूप वज्र के धारक प्रभु के अधीन समस्त विश्व विद्यमान है । हे प्रभो ! ( सः रयिः तुभ्य इत् अज्यते ) यह सब मूर्त्त संसार तेरे ही गुणों के दर्शन के लिये प्रकट है । अथवा ( यस्यायं विश्वः आर्यः दासः ) जिसका यह समस्त श्रेष्ठ जन-सेवकवत् है जिसका स्वयं अपने खजाने को बचानेवाला शत्रुतुल्य है, जो धन ( अर्ये रुशमे पवीरवि ) वैश्य, शस्त्रधारी क्षत्रिय में ( तिरः चित् ) सुगुप्त है वह भी ( तुभ्य इत् अज्यते ) तेरे लिये ही प्रकट प्राप्त है ।

तुरण्यवो मधुमन्तं घृतश्रुतं विप्रासो अर्कमानृचुः ।

अस्मे रयिः पप्रथे वृष्णयं शवोऽस्मे सुवानास इन्दवः ॥१०॥१९॥

भा०—( तुरण्यवः ) क्षिप्रकारी, कर्मकुशल ( विप्रासः ) विद्वान् जन ( घृत-श्रुतम् ) जलदाता मेघ के तुल्य उदार तेजःप्रद सूर्यवत् प्रकाश स्वरूप ( मधुमन्तं ) जलयुक्त समुद्रवत् अपार अन्नयुक्त पृथिवीवत् पालक ( अर्कं ) अर्चना करने योग्य प्रभु की ( आनृचुः ) स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं कि ( अस्मे रयिः पप्रथे ) हमारा ऐश्वर्य बढ़े, ( अस्मे वृष्णयं शवः ) हमारा सुखवर्षक बल बढ़े । ( अस्मे सुवानासः इन्दवः ) हमारे उत्पन्न होते हुए, वा उत्तम प्रजा उत्पन्न करने वाले ऐश्वर्य और वीर्य हों । इत्ये-कोनविंशो वर्गः ॥

[ ५२ ]

आयुः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ७ निचृद्बृहती । ३, ५  
बृहती । ६ विराड् बृहती । २ पादनिचृत् पंक्तिः । ४, ६, ८, १० निचृत्  
पंक्तिः ॥ दशर्चं सूक्तम् ॥

यथा मनौ विवस्वति सोमं शक्रापिवः सुतम् ।

यथा त्रिते छन्द इन्द्र जुजोषस्यायौ मादयसे सचा ॥ १ ॥

भा०—हे ( शक्र ) शक्तिशालिन् ! ( यथा ) जिस प्रकार और  
जितना ( विवस्वति मनौ ) विविध प्रजाओं के स्वामी, सुख्यवस्थापक  
राजा के पद पर विराज कर ( सुतं सोमम् ) उत्पन्न ऐश्वर्य को ( अपिवः )  
तू उपभोग करता है, और ( यथा ) जिस प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्  
( त्रिते ) तीनों विद्याओं में पारंगत विद्वान् के पद पर भी ( छन्दः जुजो-  
पसि ) वेद वाणी का प्रेमपूर्वक सेवन करता है उसी प्रकार तू ( आयौ )  
मनुष्यों के बीच में ( सचा ) वर्त्तमान रहकर भी ( मादयसे ) हर्ष लाभ  
करता और हर्ष प्रदान करता है । वह प्रभु ही राजा के राज्य और विद्वान्  
के ज्ञान और मनुष्य मात्र के हर्ष को पालता, स्वीकार करता और देता है ।

पृषध्रे मेध्यै मातरिश्वनीन्द्र सुवाने अमन्दथाः ।

यथा सोमं दशशिष्रे दशोण्ये स्यूमरश्मावृजूनसि ॥ २ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! आत्मन् ! तू ( पृषध्रे ) जलसेचक  
मेघ को धारण करने वाले ( मेध्ये ) उत्तम अन्न के हितकारी ( सुवाने )  
उत्पादक ( मातरिश्वनि ) आकाशगामी वायु में आनन्द लाभ करता है ।  
और ( यथा ) जिस प्रकार ( दशशिष्रे ) दशों प्राणों को मुकुटवत् धारण  
करने वाले वा ( दशोण्ये ) दश प्राण युक्त ( स्यूमरश्मौ ) रश्मियों से  
युक्त तेजस्वी ( ऋजु-नसि ) सरल नासिका वाले, अभ्यासी पुरुष में ( सोमं )  
परमानन्द रस का पान करता है ।

य उक्त्वा केवला दधे यः सोमं धृषितापिवत् ।

यस्मै विष्णुस्त्रीणि पदा विचक्रम उप मित्रस्य धर्मभिः ॥३॥

भा०—( यः ) जो ( केवला उक्त्वा दधे ) केवल उत्तम स्तुत्य वचनों को स्वीकार करता है, ( यः धृषिता ) जो सब दुष्टों को धर्षण करने हारा ( सोमं अपिवत् ) सोम रस का पान करता, उत्पन्न जगत् वा ऐश्वर्य का पुत्रवत् पालन करता है, ( मित्रस्य धर्मभिः ) मित्रवत् सूर्य के धारणसामर्थ्यों से ( विष्णुः ) व्यापक वायु ( त्रीणि पदा विचक्रमे ) तीनों लोकों में व्यापता है वही 'इन्द्र' है ।

यस्य त्वमिन्द्र स्तोमेषु चाकनो वाजे वाजिञ्छ्रुतक्रतो ।

तं त्वा वयं सुदुघामिव गोदुहो जुहूमसि श्रवस्यवः ॥ ४ ॥

भा०—हे (वाजिन्) ऐश्वर्यवन् ! बलवन् ! हे (शत-क्रतो) अनेक प्रज्ञा वाले ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( त्वम् ) तू ( यस्य ) जिसके ( वाजे ) यज्ञ में ( स्तोमेषु ) स्तुतिवचनों में ( चाकनः ) अभिलाषा करता है, ( गोदुहः सुदुघाम इव ) गौ दुहने वाले उत्तम दुग्धदात्री गौ को जिन प्रकार बुलाते हैं उसी प्रकार ( वयं ) हम लोग ( तं त्वा ) उस तुझे ( श्रवस्यवः ) धन, ज्ञान, यश, अन्नादि के इच्छुक होकर ( जुहूमसि ) तुझे पुकारते हैं, तेरी प्रार्थना करते हैं ।

यो नो दाता स नः पिता सहाँ उग्र ईशानकृत् ।

अयामनुग्रो मघवा पुरुवसु गोरश्वस्य प्र दातु नः ॥५॥२०॥

भा०—( यः नः दाता ) जो हमें देता है, ( सः नः पिता ) वही हमें पालन करता है । वह ( महान् उग्रः ) बड़ा भारी, बलवान् ( ईशान-कृत् ) समस्त ऐश्वर्य को बनाने वाला शासक है । वह ( उग्रः ) बलवान् ( मघवा ) उत्तम धनाढ्य होकर ( पुरुवसु अयामन् ) बहुत धन प्रदान करता है और वह ( गोः अश्वस्य नः प्रदातु ) गौ अश्व आदि हमें देवे । इति विंशो वर्गः ॥

यस्मै त्वं वसो दानाय मंहसे स रायस्पोपमिन्वति ।

वसुयवो वसुपतिं शतक्रतुं स्तोमैरिन्द्रं हवामहे ॥ ६ ॥

भा०—हे ( वसो ) सर्व व्यापक ! ( त्वं यस्मै दानाय मंहसे ) तू जिस दानशील को दान देता है ( सः रायः पोपम् इन्वति ) वह ऐश्वर्य की समृद्धि को प्राप्त करता है । हम ( वसु-पतिं ) सब लोकों और जीवों के पालक ( शत-क्रतुं ) अनेक कर्मों के कर्ता, ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् प्रभु को ( वसुयवः ) ऐश्वर्य के इच्छुक होकर ( हवामहे ) स्तुति प्रार्थना करते हैं ।

कदा च न प्र युच्छस्युभे नि पासि जन्मनी ।

तुरीयादित्य हवनं त इन्द्रियमा तस्थावृमृतं दिवि ॥ ७ ॥

भा०—हे प्रभो ! तू ( कदाचन प्रयुच्छसि ) कभी भी प्रमाद नहीं करता । ( उभे जन्मनी नि पासि ) इह और पर दोनों लोकों को पालन करता है । हे ( तुरीय ) सबसे पार ! हे ( आदित्य ) सब विश्व के नियन्तः ! ( ते ) तेरा यह ( हवनं इन्द्रियम् ) देने योग्य ऐश्वर्य है जो ( दिवि ) मोक्ष में ( अमृतं ) अमृतस्वरूप ( आ तस्थौ ) विद्यमान है । ( २ ) इसी प्रकार जगत् आदि तीनों अवस्थाओं से अतीत आत्मा के ही इन्द्रिय विभूति हैं जो ( दिवि ) शिरोरूप मस्तक में जीवित जागृत रूप में विद्यमान है ।

यस्मै त्वं मघवन्निन्द्र गिर्वणः शिक्षो शिक्षसि दाशुषे ।

श्रस्माकं गिर उत सुपुतिं वसो कण्ववच्छृणुधी हवाम् ॥ ८ ॥

भा०—हे ( मघवन् इन्द्र ) उत्तम पूजित धन के स्वामिन् ! दुष्टों के नाश करने और ऐश्वर्य के देने हारे ( गिर्वणः ) वाणी द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभो ! हे ( शिक्षो ) दानशील ! तू ( यस्मै दाशुषे ) जिस दानशील पुरुष को ( शिक्षसि ) दान करता है वह ही सम्पन्न हो जाता है । हे ( वसो ) सर्वस्वामिन् ! ( उत ) और तू ( कण्ववत् ) ज्ञानी के समान ( अस्माकं गिरः ) हमारी वाणियों को और ( सु-स्तुतिं हवाम् ) उत्तम स्तुति और याचना को ( शृणुधि ) श्रवण कर ।

अस्तावि मन्म पुर्व्यं ब्रह्मेन्द्राय वोचत ।

पूर्वाऋतस्य बृहतीरनूपत स्तोतुर्मेधाऽसृक्षत ॥ ९ ॥

भा०—(मन्म) मनन करने योग्य, ज्ञानमय ( पूर्व्यं ) सनातन ब्रह्म वेद का ( अस्तावि ) स्तवन करो और उसका ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान् प्रभु की स्तुति के लिये ( वोचत ) उच्चारण करो । ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान की ( पूर्वीः ) सनातन वेदवाणियों की ( अनूपत ) स्तुति करो, और (स्तोतुः ( मेधाः ) स्तुतिकर्ता की वाणियों-और बुद्धियां स्वयं ( असृक्षत ) उत्पन्न होती हैं ।

सामिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं क्षोणी समु सूर्यम् ।

सं शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिपुः १०।२।

भा०—( इन्द्रः ) परमेश्वर ही ( रायः ) समस्त ऐश्वर्यों और ( बृहतीः ) जगत् की बड़ी २ शक्तियों को ( सम् अधूनुत ) अच्छी प्रकार संचालित करता है । वही ( क्षोणीः सं सूर्यम् उ सम् ) समस्त पृथिवियों और सूर्य को चलाता है, ( शुचयः शुक्रासः ) शुद्धाचारवान्, तेजस्वी पुमान् पुरुष और ( गवाशिरः सोमाः ) वेदवाणी का आश्रय लेने वाले जितेन्द्रिय पुरुष ( इन्द्रम् सं सम् अमन्दिपुः ) अच्छी प्रकार स्तुति करते, उसे प्रसन्न करते हैं । इत्येकविंशो वर्गः ॥

[ ५३ ]

मेध्यः काएव ऋषिः ॥ छन्दः—१, २, ७ विराड् बृहती । ३ आर्ची स्वराड् बृहती । २, ४, ६ निचृत् पंक्तिः । ८ विराट् पंक्तिः ॥ अष्टर्चं सूक्तम् ॥

उपमं त्वा मघोनाञ्ज्येष्ठश्च वृषभाराम् ।

पुर्भित्तमं मघवन्निन्द्रगो विदमीशानं राय ईमहे ॥ १ ॥

भा०—हे ( मघवन् ) उत्तम, प्रशंसित धनसम्पन्न हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ऐश्वर्यप्रद ! ( मघोनां उपमानं ) धनवानों के आदर्श और ( वृष-

माणां च ) मेघवत् सुखों की वृष्टि करने वाले उदार दाताओं में ( ज्येष्ठं ) सबसे बड़े, सबसे उत्तम, ( पूभित्तमं ) शत्रुओं के दृढ़ दुर्ग भेदन करने में अति कुशल जीवों के पुर रूप देहबन्धनों को भेदन करनेवाले, ( गो-विदम् ) भक्त की वाणी को जानने वाले, ( ईशानं ) परमेश्वर से हम ( रायः ईमहे ) नाना ऐश्वर्यों की याचना करते हैं ।

य श्रायुं कुत्समतिथिग्वमर्दयो वावृधानो दिवेदिवे ।

तं त्वा व्रयं हर्यश्वं शतक्रतुं वाजयन्तो हवामहे ॥ २ ॥

भा०—( यः ) जो ( दिवे-दिवे ) दिनोदिन ( वावृधानः ) निरन्तर बढ़ता हुआ ( आयुम् ) शरण में आने वाले ( कुत्सम् ) स्तुति करने वाले और ( अतिथिग्वम् ) अतिथिवत् परमेश्वर के प्रति उत्तम स्तुति वाणी का प्रयोग करने वाले पुरुष को ( अर्दयः ) प्राप्त होता वा सन्मार्ग में चलाता है ( तं हर्यश्वं ) उस तुझ मनुष्यों को अश्वों के तुल्य सन्मार्ग में संचालन करने वाले ( शत-क्रतुं त्वां ) सैकड़ों कर्म और प्रज्ञाओं वाले तुझ प्रभु वा विद्वान् से ( वाजयन्तः ) बल, ज्ञान, ऐश्वर्य की कामना करते हुए हम ( हवामहे ) याचना किया करें ।

अर्दयः—अर्द गतौ याचने च । भ्वादिः । स्वार्थे णिच् ।

आ नो विश्वेपां रसं मध्वः सिञ्चन्त्वद्रयः ।

ये परावति सुन्विरे जनेषु ये अर्वावतीन्दवः ॥ ३ ॥

भा०—( ये ) जो ( इन्दवः ) विद्वान् तेजस्वी जन ( परावति ) परम ब्रह्म में ( सुन्विरे ) अभिषिक्त होते हैं और ( ये ) जो ( अर्वावति ) इस लोक में भी ( जनेषु ) मनुष्यों के बीच ( सुन्विरे ) प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं वे ( अद्रयः ) मेघ के समान ( नः विश्वेपां ) हम सब के हितार्थ ( मध्वः रसं ) मधुर ज्ञान का रस ओपधिरसवत् ही ( आसिञ्चन्तु ) आसेचन किया करें, प्रदान करें ।

विश्वा द्वेषांसि जहि चाव चा कृधि विश्वे सन्वन्त्वा वसु ।

शीष्टेषु चित्ते मदिरासो अंशवो यत्रा सोमस्य तृम्पसि ॥४॥२२॥

भा०—( यत्र ) जिस दशा में तू ( सोमस्य तृम्पसि ) ऐश्वर्य से तृप्त होता है, उसी दशा में तू (विश्वा द्वेषांसि) समस्त प्रकार के द्वेषों को और द्वेष करने वाले जनों को ( जहि ) विनष्ट कर और ( अव कृधि च ) नीचा कर । ( चित्ते मदिरासः ) चित्त में सुप्रसन्न (अंशवः) व्याप्त विद्यावान् ( विश्वे ) समस्त जन ( शीष्टेषु ) शिष्टों, विद्वानों के बीच में ( त्वा वसु सन्वन्तु ) तुझे समस्त ऐश्वर्य प्रदान करें । इति द्वाविंशो वर्गः ॥

इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः ।

आ शन्तम शन्तमाभिरभिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः ॥ ५ ॥

भा०—हे ( शन्तम ) अति शान्तिदायक ! हे ( स्वापे ) उत्तम बन्धो ! तू ( मित-मेधाभिः ) परस्पर सत् संगतियुक्त, ( ऊतिभिः ) रक्षाओं, और ( शन्तमाभिः ) अति कल्याणकारक, शान्तिदायक ( अभिष्टिभिः ) अभीष्ट सुख देने वाले उपायों सहित हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू हमारे ( नेदीयः इत् ) सदा अति समीप ही ( आ इहि ) प्राप्त हो ।

आजितुरं सत्पतिं विश्वचर्षणिं कृधि प्रजास्वाभगम् ।

प्र सू तिरा शचीभिर्ये त उक्थिनः क्रतुं पुनत आनुषक् ॥ ६ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! ( ये ) जो ( ते ) तेरे ( उक्थिनः ) उत्तम वेद-वचनों के ज्ञाता जन ( शचीभिः ) उत्तम वाणियों द्वारा ( ते क्रतुं ) तेरे यज्ञ, बुद्धि वा ज्ञान को ( आनुषक् ) निरन्तर ( पुनते ) पवित्र करते रहते हैं वह तू ( प्र सू-तिर ) उनको अच्छी प्रकार बढ़ा । और ( प्र-जासु ) प्रजाओं में ( आजितुरं ) संग्राम में शत्रुओं का नाश करने वाले ( सत्पतिं ) सज्जनों के पालक ( विश्व-चर्षणिं ) सबके द्रष्टा ( आ-भगम् ) सब प्रकार से भजन सेवन करने योग्य को ( कृधि ) अधिकारवान् कर ।

यस्ते साधिष्ठोऽवसे ते स्याम भरेपु ते ।

वयं होत्राभिरुत देवहूतिभिः ससवांसो मनामहे ॥ ७ ॥

भा०—( यः ) जो ( ते ) तेरी ( साधिष्ठः ) सबसे उत्तम साधना करने वाला है वह ( अवसे ) हमारी रक्षा करने वाला हो । हम ( भरेपु ) यज्ञों में भी ( ते स्याम ) तेरे ही होकर रहें । ( वयं ) हम लोग ( देव-हूतिभिः ) विद्वान् पुरुषों द्वारा स्वीकृत ( होत्राभिः ) वाणियों और यज्ञ सत्क्रियाओं द्वारा ( ससवांसः ) तेरी स्तुति करते हुए ही ( मनामहे ) तेरा चिन्तन उत्तना किया करें ।

अहं हि ते हरिवो ब्रह्मवाज्युराजिं यामि सन्दोतिभिः ।

त्वामिदेव तममे समश्वयुरर्गव्युत्रे मथीनाम् ॥ ८ ॥ २३ ॥

भा०—हे ( हरिवः ) अश्वों के तुल्य मनुष्यों पर वश करने हारे ! ( अहं हि ) मैं ( ते ब्रह्म यामि ) तेरे स्तोत्र, ज्ञान और महान् ऐश्वर्य की याचना करता हूँ । मैं ( वाजयुः ) बल की कामना करता हुआ, ( सदा उतिभिः ) सदा तेरी ही रक्षाओं और शक्तियों द्वारा ( आजिं यामि ) युद्धादि शत्रुगण को उखाड़ डालने वाले बल की याचना करता हूँ । मैं ( अश्वयुः गव्युः ) अश्वों और गौवों की कामना करता हुआ ( मथीनां अग्रे ) शत्रुओं को मथन करने वाली सेनाओं के भी अग्रभाग में ( त्वाम् इत् इव ) तुझे ही ( सं तममे ) अच्छी प्रकार स्थापित करता हूँ । इति त्रयोविंशो वर्गः ॥

[ ५४ ]

मातरिश्वा काण्व ऋषिः ॥ १, २, ५—८ इन्द्रः । ३, ४ विश्वेदेवा देवताः ॥

छन्दः—१, ५ निचृत् वृहती । ३ वृहती । ७ विराड वहती । २, ४, ६, ८

निचृत् पंक्तिः ॥

एतत्त इन्द्र वीर्यं गीर्भिर्गृणन्ति कारवः ।

ते स्तोभन्त ऊर्जमावन्धृतश्चुतं पौरासो नक्षन्धीतिभिः ॥१॥



भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( कारवः ) विद्वान् स्तुति कर्ता जन ( गीर्भिः ) वाणियों द्वारा ( ते ) तेरे ( एतत् वीर्यं ) इस मंहान् सर्व प्रत्यक्ष बल का ( गृणन्ति ) उपदेश करते हैं । ( ते पौरासः ) वे दृढेन्द्रिय पुरुष ( घृत-श्रुतं ) तेज के देने वाले तुझ को ही ( स्तोभन्तः ) स्तुति करते हुए ( ऊर्जम् भावन् ) बल को प्राप्त करते हैं और ( धीतिभिः ) उत्तम कर्मों से तुझे ( नक्षन् ) प्राप्त करते हैं ।

नक्षन्त इन्द्रमवसे सुकृत्यया येषां सुतेषु मन्दसे ।

यथा संवर्ते अमदो यथा कृश एवास्मे इन्द्र मत्स्व ॥ २ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! तू ( येषां ) जिन के ( सुतेषु ) उत्पन्न किये उत्तम कर्मों वा ऐश्वर्यों पर ( मन्दसे ) प्रसन्न होता है वे अपने ( सुकृत्यया ) उत्तम कर्म-सामर्थ्य से ( अवसे ) रक्षा के निमित्त ( इन्द्रम् ) दुष्टों के नाशक उसी स्वामी को ( नक्षन्त ) प्राप्त करते हैं । हे प्रभो ! तू ( यथा ) जिस प्रकार ( संवर्ते ) सम्यक् दृष्टि से वर्तने वाले सम्यङ् व्यवहारवान् पुरुष पर ( अमदः ) प्रसन्न होता है, और ( यथा ) जिस प्रकार ( कृशे ) तपस्या द्वारा शरीर को कृश करने वाले त्यक्तभोगी पर या निर्बल पर प्रसन्न या कृपालु होता है उसी प्रकार तू ( एवं अस्मे मत्स्व ) हम पर भी प्रसन्न, कृपालु रह ।

आ नो विश्वे सजोषसो देवासो गन्तनोप नः ।

वसवो रुद्रा अर्वासे न आ गमञ्छुरावन्तु मरुतो हवम् ॥ ३ ॥

भा०—हे ( विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान् पुरुषो ! आप ( विश्वे ) सब लोग ( नः ) हम से ( सजोषसः ) प्रीतियुक्त होकर ( नः उप गन्तन ) हमें प्राप्त हों । ( वसवः ) रक्षक, ( रुद्राः ) दुष्टों को रूलाने वाले, प्राणवत् प्रिय पुरुष, ( नः ) हमें ( अवसे ) रक्षार्थ ( आगमन् )-प्राप्त हों । और ( मरुतः ) वे बलवान् पुरुष ( नः हवम् शृण्वन्तु ) हमारा आह्वान, हमारी पुकार सुनें ।

पुषा विष्णुर्हवनं मे सरस्वत्यवन्तु सप्त सिन्धवः ।

आपो वातः पर्वतासो वनस्पतिः शृणोतु पृथिवी हवम् ॥४॥२४॥

भा०—( पूषा ) सर्वपोषक, सूर्य ( विष्णुः ) व्यापक वायु, ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न वाणी, और ( सप्त सिन्धवः ) शरीरस्थ सातों गतिशील और शरीर को बांधने वाले प्राण, ( आपः ) जल, ( वातः ) वायु, ( पर्वतासः ) मेघगण ( वनस्पतिः ) वनस्पति वृक्षादि, ये सब ( मे हवनं अवन्तु ) मेरे यज्ञाहुति को प्राप्त हों । ( पृथिवी मे हवम् शृणोतु ) समस्त पृथिवी मेरे कथन या दान यज्ञादि को श्रवण करे । मेरी प्रसिद्धि हो ।

यद्विन्द्र राधो अस्ति ते माघोनं मघवत्तम ।

तेन नो वोधि सधमाद्यो वृधे भगो दानाय वृत्रहन् ॥ ५ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! हे ( मघवत्तम ) पूज्य धन के स्वामियों में सर्वश्रेष्ठ ! ( यत् ते राधः ) जो तेरा धन ( माघोनं ) धन स्वामी बनाने वाला है, तू ( सधमाद्यः ) सब के साथ मिलकर प्रसन्न होने वाला होकर ( तेन ) उस धन से ( नः ) हमें भी ( वृधे ) बढ़ाने और ( नः दानाय ) हमें प्रदान करने के लिये ( वोधि ) जान, हे ( वृत्रहन् ) विघ्नों के नाशक ! तू ( भगः ) ऐश्वर्यवान्, सर्वसेवनीय है ।

आजिपते नृपते त्वमिद्धि नो वाज आ वक्षि सुक्रतो ।

वीती होत्राभिरुत देववीतिभिः ससवांसो वि शृणिवरे ॥ ६ ॥

भा०—हे ( आजिपते ) युद्धों के पालक ! हे ( नृपते ) मनुष्यों के पालक ! हे ( सुक्रतो ) उत्तम प्रज्ञावान् ! ( त्वम् इत् हि नः ) तू ही हमें ( वाजे आवक्षि ) संग्राम में धारण कर । ( देव-वीतिभिः ) विद्वानों या शुभ गुणों के प्रकाश करने वाली ( वीती ) ज्ञानयुक्त ( होत्राभिः ) वाणियों से ( ससवांसः ) स्तुति करते हुए विद्वान् जन ( वि शृणिवरे ) विविध प्रकार से सुने जावें ।

सन्ति ह्यैर्य आशिष इन्द्र आयुर्जनानाम् ।

अस्मान्नक्षस्व मघवन्नृपावसे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम् ॥७॥

भा०—( अर्ये ) स्वामी के आश्रय ही ( जनानाम् ) मनुष्यों की सब ( आशिषः सन्ति ) आशाएं होती हैं और ( इन्द्रे ) उसी ऐश्वर्यवान् प्रभु के अधीन समस्त जनों का ( आयुः ) जीवन है । हे ( मघवन् ) प्रभो ! तू ( अस्मान् रक्षस्व ) हमारी रक्षा कर और ( अवसे ) हमें तृप्त करने के लिये ( पिप्युषीम् ) पुष्टि और वृद्धिकारक ( इषं उप धुक्षस्व ) अन्न प्रदान कर ।

वयं त इन्द्र स्तोमेभिर्विधेम त्वमस्माकं शतक्रतो ।

महि स्थूरं शशयं राधो अह्यं प्रस्कण्वाय नि तोशय ॥८॥२५॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( वयम् ) हम ( ते ) तेरा ( स्तोमेभिः ) उत्तम स्तुतियों द्वारा ( विधेम ) वर्णन करें । हे ( शत-क्रतो ) सैकड़ों ज्ञान विज्ञानों से सम्पन्न ! ( त्वं ) तू ( अस्माकं ) हमारा ही है । तू ( प्र.स्कण्वाय ) उत्तम विद्वान् को ( महि स्थूरं ) बहुत बड़ा भारी, स्थिर ( शशयं ) अति प्रशंसनीय, ( अह्यं ) अक्षीण, अविनाशी, ( राधः नि तोशय ) धन प्रदान कर । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥

[ ५५ ]

कुराः काण्व ऋषिः ॥ प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिर्देवता ॥ छन्दः—१ पादनिचृद् गायत्री । २, ४ गायत्री । ३, ५ अनुष्टुप् ॥ पञ्चर्च सूक्तम् ॥

भूरीदिन्द्रस्य वीर्यं वयख्यमभ्यायति । राधस्ते दस्यवे वृक ॥१॥

भा०—हे ( दस्यवे वृक ) प्रजा के नाशक, दस्यु, दुष्ट पुरुष के नाश करने के लिये वृक के समान भयप्रद ! ( इन्द्रस्य ते ) ऐश्वर्यवान् दुष्ट हन्ता तेरे ( वीर्यं भूरि इत् ) बहुत अधिक बल को ही मैं ( वि अख्यम् )

विशेष रूप से साक्षात् करता हूँ और ( ते भूरि राघः ) तेरा बहुत अधिक धन हमारे सम्मुख आता है ।

शतं श्वेतासं उक्षणां दिवि तारो न रोचन्ते ।

महा दिवं न तस्तभुः ॥ २ ॥

भा०—( दिवि ) आकाश में ( शतं ) सैकड़ों ( श्वेतासः ) शुभ वर्ण के, ( उक्षणाः ) नाना पिण्डों, ग्रहों उपग्रहों को वहन करने वाले सूर्य-गण ( तारः न ) तारों के समान ही ( रोचन्ते ) चमकते हैं । वह ( महा ) महान् सामर्थ्य से ( दिवं न ) सूर्य के समान तेजस्वी पिण्डों को भी ( तस्तभुः ) थाम सकते हैं, वह सब उसी प्रभु का महान् बल है ।

शतं वेणुञ्छतं शुनः शतं चर्माणि म्लातानि ।

शतं मे बल्वजस्तुका अरुषीणां चतुःशतम् ॥ ३ ॥

भा०—( शतं वेणून् ) सौ अर्थात् अनेक वीणाएं, ( शतं शुनः ) सौ, अर्थात् अनेक कुत्ते ( शतं म्लातानि चर्माणि ) सैकड़ों बनाये हुए चमड़े, और ( शतं बल्वजस्तुकाः ) सौ मूँज की सी गुच्छों वाली वनभूमियां और ( अरुषीणां चतुःशतम् ) दीप्तियुक्त चमकती कान्ति वाली भूमियों की ४ सौ संख्या । ये सब जिस प्रकार ऐश्वर्यवान् पुरुष के अधीन होती हैं वैसे ( मे ) मेरे भी हों । अर्थात् यह राजसी सैकड़ों बाजे, सैकड़ों कुत्तों के समानस्वामिभक्त प्रहरी वा सेवक, सैकड़ों रक्षार्थ ढालें, और सैकड़ों वन भूमियों, और सैकड़ों चारों ओर पके खेत ये सब ऐश्वर्यवान् वीर राजा की विभूति हैं वे हमें प्राप्त हों ।

सुदेवाः स्थं काण्वायना वयोवयो विचरन्तः ।

अश्वसो न चङ्क्रमत ॥ ४ ॥

भा०—हे ( सु-देवाः ) उत्तम कामनावान् मनुष्यो ! जीवगण ! आप लोग ( काण्वायनाः स्थ ) विद्वान् पुरुषों के अधीन उसके आश्रय

उसके समीप जाने वाले होकर रहो । आप लोग ( वयः वयः चरन्तः ) एक के बाद दूसरी अवस्था को व्यतीत करते हुए, वा एकसे एक, उत्तरोत्तर बल, ज्ञान, योग्यता आदि प्राप्त करते हुए, (अश्वासः न) अश्वों के समान वीरतापूर्वक ( चङ्क्रमत ) बराबर कदम बढ़ाते चलो ।

आदित्साप्तस्य चर्किरन्नानूनस्य महि श्रवः ।

श्यावीरतिध्वसन्पथश्चक्षुपा च न सं नशे ॥ ५ ॥ २६ ॥

भा०—( साप्तस्य ) सातों प्राणों वा सातों विकारों के स्वामी (अनूनस्य) अन्यून अर्थात् पूर्ण पुरुष का ( महि श्रवः ) महान् यश (चर्किरन्) सर्वत्र ही फैला रहे हैं । ( श्यावीः पथः ) राजस और तामस मार्गों को विद्वान् जन अतिक्रमण करता हुआ जीवगण ( चक्षुपा न ) चक्षु से भी उसकी विभूतियों को ( सं नशे ) अच्छी प्रकार साक्षात् करता है । इति षड्विंशो वर्गः ॥

[ ५६ ]

पृषधः काण्व ऋषिः ॥ १—४ प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिः । ५ अग्निस्त्रयो देवते ॥

छन्दः—१, ३, ४ विराड् गायत्री । २ गायत्री । ५ निचृत् पंक्तिः ॥ पञ्चर्च सूक्तम् ॥

प्रति ते दस्यवे वृक राधो अदृश्यह्यम् ।

द्यौर्न प्रथिना शवः ॥ १ ॥

भा०—हे ( दस्यवे वृक ) दुष्ट चोर-पुरुषों के विनाश के लिये प्रकृति सिद्ध, तेजस्वी वीर पुरुष ! ( ते राधः ) तेरे ऐश्वर्य को मैं ( अह्यं प्रति अदर्शम् ) प्रत्यक्ष रूप में अविनाशी रूप से देखता हूँ । ( ते शवः ) तेरा महान् बल भी ( द्यौः न प्रथिना ) महान् आकाश के समान विस्तृत है ।

दश मह्यं पौतकृतः सहस्रा दस्यवे वृकः ।

नित्याद्वायो अमंहत ॥ २ ॥

भा०—( दस्यवे वृकः ) दस्यु सत्-कर्मों के नाशकारी दुष्ट पुरुष

को नाश करने या दूर करने के लिये जिस प्रकार 'वृक' के समान कठोर स्वभाव वाला, बलवान् शस्त्रधारी पुरुष ही समर्थ होता है उसी प्रकार आत्मा की शक्तियों के नाशकारी काम, क्रोध, लोभ, मोहादि भीतरी चोर डाकुओं को नाश करनेवाला ज्ञान का प्रकाशक सूर्यवत् तेजस्वी, (पौतक्रतः) पवित्र ज्ञान और पवित्र कर्म करने वाला वह प्रभु (मह्यं) मुझे (नित्याद्) नित्य, सनातन ज्ञान-कोश वेद से (दशसहस्रा वयः) दस सहस्र मन्त्र रूप धन, (अमंहत) प्रदान करता है। इसी प्रकार आचार्य भी शिष्य के अज्ञान दूर करने वाला हो और वह नित्य वेद के दस सहस्र ऋचाओं का ज्ञान प्रदान करे। वृकश्चन्द्रमा भवति, विवृतज्योतिष्को वा, विकृतज्योतिष्को वा, विक्रान्तज्योतिष्को वा। आदित्योपि वृक उच्यते यदा वृङ्क्ते। श्वापि वृक उच्यते विकर्त्तनात्। निरु० ५।४।१ ॥ वृको लाङ्गलो भवति विकर्त्तनात्। निरु० ६।५।३ ॥ अत्र दस्युपक्षे विकर्त्तनात् वृकः। आदित्यपक्षे विद्वत्पक्षे ईश्वरपक्षे च विकृतज्योतिष्को विक्रान्तज्योतिष्कोः यदावृङ्क्ते इति वृक। इति विवेकः।

दस्युः—दस्युर्दस्यतेः क्षयार्थात् उपपदस्यन्त्यरिमनसा, उपदासयति कर्माणि।

शतं मे गर्दभानां शतमूर्णावतीनाम्। शतं दासाँ अति स्रजः॥३॥

भा०—वह प्रभु (मे) मुझे प्रजाजन को (गर्दभानां शतम्) सौ गर्दभ अनेक जाति के जीव, (ऊर्णावतीनाम् शतम्) उन वाली भेड़ों की जाति के सौ, अनेक पशु (शतं दासान्) सौ दास, भृत्य, कर्म-कर (अति-स्रजः) प्रदान करता है। जब भृत्यों ने भृति अर्थात् शरीरपोषण मात्र वेतन लेकर ही कार्य करना है तो उनका एक के यहां से दूसरे के यहां परिवर्तन हो जाना कोई-असंगत नहीं है। एक राजा का एक विद्वान् की सेवा में सैकड़ों भृत्य नियुक्त करना क्या बुरा है? जब कि उनका वेतन वैसे का वैसे और कार्य भी वैसे ही है। क्या इसी प्रकार शत्रुनाशक सेनादि के सौ २ के दस्तों का परस्पर दान-आदान नहीं होता? क्या वह बुरा है?

तत्रो अपि प्राणीयत पूतक्रतायै व्यक्ता ।  
अश्वानामिन्न युथ्याम् ॥ ४ ॥

भा०—( अश्वानाम् यूथ्याम् इत् न ) अश्वों या घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी या सेना के समान ही ( तत्र उ अपि ) वहां भी ( पूत-क्रतायै ) पवित्र ज्ञान और पवित्र कर्म करने वाले व्यक्ति की सेवा में उपकार के लिये ( व्यक्ता ) स्पष्टरूप से ( प्रभनीयत ) उक्त सैकड़ों पशु गधे, भेड़ और भृत्यों को कार्य में लगा दिया जावे ।

अचेत्यग्निश्चिकितुर्व्यवाद् स सुमद्रथः । अग्निः शुक्रेण  
शोचिषा बृहत्सुरो अरोचत दिवि सूर्यो अरोचत ॥ ५ ॥ २७ ॥

भा०—( चिकितुः ) ज्ञानवान् पुरुष ( अग्निः ) अग्नि के समान तेजस्वी, अग्रनायक ( हव्य-वाद् ) उत्तम अन्न को ग्रहण करने वाला हो । ( सः ) वह ( सुमद्-रथः ) उत्तम स्वरूप, और उत्तम रथ वाला हो । वह ( शुक्रेण शोचिषा ) कान्तियुक्त तेज से ( अग्निः ) अग्नि के समान ही, ( शुक्रेण शोचिषा ) वीर्य और तेज, ब्रह्मचर्य और उसके प्रभाव से युक्त, ( बृहत् सुरः ) महान् सूर्य के समान ( अरोचत ) चमके, प्रकाशित हो, सबको प्रिय लगे । ( दिवि सूर्यः ) आकाश में सूर्य के समान वह ( दिवि ) ज्ञान विज्ञान वा उस पृथिवी पर ( अरोचत ) चमकता है । इति सप्तविंशो वर्गः ॥

[ ५७ ]

मेध्यः काण्व ऋषिः ॥ अश्विनौ देवतं ॥ छन्दः—१ विराट् त्रिष्टुप् । २, ३  
निचृत् त्रिष्टुप् । ४ पादनिचृत् त्रिष्टुप् ॥ चतुर्ध्वेचं सूक्तम् ॥

युवं देवा क्रतुना पूव्येण युक्ता रथेन तविषं यजत्रा ।

आगच्छतं नासत्या शचीभिरिदं तृतीयं सर्वनं पिवाथः ॥ १ ॥

भा०—हे ( नासत्या ) सदा सत्याचरणशील स्त्री पुरुषो ! ( युवं ) आप दोनों ( देवा ) उत्तम दानशील, ज्ञान धनादि के दान देने में समर्थ

होकर ( पूर्व्येण ) अपने पूर्व के, वा शान्तिपूर्ण ( क्रतुना ) कर्म सामर्थ्य से ( युक्ता ) युक्त एवं सावधान, एकाग्रचित्त, ( यजत्रा ) यज्ञशील दानपरायण, ईश्वरोपासना में रत होकर ( तविपं ) बल या दृढ़तापूर्वक ( आ गच्छतम् ) और आगे बढ़ो । ( शचीभिः ) शक्तियों और वेदवाणियों द्वारा ( इदं तृतीयं सवनं ) इस तृतीयसवन, तीसरे आश्रम को भी ( पिबथः ) पालन करो ।

अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद् वर्षाणि तत् तृतीयं सवनं । अष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगती । जागतं तृतीयं सवनं तस्यादित्या अन्वायत्ताः । प्राणा वा वादित्या एतेहीदं सर्वमाददते । तं चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात् प्राणा आदित्या इदं मे तृतीयसवनमनुसंतनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीये त्युद्धैव तत् एत्यगदो हैव भवति ॥ ( छान्दोग्योपनिषद् । अ० ३ । ख० १६ ॥

जीवन के ४८ वर्ष बीतने पर तीसरा सवन है । वह जगत् के उपकारार्थ होता है । उसका ज्ञापक जगतीछन्द है । जगतीछन्द के ४८ अक्षर होते हैं । उसको आदित्य प्राप्त होते हैं । प्राण आदित्य हैं, वे उसका ग्रहण करते हैं । इस अवस्था में तप करना यज्ञ में तृतीय सवन के समान है । जो यज्ञ का नाश न करे वह उन्नति को प्राप्त होता है और उसके सब दुःखों का नाश होता है ।

युवां देवास्त्रय एकादशासः सत्याः सत्यस्य ददृशे पुरस्तात् ।  
अस्माकं यज्ञं सवनं जुपाणा प्रातं सोममश्विना दीद्यमी ॥ २ ॥

भा०—( देवाः ) दिव्य गुणों के धारण करने वाले ( त्रयः एकादशासः ) ११ × ३ = ३३ ( सत्याः ) सत् गुण से युक्त हैं । विद्वान् पुरुषों ने ( सत्यस्य पुरस्तात् ददृशे ) इस सत्य का पहले ही दर्शन किया है । हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! ( दीद्यमी ) प्रज्वलितान्नि होकर ( युवां ) आप दोनों ( अस्माकं ) हमारे ( सवनं यज्ञं ) यज्ञ



सवन का प्रेमपूर्वक सेवन करते हुए ( सोमं पातम् ) यज्ञ में ओषधि रसवत् देह में वीर्य का पालन और उसका ज्ञान-अर्जनादि में उपयोग किया करो ।

पनाय्यं तदश्विना कृतं वां वृषभो द्विवो रजसः पृथिव्याः ।

सहस्रं शंसा उत ये गविष्टौ सर्वा इत्तां उप यातं पिवध्वै ॥ ३ ॥

भा०—( दिवः ) आकाश ( रजसः ) अन्तरिक्ष और ( पृथिव्याः ) भूमि का ( वृषभः ) मेघ, सूर्य अग्निवत् वर्षण करने वाला, विद्वान् पुरुष ( वां ) तुम दोनों के प्रति ( पनाय्यं ) स्तुत्य ( कृतं ) कर्त्तव्य कर्म का उपदेश करे । ( ये ) जो विद्वान् लोग ( गविष्टौ ) वेद-वाणियों के ज्ञान प्रदान के निमित्त ( सहस्रं शंसा ) सहस्रों मन्त्रों का उपदेश करते हैं हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! ( तान् सर्वान् ) उन सब के ( उप ) पास ( पिवध्वै ) व्रत पालन और ज्ञान प्राप्ति के लिये ( उप यातम् ) प्राप्त होवो ।

अयं वां भागो निहितो यज्ञत्रेमा गिरो नामृत्योप यातम् ।

पिवतं सोमं मधुमन्तमस्मे प्र दाश्वांसमवतं शचीभिः ॥४॥२८॥

भा०—हे ( नासत्या ) असत्य का परित्याग कर सत्य व्रत का ही पालन करने की प्रतिज्ञा करने वाले स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( यज्ञत्रा ) यज्ञशील; दानशील होकर ( इमा गिरः उप यातम् ) इन वेद-वाणियों को प्राप्त करो । ( अयं वां भागः निहितः ) यह तुम दोनों का सेवन करने योग्य मार्ग निश्चित किया गया है । ( अस्मे ) हमारे इस ( मधुमन्तम् ) मधुर ज्ञान से युक्त ( सोमं ) उपदेश का ( पिवतं ) पान करो और ( शचीभिः ) उत्तम वाणियों, शक्तियों और सत्क्रियाओं से ( दाश्वांसम् प्र अवतम् ) ज्ञानदाता को उत्तम रीति से प्राप्त होवो और उसकी रक्षा करो । इत्यष्टाविंशो वर्गः ॥

[ ५८ ]

मेध्यः काण्व ऋषिः ॥ १ विश्वेदेवा ऋत्विजो वा । २, ३ विश्वेदेवा देवताः ॥

छन्दः—१ मुरिक् त्रिष्टुप् । २ निचृत् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् ॥

यमृत्विजो बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति । यो  
अनूचानो ब्राह्मणो युक्त आसीत्का स्वित्तत्र यजमानस्य संवित् १

भा०—( यं ) जिस ( यज्ञं ) पूजा, अर्चना, उपासना करने योग्य परमेश्वर की ( बहुधा ) बहुत से प्रकारों से ( कल्पयन्तः ) कल्पना करते हुए, ( सचेतसः ) ज्ञानवान्, तत्समान चित्त होकर ( ऋत्विजः ) प्रति ऋतु, प्रति प्राण, ज्ञानपूर्वक यज्ञोपासना करने वाले, विद्वान्जन ( इमं ) इस उपास्य यज्ञ को ( वहन्ति ) हृदय में ज्ञान और कर्मरूप से धारण करते हैं । ( यः ) जो ( अनूचानः ) विद्वान्, बहुश्रुत ( ब्राह्मणः ) ब्रह्म, वेद का ज्ञाता पुरुष ( युक्तः आसीत् ) इस यज्ञ वा उपासना कार्य में नियुक्त होता है ( तत्र ) उसमें ( यजमानस्य का स्वित् संवित् ) यजमान की किस प्रकार मनोभावना, वा पारमार्थिक प्राप्ति होती है ?

एक एवाग्निर्वहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः ।

एकैवोषाः सर्वमिदं वि भात्येकं वा इदं वि वभूव सर्वम् ॥२॥

भा०—उस उपास्य को यज्ञ द्वारा उपासना करने में यजमान की ऋत्विजों के साथ इस प्रकार की सम्यग् दृष्टि होनी चाहिये कि—जिस प्रकार ( एकः एव अग्निः ) एक ही अग्नि ( बहुधा समिद्धः ) आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि आदि नाना प्रकार से संदीप्त किया जाता है, और जिस प्रकार ( एकः सूर्यः ) एक ही सूर्य ( विश्वम् अनु प्रभूतः ) समस्त विश्व के प्रति प्रकाश ताप देने और जगत् के गतिमान् पिण्डों को स्तम्भन करने में पर्याप्त समर्थ होता है और जिस प्रकार ( एका एव उषाः ) एक ही उषा ( इदं सर्वं वि भाति ) इस सब ब्रह्माण्ड को विशेष रूप से चमका देती

है, इसी प्रकार ( इदं ) यह ( सर्वम् ) सब भी ( एकं वा वि बभूव ) एक ही सत् पदार्थ नाना रूप से प्रकट होता है । समस्त विश्व में वही परमात्मा, अग्निवत् स्वप्रकाश, सूर्यवत् सर्वप्रकाशक और उपावत् सर्व जगत् का प्रवर्तक है ।

ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्रं सुखं रथं सुपदं भूरिवारम् ।  
चित्रामवा यस्य योगेऽधिजज्ञे तं वां हुवे अतिरिक्तं पिवध्वै ३।२९

भा०—विराट् रथ का वर्णन । ( यस्य योगे ) जिसके प्राप्त होने पर ( चित्रा मवा अधिजज्ञे ) अद्भुत ऐश्वर्य की विभूति उत्पन्न होती है ( तं रिक्तम् ) सर्वातिशायी, सब से बड़ के शक्तिशाली उसका ( पिवध्वै ) आनन्द-रस पान करने के लिये ( वां अति हुवे ) आप दोनों को मैं उपदेश करता हूँ । वह कैसा है । अग्नि के समान ( ज्योतिष्मन्तं ) ज्योतिष्मान्, तेजोमय ( केतुमन्तं ) ज्ञानवान् ( त्रिचक्रं रथं ) रथ के समान तीन चक्रों वाला, ( सुखं ) सुखप्रद, उत्तम आकाशों, वाइन्द्रिय वा छिद्रों से युक्त, ( सु-पदं ) उत्तम रीति से सुखपूर्वक रहने योग्य, व सुख से जाने या गति करने वाला, ( भूरि-वारम् ) बहुतों से वरणीय, बहुत से कष्टों का वारक है, ( तं वा हुवे ) मैं उसका तुमको उपदेश करता हूँ । विराट् प्रभु ईश्वर, ज्योतिस्वरूप, ज्ञानवान् है । प्रकृति के तीन गुण उसके तीन चक्र अर्थात् संसार के रचना करने के साधनवत् हैं वह आनन्दमय, सुख से प्राप्य, सहस्रों कष्टों का वारण करता है । सब से महान् होने से 'रिक्त' है । उस ब्रह्मरस का पान करने के लिये सबको मैं उपदेश करता हूँ । इत्ये-  
कोनविंशो वर्गः ॥

[ ५९ ]

सुपर्णः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः—१ जगती । २, ३ निचृ-  
ज्जगती । ४, ५, ७ विराट् जगती । ६ त्रिष्टुप् ॥ षट्चं सूक्तम् ॥

इमानि वां भागधेयानि सिञ्चत इन्द्रावरुणा प्रमहे सुतेषु वाम् ।  
यज्ञेयज्ञे ह सर्वना भुरण्यथो यत्सुन्वते यजमानाय शिक्षयः ॥१॥

भा०—ओपधियों में जिस प्रकार विद्युत् तत्व, और रोगनिवारक जल तत्व दोनों ही पान करने वाले को बल देते और उसके रसों को पुष्ट करते हैं उसी प्रकार हे (इन्द्रावरुणा) इन्द्र, ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन्तः ! हेवरुण, दुःखवारक सर्वश्रेष्ठ ! सेनापति, राजन् ! (सुतेषु) उत्पन्न ऐश्वर्यों के निमित्त (वाम्) तुम दोनों का (प्रमहे) उत्तम आदर करता हूं । (इमानि) ये (वां भागधेयानि) आप दोनों के सेवनीय अंश (प्रसिञ्चते) फैल रहे हैं । (यज्ञेयज्ञे ह) प्रत्येक यज्ञ में (यत्) जो आप दोनों (यजमानाय) यजमान, यज्ञकर्त्ता को (शिक्षयः) साहाय प्रदान करते हो और (सर्वना भुरण्यथः) नाना उत्तम ऐश्वर्यों को पुष्ट करते हो इसलिये तुम्हारे देने योग्य अंश हैं ।

निःषिध्वरी रोषधीराप आस्तामिन्द्रावरुणा महिमानमाशत ।  
या सिञ्चतु रजसः पारे अध्वनो ययोः शत्रुर्नकिरादेव ओहते २

भा०—राष्ट्र में (इन्द्रावरुणा) सेनापति और राजा वा सभापति दोनों ही (आस्ताम्) विराजें, स्थिर आसन पर बैठें । और (ओपधीः आपः) विशेष तेज धारण करने वाली आपस प्रजागण (निःषिध्वराः) शत्रुओं का निषेध, परिहार करने में समर्थ होकर (महिमानम् आशत) महान् सामर्थ्य को प्राप्त करें । (ययोः शत्रुः) जिन दोनों का का शत्रु (नकिः अत् एव ओहते) कोई भी समर्थ नहीं होता, और (या) जो दोनों (रजसः पारे अध्वनः) अन्तरिक्ष के पार के मार्ग में (सिञ्चतुः) जाते हैं वे उत्तम आसन पर विराजें ।

सत्यं तदिन्द्रावरुणा कृशस्य वां मध्व ऊर्मि दुहते सप्त वाणीः ।  
ताभिर्दाश्वान्समवतं शुभस्पती यो वामदधो अभि पाति  
चित्तिभिः ॥ ३ ॥

भा०—हे (इन्द्रावरुणा) ऐश्वर्यवन् ! हे वरण करने योग्य श्रेष्ठ जनो ! ( वां ) आप दोनों के प्रति ( कृशस्य ) तपस्या द्वारा कृश हुए तपस्वी जन की ( सप्त वाणीः ) सातों छन्दों वाली वेद-वाणियां ( सत्यं ) सत्य ज्ञान और ( मध्वः ) मधुर, आनन्दप्रद ज्ञान के ( ऊर्मिम् ) तरंग को ( दुहते ) दोहन या प्रदान करता है, अथवा, आप दोनों की वा आप दोनों के विषयक वाणियां तपस्वी जन को सत्य ज्ञान और आनन्द प्रदान करती हैं। (ताभिः) उन वाणियों से आप दोनों ( शुभः पती ) शुभ, कल्याण मार्ग के पालक आप दोनों उस ( दाश्रांसम् अवतम् ) दानशील भद्र पुरुष की रक्षा वा ज्ञान दान करते हो। जो ( अदब्धः ) अबाधित होकर ( वान् ) आप दोनों के ( चितिभिः ) उत्तम ज्ञानों उत्तम विचारों द्वारा ( अभिपाति ) रक्षा करता है।

घृतप्रुषः सौम्या जीरदानवः सप्त स्वसारः सदन ऋतस्य । या  
हं वामिन्द्रावरुणा घृतश्रुतस्ताभिर्धत्तं यजमानाय शिक्षतम् ४।३९

भा०—हे ( इन्द्रा वरुणा ) ऐश्वर्यवन् ! हे श्रेष्ठ पुरुष ! आचार्य स्वयं-वृत गुरो ! ( याः ) जो ( वाम् ) आप दोनों की, ( घृत-प्रुषः ) जल बिन्दु-निपेकवत् शीतल सुखदायिनी, स्नेहयुक्त, ( सौम्या ) सौम्य, उत्तम शिष्यों के हितकारिणी, ( जीर-दानवः ) जीवन प्रदान करने वाली, ( सप्त-स्वसारः ) सात वहनों के समान सात छन्दोमयी स्वयं अनायास बाहर आने वाली, वा सुखपूर्वक अज्ञान का नाश करने वाली, ( घृत-श्रुतः ) तेजः प्रकाश के देने वाली वाणियां हैं ( ताभिः ) उन वाणियों से आप दोनों ( यजमानाय ) दानशील, आत्मसमर्पक जन को ( ऋतस्य सदाने ) सत्य ज्ञान और न्याय के स्थान में ( धत्तम् ) स्थापित करो और ( शिक्षतम् ) उत्तम शिक्षा करो।

अवोचाम महते सौमगाय सत्यं त्वेषाभ्यां महिमानमिन्द्रियम् ।  
अस्मान्तिस्वन्द्रावरुणा घृतश्रुतस्त्रिभिः साप्तेभैरवतं शुभस्पती ५

भा०—( महते सौभगाय ) बड़े भारी सुखप्रद ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये ( त्वेषाभ्याम् ) दीप्तियुक्त, तेजस्वी, इन्द्र और वरुण, विद्युत् और जलवत् शत्रु नाशक और दुःखवारक जनों के ( सत्यं महिमानम् ) सच्चे महत्व और सच्चे ( इन्द्रियम् ) ऐश्वर्य की ( अवोचाम ) हम स्तुति करें । हे ( शुभः-पती ) शुभ गुणों और कर्मों के पालको ! आप दोनों ( त्रिभिः सप्तैभिः )  $3 \times 7 = 21$  तत्त्वों से ( घृत-श्रुतः ) जलप्रद, वा घृताहुति देने वाले (अस्मान् ) हम लोगों का सूर्य जल, वा विद्युत् जल के समान ( सु अवतम् ) सदा अच्छी प्रकार रक्षा करो ।

इन्द्रावरुणा यदृषिभ्यो मनीषां वाचो मतिं श्रुतमदत्तमग्रे ।

यानि स्थानान्यसृजन्त धीरां यज्ञं तन्वानास्तपसाभ्यपश्यम् ॥६॥

भा०—हे ( इन्द्रावरुणा ) सत्य ज्ञान के साक्षात् दर्शन करने वाले 'इन्द्र' और गुरु, आचार्य रूप से वरण करने योग्य और पापों से निवारण करने हारे श्रेष्ठ जनो ! आप दोनों ( यत् ) जिस ( मनीषाम् ) ज्ञान की प्रेरणा, और ( याः वाचः ) जिन वाणियों और ( याम् मतिम् ) जिस बुद्धि और ( यत् श्रुतम् ) गुरु द्वारा श्रवण करने योग्य जिस वेदोपदेश को ( अग्रे ) सबसे प्रथम ( अदत्तम् ) प्रदान करते हो और या जिन ( स्थानानि ) स्थानों, पदों या गृहादि शालाओं, आश्रमों वा लोकों को ( धीराः ) बुद्धिमान् लोग ( यज्ञं तन्वानाः ) यज्ञ का विस्तार करते हुए (असृजन्त) बनाते हैं उन सब को मैं (तपसा अभि अपश्यम्) तप द्वारा साक्षात् करूँ ।

इन्द्रावरुणा सौमनसमदृप्तं रायस्पोषं यजमानेषु धत्तम् ।

प्रजांस्पुष्टिम्भूतिमस्मासु धत्तं दीर्घायुत्वायुं प्रतिरतं न आयुः७।३१

भा०—हे (इन्द्रावरुणा) पूर्वोक्त इन्द्र वरुण ! हे तत्त्वदर्शिन ! हे गुरो ! आप दोनों ( यजमानेषु ) सत्कार, मान, दान, यज्ञ, सत्संग आदि करने वाले जनों में ( अदृप्तं सौमनसं ) दर्प या गर्व से रहित उत्तम चित्त का भाव और (अदृप्तम् रायः पोषम् धत्तम्) गर्व से रहित धनैश्वर्य की समृद्धि

धारण कराओ और आप के सत्संगी लोगों में गर्वरहित शुद्ध चित्त और धनसम्पत्ति हो । ( अस्मासु ) हम में ( प्रजां, पुष्टिम्, भूतिम् धत्तम् ) उत्तम सन्तान, उत्तम पुष्टि और उत्तम धनसमृद्धि धारण कराओ । और ( नः आयुः ) हमारी आयु को ( दीर्घायुत्वाय ) दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिये ( प्र तिरतम् ) बढ़ाओ । इत्येकत्रिंशो वर्गः ॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥

इति वालखिल्यं समाप्तम् ॥ १

[ ६० ]

भर्गः प्रागाथ ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः—१, ६, १३, १७ विराड्  
चृहती । ३, ५ पादनिचृद् वृहती । ११, १५ निचृद् वृहती । ७, १६ वृहती ।  
२ आर्ची स्वराट् पंक्तिः । १०, १६ पादनिचृद् पंक्तिः । ४, ६, ८, १४, १८,  
२० निचृद् पंक्तिः । १२ पंक्तिः ॥ विशत्यृचं सूक्तम् ॥

अग्न् आ याह्यग्निभिर्होतारं त्वा वृणीमहे ।

आ त्वामनक्नु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं वहिरासदे ॥ १ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) अग्निवत् तेजस्विन् ! हे सर्वाग्रणी नायक ! हे प्रकाशस्वरूप ! तू ( अग्निभिः ) गार्हपत्यादि नाना अग्नियों सहित यज्ञाग्नि के समान वा अग्नियों सहित होता के समान तू ( अग्निभिः ) अन्य ज्ञानी पुरुषों तथा अग्रणी, ज्ञान-प्रकाशक तेजस्वी पुरुषों के साथ ( आ याहि ) प्राप्त हो । ( होतारं त्वां वृणीमहे ) अपने समीप प्रेम से बुलाने और ज्ञान ऐश्वर्यादि देने वाले तुझ को हम वरण करते, चाहते और तुझसे ही याचना करते हैं । ( यजिष्ठं ) अतिदानशील ( त्वाम् ) तुझ को ( हविष्मती ) दी हुई हवि वाली आहुति अग्नि को जैसे प्रकाशित करती है उत्तम हवि,

१ वालखिल्यसूक्ते सायणीयं भाष्यं नास्ति । ऐतरेयभाष्येऽपि तेन अथावेव वालखिल्यानि स्वीक्रियन्ते । माक्समूलरादि सम्पादितायां तु ऋक्संहितायामेकादश सूक्तानि पठ्यन्ते । तान्येवात्र व्याकृतानि ।

ग्राह्य ज्ञानादि से युक्त ( प्रयता ) अच्छी प्रकार सुसंयत, सुप्रबद्ध वाणी वा नीति ( बर्हिः ) आसनवत् वृद्धिशील राष्ट्र, वा प्रजाजनो वा लोकों पर ( आसदे ) शासनार्थ विराजने के लिये ( आ अनक्तु ) अच्छी प्रकार प्रकाशित करे, वह तेरे गुणों को दर्शावे ।

अच्छा हि त्वा सहसः सूनो अङ्गिरः सुचश्चरन्त्यध्वरे ।

ऊर्जा नपातं घृतकेशमीमहेऽग्निं यज्ञेषु पूर्व्यम् ॥ २ ॥

भा०—हे ( सहसः सूनो ) बल, सैन्यादि के प्रेरक ! हे ( अङ्गिरः ) अंग में रसवत् राष्ट्र में बलवन् ! ( त्वा हि अच्छ ) तुझे लक्ष्य करके ही ( अध्वरे सुचः ) यज्ञ में सुचों के समान ही समस्त प्रजागण, ( चरन्ति ) चलते हैं । हम ( ऊर्जः नपातं ) बल, उत्तम अन्न और वृष्टि को सूर्यादि के तुल्य नष्ट न होने देने वाले वा शक्ति के पुत्रवत् उससे प्रजाओं को बांधने और उनको स्वयं प्रबद्ध करने वाले ( घृत-केशम् ) सिग्ध केश वाले, सुकेश, एवं प्रदीप्त तेज को केशोवत् धारण करने वाले ( यज्ञेषु पूर्व्यम् ) यज्ञों, सत्संगों में एवं यज्ञादि कार्यों के निमित्त, सबसे पूर्व, श्रेष्ठ, ( अग्निम् ईमहे ) अग्रणी, तेजस्वी ज्ञानादि के प्रकाशक पुरुष को ही हम प्राप्त हों और उससे ही ( ऊर्जः ईमहे ) बलों, अन्नों आदि की याचना करते हैं ।

अग्ने कविर्वेधा असि होता पावक यक्ष्यः ।

मन्द्रो यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्यो विप्रैभिः शुक्र मन्मभिः ॥ ३ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) अग्रणी ! तेजस्विन् ! ज्ञानप्रकाशक विद्वन् ! प्रभो ! स्वामिन् ! तू ( कविः असि ) मेधावी, क्रान्तदर्शी विद्वान् हो तू ( वेधाः असि ) बुद्धिमान् कार्यकर्ता, फलों का सम्पादनकर्ता, जगत् का विधाता ( असि ) है । हे ( पावक ) पवित्र करने हारे ! तू ( यक्ष्यः ) पूज्य उपास्य ( होता ) सब ऐश्वर्यों का दाता है । तू ( मन्द्रः ) स्तुति योग्य, सबको हर्ष अ नन्द का देने वाला, ( यजिष्ठः ) सबसे बड़ा दानी ( अध्व-



रेपु ) यज्ञों में ( मन्मभिः ) उत्तम मन्त्रों द्वारा और ( विप्रेभिः ) विद्वानों द्वारा ( ईड्यः ) स्तुत्य है ।

अद्रोघमा वहोशतो यविष्ठय देवाँ अजस्र वीतये ।

अभि प्रयांसि सुधिता वसो गहि मन्दस्व धीतिभिर्हितः ॥ ४ ॥

भा०—हे ( यविष्ठय ) बलवन् ! हे ( अजस्र ) भविनाशिन् ! नित्य ! तू ( अद्रोघम् ) द्रोहरहित मुझ को ( उशतः देवान् ) उत्तम कामना वा प्रीति करने वाले देव, विद्वान् पुरुषों के पास, वा मेरे प्रति उत्तम विद्यादि के इच्छुक शिष्यों, वा विद्वानों को ( वीतये ) ज्ञानप्रकाश करने, रक्षा करने और उत्तम अन्नादि खाने के लिये ( आ वह ) प्राप्त करा । हे ( वसो ) विद्वन् ! पितावत् सबको बसाने वाले ! तू ( सुधिता ) उत्तम भाव से स्थापित ( प्रयांसि ) उत्तम अन्नों को, भावों को ( अभि गहि ) प्राप्त कर । तू ( हितः ) स्थापित वा समाहित होकर ( धीतिभिः मन्दस्व ) उत्तम कर्मों और स्तुति, उपदेश प्रद वाणियों से प्रसन्न और तृप्त हो ।

वामित्सुप्रथा अस्यग्ने त्रातऋतस्कृविः ।

त्वां विप्रांसः समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेधसः ॥५॥३२॥

भा०—हे ( अग्ने ) ज्ञानवन् ! प्रकाशस्वरूप प्रभो ! ( त्वम् इत् ) तू ही ( स-प्रथाः ) सब से बड़ा, ( असि ) है । हे ( त्रातः ) रक्षक ! तू ही ( ऋतः ) सत्यस्वरूप, न्यायशील और तू ही ( कविः ) भूत भविष्यादि को लांघ कर सर्वोपरि द्रष्टा है । हे ( सम-इधान ) समान भाव से सदा सर्वत्र देदीप्यमान ! हे ( दीदिवः ) तेजस्विन् ! ( वेधसः ) कर्ता, विद्वान्, ( विप्रांसः ) कर्मण्य पुरुष ! ( त्वाम् आविवासन्ति ) यज्ञान्निवत् तेरी ही सेवा करते हैं । इसी से सर्वोपरि नायक का भी वर्णन किया । इति द्वात्रिंशो वर्गः ॥

शोचा शोचिष्ठ दीदिहि विशे मथो रास्व स्तोत्रे महँ असि ।

देवानां शर्मन्मम सन्तु सूरयः शत्रूपाहः स्वग्नयः ॥ ६ ॥

भा०—हे ( शोचिष्ठ ) अति तेजस्विन्, तू ( शोचा ) तेज से ( दीदिहि ) चमका । ( स्तोत्रे विशे ) स्तुति करने वाली प्रजा को ( मयः रास्व ) सुख प्रदान कर । ( देवानां महान् असि ) विद्वानों के बीच और सब गुणों में, प्रकाश युक्त किरणों में सूर्यवत् तू महान् है । राजा चाहे कि ( मम शर्मन् ) मेरी शरण में, मेरे गृह में ( शत्रु-साहः ) शत्रुओं को पराजय करने वाले वीर पुरुष ( सूर्यः ) विद्वान् और ( सु-अमयः ) उत्तम अग्निवत् तेजस्वी नायक हों ।

यथा चिद्धृद्धमतसमग्ने सजूर्वासि क्षमि ।

एवा दह मित्रमहो यो अस्मद्भुग्दुर्मन्मा कश्च वेनति ॥ ७ ॥

भा०—( यथा चित् ) जिस प्रकार अग्नि ( क्षमि ) पृथिवी पर पड़े ( वृद्धम् अतसम् ) बड़े भारी लकड़ को भी जला देता है ( एव ) उसी प्रकार हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! नायक ! हे ( मित्रमहः ) मित्रों से पूज्य वा मित्रों में महान् ! ( क्षमि ) भूमि पर विद्यमान ( वृद्धम् ) बड़े हुए उसको आवश्यक ( दह ) जला ( यः ) जो ( अस्मद्भुक् ) हमारा द्रोही ( दुर्मन्मा ) दुष्ट चित्त वाला, ( कः च वेनति ) कोई भी यज्ञ करता, शोभा पाता है, या अपने बाजे बजाता है या आदर चाहता है । वेनति—वेनृ गतिज्ञान चिन्तानिशामनवादित्रग्रहणेपु । अथवा वेनतिर्गतिकर्मा, कान्तिकर्मा, अर्चतिकर्मा च ।

मा नो मर्त्तय रिपवै रक्षास्विने माघशंसाय रीरधः ।

अस्त्रेधद्भिस्तरणिभिर्यविष्ठय शिवेभिः पाहि प्रायुभिः ॥ ८ ॥

भा०—हे ( यविष्ठय ) अतिबलशालिन् ! तू ( नः ) हमें ( रिपवै मर्त्तय ) शत्रु मनुष्य और ( रक्षास्विने ) दुष्ट पुरुषों वाले के हित ( मा रीरधः ) मत पीड़ित कर और तू ( अघ-शंसाय मा रीरधः ) पाप की शिक्षा देने वाले के अधीन मत कर । तू ( अस्त्रेधद्भिः ) अहिंसक, ( तरणिभिः ) संकटों से पार उतारने में समर्थ दयाशील ( शिवेभिः ) शान्तिकारक, कल्याणकारी, ( प्रायुभिः ) पालनकर्त्ताओं द्वारा ( पाहि ) पालन कर ।

पाहि नो॑ अ॒ग्न ए॒कया॑ पा॒ह्यु॑त द्वि॒तीयया॑ ।

पाहि गी॒र्भिस्ति॒सृभि॑रूर्जा॒म्पते॑ पा॒हि च॑त॒सृभि॑र्वसो ॥ ९ ॥

भा०—हे ( वसो ) अपने अधीन प्रजाओं वा शिष्यगणों को बसाने वाले प्रजापते ! हे ( ऊर्जाम्पते ) नाना अन्नों, बलों के पालक ! तू ( नः ) हमें ( एकया गिरा पाहि ) एक वेदवाणी से पालन कर । ( उत द्वितीयया गिरा पाहि ) और दूसरी वेद वाणी से भी पालन कर । ( तिसृभिः गीर्भिः पाहि ) तीन वेद वाणियों से पालन कर । ( चतसृभिः गीर्भिः पाहि ) चारों वेद वाणियों से पालन कर ।

पा॒हि विश्व॑स्माद्द्र॒क्षसो॑ अ॒रा॒व्यः॑ प्र॒ स्म वा॒जेषु॑ नोऽव ।

त्वामि॒द्धि ने॒दिष्टं॑ दे॒वता॑तय॒ आ॒पि॑ न॒क्षाम॑हे वृ॒धे ॥ १० ॥ ३३ ॥

भा०—हे राजन् ! प्रभो ! तू ( नः ) हमें ( विश्वस्माद् रक्षसः अराव्यः ) सब प्रकार के दुष्ट और शत्रु से ( पाहि ) बचा । और ( नः ) हमें ( वाजेषु ) संग्रामों में भी ( प्र अव स्म ) अच्छी प्रकार रक्षा कर । ( देवतातये ) विद्वान् वीर आदि जनों के हितार्थ ( त्वाम् इत् हि नेदिष्टं ) तुझ को ही अति निकट का ( आपि ) बन्धु जान कर ( वृधे ) अपनी वृद्धि के लिये ( नक्षामहे ) प्राप्त होते हैं । इति त्रयस्त्रिंशो वर्गः ॥

आ नो॑ अ॒ग्ने वयो॑वृ॒धं र॒यिं पा॑व॒क शंस्यं॑ ।

रास्व॑ च न उप॒माते॑ पु॒रु॒स्पृ॒हं सु॒नी॒ती स्वय॑शस्तरम् ॥ ११ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! ज्ञानशालिन् ! हे ( पावक ) पवित्र करने हारे पतितपावन ! तू ( नः ) हमें ( शंस्यं ) प्रशंसनीय ( वयोवृधं ) आयु, बल का वर्धक ( रयिम् ) ऐश्वर्य ( आ रास्व ) सब ओर से प्राप्त करा । हे ( उपमाते ) अनुपम ! तू ( नः ) हमें ( सुनीती ) उत्तम नीति से ( स्वयशस्तरम् ) स्वजन, धन, कीर्ति को अधिक बढ़ाने वाला, ( पुरुस्पृहं ) सबको अच्छा लगाने वाला धन ( रास्व च ) प्रदान भी कर ।

येन वंसासु पृतनासु शर्धतस्तरन्तो अर्य आदिशः ।

स त्वं नो वर्ध प्रयसो शचीवसो जिन्वा धियो वसुविदः ॥१२॥

भा०—( येन ) जिस धन से हंम (पृतनासु) संग्रामों में (आदिशः  
हरन्तः) दिशा उपदिशाओं तक पार करते हुए (शर्धतः) बलात्कार  
करने वाले, बलशाली शत्रुओं को भी (वंसाम) नाश करें। हे (शचीवसो)  
शक्ति के धनी ! (सः त्वं) वह तू (नः) हमें (प्रयसः वर्ध) अन्न सम्पदा  
और प्रयाणकारी बल से बढ़ा। और (वसुविदः धियः जिन्व) ऐश्वर्य और  
प्रजाओं को प्राप्त कराने वाले कर्मों की वृद्धि कर।

शिशानो वृषभो यथाग्निः शृङ्गे दविध्वत् ।

तिग्मा अस्य हनवो न प्रतिधृषे सुजम्भः सहसो यहुः ॥ १३ ॥

भा०—( यथा वृषभः ) जिस प्रकार विजार सांड (शृङ्गे शिशानः)  
सींग तीक्ष्ण करता हुआ (दविध्वत्) शिर चलाता है, और जिस प्रकार  
(अग्निः) अग्नि स्वयं तीक्ष्ण होकर अपने शिखर कंपाता है उसी प्रकार  
(शिशानः) बलको तीक्ष्ण करता हुआ (अग्निः) तेजस्वी पुरुष, (शृङ्गे)  
शत्रु हनन के अस्त्र शस्त्रों को कंपावे। (अस्य) इसकी (हनवः) हनन-  
कारिणी सेनाएं (तिग्माः) तीखी दाढ़ों के समान (न प्रतिधृषे)  
कभी किसी से पराजित होने के लिये न हों, वह (सुजम्भः) दुष्टों को  
उत्तम रीति से दण्ड देने में समर्थ (सहसः यहुः) बल सैन्य को सुसंगत  
करने में समर्थ हो।

नहि ते अग्ने वृषभ प्रतिधृषे जम्भासो यद्वितिष्ठसे ।

स त्वं नो होतः सुहुतं हविष्काधि वंस्वा नो वार्या पुरु ॥ १४ ॥

भा०—हे (अग्ने वृषभ) तेजस्विन् ! हे बलशालिन् ! (यद्वि-  
तिष्ठसे) जब तू विशेष रूप से शत्रु के विजयार्थ खड़ा हो जाता है तब  
(ते जम्भासः) तेरी दाढ़ों के समान शत्रु को कुचल डालने वाले तेरे शस्त्रादि

सैन्यगण (नहि प्रति-श्रुते) कभी हारने के लिये नहीं हों । ( सः त्वं ) वह तू (नः) हमारे ( होतः ) दातः ( सुहुतं हविः कृधि ) उत्तम रीति से दिये करादि को उत्तम रीति से सफल कर । ( नः पुरुवार्या वंस्व ) हमें बहुत से उत्तम ऐश्वर्य, शत्रुवारक साधन प्रदान कर ।

शेषे वनेषु मात्रोः सं त्वा मर्त्तास इन्धते ।

अतन्द्रो हव्या वहसि हविष्कृत आदिद्वेषु राजसि ॥१५॥३४॥

भा०—हे राजन् ! विद्वन् ! तू ( वनेषु मात्रोः ) काष्ठों में या दो उत्पादक अरणियों में अग्नि के समान ( वनेषु ) सेवने योग्य ऐश्वर्यों और ( मात्रोः ) माता पिता रूप विद्वान् अविद्वान् प्रजाओं के बीच बालकवत् ( शेषे ) सुख से रह । ( त्वा मर्त्तासः सम् इन्धते ) तुझे शत्रुमारक वीर जन प्रदीप्त, तेजस्वी बनाते हैं । तू (हविष्कृतः) उत्तम अन्न उत्पन्न करनेवाले प्रजाजन के दिये करादि को ( अतन्द्रः ) अनालसी होकर (वहसि) धारण कर ( आत् इत् ) और विजयेच्छुक वीर पुरुषों के बीच किरणों में सूर्यवत् ( राजसि ) राजावत् प्रकाशित हो । इति चतुस्त्रिंशो वर्गः ॥

सप्त होतास्त्वमिदीलते त्वाग्ने सुत्यजमह्यम् ।

भिनत्स्यद्रिं तपसा वि शोचिषा प्राग्ने तिष्ठ जनाँ अति ॥ १६ ॥

भा०—हे (अग्ने) अग्निवत् तेजस्विन् ! (सप्त होतारः) सात अधिकाधिक बल आदि देने वाले प्रकृतिगण ( सुत्यजम् ) उत्तमदाता (अह्यम्) अक्षीण; ( तं त्वा ) उस लुझको ( ईडते इत् ) चाहते और तेरी प्रतिष्ठा करते हैं । वह तू ( शोचिषा ) अपने तेज से और ( तपसा ) प्रताप से ( अद्रिं ) प्रबल शत्रु सैन्य को ( भिनत्सि ) मेघ को सूर्य के समान भेदन करता है और हे ( अग्ने ) अग्निवत् तेजस्विन् नायक ! तू ( जनान् अति प्र तिष्ठ ) सब जनों से बढ़कर प्रतिष्ठा प्राप्त कर, सर्वोत्तमपद पर विराज ।

अग्निमग्निं वो अधिगुं हुवेम वृक्त्वर्हिषः ।

अग्निं हितप्रयसः शश्वतीष्वा होतारं चर्षणीनाम् ॥ १७ ॥

भा०—हे ( वृक्त्वर्हिषः ) कुशाओं के समान शत्रुगण को छिन्नभिन्न करने वाले वीर पुरुषो ! हम लोग ( वः ) आप लोगों में से ( अग्निम्-अग्निम् ) अश्विन् तेजस्वी और ( अधिगुम्-अधिगुम् ) भूमि पर का शासक सर्वोपरि वाणी का वक्ता आज्ञापक ( हुवेम ) स्वीकार करें । हम ( हित-प्रयसः ) अन्नादि धारण करने वाले होकर ( शश्वतीषु ) बहुत सी प्रजाओं में ( चर्षणीनाम् ) विद्वान् मनुष्यों को वृत्ति देने वाले ( अग्निम् ) अग्रणी पुरुष को ही ( आ हुवेम ) आदरपूर्वक स्वीकार करें ।

केतेन शर्मन्त्सचते सुप्रामण्यश्रे तुभ्यं चिकित्वना ।

इपण्यया नः पुरुरूपमा भर वाजं नेदिष्ठमुतयै ॥ १८ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! यह प्रजाजन ( चिकित्वना ) उत्तम ज्ञानयुक्त विद्वान् द्वारा ( केतेन ) ज्ञानपूर्वक ( तुभ्यम् ) तेरे ही ( सु-सामनि ) उत्तम समान भाव से युक्त निष्पक्षपात ( शर्मन् ) गृहवत् ( इपण्या ) इच्छापूर्वक ( नः ) हमें हमारी रक्षा के लिये ( पुरुरूपं ) नाना प्रकार का ( नेदिष्ठं ) अति समीपतम, प्राप्य ( वाजं ) ऐश्वर्य ( आ भर ) प्राप्त करा ।

अश्रे जरितविश्वपतिस्तेपानो देव रक्षसः ।

अप्रोपिवान्गृहपतिर्महां असि दिवस्प्रायुर्दुरोणयुः ॥ १९ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! हे ( जरितः ) उत्तम उपदेश करने वाले ! हे ( देव ) दानशील ! तू ( रक्षसः ) दुष्टों को ( तेषानः ) संतप्त, पीड़ित करता हुआ, ( विश्वपतिः ) प्रजाओं का पालक है । तू ( अप्रोपि-वान् ) कभी प्रवास में न जाने वाले ( गृह-पतिः ) गृहस्वामी के समान ( दुरोणयुः ) गृहवत् राष्ट्रको दुःख से प्राप्त होने योग्य उत्तमपद की

अभिलाषा करने वाला और ( दिवः महान् पायुः ) ज्ञान, राजसभा, तेज, और भूमि का बड़ा पालक ( असि ) है ।

मा नो रक्ष आ वैशीदाघृणीं वसो मा यातुर्यतिुमावताम् ।

परोगव्युत्यनिरामप क्षुधमश्रे सेध रक्षस्विनः ॥ २० ॥ ३५ ॥

भा०—हे ( वसो ) राष्ट्र के वसाने वाले राजन् ! ( नः ) हम में (रक्षः) नाशकारी उपद्रवी (मा आवेशीत्) न आ घुसे । (यातुमा-वताम्) पीड़ादायक दुष्ट रोगों और पुरुषों के कारण ( यातुः नः मा आवेशीत् ) हममें पीड़ा, उनकी यातना भी न प्रवेश करे । हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! (अनिराम् क्षुधम् ) बिना अन्न की भूख, मरी, और (रक्षस्विनः) दुष्टों को (परः गव्यूतिम्) हमसे कोसों (अप सेध) दूर कर । इति पञ्चत्रिंशो वर्गः॥

### [ ६१ ]

भर्गः प्रागाथ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ५, ११, १५, निचृद् बृहतो । ३, ६ विराड् बृहती । ७, १७ पादनिचृद् बृहती । १३ बृहती । २, ४, १० पंक्तिः । ६, १४, १६ विराट् पंक्तिः । ८, १२, १८ निचृत् पंक्तिः ॥ अष्टादशर्च सूक्तम् ॥

उभयं शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः ।

सत्राच्या मघवा सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गतम् ॥ १ ॥

भा०—( इन्द्रः ) तत्त्वदर्शी पुरुष ( नः ) हमारे (इद) इस (उभयं) पक्ष विपक्ष दोनों प्रकार के ( वचः ) वचन को ( अर्वाक् ) सबके सन्मुख ( शृणवत् च ) सुने, ( सत्राच्या, धिया ) सत्य के निर्धारण करने वाली विवेक बुद्धि से ( सोमपीतये ) राष्ट्र के पालनार्थ ही ( मघवा ) पूज्य पद पर स्थिर होकर ( शविष्ठः ) सब से अधिक बलशाली होकर ( नः आग-मत् ) हमें प्राप्त हो ।

तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसे धिषणे निष्टतक्षतुः ।

उतोपमानां प्रथमो नि पीदसि सोमकामं हि ते मनः ॥ २ ॥

भा०—( तं ) उस ( वृषभं ) 'वृष' अर्थात् धर्म, राष्ट्र के उत्तम प्रबन्ध सामर्थ्य से सामर्थ्यवान् ( स्वराजं ) स्व, अपने बल से तेजस्वी, स्वयं राजा, बलशाली पुरुष को (हि ओजसे) उसके बल पराक्रम के कारण ( धिषणे ) पृथिवी आकाशवत् शास्य शासक वर्गों की दोनों समितियां (निष्टतक्षतुः) राजा को बनावे और हे राजन् ! सभापते ! ( हि ) क्योंकि ( ते मनः ) तेरा चित्त भी ( सोम-कामं ) राष्ट्रैश्वर्य तथा अभिषेक योग्य पद को चाहता है । इस कारण तू ( उपमानां ) सर्वोपरि उपमान योग्य प्रस्तुत पुरुषों में ( प्रथमः ) सर्वश्रेष्ठ होकर ( नि पीदसि ) मुख्यासन पर विराज ।

आ वृषस्व पुरुवसो सुतस्येन्द्रान्धसः ।

विद्वा हि त्वां हरिवः पृत्सु सासहिमधृष्टं चिदधृष्वणिम् ॥३॥

भा०—हे ( पुरु-वसो ) बहुत से प्रजाजनों को बसाने वाले ! बहुत ऐश्वर्य के स्वामिन् ! इन्द्रियों में शक्तिरूप से आत्मवत् प्रभो ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! शत्रुहन्तः ! तू ( अन्धसः सुतस्य ) अन्न और ऐश्वर्य से ( आ वृषस्व ) सब प्रकार से प्रजा पर सुखों की वर्षा करने वाला और बलवान् हो । हे ( हरिवः ) अश्वों और मनुष्यों के राजन् ! हम ( त्वा ) तुझ को ( पृत्सु ) संग्रामों में ( सासहिम् ) विजयी, ( अधृष्टम् ) अपराजित और ( दधृष्वणिम् ) शत्रुओं के पराजित करने हारा ( हि ) ही ( विद्वा ) जानते हैं ।

अप्रामिसत्य मध्वन्तथेदसिदिन्द्र क्रत्वा यथा वशः ।

सनेम चाजं तव शिप्रिन्नवसा मन्तू चिद्यन्तो अद्रिवः ॥ ४ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) यथार्थदर्शिन् ! तू ( क्रत्वा ) अपनी बुद्धि और



कर्म के सामर्थ्य से ( यथा वशः ) जिस प्रकार भी चाहता है हे (मववन्) पूजित विभूतिसम्पन्न ! हे ( अप्रामि-सत्य ) सत्यरूप महा व्रत का नाश न करने हारे ! ( तथा इत् असत् ) वैसा ही होता है । हे ( शिप्रिन् ) मुकुटधारिन् ! सत्यपालक ! हे ( अद्रिवः ) बलशालिन् ! हम लोग ( मधु चित् यन्तः ) बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ते हुए ( अवसा ) ज्ञान और रक्षा, बल से ( तव वाजं ) तेरा ज्ञान, बल, ऐश्वर्य ( सनेम ) प्राप्त करें, वा तुझे अन्नादि प्रदान करें ।

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् । योग० सू० २ । ३६ । अमोघा-  
ह्यस्य वाग् भवति । व्यासभाष्यम् ॥ तदस्य भगवतो वाचो भवति इति  
वाचस्पतिः ।

शग्ध्यु<sup>३</sup>पु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरुतिभिः ।

भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ॥ ५ ॥ ३६ ॥

भा०—हे ( शचीपते ) सत्य वाणी और शक्ति के पालक ! हे (इन्द्र) यथार्थदर्शिन् ! तू ( विश्वाभिः उतिभिः ) समस्त ज्ञानों और बलों से ( सु शग्धि उ ) उत्तम रीति से सब कार्य करने में समर्थ है । ( भगं न ) ऐश्वर्य-वान् के समान ही ( यशसं ) यशस्वी ( वसु-विदम् ) ऐश्वर्य प्राप्त कराने चाला जान कर ( हि ) ही हे ( शूर ) शूरवीर ! ( त्वा अनु चरामसि ) हम तेरे कहे अनुसार आचरण करें, तेरा अनुगमन करें । इति षट्त्रिंशो वर्गः॥  
पौरौ अश्वस्य पुरुकृद्गवामस्युत्सो देव हिरण्ययः ।

नकिर्हि दानं परिमर्धिषत्त्वे यद्यद्यामि तदा भर ॥ ६ ॥

भा०—हे ( देव ) दानशील ! हे तेजस्विन् ! हे व्यवहारज्ञ ! तू ( पौरः ) बहुतों का स्वामी, ( अश्वस्य गवाम् पुरुकृत् ) अश्वों और गौ आदि सम्पदा को बहुत संख्या में करने में समर्थ ( असि ) है । तू ( हिर-ण्ययः उत्सः ) सुवर्ण का उद्गमस्थान, निकास वा खान के समान है । ( त्वे ) तेरे ( दानं ) दिये ऐश्वर्य का ( नकिः हि परि मर्धिषत् ) कोई भी

नाश नहीं कर सकता । मैं (यत् यत् यामि) जिस २ पदार्थ की भी याचना करूँ तू (तत् आभर) वह २ पदार्थ मुझे प्राप्त करा ।

त्वं ह्येहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये ।

उद्धावृषस्व मघवन्गविष्टये उदिन्द्राश्वमिष्टये ॥ ७ ॥

भा०—हे (मघवन्) उत्तम धन के स्वामिन् ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यप्रद ! (त्वं हि एहि) तू आवश्यक आ और (चेरवे वसुत्तये) सेवा, परिचर्या करने वाले परिजन को जीवनोपयोगी वेतनादि धन प्रदान करने के लिये ही (भगं विद) ऐश्वर्य प्राप्त कर । (गविष्टये) गौ देने के लिये और (अश्वम् इष्टये) अश्व देने के लिये (उत् वावृषस्व) सर्वोत्तम दानशालि हो और अधिक उदार हो ।

त्वं पुरु सहस्राणि शतानि च यूथा दानाय मंहसे ।

आ पुरन्दरं चकम विप्रवचस इन्द्रं गायन्तोऽवसे ॥ ८ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! (त्वं) तू (पुरु सहस्राणि शतानि च यूथा) अनेक सैकड़ों और सहस्रों, यूथ, गौवों और अश्वदि के (दानाय मंहसे) दान के रूप में प्रदान कर । हम लोग (अवसे) रक्षा के निमित्त (विप्रवचसाः) उत्तम वचनों को बोलते और (गायन्तः) तेरी स्तुति गान करते हुए (पुरन्दरं) शत्रु नगर को तोड़ने और अपने पुर की रक्षा करने वाले पुरुष को (इन्द्रं आ चकम) ऐश्वर्य युक्त करें ।

अविप्रो वा यदविधृद्विप्रो वेन्द्र ते वचः ।

स प्र ममन्दत्वाया शतक्रतो प्राचामन्यो अहंसन ॥ ९ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यप्रद ! हे (शतक्रतो) सैकड़ों कर्म सामर्थ्य और प्रज्ञा से सम्पन्न जन ! हे (प्राचा-मन्यो) सर्वोत्कृष्ट ज्ञान से ज्ञानशालिन् ! हे (अहंसन) आत्मभाव, आत्मसन्मान के भाव को देनेहारे ! (अविप्रः वा) चाहे अबुद्धिमान् हो और चाहे (विप्रः) विद्वान्

पुरुष भी ( ते वचः अविधत् ) तेरे कहे वचन के अनुसार कार्य करता वह भी ( त्वाया ) तेरे अधीन रहकर ( प्र ममन्दत् ) बहुत ही सुख, आनन्द प्राप्त कर लेता है ।

उग्रवाहुर्भ्रक्षकृत्वा पुरन्दुरो यदि मे शृणवद्ववम् ।

वसुयवो वसुपतिं शतक्रतुं स्तोमैरिन्द्रं हवामहे ॥ १० ॥ ३७ ॥

भा०—हे ( वसुयवः ) धनाभिलाषी जनो ! ( यदि ) जब २ ( वसुपतिं ) सब ऐश्वर्यों और जीवों के पालक, ( शतक्रतुं ) अनन्त ज्ञानों और कर्म सामर्थ्यों से पूर्ण, ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यप्रद इस स्वामी को हम ( स्तोमैः हवामहे ) नाना स्तुति वचनों से प्रार्थना करें ( उग्र-वाहुः ) बलवान् बाहु वाला, ( भ्रक्ष-कृत्वा ) शत्रुओं का नाशक, ( पुरन्दुरः ) शत्रुपुत्रों को तोड़ने में समर्थ, ( मे हवम् शृणवत् ) मेरे स्तुति-वचन को श्रवण कर । इति सप्तत्रिंशो वर्गः ॥

न पापासो मनामहे नारायासो न जल्हवः ।

यदिन्विन्द्रं वृषणं सचा सुते सखायं कृणवामहे ॥ ११ ॥

भा०—( यत् इत् नु ) जब २ भी हम हम लोग ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान्, ( सखायं ) सब के मित्र ( वृषणं ) बलवान् पुरुष को ( सुते ) ऐश्वर्य वा शासन मार्ग पर ( सचा कृणवामहे ) अपने साथ लेते हैं तब २ हम ( पापासः न मनामहे ) पापी होकर नहीं विचार करते, और ( नारायासः न ) तब हम दूसरे का अधिकार न देने वाले होकर भी नहीं विचारते, ( न जल्हवः ) और न ज्वलन या प्रकाश से रहित होते हैं । अर्थात् परमेश्वर या स्वामी के सदा साथ रहते हुए हममें पाप प्रवृत्ति, दूसरे के अधिकार हरण और अज्ञानीपन की दशा नहीं रह सकती है । परमेश्वर के सहयोग में हम निष्पाप, ईमानदार, और ज्ञान प्रकाश से युक्त हो जाते हैं । पापी, बेईमान, और प्रकाशहीन होकर प्रभु का मनन नहीं कर सकते ।

उग्रं युयुज्म पृतनासु सासहिमृणकातिमदाभ्यम् ।

वेदा भूमं चित्सनितारथीतमो वाजिनं यमिदु नशत् ॥ १२ ॥

भा०—( यम् इत् उ ) जिसको प्रजाजन ( वाजिनं ) ऐश्वर्यवान् बलवान् भी ( नशत् ) पावें, और जो ( रथीतम ) सब से उत्तम महारथी, ( सनिता ) दानशील हो और जिसको हम ( भूमं चित् ) भरण पोषण में समर्थ ( वेद ) पावें उस ( सासहिम् ) शत्रुपराजयकारी, ( उग्रम् ) सदा दण्डधारी, ( ऋणकातिम् ) धनोत्पादक, ( आदाभ्यम् ) अहिंसनीय, अवध्य, पुरुष को हम ( पृतनासु ) संग्रामों के कार्यों में ( युयुज्म ) नियुक्त करें । ( २ ) इसी प्रकार हम परमेश्वर को इन २ गुण विशिष्ट रूप से ( युयुज्म ) योग द्वारा साक्षात् करें ।

यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि ।

मघवञ्छुग्धि तव तन्न ऊतिभिर्वि द्विपो वि मृधो जहि ॥ १३ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) शत्रुनाशक ! भूमि के रक्षक ! अन्नादि दातः ! हम लोग ( यतः भयामहे ) जिस कारण से भी भय करें तू ( ततः नः अभयं कृधि ) हमें उस भय से रहित कर । हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवान् ! तू ( तव ) अपना ( नः ) हमें ( तत् शग्धि ) वह सामर्थ्य दे और ( ऊतिभिः ) रक्षाकारिणी शक्तियों से ( द्विपः वि जहि ) शत्रुओं को दण्डित कर और ( मृधः वि जहि ) हिंसकों को दण्डित कर ।

त्वं हि राधस्पते राधसो महः क्षयस्यासि विधतः ।

तं त्वा वयं मघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ॥ १४ ॥

भा०—हे ( मघवन् ) पूज्य ऐश्वर्ययुक्त ! हे ( गिर्वणः ) वाणी द्वारा याचना करने योग्य ! हे ( इन्द्र ) शत्रुनाशक ! ऐश्वर्य के देने हारे ! ( वयं ) हम ( सुतावन्तः ) उत्पन्न, अन्नादि ऐश्वर्यों से युक्त होकर भी ( त्वा ) तुझ से ( हवामहे ) याचना करते हैं, क्योंकि हे ( राधसः पते ) धन के पालक स्वामिन् ! ( त्वं हि ) तू अवश्य ( विधतः ) कार्य करने वाले, सेवक के

( महः ) बड़े भारी, ( क्षयस्य ) ऐश्वर्य और ( राधसः ) धन का भी बढ़ाने और देने वाला है ।

इन्द्र स्पलुत वृत्रहा परस्पा नो वरेण्यः ।

स नो रक्षिपञ्चरमं स मध्यमं स पश्चात्पातु नः पुरः ॥१५॥३८॥

भा०—( इन्द्रः ) शत्रुओं का नाशक, ऐश्वर्यों का दाता, प्रभु ( स्पट् ) सर्वद्रष्टा, ( वृत्रहा ) सब विघ्नों का नाशक ( परः-पाः ) परम-पालक और ( नः वरेण्यः ) हमारा सर्वश्रेष्ठ वरण करने योग्य है । ( सः ) वह ( नः ) हममें से ( चरमं ) अन्तिम को, ( सः मध्यमं ) वह बीच के को, ( सः पश्चात् पुरः नः पातु ) वह हमारे पीछे और आगे से भी हमें बचा । इत्यष्टान्निशो वर्गः ॥

त्वं नः पश्चादधरादुत्तरात्पुर इन्द्र नि पाहि विश्वतः ।

आरे अस्मत्कृणुहि दैव्यं भयमारे हेतीरदेवीः ॥ १६ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! ( त्वं ) तू ( नः पश्चात् अधरात् उत्तरात् पुरः विश्वतः निपाहि ) हमारे पीछे से, नीचे से, ऊपर से आगे से और सब ओर से अच्छी प्रकार रक्षा कर । ( अस्मत् दैव्यं भयम् आरे कृणुहि ) हम से देव, विद्वान्, विजयेच्छुक व्यवहार चतुरादि जनों से उत्पन्न होने वाला भय दूर कर और ( अदेवीः हेतीः आरे कृणुहि ) अविद्वान् दुष्ट जनों के शस्त्रों को भी दूर कर ।

अद्याद्या श्वः इन्द्र त्रास्व परे च नः ।

विश्वा च नो जरितृन्तसत्पते अहा दिवा नक्तं च रक्षिपः ॥१७॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( नः ) हमें ( अद्य अद्य ) आज आज, आज कहाने वाले सब दिनों और ( श्वः श्वः ) कल कल, कल कहाने वाले सब दिनों में और ( परे च ) परले दिनों में भी ( त्रास्व ) रक्षा कर । हे ( सत्पते ) सज्जनों के पालक ! तू ( नः जरितृन् ) प्रार्थना स्तुति करने वाले हम लोगों को ( विश्वा च अहा ) सब दिनों और ( दिवा

नक्तं च ) दिन और रात, प्रकाश में और अंधेरे में भी ( रक्षिषः ) हमारी रक्षा कर ।

प्रभङ्गी शूरो मघवा तुवीमघः सम्मिश्रो वीर्याय कम् ।

उभा ते वाह वृषणा शतक्रतो नि या वज्रं मिमिक्षतुः १८।३९॥

भा०—हे ( शतक्रतो ) अनन्त कर्म और प्रजा से युक्त स्वामिन् ! ( या ) जो दो ( ते वाहू ) तेरी बाहुएं, ( वज्रं नि मिमिक्षतुः ) शस्त्र को धारण करती हैं ( उभा ) वे दोनों ( वृषणा ) बलवान् हों । ( वीर्याय ) वीर्य प्राप्त करने, वा वीरकर्म सम्पादन करने के लिये ( शूरः ) शूरवीर पुरुष, ( प्र-भङ्गी ) शत्रु को अच्छी प्रकार तोड़ देने वाला, ( मघवा ) उत्तम आदरणीय धनाढ्य, ( तुवीमघः ) बहुत धनसम्पन्न और ( सम्मिश्रः ) सब से अच्छी प्रकार मिलने जुलने वाला, सर्वप्रिय हो । इत्येकोनचत्वारिंशो वर्गः॥

[ ६२ ]

प्रगाथः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ६, १०, ११ निचृद् पंक्तिः । २, ५ विराट् पंक्तिः । ४, १२ पंक्तिः । ७ निचृद् बृहती । ८, ९ बृहती ॥ द्वादशर्च सूक्तम् ॥

प्रो अस्मा उपस्तुतिं भरता यज्जुजोषति । उक्थैरिन्द्रस्य माहिनं वयो वर्धन्ति सोमिनो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ १ ॥

भा०—( यत् जुजोषति ) जो प्रेमपूर्वक स्वीकार करता है ( अस्मै ) उसकी ( उप स्तुतिं प्र भरत ) उत्तम स्तुति करो । ( सोमिनः ) वीर्य पालन करने वाले ब्रह्मचारी लोग ही ( उक्थैः ) उत्तम वचनों द्वारा ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यवान्, तत्त्वदर्शी स्वामी के ( माहिनं वयः वर्धन्ति ) बड़े भारी बल को बढ़ा देते हैं । ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) उस परमेश्वर के दिये सब दान सुखकारी और कल्याणमय होते हैं ।

अयुजो असमो नृभिरेकः कृषीर्यास्यः । पुर्वीरिति प्र वावृधे  
विश्वा जातान्योजसा भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ २ ॥

भा०—वह परमेश्वर ( एकः ) अकेला, अद्वितीय, ( अयुजः ) अन्य सहायक के बिना, ( असमः ) अपने समान अन्य से रहित, ( अयास्यः ) अविनाशी, अपराजित, कभी न थकने वाला, अप्राप्य और मुख्य है । वह ( नृभिः ) जीवों द्वारा ही ( पूर्वीः कृषीः ) बहुत सी सनातन प्रजाओं को ( प्र वावृधे ) बढ़ाता है और ( विश्वा जातानि ) सभी उत्पन्न प्राणियों को भी इसी प्रकार ( ओजसा ) अपने बल-पराक्रम से ( इति प्र वावृधे ) इसी प्रकार बढ़ाता रहता है । ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) ऐश्वर्यवान् प्रभु के सब दान अति सुखकारी होते हैं ।

अहितेन अर्धता जीरदानुः सिपासति । प्रवाच्यमिन्द्र तत्तव  
वीर्याणि करिष्यतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ३ ॥

भा०—यह ईश्वर ( जीर-दानुः ) जीवन प्राण का देने वाला है । वह ( अहितेन अर्धता चित् ) बिना बन्धे अश्व से, अर्थात् बिना अश्व लगाये ही ( सिपासति ) सब को चलाता है । हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! वीर्यवन् ! ( करिष्यतः ) जगत् निर्माण करने वाले ( तव ) तेरे ये सब ( वीर्याणि ) नाना प्रकार के सामर्थ्य हैं । ( तत् तव प्रवाच्यम् ) यह सब तेरी अति उत्तम रीति से स्तुति करने योग्य है । ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु के सब दान बड़े सुखकारी हैं ।

आ याहि कृण्वाम त इन्द्र ब्रह्माणि वर्धना । येभिः शविष्ठ  
चाकनो भद्रमिह श्रवस्यते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ४ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( आ याहि ) आ । ( ते ) तेरे ( ब्रह्माणि ) वेदवचनों को हम ( वर्धना ) अपने को बढ़ाने वाला ( कृण्वाम ) करें । उनको हम अपनी वृद्धि के लिये उपभोग करें । हे

( शविष्ठ ) अनन्त बलशालिन् ! ( येभिः ) जिनसे तू (इह) इस लोक में ( श्रवस्यते ) ज्ञान के इच्छुक जीवगण के लाभ के लिये ( भद्रम् चांकनः ) अति कल्याण करना चाहता है उन ही वेदों का हम अभ्यास करें। (इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) प्रभु के दिये दान अति सुखकारी होते हैं।

धृपतश्चिन्द्रषन्मनः कृणोषीन्द्र यत्त्वम् । तीव्रैः सोमैः सपर्यतो नमोभिः प्रतिभूपतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ४ ॥

भा०—( तीव्रैः सोमैः ) तीव्र, बलकारक साधन से ( सपर्यतः ) सेवा करते हुए ( नमोभिः प्रतिभूपतः ) अन्नों, विनय वचनों और दुष्ट दमनकारी उपायों से अपने प्रतिपक्षी का साम्मुख्य करने वाले ( धृपतः ) प्रतिपक्ष का पराजय करने वाले के ( मनः ) मन को ( चित् ) भी हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! ( यत् त्वम् ) जो तू ( धृपतः कृणोषि ) दृढ़, सहनशील कर देता है यह तेरा ही, सामर्थ्य है। ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) ऐश्वर्यवान् इन्द्र, प्रभु के दान सब उत्तम सुखप्रद होते हैं।

अव चष्ट ऋचीपमोऽवताँ इव मानुषः । जुष्ट्वी दक्षस्य सोमिनः सखायं कृणुते युजं भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ६ ॥ ४० ॥

भा०—जिस प्रकार ( मानुषः ) पियासा मनुष्य ( अवतान् अव चष्टे ) कुओं के नीचे झांकता है, और ( सोमिनः दक्षस्य जुष्ट्वी, युजं सखायं कृणुते ) जल-कूप के रक्षक पुरुष को प्रेम करके उसको अपना साथी, मित्र बना लेता है उसी प्रकार ( ऋचीपमः ) स्तुति के अनुरूप यथार्थ गुणवान् दयाशील प्रभु ( अवतान् अव चष्टे ) रक्षा करने योग्य जनों को दया से देखता है और ( सोमिनः दक्षस्य ) बल वीर्यवान् कर्म करने में समर्थ पुरुष को ( जुष्ट्वी ) प्रेम करके, प्रभु उसको ही अपना ( युजं सखायं कृणुते ) संगी, मित्र बना लेता है। ( भद्रा० इत्यादि पूर्ववत् ) इति चत्वारिंशो वर्गः॥ विश्वे त इन्द्र वीर्यं देवा अनु क्रतुं ददुः ।

भुवो विश्वस्य गोपतिः पुरुष्टुत भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ७ ॥



भा—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! वाणी द्वारा ज्ञान के देने हारे ! ( देवाः ) समस्त विद्याओं की कामना करने हारे जन ( ते वीर्यम् अनु, ते क्रतुम् अनु ) तेरे बल और ज्ञान के अनुसार ही ( अनु ददुः ) स्वयं भी बल और ज्ञान को धारण करें और अन्यों को भी प्रदान करें हे ( पुरु-स्तुत ) बहुत जीवों के उपदेष्टः ! तू ही ( विश्वस्य गोपतिः भुवः ) समस्त वाणियों का पालक है । ( भद्राः० इत्यादि पूर्ववत् )

गृणे तदिन्द्र ते शर्व उपमं देवतातये ।

यद्धंसि वृत्रमोजसा शचीपते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ८ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! शत्रुहन् ! हे ( शचीपते ) शक्ति और वाणी के स्वामिन् ( देवतातये ) वीरों और दानशील, उत्तम मनुष्यों के हितार्थ, ( ते ) तेरे ( उपमं शवः ) आदर्श बल की ( गृणे ) स्तुति करता हूँ । ( यत् ) जिस ( ओजसा ) पराक्रम से तू ( वृत्रम् ) अज्ञान, वा बढ़ते शत्रु का ( हंसि ) विनाश करता है ।

समनेव वपुष्यतः कृणवन्मानुपा युगा ।

विदे तदिन्द्रश्चेतनमध्वं श्रुतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ९ ॥

भा०—( समना-इव ) समान चित्त वाली स्त्री जिस प्रकार ( वपुष्यतः मानुपा युगा कृणवत् ) उत्तम शरीर वाले पुरुष को जोड़ा बना देती है उसी प्रकार ( इन्द्रः ) वह ऐश्वर्यवान् प्रभु ( वपुष्यतः ) शरीर धारण करने की इच्छा करने वाले जीवों को ( मानुपा युगा कृणवत् ) मनुष्यों के ( युग ) जोड़े, स्त्री-पुरुष बना देता है । वही ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् प्रभु ( तत् चेतनं ) उस चेतन जीव को ( विदे ) जानता वा शरीर में प्राप्त कराता है, ( अध्वं ) और इसी प्रकार ( श्रुतः ) वेद में गुरुजनों द्वारा श्रवण किया जाता है । ( भद्राः० इत्यादि पूर्ववत् )

उज्जातमिन्द्र ते शर्व उत्त्वामुत्तव क्रतुम् ।

भूरिगो भूरि वावृधुर्मध्वन्तव शर्मणि भद्रा इन्द्रस्य रातयः १०

भा०—हे (भूरि-गो) बहुत भूमियों, पशुओं और वाणियों के स्वामिन् ! हे ( मघवन् ) पूज्य, धन, ज्ञानादि सम्पन्न, प्रभो ! गुरो ! स्वामिन् ! हे ( इन्द्र ) वाणी के मर्म के भेदन करने हारे ! शत्रुभेदक ! भूमि-भेदक ! ( ते जातम् शवः ) तेरे प्रकट हुए बल और ज्ञान को लोग ( भूरि उत् वावृधुः ) उत्तम रीति से पुत्रवत् खूब बढ़ावें । ( उत् त्वाम् ) तुझे भी बढ़ावें, अधिक बलवान्, करें । ( तव क्रतुम् उत् ) तेरे कर्म सामर्थ्य और ज्ञान की भी वृद्धि करें । ( तव शर्मणि ) तेरी शरण में रहें । ( भद्राः० इत्यादि पूर्ववत् )

अहं च त्वं च वृत्रहन्त्संयुज्याव सनिभ्य आ ।

अरातीवा चिदद्रिवोऽनु नौ शूर मंसते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ११

भा०—हे ( वृत्र-हन् ) विघ्नों और शत्रुओं के नाशक ! ( अहं त्वं च ) मैं और तू दोनों ( सनिभ्यः आ ) उत्तम धनों, ऐश्वर्यों के प्राप्त करने के लिये ( सं युज्याव ) परस्पर मिल जावें । हे ( अद्रिवः ) सैन्यादि बल से सम्पन्न ! हे ( शूर ) दुष्टनाशक ! ( अरातिवा चित् ) अदानशील अधनी भी ( नौ अनुमंसते ) हम दोनों की मानेगा । ( भद्राः० पूर्ववत् )

सत्यमिद्धा उ तं वयमिन्द्रं स्तवाम नानृतम् । महाँ असुन्वतो वृधो भूरि ज्योतीषि सुन्वतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥१२॥४१॥

भा०—( वयम् ) हम ( तं ) उस ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् प्रभु की ( सत्यम् इत् वा स्तवाम ) सत्य सत्य ही स्तुति करें । ( अनृतं न ) असत्य कभी न करें । ( असुन्वतः ) उपासना न करने वाले का ( महान् वधः ) बड़ा भारी नाश होता है । ( सुन्वतः भूरि ज्योतीषि ) उपासक को बहुत तेजोमय ज्ञान प्राप्त होते हैं । ( भद्रा० इत्यादि पूर्ववत् ) ॥ इत्येक-चत्वारिंशो वर्गः ॥

[ ६३ ]

प्रगाथः काण्व ऋषिः ॥ १—११ इन्द्रः । १२ देवा देवताः ॥ इन्द्रः—  
१, ४, ७ विराडनुष्टुप् । २ निचृदनुष्टुप् । २, ३, ६ विराड् गायत्रा ।  
८, ९, ११ निचृद् गायत्री । १० गायत्री । १२ त्रिष्टुप् ॥ द्वादशचं सूक्तम् ॥

स पूर्यो महानां वेनः क्रतुभिरानजे ।

यस्य द्वारा मनुष्पिता देवेषु धियं आनजे ॥ १ ॥

भा०—(सः) वह (महानां) पूज्य, बड़ों का भी बड़ा (पूर्यः) पूर्व, पूज्य, (वेनः) कान्तिमान्, तेजस्वी सूर्यवत् (क्रतुभिः) उत्तम प्रज्ञाओं द्वारा (आनजे) हमें प्रेरित करता वा प्राप्त होता है (यस्य धियः) जिसकी वाणियों, मतियों और कर्मों को, (देवेषु) विद्या के इच्छुक मनुष्यों में (पिता मनुः) पालक, शासक, मननशील विद्वान् वा राजा भी (द्वारा आनजे) प्रवेश योग्य द्वारों के समान प्रकट करे । अर्थात् ज्ञानी शास्ता विद्वान् और शासक राजा दोनों माता पिता हैं । वे प्रभुके दिये ज्ञानों, वेदों, यज्ञों द्वारा सबको नाना उपाय दर्शावें ।

दिवो मानं नोत्सदन्त्सोमपृष्ठासो अद्रयः ।

उक्था ब्रह्म च शंस्या ॥ २ ॥

भा०—जिस प्रकार (अद्रयः) मेघ (सोम-पृष्ठासः) जल वर्षण-कारी होकर भी (दिवः मानं न उत्सदन्ति) सूर्य का पमाना नहीं पाते, वा ऊपर उठकर भी सूर्य तक नहीं जा सकते उसी प्रकार (सोम-पृष्ठासः) अभिषिक्त राजा वा नायक को अपनी पीठ पर रखने वाले, तदधीन (अद्रयः) सेना के जन (दिवः मानं नः उत्सदन्) तेजस्वी राजा के मान-प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हो सकते, वे उससे उच्च पद नहीं पा सकते । इसी प्रकार (सोम-पृष्ठासः) सोम अर्थात् सर्वोत्पादक प्रभु के भक्त (अद्रयः) अविनाशी, धर्म मेघस्थ योगीजन वा 'सोम', वीर्य द्वारा पुष्ट, ऊर्ध्वरेता जन (दिवः मानं)

ज्ञानमय तेजोमय प्रभु के ज्ञान, वेद को (न उत् सदन्) नहीं छोड़ सकते । वह प्रभु का ज्ञान ( उक्था ) वचन योग्य उत्तम मन्त्र ( ब्रह्म च ) महान् वेद ( शंस्या ) स्तुति करने, उपदेश देने योग्य होते हैं ।

स विद्वाँ अङ्गिरोभ्य इन्द्रो गा अ०वृणोदप ।

स्तुपे तदस्य पौंस्यम् ॥ ३ ॥

भा०—( सः ) वह ( विद्वान् ) ज्ञानवान् प्रभु आचार्य के समान (इन्द्रः) सत्य ज्ञान को साक्षात् करने वाला, सूर्यवत् ज्ञान का प्रकाशक, प्रभु (अंगिरोभ्यः) अंगारों के तुल्य तेजस्वी एवं देह में बलवीर्य के धारक ज्ञानी पुरुषों को ( गाः अप अ०वृणोत् ) वेद वाणियों का प्रकाश करता है । ( अस्य तत् ) उसके उस ( पौंस्यं ) परम पुरुष रूप की मैं (स्तुपे) स्तुति करूँ । ( २ ) इसी प्रकार ( इन्द्रः ) सूर्य या प्रभु ने सर्वत्र (अंगिरोभ्यः ) जीवों, देहधारियों के लिये (गाः) भूमियों को प्रकट किया ।

स प्रत्नथा कविवृध इन्द्रो वाकस्य वृक्षणिः ।

शिवो अर्कस्य होमन्यस्मत्रा गन्त्ववसे ॥ ४ ॥

भा०—( सः ) वह ( इन्द्रः ) ज्ञानदर्शी, ज्ञान का प्रकाशक प्रभु, ( प्रत्नथा ) पहले पूर्व कल्पों में भी ( कवि-वृधः ) विद्वानों को आचार्य-वत् बढ़ाने वाला, ( वाकस्य वृक्षणिः ) प्रवचन योग्य वेद को धारण-प्रवचन करने और मनुष्यों तक पहुंचाने वाला हो । वही ( शिवः ) कल्याणकारी, सब में व्यापक ( अर्कस्य होमनि ) अर्चनीय वेद मन्त्र के उच्चारण वा होम-काल में ( अस्मत्रा अवसे ) हमें ज्ञान प्रदान करने वा रक्षा करने के लिये ( आ गन्तु ) प्राप्त हो ।

आदू नु ते अनु क्रतुं स्वाहा वरस्य यज्यवः ।

श्वात्रसर्का अनूपतेन्द्रो गोत्रस्य दावने ॥ ५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तेजस्विन् ! (यज्यवः) तेरे उपासक, यज्ञशील, ( अर्काः ) अर्चना करने हारे जन (आत् उ नु) भी (वरस्य ते)

सबसे वरण करने, चाहने योग्य तेरे ( क्रतुम् अनु ) वेद ज्ञान के अनुसार ( स्वाहा ) उत्तम वाणी और आहुति द्वारा ( गोत्रस्य ) वाणियों के रक्षक तेरा ही ( दावने ) दान प्राप्त करने के लिये ( श्वात्रम् ) शीघ्र ही ( ते अनूपत ) तेरी स्तुति करें ।

इन्द्रे विश्वानि वीर्यां कृतानि कर्त्वानि च ।

यमर्का अध्वरं विदुः ॥ ६ ॥ ४२ ॥

भा०—( अर्काः ) स्तुतिकर्त्ता विद्वान् जन (यं) जिस प्रभु परमेश्वर को ( अध्वरं ) अहिंसक और अविनाशी, नित्य करुणा कर करके ( विदुः ) जानते हैं उसी ( इन्द्रे ) परमेश्वर में ( विश्वानि वीर्याणि ) समस्त वीर्य और समस्त ( कृतानि ) बने पदार्थ और ( कर्त्वानि ) करने योग्य कार्य आश्रित हैं । इति द्वाचत्वारिंशो वर्गः ॥

यत्पाञ्चजन्यया विशेन्द्रे घोषा असृक्षत ।

अस्तृणाद् ब्रह्णा विपोऽर्यो मानस्य स क्षयः ॥ ७ ॥

भा०—( पाञ्चजन्यया ) पाँचों जनों से बनी, ( विशा ) प्रजा (यत् इन्द्रे घोषाः असृक्षत ) जिस, इन्द्र, ईश्वर वा राजा विषयक स्तुतियों करती हैं वही ( ब्रह्णा ) बड़े भारी सामर्थ्य से जगत् को विस्तारित करता है, ( सः ) वही ( अर्यः ) स्वामी ( विपः मानस्य क्षयः ) विद्वान् जन की पूजा, परिचर्या का निवासस्थान होता है ।

इयमु ते अनुष्टुतिश्चकृषे तानि पौंस्या ।

प्रावश्चक्रस्य वर्त्तनिम् ॥ ८ ॥

भा०—( इयम् ते अनु-स्तुतिः ) यह तेरी स्तुति तेरे ही अनुरूप है, क्योंकि तू ही ( तानि पौंस्या चकृषे ) वे नाना पुरुष अर्थात् शक्तिमान् के करने योग्य पौरुष या बल के कार्य करता है और तू ( चक्रस्य ) जगत् के इस महान् चक्र, ब्रह्माण्ड चक्र वा ज्योतिश्चक्र के ( वर्त्तनिं ) वर्त्तन, निरन्तर

भ्रमण के कार्य को ( प्र अवः ) अच्छी प्रकार कराता है, उसको बराबर रथ के चक्र के तुल्य या यन्त्र के चक्र की तरह गति दे रहा है ।

( २ ) राजा नाना शौर्य करता और राजचक्र को चलाता है ।

अस्य वृष्णो व्योदने उरु क्रमिष्ट जीवसे ।

यवं न पश्व आ ददे ॥ ९ ॥

भा०—( वृष्णः व्योदने ) बरसते मेघ के द्वारा उत्पन्न अन्न पर जिस प्रकार जीव संसार-जीवन के लिये कदम बढ़ाता है और पशुगण जौ आदि चरता है उसी प्रकार ( अस्य वृष्णः ) इस परम बल शाली, सब सुखों के वर्षक प्रभु के ( वि-ओदने ) विशेष दयार्द्र भाव से पूर्ण रसवत् सुख में यह जीव लोक ( जीवसे ) जीवन प्राप्त करने के लिये ( उरु क्रमिष्ट ) बहुत कदम बढ़ाता है, और ( पश्वः यवं न ) पशु जिस प्रकार जौ को भोजन के लिये ग्रहण करते हैं उसी प्रकार ये समस्त जीवगण उसी ब्रह्मरूप परम सुखद, रसस्वरूप पदार्थ को ( आददे ) प्राप्त करते हैं ।

तद्दधाना अवस्यवो युष्माभिर्दक्षपितरः । स्याम मरुत्वतो वृधे १०

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! हम ( दक्ष-पितरः ) बल, अन्न, और प्रज्ञा के पालक होकर ( अवस्यवः ) अन्न और रक्षा, ज्ञानादि के इच्छुक होकर ( युष्माभिः ) तुम लोगों के साथ ही ( तत् ) उस परम ज्ञानमय ब्रह्म को ( दधानाः ) धारण करते हुए ( मरुत्वतः ) मरुत्वान्, प्राणों वाले देह वा आत्मा की ( वृधे स्याम ) वृद्धि में संलग्न रहें ।

वृत्त्वियाय धाम्न ऋक्भिः शूर नोनुमः ।

जेषामेन्द्र त्वया युजा ॥ ११ ॥

भा०—( वड् ) सत्य ही, हम ( वृत्त्वियाय ) ऋतु २ में आने वाले ( धाम्ने ) तेज को प्राप्त करने के लिये हे ( शूर ) शूरवीर ! हम ( ऋक्भिः ) ऋचाओं, अर्चनादि सत्कारों से ( नोनुमः ) स्तुति करते

हैं और ( त्वया युजा ) तुझे सहयोगी बनाकर हम ( जेषाम ) विजय लाभ करें ।

अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भरहूतौ सजोषाः ।

यः शंसते स्तुवते धायि पञ्ज इन्द्रज्येष्ठा अस्माँ अवन्तु देवाः १२।४३

भा०—( यः ) जो ( शंसते ) उत्तम प्रशंसा करते हुए और ( स्तुवते ) स्तुति करते हुए मनुष्य के लिये ( पञ्जः ) बलवान् दृढ़ रूप से ( धायि ) सूर्यवत् स्थित है और ( रुद्राः ) गर्जना करने वाले ( मेहना ) वर्षाकारी, ( पर्वतासः ) मेघों के समान ( रुद्राः ) दुष्टों को रूढाने वाले ( मेहनाः ) मेरा इसमें कुछ स्वार्थ नहीं इस प्रकार की त्याग भावना वाले, निःसंग ( पर्वतासः ) पर्वतवत् अचल, प्रजापालक जन ( वृत्र-हत्ये ) दुष्टों के हनन करने और ( भर-हूतौ ) यज्ञ के आहुति वा पोषण के कार्य में योग देने के अवसर में ( सजोषाः ) सप्रेम होकर ( देवाः ) विद्वान् विजयेच्छुक जन ( अस्मान् ) हमें ( अवन्तु ) रक्षा करें । त्रिचत्वारिंशो वर्गः ॥

[ ६४ ]

प्रगाथः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ५, ७, ९ निचृद् गायत्री ।

३ आर्ची स्वराड् गायत्री । ४ विराड् गायत्री । २, ६, ८, १०—१२ गायत्री । द्वादशर्चं सूक्तम् ॥

उत्त्वा मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः ।

अव ब्रह्मद्विपो जहि ॥ १ ॥

भा०—( स्तोमाः ) वेद के सूक्त और उत्तम स्तुति-वचन ( त्वा उत्-मन्दन्तु ) तुझे अति प्रसन्न करें । हे ( अद्रिवः ) बलवन् ! तू ( राधः कृणुष्व ) ऐश्वर्य का सम्पादन कर । और ( ब्रह्म-द्विपः ) वेद, ईश्वर और अन्न से द्वेष करने वालों को ( अव जहि ) दण्डित कर ।

पदा पँणीरराधसो नि बाधस्व महाँ असि ।

नहि त्वा कश्चन प्रति ॥ २ ॥

भा०—( पदा ) पैर से ( पणीन् अराधसः ) यज्ञार्थ, दान पुण्यार्थ, धन वा करोंदि से रहित केवल, धनव्यवहारियों को ( नि बाधस्व ) खूब पीड़ित कर । ( महान् असि ) तू सबसे बड़ा है । ( प्रति कश्चन नहि ) तेरे का मुकाबले और कोई दूसरा नहीं है । राजा का कर्त्तव्य है कि सब धन-व्यवहारियों पर राजा करादि दण्ड लगावे, जो राजकर वा धर्मकर न दे उसे दण्डित करे और उसके व्यवहार में बाधा करे । अथवा जो व्यक्ति विना धन के व्यापार करे राजा उस पर दण्ड करे । वह बहुतों का धन मार कर बाद में देवालिया होकर अन्यों को हानि करता है ।

त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम् । त्वं राजा जनानाम् ॥३॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ( त्वम् ) तू ( सुतानाम् ) अभिषेक प्राप्त पुरुषों का भी ( ईशिषे ) स्वामी है, ( त्वम् असुतानां ईशिषे ) तू अनभिषिक्तों का भी स्वामी है, ( त्वं जनानां राजा ) तू सब मनुष्यों का राजा है ।

एहि प्रेहि क्षयो दिव्याघोषश्चर्पणीनाम् ।

ओभे पृणासि रोदसी ॥ ४ ॥

भा०—हे राजन् ! ( आ इहि ) आ । ( क्षयः प्र इहि ) अच्छी प्रकार अपने निवासस्थान या ऐश्वर्यपद को प्राप्त हो । ( चर्पणीनाम् ) सब प्रजाओं के बीच ( दिवि ) भूमि में, वा आकाश में ( आघोपन् ) अपनी घोषणा करता हुआ, तू ( उभे रोदसी ) दोनों लोकों को ( आ पृणासि ) पूर्ण कर ।

त्यं चित्पर्वतं गिरिं शतवन्तं सहस्त्रिणम् ।

वि स्तोतृभ्यो रुरोजिथ ॥ ५ ॥

भा०—जिस प्रकार सूर्य, पवन या विद्युत् ( पर्वतं चित् रुजति )



मेघ को छिन्न भिन्न करता है, उसी प्रकार हे ज्ञानशालिन् ! तू भी (त्यं) उस (पर्वतं) नाना पोरुओं से (गिरिं) ज्ञान का उपदेश करने वाले, (शत-वन्तं सहस्रिणं) सौ और हजार अध्यायों वा सूक्तादि से युक्त वेद ज्ञान को (स्तोतृभ्यः) यथार्थ वक्ताजनों के लिये (सुरोजिथ) पृथक् २ कर व्याख्या कर ।

व्यमु॑ त्वा दिवा॑ सुते॒ व्यं नक्तं॑ हवामहे ।

अस्माकं॑ काम॒मा पृ॑ण ॥ ६ ॥ ४४ ॥

भा०—हे राजन् ! विद्वन् ! (सुते) ऐश्वर्ययुक्त अभिपेक्षनीय पद के लिये, (त्वा) तुझे (व्यम् उ) हम (दिवा नक्तम्) दिन रात (हवामहे) प्रार्थना करते हैं (अस्माकं कामम् आपृण) हमारी कामना को पूर्ण कर । इति चतुश्चत्वारिंशो वर्गः ॥

क॑स्य वृ॒षभो॑ युवा॑ तुवि॒ग्रीवो॑ अनानतः ।

ब्रह्मा॑ कस्तं॑ सपर्यति ॥ ७ ॥

भा०—(स्यः) वह (वृषभः) सुखों का वर्षण करने वाला, (युवा) बलवान्, (तुविग्रीवः) दृढ़, विस्तृत, बलशाली गर्दन वाला, भार उठाने में समर्थ, (अनानतः) कभी न झुकने वाला (क) कहां है (कः ब्रह्मा) कौन ब्रह्मवेत्ता, विद्वान् वेदज्ञ ऐसा है जो (तं सपर्यति) उसकी पूजा करता है ।

कस्य॑ स्वित्सर्व॒नं वृ॒षा जुजु॑ष्वाँ अ॒र्व गच्छ॑ति ।

इन्द्रं॑ क उ॑ स्वित्वा च॒के ॥ ८ ॥

भा०—(वृषा) सुखों का वर्षक, वह प्रभु (कस्य स्वित् सवनं) किस की उपासना को (जुजुष्वान् अव गच्छति) प्रेम से युक्त होकर स्वीकार करता है, (कः उ स्वित्) वह कौन सा पुरुष है जो (इन्द्रं आचके) उस परमैश्वर्यप्रद को चाहता है । ऐसा कोई ही विरला है ।

कं ते दाना असक्तवृत्रहन्कं सुवीर्या ।

उक्थे क उ स्वित्दन्तमः ॥ ९ ॥

भा०—हे ( वृत्रहन् ) विघ्नो के नाश करने हारे ! ( ते दाना ) तेरे दिये दान ( कं असक्तवृत्रहन् ) कैसे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं ? ( कं सुवीर्या ) उत्तम बल भी किस को मिलते हैं ? ( क उ स्वित् ) कौन ऐसा भाग्यवान् है जो ( अन्तमः ) तेरे अति समीपतम है ?

अयं ते मानुषे जने सोमः पुरुषु स्यूते ।

तस्येहि प्र द्रवा पिव ॥ १० ॥

भा०—(मानुषे जने) मननशील जनों में ( ते ) तेरे लिये ( पुरुषु ) इन्द्रियों में ज्ञान के समान ( सोमः स्यूते ) सोम, ऐश्वर्यप्रद का अभिप्रेक किया जाता है, तू ( प्र द्रव ) उत्तम मार्ग से चल और ( इहि ) प्राप्त हो और ( आ पिव ) सब प्रकार से ओषधि रसवत् उपभोग और पालन कर ।

अयं ते शर्यणावति सुषोमायामधि प्रियः ।

आर्जिकीये मदिन्तमः ॥ ११ ॥

भा०—( अयं ) यह तेरा अभिप्रेक हे राजन् ( आर्जिकीये ) ऋजु, सरल धर्ममार्ग में वर्तमान ( शर्यणावति ) शर अर्थात् वाण धनुषादि शस्त्रास्त्र में कुशल जनों से समृद्ध जनपद में ( सु-सोमायां ) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त या उत्तम जल-अन्न से समृद्ध भूमि के ऊपर ( प्रियः ) अतिप्रिय और ( मदिन्तमः ) अतिहर्षजनक हो । \*

\* सरल समभूमि वाले प्रदेश में उत्तम जलयुक्त शरकाण्ड वाली भूमि में उत्पन्न सोमलता का रस अति आह्लादजनक, पौष्टिक, मत्तभावना होता है। यह वेद ने स्पष्ट कहा। आर्जिकीया नदी विपाशा नाम से प्रसिद्ध है ऐसा यास्क का मत है। सायण के मत से कुरुक्षेत्र के दक्षिणार्ध भाग में

तमद्य राधसे महे चारुं मदाय घृष्वये ।

एहीमिन्द्र द्रवा पिव ॥ १२ ॥ ४५ ॥

भा०—( अद्य ) आज हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( आ इहि ) आ । ( तम् चारुं ) उस उत्तम वा चरण अर्थात् फल रूप में उपभोग योग्य ऐश्वर्य पद को ( महे राधसे ) बड़े भारी धन प्राप्ति के लिये और ( घृष्वये मदाय ) शत्रु-पराजयकारी, आनन्द लाभ के लिये ( द्रव ) प्राप्त हो और ( आ पिव ) पालन और उपभोग कर । इति पञ्चत्वारिंशो वर्गः ॥

[ ६५ ]

प्रागाथः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, २, ५, ६, ९, ११, १२  
निचृद् गायत्री । ३, ४ गायत्री । ७, ८, १० विराड् गायत्री ॥ द्वादशर्चं सूक्तम् ॥

यदिन्द्र प्रागपागुदुङ् न्यग्वा ह्यसे नृभिः ।

आ याहि तूर्यमाशुभिः ॥ १ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन्तः ! ( यत् ) जो तू ( प्राक् अपाक्, उदक्, न्यक् वा नृभिः ह्यसे ) पूर्व पश्चिम, उत्तर वा नीचे कहीं से भी बुलाया जाय, तू ( तूर्यम् ) शीघ्र ही ( आशुभिः ) शीघ्रगामी अश्वों के तुल्य व्यापक गुणों से ( आ याहि ) प्राप्त हो ।

यद्वा प्रचवरो दिवो मादयासे स्वर्णरे ।

यद्वा समुद्रे अन्धसः ॥ २ ॥

वह स्थान है । प्रायः जहां भी हिमवती नदियां पर्वतों से निकल कर सम भूमि भाग में आती हैं वहां २ वेद के वतलाये उक्त लक्षण पाये जाते हैं । उन्हीं स्थलों पर ब्राह्मी आदि गुणवती ओपधियां प्रचुर मात्रा में होती हैं । सोम का भी उन स्थानों में पाया जाना सम्भव है ।

भा०—(यद्वा) चाहे तू (दिवः प्रसवणे) प्रकाश के निकास रूप (स्वः चरे) सुख के प्राप्त कराने वाले रूप में (यद्वा) अथवा (अन्धसः) अन्न के (समुद्रे) अपार उत्पादक, सेचक, मेघवत् सर्वजीवन प्रद के रूप में तू (मादयसे) सब को सुखी करता है।

आ त्वा गीर्भिर्महामुरुं हुवे गामिबु भोजसे ।

इन्द्र सोमस्य पीतये ॥ ३ ॥

भा०—(भोजसे गाम् इव) खाद्य पदार्थ, दुग्ध आदि के प्राप्त करने के लिये गौ के समान हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (सोमस्य पीतये) ज्ञान रस के पान और ब्रह्मचर्य, ऐश्वर्यादि के पालन करने के लिये (त्वा) तुझ (महाम् उरुं) बड़े ज्ञानी को (गीर्भिः) वाणियों द्वारा (हुवे) पुकारता हूँ।

आ त इन्द्र महिमानं हरयो देव ते महः । रथे वहन्तु विभ्रतः४

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे (देव) प्रकाशस्वरूप ! (महिमानं विभ्रतः) महान् सामर्थ्य को धारण करने वाले (ते) तुझे और (महः विभ्रतः ते) तेज वा बड़े भारी जगत् को धारण करने वाले (रथे हरयः) रथ में लगे अश्वों के तुल्य (रथे हरयः) रमण योग्य इस देह में विद्यमान सब मनुष्य (आ वहन्तु) आदरपूर्वक धारण करें।

इन्द्र गृणीष उ स्तुषे महाँ उग्र ईशानकृत् ।

एहि नः सुतं पिव ॥ ५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (महान्) बड़ा, (उग्रः) बलवान्, दुष्टों को भयजनक, (ईशानकृत्) सर्वस्वामी होकर, सब जगत् पर शासन करने वाला, (गृणीषे) वर्णन किया और (स्तुषे उ) स्तुति भी किया जाता है, तू (नः आ इहि) हमें प्राप्त हो और (सुतं पिव) उत्पन्न जगत् का पालन कर

सुतावन्तस्त्वा वयं प्रयस्वन्तो हवामहे ।

इदं नो वहिँरासदे ॥ ६ ॥ ४६ ॥

भा०—( वयं सुत-वन्तः ) हम सुत अर्थात् उत्पन्न ज्ञान वाले, और ( प्रयस्वन्तः ) उत्तम अज्ञादि से सम्पन्न होकर भी ( त्वा हवामहे ) तुझ से याचना करते हैं कि ( नः ) हमारे ( इदं वहिँः आसदे ) इस हृदयासन पर विराज । ( २ ) इसी प्रकार उत्तम ऐश्वर्य, अन्न, उद्योगादि से युक्त, प्रजापुं राजा से उत्तम ( वहिँः ) राष्ट्र प्रजा के ऊपर शासनार्थ विराजने की प्रार्थना करें ।

यच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र साधारणस्त्वम् ।

तं त्वा वयं हवामहे ॥ ७ ॥

भा०—( यत् चित् हि ) जिस कारण से ( शश्वताम् साधारणः त्वम् असि ) तू बहुतों में भी साधारण, समान रूप से सबके प्रति निष्पक्षपात होकर सबको धारण पोषण करने हारा है, इसलिये ( तं त्वा ) उस तुझ को ( वयं हवामहे ) हम आदरपूर्वक बुलाते, प्रार्थना करते हैं । इदं ते सोम्यं मध्वधुक्षन्नाद्रिभिर्नरः । जुषाण इन्द्र तत्पिव ॥८॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! ( नरः ) नायक लोग ( अद्रिभिः ) शस्त्रास्त्र बलों द्वारा ( ते ) तेरे लिये ( सोम्यं मधु ) ओषधि-रसादि से युक्त अन्न को ( अधुक्षन् ) प्राप्त करते हैं । तू ( जुषाणः ) प्रेम से सेवन करता हुआ ( तत् पिव ) उसका उपभोग कर । ( २ ) हे प्रभो ! ( ते सोम्यं मधु ) तेरे ही जगत् के उत्पादन और संचालन करने वाले सर्वैश्वर्य युक्त ( मधु ) बल वा ज्ञान का गुरुओं से शिष्यवत् ( नरः ) उत्तम जन ( अद्रिभिः ) मेघों से जलवत्, अखण्ड तपों से दोहन करते हैं । तू ( जुषाणः ) प्रेमपूर्वक सेवा किया ( अधुक्षन् ) जाकर ( तत् पिव ) उसे हमें पिला, पान करा ।

विश्वं अर्यो विपश्चितोऽति ख्यस्तूयमा गहि ।

अस्मे धेहि श्रवो बृहत् ॥ ९ ॥

भा०—तू ( अर्यः ) सबका स्वामी है । अतः तू ( विश्वान् विपश्चितः ) समस्त विद्वानों को ( अति ख्यः ) पार करके सबसे अधिक विवेचक दृष्टि से देखता है । तू ( तूयम् आ गहि ) शीघ्र ही हमें प्राप्त हो । ( अस्मे बृहत् श्रवः धेहि ) हमें बड़ा भारी ज्ञान, यश आदि प्रदान कर ।

दाता मे पृषतीनां राजा हिरण्यवीनाम् ।

मा देवा मघवा रिषत् ॥ १० ॥

भा०—हे ( देवाः ) विद्वान् जनो ! ( हिरण्य-वीनां ) हित रमणीय कान्तियों से ( राजा ) प्रकाशमान प्रभु, ( मे ) मुझे ( पृषतीनां ) आनन्द की वर्षणकारी वाणियों का ( दाता ) देने वाला परम गुरु ( मघवा ) उत्तम-ज्ञान का धनी ( मा रिषत् ) दण्डित, व्यथित न करे । ( २ ) राजा भी सुवर्ण युक्त रथ विमानादि का स्वामी, और उत्तम गौवों का दाता धनी मुझ प्रजाजन का नाश न करे ।

सहस्रे पृषतीनामधिश्चन्द्रं बृहत्पृथु । शुक्रं हिरण्यमा ददे ॥११॥

भा०—( पृषतीनाम् सहस्रे अधि ) सहस्रों सुखवर्षक वाणियों या नाड़ियों के भी ऊपर सहस्र नाड़ियों से युक्त मूर्धा में ( बृहत् पृथु ) बड़े विस्तृत ( चन्द्रं ) आल्हादजनक ( शुक्रम् हिरण्यं ) हितकारी सुखप्रद कान्तियुक्त वीर्य को ( आददे ) धारण करूँ, मैं ऊर्ध्वरेता होऊँ ।

नपातो दुर्गहस्य मे सहस्रेण सुराधसः । श्रवो देवेष्वक्रत १२।४७

भा०—व्रत से न गिरने वाले ( सहस्रेण दुर्गहस्य ) हजारों से दुर्ग्राह्य, अविज्ञेय, ( सुराधसः ) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त ( मे ) मेरा ( श्रवः ) ज्ञान ( देवेषु ) ज्ञान की कामना करने वाले शिष्यों में ( अक्रत ) प्रदान करो । इति सप्तचत्वारिंशो वर्गः ॥

[ ६६ ]

कलिः प्रागाथ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ वृहती । ३, ५, ११, १३  
विराड् वृहती । ७ पादनिचृद् वृहती । २, ८, १२ निचृत् पंक्तिः । ४, ६  
विराट् पंक्तिः । १४ पादनिचृत् पंक्तिः । १० पंक्तिः । ६, १५ अनुष्टुप् ॥

पञ्चदशार्च सूक्तम् ॥

तरोभिर्वो विद्वंसुमिन्द्रं सवाधं ऊतये ।

वृहद् गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम् ॥१॥

भा०—हे विद्वान् जनो ! आप लोग ( स-वाधः ) पीड़ित होकर  
( ऊतये ) रक्षा के लिये ( तरोभिः ) तारण करने वाले ज्ञानों से ( वः )  
आप लोगों को ( विद्व-वसुम् ) नाना ऐश्वर्यों के प्राप्त कराने वाले, ( इन्द्रं )  
उस सर्वैश्वर्यवान् को ( कारिणं भरं न ) सर्वकर्ता सर्वपोषक पिता के समान  
जान कर ( वृहद् गायन्तः ) वेदवाणी का गान करते हुए ( सुत-सोमे अध्वरे )  
सोम सवनयुक्त यज्ञ में, वा ज्ञानसम्पादन युक्त हिंसारहित विशुद्ध  
उपासना में प्रार्थना करो । मैं भी उसी को ( हुवे ) प्रार्थना करता हूँ ।

न यं दुध्रा वरन्ते न स्थिरा मुरो मदे सुशिप्रमन्धसः ।

य आदृत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरित्र उक्थ्यम् ॥ २ ॥

भा०—( यं सु-शिप्रम् ) जिस उत्तम बलशाली को ( दुध्राः न वरन्ते )  
दुर्धर अर्थात् बड़े बलशाली भी वारण नहीं कर सकते ( न स्थिराः मुरः )  
स्थिर, अचल शत्रुमारक बली भी जिसको वारण नहीं कर सकते, उसके किये  
को नहीं बदल सकते, ( यः ) जो ( अन्धसः मदे ) अन्नवत् ज्ञान-जीवन  
के आनन्द में ( शशमानाय ) प्रशंसा करते हुए, ( सुन्वते ) उपासना  
करते हुए, ( जरित्रे ) स्तोतां जन के हितार्थ, ( आदृत्य दाता ) आदर  
करके प्रेमपूर्वक दान देता है, उस ( उक्थ्यम् ) स्तुत्य प्रभु की मैं उपा-  
सना करूँ ।

यः शक्रो मृत्तो अश्व्यो यो वा कीजो हिरण्ययः ।

स ऊर्वस्य रेजयत्यपावृत्तिमिन्द्रो गव्यस्य वृत्रहा ॥ ३ ॥

भा०—( यः ) जो ( शक्रः ) शक्तिशाली, ( मृक्षः ) अति शुद्ध ( अश्व्यः ) सर्वव्यापक है, ( यः वा ) जो ( कीजः ) अद्भुत, ( हिरण्ययः ) हित रमणीयस्वरूप, तेजोमय है ( सः ) वह ( ऊर्वस्य ) बहुत बड़े ( गव्यस्य ) वाणीसमूह रूप वेद के ( आवृत्तिम् ) आवरण को ( अप रेजयति ) दूर करता है, वही ( इन्द्रः ) परमैश्वर्यवान्, ( वृत्रहा ) सब दुष्टों और विघ्नों का नाश करने हारा है ।

निखातं चिद्यः पुरुसम्भृतं वसूदिद्वपति दाशुपे ।

वज्री सुशिप्रो हर्यश्व इत्करिन्द्रः क्रत्वा यथा वशत् ॥ ४ ॥

भा०—( चित् ) जिस प्रकार कोई ( निखातं पुरुसम्भृतं वसु उद्वपति ) बहुत सा एक स्थान पर गड़ा खजाना खोद लेता है उसी प्रकार ( यः ) जो ( वज्री ) शक्तिमान्, ( सु-शिप्रः ) उत्तम मुख नासिका वाले वा उत्तम मुकुट वाले के समान सुरूप, सुज्ञानी, ( हर्यश्वः ) मनुष्यों को अश्वोंवत् सन्मार्ग पर चलाने हारा ( इन्द्रः ) वह प्रभु ( निखातं ) गाढ़े ( पुरुसम्भृतं ) इन्द्रियों वा बहुत सी प्रजाओं द्वारा सम्यक् प्रकार से धारित ( वसु ) ऐश्वर्य को ( दाशुपे ) भूमि से अन्न के समान उत्पन्न कर प्रदान करता है वही ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् प्रभु है, वह ( यथावशत् ) जैसा चाहता है वैसे ही ( क्रत्वा ) अपने ज्ञान और धर्मसामर्थ्य से ( करत् ) जगत् का निर्माण करता है ।

यद्वावन्थ पुरुषुत पुरा चिच्छूर नृणाम् ।

वयं तत्त इन्द्र सं भिरामसि यज्ञमुक्थं तुरं वचः ॥ ५ ॥ ४८ ॥

भा०—हे ( पुरुस्तुत ) बहुतों से स्तुति योग्य ! हे ( शूर ) दुष्टों के नाशक ! तू ( पुरा चित् ) पूर्ववत् अब भी ( नृणां यद् वावन्थ )



मनुष्यों के निमित्त जो चाहता है हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( वयं ) हम ( तत् ते ) वह तेरे लिये ( यज्ञम् उक्तं वचः ) यज्ञ, उत्तम वचन ( तुरं संभरामसि ) अति शीघ्र करें । इत्यष्टाचत्वारिंशो वर्गः ॥

सचा सोमेषु पुरुहूत वज्रिवो मदाय द्युक्ष सोमपाः ।

त्वमिद्धि ब्रह्मकृते काम्यं वसु देष्टः सुन्वते भुवः ॥ ६ ॥

भा०—(पुरुहूत) बहुतों से स्तुति किये जाने योग्य ! हे (वज्रिवः) शक्तिशालिन् ! हे ( द्युक्ष ) कान्तिमन् ! हे ( सोमपाः ) जगत् वा राष्ट्र के पालक ! तू ( सोमेषु ) उत्पन्न जगत् के समस्त ऐश्वर्यों में ( सचा ) विद्यमान है । ( त्वम् इत् हि ) तू ही, ( ब्रह्म-कृते ) स्तोता ( सुन्वते ) उपासक को ( काम्यं वसु देष्टः भुवः ) कामना करने योग्य धन का सर्वोत्तम दाता है ।

वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वज्रिणम् ।

तस्मा उ अद्य समना सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते ॥ ७ ॥

भा०—( वयम् ) हम लोग ( इदा ह्यः ) विगत दिन के समान इस समय भी ( एनं वज्रिणं ) इस शक्तिशाली को ( अपीपेम ) आप्यायित करें, प्रसन्न करें ( तस्मै उ अद्य ) उस ही के लिये आज ( समना ) समान चित्त होकर ( भर ) ऐश्वर्य प्राप्त कराओ, और ( नूनं ) शीघ्र ही ( श्रुते ) प्रसिद्ध, श्रवण योग्य पद पर ( भूषत ) उसे शोभित करो । ( २ ) प्रभु पक्ष में—उस शक्तिशाली प्रभु की हम खूब भक्ति करते हैं, समान चित्त होकर ध्यान करने के लिये समस्त ( सुतं ) उत्पन्न भावना वा कर्म फल को उसी पर न्योछावर करो और ( श्रुते ) श्रुति से श्रवण योग्य उसी प्रभु में ( भूषत ) स्वयं निष्ठ होंगे ।

वृकश्चिदस्य वारुण उरामथिरा वयुनेषु भूषति ।

सेमं नः स्तोमं जुजुषाण आ गृहीन्द्र प्र चित्रया धिया ॥ ८ ॥

भा०—( उरामथिः वृकः चित् ) ऊन वाली भेड़ को मारने हारे

भेड़िये के समान ( वारणः ) शत्रु का वारण करने में समर्थ शूरवीर ( अस्य वयुनेषु भूपति ) इस राजा के कार्य में समर्थ होता है । (२) प्रभु पक्ष में—( वृकः चित् उरामथिः ) हल के समान भूमि को खनने वाला, वा चन्द्र के समान रात्रि के अन्धकार का नाशक, वा वृक पशु के समान अच्छादक ज्ञान का नाशक और ( वारणः ) सब विघ्नों को दूर करने हारा ज्ञानी तेजस्वी पुरुष ही, ( अस्य वयुनेषु ) इस प्रभु के ज्ञानैश्वर्यों को प्राप्त करने में ( आ भूपति ) सफल होता है । अथवा, ( अस्य ) इस जीव को ( उरामथिः वृकः चित् ) भेड़ के नाशक वा भेड़िये के समान आवरक तम के नाशक, चन्द्रवत् ( वृकः ) ज्योतिष्मान् ( वारणः ) सर्वदुःखवारक प्रभु ही उसे ( वयुनेषु आ भूपति ) सब ज्ञानों में अलंकृत करता वा समर्थ बनाता है हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( सः ) वह तू ( नः ) हमारे ( इमं स्तोमं जुजु-पाणः ) इस स्तुतिवचन को प्रेम से स्वीकार करता हुआ, ( चित्रया धिया ) ज्ञानप्रद अद्भुत बुद्धि, ज्ञान, कर्म से ( आ गहि ) आ, हमें प्राप्त हो ।

कदु न्व॑स्याकृतमिन्द्र॑स्यास्ति पौंस्य॑म् ।

केनो॑ नु कं श्रोम॑तेन॒ न शुश्रु॑वे जनुपः॑ परि वृत्र॑हा ॥ ९ ॥

भा०—(अस्य) इस ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यवान् प्रभु का ( कत् उ पौंस्यं नु अकृतम् अस्ति ) कौन सा बल का कर्म नहीं किया हुआ है, सब बल के कर्म इसी के किये हैं । वह ( वृत्रहा ) सब विघ्नों और दुष्टों का वारक और दण्ड देने हारा, वह ( वृत्रहा ) आवरणकारी प्रकृतिमय सलिल को गति देने वाला, उसमें भी व्यापक ( जनुपः परि ) जन्मशील इस चराचर जगत् के ऊपर ( केन उ श्रोमतेन ) भला किस श्रवणीय, वेदगम्य गुण और कर्म से ( न शुश्रुवे ) श्रवण नहीं किया जाता ? उसके सृष्टि, स्थिति संहारादि के सभी कार्य अद्भुत और शास्त्रगम्य हैं ।

कदू॑ महीरधृ॑ष्टा अस्य॒ तवि॑प्रीः कदु॑ वृत्र॑घ्नो अस्तृ॑तम् ।

इन्द्रो॑ विश्वान्वेक॑नाटाँ अहृ॑दृशं उत॑ क्रत्वा॑ प॒रणी॑रभि ॥१०॥४९॥

भा०—अथवा ( अस्य ) इसकी ( महीः ) बड़ी, (तविषीः) शक्तियों ( कत् उ ) कितनी हैं ? अपरिमित हैं । ( अस्य वृत्र-घ्नः ) इस वृत्र अर्थात् मेघवत् प्रकृतिमय सलिल के विक्षोभक परमेश्वर का ( अस्मृतम् ) अहिंसित, नित्य स्थायी बल वा स्वरूप (कत् उ) कितना और कैसा है ? यह नहीं कहा जा सकता है । वह (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् प्रभु (विश्वान् वेकनाटान् ) सब महाजनों वा विवेकी (उत) और (अहः-दशः पणीन् ) सूर्य को देखने वाले सब व्यवहारकुशलों को भी ( क्रत्वा ) अपने ज्ञान से ( अभि ) परास्त करता है, वह सर्वोपरि है ॥ वेकनाटाः—वे इति अपभ्रंशो द्विशब्दार्थे । एकं कार्पापणं ऋणिकाय प्रयच्छन् द्वौ मह्यं दातव्यौ नयेन दर्शयति । ततो द्विशब्देनैकशब्देन च नाटयन्तीति वेकनाटाः इति सायणः । एक २ के दो लेने का संकेत कर समझाने वाले सुदखोर महाजन लोग 'वेकनाट' कहाते हैं । अथवा वेकनाटः—न ते नासिकायाः सज्ञायां टीटज्नाटज्-भ्रटजः ॥ पा० ५ । २ । ३१ ॥ इति नाटच् । वेकनाटा, वेकनासिकाः भेक नासिकाः विकटनासिका वा । अथवा विचिर पृथग्भावे, वेकः पृथग्भावः, वेकनाटाः छिन्ननासः, विनासिका, विवेकशीलनासिकाः कुशला वा इत्येकोनपञ्चाशत्तमो वर्गः ॥

वयं घां ते अपूर्व्येन्दु ब्रह्माणि वृत्रहन् ।

पुरुतमासः पुरुहूत वज्रिवो भृतिं न प्र भरामसि ॥ ११ ॥

भा०—हे ( अपूर्व्यं ) सबसे पूर्व, एवं सबसे पूर्ण ! हे ( वृत्रहन् ) दुष्टों के नाशक ! हे ( पुरुहूत ) बहुतों से प्रशंसित ! हे ( वज्रिवः ) शक्तिशालिन् ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( वयं घ पुरुतमासः ) हम उत्तम जन, ( ते ) तेरे लिये ( भृतिं न ) वेतन के समान ही करादि नित्य नियम से ( प्र भरामसि ) प्रदान करें । इसी प्रकार प्रभु की भक्ति भी हम नियम से अपने भोजन के समान ही नित्य किया करें ।

पूर्वांश्चिद्धि त्वे तुविकूर्मिन्नाशसो हवन्त इन्द्रोतर्यः ।

तिरश्चिद्दर्यः सवना वसो गहि शविष्ठ श्रुधि मे हवम् ॥ १२ ॥

भा०—हे ( तुवि-कूर्मन् ) बहुत से कर्म करने हारे ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( त्वे ) तेरे अधीन ( पूर्वीः चित् हि ) पूर्ण, समृद्ध ( आशसः ) उत्तम स्तुतिशील प्रजाएं और ( ऊतयः ) रक्षक सेनाएं ( हवन्ते ) तेरी स्तुति करती हैं । तू ( अर्यः ) सबका स्वामी, ( तिरः चित् ) प्राप्त हुए ( सवना गहि ) ऐश्वर्य प्राप्त कर । हे ( वसो ) सबको बसाने हारे ! हे ( शविष्ठ ) अति शक्तिशालिन् ! तू ( मे हवं श्रुधि ) मेरे वचन, प्रार्थनादि श्रवण कर ।

वयं घा ते त्वे इद्विन्द्र विप्रा अपि ण्सि ।

नहि त्वदन्यः पुरुहूत कश्चन मघवन्नस्ति मर्डिता ॥ १३ ॥

भा०—( वयं घ ते ) हम तो तेरे ही हैं, ( त्वे इत् ) तेरे ही अधीन हम ( विप्राः ) विद्वान् जन हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( अपि, ण्सि ) सदा रहें, तुझ में निमग्न हों, अप्यय अर्थात् मोक्ष प्राप्त करें । हे ( पुरुहूत ) बहुतों के स्तुतिपात्र ! ( मघवन् ) उत्तम स्वामिन् ! ( त्वद् अन्यः कः चन ) तेरे से दूसरा कोई और ( मर्डिता नहि अस्ति ) सुख देने वाला नहीं है ।

त्वं नो अस्या अमतेरुत क्षुधो अभिशस्तेरव स्पृधि ।

त्वं न ऊती तव चित्रया धिया शिक्षा शचिष्ठ गातुवित् ॥१४॥

भा०—हे ( शचिष्ठ ) शक्तिशालिन् ! तू ( नः ) हमें ( अस्याः अमतेः ) अज्ञान, दारिद्र्य और ( क्षुधः ) भूख, तृष्णा, ( उत ) और ( अभिशस्तेः ) निन्दा से ( अव स्पृधि ) मुक्त कर । हे ( गातुवित् ) मार्गवित् ! उपायज्ञ, वाणी के जानने और प्राप्त कराने हारे ! ( त्वं ) तू ( नः ) हमें ( तव चित्रया ऊती ) तेरी अपनी आश्चर्यकारी रक्षा और ( धिया ) ज्ञान, कर्मशक्ति से ( शिक्ष ) ज्ञान प्रदान कर ।

सोम इद्वः सुतो अस्तु कलयो मा विभीतन ।

अपेदेष ध्वस्मायति स्वयं वैषो अपायति ॥ १५ ॥ ५० ॥

भा०—हे ( कलयः ) उक्त ज्ञानवान् कर्मशील पुरुषो ! ( वः ) आप लोगों का ( सोमः ) ज्ञान और ऐश्वर्य ( सुतः अस्तु ) सदा उत्पन्न होता रहे । आप लोग ( मा विभीतन ) भय मत करो । ( एषः ) यह ज्ञान के उदय होने पर तेज से अन्धकारवत् ( अप ध्वस्मायति इत् ) स्वयं नष्ट हो जाता है, ( स्वयं घ एषः अपायति ) वह आप ही दूर हो जाता है । इति पञ्चाशत्तमो वर्गः ॥

### [ ६७ ]

मत्स्यः सांमदो मान्यो वा मैत्रावरुणिवर्हवो वा मत्स्या जालनद्धा ऋषयः ॥  
आदित्या देवताः । छन्दः—१—३, ५, ७, ९, १३—१५, २१ निचृद्  
गायत्री । ४, १० विराड् गायत्री । ६, ८, ११, १२, १६—२० गायत्री ॥

त्यान्नु क्षत्रियाँ अव आदित्यान्याचिषामहे ।

सुमृत्कीकाँ अभिष्टये ॥ १ ॥

भा०—हम ( तान् ) उन ( क्षत्रियान् ) धनवान् और बलशाली ( सुमृ-  
त्कीकान् ) उत्तम सुखप्रद, ( आदित्यान् ) किरणों वा वारह मासों के समान  
तेजस्वी दान, कर आदि लेने वाले, विद्वानों और क्षत्रियों को ( अभिष्टये )  
अपने अभीष्ट सुख को प्राप्त करने के लिये ( अवः याचिषामहे ) विनय  
पूर्वक धन, ज्ञानादि की याचना करें ।

मित्रो नो अत्यंहति वरुणः पर्षदर्यमा ।

आदित्यासो यथा विदुः ॥ २ ॥

भा०—( मित्रः ) स्नेही जन ( वरुणः ) श्रेष्ठ पुरुष, ( अर्यमा )

शत्रुओं का नियन्ता न्यायकारी जन, और ( आदित्यासः ) तेजस्वी ४८ वर्ष के ब्रह्मचर्य के पालक जन भी ( यथा विदुः ) जैसे अच्छा जानें जैसे ( नः ) हमें ( अंहतिं अतिपर्षत् ) पाप से पार करें ।

तेषां हि चित्रमुक्थ्यं वरूथमस्ति दाशुषे । आदित्यानामरुक्तेः

भा०—( तेषां आदित्यानां ) उन विद्वान् तपस्वी जनों का ( अरुक्ते ) अत्यन्त अधिक श्रम करने वाले ( दाशुषे ) दानशील जन के लिये ( चित्रम् ) अद्भुत ( उक्थ्यम् ) स्तुत्य ( वरूथम् ) दुःखवारक धन ( असि ) है ।

महिं वो महतामवो वरुण मित्रार्यमन् । अवांस्या वृणीमहे ॥४॥

भा०—हे ( वरुण मित्र अर्यमन् ) श्रेष्ठ ! स्नेहवन् ! न्यायकारिन् ! ( वः महताम् ) आप बड़ों का ( महि अवः ) ज्ञान और पालन सामर्थ्य भी बड़ा है । आप लोगों से हम ( अवांसि वृणीमहे ) नाना ज्ञानों, रक्षाओं की याचना करते हैं ।

जीवान्नां अभि धेतनादित्यासः पुरा हथात् ।

कद्धं स्थ हवनश्रुतः ॥ ५ ॥ ५१ ॥

भा०—हे ( आदित्यासः ) तेजस्वी पुरुषो ! ( पुरा हथात् ) मृत्यु से पहले आप लोग ( नः जीवान् ) हम जीवित जनों को ( अभि धेतन ) सदा पालन पोषण करते रहो, हे ( हवन-श्रुतः ) आह्वान के सुनने वाले ! आप ( कत् ह स्थ ) कहीं भी होवो, इस व्रत का पालन करो । इत्येक-पञ्चाशत्तमो वर्गः ॥

यद्दः श्रान्ताय सुन्वते वरूथमस्ति यच्छुदिः ।

तेना नो अधि वोचत ॥ ६ ॥

भा०—हे उत्तम मनुष्यो ! ( यद् वरूथम् ) जो तुम लोगों का दुःखादि वारण करने योग्य धन और ( यत् छुदिः ) जो गृह है वह ( श्रान्ताय )

श्रमशील तपस्वी, और ( सुन्वते ) उपासक भक्त जन के लिये हो । (तेन) उसी तपस्वी और उपासक भक्त जन द्वारा (नः अधि वोचत) हमें उत्तम उपदेश करो ।

अस्ति देवा अंहोरुर्वस्ति रत्नमनागसः ।

आदित्या अद्भुतेनसः ॥ ७ ॥

भा०—हे ( देवाः ) विद्वान् पुरुषो ! (अंहोः) हिंसक एवं पापकारी पुरुष का पाप या कष्ट भी ( उरु अस्ति ) बड़ा अधिक होता है । और (अनागसः) निरपराधी को (रत्नं उरु अस्ति ) सुख भी बहुत होता है । हे (आदित्याः) अदिति अर्थात् उत्तम माता पिता के उत्तम पुत्रो ! एवं उत्तम विद्वान् व्रतधारी तेजस्वी पुरुषो ! आप लोग सदा ( अद्भुत-पुनसः ), पापरहित, निरपराधी होवो ।

मा नः सेतुः सिपेदयं महे वृणक्तु नस्परि ।

इन्द्र इद्धि श्रुतो वशी ॥ ८ ॥

भा०—( सेतुः ) बन्धन, वा बन्धनकारी अधिकारी (नः मासिपेत) हमें बन्धन में न बांधे । ( अयं ) यह ( नः ) हमें ( महते ) बड़े उद्देश्य के लिये ( परि वृणक्तु ) घुरे काम से बचावे । ( इन्द्रः इत् हि ) इन्द्र ही ( वशी श्रुतः ) सबको बश करने वाला सुना जाता है, वेद में बतलाया गया है ।

मा नो मृचा रिपूणां वृजिनानामविष्यवः ।

देवा अभि प्र मृक्षत ॥ ९ ॥

भा०—हे (अविष्यवः देवाः) रक्षा करने के इच्छुक विद्वान् मनुष्यो ! ( रिपूणां ) शत्रुओं और ( वृजिनानां मृचा ) पापों के विनाशकारी साधन से ( नः मा अभि प्र मृक्षत ) हमारा नाश मत होने दो । अत्र मृक्षत इत्यपि हिंसार्थस्य मृचरेव रूपम् ।

उत त्वामदिते मह्यहं देव्युपं ब्रुवे । सुमृळीकामभिष्टे

भा०—हे ( महि ) पूज्ये ! हे ( देवि ) विदुषि ! हे ( अदिते )

पृथिवि ! मातः ! (उत) और मैं (सुसृडीकाम्) उत्तम सुखदायिनी दयावती (त्वाम्) तुझ से (अभिष्टये) अभीष्ट पूर्ति के लिये (उप ब्रुवे) याचना करता हूँ । इति द्वापञ्चाशत्तमो वर्गः ॥

पषिं दीने गभीर आँ उग्रपुत्रे जिघांसतः ।

माकिस्तोकस्य नो रिपत् ॥ ११ ॥

भा०—हे (उग्रपुत्रे) अर्थात् शत्रु को भय देने वाले पुत्रों की मातः ! तू (जिघांसतः) हनन करने की इच्छा वाले, हिंसक भाव वाले पुरुष से हमारी (दीने) दीन दशा में और (गभीरे) गृह, जंगल, अन्धकारादि में भी (पषिं) सब प्रकार से रक्षा कर । (नः तोकस्य) हमारे सन्तान को (माकिः) और कोई भी (नः रिपत्) मार सके । इसी प्रकार राष्ट्र, भूमि (State) स्वयं स्वतन्त्र अन्य किसी देश के अधीन न हों, उसकी इतनी शक्ति हो कि इसका प्रत्येक पुत्र दीन से दीनदशा और गंभीर से गंभीर जंगल, जल, एकान्तादि में भी निर्भय हो, उस पर कोई अन्य देश वाला अंगुली तक न उठा सके ।

अनेहो न उरुव्रज उरुचि वि प्रसर्तवे ।

कृधि तोकाय जीवसे ॥ १२ ॥

भा०—हे (उरु-व्रजे) दूर २ तक जाने वाली ! हे (उरुचि) बहुत वेग से जाने वाली ! तू (नः) हम (अनेहः) निरपराधों को (वि प्रसर्तवे) विविध दिशाओं में जाने के लिये हो और (तोकाय) पुत्रादि के (जीवसे) जीवन के लिये (कृधि) उपाय कर । दूर देशों तक जाने वाली वैश्य-सभा वा उनकी संस्था और गमनागमन साधनों की व्यवस्था कारिणी संस्था 'उरुव्रजा' और 'उरुची' नाम से कही गई प्रतीत होती हैं ।

ये मुर्धानः क्षितीनामदब्धासुः स्वयंशसः ।

व्रता रक्षन्ते श्रुहुः ॥ १३ ॥



भा०—( ये ) जो ( क्षितीनां ) भूमियों में वसी ऐश्वर्ययुक्त प्रजाओं के ( मूर्धानः ) शिरोमणि, प्रमुख पुरुष हैं वे ( अदव्यासः ) अहिंसक ( स्वयशसः ) धन और यश से सम्पन्न हों और ( अद्रुहः ) द्रोह रहित होकर ( व्रता रक्षन्ते ) व्रत, उत्तम कर्मों, नियमों और अशों की रक्षा करें।

ते न आस्नो वृकाणामादित्यासो मुमोचत ।

स्तेनं वृद्धमिवादिते ॥ १४ ॥

भा०—( आदित्यासः ) हे तेजस्वी पुरुषो ! हे ( अदिते ) अखण्ड शासनकारिणि ! मातृवत् पालिके ! प्रभुशक्ते ! तू ( वृद्धम-इव स्तेनं ) वंधे चोर के समान बन्धन में बद्ध ( नः ) हमें ( वृकाणां आस्नः ) भेड़ियों के तुल्य मुंह फाड़ कर खाने को आने वाले दुष्ट हिंसकों के मुखों से ( मुमोचत ) छुड़ाओ ।

अपो पु ण इयं शरुरादित्या अप दुर्मतिः ।

अस्मदेत्वज्जघ्नुषी ॥ १५ ॥ ५३ ॥

भा०—हे ( आदित्याः ) मातृभूमि के हितकारी जनो ! हे विद्वान् तेजस्वी, अखण्ड ब्रह्मोपासक, अखण्ड व्रताचरण करने हारो ! ( इयं शरुः ) यह हिंसाकारी ( नः अपो एतु ) हम से दूर हो और ( इयं दुर्मतिः ) यह दुष्ट मति और दुष्ट शस्त्रादि ( अजघ्नुषी ) हमें पीड़ित न करती हुई ( अस्मत् अप एतु ) हम से दूर हो । इति त्रिपञ्चाशत्तमो वर्गः ॥

शश्वद्धि वः सुदानव आदित्या ऊतिभिर्वयम् ।

पुरा नूनं वृभुज्महे ॥ १६ ॥

भा०—हे ( सुदानवः आदित्याः ) उत्तम दानशील, दान-आदान करने वाले तेजस्वी जनो ! ( वः ) आप लोगों की ( ऊतिभिः ) रक्षाओं द्वारा ( वयं शश्वत् हि ) हम निरन्तर ही ( पुरा नूनं ) पहले के समान ( वृभु-ज्महे ) नाना ऐश्वर्यों का भोग करें ।

शश्वन्तं हि प्रचेतसः प्रतियन्तं चिदेनसः ।

देवाः कृणुथ जीवसे ॥ १७ ॥

भा०—हे ( प्रचेतसः ) उत्तम चित्त और उत्कृष्ट ज्ञानवान् पुरुषो ! हे ( देवाः ) दानशील ज्ञानप्रकाशक पुरुषो ! ( एनसः ) पाप से दूर (प्रतियन्तं) विरुद्ध दिशा में जाने वाले, या पापों का मुकाबला करने वाले ( शश्वन्तं ) बहुत से जनसमाज को ( जीवसे कृणुथ ) दीर्घ जीवन के लिये तैयार करो ।

तत्सु नो नव्यं सन्यस आदित्या यन्मुमोचति ।

बन्धाद् बद्धमिवादिते ॥ १८ ॥

भा०—हे ( आदित्याः ) सूर्यवत् तेजस्वी गुरु के शिष्यो ! वा भूमि-माता के सत्पुत्रो ! और हे ( अदिते ) सूर्यवत् तेजस्वी, हे मातृवत् पूज्य ! ( बद्धम् इव ) बद्ध पुरुष के समान कर्मबन्धन में बँधे पुरुष को ( यत् ) जो ज्ञान ( मुमोचति ) मुक्त कर देता है ( तत् ) वह ( नव्यं ) स्तुत्य, उपदेष्टव्य ज्ञान ( सु सन्यसे ) अच्छी प्रकार सेवन करने के लिये हो ।

नास्माकमस्ति तत्तर आदित्यासो अतिष्कदे ।

यूयमस्मभ्यं मृळत ॥ १९ ॥

भा०—हे ( आदित्यासः ) ज्ञानवान् पुरुषो ! ( अस्माकं तत् तरः न अस्ति ) हमारे पास वह बल नहीं है, जो ( अति-स्कदे ) सब बन्धनों और कष्टों से पार ले चलने में समर्थ हो । ( यूयम् ) तुम सब ( अस्मभ्यं मृळत ) हमें सुखी करो ।

मा नो हेतिविवस्वत आदित्याः कृत्रिमा शरुः ।

पुरा नु जरसो वधीत् ॥ २० ॥

भा०—हे ( आदित्याः ) तेजस्वी पुरुषो ! ( विवस्वतः ) विविध प्रजाओं के स्वामी राजा वा विविध किरणों वाले सूर्य की ( कृत्रिमा )

शिल्पी आदि से बनाई गई वा गति से उत्पन्न ( शरुः ) प्राण या जीवन का नाश करने वाली ( हेतिः ) शस्त्रपीड़ा, वा कालगति, ( नः ) हमें ( जरसः पुरा ) वृद्धावस्था से पूर्व ( मा वधीत् ) न मारे ।

वि पु द्वेषो व्यहृतिमादित्यासो वि संहितम् ।

विष्वग्विं वृहता रपः ॥ २१ ॥ ५४ ॥ ४ ॥

भा०—हे ( आदित्यासः ) विद्वान् तेजस्वी, भदीन शासक शक्ति के निर्माता जनो ! आप लोग ( द्वेषः वि सु वृहत ) शत्रुओं को विविध प्रकार से अच्छी प्रकार नष्ट कर दो । ( अंहतिम् वि-वृहत ) पाप को समूल उखाड़ दो । ( संहितम् वि वृहत ) बन्धन को दूर करो । और ( रपः विश्वक् वि वृ-हत् ) पाप को भी सब प्रकार से उखाड़ दो । इति चतुःपञ्चाशत्तमो वर्गः ॥

इति चतुर्थोऽध्यायः ॥

### पञ्चमोऽध्यायः

[ ६८ ]

प्रियमेध ऋषिः ॥ १—१३ इन्द्रः । १४—१६ ऋक्षाश्वमेधयोर्दानस्तुतिर्देवता ॥

इन्द्रः—१ अनुष्टुप् । ४, ७ विराडनुष्टुप् । १० निचृदनुष्टुप् । २, ३, १५ गायत्री । ५, ६, ८, १२, १३, १७, १६ निचृद् गायत्री । ११ विराड् गायत्री । ६, १४, १८ पादनिचृद् गायत्री । १६ आर्चो स्वराड् गायत्री ॥

एकोनविंशत्युचं सूक्तम् ॥

आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि ।

तुविकूर्मिमृतीपहमिन्द्र शविष्ठ सत्पते ॥ १ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! शत्रुहन्तः ! सत्यदर्शिन ! तेजस्विन् ! ( यथा ) जिस प्रकार ( ऊतये ) सुखार्थ और रक्षार्थ ( तुविकूर्मि ऋति-सहं

रथं वर्तयामः ) बहुत तीव्र गति से चलने वाले, बहुत कार्यों में आने वाले, गमनमें समर्थ रथ को प्रयोग में लाते हैं उसी प्रकार हे ( शविष्ठ ) अति बलशालिन् ! हे ( सन्-पते ) सज्जनों के पालक ! सन्, कारण पदार्थों के स्वामिन् ! ( तुवि-कृर्मिम् ) बहुत से सृष्ट्यादि कर्मों के कर्ता, ( ऋति-पहं ) दुःखदायी हिंसकों को पराजित करने वाले, ( त्वा ) तुझ को हम ( सुन्नाथ ) सुख प्राप्त करने के लिये ( आ वर्तयामसि ) पुनः २ तेरा मनन, चिन्तन और शास्त्र द्वारा आवर्त्तन करें ।

तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते ।

आ प्राथ महित्वना ॥ २ ॥

भा०—हे ( तुवि-शुष्म ) बहुत बलों से सम्पन्न, प्रचुर शक्तिमन् ! हे ( तुविक्रतो ) बहुत प्रज्ञासम्पन्न ! महामते । हे ( शचीवः ) शक्ति, वाणी के स्वामिन् ! तू ( महित्वना ) महान् सामर्थ्य से हे ( मते ) मनन करने हारे ज्ञानमय ! ( विश्वया आ प्राथ ) समस्त विश्व को तू ही फैलाता है ।

यस्य ते महिना महः परि ज्यायन्तमीयतुः ।

हस्ता वज्रं हिरण्यम् ॥ ३ ॥

भा०—(यस्य ते) जिस तेरे ( हस्ता ) दोनों हाथ (महिना) महान् शक्ति से युक्त होकर ( महः ) बड़े ( ज्यायन्तं ) भूमि तक व्यापने वाले ( हिरण्यम् ) तेजोमय ( वज्रं ) वीर्यवत् शस्त्र को ( परि ईयतुः ) वश करते हैं ।

विश्वानरस्य वृस्पतिमनानतस्य शवसः ।

एवैश्च चर्षणीनामूती हुवे रथानाम् ॥ ४ ॥

भा०—हे वीर पुरुषो ! ( अनानतस्य ) कभी न झुकने वाले (विश्वानरस्य ) समस्त मनुष्यों के बने ( शवसः ) बलवान् सैन्य के ( पत्तिम् )

उस स्वामी को ( चर्पणीनाम् ) मनुष्यों और ( रथानाम् ) रथों के ( एवैः ) गमनागमनों द्वारा ( हुवे ) बुलाता हूँ ।

अभिष्टये सदावृधं स्वमीहलेषु यं नरः ।

नाना हवन्त ऊतये ॥ ५ ॥ १ ॥

भा०—( यं ) जिस ( सदावृधं ) सदा बढ़ाने वाले, को ( स्वः-मीहेषु ) संग्रामों में ( नाना नरः ) नाना नायक जन ( ऊतये ) रक्षा और श्रुति के लिये ( हवन्ते ) प्रमुख स्वीकार करते हैं । इति प्रथमो वर्गः ॥

परोमात्रमृचीषमिन्द्रमुग्रं सुराधसम् । ईशानं चिद्वसूनाम् ॥ ६ ॥

भा०—( परः-मात्रम् ) सब परिमाणों से परे, अति सूक्ष्म और अनन्त, ( ऋचीषमम् ) ऋचा या स्तुति द्वारा सर्वत्र समान रूप से स्तुत्य ( इन्द्रम् उग्रं सुराधसम् ) ऐश्वर्ययुक्त बलवान् धनादि सम्पन्न ( वसूनां चित् ईशानम् ) प्रजा के राजा के समान समस्त जीवों और लोकों के स्वामी की मैं ( हुवे ) स्तुति करता हूँ ।

तन्तमिद्राधसे मह इन्द्रं चोदामि पीतये ।

यः पूर्यामनुष्टुतिमीशे कृष्टीनां नृतुः ॥ ७ ॥

भा०—( यः ) जो ( नृतुः ) सबका नेता, सब विश्व का संचालक और ( कृष्टीनाम् ) सब कृषि योग्य भूमियों के स्वामिवत् समस्त योनियों, जीवों, मनुष्यों, और प्रजाओं का ( ईशे ) प्रभु है, ( तन्तम् इत् ) निश्चय उस ही ( इन्द्रम् ) परम ऐश्वर्यवान् और ऐश्वर्य के दाता प्रभु को लक्ष्य करके ( पूर्याम् ) पूर्व की, सर्वश्रेष्ठ, ( अनु-स्तुतिम् ) अनुरूप स्तुति को ( पीतये ) अपने पालन या रक्षा के लिये ( चोदामि ) करता हूँ ।

न यस्य ते शवसान सख्यमानंश मर्त्यैः ।

नक्तिः शवांसि ते नशत् ॥ ८ ॥

भा०—हे ( शवसान ) बलशालिन् ! ( यस्य ते ) जिस तेरे ( सख्यम् )

मित्रभाव को ( मर्त्यः ) मनुष्य ( न भानंश ) नहीं प्राप्त करता, उसको पूरी तरह से नहीं जान पाता, उन तेरे ( शवांसि ) बलों को भी ( नकिः नशत् ) कोई पा नहीं सकता । उनका भी पार कोई नहीं पाता । तेरी मित्रता और बल दोनों अपार और अनन्त हैं ।

त्वोतासस्त्वा युजाप्सु सूर्ये महद्धनम् ।

जयेम पृत्सु वज्रिवः ॥ ९ ॥

भा०—हे ( वज्रिवः ) वीर्यशालिन् ! ( त्वा उतासः ) तेरे से सुरक्षित और ( त्वा युजा ) तेरे से सहायवान् होकर हम ( अप्सु सूर्ये ) अन्तरिक्ष और सूर्य के समान प्रजा और सूर्यवत् राजा के अधीन रहकर ( पृत्सु ) संग्रामों में ( महद् धनम् जयेम ) बड़ा धनलाभ विजय करें ।

तं त्वा यज्ञेभिरीमहे तं गीभिर्गिर्वणस्तम ।

इन्द्र यथा चिदाविथ वाजेषु पुरुमाय्यम् ॥ १० ॥ २ ॥

भा०—हे ( गिर्वणस्तम इन्द्र ) वाणी द्वारा अतिस्तुत्य प्रभो ! ( यथाचित् वाजेषु ) जिस प्रकार संग्रामों में तू ( पुरुमाय्यम् ) बहुत मतिमान् और बहुतों में आज्ञापक की ( आविथ ) रक्षा करता है, ( तं त्वा ) उस तुझ को ( गीभिः यज्ञेभिः ) वाणियों और यज्ञों द्वारा ( ईमहे ) स्तुति करें । इति द्वितीयो वर्गः ॥

यस्य ते स्वादु सख्यं स्वाद्वी प्रणीतिरद्रिवः ।

यज्ञो वितन्तसाय्यः ॥ ११ ॥

भा०—( यस्य ते ) जिस तेरा ( सख्यं स्वादु ) मित्रभाव अति सुख प्रद, और ( प्रणीतिः स्वाद्वी ) जिसकी उत्तम नीति भी अति सुख देने वाली है वह तू ( यज्ञः ) उपासना योग्य और ( वितन्तसाय्यः ) विशेष रूप से एकाग्र चित्त से ध्यान करने योग्य है ।

उरु रास्तन्वे॑ तन॑ उरु क्षया॑य नस्कृधि ।

उरु रा॑ यन्धि जीवसे॑ ॥ १२ ॥

भा०—हे प्रभो ! तू ( नः तन्वे ) हमारे शरीर के सुखार्थ, ( तने ) पुत्रादि के लिये और ( क्षयाय ) हमारे निवास और 'क्षय' अर्थात् ऐश्वर्य-वृद्धि के लिये, ( नः उरु कृधि ) हमारे लिये बहुत कुछ और ( जीवसे उरु यन्धि ) हमें जीवन के लिये बहुत कुछ प्रदान कर ।

उरुं नृभ्य॑ उरुं गव॑ उरुं रथा॑य पन्थाम् । देव॑वीतिं मनामहे ॥ १३ ॥

भा०—हम लोग ( नृभ्यः उरुं ) मनुष्यों के हितार्थ बहुत बड़ा ( पन्थाम् ) मार्ग चाहते हैं ( गवे ) गवादि जन्तुओं के लिये भी ( उरु पन्थाम् ) बहुत बड़ा मार्ग और ( रथाय उरुं पन्थाम् ) रथ के लिये भारी मार्ग और ( देव-वीतिं ) विद्वानों का उत्तम ज्ञान, प्रकाश तथा देव, दान-वान् पुरुष की नीति रक्षा, बल, कान्ति की ( मनामहे ) याचना करते हैं ।

उप॑ मा षड् द्वाद्वा॑ नरः सोम॑स्य हर्ष्या॑ ।

तिष्ठ॑न्ति स्वादु॑रातयः ॥ १४ ॥

भा०—( द्वाद्वा ) दो दो करके ( षड् नरः ) छः नायक ( सोमस्य हर्ष्या ) ऐश्वर्य प्राप्ति के हर्ष से मानो सुप्रसन्न, ( स्वादु-रातयः ) सुखप्रद दानों से युक्त होकर ( मा उप तिष्ठन्ति ) मेरे पास उपस्थित होते हैं । अर्थात् 'सोम' वा वीर्य की रक्षा से उत्पन्न हर्ष, सुख, आनन्द से हृष्ट पुष्ट जोड़े जोड़े ६ नायक आंख, नाक, कान उत्तम सुस्वादु ज्ञान, बल प्रदान करते हुए मुझ आत्मा को प्राप्त हैं । दो दो के जोड़े मिलकर छः—आँखें, दो, नाकें दो, कान दो, ये उत्तम अन्न रस से पुष्ट होकर उत्तम ज्ञान देते हैं ।

ऋ॒ज्रावि॑न्दोत आ॒ दे॒द्रे ह॑री ऋ॒क्षस्य॑ सू॒नवि॑ ।

आ॒श्वमे॑धस्य॒ रोहि॑ता ॥ १५ ॥ ३ ॥

भा०—(आश्वमेधस्य) अर्थात् अश्व, भोक्ता आत्मा के वा (आश्वमेधस्य) अश्व भोक्ता आत्मा वा अश्ववत् इन्द्रिय मन से संयुक्त (ऋक्षस्य) गतिशील, जंगम शरीर के (सूनवि) प्रेरक (इन्द्रोते) आत्मा से रक्षित इस शरीर रूप राष्ट्र में ( ऋज्रौ ) ऋजु मार्ग से जाने वाले, (रोहिता हरी) अन्न आदि से पुष्ट, दो अश्वोंवत् प्राण-आपान को मैं साध कर (आददे) वश करूं । (२) ( आश्वमेधस्य ऋक्षस्य सूनवि इन्द्रोते ऋज्रौ रोहिता हरी आददे ) अश्व मेध अर्थात् राष्ट्र का शासन करने वाले, ऋक्ष, अर्थात् पराक्रमी सैन्य के प्रेरक वा उत्पादक, राजा से सुरक्षित वा शत्रुहन्ता सैन्य-बल से सुरक्षित ऋजु, धर्म मार्ग में चलने वाले ( रोहिता ) वृद्धिशील, अनुरक्त, ( हरी ) स्त्री पुरुषों को मैं राजा ( आददे ) अपने अधीन लेता हूं । इति तृतीयो वर्गः ॥

सुरथाँ आतिथिग्वे स्वभीशूराज्ञे । आश्वमेधे सुपेशसः ॥ १६ ॥

भा०—(आतिथिग्वे) अतिथि के आदर सत्कारार्थ वाणी को विनय पूर्वक प्रयोग करने वाले, (आक्षे) शत्रुपर आक्रमण करने में कुशल, (आश्व-मेधे) अश्व-सैन्य से शत्रुओं का संग्राम रूप यज्ञ करने वाले, वीर नायक के अधीन ( सुपेशसः ) उत्तम रूपवान्, ( सु-अभीशून् ) उत्तम लगामों से युक्त ( सु-रथान् ) उत्तम रथ वाले अश्वों के समान, उत्तम रूप धनादि से सम्पन्न, (सु-अभीशून्) अंगुलि वा सुअवयवों से सम्पन्न, ( सुरथान् ) उत्तम रथारोही, वा उत्तम देहवान् वीर, दृढ़, योद्धा पुरुषों को मैं (आददे) अपने राष्ट्र में और शासन में नियुक्त करूं ।

षष्ठश्वँ आतिथिग्व इन्द्रोते वधूमतः । सचाँ पूतक्रतौ सनम् १७

भा०—(आतिथिग्वे) पूज्य के सत्कारक, विनीत वाणी वाले (इन्द्रोते) ऐश्वर्य से युक्त, ( पूत-क्रतौ ) पवित्र कर्म और पवित्र ज्ञान वाले पुरुष के अधीन ( वधूमतः पट् अश्वान् ) 'वधू' अर्थात् शत्रु का वध करने, उनको कम्पित कर देने वाली सैन्य शक्ति से युक्त छः अश्वसैन्य के स्वामी सेना-



पत्नियों को मैं (सचा) एक साथ ही (सनम्) प्राप्त करूं। (२) अध्यात्म में—  
पवित्राचारवान् पावन-प्रज्ञ, सर्वोपरि वाणी के स्वामी आचार्य के अधीन  
रहकर मैं वहनकारिणी प्राण या चेतना शक्ति से युक्त चक्षु आदि पांच  
और छठा मन इन इन्द्रिय गण को मैं शिष्य वश करूं। अथवा मैं साधक,  
आत्मा से रक्षित, पवित्रकर्मा, व्यापक इन्द्रिय सम्पन्न देह में (वधूमतः)  
देहधारक शक्ति से युक्त पांच इन्द्रिय, मन, इन छः मुख्य प्राणों को  
धारण करूं।

पेपुं चेतद्रूपैरावत्यन्तर्भृजेष्वरुषी । स्वभीशुः कशावती ॥ १८ ॥

भा०—( एषु ऋज्रेषु ) इन ऋजु, धर्म मार्ग में चलने वाले विद्वानों  
के ऊपर या ( वृषण्वती ) बलवान् पुरुषों वा दृढ़ नायक सभापति वाली,  
( अरुषी ) तेजस्विनी, ( सु-अभीशुः ) सूप्रबद्ध नियम व्यवस्था से सम्पन्न  
( कशावती ) वाणी, वा आज्ञा की स्वामिनी राजसभा ( अचेतत् ) सब कुछ  
विचार किया करे। ( २ ) अध्यात्म में—( एषु ) इन ( ऋज्रेषु ) गतिशील  
प्राणों पर उनमें ( वृषण्वती ) बलवान् मन की स्वामिनी, ( अरुषी )  
दीप्तिमती, ( सु-अभीशुः ) देह की संचालक ज्ञानतन्तुओं की स्वामिनी,  
( कशावती ) वाणी की स्वामिनी ( अचेतत् ) देह में सर्वत्र चेतना को प्रकट  
करती है।

न युष्मे वाजवन्धवो निनित्सुश्चन मर्त्यः ।

अवद्यमधि दीधरत् ॥ १९ ॥ ४ ॥

भा०—हे ( वाजवन्धवः ) राष्ट्र में ऐश्वर्य और आज्ञादि वेतनों पर  
बँधे नियुक्त पुरुषो ! ( युष्मे ) तुम लोगों में से कोई भी ( मर्त्यः निनित्सुः  
चन ) निन्दा करने वाला होकर ( अवद्यम् न अधि दीधरत् ) निन्दनीय  
कार्य, दुष्ट फल को न धारण करे। अर्थात् कोई भी परस्पर की निन्दा वा  
बुरा काम न करे। इति चतुर्थो वर्गः ॥

[ ६६ ]

प्रियमेध ऋषिः ॥ देवताः—१—१०, १३—१८ इन्द्रः । ११ विश्वेदेवाः ।  
११, १२ वरुणः ॥ छन्दः—१, ३, १८ विराडनुष्टुप् । ७, ९, १२, १३  
१५ निचृदनुष्टुप् । ८ पादनिचृदनुष्टुप् । १४ अनुष्टुप् । २ निचृदुष्णिक् ।  
४, ५ निचृद् गायत्री । ६ गायत्री । ११ पंक्तिः । १६ निचृत् पंक्तिः ।  
१७ बृहती । १८ विराड् बृहती ॥ अष्टादशर्चं सूक्तम् ॥

प्रप्र वस्त्रिष्टुभमिषं मन्दद्वीरायेन्दवे ।

धिया वो मेघसातये पुरन्ध्या विवासति ॥ १ ॥

भा०—हे प्रजाजनो ! आप लोग ( मन्दद्-वीराय ) हृष्ट, पुष्ट, सुवृत्त  
वीर पुरुषों के स्वामी वा वीरों को हर्षित करने वाले, ( इन्दवे ) ऐश्वर्यवान्  
तेजस्वी पुरुष के लिये ( त्रि-स्तुभम् ) मन, वाणी, कर्म तीनों से स्तुति  
करने योग्य, तीनों दोषों के नाशक ( इषं ) अन्न और सैन्य को ( प्र-प्र )  
उत्तम प्रकार से प्रदान करो । वह ( पुरन्ध्या धिया ) राष्ट्र या पुर को  
धारण करने वाली सद्-बुद्धि से ( वः ) आप लोगों की ( मेघ-सातये )  
अन्नादि ऐश्वर्य को प्राप्त करने और यज्ञ वा युद्ध के निभाने के लिये  
( आ विवासति ) सब प्रकार से सेवा करें ।

नदं व ओदतीनां नदं योयुवतीनाम् ।

पतिं वो अघ्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि ॥ २ ॥

भा०—( ओदतीनां ) स्तुति करती हुई ( वः ) आप प्रजाओं को  
( नदं ) समृद्ध करने वाले और ( योयुवतीनां ) सर्वत्र मेल, सत्संग  
रखने वाली प्रजाओं के ( नदं ) आज्ञापक, ( अघ्न्यानां ) न मारने योग्य,  
रक्षा करने योग्य ( धेनूनाम् ) अपनी पालक पोषक, गौवत् अन्नदाता और  
( वः ) आप प्रजाजनों के ( पतिं ) पालक को आप लोग चाहो । और हे  
राजन् ! तू भी इन ( धेनूनां अघ्न्यानां ओदतीनां योयुवतीनां ) गौओं के

तुल्य अहन्तव्य, रक्षणीय, स्तुति युक्त, तुझ से मेल रखने वाली प्रजाओं की ( इपुध्यसि ) बराबर कामना कर, उनको हृदय से चाह ।

ता अस्य सूददोहसः सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः ।

जन्मन्देवानां विशस्त्रिष्वा रोचने दिवः ॥ ३ ॥

भा०—वे ( पृश्नयः ) मेघमाला के समान ऐश्वर्य का वर्णन करने वाली वा उससे स्पर्श अर्थात् सम्बन्ध रखने वाली ( विशः ) प्रजाएं ( सूददोहसः ) जल प्रदान करने वाले कूपों या मेघों के समान ( अस्य ) उसके ( सोमं ) अन्नवत् ऐश्वर्य को ( श्रीणन्ति ) प्राप्त कराती हैं । और ( दिवः ) सूर्य के समान तेजस्वी, ( त्रिषु ) तीनों लोकों में ( रोचने ) प्रकाश करने वाले सर्वरुचिकर आकाशवत् उच्च और ( देवानां जन्मनि ) देव, विद्वानों के बीच नवजन्म लेने के लिये शुभ गुणों के आश्रय पद पर उसे स्थापित या प्राप्त करते हैं ।

अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्चं यथा विदे ।

सूनुं सत्यस्य सत्पतिम् ॥ ४ ॥

भा०—( यथा विदे ) यथावत् ज्ञान वा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये, ( सत्पतिम् ) सज्जनों के पालक, एवं सत् अविनाशी पदार्थों के स्वामी, ( सत्यस्य सूनुं ) सत्य के प्रेरक, सत्य के उत्पादक, उपदेशक ( गोपतिं ) जितेन्द्रिय, वाणी के पालक, भूमि के पालक ( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान् प्रभु की ( अभि प्र अर्चं ) साक्षात् स्तुति कर ।

आ हरयः ससृजिरेऽरुषीरधि बर्हिषि । यत्राभिसन्नवामहे ॥५॥५॥

भा०—( यत्र ) जहाँ हम सब ( अभि संनवामहे ) ऐश्वर्यवान् की साक्षात् स्तुति करें, उस ( बर्हिषि अधि ) राष्ट्र, प्रजा वा उत्तमासन पर स्थित ( हरयः ) उत्तम विद्वान् गण ( अरुषीः ) उत्तम २ वाणियों ( आ ससृजिरे ) कहें । इति पञ्चमो वर्गः ॥

इन्द्राय॑ गाव॑ आशिरं॑ दुदुहे॑ वज्रिणे॑ मधुं । यत्सी॑मुपह्वरे॑ विदत् ६

भा०—( गावः आशिरं मधु ) गौणं जिस प्रकार खाने योग्य उत्तम मधुर दुग्ध प्रदान करती हैं उसी प्रकार ( इन्द्राय वज्रिणे ) सर्वशक्तिमान् परमेश्वर के ( मधु ) अति मधुर ( आशिरं ) सर्वव्यापक स्वरूप को ( गावः ) वेदवाणियां ( दुदुहे ) दोहन करती हैं, उसी का प्रतिपादन करती हैं, ( यत् ) जो ( उपह्वरे ) अति समीप एकान्त देश में ( विदत् ) जाना और प्राप्त किया जाता है ।

उद्यद्ब्रध्नस्य॑ विष्टपं॑ गृहमिन्द्र॑श्च॒ गन्वहि॑ ।

मध्वः॑ पीत्वा स॑चेवहि॒ त्रिः स॒प्त स॒ख्युः प॒दे ॥ ७ ॥

भा०—मैं और ( इन्द्रः च ) ऐश्वर्यवान् प्रभु, स्वामी दोनों ( ब्रध्नस्य ) बन्धन में बांधने वाले आश्रयभूत स्वामी के ( विष्टपं = वितपं ) ताप-दुःखादि से रहित सुखपूर्ण ( गृहम् उद् गन्वहि ) गृह को उत्तम रीति से प्राप्त हों, और ( मध्वः पीत्वा ) मधुर पदार्थ दुग्धादि का पान या मधुपर्कादि ग्रहण करने के अनन्तर ( त्रिः ) मनसा, वाचा, कर्मणा ( सख्युः सप्त पदे ) मित्र या सखा के सातवें पद पर ( सचेवहि ) हम दोनों मिलकर रहें । इस प्रकार वधू वर से कहे । अथवा—( सख्युः त्रिः सप्त पदे सचेवहि ) मित्र सखा के ३ × ७ = २१वें पद पर दोनों मिलें ।\* इसी प्रकार प्रजा भी राजा की उपभोग्यवत् होकर पालनीय होने से पत्नीवत् और राजा

\* यह २१वां पद कौन सा है ? इस सम्बन्ध में सायण ने ऐतरेय ब्राह्मण ( १ । ३० ) का वचन उद्धृत किया है—त्रिःसप्तत्यनेन देवलोकानामुत्तममेकविंशस्थानमुच्यते । आदित्यस्यैकविंशत्वात् । तथा च ब्राह्मणम् । द्वादश मासाः पञ्चतर्वस्रय इमे लोकाः असावादित्य एकविंश इति । इसके अनुसार भी १२ मासों, पांचों ऋतुओं और तीनों लोकों में दोनों संग रहें यह अभिप्राय निकलता है ।

उसका स्वामी है, वही प्रबन्धक होने से 'ब्रह्म' है दोनों ही मधुर अन्न-जल का उपभोग कर मित्रपद पर मिलें, दोनों एक दूसरे के मित्र होकर रहें । ( ३ ) इसी प्रकार परमेश्वर 'ब्रह्म' है, जीव इन्द्र प्रभु का पद तापरहित सुखमय होने से 'विष्टप' है, वहां दोनों आत्मा, ज्ञानपा नकर मिलें, वे सखा होकर रहें ।

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । उपनिषत् ।  
सखा होने के सात चरण—१. इष्, २. ऊर्ज, ३. रायस्पोप, ४. मायो-  
भव्य, ५. प्रजा, ६. ऋतु ७. सख्यभाव । ( पारस्कर गृ० )

अर्चन्तु प्रार्चन्तु प्रियमेधासो अर्चन्त ।

अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न धृष्णवर्चन्त ॥ ८ ॥

भा०—हैं ( प्रिय-मेधासः ) यज्ञ; अन्न, युद्ध वाणी, बुद्धि आदि के प्रिय जनो ! हैं ( पुत्रकाः ) बहुत जनों और ज्ञानों की रक्षा करने हारे वीर पुरुषो ! आप लोग उस परमेश्वर को ( अर्चन्त, प्र अर्चन्त, अर्चन्त ) स्तुति करो, खूब स्तुति करो और स्तुति करते ही रहा करो । ( उत अर्चन्तु ) आप लोग अर्चना करो, उसको ( धृष्णु पुरं न ) शत्रु को पराजित करने में समर्थ हृद् दुर्ग के समान सब का पालक जानकर उसकी ( अर्चन्त ) पूजा करो । वह स्वामी ही हमारा बड़ा भारी गढ़ है ।

अव स्वराति गर्गरो गोधा परि सनिष्वणत् ।

पिङ्गा परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्यतम् ॥ ९ ॥

भा०—( गर्गरः अव स्वराति ) उत्तम उपदेशा अधीनों को उपदेश करता है, ( गोधा ) वाणी को धारण करने वाला जन भी ज्ञान को ( परि सनिष्वणत् ) सब ओर उपदेश करे । ( पिङ्गा ) उत्तम मनोहर शब्द बोलने में चतुर कविमण्डली वा वादित्रमण्डली भी ( इन्द्राय ) उस परमेश्वर की ( उद्-यतम् ) उत्तम ( ब्रह्म ) वेद-स्तुति का ( परि चनिष्कत् ) सर्वत्र वर्णन करे । ( २ ) इसी प्रकार राजा का ( गर्गरः ) गड़गड़ शब्दकारी

नगारा, मेघवत् गर्जे (गोघा) हाथ पर बंधा चर्म, जहां डोरी बराबर आकर लगती है, वह 'हस्तघ्न' भी पृथ्वीपोषक मेघवृष्टिवत् ध्वनि करे और (पिंगा) पीत वर्ण वा झन-झनाती डोरी विद्युत् के समान राजा के लिये (उद्-यत्) उत्तम रीति से विजयबद्ध (ब्रह्म) बृहत् राष्ट्र-धन की (परि चनिष्कदत्) घोषणा करे ।

आ यत्पतन्त्येन्यः सुदुघा अनपस्फुरः ।

अपस्फुरं गृभायत् सोममिन्द्राय पातवे ॥ १० ॥ ६ ॥

भा०—( यत् ) जिस प्रकार ( अनपस्फुरः ) न विदकने वाली (सु-दुघाः) सुख से दोहन करने योग्य (ऐन्यः) शुद्ध श्वेत वर्ण की गौएं (आप-तन्ति) आ जाती हैं तब ( इन्द्राय सोमं पातवे ) स्वामी के निमित्त दुग्ध-पान के लिये (अप-स्फुरं) उद्वेगरहित शान्त गौ को ले लिया जाता है उसी प्रकार ( ऐन्यः ) शुद्ध वर्ण की, शुद्ध चरित्र वाली प्रजाएं ( यत् ) जो (अनप-स्फुरः) अ-भ्रष्टमार्ग वाली उत्पथ में न जाने वाली और (सु-दुघाः) धनादि से खूब पूर्ण, और राजा को भी धनादि से पूर्ण करने वाली हों । उनमें से भी ( इन्द्राय सोमं पातवे ) परमैश्वर्यवान् राजा को ऐश्वर्य उप-भोग करने या राजा के ऐश्वर्य की रक्षा के लिये, (अप स्फुरं) उद्वेग, अराज-कतादि से रहित, प्रजा को ( गृभायत् ) वश करो । अथवा ( अपस्फुरं ) कुमार्ग में जाने वाले को ( गृभायत् ) पकड़ो और कैद में धर दो । इति ऋष्टो-वर्गः ॥

अपादिन्द्रो अपादिशिविर्विश्वे देवा अमत्सत ।

वरुण इदिह क्षयत्तमापो अभ्यनूषत वत्सं संशिवरीरिव ११

भा०—( इन्द्रः अपात् ) ऐश्वर्यवान् शत्रुनाशक पुरुष प्रजा की रक्षा करे, ( अग्निः अपात् ) अग्रणी, तेजस्वी पुरुष भी प्रजा की रक्षा करे । ( विश्वे देवाः ) सब उत्तम विद्वान् जन ( अमत्सत ) खूब तृप्त, सन्तुष्ट होकर रहें, उनको दारिद्र्य न सतावे । (इह वरुणः इत् क्षयत्) यहां इस

राष्ट्र में वरुण, सबको वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष ही निवास करे वा ( क्षयत् ) वह सम्पत्ति का स्वामी हो । ( तम् ) उसकी ( आपः ) आप प्रजाएं भी ( वत्सं संशिश्वरीः इव ) बछड़े को उत्तम शिशुओं वाली गौओं के समान, प्रेम से युक्त प्रजाएं, (संशिश्वरीः) शिशुवत् शरण में प्राप्त होकर ( वत्सं ) सबको वसाने वा रक्षा करने में समर्थ वा ( वत्सं ) अभिवादन योग्य पुरुष को पाकर (अभि अनूपत) उसकी साक्षात् स्तुति किया करें ।

सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः ।

अनुत्तरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुपिरामिव ॥ १२ ॥

भा०—हे ( वरुण ) वरण करने योग्य आचार्य ! ( यस्य ते ) जिस तेरे ( काकुदं अनु ) तालु के प्रति ( सप्त ) सातों छन्द ( सिन्धवः) बहते नदधारों के समान (सुपिराम् सूर्म्यं) छिद्रवती लोह की नली में जल धारा के समान बहती हैं वह तू (सुदेवः असि) उत्तम ज्ञानदाता, ज्ञान का प्रकाशक है । (२) हे राजन् ! तू उत्तम तेजस्वी है । (ते) तेरे (काकुदं अनु) सर्वश्रेष्ठ ककुत्वत्, सर्वोपरि पद के अनुकूल ( सप्त सिन्धवः) सातों प्रकार की प्रकृतियां समुद्र के प्रति नदियों के तुल्य वा तालुके प्रति सात प्राणों के तुल्य (अनु क्षरन्ति ) दिनोंदिन बहती आँवें, स्वभावतः तेरा अनुसरण करें ।

यो व्यतीरँफारायत्सुयुक्तां उप दाशुपे ।

तक्वो नेता तदिद्वपुरुपमा यो अमुच्यत ॥ १३ ॥

भा०—( यः ) जो विद्वान् पुरुष ( दाशुपे) दाता के लाभार्थ (सुयुक्तान्) उत्तम पदों पर नियुक्त (व्यतीन्) विशेष वेगवान्, बल युक्त साधनों वाले जनों को ( अफाणयत् ) संचालित करता है, ( तद् इत् ) वही ( तक्कः ) शत्रुहन्ता, ( नेता ) नायक, (वपुः) शत्रु को उखाड़नेमें समर्थ है ( यः ) जो ( उपमा ) सर्वोपमान योग्य आदर्श होकर ( अमुच्यत ) बन्धन से मुक्त होता और अन्य को भी मुक्त करता है । इसी प्रकार वह

प्रभु उत्तम योगिजनों को उपदेश करता और ( वपुः अमुच्यत ) देह-  
बन्धन से मुक्त करता है ।

अतीदुं शक्र ओहत इन्द्रो विश्वा अति द्विषः ।

भिनत्कनीन ओदनं पच्यमानं परो गिरा ॥ १४ ॥

भा०—( इन्द्रः ) सत्यदर्शी, तेजस्वी पुरुष वीर और विद्वान्  
( विश्वाः द्विषः अति ) समस्त द्वेषों और द्वेषियों को अतिक्रमण कर, उनसे  
बढ़कर ( शक्रः ) शक्तिशाली, सर्ववशकारी होकर ( अति इत् उ ) अति  
अधिक ही ( ओहते ) बढ़ जाता है । जिस प्रकार ( पच्यमानं ओदनं )  
पकते हुए चावल को कान्तियुक्त अग्नि ( भिनत् ) भेद देता है, उसका  
दाना दाना अलग कर देता है और जिस प्रकार ( कनीनः ) कान्ति-  
युक्त सूर्य ( पच्यमानं ओदनं ) प्रकट हुए मेघ को ( भिनत् ) तेज से  
छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार गुरु से तत्त्वदर्शी विद्वान् ( कनीनः )  
तेजस्वी कनिष्ठ शिष्य होकर ( गिरा ) वाणी द्वारा ( पच्यमानं ) प्रकट  
किये जाते हुए ( ओदनं ) प्रजापति के ( परः ) परम स्वरूप को ( भिनत् )  
और अधिक खोले, उसको लक्ष्यवत् भेदे । पच्यमानं,—पचि विस्तारवचने ।

श्रुभको न कुमारकोऽधि तिष्ठन्नवं रथं ।

स पक्षन्महिषं मृगं पित्रे मात्रे विभुऋतुम् ॥ १५ ॥

भा०—( अर्भकः कुमारकः न ) जिस प्रकार छोटे शरीर का भी  
युवराज ( नवं रथं अधि तिष्ठत ) नये रथ पर बैठ कर ( मात्रे पित्रे )  
माता पिता की प्रसन्नता के लिये ( विभुऋतुम् ) बड़े सामर्थ्यवान् ( महिषं मृगं )  
बड़े अश्वोंको ( पक्षत् ) वश कर लेता है । उसी प्रकार राजा भी ( नवं रथं  
अधितिष्ठन् ) नये रथवत् नये रमणीय ऐश्वर्ययुक्त राज्य को अधिष्ठित होता  
हुआ ( विभुऋतुम् ) अधिक प्रज्ञावान् ( महिषं ) पूज्य ( मृगं ) शुद्ध  
चारित्रवान् पुरुष को ( मात्रे पित्रे ) माता पिता के योग्य पद के  
निमित्त अपने ऊपर ( पक्षत् ) स्वीकार करे । इसी प्रकार यह जीव भी



इस देह रूप रथ को प्राप्त कर महाप्रज्ञ एवं ( महिषं ) बड़े ऐश्वर्य के दाता ( मृगं ) शुद्ध स्वरूप सर्वशोधक परम पावन प्रभु को माता पिता रूप से स्वीकार करे वह उसे 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव' समझे ।  
 ( ३ ) ( सः ) वह आचार्य शिष्य के प्रति महाप्रज्ञ प्रभु को ही माता पिता होने योग्य महान् ऐश्वर्यप्रद सब से मृग्य, शुद्ध ( पक्षत् ) बतलावे । उसका विस्तार से उपदेश करे । अथवा वह शिष्य के प्रति भी ( भर्भकः = अर्हकः ) आदर भाव से यथा योग्य वर्तनेवाला हो । ( न कु-मारकः ) कुत्सित रूप में उसको मारने वाला न हो । अथवा नश्वार्थः । वह उसका योग्य आदर्ता और कुत्सित चेष्टाओं पर दण्ड देने और कुत्सित भावों को नाश करने वाला हो ।

आ तू सुशिप्र दम्पते रथं तिष्ठा हिरण्ययम् ।

अर्धं द्युक्षं सचेवहि सहस्रपादमरूपं स्वस्तिगामनेहसम् १६

भा०—हे ( सु-शिप्र ) उत्तम मुखनासिका वाहन वाले ! हे उत्तम मुकट धारिन् ! सुशोभन रूप ! हे ( दम्पते ) जाया के पालक गृहपते ! तू ( हिर-ण्ययम् ) हितकारी रमण योग्य ( रथं ) रथवत् गृहस्थ रथ पर ( आतिष्ठ तु ) मुख्य होकर विराज । पत्नी कहती है—( अर्ध ) और हम दोनों ( द्युक्षं ) अति दीप्तियुक्त ( सहस्र-पादं ) दृढ़ चरण या आधार वाले ( अरूपं ) रोप से रहित ( स्वस्ति-गाम् ) कुशल, सुख-शान्तिदायक वाणी से युक्त, ( अनेहसम् ) पाप चेष्टा से रहित, रथवत् गृह, या उत्तम व्यवहार को ( सचेवहि ) धारण करें । यहां गृहपति, जाया का पति और 'दम्' अर्थात् गृह का पति होने से 'दम्पति' है । और पक्षान्तर में—राजा भी राष्ट्र के दमन शासन का पालक होने से 'दम्पति' है ।

तं धेमिथ्या नमस्विन्न उप स्वराजमासते ।

अर्थं चिदस्य सुधितं यदेतव आवर्तयन्ति द्रावने ॥ १७ ॥

भा०—जिस प्रकार राजा के ( सु-धितम् ) उत्तम रीति से धारित

( अर्थ ) अभिप्राय या ऐश्वर्य को ( एतवे ) प्राप्त करने के लिये ( दावने ) दान देने के लिये ( आवर्तयन्ति ) पुनः २ आपस में लेते देते हैं । और इस प्रकार ( नमस्विनः ) अन्नादिवान् प्रजाजन ( स्वराजम् ) अर्थ धनादि से प्रकाशित धन के स्वामी राजा की ( उपासते ) उपासना करते हैं । उसी प्रकार ( अस्य सुधितं अर्थ एतवे दावने ) इस प्रभु के सुष्ठु धारितः अभिप्राय का जानने और अन्य को उपदेशदान द्वारा जनाने के लिये भीः ( यत् ) जो उसका ( आवर्तयन्ति ) पुनः अभ्यास करते हैं वे ( घ ) निश्चय से ( इत्था ) इस प्रकार ( नमस्विनः ) अति विनीत होकर ( स्वराजम् उपः आसते ) स्वयं प्रकाशमान परमेश्वर की उपासना करते हैं ।

अनु प्रत्नस्योक्तसः प्रियमेधास एषाम् ।

पूर्वामनु प्रयतिं वृक्तवर्हिषो हितप्रयस आशत ॥१८॥७॥७॥

भा०—जिस प्रकार ( प्रिय-मेधासः हित-प्रयसः वृक्त-वर्हिषः जनाः पूर्वाम् प्रयतिं अनु आशत ) अन्न के प्रियजन अपने गृह में अन्नसंग्रह और क्षेत्र में अन्नवपन कर बाद धान्य काट कर अपने पहले किये प्रयत्न के अनुसार ही उसका उपभोग करते हैं उसी प्रकार ( एषाम् ) इन प्रजा जनों के जीवों में से ( प्रिय-मेधासः ) यज्ञ के प्रिय वा ज्ञान और सत्संग के प्रिय जन ( प्रत्नस्य ओक्तसः अनु ) अपने पुराने गृह, देह के अनुरूप, ( हित-प्रयसः ) उत्तम २ प्रयास करके वा उत्तम २ कर्मफल में बद्ध होकर ( वृक्त-वर्हिषः ) धान्यों वा कुशाओं के तुल्य अपने कर्म फलों को कृषिवत् काट कर, ( पूर्वाम् प्रयतिम् अनु ) पहले किये प्रयत्न के अनुरूप ही ( आशत ) कर्मफल, सुख दुःखादि का भोग करते हैं । इति सप्तमोऽनुवाकः ॥

[ ७० ]

पुरुहन्मा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ पादनिचृद् बृहती । ५, ७ विराड् बृहती । ३ निचृद् बृहती । ८, १० आर्ची स्वराड् बृहती । १२ आर्ची बृहती । ६, ११ बृहती । २, ६ निचृत् पंक्तिः । ४ पंक्तिः । १३ उष्णिक् ।

१५ निचृदुष्णिक् । १४ भुरिगनुष्टुप् ॥ पञ्चदशर्चं सूक्तम् ॥

यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिराध्रिगुः ।

विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गृणे ॥ १ ॥

भा०—( यः चर्षणीनां राजा ) जो सब मनुष्यों में से सूर्यवत् दीप्तिमान् ( रथेभिः याता ) रथों से आक्रमण या प्रयाण करने हारा, ( अध्रिगुः ) जिसके आगे बढ़ने को कोई न रोक सके, ऐसा सर्वोपरि नायक, ( यः विश्वासां पृतनानां ) जो समस्त सेनाओं का नाश करने वाला, ( ज्येष्ठः ) सबसे बड़ा, ( वृत्रहा ) विघ्नकारी दुष्टों को दण्ड देने वाला है मैं ( गृणे ) उसकी स्तुति करूँ ।

इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्त्रवसे यस्य द्विता विधर्तरिं ।

हस्ताय वज्रः प्रति धायि दर्शतो महो दिवे न सूर्यः ॥ २ ॥

भा०—हे ( पुरुहन्मन् ) बहुत से शत्रुओं को नाश करने में समर्थ ! तू ( अवसे ) रक्षा करने के लिये ( तं इन्द्रं ) उस ऐश्वर्यपद को ( शुम्भ ) सुशोभित कर ( यस्य ) जिसके ( विधर्तरिं ) विशेषरूप से धारण करने वाले के अधीन ( द्विता ) दो स्वरूप हैं, एक भीम जो ( हस्ताय ) शत्रुओं के हनन करने के लिये ( वज्रः ) बलवीर्य को ( प्रतिधायि ) धारण करता है और दूसरा कान्त जो ( महः दर्शतः ) बड़ा दर्शनीय और ( दिवे सूर्यः न ) आकाश में सूर्यवत् जो पृथिवी पर तेज प्रदान करने के लिये सूर्य के समान तेजस्वी है ।

नकिष्टं कर्मणा नशद्यश्चकार सदावृधम् ।

इन्द्रं न यज्ञैर्विश्वगूर्तमृभ्वसमधृष्टं धृष्णवोजसम् ॥ ३ ॥

भा०—( तं ) उस को ( कर्मणा ) कर्म द्वारा ( नकिः नशत् ) कोई प्राप्त नहीं कर सकता ( यः सदावृधम् ) जो सदा बढ़ाने वाले ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् पुरुष को ( यज्ञैः ) यज्ञों, सत्संगों से ( विश्वगूर्तम् ) सर्व स्तुत्य ( ऋभ्वसम् ) महान्, ( अधृष्टं ) अपराजित और ( धृष्णु- भोजसम् ) पराजयकारी बल से सम्पन्न ( चकार ) करता है वही उस तक पहुँचता है ।

अषाह्लमुग्रं पृतनासु सासहिं यस्मिन्सहीरुज्यः ।

सं धेनवो जायमाने अनोनवुर्धावुः क्षामो अनोनवुः ॥ ७ ॥

भा०—( यस्मिन् जायमाने ) जिसके प्रादुर्भाव होते हुए ( उरुज्यः ) अति वेग से युक्त, ( महीः ) बहुत सी भूवासिनी प्रजाएं वा सेनायें, ( धेनवः ) वत्स के प्रति गौवों के समान स्नेहयुक्त होकर, वा वाणियां उस ( अषाहं ) अपराजित, ( उग्रं ) बलवान् ( पृतनासु सासहिं ) संग्रामों में विजयकारी की ( सं अनोनवुः ) मिलकर स्तुति करती हैं, ( धावः क्षामः ) तेजस्वी सेनाएं वा कामनावान् प्रजाएं भी उसकी ( सं अनोनवुः ) मिलकर स्तुति करती हैं ।

यद्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः ।

न त्वा वज्रिन्सहस्रं सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥५॥८॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( ते शतं धावः ) तेरी सैकड़ों, बहुत सी तेजस्विनी सेनाएं हों, ( उत ) और ( शतं भूमीः स्युः ) सैकड़ों भूमियों हों, हे ( वज्रिन् ) बलवीर्यशालिन् ! ( त्वा ) तुझे ( सहस्रं सूर्याः ) हजारों सूर्य भी ( न अनु स्युः ) तेरे बराबर नहीं, ( जातं त्वा अनु रोदसी ) उत्पन्न या प्रकट हुए तेरे समान दुष्टों को रूलाने वाली सेना भी ( न अष्ट ) तुझे नहीं व्याप सकती, तेरा स्थान नहीं पा सकती । ( २ ) सैकड़ों सूर्य पृथिवी आदि लोक भी परमेश्वर के बराबर नहीं, न भूमि और आकाश उसको व्याप सकते हैं । इत्यष्टमो वर्गः ॥

आ पप्राथ महिना वृषणया वृषन्विश्वो शविष्ट शवसा ।

अस्माँ अव मघवन्गोमति ब्रजे वज्रिञ्चित्राभिरूतिभिः ॥ ६ ॥

भा०—हे ( वृषन् ) बलवान् ! प्रजा पर सुखों और शत्रु पर शस्त्रअस्त्रों की वर्षा करने हारे ! हे ( शविष्ट ) सबसे अधिक शक्तिशालिन् ! तू ( महिना शवसा ) अपने महान् बल से ( विश्वा ) समस्त ( वृषणा ) बलयुक्त कार्यों और सैन्यों को ( अपप्राथ ) विस्तारित कर । और हे

( वज्रिन् ) बलशालिन् ! हे ( मघवन् ) धनशालिन् ! ( चित्राभिः  
ऊतिभिः ) नाना अद्भुत रक्षाकारिणी क्रियाओं, सेनाओं से ( गोमति व्रजे )  
भूमियों से युक्त कार्य या समूह में ( अस्मान् अव ) हमारी रक्षा कर ।

न सीमदैव आपदिपं दीर्घायो मर्त्यः ।

एतग्वा चिद्य एतशा युयोजते हरी इन्द्रो युयोजते ॥ ७ ॥

भा०—हे ( दीर्घायो ) आयुष्मन् ! दीर्घ जीवन वाले ( अदेवः मर्त्यः )  
अदानशील वा दाता से रहित मनुष्य ( सीम् ) सब प्रकार की ( इपं न  
आपत् ) अन्न और शक्ति को नहीं प्राप्त करता । ( यः ) जो ( एतग्वा चित् )  
शुद्ध श्वेत वर्ण के वा शुद्ध चरित्रयुक्त स्त्री पुरुषों को भी ( एतशा युयो-  
जते ) उत्तम दो अश्वों के समान सन्मार्ग में चलाता है वही ( इन्द्रः )  
ऐश्वर्यवान् शत्रुनाशक पुरुष ( हरी युयोजते ) समस्त स्त्री पुरुषों को वश  
करता है ।

तं वो महो महाय्यमिन्द्रं दानाय सक्षणिम् ।

यो गाधेषु य आरणेषु हव्यो वाजेष्वस्ति हव्यः ॥ ८ ॥

भा०—( यः ) जो ( गाधेषु ) प्रतिष्ठा के कर्मों में ( यः आरणेषु )  
सब प्रकार के आनन्द प्रद अवसरों में ( हव्यः ) स्तुति करने योग्य  
है और जो ( वाजेषु हव्यः अस्ति ) संग्रामों में स्तुति करने योग्य है  
( तम् ) उस ( महः महाय्यं ) महान् पूज्य ( दानाय सक्षणिम् ) दान प्राप्त  
करने के लिये प्राप्त करने योग्य, वा शत्रु के विनाशार्थ शक्तिशाली को  
( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् 'इन्द्र' जानो ।

उदुषु रौ वसो महे मृशस्व शूर राधसे ।

उदुषु महौ मघवन्मघत्तय उदिन्द्र श्रवसे महे ॥ ९ ॥

भा०—हे ( वसो ) माता पितावत् प्रजा को बसाने हारे ! हे ( शूर )  
दुष्टों के नाशक ! तू ( महे राधसे ) बड़े भारी धन के लिये ( न उत् सु मृ-  
शस्व उ ) हमें उत्तम रीति से प्राप्त कर । हमें उन्नत कर और ( महौ

मघत्तये) बहुत ऐश्वर्य देने के लिये ( उत् उ सु) हमें उठा और हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! ( महे श्रवसे उत् ) बड़े यश के लिये हमें उठा ।

त्वं न इन्द्र ऋतयुस्त्वानिदो नि तृम्पसि ।

मध्ये वसिष्व तुविनृम्णोर्वोर्नि दासं शिश्रथो हथैः ॥१०॥९॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे शत्रुहन्तः ! ( त्वं ) तू ( नः ) हमारे ( ऋत-युः ) व्यवहार ज्ञान, यज्ञादि को चाहने वाला है । तू ( त्वा-निदः ) अपने निन्दकों को ( नितृम्पसि ) विनष्ट करता है । हे ( तुवि-नृम्ण ) बहुत ऐश्वर्य के स्वामिन् ! तू ( ऊर्वोः ) अपनी जंघाओं पर हमें, बालक को पिता के तुल्य अथवा ( ऊर्वोः ) अपनी बड़ी विशाल बाहुओं के आश्रय पर ( वसिष्व ) बसा, और ( दासं ) विनाशक दुष्ट को ( हथैः ) शस्त्रों से ( नि शिश्रथः ) शिथिल कर । इति नवमो वर्गः ॥

अन्यव्रतममानुषमयज्वानमदेवयुम् ।

अव स्वः सखा दुधुवीत पर्वतः सुघ्नाय दस्युं पर्वतः ॥ ११ ॥

भा०—( सखा ) प्रजा का मित्र ( पर्वतः ) पालनकारक साधनों से सम्पन्न होकर, ( पर्वतः ) मेघवत् शस्त्रवर्षी और पर्वत के समान अचल होकर, ( सु-घ्नाय ) अच्छी प्रकार दण्ड देने के लिये ( दस्युं ) दुष्ट पुरुष को ( स्वः ) सुख से ( अव दुधुवीत ) कंपा कर गिरा दे । इसी प्रकार वह ( अन्य-व्रतम् ) शत्रु के समान कर्म करने वाले ( अमानुषम् ) मनुष्यों से भिन्न, उनके शत्रु, पशुवत् दुराचारी और निर्दय, ( अयज्वानं ) अदानशील, ( अदेवयुम् ) दाता, विद्वानों वा उत्तम गुणों को न चाहने वाले को भी ( अव दुधुवीत ) कंपा कर नीचे गिरा दे, उसे दण्डित करे ।

त्वं न इन्द्रासां हस्ते शविष्ठ दावने ।

धानानां न सं गृभायास्मयुर्द्विः सं गृभायास्मयुः ॥ १२ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यप्रद ! ( त्वं ) तू ( नः ) हमें ( दावने ) देने के लिये ( अस्मयुः ) हमारा हितैषी होकर ( आसां ) इन ( धानानां )

धाना अर्थात् लाजाओं के समान उज्ज्वल, एवं पुष्टिकारक गौवों और समृद्धियों को (संगृभाय) संग्रह कर। अच्छी प्रकार अपने (हस्ते संगृभाय) हाथ में, वश में रख, और (अस्मयुः) हमें चाहता हुआ, हमारा स्वामी होकर तू उनको (द्विः संगृभाय) दो बार या दुगुना भी कर संग्रह कर। राजा प्रजाओं से धनादि बराबर संग्रह करे और आवश्यकता पर प्रजा के हितार्थ ही दुगुना भी ले लेवे।

सखायुः क्रतुमिच्छत कथा राधाम शरस्य ।

उपस्तुतिं भोजः सूरियो अहयः ॥ १३ ॥

भा०—हे (सखायुः) मित्रगणो ! आप लोग (क्रतुम् इच्छत) ज्ञान और कर्म की इच्छा करो और हम लोग (शरस्य) वाणवत् शत्रुनाशकारी वीर पुरुष या बल को (कथा) किसी प्रकार से भी (राधाम) अपने वश करें। और (यः) जो (भोजः) सबका पालक, रक्षक, भोक्ता, (सूरिः) विद्वान् (अहयः) अहीन, अपराजित है उसकी (उपस्तुतिम् इच्छत) स्तुति करना चाहो।

भूरिभिः समह ऋषिभिर्वर्हिष्मद्भिः स्तविष्यसे ।

यद्वित्थमेकमेकमिच्छुर वत्सान्परा ददः ॥ १४ ॥

भा०—हे राजन् ! हे (समह) पूज्य ! तू (वर्हिष्मद्भिः) आसनों, यज्ञों वा धन धान्यादि से सम्पन्न, (भूरिभिः) इस लोक वा प्रजा से युक्त बहुत से (ऋषिभिः) विद्वान् पुरुषों से भी तू (स्तविष्यसे) स्तुति किया जाता है। (यद्) जो तू (इत्थम्) इस प्रकार (एकम्-एकम्) एक २ करके (वत्सान्) बत्सों के समान इस लोक में वसे वा स्तुतिकारी नम्रजनों को (परा ददः) युक्त करे।

कुर्यागृह्या मधवा शौरदेव्यो वत्सं नस्त्रिभ्य आनयत् ।

श्रजां सूरिर्न धातवे ॥ १५ ॥ १० ॥

भा०—(सूरिः) विद्वान् पुरुष (धातवे) दुग्धपान कराने के

लिये जिस प्रकार (अजां कर्णगृह्य) बकरी के कान पकड़ कर (वत्सं प्रति आनयत्) बछड़े के पास लाता वा बच्चे को कान पकड़ कर दूध पिलाने के लिये बकरी के पास ले जाता है उसी प्रकार (शौर-देव्यः) शूर और विजीगीषु (मववा) उत्तम ऐश्वर्यवान् राजा (सूरिः) उत्तम विद्वान् के समान (नः) हमारे (वत्सं) राष्ट्र में वसे प्रजाजन को और (अजां) शत्रु को उखाड़ देने वाली सेना को भी (कर्णगृह्य) कान से पकड़ कर अर्थात् कर्ण से श्रवण करने योग्य उपदेश, आज्ञा-वचन सुनाकर (त्रिभ्यः आनयत्) तीनों प्रकार के कष्टों से परे रखे। वा (त्रिभ्यः) तीनों प्रकार के सुखों के लिये सन्मार्ग से ले जावे। इति दशमो वर्गः ॥

### [ ७१ ]

मुनीतिपुरुमीळ्ही तयोर्वान्यतर ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः—१, ४, ७ विराड् गायत्री । २, ६, ८, ९ निचृद् गायत्री । ३, ५ गायत्री । १०, १३ निचृद् बृहती । १४ विराड् बृहती । १२ पादनिचृद् बृहती । ११, १५ बृहती ॥

पञ्चदशर्चं सूक्तम् ॥

त्वं नो अग्ने महोभिः प्राहि विश्वस्या अरातेः ।

उत द्विपो मर्त्यस्य ॥ १ ॥

भा०—हे (अग्ने) तेजस्विन् ! अग्निवत् अग्रणीनायक ! (त्वं) तू (नः) हमारी (विश्वस्याः अरातेः) सब प्रकार की शत्रु सेना (उत) और (द्विपः मर्त्यस्य) शत्रु मनुष्य से भी (महोभिः) बड़े धनों द्वारा (प्राहि) रक्षा कर ।

अ- त्वहि मन्युः पौरुषेय ईशे हि वः प्रियजात ।

त्वमिदं सि क्षपावान् ॥ २ ॥

भा०—हे (प्रिय-जात) उत्पन्न बालकवत् प्रजाओं को तृप्त करने हारे राजन् ! (वः) तुझ पर (पौरुषेयः मन्युः) मनुष्यों का क्रोध भी



( नहि ईशे ) नहीं वश कर सकता । ( त्वम् इत् क्षपावान् असि ) तू ही शत्रुओं का नाश कर देने वाली भारी सेनादि का स्वामी ( असि ) है ।

स नो विश्वेभिर्देवेभिरुजो नपान्द्रद्रशोचे ।

रयिं देहि विश्ववारम् ॥ ३ ॥

भा०—हे ( ऊर्जः नपाद् ) बल को न गिरने देने हारे ! हे ( भद्र-शोचे ) कल्याणकारी कान्ति वा तेज से सम्पन्न ! ( सः ) वह तू ( नः ) हमें ( विश्वेभिः देवेभिः ) समस्त विद्वान् पुरुषों द्वारा ( विश्व-वारं ) सब से वरण करने योग्य ( रयिं ) धन ( देहि ) प्रदान कर ।

न तमग्ने अरातयो मर्तं युवन्त रायः । यं त्रायसे दाश्वांसम् ॥४॥

भा०—हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! विद्वन् ! प्रभो ! तू ( यं दाश्वांसं ) जिस दानशील की ( त्रायसे ) रक्षा करता है ( तं मर्तं ) उस मनुष्य को ( अरातयः ) समस्त शत्रु भी ( रायः ) धन से ( नः युवन्त ) पृथक् नहीं कर सकते ।

यं त्वं विप्र मेधसात्तावग्ने हिनोषि धनाय ।

स तत्रोती गोषु गन्ता ॥ ५ ॥ ११ ॥

भा०—हे ( विप्र ) मेधाविन् ! हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्, तेजस्विन् ! ( मेध-सातौ ) संग्राम वा यज्ञ में ( त्वं ) तू ( धनाय हिनोषि ) धन प्राप्त करने के लिये उत्साहित करता है । ( सः ) वह ( तव ऊती ) तेरी रक्षा में रहकर ( गोषु गन्ता ) वाणियों में और भूमियों पर भी वश करने वाला होता है । इत्येकादशो वर्गः ॥

त्वं रयिं पुरुवीरमग्ने दाशुषे मर्ताय । प्र णो नय वस्यो अच्छ ६

भा—हे ( अग्ने ) अग्रणीनायक ! ( त्वं ) तू ( पुरु-वीरं ) बहुत् पुत्रों वा वीरों सहित ( रयिं ) ऐश्वर्य को ( दाशुषे मर्ताय ) दानशील मनुष्य के हितार्थ प्रदान करता है । वह तू ( नः वस्यः अच्छ नय ) हमें भी उत्तम धन प्रदान कर ।

डुरुष्या सो मा परा दा अघायते जातवेदः। दुराध्ये३ मर्त्या॥७॥

भा०—हे ( जातवेदः ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( नः ) हमें ( दुराध्ये मर्त्या ) दुष्ट चिन्तक मनुष्य के और ( अघायते ) पापकारी, हिंसक के हाथों ( मा परा दाः ) मत दे, उसके हितार्थ हमें मत त्याग ।

अग्ने माकिंष्टे देवस्य रातिमदेवो युयोत । त्वमीशिषे वसूनाम् ८

भा०—हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! विद्वन् ! ( ते देवस्य रातिम् ) तुझ दाता के दिये दान को ( अदेवः माकिः युयोत ) अदानशील व्यक्ति हम से पृथक् न करे । ( त्वम् वसूनां ईशिषे ) तू सब ऐश्वर्यों और मनुष्यों का स्वामी है । अर्थात् हमारे पारस्परिक लेन-देन की न्यायपूर्वक व्यवस्था कर ।

स नो वस्व उप मास्यूर्जा नपान्माहिनस्य ।

सखे वसो जरितृभ्यः ॥ ९ ॥

भा०—हे ( ऊर्जः नपात् ) बल को नष्ट न होने देने वाले ! हे ( वसो ) प्रजा को बसाने हारे ! न्यायकारिन् ! हे ( सखे ) स्नेहकारिन् ! मित्र ! तू ( नः ) हममें से ( जरितृभ्यः ) उत्तम स्तुतिशील विद्वान् जनों को ( माहिनस्य वस्वः उपमासि ) उत्तम धन, ज्ञान प्रदान कर ।

अच्छा नः शीरशोचिषं गिरौ यन्तु दर्शतम् ।

अच्छा यज्ञासो नमसा पुरुवसुं पुरुप्रशस्तमूतये ॥१०॥१२॥

भा०—( नः गिरः ) हमारी वाणियां सदा ( शीर-शोचिषं ) व्यापक तेज वाले, ( दर्शतम् ) दर्शनीय को ( अच्छ यन्तु ) लक्ष्य करके प्रकट हों । और ( ऊतये ) रक्षा के निमित्त हमारे ( यज्ञासः ) समस्त यज्ञ; सत्संग, आदर-सत्कार भी ( नमसा ) विनयपूर्वक ( पुरु-वसुं पुरु-प्रशस्तं ) बहुत से ऐश्वर्यों से युक्त और बहुत से प्रशंसित स्वामी को ही प्राप्त हों । इति द्वादशो वर्गः ॥

अग्निं सुनुं सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणाम् ।

द्विता यो भूदमृतो मर्त्येष्वाम् होता मन्द्रतमो विशि ॥११॥

भा०—( सहसः सूरुं ) बल के उत्पादक वा प्रेरक, ( जात-वेदसं ) प्रजावान्, ऐश्वर्यवान्, ( अग्निं ) अग्नि, नायक को मैं ( वार्याणां दानाय ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ धनदान करने के लिये जानूं। ( यः ) जो ( मर्त्येषु ) मरणधर्मा मनुष्यों में भी ( अमृतः ) अमर ( भूत् ) होता है और ( विशि ) प्रजाओं में ( मन्द्रतमः ) अति हर्ष युक्त और ( होता ) ज्ञानादि का दाता होता है इस प्रकार ( द्विता ) उसके ये दो रूप होते हैं।

अग्निं वो देवयज्ययाग्निं प्रयत्यध्वरे ।

अग्निं धीषु प्रथममग्निमवत्यग्निं क्षेत्राय साधसे ॥ १२ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! ( वः ) आप लोगों के प्रति मैं ( देव-यज्यया ) परमेश्वर की पूजा के रूप में ( अग्निं ) अग्नि का उपदेश करता हूं। ( प्रयति अध्वरे ) यज्ञ के प्रवृत्त होने पर भी ( अग्निं ) अग्नि का आश्रय लो। ( धीषु ) सब कामों में ( प्रथमम् ) सर्व प्रथम ( अग्निं ) इस ज्ञानवान् प्रभु का स्मरण करो। ( अर्वति अग्निं ) वेगवान् अश्व रथादि के निमित्त भी अग्नि का प्रयोग जानो। ( क्षेत्राय साधसे ) क्षेत्र अर्थात् देह में रहने वाले आत्मा की प्राप्ति या ज्ञान करने के लिये भी ( अग्निम् ) अग्नि को ही दृष्टान्त रूप से जानें।

अग्निरिषां सख्ये ददातु न ईशे यो वार्याणाम् ।

अग्निं तोके तनये शश्वदीमहे वसुं सन्तं तनूपाम् ॥ १३ ॥

भा०—( यः वार्याणाम् ईशे ) जो वरण करने योग्य धनों का स्वामी है वह ( अग्निः ) तेजस्वी प्रभु ( सख्ये ) अपने स्नेही मित्र को ( इषां ददातु ) अन्न दान करे। हम ( वसु ) सबके भीतर बसे ( सन्तं ) सत्-स्वरूप ( तनूपाम् ) सब देहों के पालक ( अग्निम् ) अग्नि, व्यापक प्रभु को ( तोके तनये शश्वद् ईमहे ) पुत्र पौत्रादि के कल्याणार्थ भी सदा याचना करें।

अग्निमीळिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम् ।

अग्निं राये पुरुमीळह श्रुतं नरोऽग्निं सुदीतये छर्दिः ॥१४॥

भा०—हे ( पुरुमीढ ) बहुत धनों के दातः ! बहुतों पर वर्षाने हारे !  
तू ( गाथाभिः ) गान योग्य वेद वाणियों द्वारा ( शीर-शोचिषम् अग्निम् )  
व्यापक तेज वाले अग्रणी, नायक, ज्ञानी प्रभु की ही ( ईडिष्व ) स्तुति  
कर । ( राये ) धनैश्वर्य की वृद्धि के लिये भी ( श्रुतं ) बहुश्रुत विद्वान्  
अग्नि की ( ईडिष्व ) स्तुति कर और ( नरः ) मनुष्यगण भी उसी ( अग्नि )  
तेजस्वी की स्तुति करते हैं । वह ( सुदीतये छर्दिः ) उत्तम तेज वाले के  
लिये भी दीपक के लिये गृह के समान आश्रय है ।

अग्निं द्वेषो योतवै नो गृणीमस्यग्निं शं योश्च दातवे ।

विश्वासु विद्ववितेव हव्यो भवद्वस्तुर्ऋषूणाम् ॥ १५ ॥ १३ ॥

भा०—हम लोग ( नः द्वेषः दातवे ) अपने द्वेष भावों को दूर करने  
के लिये ( अग्निं गृणीमसि ) सर्वव्यापक सर्वज्ञ प्रभु की उपासना करें ।  
और ( शंयोः च दातवे ) शान्ति और दुःख नाश करने के लिये भी  
उसी ( अग्नि ) तेजोमय का ध्यान करें । वह ( विश्वासु विक्षु ) समस्त  
विद्वान् ज्ञानी पुरुषों का आश्रय स्थान और ( हव्यः भवत् ) स्तुत्य है । इति  
त्रयोदशो वर्गः ॥

[ ७२ ]

हर्यतः प्रागाथ ऋषिः । अग्निर्हवीषि वा देवता ॥ छन्दः—१, ३, ८—१०,  
१०, १६ गायत्री । २ पादनिचृद् गायत्री । ४—६, ११, १३—१५, १७  
निचृद् गायत्री । ७, १८ विराड् गायत्री ॥ अष्टादशार्चं सूक्तम् ॥

हविष्कृणुध्वमा गमदध्वर्युर्वनते पुनः । विद्वाँ अस्य प्रशासनम् १

भा०—हे विद्वान् लोगो ! ( हविः कृणुध्वम् ) हविष् ज्ञान आदि  
का सम्पादन अन्न वा साधन करो ( अध्वर्युः आगमत् ) अध्वर, हिंसा

भाव से रहित यज्ञ का संचालक आवे । और वह ( विद्वान् ) विद्वान् पुरुष ही ( अस्य ) इस स्वाध्यायादि यज्ञ के ( प्र-शासनं वनते ) उत्तम शासन का पद प्राप्त करे ।

नि तिग्ममभ्यंशुं सीदद्धोता मनावधि ।

जुपाणो अस्य सख्यम् ॥ २ ॥

भा०—( तिग्मं अंशुं अभि ) तीक्ष्ण, व्यापक ज्ञानवान् पुरुष के सम्मुख ( होता ) ज्ञान के ग्रहण कराने वाला पुरुष ( मनौ अधि ) मनन शील शिष्य के ऊपर ( नि सीदत् ) विराजे और वह ( अस्य सख्यं जुपागः ) इसके प्रेम भाव को प्राप्त करने वाला हो ।

अन्तरिच्छन्ति तं जने रुद्रं पुरो मनीषया ।

गृह्णन्ति जिह्वया संसम् ॥ ३ ॥

भा०—( जने अन्तः ) प्रत्येक जन, उत्पन्न प्राणी के भीतर विद्यमान् ( परः ) चक्षु से परे ( रुद्रं ) दुःख में रोने वाले वा रोगादि के नाशक, आघात पीड़ादि के प्रतिबन्धक, अतीन्द्रिय विद्युत् अग्नि या तेजोरूप आत्मत्व को भी ( मनीषया ) बुद्धि द्वारा जानना चाहते हैं । और ( संसम् ) प्रसुप्त रूप से व्यापकवत् विद्यमान ( जिह्वया गृणन्ति ) जिह्वा अर्थात् ज्वालावत् विद्युत् की धारा से जैसे अग्नि अर्थात् विद्युत् को ग्रहण करते उसी प्रकार जिह्वा अर्थात् वाणी द्वारा उस चेतन को ग्रहण करते, उसका ज्ञान करते और अन्यो को कराते हैं ।

‘संस’—स्वपनमेतन्माध्यमिकं ज्योतिरनित्यदर्शनं । नि० ५।१।३ ॥ वह सुप्तज्योति विद्युत् है जो कभी २ दीखती है । उसको भी उसकी जिह्वा अर्थात् लपकती धार से ही ग्रहण करते हैं, उसको एक नोक पर ले लेते हैं ।

जाम्यतीतपे धनुर्वयोधा अरुहद्वनम् । षुषदं जिह्वयावधीत् ॥४॥

भा०—अग्नि, विद्युत् (जामि) अति अधिक (अतीतपे) तप्त होता है और (धनुः) आकाश में ही (वयोधाः) बल को धारण करता हुआ, (वनम् अरुहत्) जल में रहता है, वह (दृषदं) मेघ को या शिला को भी (जिह्वया) अपनी जिह्वा, ज्वाला या धारा से ही (अवधीत्) आघात करता है और तोड़ डालता है। इसी प्रकार यह सामान्य अग्नि भी अति तप्त होकर ही (धनुः वयोधाः) अरणी की ओविली में धनुष् या डोरी द्वारा बल पाकर काण्ड को पकड़ लेता है और जिह्वा अर्थात् चिनगारी द्वारा शिला पर आघात करता है। वह पत्थर तक को फोड़ देता है। इसी प्रकार जब अग्निवत् तेजस्वी पुरुष (वयोधाः) बल और अपनी पर्याप्त यौवनावस्था को धारण कर (जामि अतीतपे) खूब तप्त होता, तपस्या कर लेता है, बल धारण करता है और धनुष के बल पर (वनम् अरुहत्) सैन्य बल का सर्दार बनता, उस पर शासन करता या ऊंचे आसन पर बैठता है, तब वह (जिह्वया) अपनी वाणी के बल से ही (दृषदं अवधीत्) पाषाण के समान चकनाचूर कर देने वाले पर-पक्ष के सैन्य वा क्षत्रियगण को भी (अवधीत्) नाश कर सकता है। इति चतुर्दशो वर्गः॥

चरन्वत्सो रुशन्निह निदातारं न विन्दते ।

वेति स्तोतव अम्ब्यम् ॥ ५ ॥ १४ ॥

भा०—जिस प्रकार (वत्सः) बछड़ा (रुशन् चरन्) उछलता कूदता हुआ अन्य (निदातारं न विन्दते) किसी रोकने वाले को न पावे उसी प्रकार यह अग्नि, विद्युत् जब (इह) इस अन्तरिक्ष में (रुशन्) श्वेत वर्ण में चमकता हुआ, (चरन्) विचरता है, किसी (निदातारं) बाधक या पकड़ लेने वाले पदार्थ को नहीं प्राप्त करता तबतक वह (अम्ब्यम्) जल में उत्पन्न वा जल के उत्पादक प्रकाश को (स्तोतवे) अपने वर्णन करने के लिये (वेति) प्रकट करता है वा (अम्ब्यम्) शब्दमयी ध्वनि, को (वेति) प्रकट करता है। उसी प्रकार यह (वत्सः) स्तुति योग्य नायक

( रुशन् चरति ) तेजस्वी, शुद्ध चरित्र होकर विचरता है तब किसी बाधक को नहीं पाता, स्तुति करने के लिये ( अम्यम् ) हर्ष ध्वनिकारी प्रजाजन को प्राप्त करता है । इति चतुर्दशो वर्गः ॥

उतो न्वस्य यन्महदश्वाव्ययोजनं बृहत् । दामा रथस्य ददृशे ॥६॥

भा०—( उतो नु ) और ( अस्य ) इस विद्युत् रूप अग्नि को ( स्यस्य अश्ववत् ) रथ के घोड़े के समान ( यत् ) जो ( महत् योजनं ) बड़ा बलपूर्वक जोड़ने का कार्य है उस को ( बृहत् दामा ) बड़ा भारी दमन करने वाला विद्वान् पुरुष ही ( ददृशे ) साक्षात् करता है । उसी प्रकार इस देह-रथ में आत्मारूप अग्नि के अश्ववत् जुड़ने को भी बड़ा दमनशील तपस्वी ही साक्षात् करता है ।

दुहन्ति सप्तैकामुप द्वा पञ्च सृजतः । तीर्थे सिन्धोराधि स्वरे ॥७॥

भा०—( सप्त ) सात मिलकर ( एकाम् दुहन्ति ) एक का दोहन करते हैं और ( द्वा पञ्च ) दो पांचों को ( सिन्धोः स्वरे तीर्थे अधि ) सिन्धु के स्वयं प्रकाशमान तीर्थ अर्थात् मार्ग में ( उप सृजतः ) प्रेरित करते हैं । अर्थात् अध्यात्म में—प्राण-अपान, ये दोनों पांच ज्ञानेन्द्रियों को ( सिन्धु ) अर्थात् प्राण या रक्त की नाड़ी के ( स्वरे तीर्थे अधि ) स्वयं प्रकाशमान मार्ग मेरुदण्ड में स्थित होकर प्रेरित करते हैं । वे सातों मिलकर ( एकाम् दुहन्ति ) एक आत्मा या चेतनारूप गौ या वाणी को दोहन करते हैं, उससे बल प्राप्त करते हैं ।

आ दशभिर्विवस्वत् इन्द्रः कोशमचुच्यवीत् ।

खेदया त्रिवृता दिवः ॥ ८ ॥

भा०—जिस प्रकार ( इन्द्रः ) सूर्य या विद्युत् ( त्रिवृता खेदया ) तीन प्रकार के व्यापार वाली दीप्ति से ( दशभिः ) दशों दिशों से आघात कर ( दिवः कोशं आच्यावयति ) अन्तरिक्षस्थ कोश या मेघ से जल पातन कराता है उसी प्रकार ( इन्द्रः ) यह आत्मा या मुख्य प्राण ( विव-

स्वतः कोशम् ) विविध वसु, प्राणों वाले इस देहरूप अन्नमय कोश को ( दिवः ) अपनी कामना या व्यवहार. दीप्ति की ( त्रिवृता ) त्रिगुणात्मक ( खेदया ) रज्जु सदृश प्रेरणा से ( अनुच्यवीत् ) चलाता है ।

परि त्रिधातुरध्वरं जूर्णिरिति नवीयसी । मध्वा होतारो अञ्जते ९.

भा०—यह ( त्रि-धातुः ) वात, पित्त, कफ तीनों धातुओं से धारित यह देह ( परि-अध्वरं ) अविनाशी आत्मा के बलपर, ( नवीयसी ) सदा नयी, शक्ति से ( जूर्णिः ) सदा वेगयुक्त होकर ( परि एति ) सर्वत्र गति करता है और ( होतारः ) अन्न को ग्रहण करने वाले देहधारी उस शक्ति को ( मध्वा ) अन्न जल द्वारा ( अञ्जते ) प्राप्त करते हैं ।

सिञ्चन्ति नमसावृतमुच्चाचक्रं परिज्मानम् ।

नीचीनवारमक्षितम् ॥ १० ॥ १५ ॥

भा०—जिस प्रकार ( उच्चा-चक्रम् ) जिस के ऊपर चक्र लगा हो और ( परिज्मानम् ) चारों ओर भूमि हो और ( नीचीनवारम् ) नीचे पानी के द्वार हों ऐसे ( अक्षितम् ) अक्षय जल के भण्डार रूप ( अवतम् ) कूप को ( नमसा ) अन्न के हेतु वा ( नमसा ) जल से ( सिञ्चन्ति ) सींचते हैं, वा उस कूप से 'अक्षित' अन्न को सींचते हैं, उससे खेत की सिंचाई करते हैं । उसी प्रकार यह देह आत्मा की रक्षा के लिये होने से 'अवत' है, उसका व्यवस्थापक यन्त्र शिर सर्वोपरि लगा है इससे वह 'उच्चाचक्र' है, चारों ओर उसकी गति होने से 'परिज्मा' है । गुदा, मूत्रादि नीचे के द्वार हैं, वह हृष्ट-पुष्ट 'अक्षित' है उसको लोग ( नमसा ) अन्न से सींचते और बढ़ाते हैं । 'नमः' इत्युदक नाम । इसी प्रकार अभिषेक्ता जन उच्चचक्र, रथचक्र, वा सैन्य चक्र के स्वामी, ( परिज्मानं ) सर्वतो बलवान् ( अवतं ) रक्षक राजा का अभिषेक करते हैं । वह ( अक्षितं ) अक्षीण और शत्रुवारक सैन्य को अपने नीचे रखता है ।



अभ्यारमिदद्रयो निपिक्तं पुष्करे मधु । अवतस्य विसर्जने ॥११॥

भा०—(पुष्करे) अन्तरिक्ष में (अद्रयः) मेघगण (निपिक्तं) निपेचित (मधु) जल को (अभि आरम्) प्राप्त करके (अवतस्य) कूप-के (विसर्जने) विशेष स्थान में जल को प्रदान करते हैं उसी प्रकार (पुष्करे) पुष्टि से युक्त राष्ट्र में (नि-सिक्तम्) खूब परिवृद्ध (मधु) मधुमय ऐश्वर्य को (अभि आरम्) प्राप्त करके (अद्रयः) मेघवत् बलवान् पुरुष (अवतस्य) पालक राजा के (विसर्जने) विशेष निर्माण में प्रयत्न करें ।

गाव उपावतावतं मही यज्ञस्य रप्सुदा ।

उभा कर्णा हिरण्यया ॥ १२ ॥

भा०—हे (गावः) वाणियो ! वा हे पशु, भूमि आदि सम्पदा वा उनमें बसी प्रजाओ ! आप लोग (अवतं उप अवत) रक्षक के समीप उसकी शरण में आवो । (यज्ञस्य) सत्संग और आदर-सत्कार के योग्य पुरुष को ये (मही) पूज्य आकाश और भूमि वा शास्य शासक वर्ग दोनों (रप्सुदा) उत्तम यज्ञ, बल देने वाले हों । इस पालक पुरुष के (उभा कर्णा) दोनों कान (हिरण्यया) सुवर्ण के अलंकारों से व हित रमणीय उपदेशों से सुशो-भित हों ।

आ सुते सिञ्चत श्रियं रोदस्योरभिश्रियम् ।

रसा दधीत वृषभम् ॥ १३ ॥

भा०—(रोदस्योः) भूमि और आकाश के बीच (अभि-श्रियं) सर्वतः कान्तिमान्, आश्रयणीय सूर्य के समान शास्य-शासक वर्गों या स्वपक्ष पर-पक्ष दोनों सैन्यदलों के बीच में विशेष शोभा, लक्ष्मी के धारक या आश्रय लेने योग्य पुरुष को (सुते) अभिपेक योग्य पद या ऐश्वर्य पर (सिञ्चत) अभिपिक्त करे । (रसा) पृथिवी वा बलवती सेना (वृषभं दधीत.) बलवान् पुरुष को अपने में धारण करे । इसी प्रकार भूमि, आकाश के

बीच कान्तिमान् अग्नि को घृतों से सेचन करो, जिससे यह रसा, पृथिवी वर्षणशील मेंघ को धारण कर ।

ते जानतु स्वमोक्यं॑सं वत्सासो न मातृभिः।

मिथो नसन्त जामिभिः ॥ १४ ॥

भा०—( वत्सासः मातृभिः न ) बछड़े जिस प्रकार माताओं से ( मिथः नसन्त ) परस्पर मिल जाते हैं उसी प्रकार (ते) वे भी (वत्सासः) राष्ट्र में बसने वाले प्रजागण ( स्वम् ओक्यं जानते ) अपने देश या स्थान के वासी को जाना करें और वे ( जामिभिः ) अपने बन्धु जनों के साथ ( मिथः नसन्त ) परस्पर मिलकर रहें, परस्पर प्रेम से मिला करें ।

उप स्रक्वेपु वप्सतः कृण्वते धरुणं दिवि ।

इन्द्रे अग्ना नमः स्वः ॥ १५ ॥ १६ ॥

भा०—( स्रक्वेपु वप्सतः ) देहावयवों के घटक पदार्थों पर भोजन करने वाले पुरुष के जिस प्रकार वीर्यांश ( दिवि धरुणं कृण्वते ) मूर्धास्थल में या मूलांग में स्थिति करते हैं और (इन्द्रे अग्ना नमः स्वः) आत्मा या प्राण और अग्नि के आधार पर अन्न और शक्ति निर्भर है उसी प्रकार पात्रों द्वारा घृतादि को खाते हुए अग्नि से दग्ध घृत चरु के अंश (दिवि) आकाश में जाते और ( इन्द्रे अग्ना नमः स्वः ) सूर्य और अग्नि के आश्रय ही यह पृथिवी का अन्न और यह प्रकाश होता है । (२) इसी प्रकार राजा के उपभोग करते हुए ही सब जन ( दिवि ) भूमि पर सुख से आश्रय लेते हैं । इसलिये ( स्वः नमः) समस्त सुख और भूमि का बल, वा शासक बल, और सैन्यादि सब ( इन्द्रे ) तेजस्वी ऐश्वर्यवान् शत्रुहन्ता और ( अग्ना ) अग्निवत् तेजस्वी नायक पर ही निर्भर हैं । इति षोडशो वर्गः ॥

अधुक्षतिप्युषीमिपमूर्जे सप्तपदीमरिः ।

सूर्यस्य सप्तरश्मिभिः ॥ १६ ॥

भा०—( अरिः ) वेग से चलने वाला वायु जिस प्रकार ( सूर्यस्य

सप्त रश्मिभिः) सूर्य के वेग से आने वाले सात किरणों द्वारा (पिप्युपीम्) पुष्टिकारक ( इपम् ) अन्न और (ऊर्जं) रस को ( सप्तपदीम् ) सर्पणशील चरण वाली अन्तरिक्षस्थ गौ रूप मेघ को ( अधुक्षत् ) दोहता है । इसी प्रकार ( अरिः ) स्वामी, ( सूर्यस्य सप्त रश्मिभिः ) तेजस्वी व्यवस्थापक के बनाये सात मर्यादाओं द्वारा, ( सप्त पदीम् ) सर्पणयुक्त पदों वाली, अर्थात् जनों से बसी भूमि से (पिप्युपीम् इपं ऊर्जं) पुष्टिकारक अन्न और पुष्ट बल का (अधुक्षत्) दोहन करता है । प्रजा में अन्न, बल की वृद्धि करता है । सोमस्य मित्रावरुणोदिता सूर आ ददे । तदातुरस्य भेपजम् १७

भा०—हे ( मित्रावरुणा) मित्र और वरुण, दिन और रात्रि, (उदिता सूरैः) सूर्य के उदय होते २ में (सोमस्य आददे) सोम, बलकारक ओषधि रस का सेवन करूँ, ( तत् आतुरस्य भेपजम् ) वही व्याधिपीडित के सब रोगों का नाश करता है ।

उतो न्वस्य यत्पदं हर्यतस्य निधान्यम् ।

परि द्यां जिह्वयातनत् ॥ १८ ॥ १७ ॥

भा०—( अस्य ) इस ( हर्यतस्य ) कान्तिमान् अग्नि या सूर्य का ( यत् पदं ) जो पद या स्थान ( नि-धान्यम् ) भूमि पर विशेष धन वा धान्य के योग्य है, उसको अग्नि ही (द्यां परि) समस्त आकाश में अपनी ( जिह्वया ) ज्वालामयी जीभ से ( परि तनत् ) फैलाता है । इसी प्रकार जो इस राजा का ऐश्वर्ययोग्य पद है उसको यह नायक विद्वान् अपनी वाणी द्वारा विस्तृत कर । इति सप्तदशो वर्गः ॥

[ ७३ ]

गोपवन आत्रेयः सप्तवध्रिर्वा ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, २, ४, ५, ७, ६—११, १६—१८ गायत्री । ३, ८, १२—१५ निचृद गायत्री ।

६ विराड गायत्री ॥ अष्टादशार्चं सूक्तम् ॥

उदीराथामृतायते युञ्जाथामश्विना रथम् ।

अन्ति षड्भूतु वामवः ॥ १ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) विद्वान् जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप दोनों ( ऋता-यते ) सत्य ज्ञान और यज्ञ, अन्नादि के इच्छुक के लिये ( उद् ईराथाम् ) उत्तम उपदेश करो और ( रथं युञ्जाथाम् ) रथ के समान ही/उत्तम उप-देश करो । यज्ञरक्षार्थं रथ और सत्य ज्ञान प्राप्त्यर्थं उपदेश को प्रयोग करो । ( वाम्-भवः ) आपका रक्षा और ज्ञान ( सत् भूतु ) सत्, सत्य और ( अन्ति ) हमारे सदा समीप रहे । रथो रपतेः निरु० ।

निमिषश्चिच्चवीयसा रथेना यातमश्विना ।

अन्ति षड्भूतु वामवः ॥ २ ॥

भा०—( नि-मिषः चित् जवीयसा ) पलक की झंपक से भी अधिक वेग वाले ( रथेन ) रथ से हे (अश्विना) अश्व चालन में चतुर जनो ! आप लोग (आ यातम् ) आवो । ( वाम् अवः सत् अन्तिभूतु ) आप दोनों की सत् रक्षा हमें सदा प्राप्त हो ।

उप स्तृणीतमत्रये हिमेन घर्ममश्विना । अन्ति षड्भूतु वामवः ॥३॥

भा०—( अत्रये ) विविध तापों से निवृत्त होने के लिये हे (अश्विना) अश्वोवत् इन्द्रियों के संयमी जनो ! ( घर्मम् हिमेन ) दाह को शीतल जल से जिस प्रकार दूर किया जाता है उसी प्रकार सन्तप्त जन को शीतल वचन से ( उप स्तृणीतम् ) आच्छादित करो, उसका आदर सत्कार करो । ( वां अन्ति अवः सद् भूतु ) आप लोगों का सत् ज्ञान, व्यवहार हमें भी सदा प्राप्त हो ।

कुह स्थः कुह जग्मथुः कुह श्येनेव पेतथुः ।

अन्ति षड्भूतु वामवः ॥ ४ ॥

भा०—( कुह स्थः ) आप कहीं रहो, (कुह जग्मथुः) कहीं भी जाते

हो, (कुह श्येना इव पेतथुः) कहीं भी दो श्येनों के समान वेग से, उत्तम आचार चरित्रवान् होकर गमन करो। ( वाम् अन्ति सद् अवः भूतु ) तुम दोनों के समीप सदा सत् ज्ञान, रक्षा बल अवश्य हो।

यदद्य कर्हि कर्हि चिच्छुश्रूयातमिमं हवम् ।

अन्ति षड्भूतु वामवः ॥ ५ ॥ १८ ॥

भा०—( यत् अद्य ) आज के समान (कर्हि कर्हि चित्) कभी कभी आप दोनों ( इमं हवं शुश्रूयातम् ) इस आह्वान या उत्तम वचन को भी श्रवण कर लिया करो। ( वाम् अन्ति सत् अवः भूतु ) आपके पास सदा सत्य ज्ञान, सद् व्यवहार रहे।

अश्विना यामहूतमा नेदिष्टं याम्याप्यम् ।

अन्ति षड्भूतु वामवः ॥ ३ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) उत्तम अश्वों के समान इन्द्रियों और मनों को भी वश करने वाले जनो ! आप दोनों ( याम-हूतमा ) उत्तम संघम, परस्पर बन्धन को सर्वोत्तम रीति से स्वीकार करने वाले हो। आप दोनों के ( नेदिष्टं ) अति समीपतम ( आप्यम् ) बन्धुत्व की मैं ( यामि ) प्रार्थना करता हूँ।

अवन्तमत्रये गृहं कृणुतं युवमश्विना । अन्ति षड्भूतु वामवः ॥७॥

भा०—हे (अश्विना) उत्तम जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! आप लोग (अत्रये) इस राष्ट्र आश्रम या गृह में रहने वाले के लिये या ( अत्रये ) तीनों दुःखों से निवृत्त होने के लिये ( युवं अवन्तं गृहं कृणुतं ) तुम दोनों रक्षा करने वाला घर बनाओ। ( वाम् अवः सद् अन्ति भूतु ) तुम दोनों के समीप उत्तम रक्षा साधन, ज्ञान, व्यवहार होवे।

वरैथे अग्निमातपो वदते बृहवत्रये । अन्ति षड्भूतु वामवः ॥८॥

भा०—आप दोनों ( बृहव वदते ) उत्तम वचन बोलने वाले (अत्रये)

तीनों दुःखों से निवृत्त जन के हितार्थ ( ऊतयः ) सब प्रकार के संताप और अग्नि के समान कष्टदायी कारण को भी ( वरेथे ) दूर करो । ( वाम् सत् अवः अन्ति भूतु ) आपका उत्तम ज्ञान और रक्षण सदा हमें प्राप्त हो ।  
प्र सप्तवधिराशसा धारामुग्नेरशायत । अन्ति पद्भूतु वामवः ॥९॥

भा०—(सप्त-वधिः) सातों प्राणों को शिथिल या दमन करने वाला विद्वान् ( आ-शसा ) उत्तम आशा से प्रेरित होकर ( अग्नेः धाराम् ) विद्वान् पुरुष की वाणी को ( प्र अशायत ) अच्छी प्रकार हृदय में धारण करे, उसी में नित्य रमण करे । ( वाम् अवः सत् अन्ति भूतु ) आप दोनों की रक्षा और सत्-ज्ञान सदा हमारे समीप रहे ।

इहा गतं वृषण्वसू शृणुतं मे इमं हवम् ।

अन्ति पद्भूतु वामवः ॥ १० ॥ १९ ॥

भा०—हे (वृषण्वसू) बलयुक्त प्राणापान वाले जनो! (इह आगतम्) यहां आवो । (मे इमं हवं शृणुतम्) मेरे इस आमन्त्रण को श्रवण करो । (वाम् अवः अन्ति सत् भूतु) उत्तम ज्ञान आप लोगों का हमारे समीप हो । इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

किमिदं वां पुराणवज्जरतोरिव शस्यते ।

अन्ति पद्भूतु वामवः ॥ ११ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! ( इदं वां पुराणवत् किम् ) यह आप दोनों का पुरातन, सदातन का वेद-ज्ञान किस प्रकार का है ? जो ( जरतोः इव ) वृद्ध वा उपदेष्टा जनों के वचन के समान उपदेश किया जाता है, ( अवः सत् वाम् अन्ति भूतु ) आप लोगों के उत्तम ज्ञान सदा समीप रहे ।

समानं वां सजात्यं समानो बन्धुरश्विना ।

अन्ति पद्भूतु वामवः ॥ १२ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) दिन रात्रिवत् परस्पर संयुक्त स्त्री पुरुषो !

( वां सजात्यं समानं : ) आप दोनों का उत्पत्ति एक समान और ( वन्धुः समान ) आप दोनों का परस्पर वन्धुत्व भी एक समान हो । ( वाम् अवः अन्ति सद् भूतु ) तुम दोनों का परस्पर समीपतम, घनिष्ठ प्रीति, तृप्ति, परस्पर वाचन-श्रवण क्रिया, इच्छा, आलिङ्गन, दान-आदानादि सब सद् व्यवहार हों ।

यो वां रजांस्यश्विना रथो वियाति रोदसी ।

अन्ति पद्भूतु वामवः ॥ १३ ॥

भा०—हे (अश्विना) वेगयुक्त साधनों और अश्वदि के ज्ञाता जनो ! (यः) जो (वां) तुम दोनों का (रथः) रथ (रजांसि वि-याति) नाना लोकों को प्राप्त होता है, वही (रोदसि वि-याति) आकाश और पृथिवी पर भी विशेष रूप से जावे । (वाम् सद् अवः अन्ति भूतु) आप दोनों का उत्तम गमनागमन सदा होता रहे ।

आ नो गव्यैभिरश्व्यैः सहस्रैरुप गच्छतम् ।

अन्ति पद्भूतु वामवः ॥ १४ ॥

भा०—आप लोग (गव्येभिः अश्व्येभिः सहस्रैः) हजारों गौओं और हजारों अश्वों से (नः आ उप गच्छतम्) हमें प्राप्त होवो । (वाम् सद् अवः अन्ति भूतु) आप दोनों का उत्तम रक्षण सामर्थ्य सदा हमें प्राप्त होवे ।

मा नो गव्यैभिरश्व्यैः सहस्रैभिरति ख्यतम् ।

अन्ति पद् भूतु वामवः ॥ १५ ॥

भा०—(सहस्रैभिः गव्येभिः अश्व्येभिः नः मा अति ख्यतम्) हमें सहस्रों, गौवों और अश्वों से वञ्चित मत करो । (वाम् सद् अवः अन्ति-भूतु) आप लोगों का उत्तम दान सदा हमें प्राप्त हो ।

अरुणप्सुरुषा अभूदकज्योतिः श्रुतावरी । अन्ति पद्भूतु वामवः १ ।

भा०—जिस प्रकार (उषा) प्रभात-वेला की सूर्य कान्ति (ऋत-वरी)

तेजस्विनी, ( अरुण-प्सुः ) अरुण प्रकाश वाली होती और ( ज्योतिः अकः ) प्रकाश करती है उसी प्रकार ( ऋत-वरी ) सत्य ज्ञान को धारण करने वाली ( उषाः ) कमनीय कान्ति से युक्त ( अरुणप्सुः ) अरुण वर्ण की सुन्दर रूपवती ( अभूत् ) हो वह ( ज्योतिः अकः ) सत्य ज्ञान का प्रकाश करे ।

अश्विना सु विचाकशदृक्षं परशुमाँ इव ।

अन्ति षट् भूतु वामवः ॥ १७ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) सूर्य चन्द्रवत् ज्ञानी पुरुषो ! ( परशुमान् इव वृक्षं ) परशु वाला पुरुष जिस प्रकार वृक्ष को काटता है उसी प्रकार सूर्य चन्द्रवत् ज्ञान-ज्योति वाला पुरुष ( सु वि-चाकशत् ) प्रकाशमान हो, अज्ञान-तम को नाश करता है । ( वाम् अवः सत् अन्ति भूतु ) तुम्हारा तेज सदा तुम्हारे वा हमारे समीप हो ।

पुरं न धृष्णावा रुज कृष्ण्या वाधितो विशा ।

अन्ति षट् भूतु वामवः ॥ १८ ॥ २० ॥

भा०—हे ( धृष्णो ) शत्रु के पराजयकारिन् ! जिस प्रकार ( कृष्ण्या वाधितः ) रात्रि से वाधित सूर्य अन्धकार को छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार तू भी ( कृष्ण्या ) कर्षण या पीड़न करने वाली शत्रु सेना से वाधित होकर ( विशा ) अपनी प्रजा, शत्रु के दुर्ग में घुस जाने वाली तीक्ष्ण सेना की सहायता से ( पुरं न आ रुज ) दुर्ग के समान ही शत्रु को छिन्न भिन्न कर । हे ( अश्विनौ ) सभासेनापतियो ! आप दोनों को ( अवः ) शत्रु हिंसन का उत्तम बल सदा आप के पास प्राप्त रहे ।

अव धातुः रक्षणं, गति, कान्तिः, प्रीतिः, तृप्तिः, अवगमः, प्रवेशः, श्रवणं, स्वाम्यर्थ, याचनं, क्रिया, इच्छा, दीप्तिः, अवासिः, आलिंगनं, हिंसा, आदानं, भागो, वृद्धिश्चेत्येतेष्वर्थेषु वर्तते । प्रकरणानुसारं स सोऽर्थोऽवबोधः । इति विंशो वर्गः ॥



## [ ७४ ]

गोपवेन आत्रेय ऋषिः ॥ देवताः—१—१२ अग्निः । १३—१५ श्रुतर्वण  
 आर्क्ष्यस्य दानस्तुतिः । छन्दः—१, १० निचृदनुष्टुप् । ४, १३—१५ वि-  
 राडनुष्टुप् । ७ पादानिचृदनुष्टुप् । २, ११ गायत्री । ५, ६, ८, ९, १२  
 निचृद् गायत्री । ३ विराड् गायत्री ॥ पञ्चदशर्चं सक्तम् ॥

विशोविशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम् ।

अग्निं वो दुर्यं वचः स्तुपे शुषस्य मन्मभिः ॥ १ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग ( वाजयन्तः ) ज्ञान, बल की कामना से युक्त ( पुरु-प्रियम् ) आप में से बहुतों को प्रिय, ( विशः-विशः अतिथिम् ) समस्त प्रजाओं के अतिथि रूप ( अग्निं ) तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष की ( मन्मभिः ) मन्त्रों द्वारा ( शुषस्य ) सुख प्राप्ति के लिये सेवा करें । और मैं भी ( वः ) आप लोगों को ( दुर्यं वचः स्तुपे ) उत्तम वचन का उपदेश करता हूँ ।

यं जनासो हविष्मन्तो मित्रं न सर्पिरासुतिम् ।

प्रशंसन्ति प्रशस्तिभिः ॥ २ ॥

भा०—(हविष्मन्तः जनासः) हविष् उत्तम अन्न वाले मनुष्य जिस प्रकार ( सर्पिः-आ सुतिम् ) घृत से सेचन योग्य अग्नि को (प्रशस्तिभिः) उत्तम प्रशंसनीय मन्त्रों से (प्र शंसन्ति) प्रशंसा करते अर्थात् उस के गुणों का वर्णन करते हैं उसी प्रकार (यं) जिस को (मित्रं न) मित्रवत् (सर्पिः-आसुतिम्) घृतयुक्त अन्न द्वारा सत्कार के योग्य जानकर (हविष्मन्तः) अन्न आदि हाथ में लिये जन ( प्रशस्तिभिः ) उत्तम वचनों से ( प्रशंसन्ति ) प्रशंसा करते हैं, उस की तुम भी स्तुति और आदर करो ।

पन्यांसं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता । हव्यान्यैर्यद्विवि ॥३॥

भा०—( यः ) जो अग्नि ( देवताति ) यज्ञ में ( हव्यानि दिवि-

प्रेरयत् ) हव्य पदार्थों को आकाश की ओर प्रेरित करता है, उस (जात-वेदसं) ऐश्वर्य युक्त वा सर्वज्ञ, (पन्यांसं) स्तुतियुक्त अग्नि का गुण वर्णन करुं, उसे व्यवहार में लाऊं। इसी प्रकार (यः) जो विद्वान् पुरुष (उद्यता हव्यानि) उत्तम रीति से प्राप्त अन्नों और धनों को (दिवि) ज्ञान मार्ग और सत् कार्य में लगा देता है उस (जात-वेदसं पन्यांसं) ऐश्वर्य और ज्ञान से युक्त, स्तुत्य, व्यवहारकुशल पुरुष को हम प्राप्त करें।

आगन्म वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमग्निमानवम् ।

यस्य श्रुतर्वा वृहन्नाक्षीं अनीक एधते ॥ ४ ॥

भा०—(यस्य) जिस के (अनीके) सैन्य बल में (वृहन्) बड़ा भारी (आक्षीः) शत्रु को भर्जन या पीड़न करने में समर्थ (श्रुतर्वा) प्रसिद्ध अश्वारोही जन (एधते) वृद्धि को प्राप्त होता है, उस (ज्येष्ठम्) सब में बड़े (आनवं) मनुष्यों के हितैषी (अग्निम्) तेजस्वी (वृत्रहन्तमं) सबसे अधिक शत्रुहन्ता पुरुष को हम (आ अगन्म) प्राप्त करें।

अमृतं जातवेदसं तिरस्तमांसि दर्शतम् ।

घृताहवनमीड्यम् ॥ ५ ॥ २१ ॥

भा०—(घृताहवनम्) तेज से देदीप्यमान अग्नि के तुल्य, वा जलों द्वारा आदर करने योग्य (ईड्यम्) स्तुति योग्य (तमांसि तिरः दर्शतं) अन्धकारों को दूर करके सत्य ज्ञान को दर्शाने वाले, (अमृतं) अमृत स्वरूप (जात-वेदसम्) ज्ञानमय प्रभु की हम उपासना करें। इत्येकविंशो वर्गः ॥ सवाधो यज्जना इमे अग्निं हव्येभिरीळते जुह्वानासो यतस्तुचः ॥६॥

भा०—जिस प्रकार (सवाधः) ऋत्विग् लोग (अग्निम्) अग्नि को (यत-स्तुचः) जुहू आदि साध कर (जुह्वानासः हव्येभिः ईडते) आहुति देते हुए चरु आदि से चाहते हैं उसी प्रकार (इमे) ये (सवाधाः) पीड़ा युक्त (जनाः) मनुष्य (यत-स्तुचः) प्राणों का निग्रह करके (जुह्वानासः) आरम समर्पण करते हुए (यम् अग्निम्) जिस तेजोमय;

पापनाशक ज्योति की ( हव्येभिः ) स्तुत्य वचनों से ( ईडते ) स्तुति करते उसे उत्तम भावों से चाहते हैं, उसी की उपासना करनी चाहिये ।

इयं ते नव्यसी मतिरग्रे अधाय्यस्मदा ।

मन्द्र सुजात सुक्रतोऽमूर दस्मातिथे ॥ ७ ॥

भा०—हे ( मन्द्र ) स्तुत्य, हर्षजनक, आनन्दघन ! हे ( सु-जात ) सुख-स्वरूप ! हे ( सु-क्रतो ) शुभ कर्म और प्रज्ञा वाले ! हे ( अमूर ) अमृद ! अहिंसक ! हे ( दस्म ) दर्शनीय दुष्टदलन ! हे ( अतिथे ) व्यापक, अतिथिवत् पूज्य ! हे ( अग्ने ) ज्ञानवन् ! ( ते ) तेरी ( इयं ) यह नव्यसी ) अतिस्तुत्य ( मतिः ) ज्ञानमयी बुद्धि ( अस्मत् अधायि ) हमारे में स्थिर हो ।

सा ते अग्ने शन्तमा चनिष्ठा भवतु प्रिया ।

तया वर्धस्व सुष्टुतः ॥ ८ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) ज्ञानवन् ! तेजस्विन् ! ( ते ) तेरी ( सा ) वह ( शन्तमा ) शान्तिदायक ( चनिष्ठा ) उत्तम अन्नवत् भोग्य, सुखदात्री बुद्धि ( प्रिया ) प्रीतिकर हो । ( तया ) उससे तू ( सु-स्तुतः ) उत्तम स्तुतियुक्त होकर ( वर्धस्व ) वृद्धि को प्राप्त हो और हमें भी बढ़ा ।

सा द्युम्नैर्द्युम्निनी बृहदुपोष श्रवांसि श्रवः । दधीत वृत्रतूर्ये ॥९॥

भा०—( सा ) वह ( द्युम्नैः द्युम्निनी ) प्रकाशों से प्रकाश युक्त वाणी ( वृत्र-तूर्ये ) आवरणकारी अज्ञानान्धकार को नाश करने के निमित्त ( बृहत् श्रवः ) बड़ा भारी ज्ञान ( श्रवांसि ) कान में ( उप दधीत ) धारण करावे ।

अश्वमिद् गां रथप्रां त्वेषमिन्द्रं न सत्पतिम् ।

यस्य श्रवांसि तूर्वथ पन्यम्पन्यञ्च कृष्टयः ॥ १० ॥ २२ ॥

भा०—हे ( कृष्टयः ) मनुष्यो ! आप लोग ( पन्यम्-पन्यम् ) अति-स्तुत्य २ कार्य, धन और ( श्रवांसि ) नाना ज्ञानों और आहार योग्य अन्नोः

के समान ही ( तूर्वथ ) प्राप्त करो और उस को ( गाम् ) गौ के समान मातृतुल्य ( अश्वम् इत् ) अश्व के समान बलवान् ( रथप्राम् ) महारथी के समान प्रभावशाली, ( त्वेपं ) सूर्य के समान तेजस्वी ( इन्द्रं न ) ऐश्वर्यवान् विद्युत् के समान तीक्ष्ण, ( सत्पतिं ) सज्जनों के पालक प्रभु की उपासना करो । इति द्वाविंशो वर्गः ॥

यं त्वा गोपवनो गिरा चनिष्ठदग्ने अङ्गिरः ।

स पावक श्रुधी हवम् ॥ ११ ॥

भा०—हे ( पावक ) पावक, पवित्र करने हारे ! ( यं त्वा ) जिस तुझ को ( गो-पवनः ) वाणी द्वारा अपने को पवित्र करने वाला और ( गोप-वनः ) वाणी के पालक विद्वानों का सेवन करने वाला, पुरुष ( गिरा ) वाणी द्वारा ( चनिष्ठत् ) तेरा अन्न और वचन द्वारा सत्कार करता है । हे ( अग्ने ) ज्ञानवन् ! हे ( अंगिरः ) तेजस्विन् ! ( सः ) वह तू ( हवम् श्रुधि ) हमारे आह्वान को श्रवण कर ।

यं त्वा जनासु ईडते सबाधो वाजसातये ।

स बोधि वृत्रतूर्ये ॥ १२ ॥

भा०—( यं त्वा ) जिस तुझ को ( स-बाधः ) बाधा या पीड़ा सहित दुःखी जन ( वाज-सातये ) ज्ञान और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये ( ईडते ) स्तुति करते हैं । ( सः ) वह तू ( वृत्र-तूर्ये ) विघ्नादि के नाश करने के कार्य में ( बोधि ) हमें ज्ञानवान् कर ।

श्रंहं हुवान् आक्षे श्रुतर्वणि मदच्युति ।

शर्धासीव स्तुकाविनां मृत्ता शीर्षा चतुर्णाम् ॥ १३ ॥

भा०—( आक्षे ) शत्रु को अपने प्रताप में भून देने वाले ( श्रुत-र्वणि ) प्रसिद्ध अश्व सैन्य के स्वामी ( मदच्युति ) शत्रु के मद को दूर करने में समर्थ वीर पुरुषों के अधीन ( स्तुकाविनां ) वालों की ग्रन्थि, फुन्दों वाले ( चतुर्णाम् ) चारों वणों वा चार घोड़ों के तुल्य या सेना के चारों अंगों

के वीरों के ( मृक्षा ) अति दीप्त, चमचमाते ( शीर्पा ) शिर वा प्रमुख नायक जन ( शर्धांसि इव ) मानो उनके मुख्य बल हैं । अर्थात् वीरों के शिरों के बाल और मूँछ, दाढ़ी आदि वीरत्व द्योतक चिन्ह हैं, मानो वे ही उनके बल हैं, वे वालों से सिंहों के समान भयानक प्रतीत होते हैं । केशान् शीर्षन् यशसे श्रियै शिखा सिंहस्य लोम त्विपिरिन्द्रियाणि । यजु० १९।१२॥  
 उनको ( अहं ) मैं ( हुवानः ) अन्न देने वा स्वीकार करने वाला होऊँ ।  
 ( २ ) इसी प्रकार ( आर्क्षे = ऋचः सनोतिइति ऋक्षः स्वार्थेऽण् ) विद्वान् वेदज्ञ ( श्रुतर्वणि ) विश्रुत, विद्वान् शिष्यों वाले ( मदच्युति ) हर्षदायक गुरु के अधीन ( स्तुकाविनां ) वालों के गुच्छों वाले ( चतुर्णाम् ) चारों वर्णों के विद्यार्थियों के ( मृक्षा ) घुरे से मुँडे हुए नाना ( शीर्पा ) शिर अर्थात् शिरों वाले अनेक शिष्य गण उन के ( शर्धांसि इव ) सेना या फौज के समान हों । उनको मैं ( हुवानः ) अन्न भिक्षादि देने हारा होऊँ । विद्वान् के अधीन सैकड़ों शिष्य उसकी सेना के समान हैं । जैसे धौम्य के पांच सौ शिष्य थे । राजा आदि उन को पालें ।

‘वृक्षा शीर्पा’ इति सायणाभिमतः पाठः ।

मां चत्वारः आशवः शविष्ठस्य द्रवित्त्वः ।

सुरथासो अभि प्रयो वक्षन्वयो न तुग्न्यम् ॥ १४ ॥

भा०—( शविष्ठस्य ) अति बलशाली, सेनापति के ( चत्वारः ) चार ( द्रवित्त्वः ) वेगवान् ( आशवः ) शीघ्रगामी, अश्वों के सामने वेग से आक्रमण करने वाले, ( सुरथासः ) उत्तम महारथी लोग ( तुग्न्यम् वयः न ) शत्रुहिंसक बलवान् पुरुष को वेगवान् अश्वों के समान ( प्रयः अभि वक्षन् ) श्रेष्ठ यानवत् धारण करते हैं ।

सत्यमित्वा महेनदि परुण्यव देदिशम् ।

नेमापो अश्वदातरुः शविष्ठादस्ति मर्त्यः ॥ १५ ॥ २३ ॥

भा०—हे ( महेनदि ) महानदी के समान बड़ा भारी शब्द करने

चाली ! हे (परुष्णि) पोरु पोरु अर्थात् छोटी २ टुकड़ियों से बनी, वा पर्व २ पर उष्ण अर्थात् शत्रु को दग्ध करने वाली, तेजस्विनी वा कुटिलगामिनी सेने ! (त्वा) तुझ को मैं (सत्यम् इत्) सत्य ही (अव देदिशम्) कहता हूँ । हे (आपः) आप जनो, प्राप्त प्रजाओ ! सुनो (शविष्ठात्) अति बलशाली से दूसरा कोई (मर्त्यः) मनुष्य (अश्वदातरः न ईम् अस्ति) अश्वसैन्य को अन्न वस्त्र भृति आदि देने वा पालन करने वाला नहीं है । बलिष्ठ राजा ही सत्र से बड़ा अश्वदि सैन्य का पालक होता है । इति त्रयोविंशो वर्गः ॥

[ ७५ ]

विरूप ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः—१, ४, ५, ७, ९, ११ निचृद् गायत्री ।

२, ३, १५ विराड् गायत्री । = आर्ची स्वराड् गायत्री । षोडशर्च सूक्तम् ॥

युक्ष्वा हि देवहूतमाँ अश्वान् अग्ने रथीरिव ।

नि होता पूर्यः सदः ॥ १ ॥

भा०—(रथीः इव अश्वान्) रथी जिस प्रकार रथ में अश्वों को जोड़ता है, उसी प्रकार हे (अग्ने) ज्ञानवन् ! तू (देवहूतमान् युक्ष्वा) शुभ गुणों को उत्तम रीति से धारण करनेवाले विद्वान् पुरुषों को, इन्द्रियों का साधकवत्, राष्ट्र में उचित पद पर नियुक्त कर । और तू (होता) सब को भृति-वेतन आदि देने वाला (पूर्यः) सब में पूर्ण, सब से मुख्य होकर विराज ।

उत नो देवे देवाँ अच्छा वोचो विदुष्टरः ।

श्रद्धिश्वा वार्या कृधि ॥ २ ॥

भा०—हे (देव) ज्ञानदातः! दानशील ! हे तेजस्विन् ! तू (विदुष्टरः) सत्र से उत्तम विद्वान् होकर (देवान् नः) विद्या की कामना करने वाले हम लोगों को (अच्छ वोचः) अभिमुख उपदेश कर । (उत)

और ( विश्वा वार्या श्रत् कृधि ) समस्त वरण करने योग्य उत्तम ज्ञानों को सत्य रूप में प्रकट कर ।

त्वं ह यद्यविष्टय सहस्रः सूनवाहुत । ऋतावा यज्ञियो भुवः ॥३॥

भा०—हे ( यविष्ण्य ) युवतम ! सब में अधिक जवान्, बलवान् पूज्य ! हे ( सहस्रः सूनो ) बल के सञ्चालक, उत्पादक ! हे ( आहुत ) सब से स्वीकृत, सब के द्वारा अपना २ अंश देकर समृद्ध किये हुए ! ( त्वं ह ) तू ही ( ऋत-वा ) सत्य न्याय का पालक और ( यज्ञियः भुवः ) सर्व-पूजार्ह, दान योग्य सत्पात्र हो ।

अयमग्निः सहस्रिणो वाजस्य शतिनस्पतिः ।

मूर्धा कवी रयीणाम् ॥ ४ ॥

भा०—( अयम् अग्निः ) यह ज्ञानवान् और तेजस्वी पुरुष ( सहस्रिणः वाजस्य ) सहस्रों संख्या से युक्त ज्ञान, सैन्य और ऐश्वर्य का और ( शतिनः वाजस्य ) सैकड़ों की संख्या वाले ज्ञान, सैन्य और ऐश्वर्य का ( पतिः ) पालक और ( कविः ) क्रान्तदर्शी ( रयीणाम् मूर्धा ) ऐश्वर्यवानों का भी शिरःस्थानीय, प्रमुख हो । सहस्रों, सैकड़ों संख्या वाला ज्ञान, वेदादि शास्त्र, जिन की ग्रन्थ गणना शत कण्डिका, सहस्र मन्त्र वा श्लोकादि से होती है । सैन्य में भी शतपति, सहस्रपति के अधीन इतने २ सैन्य भट होते हैं । ऐश्वर्यों में ग्रामों की संख्या वा स्वर्णमुद्राओं की संख्या ली जाती है ।

तं नेमिसृभवो यथा नमस्व सहूतिभिः ।

नेदीयो यज्ञमङ्गिरः ॥ ५ ॥ २४ ॥

भा०—हे ( अंगिरः ) विद्वान् ! तेजस्विन् ( ऋभवः यथा नेमिम् ) विद्वान् शिल्पी लोग जिस प्रकार चक्र के समस्त अरों के चारों ओर नेमि या लोहपरिधि को नमाते हैं उसी प्रकार तू ( सहूतिभिः ) समान रूप से आह्वान करने योग्य वा समान वेतनादि देने हारे शासकों से ( तं यज्ञम् )

उस यज्ञ, परस्पर संगत राष्ट्र को, ( नेदीयः नमस्व ) अति समीप २ झुका, अपने वश कर । इति चतुर्विंशो वर्गः ॥

तस्मै नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्यया ।

वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम् ॥ ६ ॥

भा०— हे (विरूप) विशेष रूपवान् ! सुमुख ! हे विशेष रुचि वाले तू (नूनम्) अवश्य ही (तस्मै) उस (अभि-द्यवे) तेजस्वी, (वृष्णे) बलवान् पुरुष के लिये ( नित्यया वाचा ) नित्य निश्चित वाणी द्वारा ( सु-स्तुतिम् चोदस्व ) उत्तम स्तुति को प्रस्तुत कर । परमेश्वर की स्तुति के लिये वेद वाणी का प्रयोग कर । अथवा षष्ठ्यर्थे चतुर्थी । तू उस ज्ञानवान् , सर्व-ज्ञानवर्षक प्रभु की नित्य वाणी वेद से ( सु-स्तुतिं चोदस्व ) उत्तम प्रार्थना वा, उपदेश किया कर ।

कमु ष्विदस्य सेनयाग्नेरपाकचक्षसः । परिणं गोपुं स्तरामहे ॥७॥

भा०—(अस्य) इस ( अपाक-चक्षसः ) अनल्प दृष्टि वाले, परिपक्व बुद्धि वाले ( अग्नेः ) तेजस्वी ज्ञानी नायक पुरुष की ( सेनया ) सेना से हम ( कं स्वित् उ परिणं ) प्राण की शक्ति धर कर बाजी लगाने वाले किस शत्रु को ( गोपु ) भूमियों के विजय के लिये ( स्तरामहे ) विनाश करें ।

मानो देवानां विशः प्रस्नातीरिवोम्नाः ।

कृशं न हासुरघ्न्याः ॥ ८ ॥

भा०—(उत्ताः) सूर्य की किरणों के समान उन्नत पद की ओर जाने वाले लोग ( देवानां ) देव, विद्वान् पुरुषों के बीच ( प्र-स्नातीः ) अच्छी स्नान करती हुई, शुद्ध आचार से रहने वाली ( नः विशः ) हम प्रजाओं को ( प्र-स्नातीः इव ) शुद्ध पवित्र नारियों के समान (मा हासुः) परित्याग न करें । अर्थात् गृहस्थ लोग जिस प्रकार शुद्ध, स्नात, सच्चरित्रो नारियों का त्याग नहीं करते, उसी प्रकार उत्तम जन हम प्रजाओं का त्याग न करें । (अघ्न्याः कृशं न) जिस प्रकार गौर्वें अपने निर्बल बच्चे को नहीं त्याग



करतीं, प्रस्युत जव तक हष्ट पुष्ट न हो जावे उसे दूध पिलाकर पुष्ट किया करती हैं उसी प्रकार तेजस्वी उत्तम जन हम निर्बल प्रजाओं को भी न त्यागें ।

‘उत्साः’—वसन्ति सह, यद्वा उत् ऊर्ध्वं सरन्ति वा उत्साः । उत्सृजन्ति वा दुग्धं पथो वा ।

मा नः समस्य दूढ्यः परिद्वेषसो अंहतिः ।

ऊर्मिर्न नावमा वधीत् ॥ ९ ॥

भा०—( ऊर्मिः नावं न ) जलतरंग जिस प्रकार नौका का आघात करती है उस प्रकार ( समस्य ) समस्त ( दूढ्यः ) दुष्ट बुद्धि वाले ( परिद्वेषसः ) सब प्रकार से द्वेषी पुरुष की ( अंहतिः ) पाप बुद्धि वा आघात पहुंचाने की दुरभिसन्धि ( नः ) हमें ( मा वधीत् ) कभी न पीड़ित करे ।

नमस्ते अग्ने ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः ।

अमैरमित्रमर्दय ॥ १० ॥ २५ ॥

भा०—हे ( देव ) दानशील ! हे तेजस्विन् ! ( अग्ने ) अभिवत् शत्रु-संतापक ! तू ( ते ओजसे ) तेरे पराक्रम के लिये ( कृष्टयः ) सब प्रजा के मनुष्य ( नमः गृणन्ति ) विनय युक्त वचन कहते हैं । तू ( अमैः ) सहायकों, बलों वा सैन्यों और दुःखदायी रोगों वा भटों से ( अमित्रम् अर्दय ) शत्रु को पीड़ित कर । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥

कुवित्सु नो गविष्टयेऽग्ने संवेपिषो रयिम् । उरुकृदुरु र्गस्कृधि ११

भा०—हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! तू ( नः ) हमें ( गविष्टये ) भूमियों को प्राप्त करने के लिये ( कुवित् रयिम् ) बहुत साधन ( सं वेपिषः ) प्राप्त कर । तू ( उरुकृत् ) बहुत धन को उत्पन्न करने वाला है । तू ( नः उरु ( कृधि ) हमारे धन और प्राप्तव्य फल को बहुत कर, उसे बढ़ा ।

मा नो अस्मिन्महाधने परा वर्गारभृद्यथा ।

संवर्गं सं रयिं जय ॥ १२ ॥

भा०—( यथा भारभृत् ) बोझा ढोने वाला जिस प्रकार थक कर अन्त में अपने बोझे को दूर फेंक देता है उसी प्रकार हे नायक कहीं ( महाधने ) इस महासंग्राम में ( नः मा परा वक् ) हमें भार सा जान कर तू मत त्याग देना । अथवा ( यथा भारभृत् ) जिस प्रकार पालन पोषण योग्य स्त्रीपुत्र दासादि का पोषक स्वामी अपने इन पोष्य वर्ग को ( महा-धने ) अति सम्पन्नता में नहीं त्यागता उसी प्रकार तू भी संग्राम या अति ऐश्वर्य दशा में हमें मत त्याग । वल्कि तू ( संवर्ग ) उत्तम सहयोगी गण और ( रथिं ) ऐश्वर्य का गुणों और पराक्रमों से ( जय ) विजय कर ।

अन्यमस्मद्भिया इयमग्ने सिषक्तु दुच्छुना ।

वर्धा नो अमवच्छवः ॥ १३ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! नायक सेनापते ! ( इयम् ) यह ( दुच्छुना ) दुखदायिनी सेना ( अस्मत् अन्यम् ) हमारे से दूसरे शत्रु को ( भिय सिषक्तु ) भयभीत करे । ( नः अभवत् ) तू हमारे बलयुक्त ( शवः ) सैन्य-बल को ( वर्ध ) बढ़ा ।

यस्या जुषन्नमस्विनः शमीमदुर्मखस्य वा । तं घेदग्निर्वृधावति १४ः

भा०—( यस्य ) जिस ( नमस्विनः ) विनय, अन्न और शत्रु को नमाने-वाले वज्र या वीर्य से सम्पन्न ( अदुर्मखस्य ) अदोपयुक्त यज्ञ, वा अदुःख-दायी, अच्छिद्र, निस्त्रुटि कार्यकर्ता के ( शमीम् जुषत् ) कर्म को प्रेमपूर्वक स्वीकार कर लेता है, ( तं घ इत् ) उसकी ही ( अग्निः ) वह उत्तम तेजस्वी नायक ( वृधा अवति ) वृद्धियुक्त सम्पदा से रक्षा करता है ।

परस्या अधि संवतोऽवराँ अभ्या तर । यत्राहमस्मि ताँ अव १५ः

भा०—( परस्याः संवतः अधि ) शत्रु के सेना के उत्तम संगठनयुक्त बल के ऊपर ( अवराँ अभि आतर ) उनसे न्यून या उरे के हम लोगों को

सम्मुख, आगे बढ़ा, उनको विजयी कर । और ( यत्र ) जिनके बीच में, जिनके ऊपर ( अहम् अस्मि ) मैं हूँ ( तान् अव ) उनकी रक्षा कर ।

विद्वा हि ते पुरा वयमग्ने पितुर्यथावसः ।

अर्था ते सुम्नमीमहे ॥ १६ ॥ २६ ॥

भा०—हे (अग्ने) प्रतापशालिन् ! (अवसः पितुः यथा) जिस प्रकार रक्षक पिता के सुख वा उत्तम धन को पुत्र चाहता है उसी प्रकार (पुरा) पूर्ववत् ( अवसः ) रक्षक (पितुः) पालक रूप ( ते ) तेरे ( सुम्नम् ) सुख को ( हि ) हम भी ( विद्म ) जानें और ( अथ ते ईमहे ) तुझ से हम याचना करते हैं । इति षड्विंशो वर्गः ॥

[ ७६ ]

कुरुसुतिः कारव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, २, ५, ६, ८—१२।  
गायत्री । ३, ४, ७ निचृद् गायत्री ॥ द्वादशर्च सूक्तम् ॥

इमं नु मायिनं हुव इन्द्रमीशानमोजसा ।

मरुत्वन्तं न वृञ्जसे ॥ १ ॥

भा०—मैं ( इमं ) इस ( मायिनं ) माया, बुद्धि-कौशलों से युक्त, ( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान्, (ओजसा ईशानम्) बल पराक्रम से सबके स्वामी, ( मरुत्वन्तं न ) प्राणवान् आत्मा के समान, वायुवद् बलशाली पुरुषों के स्वामी पुरुष को ( वृञ्जसे ) शत्रु के नाश के लिये ( हुवे नु ) आह्वान करता, प्रार्थना करता हूँ ।

अयमिन्द्रो मरुत्सखा वि वृत्रस्याभिनच्छिरः ।

वज्रेण शतपर्वणा ॥ २ ॥

भा०—( मरुत्सखा ) वायु को सहायक लेकर ( इन्द्रः ) सूर्य ( वज्रेण शत-पर्वणा ) सैकड़ों किरणों वाले तेज से ( वृत्रस्य शिरः अभिनत् ) मेघ के ऊपरी भाग को छिन्न भिन्न करता है उसी प्रकार ( अयम् इन्द्रः ) यह

शत्रुनाशक वीर सेनापति (मरुत्-सखा) वीर पुरुषों का मित्र होकर, (शत-  
पर्वणा वज्रेण) सैकड़ों टुकड़ियों से बने सैन्य बल से (वृत्रस्य शिरः)  
बढ़ते शत्रु के शिर या मुख्य भाग को (अभिनत्) छिन्न भिन्न करे।

वावृधानो मरुत्सखेन्द्रो वि वृत्रमैरयत् । सृजन्त्समुद्रिया अपः ३

भा०—( मरुत्सखा इन्द्रः ) वायु को सहाय लेकर इन्द्र, विद्युत् वा  
सूर्य, जिस प्रकार ( ववृधानः ) अधिक प्रबल होकर ( समुद्रियाः अपः  
सृजन् ) समुद्र अर्थात् अन्तरिक्षस्थ जलों को उत्पन्न करता हुआ ( वृत्रं )  
मेघ को ( वि ऐरयत् ) विविध दिशाओं में प्रेरित वा छिन्न भिन्न करता  
है उसी प्रकार ( मरुत्सखा ) वीर पुरुषों और प्रजास्थ मनुष्यों का मित्र,  
उनसे सहायवान् होकर राजा अधिक शक्तिशाली होकर (समुद्रिया अपः)  
समुद्र के जलों के समान अपनी सेनाओं को उत्पन्न करता हुआ ( वृत्रम् )  
बढ़ते शत्रु को छिन्न भिन्न करता है।

अयं ह येन वा इदं स्वमरुत्वता जितम् । इन्द्रेण सोमपीतये ॥४॥

भा०—( येन वा इन्द्रेण ) जो शत्रुहन्ता ( मरुत्वता ) मनुष्यों का  
सहाय लेकर ( सोम-पीतये ) ऐश्वर्य के पालन और उपभोग के लिये  
( इदं स्वः जितम् ) आकाश को सूर्य के समान, इस समस्त भूलोक का  
विजय करता है ( अयं ह ) वही निश्चय से स्तुत्य है। ( २ ) सोम  
जीवों के पालनार्थ प्रभु परमेश्वर इस समस्त जगत को वश करता है, वही  
स्तुति योग्य है।

मरुत्वन्तमृजीषिणामोजस्वन्तं विरप्शिनम् ।

इन्द्रं गीर्भिवामहे ॥ ५ ॥

भा०—वायुओं के बलों से सम्पन्न सूर्यवत् प्रतापी, प्रबल मनुष्यों के  
स्वामी ( ऋजीषिणम् ) ऋजु अर्थात् धर्ममार्ग पर औरों को चलाने वाले  
तथा ( ऋजीषिणम् ) शत्रुदल को भून डालने में समर्थ, तीक्ष्ण सैन्यबल  
को सञ्चालित करने वाले ( ओजस्वन्तं ) बल पराक्रमशील ( विरप्शिनम् )

महान् ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् की हम ( गीर्भिः ) वाणियों से ( हवामहे ) प्रार्थना करें ।

इन्द्रं प्रत्नेन मन्मना मरुत्वन्तं हवामहे ।

अस्य सोमस्य पीतये ॥ ६ ॥ २७ ॥

भा०—( अस्य सोमस्य पीतये ) इस महान् ऐश्वर्य वा जगत् के पालन करने के लिये हम ( प्रत्नेन ) अनादिसिद्ध ( मन्मना ) मनन करने योग्य स्तोत्र, वेद ज्ञान से हम ( मरुत्वन्तं ) प्रबल मनुष्यों के स्वामी, समस्त जीवों के पालक प्रभु की ( हवामहे ) प्रार्थना करते हैं ।

मरुत्वाँ इन्द्र मीढ्वः पिवा सोमं शतक्रतो ।

अस्मिन्यज्ञे पुरुष्टुत ॥ ७ ॥

भा०—हे ( शत-क्रतो ) अनेक प्रज्ञावाले हे ( पुरु-स्तुत ) बहुतों के स्तुतिपात्र ! हे ( मीढ्वः ) जगत् पर सुख की वर्षा करने हारे ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! तू ( अस्मिन् यज्ञे ) इस यज्ञ में ( मरुत्वान् ) नाना वीर पुरुषों का स्वामी, सहायक होकर ( सोमं पिव ) इस ऐश्वर्य वा सोम, प्रजा युक्त राष्ट्र का पालन उपभोग कर । ( २ ) प्रभु समस्त जीवों का स्वामी वा वायुओं का स्वामी हो । इस उत्पन्न जगत् में जीवगण का पालन करे । ( ६ ) अध्यात्म में आत्मा प्राण इन्द्रियों का स्वामी होने से मरुत्वान् है । वह शरीर में सोम, वीर्य का पालन और सुख प्राप्त करता है ।

तुभ्येदिन्द्र मरुत्वते सुताः सोमासो अद्रिवः ।

हृदा ह्यन्त उक्थिनः ॥ ८ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! हे ( अद्रिवः ) बलवान् ! ( तुभ्य इत् मरुत्वते ) मनुष्यो, बलवान् पुरुषों के तुझ स्वामी के लिये ही ( उक्थिनः ) उत्तम वेद को धारण करने वाले ( सुताः सोमासः ) ऐश्वर्यादि से पुरस्कृत और उत्तम पदों पर अभिषिक्त ( सोमासः ) ज्ञानवान्

बलवान् पुरुष ( हृदा ) हृदय से ( हूयन्ते ) बुझाये जाते, अपनाये जाते, और नाना ऐश्वर्य दंकर सत्कार किये जाते हैं ।

पिवेदिन्द्र मरुत्सखा सुतं सोमं दिविष्टिषु ।

वज्रं शिशान् ओजसा ॥ ९ ॥

भा०—तू ( मरुत्सखा ) मनुष्यों और वीर पुरुषों का सखा, मित्र होकर ही ( दिविष्टिषु ) सब दिनों हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( ओजसा ) पराक्रम से ( वज्रं शिशानः ) अपने बल वीर्य और शस्त्रबल को तीक्ष्ण करता हुआ ( दिविष्टिषु ) अपनी कामनाओं को प्राप्त करने के निमित्त ( सुतं सोमं ) उत्पन्न जगत् या ऐश्वर्य का ( पिव इत् ) पुत्रवत् पालन और धनवत् उपभोग कर ।

उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वी शिप्रे अवेपयः ।

सोममिन्द्रचमूसुतम् ॥ १० ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! तू ( ओजसा सह ) बल पराक्रम के साथ ( उत्तिष्ठन् ) ऊपर उठता हुआ ( चमू-सुतम् ) सेनाओं द्वारा प्राप्त ( सोमम् ) राष्ट्र के ऐश्वर्य को ( पीत्वी ) पालन करके ( शिप्रे अवेपयः ) जल पान करके तृप्त हुए मनुष्य के समान प्रसन्न होकर मुख नासिका वा ठोड़ियों को कंपा, प्रसन्न हो । अथवा ( शिप्रे अवेपयः ) अपनी बलयुक्त सेनाओं को संचालित कर ।

अनु त्वा रोदसी उभे क्रक्षमाणमकृपेताम् ।

इन्द्र यदस्युहाभवः ॥ ११ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) शत्रुहन् ! ( यत् ) जब तू ( दस्युहा भवः ) दुष्ट पुरुषों का नाश करने हारा होता है तब ( क्रक्षमाणं त्वा अनु ) शत्रु का छेदन करते हुए तेरे साथ २ ( उभे रोदसी ) शास्य और शासक-दोनों वर्ग ( अनु कृपेताम् ) बलवान् हो जाते हैं ।

वाचमृष्टापदीमहं नवस्रक्तिमृतस्पृशाम् ।

इन्द्रात्परि तन्वममे ॥ १२ ॥ २८ ॥

भा०—( अष्टापदी ) आठ पद वाली और ( नवस्रक्तिम् ) नवस्रक्ति अर्थात् स्तुत्य रचना वाली, ( ऋत-स्पृशाम् ) ऋत, सत्य का स्पर्श अर्थात् दर्शन कराने वाली ( तन्वम् ) विस्तृत वा व्यापक वाणी को ( महं ) मैं ( इन्द्रात् ) सत्यदर्शी पुरुष से ( परि ममे ) यथार्थ रूप से जानूं । जो कानून या शासन वाणी राजा के आठ अमात्यों से उत्पन्न होती है वह आठ पद वाली और नवस्रक्ति अर्थात् इन्द्र वा मुख्य शासक के मुख से ही वह प्रचारित होती है । वेद-विद्या के आठ विद्यास्थान आठ पद हैं । अष्टाविंशो वर्गः ॥

[ ७७ ]

\* कुरुसुतिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ४, ७, ८ गायत्री ॥

२, ५, ६, ९ निचृद् गायत्री । १० निचृद् वृहती । ११ निचृत् पंक्तिः ।

एकादशर्च सूक्तम् ॥

जज्ञानो नु शतक्रतुर्वि पृच्छदिति मातरम् ।

क उग्राः के ह शृण्विरे ॥ १ ॥

भा०—( जज्ञानः ) उत्पन्न या प्रकट होता हुआ ( शत-क्रतुः ) अनेक प्रज्ञावान् पुरुष ( मातरं वि पृच्छत् ) माता से बालक के समान विज्ञानवान्, सत्यज्ञानी पुरुष वा मातृ-तुल्य प्रजा से ही ( इति ) इस प्रकार से ( वि पृच्छत् ) विशेष रूप से प्रश्न किया करे कि ( के उग्राः ) राष्ट्र में कौन ऐसे बलवान् पुरुष हैं जिनसे लोग भय खाते हैं, और ( के ह शृण्विरे ) कौन ऐसे बलवान् लोग अभी तक सुने जाते हैं । अर्थात् देश में पहले भी ऐसे कौन २ बलवान् भयकारी, त्रासदायी हो चुके हैं । राजा

\* पुरुषुतिप्रामादिकः ।

का कर्त्तव्य है कि सबसे पहले यह प्रजा के त्रासकारी लोगों का पता लगा कर उनका नाश करे ।

आर्दी शत्रुस्य ब्रवीदौर्णवाभमहीशुवम् ।

ते पुत्र सन्तु निष्टुरः ॥ २ ॥

भा०—( भात् ) अनन्तर ( शवसी ) बलवती प्रजा ( ईम् और्णवाभम् ) उस और्णवाभ, तेजस्वी दण्डधर, राजा और ( अमहीशुवम् ) राष्ट्र की वाग-डोर संभालने वाले उस शासक पुरुष के प्रति ( अत्रवीत् ) कहे कि हे ( पुत्र ) बहुत से प्रजा जनों के त्राण करने वाले राजन् ! ( ते ) वे अमुक २ नाम वाले बहुत से हैं जो ( निःतुरः सन्ति ) विनाश कर देने योग्य हैं वा, उनको ( निःतुरः ) अति तीव्र अश्वों को कोचवान् के समान बन्धन रज्जु और हन्टरों से दण्ड दे, वश करे ।

और्णवाभः—उर्णा वहति इति उर्णवाभः । भवं छान्दसम् । स्वार्थिको ऽण । अथवा-उर्णाया च्छं आहननार्थस्तोदो वा और्णं तद्वहति वा । विशेष-परिच्छदभूपितो दण्डधरो वा ।

अहीशु=अभीशु । हत्वं छान्दसम् । प्रग्रहवान् उच्छृंखलानामिवाश्वानां नियन्ता ।

समित्तान्वृत्रहाखिदत्खे अरौ इव खेदया ।

प्रवृद्धो दस्युहाभवत् ॥ ३ ॥

भा०—तत्र वह ( वृत्रहा ) दुष्टों का नाश करने वाला वीर राजा प्रजा की अभ्यर्थना करने पर ( तान् ) उन दुष्ट पुरुषों को ( खे ) चक्र की नाभि में ( अरान् इव ) अरों के समान, ( खेदया ) रज्जु आदिवत् बन्धनकारिणी मर्यादा या ताड़ना से ( खे ) शून्य कारागारादि में ( अखिदत् ) धर कर पीड़ित करे और उनको दण्डित करके दीन बना दे, उनकी त्रासकारिणी उग्रता को दूर कर दे ।

‘खेदया’—खिद दैन्ये, रुधादिर्दिवादिश्च । खिद परिघातने । त्वादिः ।



खिनन्ति खिद्यति दैन्यभावमापादयति आपद्यते वा स्वयं अनया सा  
खेदा । रज्जुः प्रग्रहः, कशा वा परिघातनसाधनं वा । खेदा कशा ।  
खेदया रश्मिना, ( ऋ० ८ । ७२ । ८ ) रज्ज्वा, ( ८ । ७७ । ३ )  
इति सायणः ।

एकया प्रतिधापिवत्साकं सरांसि त्रिंशत्तम् ।

इन्द्रः सोमस्य काणुका ॥ ४ ॥

भा०—जिस प्रकार ( इन्द्रः ) सूर्य ( एकया ) एक ही ( प्रतिधा )  
प्रति-धान अर्थात् अमावास्या या प्रतिपदा की विपरीत स्थिति से ( सोमस्य )  
चन्द्र की ( काणुका ) कमनीय ( त्रिंशत्तम् सरांसि ) तीसों दिन रातों की  
किरणों को ( साकम् ) एक साथ ही ( अपिबत् ) पान कर लेता है,  
अपने भीतर ही ले लेता है, उसी प्रकार ( काणुका इन्द्रः ) सूर्य के समान  
तेजस्वी पुरुष भी ( एकया प्रतिधा ) एक ही प्रतिधान, अर्थात् विग्रह-  
पूर्वक आक्रमण से ( सोमस्य ) प्रति पक्ष के ऐश्वर्य युक्त राष्ट्र के ( त्रिंश-  
त्तम् ) तीसों ( सरांसि ) धनों को ( साकं अपिबत् ) एक साथ  
ही पान कर जाता है, अथवा ( सोमस्य पूर्णानि सरांसि ) ऐश्वर्य से पूर्ण  
पक्ष के तीसों रात दिन ( साकम् अपिबत् ) एक साथ उपभोग या  
पालन करे और ( एकया प्रतिधा ) एक समान सावधानता से प्रत्येक  
व्यक्ति का पालन पोषण करते हुए तीसों रात दिन एक साथ, लगातार  
पालन करता रहे, किसी दिन असावधान न हो ।

‘काणुका’—काणुका कान्तकानीति वा । कान्तकानि इति वा, कणे-  
घातः इति वा, कणेहतः कान्तिहतः । [ इच्छाकृतकानि इति वा । इन्द्रः  
सोमस्य कान्त इति वा प्रतिघात इति यावत् ] तत्रैतद् याज्ञिका वेदयन्ते  
त्रिंशदुक्थपात्राणि माध्यंदिने सवने एकदैवतानि तान्येतस्मिन् काले  
एकेन प्रतिधानेन पिबन्ति) तान्यत्र सरांस्युच्यन्ते । त्रिंशदपरपक्षस्याहोरा-  
त्रास्त्रिंशत् पूर्वपक्षस्य चेति नैरुक्ताः । तथा एताश्चान्द्रमस्या आगामिन्य

आपो भवन्ति रश्मयःस्ताः अपर पक्षे पिवन्ति यमक्षितिमक्षितयः  
पिवन्ति । तं पूर्वपक्ष आप्यायन्ति तथापि निगमा भवन्ति यथा देवा  
अंशुमाप्यायन्ति इति । निरु० अ० ५ । ११ ॥

काणुका का अर्थ है कान्तियुक्त, दूरगत, वा कृतक, कृत्रिम, अथवा  
काणुका सूर्य का विशेषण है वह सोम ( चन्द्र ) का 'कान्त' प्रिय, या  
कान्तिप्रद है । अथवा कणेघात, कन्नी काटने अर्थ में अर्थात् कान्ति, वा  
इच्छा प्रतिघात अर्थ में 'काणुका' शब्द है । इस सम्बन्ध में याज्ञिकवत-  
लाते हैं कि माध्यन्दिन सवन में तीस उक्थ पत्र एक ही देवता के निमित्त  
होते हैं उनको इस अवसर पर एक ही बार में पीते हैं । वे पात्र 'सरस'  
कहाते हैं । नैरुक्तों का मत है कि कृष्णपक्ष के तीस और शुक्लपक्ष के तीस  
दिन रात्रि होते हैं चन्द्रमा की आने वाली रश्मियों का नाम 'आपः' है ।  
क्योंकि वे दूसरे से प्राप्त होती हैं । उन को कृष्ण पक्ष में सूर्य की किरणों  
स्वयं अपने में पुनः ग्रहण कर लेती हैं मानों पी जाती हैं । इसी प्रकार  
पूर्व शुक्लपक्ष में फिर पूर्ण कर देती हैं जिस प्रकार वेद वाक्य है ( यथा  
देवाः० इत्यादि ) ।

अभि गन्धर्वमत्तृणादबुधेषु रजःस्वा ।

इन्द्रो ब्रह्मभ्य इष्टुधे ॥ ५ ॥ २९ ॥

भा०—( इन्द्रः ) सूर्य वा विद्युत् जिस प्रकार ( अबुधेषु ) रोक  
थाम न करने वाले, बन्धनरहित ( रजःसु ) अन्तरिक्ष के प्रदेशों में स्थित  
( गन्धर्वम् अभि अतृणत् ) जल को धारण करने वाले जलधर मेघ को  
आघात करता है तो वह ( ब्रह्मभ्यः ) अन्नों की ( वृधे इत् ) वृद्धि के  
लिये ही होता है उसी प्रकार ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्, शत्रुहानन में समर्थ  
राजा ( अबुधेषु रजःसु ) अप्रबद्ध, अनाश्रित, लोकों वा प्रजा-  
जनो में विद्यमान ( गन्धर्वम् ) भूमि को अपने वश कर लेने वाले प्रबल  
शत्रु को ( अभि अतृणत् ) आक्रमण कर के नाश करे तो वह ( ब्रह्मभ्यः

वृधे इत् ) धनों, अन्नों और विद्वान् पुरुषों की ही वृद्धि के लिये होता है ।  
इत्येकोनत्रिंशो वर्गः ॥

निराविध्यत् गिरिभ्य आ धारयत्पक्वमोदनम् ।

इन्द्रो बुन्दं स्वाततम् ॥ ६ ॥

भा०—( इन्द्रः ) सूर्य वा विद्युत् जिस प्रकार ( गिरिभ्यः ) मेघों से ( निर् अविध्यत् ) जल गिराने को उन्हें खूब ताड़ित करता है, और ( ओदनं ) अन्न, धान्य को ( पक्वम् ) परिपक्व रूप में ( आ धारयत् ) परिपुष्ट करता है और अपने ( सु-आततम् ) खूब विस्तृत ( बुन्दं ) चमकते प्रकाश को भी फेंकता है उसी प्रकार ( इन्द्रः ) शत्रुहन्ता राजा, ( गिरिभ्यः ) मेघवत् अन्यो का माल निगल जाने वाले दुष्ट पुरुषों को सुधारने और उन से सत्य निकलवाने या हड़पा हुआ माल निकलवाने के लिये ( निर् अविध्यत् ) उन को खूब ताड़ना दे और उनसे ( पक्वम् ) पक्व ( ओदनम् ) वचन, शपथ, ( oath ) ( आ धारयत् ) धारा या पक्की जुबान के रूप में कानूनवत् करा लेवे कि फिर वे ऐसा न करेंगे । और वह ( सु आततम् ) खूब विस्तृत ( बुन्दं ) भयकारी, उन को भेदने फोड़ने वाला, अपना सैन्य बल भी ( आ धारयत् ) सर्वत्र स्थापित करले ।

‘बुन्दं’—बुन्दो वा भिन्दो वा भयदो वा भासमानो द्रवतीति वा  
निरु० ६ । ३४ ॥

शतब्रध्न इपुस्तव सहस्रपर्ण एक इत् यमिन्द्र चकृषे युजम् ॥७॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! हे शत्रुहन् ! तू ( यम् युजं चकृषे ) जिसको अपना सहायक बनाता है वह ( तव इपुः ) तेरा बाण वा शस्त्र-बल वा आज्ञा ( शतब्रध्नः ) सैकड़ों आश्रयों और बन्धन मर्यादाओं वाला और ( सहस्रपर्णः ) सहस्रों बलशाली, पत्नों, रथों वा पालक-जनों से सम्पन्न और ( एकः इत् ) एक अद्वितीय, सब से अधिक उत्तम हो । ( २ ) इसी प्रकार उस प्रभु परमेश्वर की ‘इपु’ महान् इच्छा, वा संकल्प सैकड़ों

‘वक्ष’ अर्थात् आदित्यों और आकाशों तक फैला हुआ और सहस्रों पर्ण अर्थात् पालन शक्तियों, किरणों से युक्त सूर्यवत् सत्यमय तेज से युक्त है और एक अद्वितीय, सर्वोपरि शासन है, जिससे अनेकों ब्रह्माण्ड चल रहे हैं।

तेन स्तोतृभ्य आ भर नृभ्यो नारिभ्यो अत्तवे ।

सद्यो ज्ञात ऋभुष्टिर ॥ ८ ॥

भा०—हे ( ऋभु-स्थिर ) सत्य न्याय से प्रकाशित विद्वानों द्वारा स्थिर राजन् ! तू ( सद्यः जातः ) अति शीघ्र राजा रूप से प्रसिद्ध होकर ( तेन ) उस पूर्वोक्त शासनबल से ( स्तोतृभ्यः नृभ्यः नारिभ्यः ) स्तुति करने वाले विद्वान् नरों और नारियों के लिये ( अत्तवे ) भोजनार्थ ( आ भर ) उत्तम अन्न प्रदान कर । तेरे उत्तम शासन में सब नर नारी सुख से भोजन करें । ( २ ) प्रभु समस्त सूर्यादि लोकों में व्यापक होने से ‘ऋभु-स्थिर’ है ।

एता च्योत्नानि ते कृता वर्षिष्ठानि परीणसा ।

हृदा व्रीड्वधारयः ॥ ९ ॥

भा०—( एता ) ये ( च्योत्नानि ) सब बलशाली और ( वर्षिष्ठानि ) सुख जलादि वर्षाने वाले, बलवान् सैन्य ( ते कृता ) तेरे ही बनाये हैं । और तू उन को ( व्रीडु परीणसा ) महान् स्थिरतापूर्वक ( हृदा अधारयः ) सद्-हृदय से धारण कर । इसी प्रकार ये सब गतिशील, वर्षाकारक सूर्य पवन आदि प्रभु ने बनाये हैं, उन को वह ( हृदा ) मन के संकल्प मात्र से धारण करता और चलाता है ।

विश्वत्ता त्रिष्णुराभरदुरुक्रमस्त्वेपितः ।

शतं महिपान्क्षीरपाकमोदनं वराहामिन्द्र एमुषम् ॥ १० ॥

भा०—जिस प्रकार सूर्य के ताप या प्रकाश से प्रेरित वायु महान् आकाश में विचरता समस्त मेघादि को ले आता है उसी प्रकार हे ऐश्वर्य-चन् ! शत्रुहन् ! ( त्वा इपितः ) तेरे से प्रेरित होकर ( उरुक्रमः ) बड़ा

पराक्रमी, (विष्णुः) व्यापक सामर्थ्यवान् पुरुष (ता विश्वा इत्) उन २ समस्त पदार्थों को (आ अभरत्) प्राप्त कराता है। वह (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् हीमानो (शतं महिपान्) सैकड़ों बलवान् पुरुषों को (क्षीरपाकम् ओदनम्) दूधमें पके भात के समान सात्विक भाव से प्राप्त ऐश्वर्य और (एमुपं) सब तरफ से ज्ञान संग्रह करने वाले (वराहम्) उत्तम वचन के वक्ता वा यज्ञ को भी प्राप्त करे। सूर्य भी अपरिमित बड़े २ मेव, (क्षीरपाकं) पानी से सेचित होकर पकने वाले अन्नादि धान्य और जल को लाने वाली वायु को धारण करता है।

तुविक्षं ते सुकृतं सुमयं धनुः साधुर्वृन्दो हिरण्ययः ।

उभा ते वाहू रण्या सुसंस्कृत ऋदुपे चिद्वृध्वा ॥ ११ ॥ ३० ॥

भा०—हे राजन् ! (ते) तेरा (धनुः) धनुष, शस्त्रबल, (सुमयं) उत्तम सुखकारक, (सुकृतं) उत्तम कर्म करने वाला, (तुविक्षं) दूर तक वाणों के फेंकने वाला, बहुत से शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाला हो। (ते वृन्दः) तेरा तेज और शत्रु को भयप्रद वाण, (साधुः) उत्तम, लक्ष्य पर लगने हारा, (हिरण्ययः) सुवर्णमय और हित, रम्य हो। (ते वाहू) तेरी बाहुएं, शत्रुबाधक सेनाएं दोनों (रण्या) रमणीय, सुन्दर एवं रणकुशल (सुसंस्कृते) उत्तम संस्कार से युक्त, अलंकृत और उत्तम अभ्यस्त, (ऋदुपे) वेग से शत्रु को गिराने वाले और (ऋदुवृध्वा चित्) पीढक जनों को वेवने, उन को काटने छांटने वाली हो। इति त्रिंशो वर्गः ॥

[ ७८ ]

कुरुस्तिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ३ निचृद् गायत्री ।

३, ६—६ विराड् गायत्री । ४, ५ गायत्री । १० बृहती ॥ दशर्चं सूक्तम् ॥

पुरोळाशी नो अन्धसु इन्द्रं सहस्रमा भर ।

शता च शूर गोनाम् ॥ १ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( नः ) हमें ( अन्ध्रसः ) अन्न और प्राग धारण कराने वाले पदार्थ का वना ( सहस्रम् ) हज़ारों की संख्या में, अपरिमित वा बलकारक, ( पुरोडाशं ) आदरपूर्वक देने योग्य उत्तम खाद्य पदार्थ ( आ भर ) प्राप्त करा और स्वयं भी उस को धारण कर । इसी प्रकार हे ( शूर ) शत्रुनाशक, शूरवीर ! ( गोनां शता च ) भूमियों, गौवों और वाणियों के सैकड़ों, अपरिमित हमें प्रदान कर, तू भी उनका पालन पोषण कर ।

आ नो भर व्यञ्जनं गामश्वमभ्यञ्जनम् ।

सचा मना हिरण्यया ॥ २ ॥

भा०—तू ( नः ) हमें ( गाम् अश्वं ) गौ, अश्व और ( अभ्यञ्जनम् ) शत्रु पर जाने के साधन-सवारी रथ, हाथी, आदि और विशेष रूप से जाने के साधन उत्तम रथ विमान आदि वा ( व्यञ्जनं ) विशेष चमकने वाले प्रकाश के उपाय, ज्ञान, आदि और नाना खाद्य पदार्थ, उत्तम गुण ( नः ) हमें ( आ भर ) प्राप्त करा । और ( सचा ) साथ ही ( मना ) मनन करने योग्य ( हिरण्यया ) हित और मनोहर वचन भी श्रवण करा ।

व्यञ्जनं अभ्यञ्जनं—अञ्जू व्यक्तिन्नक्षणकान्तिगतिषु । रुधादिः ।

उत नः कर्णशोभना पुरूणि धृष्णावा भर ।

त्वं हि शृण्विष वसो ॥ ३ ॥

भा०—( उत ) और हे ( धृष्णो ) शत्रुपराजयकारिन् । तू ( नः ) हमें ( पुरूणि ) बहुत से ( कर्ण-शोभना ) कानों को सजाने के साधन, उत्तम वचन और कर्णकुण्डल आदि अलंकरण ( नः आ भर ) हमें प्राप्त करा और हमारे दिये तू धारण कर । हे ( वसो ) उत्तम विद्वन् ! ब्रह्मचारिन् वसाने हारे ! ( त्वं हि शृण्विषे ) तू ही हमारे वचन सुन और अपने हमें सुना ।

नकीं वृधीक इन्द्र ते न सुषा न सुदा उत ।

नान्यस्त्वच्छूर वाघतः ॥ ४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! हे सत्यतत्त्वदर्शिन ! राजन् ! विद्वन् ! ( ते अन्यः ) तुझ से दूसरा ( न कीं वृधीकः ) कोई और न बढ़ाने हारा, ( न ते सुषाः ) न तुझ से दूसरा कोई उत्तम न्यायपूर्वक विभागकारी, ( उत ) और ( न सुदाः ) न उत्तम दाता है ( उत ) और हे ( शूर ) वीर ! हे अज्ञान, दुर्गुणादि के नाशक ! ( त्वत् अन्यः वाघतः न ) तुझ से दूसरा कोई और विद्वान् ज्ञानधारक वाग्मी भी नहीं है ।

नकीमिन्द्रो निकर्त्तवे न शुकः परिशक्तवे ।

विश्वं शृणोति पश्यति ॥ ५ ॥ ३१ ॥

भा०—( इन्द्रः ) यह ऐश्वर्यवान् वा यथार्थदर्शी प्रभु, स्वामी ( न-कीम् निकर्त्तवे ) कभी भी अनादर और हिंसा करने योग्य नहीं । ( शुकः ) यह शक्तिमान् ( न परि-शक्तवे ) बल द्वारा पराजय करने के भी योग्य नहीं । वह ( विश्वं शृणोति ) सब कुछ सुनता, ( विश्वं पश्यति ) सब कुछ देखता है । साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥सोऽस्याध्यक्षः परमेव्योमन् । उप० ॥ इत्येकत्रिंशो वर्गः ॥

स मन्युं मर्त्यानामदब्धो नि चिकीषते ।

पुरा निदश्चिकीषते ॥ ६ ॥

भा०—( सः अदब्धः ) वह अविनाशी, किसी से न मारा जाने वाला, अदण्डनीय ( मर्त्यानां ) मनुष्यों के ( मन्युं ) क्रोध को ( नि चिकीषते ) तुच्छ करके जानता है और ( निदः ) निन्दकों को ( पुरा ) पहले ही ( नि चिकीषते ) नीचा दिखा देता है ।

क्रत्व इत्पूर्णमुदरं तुरस्यास्ति विधतः ।

वृत्रघ्नः सोमपावनः ॥ ७ ॥

भा०—उस ( तुरस्य ) शीघ्रकारी, शत्रुहिंसक ( विधतः ) प्रजाओं को विविध प्रकार से पालन पोषण करने वाले, जगत् के कर्ता, ( वृत्रघ्नः ) । वेघ्नों, दुष्टों और मेघों को नाश करने वाले और ( सोम-पाव्णः ) जगत्, ऐश्वर्य, पुत्र शिष्यादि के पालक का ( उदरम् ) पेट, हृदय ( क्रत्वः इत् ) । ज्ञान और कर्म से ही ( पूर्णम् ) पूर्ण रहता है ।

त्वे वसूनि सङ्गता विश्वा च सोम सौभगा ।

सुदात्वपरिह्वृता ॥ ८ ॥

भा०—हे ( सोम ) सर्वप्रेरक ! सर्व-उत्पादक प्रभो ! ( त्वे ) तुझ में और तेरे अधीन ही ( विश्वा वसूनि विश्वा च सौभगा ) समस्त ऐश्वर्य और समस्त सुखदायक कल्याणकारी धन, ( सं-गता ) एकत्र हैं । तू उनको ( अपरि-ह्वृता ) अकुटिल, सुप्राप्य ( सु-दातु ) सुखदायक बना कर प्रदान कर ।

त्वामिद्यव्युर्मम कामो गव्युर्हिरण्ययुः । त्वामश्वयुरेषते ॥ ९ ॥

भा०—हे प्रभो ! ( मम कामः ) मेरा अभिलाष ( यवयुः ) अन्नादि का इच्छुक ( गव्युः ) भूमि, वाणी, इन्द्रिय, ज्ञान रश्मि गवादि पशु आदि का इच्छुक और ( हिरण्ययुः ) हित, मनोहर वचन और सुवर्णादि धन का इच्छुक होकर ( त्वाम् इत् एषते ) तुझ ही चाहने लगता है । और मेरा अभिलाष ( अश्वयुः ) अश्वों को चाहता हुआ भी ( त्वाम् इत् एषते ) तुझे ही प्राप्त करता है ।

तवेद्रिन्द्राहमाशसा हस्ते दात्रं चना ददे ।

दिनस्य वा मघवन्त्सम्भृतस्य वा पुर्धि यवस्य काशिना १०।।३२:

भा०—हे ( इन्द्र ) अन्नों के देने हारे ! हे अन्नों के काटने हारे, हे अन्नों के धारण करने हारे ! ( तव इत् आशसा ) तेरी ही आज्ञा, आशा और कामना से मैं ( हस्ते ) हाथ में ( दात्रं चना ददे ) अन्न धान आदि खेती काटने का साधन वा दान करने योग्य धन ग्रहण करता हूँ । हे ( मघवन् ) पूज्य धन के स्वामिन् ! तू ( दिनस्य ) काटे हुए ( वा ) अथवा ( सम्भृतस्य )



एकत्र किये ( यवस्य ) जौ अन्न की ( काशिना ) मुठ्ठी से ( पूर्धि ) पूर्ण कर । अथवा—हे ( इन्द्र ) सूर्य विद्युत् मेघादि ! जलदायक शक्ते ! तेरी आशा से हाथ में यह ( दात्रं ) दरांति आदि कृपि के साधन लेता हूँ तू काटे वा एकत्र किये अन्न को अपने प्रकाश, दीप्ति से पूर्ण पालन, पुष्ट कर । (२) ईश्वरपक्ष में हे प्रभो तेरा दिया तेरी आज्ञा वा उपदेश से लेता हूँ । तू ( काशिना ) अपने ज्ञान के प्रकाश से, दिन वा प्रजा को सूर्य के समान, सुप्त दीन हतोत्साह वा पोष्य सेवक को भी अपने ज्ञान प्रकाश से पूर्ण, पालन कर । इति द्वात्रिंशो वर्गः ॥

## [ ७६ ]

ऋत्तुर्भागव ऋपिः ॥ सोमो देवता ॥ इन्द्रः—१, २, ६ निचृद् गायत्री । ३ विराड् गायत्री । ४, ५, ७, ८ गायत्री । ६ निचृदनुष्टुप् ॥ नवर्च सूक्तम् ॥

अयं कृत्तुरगृभीतो विश्वजिदुद्धिदित्सोमः ।

ऋपिर्विप्रः काव्येन ॥ १ ॥

भा०—(अयं) यह (कृत्तुः) जगत् का कर्ता, (अगृभीतः) किसी इन्द्रिय से कभी न ग्रहण करने योग्य, चक्षुरादि साधनों से अग्राह्य, अविज्ञेय, (विश्वजित्) समस्त 'विश्व' जगत् और प्राणि-संसार को अधीन रखने वाला, (उद्धित्) समस्त स्थावरों को पृथ्वी फोड़कर उत्पन्न करने वाला, (सोमः इत्) सब का उत्पादक होने से 'सोम' है । वही (विप्रः) सब ज्ञानों, कर्मों का दाता, विद्वान्, मेधावी (काव्येन) वेद-ज्ञान से (ऋपिः) सब सत्य ज्ञानों को देखने हारा है । (२) इसी प्रकार राजा विद्वान् भी कर्मों का कर्ता, सब का विजेता, उत्तम कर्म फल का उत्पादक 'उद्धित्' शत्रुओं को उखाड़ने वाला, (सोमः) सब का सञ्चालक, सब ऐश्वर्यों का अधिपति, विद्वान् वेदद्वारा सत्य न्याय का द्रष्टा हो । शरीर में वीर्य

वा प्राण सोम है, वह कर्म का कर्ता, इन्द्रियजित् ( उद्धित् ) ऊर्ध्व मार्ग।  
ब्रह्मरन्ध्र को भी भेदन करने में समर्थ है ।

अभ्यूषोति यन्नग्नं भिपक्तिं विश्वं यन्तुरम् ।

प्रेमन्धः ख्यन्निः श्रोणो भूत् ॥ २ ॥

भा०—( यत् ) जो वह पूर्वोक्त सोम, ऐश्वर्यवान् ( नग्नं अभि-  
ऊषोति ) नग्न, वस्त्ररहित को वस्त्रादि से आच्छादित करता है । ( यत् ) जो  
( तुरं विश्वम् ) सब रोगी जन को ओषधि रसवत् ( भिपक्ति ) रोग से  
रहित करता है वह ( अन्धः ईम् प्रख्यत् ) सब के प्राण-जीवन का  
पोषण कारक होकर इस विश्व को अच्छी प्रकार देखता और उपदेश करता  
है, । श्रोणः ( निः भूत् ) सर्वश्रोता होकर सर्वत्र समर्थ रहता है । अथवा  
( अन्धः प्र ख्यत्, श्रोणः निर्भूत् ) अन्ध अर्थात् अचक्षु रह कर भी देखता,  
और पद आदि से पंगु होकर भी सर्वत्र जाता है । यह योजना ईश्वर पक्ष  
में ठीक है 'अपाणिपादो जवनो गृहीतः पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ॥  
उपनिषत् ॥

अथवा वह नंगे को वस्त्र पहनाता, रोगी को चंगा करता है, इसी कारण  
( अन्धः प्रख्यत् ) यह इष्टि-चेतनादि से रहित देह भी देखने में समर्थ होता  
है और यह प्राकृतिक जड़ जगत् वा देह ( श्रोणः ) पंगु अर्थात् शक्ति  
रहित होकर भी सर्वत्र जाने में समर्थ होता है । यह ईश्वर सोम या-  
चेतन जीव की महिमा है ।

त्वं सोम तनूकृद्भ्यो द्वेषोभ्योऽन्यकृतेभ्यः ।

उरु यन्तासि वरूथम् ॥ ३ ॥

भा०—हे ( सोम ) सर्वप्रेरक ! सन्मार्ग में संबालक ! ऐश्वर्यवान् !  
( तू ( तनूकृद्भ्यः ) राष्ट्र को क्षीण करने वाले और ( अन्यकृतेभ्यः  
द्वेषोभ्यः ) अन्य, शत्रुओं से किये, उन से प्रेरित द्वेषों से भी ( वरूथं )  
बचाने वाले महान् बल का ( उरु यन्तासि ) विशाल गृहवत् नियन्ता है ।

त्वं चित्ती तव दक्षैर्दिव आ पृथिव्या ऋजीपिन् ।

यावीरघस्य चिद्द्वेषः ॥ ४ ॥

भा०—हे ( ऋजीपिन् ) प्रजा जनो को सन्मार्ग में चलाने हारे ! हे शत्रुओं को भूजने, संतप्त करने वाले सैन्य के सञ्चालक ! ( त्वं ) तू ( तव ) तेरे अपने ( चित्ती ) ज्ञान, बुद्धि और ( दक्षैः ) बलों से, ( दिवः पृथिव्याः आ ) आकाश और पृथिवी से आने वाले ( अघस्य चित् द्वेषः यावीः ) शत्रु के सब द्वेष भावों को दूर कर ।

अर्थिनो यन्ति चेदर्थं गच्छानिद्दुपो रातिम् ।

ववृज्युस्तृप्यतः कामम् ॥ ५ ॥ ३३ ॥

भा०—( चेद् ) यदि ( अर्थिनः ) धन के इच्छुक वा धन के स्वामी लोग ( अर्थयन्ति ) धन को प्राप्त करते हैं तो उन को चाहिये कि वे ( ददुपः राति गच्छान् ) दानशील पुरुष के दानशीलता को भी प्राप्त हों, वे दान भी किया करें । अथवा यदि वे धन पाते हैं तो भी वे किसी दानी के दान को ही प्राप्त करते हैं, इसलिये भी उन को चाहिये कि वे भी ( तृप्यतः कामम् ववृज्युः ) किसी पियासे अर्थार्थी की अभिलाषा को पूर्ण किया करें । उस की प्यास को बुझाया करें । इसी प्रकार विद्यार्थी यदि विद्या प्राप्त करते हैं किसी विद्यादाता का दिया ज्ञान ही प्राप्त करते हैं, उन को चाहिये वे भी अन्य की ज्ञान विपासा का शमन करें । इति त्रयस्त्रिंशो वर्गः ॥

विदद्यत्पूर्व्यं नष्टमुदीमृतायुमीरयत् । प्रेमायुस्तारीदतीर्णम् ॥६॥

भा०—( यत् ) जो ( पूर्व्यम् नष्टम् ) पहले के तृप्त या नष्ट हुए को ( विदत् ) पाता या जान लेता है, उसे चाहिये कि वह ( ईम् ) उस ज्ञान को ( ऋतायुम् ) सत्य ज्ञान के अभिलाषी पुरुष के प्रति ( ईरयत् ) उपदेश करे । वह मानो, ( ईम् ) उसको ( अतीर्णम् ) अप्रदत्त ( आयुः ) नया जीवन ( प्रतारीत् ) प्रदान करता है । विद्या दान करना भी नवजीवन देने के समान है ।

सुशेवो नो मृडयाकुरदत्तक्रतुरवातः । भवा नः सोम शं हृदे ॥७॥

भा०—हे ( सोम ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( नः ) हमें ( सु-शेवः ) उत्तम सुखदाता, ( मृडयाकुः ) दयाशील, ( अदत्त-क्रतुः ) ज्ञान और कर्म पर भी गर्व न करने वाला और ( अवातः ) प्रचण्ड वायु के समान धक्के न लगाने वाला, होकर ( नः हृदे शं भव ) हमारे हृदय के लिये शान्तिदायक हो ।

मा नः सोम सं वीविजो मा वि वीभिपथा राजन् ।

मा नो हार्दि त्विषा वधीः ॥ ८ ॥

भा०—हे ( राजन् ) तेजस्विन् शासन करने हारे राजन् ! हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! शासक ! तू ( नः मा सं वीविजः ) हमें मत उद्विग्न कर, न परस्पर एक दूसरे से भय करा । (मा वि वीभिपथाः) विविध प्रकार से भी भयभीत मत कर, और ( त्विषा ) कान्तियुक्त तीक्ष्ण शस्त्र वा तीक्ष्णता से डी (नः हार्दि मा वधीः ) हमारे हृदयों पर आघात मुत्त कर ।

अय यत्स्वे सधस्थे देवानां दुर्मतीरक्षे ।

राजन्नप द्विषः सेध मीद्वो अप स्त्रिधः सेध ॥ ९॥ ३४ ॥

भा०—( यत् ) जब तू ( त्वे ) अपने और ( देवानां ) मनुष्यों के ( सध-स्थे ) एकत्र मिलकर बैठने के लिये विचार स्थल में ( दुर्मताः ) दुष्ट चित्त वालों के दुर्व्यवहारों की ( अव ईक्षे ) न्यायपूर्वक विवेक दृष्टि से विवेचना करे तब हे ( राजन् ) राजन् ! तू ( द्विषः अप सेध ) द्वेष के भावों और द्वेषी जनों को दूर कर और (स्त्रिधः अप सेध) हिंसा के भावों और हिंसकों को भी दूर कर । इति चतुस्त्रिंशो वर्गः ॥

[ ८० ]

एकधूनीधस ऋषिः ॥ १—६ इन्द्रः । १० देवा देवता ॥ छन्दः—१ विराड् गायत्री । २, ३, ५, ८ निचृद् गायत्री । ४, ६, ७, ९, १० गायत्री ॥

दशर्च सूक्तम् ॥

नृह्यान्यं वृळाकरं मडितारं शतक्रतो । त्वं न इन्द्र मृळय ॥१॥

भा०—हे ( शत-क्रतो ) अपरमित ज्ञानवन् ! (अन्यं) तुझ से दूसरे को मैं ( मडितारं नहि आकरम् ) सुखदाता करके नहीं जानता ( वडा ) यह मैं सत्यपूर्वक कहता हूँ । ( अतः त्वं ) तू ( नः इन्द्र मृळय ) हमें हे ऐश्वर्यवन् ! सुखी कर ।

यो नः शश्वत्पुराविथमृधो वाजसातये ।

स त्वं न इन्द्र मृळय ॥ ३ ॥

भा०—( यः ) जो ( नः ) हमें ( शश्वत् ) निरन्तर, सदा ( पुरा ) पूर्व भी, ( अमृधः ) स्वयं अन्यो की हिंसा न करने वाला और स्वयं अहिंसित होकर ( वाज-सातये ) ऐश्वर्य विभाग करने के लिये ( नः आविथ ) हमें प्राप्त होता है, ( सः ) वह ( त्वं ) तू हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ( नः मृळय ) हमें सुखी कर ।

किमुङ्ग रध्रचोदनः सुन्वानस्य अविता असि ।

कुवित्स्विन्द्र णः शकः ॥ ३ ॥

भा०—( अङ्ग ) हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( रध्रचोदनः ) अपने आराधक को सन्मार्ग पर चलाने हारा ही ( किम् ) क्यों बल्कि ( सुन्वानस्य ) उपासक का ( अविता इत् असि ) रक्षक ही है तू ( नः कुवित् शकः ) हमारा बहुत कुछ कल्याण करने में समर्थ है ।

इन्द्र प्र णो रथमव पश्चाच्चिन्सन्तमद्रिवः । पुरस्तादेनं मे कृधि ४

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् तू ( नः ) हमारे ( रथम् प्र अव ) रमणकारक सुखप्रद रथवत् देह की अच्छी प्रकार रक्षा कर । ( पश्चात् चित् सन्तम् मे एनं ) पिछड़े हुए भी इस मेरे रथ को ( पुरस्तात् कृधि ) आगे कर । सफलता के मार्ग पर यदि मैं पिछड़ तो तू मुझे आगे बढ़ा ।

हन्तो नु किमाससे प्रथमं नो रथं कृधि ।

उपमं वाजयु श्रवः ॥ ५ ॥ ३५ ॥

भा०—( हन्तो नु ) भला भव ( किम् आससे ) क्यों विलम्ब करता है ? ( नः रथं ) हमारे रथ को ( प्रथमं कृधि ) सबसे मुख्य कर । और तेरा ( वाजयु श्रवः ) ज्ञानयुक्त श्रवणयोग्य उपदेश ( नः उपमं ) हमारे सदा समीप रहे । अथवा हमारे बलैश्वर्य की कामना से युक्त ( श्रवः ) श्रव्य प्रार्थना वचन तेरे समीप है । इति पञ्चत्रिंशो वर्गः ॥

अवा नो वाजयुं रथं सुकरं ते किमित्परि ।

अस्मान्तसु जिग्युषस्कृधि ॥ ६ ॥

भा०—हे राजन् ! प्रभो ! स्वामिन् ! तू ( नः ) हमारे ( वाजयुं ) बल, वेग, वीर्य, ऐश्वर्य से युक्त ( रथं ) रथवत् देह की ( अव ) रक्षा कर । ( इत् परि ते सुकरं किम् ) इससे अधिक और तेरे लिये क्या उत्तम और सुखपूर्वक करने का कार्य है ? तू ( अस्मान् ) हमें ( जिग्युषः सु कृधि ) विजयी भली प्रकार कर ।

इन्द्र दृह्यस्व पूरसि भद्रा त एति निष्कृतम् ।

इयं धीर्ऋत्विद्यावती ॥ ७ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( दृह्यस्व ) दृढ़ हो, और तू ( भद्रा पूः असि ) सुखदायी, पुर, प्रकोट या दुर्ग के समान पालक, रक्षक है । ( ते ) तेरा ( इयं ) यह ( ऋत्विद्यावती ) काल पर फल देने वाला ( धीः ) कर्म भी ( निष्कृतं एति ) सफलता को प्राप्त होता है ।

मा सीमवद्य आ भागुर्वी काष्ठा हितं धनम् ।

अपावृक्ता अरत्नयः ॥ ८ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् राजन् ! ( सीम् ) सब ओर से भी ( अवद्ये ) निन्दा योग्य बुरे कार्य में तू हमें ( मा भाग् ) मत डाल । ( ऊर्वी काष्ठा ) सीमा बहुत दूर है, वहां ( धनं हितम् ) धन अर्थात् प्राप्तव्य पदार्थ रक्त्वा है । ( अरत्नयः ) दुःखदायी शत्रु ( अपावृक्ताः ) दूर हों ।

तुरीयं नाम यज्ञियं यदा करस्तदुश्मसि ।

आदित्पतिर्न ओहसे ॥ ९ ॥

भा०—( यदा ) जब तू ( तुरीयं ) चतुर्थ, सर्वश्रेष्ठ, ( यज्ञियं ) सर्वोपास्य ( नाम ) स्वरूप को ( करः ) प्रकट करता है तब हम ( तत् उष्मसि ) उसी परम स्वरूप की कामना करते हैं । ( आत् इत् ) अनन्तर ही तू ( नः मतिः ) हमारा पालक होकर हमें ( ओहसे ) अपने में ले लेता है । जाग्रत्-आदि दशा से परे आत्मा का तुरीय स्वरूप है, वह अमात्र है । उसी के दर्शन से परम कल्याण है ।

अवीवृधदो अमृता अमन्दीदेक्यूदेवा उत याश्च देवीः ।

तस्मा उ राधः कृणुत प्रशस्तं प्रातर्मक्षु धियावसुर्जगम्यात् १०।३६।८

भा०—हे ( अमृताः देवाः ) अमृतस्वरूप, दीर्घायु विद्वान्गण, ( उत ) और ( याः च देवीः ) जो आप लोग विदुषी नारियां हो । आप सबको ( एक-यूः ) एकमात्र, अद्वितीय प्रकाशक प्रभु ही ( अमन्दीत् ) आनन्दित करता है और वही ( वः अवीवृधत् ) आप लोगों की वृद्धि करता है । ( तस्मा उ प्रशस्तं राधः कृणुत ) उस की ही सर्वोत्तम आराधना किया करो और ( प्रातः ) प्रभात में ( मक्षु ) शीघ्र ही, सबसे प्रथम ( धियावसुः ) ज्ञान और कर्म का धनी वही प्रभु ( जगम्यात् ) तुम्हें प्राप्त हो, उसी की प्रथम उपासना करो । इति षट्त्रिंशो वर्गः ॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥

[ ८१ ]

कुसीदी काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ५, ८ गायत्री । २, ३, ६, ७ निचृद गायत्री । ४, ६ त्रिराड् गायत्री ॥ नवर्चं सूक्तम् ॥

आ तू न इन्द्र जुमन्तं चित्रं श्राभं सङ्गृभाय ।

महाहस्ती दक्षिणेन ॥ १ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( महा-हस्ती ) बड़े हाथ वाला

है । तू ( दक्षिणेन ) दायें हाथ से ( नः ) हमें ( क्षुमन्तं ) कीर्तिजनक, अन्नादि से सम्पन्न ( चित्रग्राभं ) नाना प्रकार का ग्रहण करने योग्य धन ( सं गृभाय ) संग्रह कर ।

विद्वाहि त्वां तु विकुर्मि तु विदेष्णं तु वीमघम् ।

तु विमात्रमवोभिः ॥ २ ॥

भा०—हम ( त्वा ) तुझे ( अवोभिः ) रक्षा, प्रीति आदि उत्तम गुणों करके ( तु वि-कूर्मि ) बहुत कर्म करने में समर्थ ( तु वि-देष्णं ) बहुत से धन देने वाला और ( तु वि-मात्रम् ) बहुत धन राशि का स्वामी भी ( विद्वाहि ) जानते हैं ।

न हि त्वां शूर देवा न मर्तासो दित्सन्तम् ।

भीमं न गां वारयन्ते ॥ ३ ॥

भा०—हे ( शूर ) शूरवीर ! सब दुष्टों के दलन करने हारे ! ( गां न भीमं ) बड़े बैल के समान भयंकर ( न हि देवाः न मर्तासः ) न दानशील विद्वान् और न साधारण मनुष्य ही ( दित्सन्तम् वारयन्ते ) दान देने की इच्छा वाले ( त्वा ) तुझको रोक सकते हैं । प्रत्युत जब देना चाहे तो तेरे को रोकने वाला कोई नहीं ।

एतान्विन्द्रं स्तवामेशानं वस्वः स्वराजम् ।

न राधसा मधिषन्नः ॥ ४ ॥

भा०—( एत उ नु ) आओ भाइयो ! ( वस्वः ईशानं ) धन के स्वामी, ( स्व-राजं ) अर्थात् 'स्व' अपने ऐश्वर्य से दीप्तिमान्, धनाधिपति, ( इन्द्रं ) प्रभु की ( स्तवाम ) स्तुति करें । कोई भी ( राधसा ) धन के कारण ( नः मधिषत् ) हमें पीड़ित न करे ।

प्र स्तोपदुपगासिपच्छ्वत्सामं गीयमानम् ।

अभि राधसा जुगुरत् ॥ ५ ॥ ३७ ॥

भा०—वह प्रभु ही हमें ( प्र स्तोपत् ) उत्तम स्तुति कराता है ( उप



गासिपत् ) उपासना या गान कराता है और ( गीयमानं साम श्रवत् ) गाये गये साम को सुनता है । वही ( राधसा ) धनैश्वर्य द्वारा हमें ( अभि-जुगुर्त् ) उद्यम कराता है । इति सप्तत्रिंशो वर्गः ॥

आ नो भर दक्षिणेनाभि सव्येन प्र मृश ।

इन्द्र मा नो वसोर्निर्भाक् ॥ ६ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( नः ) हमें ( दक्षिणेन आ भर ) दायें हाथ से ऐश्वर्य दान कर और ( सव्येन अभि प्र मृश ) दायें से भी उत्साहित कर । तू ( नः ) हमें ( वसोः मा निर्भाक् ) धन से वञ्चित मत कर ।

उप क्रमस्वा भर धृपता धृष्णो जनानाम् ।

अदाशूष्टरस्य वेदः ॥ ७ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! तू ( उप क्रमस्व ) उद्यम कर ! हे ( धृष्णो ) शत्रु-पराजयकारिन् ! तू ( धृपता ) शत्रु पराजय कारक बल से, ( जनानां ) मनुष्यों के बीच में ( अदाशूः-तरस्य वेदः ) अति अधिक कंजूस के धन को ( आ भर ) ले ले ।

इन्द्र य उ नुते अस्ति वाजो विप्रेभिः सनित्वः ।

अस्माभिः सु तं सनुहि ॥ ८ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( यः उ तु ते वाजः ) जो तेरा धनैश्वर्य ( सनित्वः अस्ति ) दान देने योग्य है ( तं ) उसे तू ( अस्माभिः विप्रेभिः ) हम विद्वान् मेधावी पुरुषों के साथ मिलकर ( सु सनुहि ) उत्तम कार्य में लगा ।

सद्योजुवस्ते वाजा अस्मभ्यं विश्वश्चन्द्राः ।

वशैश्च मक्षू जरन्ते ॥ ९ ॥ ३८ ॥ ५ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! स्वामिन् ! ( ते वाजाः ) तेरे ऐश्वर्य, ( विश्व-चन्द्राः ) सब संसार को आह्लादित करने वाले हैं । वे ( अस्मभ्यं सद्यो-जुवः ) हमें शीघ्र ही प्राप्त हों । सब लोग ( वशैः च मक्षु जरन्ते ) नाना

कामनाओं से प्रेरित होकर तेरी स्तुति करते हैं । इत्यष्टात्रिंशो वर्गः ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥

अथ षष्ठोऽध्यायः

[ ८२ ]

कुसीदी काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ७, ६ निचृद् गायत्री ।

२, ५, ६, ८ गायत्री । ३, ४ त्रिराद् गायत्री ॥ नवर्च सूक्तम् ॥

आ प्र द्रव परावतोऽर्वावतश्च वृत्रहन् । मध्वः प्रति प्रभर्मणि ॥१॥

भा०—हे ( वृत्रहन् ) दुष्टों के नाश करने हारे ! तू ( प्र-भर्मणि ) उत्तम ऐश्वर्य संग्रह करने वालों से युक्त इस राष्ट्र में या उत्तम २ पदार्थों को संग्रह करने के कार्य के निमित्त ( मध्वः प्रति ) मधुर, सुखकारी अन्नों को प्राप्त करने के लिये ( परावतः अर्वावतः च ) दूर और समीप के देशों से वा उन देशों को ( आ द्रव प्र द्रव ) आया और जाया कर । व्यापार से सब सुखकारी पदार्थों का आयात निर्यात किया कर ।

तीव्राः सोमासु आ गंहि सुतासो मादयिष्णवः ।

पिवाद्दधृग्यथोचिपे ॥ २ ॥

भा०—( तीव्राः ) वेग में तीव्र, कर्मकुशल ( सोमासः ) उत्तम शासकगण, ( मादयिष्णवः ) प्रजा को अति प्रसन्न करनेवाले लोग ( सुतासः ) अभिषिक्त हों । तू ( आ गंहि ) आ और ( यथा ओचिपे ) जैसे भी सम-वाय बना सके वैसे ( दधृक् ) शत्रु का पराजय करके ( पिब ) अपने राष्ट्र का पालन कर-उसका भोग कर । अथवा—( तीव्राः ) क्षुधानिवर्तन में तीव्र गुणकारी, तृप्तिकारक ये अन्न के पदार्थ बने हैं उनको तू खा, पी ।

इषा मन्दस्वादुतेऽरुं वराय मन्यवे । भुवत्त इन्द्र शं हृदे ॥३॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( इषा ) अन्न से ( मन्दस्व )

तृप्ति कर । क्योंकि ( वराय मन्यवे ) श्रेष्ठ ज्ञान के लिये यह अन्न ही (अरं) अति गुणकारी और उपयोगी है । हे ऐश्वर्यवन् ! यह अन्न ( ते ददे शम् ) तेरे हृदय को भी शान्ति देने वाला हो ।

आ त्वं शत्रुवा गहि न्युक्थानि च ह्यसे ।

उपमे रोचने दिवः ॥ ४ ॥

भा०—हे ( अशत्रो ) अजातशत्रो ! शत्रुरहित ! तू ( आगहि ) आ । ( दिवः उप-मे ) सूर्य की उपमा योग्य ( रोचने ) अति तेजस्वी, पद पर तू ( उक्थानि ) नाना उत्तम स्तुति-वचनों द्वारा आह्वान और स्तवन किया जाता है ।

तुभ्यायमद्रिभिः सुतो गोभिः श्रीतो मदाय कम् ।

प्र सोमं इन्द्र हूयते ॥ ५ ॥ १ ॥

भा०—( अद्रिभिः सुतः गोभिः श्रीतः सोमः मदाय ) जिस प्रकार पाषाण खण्डों या ऊखल आदि से निकाला और गोरसों से मिला हुआ सोमादि ओषधि रस शरीर में हर्ष सुखादिजनक, रोग-नाशक होता है, उसी प्रकार ( अद्रिभिः सुतः ) आकाश में मेघों द्वारा उत्पादित वा चक्री, ऊखलादि से अन्न रूप से और भूमि में ( अद्रिभिः ) पर्वतों द्वारा उत्पादित रत्नादि रूप से और ( गोभिः श्रीतः ) भूमियों या सूर्य का किरणों के विशेष गुणों से परिष्कृत या मिश्रित अन्न तथा ( गोभिः श्रीतः ) वाणियों से से प्रशंसित ज्ञान वा किरणों से युक्त मणि आदि भी ( अथम् ) यह ( सोमः ) अन्नादि वा रत्नादि ऐश्वर्य ( मदाय ) अधिक आनन्द या हर्ष के लिये ही ( तुभ्यं प्र हूयते ) तुझे आदरपूर्वक दिया जाता है । इति प्रथमो वर्गः ॥

इन्द्रं श्रुधि सु मे हवमस्मे सुतस्य गोमतः ।

विं प्रीतिं तृप्तिमश्नुहि ॥ ६ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( मे हवम् ) मेरी प्रार्थना वा उपदेश को भली प्रकार ( सु श्रुधि ) श्रवण कर । तू ( अस्मे ) हमारे ( गोमतः

सुतस्य ) गो-रस दुग्धादि से मिश्रित अन्न तथा भूमि सहित उत्पन्न ऐश्वर्य का ( पीतिम् ) पान, उपभोग आदि तथा ( वृषिम् ) वृषि को भी ( वि अश्नुहि ) विविध प्रकार से प्राप्त कर ।

य इन्द्र चमसेष्वामोमश्चमूपु ते सुतः । पिवेदस्य त्वमीशिषे ॥७॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( यः ) जो ( ते चमसेपु ) तेरे पात्रों में या पात्रवत् प्रजाजनों में ( सोमः ) अन्न और उत्पन्न ऐश्वर्य ( आसुतः ) उत्पन्न होता है और जो ( ते चमूपु ) तेरी सेनाओं के आश्रय पर ( आ सुतः ) प्राप्त होता है, ( अस्य त्वम् ) इसका तू ( ईशिषे ) स्वामी है । इसलिये तू ( अस्य पिव इत् ) उसका अवश्य पालन या उपभोग कर । आध्यात्म में सोम वीर्य 'चमसों' अर्थात् देह के प्रति सैलों या कोष्ठों में या 'चमू' अर्थात् भोक्तृ रूप इन्द्रियों में होता है । उसका स्वामी आत्मा है ।

यो अप्सु चन्द्रमा इव सोमश्चमूपु ददृशे ।

पिवेदस्य त्वमीशिषे ॥ ८ ॥

भा०—( यः ) जो ( सोमः ) शासन बल ( अप्सु चन्द्रमाः इव ) अन्तरिक्ष में चन्द्रमा के समान आह्लादक और ( चमूपु ) सेनाओं के ऊपर जनका ( सोमः ) शासक, आज्ञापक के समान ( ददृशे ) दिखाई देता है है तू ( अस्य पिव इत् ) उसका अवश्य उपभोग कर, ( त्वम् अस्य ईशिषे ) तू ही उसका स्वामी है । आध्यात्म में चमू, ८ प्राण हैं । यज्ञ में ये चमू ८ ग्रह हैं ।

यं ते श्येनः पदाभरत्तिरो रजांस्यस्पृतम् ।

पिवेदस्य त्वमीशिषे ॥ ९ ॥ २ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! ( यम् ) जिस सोम अर्थात् ऐश्वर्य को ( श्येनः ) बाज़ के समान आक्रमण करने वाला पराक्रमी सेनापति ( रजांसि तिरः ) समस्त शत्रु जनों को पराजित करके ( अस्पृतम् ) शत्रुओं से अछूते या अनुपयुक्त रूप में ही ( पदा ) पदाति सैन्य द्वारा ( ते आ भरत् )

तेरे लिये ले आता है ( अस्य त्वम् ईशिपे ) उसका तू ही स्वामी है । तू ही उसका ( पिब इत् ) उपभोग कर । इति द्वितीयो वर्गः ॥

[ ८३ ]

कुसीदी काण्व ऋषिः ॥ विश्वे देवताः ॥ छन्दः—१, २, ५, ६, ६ गायत्री ।  
३ निचृद् गायत्री । ४ पादनिचृद् गायत्री । ७ आर्ची स्वराड गायत्री । ८ विराड गायत्री ।

देवानामिदवो महत्तदा वृणीमहे वयम् । वृष्णाम्स्मभ्यमुत्तये १  
भा०—( वयम् ) हम लोग ( वृष्णाम् ) जलों के वर्षक ( देवानाम् ) दीप्तिमान् किरणों के समान ( वृष्णाम् ) बलवान्, सुखदायक और ( देवानाम् ) तेजस्वी, व्यवहारकुशल और विजयेच्छुक वीरों और ज्ञानप्रकाशक विद्वानों के ( इत् ) ही ( महत् अवः ) बड़े भारी ज्ञान, रक्षा बल, प्रेम आदि की ( अस्मभ्यम् उत्तये ) हमारी अपनी रक्षा के लिये ( वृणीमहे ) चाहते हैं, उसे ही सबसे अच्छा मानते हैं ।

ते नः सन्तु युजः सदा वरुणो मित्रो अर्यमा ।

वृधासश्च प्रचेतसः ॥ २ ॥

भा०—( वरुणः ) वरण करने योग्य, वृत्त राजा वा सभापति, ( मित्रः ) प्रजा का स्नेही, ( अर्यमा ) दुष्टों का नियन्ता, न्यायशील ये सव ( प्रचेतसः ) उत्तम चित्त वाले, उत्तम ज्ञानसम्पन्न और ( वृधासः च ) बढ़ाने और दुष्टों का मूलोच्छेद करने वाले ( युजः सन्तु ) सहायक हों ।

अति नो विष्पिता पुरु नौभिरपो न पर्षथ । युयमृतस्य रथ्यः ॥३॥

भा०—हे ( ऋतस्य रथ्यः ) महारथियोंवत् सत्य ज्ञान और न्याय के प्राप्त कराने वाले जनो ! आप लोग ( नः ) हमें ( नौभिः अपः न ) नौकाओं से जलों के समान ( विष्पिता ) विविध रूपों से प्राप्त शत्रुओं के बलों वा कर्म-बन्धनों से ( अति पर्षथ ) पार करो ।

वामं नो अस्त्वर्थमन्वामं वरुण शंस्यम् । वामं ह्यावृणीमहे ॥४॥

भा०—हे ( अर्थमन् ) दुष्टों के नियन्तः न्यायकारिन् ! हे ( वरुण ) सबसे वरणीय ! ( नः वामं अस्तु ) हमारा उत्तम धन हो । और ( वामं शंस्यं अस्तु ) हमारा धन प्रशंसनीय हो । और हम ( वामं हि आवृणीमहे ) उत्तम, सेवन करने योग्य धन वा सुख की ही याचना करते हैं ।

वामस्य हि प्रचेतस ईशानासो रिशादसः ।

नेमादित्या अघस्य यत् ॥ ५ ॥ ३ ॥

भा०—हे ( प्रचेतसः ) उत्कृष्ट चित्त वालो ! हे ( रिशादसः ) हिंसक जनों को उखाड़ फेंकने वाले वीर जनो ! आप लोग ( वामस्य ) उत्तम, सेवने योग्य धन के ही ( ईशानासः ) स्वामी हो । हे ( आदित्याः ) सूर्य के समान तेजस्वी राजा वा माता तुल्य भूमि के पुत्रवत् सेवक जनो ! ( यत् ) जो धन ( अघस्य ) पाप का है ( न ईम् ईशानासः ) आप लोग उसके स्वामी न हों । हम भी ऐसे धन की कामना नहीं करते । सदा पुण्य की कमाई हमें प्राप्त हो । इति तृतीयो वर्गः ॥

व्यमिद्धः सुदानवः क्षियन्तो यान्तो अध्वन्ना ।

देवा वृधाय हूमहे ॥ ६ ॥

भा०—हे ( सु-दानवः ) उत्तम दानशील ( देवाः ) नाना उत्तम कामनाओं वाले, व्यवहारकुशल पुरुषो ! ( व्यम् इत् ) हम ही ( क्षियन्तः ) निवास करते हुए और ( अध्वन् यान्तः ) मार्ग में जाते हुए भी ( नः ) आप लोगों की ( वृधाय ) वृद्धि के लिये ( हूमहे ) बुलाते हैं ।

अधि न इन्द्रैषां विष्णो सजात्यानाम् । इता मरुतो अश्विना ॥७॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( विष्णो ) व्यापक सामर्थ्य वाले ! हे ( अश्विना ) उत्तम अश्ववत् इन्द्रियों के स्वामियो ! हे ( मरुतः ) वायु-वत् बलवान्, विद्वान् पुरुषो वा व्यापारी जनो ! ( सजात्यानां एषां )

समान जाति वाले इन में से ( नः ) हमें भी ( अधि इत् ) जानो और अपने अधीन लेवो ।

प्र भ्रातृत्वं सुदानवोऽर्धं द्विता समान्या । मातुर्गर्भे भरामहे ॥८॥

भा०—हे ( सुदानवः ) उत्तम कल्याणजनक दान देने वाले पुरुषो ! हम लोग ( मातुः गर्भे ) माता के गर्भ में रहकर जिस प्रकार ( भ्रातृत्वं ) भाईपन और ( समान्या द्विता ) समान रूप से मान आदर करने योग्य 'द्विता' अर्थात् युगल भाव को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार ( मातुः ) ज्ञानोपदेष्टा ब्रह्म-ज्ञान के दाता, विद्या जन्म द्वारा उत्पादक आचार्य और सर्वोत्पादक सर्वपोषक माता भूमि के ( गर्भे ) शासन, विद्या-ग्रहणकाल में रहते हुए परस्पर के ( भ्रातृत्वं ) भातृत्व, और ( समान्या द्विता ) समानों के योग्य दो-पन या युगल भाव को ( प्र भरामहे ) उत्तम रीति से धारण करें ।

यूयं हि ष्ठा सुदानव इन्द्रज्येष्ठा अभिद्यवः ।

अर्धा चिद्ध उत व्रुवे ॥ ९ ॥ ४ ॥

भा०—हे ( सुदानवः ) उत्तम दानशील पुरुषो ! ( यूयं ) आप लोग ( इन्द्र-ज्येष्ठाः ) अन्न देने वाले, शत्रु के नाशक, ऐश्वर्यवान् और सत्य ज्ञानदर्शी को अपना ज्येष्ठ मानने वाले और ( अभि-द्यवः ) स्वयं तेजस्वी, ( स्य हि ) अवश्य होंवो । ( अध चित् उत् ) और भी मैं ( वः व्रुवे ) आप लोगों को उपदेश करूं । इति चतुर्थो वर्गः ॥

[ ८४ ]

उशाना काव्य ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः—१ पादानिचृद् गायत्री ।

२ विराड् गायत्री । ३, ६ निचृद् गायत्री । ४, ५, ७—६ गायत्री ॥

नवर्चं सूक्तम् ॥

प्रेष्ठं वो अतिथिं स्तुषे मित्रमिव प्रियम् । अग्निं रथं न वेद्यम् ?

भा०—मैं ( वः ) आप लोगों के प्रति और आप लोगों में से ( प्रेष्ठं ) सब से अधिक, सर्वप्रिय, ( अतिथिम् ) अतिथिवत् पूज्य ( मित्रम् )

इव ) मित्र के समान ( प्रियम् ) प्रीतिकारक, ( रथं न ) रथ के समान ( वेद्यम् ) धन जन, देशान्तर प्राप्त करने के उत्तम साधन वा उपदेश वचन के समान रम्य और ज्ञानप्रद ( अग्नि ) अग्निवत् अग्रणी, नायक, विद्वान् पुरुष की ( स्तुपे ) स्तुति करता हूँ । उक्त गुणों से युक्त पुरुष को नायक वा अग्नि पद के लिये प्रस्तुत करता हूँ । अग्रणी नायक में इन गुणों का होना आवश्यक है कि वह सर्वप्रिय, पूज्य, सर्वस्नेही और लक्ष्य तक पहुँचाने में समर्थ हो ।

कविमिव प्रचेतसं यं देवासो अथ द्विता । नि मर्त्येष्वदाधुः॥२॥

भा०—( यम् ) जिस के ( कविम् इव प्रचेतसम् ) विद्वान् मेधावी पुरुष के समान उत्तम ज्ञानवान् पुरुष को ( देवासः ) विद्वान् जन ( मर्त्येषु ) मनुष्यों के बीच ( द्विता नि आदधुः ) दो प्रकार से स्थापित करते हैं । पूज्य रूप से और कार्यसञ्चालक रूप से । इसी प्रकार लोक में अग्नि को भी दो प्रकार आहित करते हैं गार्हपत्य और आवहनीव रूप से वा उसका दो कार्यों के लिये प्रभोग करते हैं एक ताप के लिये दूसरे प्रकाश के लिये । नायक को दो कार्यों के लिये स्थापित करते हैं मार्ग दर्शाने या ज्ञान देने और शासन करने के लिये ।

त्वं यविष्ठ दाशुषो नूः पाहि शृणुधी गिरः ।

रक्षां लोकमुत त्मना ॥ ३ ॥

भा०—हे ( यविष्ठ ) युवतम्, उत्तम युवा पुरुष ! बलवान् ! ( त्वं ) तू ( दाशुषः ) जीवन, धन, ज्ञानादि देने वाले ( नून् ) मनुष्यों को ( पाहि ) पालन कर और उन की ( गिरः ) वाणियों को ( शृणुधि ) आदर से श्रवण कर ( लोकम् ) पुत्र आदि सन्तति की ( त्मना ) अपने आत्म सामर्थ्य से ( रक्ष ) रक्षा कर ।

कया ते अग्ने अङ्गिर ऊर्जा नपादुपस्तुतिम् ।

वराय देव मन्यवे ॥ ४ ॥



भा०—हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! अग्निवत् ज्ञानप्रकाशक ! तेज-  
स्विन् ! हे ( अंगिरः ) अंग अर्थात् देह में रसवत् बलशालिन् ! ( ऊर्जः नपात् )  
वीर्य से उत्पन्न, पुत्रवत् बल से उत्पन्न वा बल वीर्य का पतन या नाश न  
होने देने वाले ! हम लोग ( वराय ) वरण करने योग्य ( मन्यवे )  
तेजस्वी, मननशील ( ते ) तुझ पुरुष की ( उपस्तुतिम् ) उपस्तुति,  
गुणवर्णना ( कया ) भला किस प्रकार की जिह्वा या वाणी से करें । तू  
स्वयं इतने २ गुणसम्पन्न सर्वथा वरने योग्य है ।

दाशेम॑ कस्य॑ मनसा॑ यज्ञस्य॑ सहसो॑ यहो ।

कदु॑ वोच इदं॑ नमः॑ ॥ ५ ॥ ५ ॥

भा०—हे ( सहसः यहो ) शत्रुविजयी बल सामर्थ्य से स्वयं  
उत्पन्न हम लोग ( कस्य ) किस ( यज्ञस्य ) पूज्य, दानी, सत्संगयोग्य  
के ( मनसा ) ज्ञान वा मन से युक्त होकर ( दाशेम ) दान करे, अपने  
को सौंपें । इति षष्ठमो वर्गः ॥

अधा॑ त्वं हि॑ न॒स्करो॑ विश्वा॑ अ॒स्मभ्यं॑ सु॒क्षितीः॑ ।

वाज॑द्र॒विणसो॑ गिरः॑ ॥ ६ ॥

भा०—( अध ) और ( त्वं ही ) तू ही ( नः ) हम ( विश्वाः सुक्षितीः )  
समस्त प्रजाओं को उत्तम ( करः ) बना, और ( अस्मभ्यम् ) हमारे लिये  
( वाजद्रविणसः सुक्षितीः करः ) अन्न और ऐश्वर्य उत्पन्न करने वाली ऐश्व-  
र्यवती भूमियां कर । और हमारे उपकार के लिये ( गिरः वाजद्रविणसः )  
ज्ञानसम्पन्न वाणियों का उपदेश कर, हमें भी उत्तम ऐश्वर्ययुक्त ज्ञानी  
और उपदेष्टा बना ।

कस्य॑ नूनं॑ परी॒णसो॑ धियो॑ जिन्व॒सि द॑म्पते ।

गोषा॑ता॒ यस्य॑ ते॒ गिरः॑ ॥ ७ ॥

भा०—हे ( दम्पते ) गृहपते ! हे दमन, शासन, दण्ड व्यवस्थादि  
के पालक ! ( यस्य ते ) जिस तेरी ( गिरः ) वाणियां ( गो-साता ) हमें

( नरा ) उत्तम पुरुषो ! ( अदाभ्यं छर्दिः यन्त ) अहिंसक, सुखदायक-  
गृह प्रदान करो । इति सप्तमो वर्गः ॥

गच्छतं दाशुषो गृहमिथास्तुवतो अश्विना ।

मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ६ ॥

भा०—( मध्वः सोमस्य पीतये ) मधुर ज्ञान रस का पान करने  
और आनन्दकारी वीर्य की रक्षा के लिये हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय नर  
नारियो ! आप दोनों वर्ग ( इत्था स्तुवतः ) सत्य का उपदेश करने वाले  
विद्वान् ( दाशुषः गृहम् ) ज्ञानदाता गुरु के गृह को ( गच्छतम् ) जाओ ।

युज्जाथां रासभं रथे वीड्वङ्गे वृषण्वसू ।

मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ७ ॥

भा०—हे ( वृषण्वसू ) बलवान् ब्रह्मचारी जनो ! ( मध्वः सोमस्य  
पीतये ) आनन्दकारक, सुखजनक 'सोम' विद्या माता के गर्भ में उत्पन्न  
होने वाले शिष्य रूप पुत्र के पालन और उस को ज्ञान रस पान कराने  
के लिये ( वीड्व-अंगे रथे ) दृढांग रथ में ( रासभं ) उत्तम ध्वनि से अलंकृत  
अश्व के समान ( वीड्व-अंगे ) दृढ़ अंगों को करने में समर्थ ( रथे ) उत्तम  
उपदेश प्राप्त करने के योग्य आश्रम, ब्रह्मचर्य काल में ( रासभं ) उत्तम  
उपदेश से अलंकृत आचार्य को ( युज्जाथाम् ) नियुक्त करो ।

त्रिवन्धुरेण त्रिवृता रथेना यातमश्विना ।

मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ८ ॥

भा०—( अश्विना ) जितेन्द्रिय जनो ! ( मध्वः सोमस्य पीतये ) मधुर  
वेदज्ञान के पान और वीर्य के पालन करने लिये ( त्रि-वन्धुरेण ) तीन बन्धनों  
वाले, ( त्रिवृता ) तीन वार वटे, तीन प्रकार से अभ्यस्त ( रथेन ) स्थिर होकर  
रहने योग्य, ब्रह्मचर्य-आश्रम के धर्म पालन से ( आयातम् ) आगे बढ़ो ।

नू मे गिरौ नासत्याश्विना प्रावतं युवम् ।

मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ९ ॥ ८ ॥

दोनों, ( मे हवम् ) मेरे यज्ञ को ( मध्वः सोमस्य पीतये ) मधुर अन्न  
रस पान करने के लिये ( आ गच्छतम् ) आइये ।

इ॒मं मे॒ स्तोमं॑म॒श्विने॑सं मे॒ शृणु॑तं ह॒वम् ।

मध्वः॒ सोम॑स्य पी॒तये॑ ॥ २ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) विद्वान् स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( मे इमं  
स्तोमं हवम् ) मेरा यह स्तुति योग्य आह्वान वा उपदेश को ( मध्वः सोमस्य  
पीतये ) मधुर ज्ञान के पान के लिये ( शृणुतम् ) श्रवण करो ।

अ॒यं वां कृ॒ष्णो॑ अ॒श्विना॑ ह॒वते॑ वाजिनीवसू ।

मध्वः॒ सोम॑स्य पी॒तये॑ ॥ ३ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) वेगवान् अश्वों चालो ! हे ( वाजिनीवसू ) बल-  
युक्त सेना के धनी सैन्य और सेनापते ! ( मध्वः सोमस्य पीतये ) बलयुक्त  
शत्रु को कंपाने में समर्थ 'सोम' ऐश्वर्य और बल के पालन करने के  
लिये ( अयं ) यह ( कृष्णः ) शत्रु को कर्षण या पीड़ित करने वाला राजा  
( वां हवते ) तुम दोनों को अपने पास बुलाता है ।

शृ॒णु॒तं ज॑रि॒तुर्ह॒वं कृ॒ष्णस्य॑ स्तु॒वतो॑ न॒रा ।

मध्वः॒ सोम॑स्य पी॒तये॑ ॥ ४ ॥

भा०—हे ( नरा ) नर-नारियो ! आप ( मध्वः सोमस्य पीतये )  
सुखदायक सोम, बल वीर्य के पालन करने के लिये ( स्तुवतः जरितुः )  
उपदेश करने वाले विद्वान्, ( कृष्णस्य ) संशयों के उच्छेदन में समर्थ  
विद्वान् के ( हवं ) आह्वान या वचन का ( शृणुतं ) श्रवण करो ।

छ॒र्दिर्य॑न्त॒मदा॑भ्यं वि॒प्राय॑ स्तु॒वते॑ न॒रा ।

मध्वः॒ सोम॑स्य पी॒तये॑ ॥ ५ ॥ ७ ॥

भा०—( मध्वः सोमस्य पीतये ) मधुर, आनन्दप्रद ज्ञान रस के  
पान करने के लिये ( स्तुवते विप्राय ) उपदेश देने वाले विद्वान् को हे

ज्ञान वाणियों और भूमियों के विभाग या प्रदान करने के लिये हैं वह तू (कस्य परीणसः) किस महान् पुरुष के निमित्त ( धियः जिन्वसि ) नाना कर्म करता है वा किस के प्रति बहुत सी स्तुतियों, बुद्धियों को प्रेरित करता है ।

तं मर्जयन्त सुक्रतुं पुरोयावानमाजिपु ।

स्वेषु क्षयेषु वाजिनम् ॥ ८ ॥

भा०—(तं) उस ( सु-क्रतुं ) उत्तम कर्म और ज्ञान वाले (आजिपु) संग्रामों में ( पुरः-यावानं ) आगे प्रयाण करने हारे और ( स्वेषु क्षयेषु ) अपने ऐश्वर्यों वा गृहों में भी ( वाजिनम् ) बल, ज्ञान और वेग से अनालसी होकर कार्य करने वाले को ( मर्जयन्त ) सादर अलंकृत करो ।

क्षेत्रि क्षेमेभिः साधुभिर्नक्रियं घ्नन्ति हन्ति यः ।

अग्ने सुवीर एधते ॥ ९ ॥ ६ ॥

भा०—( यः ) जो ( क्षेमेभिः ) कल्याणकारी, ( साधुभिः ) उत्तम कार्यसाधक पुरुषों और उपायों सहित ( क्षेत्रि ) रहता और ऐश्वर्य की वृद्धि करता है, ( यं नकिः घ्नन्ति ) जिसको कोई भी मार नहीं सकते हैं । वह हे (अग्ने) अश्वत् ज्ञानिन्, तेजस्विन्, प्रतापशालिन् ! तू (सुवीरः) उत्तम वीर्यवान् होकर (एधते) वृद्धि को प्राप्त करता है । इति षष्ठो वर्गः ॥

[ ८५ ]

ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, ६ विराड् गायत्री । २, ५, ७

निचृद् गायत्री । ३, ४, ६, ८ गायत्री ॥ अष्टवं सूक्तम् ॥

आ मे हवँ नासत्याश्विना गच्छतं युवम् ।

मध्वः सोमस्य पीतये ॥ १ ॥

भा०—हे ( नासत्या ) असत्य आचरणों से रहित, सदा सत्यभाषी हे ( अश्विना ) अश्वत् इन्द्रियों के वशी स्त्रीपुरुषो ! ( युवम् ) तुम

भा०—( मध्वः सामस्य पीतये ) मधुर ज्ञान के ग्रहण के लिये हे ( नासत्या ) सदा सत्य के धारण करने वाले ! हे ( अग्निना ) जितेन्द्रिय जनो ( तू ) शीघ्र ही ( मे गिरः युवं प्रावत्तम् ) मेरी उपदिष्ट वेदवाणियों का आप उत्तम रीति से ज्ञान प्राप्त करो । इत्यष्टमो वर्गः ॥

[ ८६ ]

कृष्णो विश्वको वा कार्ष्णिऋषिः ॥ अग्निर्देवते ॥ इन्द्रः—, ३ विराट् जगती । २, ४, ५ निचृज्जगती ॥

उभा हि दक्षा भिपजा मयोभुवोभा दक्षस्य वचसो वभुवथुः ।  
ता वां विश्वको हवते तनूकृथे मानो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम् १

भा०—हे ( दक्षा ) रोगादि के नाशक ( उभा ) आप दोनों ( भिपजा ) भय से बचाने वाले, प्रेमपूर्वक मिलने जुलने वाले, वा रोगों को दूर करने वाले ( भयः-भुवा ) सुख के देने वाले, और ( उभा ) दोनों ( दक्षस्य वचसः ) बलयुक्त कर्म समर्थ वचन के बोलने वाले ( वभुवथुः ) होवो । ( ता वां ) आप दोनों को ( विश्वकः ) समस्त मनुष्य ( तनू-कृथे ) अपने देह के रक्षा के निमित्त ( हवते ) बुलाते हैं । आप दोनों ( सख्या ) मित्रता से ( नः ) हमें ( मा वि यौष्टं ) पृथक् न करो, सब से प्रेम रखो और ( नः मा मुमोचत् ) हमें त्याग न करो ।

कथा नूनं वां विमना उप स्तवद्युवं धियं ददथुर्वस्य इष्टये । ता  
वां विश्वको हवते तनूकृथे मां नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम् २

भा०—( नूनं ) निश्चय ही ( वि-मनाः ) विपरीत चित्त वा ज्ञान वाला वा अज्ञानी मनुष्य ( वां ) तुम दोनों की ( कथा उपस्तुवत् ) कैसे गुण स्तुति कर सकता है ? ( युवम् ) तुम दोनों ( इष्टये ) इच्छा पूर्ति के लिये ( धियं वस्यः ददथुः ) उत्तम बुद्धि और उत्तम धन प्रदान करते हो । ( ता वां ) उन आप दोनों की ( तनू-कृथे विश्वकः हवते ) अपने

देह के सुखार्थ सभी बुलाते हैं । तुम दोनों ( नः सख्या मा वि यौष्टं ) हमें मित्र भाव से पृथक् मत करो और ( वि मुमोचतम् ) विविध दुःखों से छुड़ाओ वा सखित्व से हमें ( मा वि मुमोचतम् ) मत त्याग करो ।  
युवं हि ष्मा पुरुभुजेममेधतुं विष्णाप्वे ददधुर्वस्य इष्टये । ता वां विश्वको हवते तनूकृथे मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम् ॥३॥

भा०—हे ( पुरु-भुजा ) बहूतों को पालन करने में समर्थ पुरुषो ! आप दोनों ( विष्णाप्वे ) व्यापक शक्तिमान् प्रभु को प्राप्त करने वाले को ( इष्टये ) यज्ञ के निमित्त ( वस्यः ) उत्तम धन और ( एधतुं ददधुः स्म ) वृद्धि के साधन देते रहो । ( ता वां० इत्यादि पूर्ववत् )

उत त्वं वीरं धनसामृज्जीषिणं दूरे चित्सन्तमवसे हवामहे ।  
यस्य स्वादिष्टा सुमतिः पितुर्यथा मा नो वि यौष्टं सख्या मुमो-  
चतम् ॥ ४ ॥

भा०—( उत ) और ( त्वं वीरं ) उस वीर, बलवान् और विद्यावान् ( धनसा ) धन के दानी और धन के प्राप्त करने में कुशल, ( ऋजीषिणं ) धर्ममार्ग में सञ्चालक और शत्रुनाशक सैन्य के चालक ऐसे ( दूरे चित् सन्तं ) दूर देश में रहते हुए पुरुष को भी हम ( अवसे ) रक्षा और ज्ञान लाभ के लिये ( हवामहे ) बुलावें । ( यस्य ) जिस की ( स्वादिष्टा सुमतिः ) अति सुखदायिनी शुभ प्रज्ञा ( यथा पितुः ) पिता के समान हित में प्रवृत्त कराती हो, हे विद्वान् पुरुषो ! ( नः मा वि यौष्टं ) हमें अपने से पृथक् न करो ( सख्या मा मुमोचतम् ) अपने मित्रभाव से हमें परित्याग न करो ।

ऋतेन देवः सविता शमायत ऋतस्य शृङ्गमुर्विया वि पप्रथे ।  
ऋतं सासाह महि चित्पृतन्यतो मा नो वि यौष्टं सख्या मुमो-  
चतम् ॥ ५ ॥ ९ ॥

भा०—( देवः सविता ) प्रकाशमान सूर्य के समान तेजस्वी, ( सविता ) सब का प्रेरक, सब का उत्पादक प्रभु ( ऋतेन ) सत्य ज्ञान-मय वेद से ( शम् आयते ) सब को शान्ति सुख प्रदान करता है । और वह ( ऋतस्य शृङ्गम् ) तेज के अन्धकारनाशक प्रकाश के समान असत्य, अविद्या के नाशक सत्य के प्रकाश को ( उर्विया पप्रथे ) बहुत अधिक फैलाता है । ( ऋतं ) सत्य ही ( महि चित् पृतन्यतः ) बड़े २ वा शत्रुओं को भी ( सासाह ) पराजित करता है । ( नः मा सख्या वि यौष्टं ) हमें मित्रता से वियुक्त न करो और ( मा वि मुमोचतम् ) हमें भी परित्याग मत करो । इति नवमो वर्गः ॥

### [ ८७ ]

कृष्णो घृष्नी घृष्नीको वा वासिष्ठ आंगिरसः प्रियमेधो वा ऋपिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, ३ बृहती । ५ निचृद् बृहती । २, ४, ६ निचृत् पङ्क्तिः ॥ पठ्यं सूक्तम् ॥

घृष्नी वां स्तोमो अश्विना क्रिविर्न सेक आ गतम् ।

मध्वः सुतस्य स दिवि प्रियो नरा पातं गौराविवेरिणे ॥ १ ॥

भा०—( सेके क्रिविः न ) संचय करने के लिये प्रचुर जल वाला कूप जिस प्रकार ( घृष्नी ) उत्तम अन्नोत्पादक होता है उसी प्रकार ( वां ) आप दोनों का ( स्तोमः ) स्तुति वचन वा उपदेश ( घृष्नी ) अपरिमित ज्ञान का देने वाला होता है । हे ( अश्विना ) विद्यावान् स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( आ गतम् ) आइये । ( सः ) वह ( दिवि प्रियः ) ज्ञान के प्राप्त करने के निमित्त अति पूर्ण है । हे ( नरा ) उत्तम पुरुषो ! दोनों ( मध्वः सुतस्य ) मधुर ज्ञान का ( इरिणे गौरौ इव ) जलाशय में दो गौर नाम मृग-युगल के समान ( पातं ) पान करो । अथवा ( इरिणे ) शुष्क भूमि में ( गौरौ इव ) सूर्य-मेघवत् मधुर जल के समान ज्ञान का पान कराओ ।

पिवंतं घर्मं मधुमन्तमश्विना बर्हिः सीदतं नरा ।

ता मन्दसाना मनुषो दुरोण आ नि पातं वेदसा वयः ॥ २ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) अश्ववत् राष्ट्र के भीतर नियुक्त जनों के स्वामीं जनो ! आप दोनों ( नरा ) नायक जन ( बर्हिः ) आसनवत् इस राष्ट्र प्रजाजन के ऊपर ( आसीदतम् ) अध्यक्षवत् विराजो और ( मधुमन्तं ) बलयुक्त ( घर्मं ) तेज और रस का मधुयुक्त ओषधि-रसवत् पान, उपभोग और संरक्षण करो । ( मनुषः दुरोणे ) मनुष्य के आश्रय रूप गृह के समान उत्तम रक्षा स्थानवत् ( मनुषः दुरोणे ) सर्वसाधारण मनुष्य के लिये दुष्प्राप्य राजपद पर ( मन्दसाना ) अति हर्ष लाभ करते हुए ( ता ) वे आप दोनों ( वेदसा ) धन के द्वारा ( वयः ) राष्ट्र के बल, जीवन और अन्न समृद्धि की ( निपातम् ) रक्षा करो । इसी प्रकार प्रत्येक गृह में स्त्री पुरुष आसन पर बैठें, मधुर रस युक्त अन्न, ओषधि रस पान करें । सुप्रसन्न होकर धन और ज्ञान से जीवन की रक्षा करें ।

आ वां विश्वाभिरुतिभिः प्रियमेधा अहूपत ।

ता वर्तिर्यातमुप वृक्तवर्हिषो जुष्टं यज्ञं दिविष्टिषु ॥ ३ ॥

भा०—हे उत्तम नायको ! उत्तम जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! ( प्रिय-मेधाः ) अन्न, सत्संग, यज्ञ, युद्ध आदि के प्रिय जन ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सब प्रकार की प्रीतियों तथा रक्षा-साधनों सहित ( वां आ अहूपत ) तुम दोनों को प्रेम से आह्वान करते हैं । ( ता ) वे दोनों आप, ( वृक्त-वर्हिषः ) कुशाओं के समान अन्य संशयों, और शत्रु जन वा मानसिक दुर्विचार काम, क्रोधादि रिपुओं को उच्छेद करने वाले के ( वर्तिः ) गृह पर ( उप-यातम् ) उपस्थित होवो, और ( दिविष्टिषु ) प्रति प्रातःकाल के अवसरों में वा ( दिवः ) उत्तम कामनाओं की पूर्ति के लिये ( यज्ञं ) देव-पूजन और यज्ञ-सत्संगादि को ( उप जुष्टं ) नित्य सेवन करो ।



पिवंतुं सोमं मधुमन्तमश्विना वहिः सीदतं सुमत् ।

ता वावृधाना उप सुष्टुतिं दिवो गन्तं गौराधिचरिणम् ॥ ४ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय जनो ! आप दोनों ( सुमत् वहिः सीदतम् ) उत्तम आसन और प्रजा जन पर अध्यक्षवत् विराजो । और ( मधुमन्तं सोमं पिवतम् ) मधुर आनन्द युक्त ऐश्वर्य का अन्नवत् उपभोग करो । ( ता ) वे आप दोनों ( ववृधाना ) सदा वृद्धि प्राप्त करते हुए ( दिवः सु-स्तुतिं ) ज्ञान के उत्तम उपदेश, कीर्ति को ( हरिणं गौरौ इव ) जलाशय को मृगयुगल के समान ( उप गन्तम् ) प्राप्त होवो ।

आ नूनं यातमश्विनाश्वेभिः प्रुपितप्सुभिः ।

दस्त्रा हिरण्यवर्तनी शुभस्पती पातं सोममृतावृधा ॥ ५ ॥

भा०—हे ( अश्विना ) शीघ्र गमन करने वाले अश्वों और इन्द्रियों के स्वामी, नायक जनो ! आप दोनों ( प्रुपित-प्सुभिः ) स्निग्ध, पूर्ण वा जलादि से सिक्त अभिपेक्षित रूप वाले ( अश्वेभिः ) अश्वों और विद्यावान् पुरुषों सहित ( नूनं आयातम् ) अवश्य आवो । आप दोनों ( दस्त्रा ) बाल्य अन्तःशत्रुओं के नाशक ( हिरण्य-वर्तनी ) सुवर्ण के रथ वाले वा हित-रमणीय मार्ग के अवलम्बक ( शुभ-स्पती ) उत्तम शोभा वा कल्याण के पालक, ( ऋत-वृधा ) सत्य ज्ञान के वर्धक और सत्य के बल से बढ़ने वाले आप दोनों ( सोमम् पातम् ) ऐश्वर्य का पालन और उपभोग करो ।

वयं हि वां हवामहे विप्रन्यवो विप्रासो वाजसातये ।

ता वल्गू दस्त्रा पुरुदंसेसा धियाश्विना श्रुष्ट्या गतम् ॥ ६ ॥ १०॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय पुरुषो ! हे अश्वदि साधनों के स्वामी जनो ! ( वां हि विप्रन्यवः ) हम स्तुतिकर्ता और विविध व्यवहार-कुशल ( विप्रासः ) विद्वान् जन ( वाज-सातये ) ऐश्वर्य और ज्ञान के प्रदान और प्राप्ति के लिये ( वां हि हवामहे ) आप दोनों को बुलाते हैं । ( ता ) वे आप दोनों ( वल्गू ) कुशल आचरण वाले, ( दस्त्रा ) दुष्ट

कर्मों के नाशक ( पुरु-दंससा ) बहुत से उत्तम कर्मों को करने वाले हो कर ( धिया ) कर्म और ज्ञान के बल से ( श्रुष्टी आगतम् ) शीघ्र ही उद्देश्य को प्राप्त होवो । इति दशमो वर्गः ॥

[ दृढ ]

नोधा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ३ बृहती । ५ निचृद बृहती ।

२, ४ पंक्तिः । ६ विराट् पंक्तिः ॥ षडृचं सूक्तम् ॥

तं वो द्दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धसः ।

अभिवत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीभिर्नवामहे ॥ १ ॥

भा०—हे प्रजाजनो ! ( अन्धसः ) अन्नवत् उपभोग्य ( वसोः ) राष्ट्र में वसे प्रजा जन और ( वसोः ) धन राशि से ( मन्दानम् ) अति हर्षित ( तं ) उस ( दस्मम् ) शत्रुनाशक और ( ऋति-सहं ) शत्रुओं के पराजयकारी ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् सेनापति की हम लोग ( स्वसरेषु ) स्वयं वा सुख से बीतने वाले दिनों में, गोष्ठों में ( अभिवत्सं न धेनवः ) वच्छे के प्रति गौओं के समान ( स्वसरेषु ) सब दिनों ( गीभिः नवामहे ) वाणियों से स्तुति करें ।

द्युक्षं सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोजसम् ।

क्षुमन्तं वाजं शतिनं सहस्त्रिणं मज्जू गोमन्तमीमहे ॥ २ ॥

भा०—हम लोग ( द्युक्षं ) दीप्ति युक्त ( सु-दानुं ) उत्तम दानशील, ( तविषीभिः आवृतं ) नाना सेनाओं से घिरे ( गिरिं न ) मेघ के समान ( पुरु-भोजसं ) बहुतों के पालक, स्वामी से ( क्षुमन्तं ) अन्नादि से युक्त ( शतिनं सहस्त्रिणं ) सौ हजार-आदि से युक्त, ( गोमन्तं वाजं ) भूमि, पशु धनों आदि से समृद्ध ऐश्वर्य की याचना करें और प्राप्त भी करें ।

न त्वा बृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीढवः ।

यदित्ससि स्तुवते मावते वसु नकिष्टदा मिनाति ते ॥ ३ ॥

भा०—( बृहन्तः ) बड़े २ ( वीढवः ) बलशाली, ( अद्रयः ) मेघों

वा पर्वतों के समान बाधक जन भी ( त्वा न वरन्ते ) तुझे निवारण नहीं करते । ( यत् ) जो तू ( मावते स्तुवते ) मुझ सदृश स्तुति करने वालों को ( वसु दिव्ससि ) धन देना चाहता है ( ते तत् न किः आमिनाति ) तेरे उस संकल्प का कोई भी नाश नहीं कर सकता ।

योद्धासि क्रत्वा शवसा त दंसना विश्वा जाताभि मज्मना ।

आ त्वायमर्क ऊतये ववर्तति यं गोतमा अजीजनन् ॥ ४ ॥

भा०—( यम् ) जिस ( त्वा ) तुझ को ( अर्कः ) स्तोता वा तेरे गुण बतलाने वाला वेदमन्त्र ( जूतये भाववर्तति ) रक्षा के लिये अपने अभिमुख करता है, ( यं गोतमाः अजीजनन् ) जिस को वेदवाणियों वा उत्तम विद्वान् वाणी द्वारा प्रकट करते हैं वह तू ( क्रत्वा ) कर्म-सामर्थ्य और ज्ञानसामर्थ्य, ( शवसा ) बल ( उत दंसना ) और कर्म और ( मज्मना ) आज्ञापक प्रभाव या गर्जना से ( विश्वा जातानि अभि ) सब पदार्थों के प्रति ( योद्धा असि ) शत्रुओं से लड़ने हारा उन पर प्रहार करने, पछाड़ने में समर्थ है । अथवा, ( क्रत्वा, शवसा दंसना यः अद्धा असि ) ज्ञान, बल, कर्म, से जो सत्य है और जो ( विश्वा जाता अभि मज्मना ) समस्त पदार्थों को अपने बल से धारता है ।

प्र हि रिरिक्ष ओजसा दिवो अन्तेभ्यस्परि ।

न त्वा विव्याच रज इन्द्र पार्थिवमनु स्वधां ववक्षिथ ॥५॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( ओजसा ) बल पराक्रम से ( दिवः अन्तेभ्यः परि ) आकाश और पृथिवी के परले छोरों तक भी ( प्र रिरिक्षे हि ) सब से अधिक बलशाली है । तू ( पार्थिवम् रजः अनु स्वधां ववक्षिथ ) पृथिवी लोक पर जलवत् जीवन तत्त्व को प्राप्त कराता है, तू महान् है और ( न त्वा विव्याच ) तुझे कोई व्याप नहीं सकता ।

नकिः परिष्ठिर्मघवन्मघस्य ते यद्वाशुषे दशस्यसि ।

अस्माकं बोध्युचथस्य चोदिता मंहिष्ठो वाजसातये ॥ ६ ॥ १११०

भा०—हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवान् ! ( यत् ) जो तू ( दशस्यसि ) दान करता है उस ( तं ) तेरे ( मघस्य ) उत्तम धन का ( परिष्टिः ) बाधक ( नकिः ) कोई नहीं है । तू ( वाज-सातये ) ऐश्वर्य, बल, ज्ञान-प्रदान करने में ( मंहिष्ठः ) अति पूज्य दानी, और ( चोदिता ) सन्मार्ग में प्रेरक है । तू ( अस्माकं उचथस्य बोधि ) हमारे वचन, स्तुति को जान । इत्येकादशो वर्गः ॥

[ ८६ ]

नृमेधपुरुमेधावृषी ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ७ बृहती । ३ निचृद् बृहती । २ पादनिचृत् पंक्तिः । ४ विराट् पंक्तिः । ५ विराडनुष्टुप् । ६ निचृदनुष्टुप् ॥  
पठ्यं सूक्तम् ॥

बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम् ।

येन ज्योतिरजनयन्नुतावृधो देवं देवाय जागृवि ॥ १ ॥

भा०—हे ( मरुतः ) परिमित भाषण करने वाले, विद्वान् पुरुष ! ( येन ) जिससे ( ऋत-वृधः ) सत्य के बढ़ाने वाले, ( देवाय ) प्रकाश-स्वरूप, सर्व ऐश्वर्यप्रद प्रभु को जानने के लिये ( देवं जागृवि ज्योतिःअजनयन् ) प्रकाशक, सदा जागृत, कभी न बुझने वाली ज्ञानज्योति को प्रकट कर लेते हैं उस ( वृत्र-हन्तमम् ) विघ्न बाधा, रूप, अन्तःकरण के आवरक को नाश करने वाले ( बृहत् ) बड़े उत्तम बृहत् नाम स्तोमाका ( इन्द्राय ) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु की स्तुति के लिये ( गायत ) गान करो । अथवा ( इन्द्राय वृत्र-हन्तमम् बृहत् गायत ) उस प्रभु के सर्व विघ्न-बाधक इस महान् तेजोमय स्वरूप का गान करो ।

अपाधमदभिशस्तीरशस्तिहाथेन्द्रो द्युम्याभवत् ।

देवास्त इन्द्र सुख्याय येमिरे बृहद्भानो मरुद्भण ॥ २ ॥

भा०—(अशस्तिहा इन्द्रः) अपकीर्तियों और स्तुत्यादि से रहितों का नाशक वह ऐश्वर्यवान्, ( अभिशस्तीः अप अधमत् ) आक्रामक हिंसकों के

आक्रमणों को परे कर देता है, उनको संतप्त करता है, ( अथ ) और वह (द्युम्नी अभवत्) यशस्वी, ऐश्वर्यवान् होजाता है । हे (वृहद्-भानो) महान् तेजस्विन् ! हे (मरुद्-गण) बलवान् गणों के स्वामिन् ! (देवाः) विजयेच्छुक, दानशील जन ( ते सख्याय येमिरे ) तेरे सख्यभाव प्राप्त करने के लिये अपने को नियम में बांधते हैं ।

प्र व इन्द्राय वृहते मरुतो ब्रह्मर्चित ।

वृत्रं हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा ॥ ३ ॥

भा०—हे ( मरुतः ) बलवान् शत्रुहन्ता एवं परिमितभापी जनो ! आप लोग (वृहते इन्द्राय) वड़े २ ऐश्वर्यवान् प्रभु के (ब्रह्म अर्चत) महान् सामर्थ्य की स्तुति करो । वह ( वृत्रहा ) दुष्टों का हन्ता (शत-क्रतुः) अपरमित ज्ञानी, ( शत-पर्वणा वज्रेण ) सैकड़ों पर्वों से युक्त वज्र, बल, सैन्य वा ज्ञान से ( वृत्रं ) दुष्ट शत्रु और अज्ञान का (हनति) नाश करता है । 'वज्र'—अज्ञान का वर्जन करने से ज्ञान वज्र है ।

अभि प्र भर धृपता धृषन्मनः श्रवश्चित्ते असद् वृहत् ।

अर्षन्त्वापो जवसा वि मातरो हनो वृत्रं जया स्वः ॥ ४ ॥

भा०—हे ( धृपन्-मनः ) शत्रुओं को पराजय करने वाले मन और अन्तःशत्रुओं को पराजय करने में समर्थ मन वा ज्ञान वाले जन ! (ते) तेरा ( वृहत् श्रवः असत् ) बड़ा भारी यश और ज्ञान हो । तू उस ज्ञान वा यश को (धृपता) बाह्य और अन्तःशत्रुओं को पराजय करने वाले बल से (अभि प्र भर) धारण कर । (मातरः) माताओं के समान, सर्वप्रिय (आपः) आपसजन ( वि अर्षन्तु ) मेघ से जल धाराओं के समान विविध प्रकार से प्राप्त हों । और तू (वृत्रं हनः) दुष्ट का नाश कर और (स्वः जय) सबका विजय कर । हे ज्ञानिन् ! तू अन्धकार रूप अज्ञान का नाश करके परम सुख पर विजय प्राप्त कर ।

यज्जायथा अपूर्व्यं मघवन्वृत्रहत्याय ।

तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उत द्याम् ॥ ५ ॥

भा०—हे ( मघवन् ) तेजोमय ! ऐश्वर्यवन् ! हे ( अपूर्व्यं ) सबसे पूर्व विद्यमान ! ( यत् ) जो तू ( वृत्र-हत्याय ) बड़ते शत्रुवत् अज्ञान के नाश करने के लिये ( अभि प्र जायथाः ) समर्थ होता है, ( तत् ) वह तू ( पृथिवीम् अप्रथयः ) पृथिवी को विस्तृत करता है, ( उत ) और ( द्याम् अस्तभ्नाः ) आकाश वा सूर्य को दृढ़ वा स्थिर करता है । उसी प्रकार परमेश्वर जब प्रकृति के सलिलमय, तमोमय परमाणु रूप को आघात करता है उससे ही यह भूमि बनती और सूर्य आदि लोक भी उसी के बल से स्थिर हैं ।

तत्ते यज्ञो अजायत तदुर्क उत हस्कृतिः ।

तद्विश्वमभिभूरसि यज्जातं यच्च जन्त्वम् ॥ ६ ॥

भा०—तब ही हे प्रभो ! ( ते यज्ञः अजायत ) तेरा महान् यज्ञ होता है ( तत् ते अर्कः ) वही तेरा महान् स्तुति योग्य ज्ञान है । ( उत हस्कृतिः ) वही तेरा ब्राह्म दिनवत् हर्ष का विलास है । ( तत् ) वह तू ( विश्वम् अभि भूः असि ) समस्त विश्व का उत्पादक है ( यत् जातं यत् जन्त्वम् ) जो उत्पन्न हुआ और जो उत्पन्न होगा उस सबका उत्पादक तू ही है ।

आमासु पक्वमैरय आ सूर्यं रोहयो दिवि ।

धर्म न सामन्तपता सुवृक्तिभिर्जुष्टं गिर्वणसे बृहत् ॥ ७ ॥ १२ ॥

भा०—हे प्रभो ! तू ( आमासु ) कच्ची, मृदु भूमियों में ( पक्वं ) परिपाक योग्य, तेज, वीर्य को ( ऐरयः ) प्रदान करता है, और ( दिवि ) आकाश में ( सूर्यं आरोहयः ) सूर्य को स्थापित करता है । ( गिर्वणसे ) चाणी से सेवने योग्य उस प्रभु के ( जुष्टं ) प्रिय ( बृहत् ) बड़े भारी ( धर्म ) तेज को ( सामन् ) सामस्तुति द्वारा ( सु-वृक्तिभिः )

और उत्तम स्तुतियों द्वारा ( घमं न ) सूर्य प्रकाशवत् ( तपत ) तपो, उसका सेवन कर तपश्चर्या करो । तपश्चर्या से उसके तेज को धारण करो । इति द्वादशो वर्गः ॥

[ ६० ]

नुमेधपुरुमेधावृषी ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ निचृद् वृहती । ३ विराड् वृहती । ५ पादनिचृद् वृहती । २, ४ पादनिचृद् पंक्तिः । ६ निचृत् पंक्तिः ॥ पठुन् सूकम् ॥

आ नो विश्वा॑सु ह॒व्य इन्द्रः॑ स॒मत्सु॑ भूप॒तु ।

उ॒प ब्रह्मा॑णि॒ सर्व॑नानि वृ॒त्रहा॑ पर॒म॒ज्या ऋ॒ची॒पमः॑ ॥ १ ॥

भा०—( हव्यः इन्द्रः ) सबसे पुकारने, संकटों के समय बुलाने योग्य (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् पुरुष (नः) हमारे ( विश्वासु समत्सु ) समस्त संग्रामों में ( आ भूपतु ) सदा सज्ज रहे । वह ( वृत्र-हा ) बढ़ते शत्रु का नाशक, (परम-ज्याः) बड़ी प्रबल डोरी वाला, बड़े २ शत्रुओं का बड़ा नाशक और ( ऋचीपमः ) षथार्थ गुण-स्तुति के अनुरूप होकर वह ( सर्वनानि ) समस्त ऐश्वर्यों और ( ब्रह्माणि ) धनों वा अन्नों को भी ( उप भूपतु ) प्राप्त हो । (२) परमेश्वर सब आनन्दावसरों में इमें समर्थ करे, हमारे यज्ञादि उपासना कालों में वह विघ्न-हर्त्ता सदा स्मरण रहे ।

त्वं दा॒ता प्र॑थ॒मो रा॑ध॒साम्स्यासि॑ स॒त्य ई॑शान॒कृत् ।

तु॒वि॒द्यु॒म्नस्य॑ यु॒ज्या वृ॑णा॒मिहे॑ पु॒त्रस्य॑ शर्व॒सो म॒हः ॥ २ ॥

भा०—( त्वं ) तू ( राधसां प्रथमः दाता ) समस्त ऐश्वर्यों का प्रथम एवं सर्वोत्कृष्ट दाता है, तू ( सत्यः ) सत्यस्वरूप, ( ईशान-कृत् ) सबका स्वामी, जगत् का कर्त्ता है । तू सब बड़े राजा, धनाधिपों का भी बनाने वाला है । ( तुवि-द्युम्नस्य ) बहुत से धनों, ऐश्वर्यों से सम्पन्न (महः शवसः पुत्रस्य ) बड़े भारी बल के कारण बहुतों की रक्षा करने में समर्थ तेरे ही

( युज्या ) सहयोगों, मित्रताओं और सहायताओं की ( वृणीमहे ) याचना करते हैं ।

ब्रह्मा त इन्द्र गिर्वणः क्रियन्ते अनतिद्भुता ।

इमा जुषस्व हर्यश्च योजनेन्द्र या ते अमन्महि ॥ ३ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( ते ) तेरे लिये ( अनतिद्भुता ) यथार्थ गुणानुरूप ( ब्रह्मा ) धन और स्तुतिवचन वा अन्नादि सत्कार ( क्रियन्ते ) किये जावें । हे ( गिर्वणः ) वाणी द्वारा सेवनीय ! वाणियों को प्रेमपूर्वक स्वीकार करने हारे ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( हर्यश्च ) अश्वोवत् मनुष्यों के स्वामिन् ! हम ( या ते ) तेरे लिये या जिन भी ( योजना ) उचित गुण भोगों की ( अमन्महि ) चिन्तना करते हैं तू ( इमा जुषस्व ) इन सबको स्वीकार कर ।

त्वं हि सत्यो मघवन्ननानतो वृत्रा भूरि न्यूञ्जसे ।

स त्वं शविष्ठ वज्रहस्त दाशुपेऽर्वाञ्च रयिमा कृधि ॥ ४ ॥

भा०—हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( अनानतः ) किसी से भी नहीं झुकता, ( त्वं हि सत्यः ) तू ही सत्य स्वरूप है । तू ( भूरि-वृत्रा ) बहुत से विघ्नों और विघ्नकारी दुष्ट पुरुषों को ( नि-ऋञ्जसे ) अपने वश करने में समर्थ है । हे ( शविष्ठ ) अति बलशालिन् ! हे ( वज्र-हस्त ) हाथ में बल, वीर्य और खड्ग धारण करने हारे ! ( त्वं ) तू ( दाशुपे ) दानशील को ( रयिम् अर्वाञ्च कृधि ) ऐश्वर्य प्राप्त करा ।

त्वमिन्द्र यशा असृज्जीपी शवसस्पते ।

त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इदनुत्ता चर्षणीधृता ॥ ५ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) शत्रुओं के हन्तः ! हे ऐश्वर्यप्रद ! ( त्वं यशाः असि ) तू यशस्वी है । हे ( शवसः पते ) बलों के पालक ! ( त्वं ऋजीपी असि ) तू सत्य मार्ग में सबको चलाने हारा और शत्रु को पीड़ित करने वाले सैन्यादि का शासक है । ( त्वं ) तू ( अप्रतीनि ) वे-मुकाबले के ( वृत्राणि )



मेवस्थ जलौवत् अति प्रबल दुष्टों और शत्रुओं को भी (एकः इत्) अकेला ही (हंसि) दण्डित करता है, और तू (चर्षणीधृता) समस्त मनुष्यों को धारण करने वाले बल से (अनुत्ता) अपराजित शत्रुओं को भी पराजित करता है ।

तमु त्वा नूनमसुर प्रचेतसं राधो भागमिवेमहे ।

महीवृ कृत्तिः शरणा त इन्द्र प्र ते सुम्ना नः अश्रवन् ॥६॥१३॥

भा०—हे ( असुर ) प्राण, जीवन के देने वाले ! हे बलशालिन् ! ( प्र-चेतसं ) उत्कृष्ट वित्त वाले ( त्वा ) तुझ से ( भागम् इव राधः इमहे ) अपने पिता से प्राप्तव्य भाग के समान ही हम धन की याचना करते हैं । ( ते ) तेरा ( कृत्तिः ) श्रमपूर्वक काट कर संग्रह करने योग्य खेती ( ते शरणा ) तेरी शरणदायिनी सम्पदा ( मही इव ) यह बड़ी भारी भूमि है हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( ते सुम्ना नः प्राश्रवन् ) तेरे दिये नाना सुख हमें खूब प्राप्त हों । इति त्रयोदशो वर्गः ॥

## [ ६१ ]

अपालात्रयी ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ आर्ची स्वराट् पंक्तिः ।  
२ पंक्तिः । ३ निचृदनुष्टुप् । ४ अनुष्टुप् । ५, ६ विराडनुष्टुप् । ७ पाद-  
निचृदनुष्टुप् ॥ सप्तर्चं सूक्तम् ॥

कन्यावारवायती सोममपि स्नुताविदत् ।

अस्तं भरन्त्यब्रवीदिन्द्राय सुनवै त्वा शक्राय सुनवै त्वा ॥ १ ॥

भा०—जिस प्रकार ( स्नुता ) बहती ( अवयती ) नीचे की ओर जाती ( वाः ) जल धारा ( सोमम् अपि विदत् ) ओषधि वर्ग को प्राप्त होती है उसी प्रकार ( वाः ) वरण करने वाली वरवर्णिनी, ( अवयती कन्या ) समझती बूझती हुई कन्या ( सोमम् ) पुत्रोत्पादन में समर्थ वीर्यवान् विद्याव्रत स्नातक पुरुष को ( स्नुता ) उसके प्रति प्रेमाकृष्ट होकर ( अपि विदत् ) पति रूप से प्राप्त करे ।

उस से विवाह करे । वह (अस्तं भरन्ती) गृह-आश्रम को भरण या धारण करती हुई (अग्रवीत्) कहे कि मैं (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान्, तेजस्वी-स्वामी होने के लिये (त्वा सुनवै) तेरा आदर करती हूँ, अथवा तुझे ही पुत्र रूप से उत्पन्न करने के लिये (त्वा) तुझे वरण करती हूँ । इसी प्रकार (शक्राय) शक्तिशाली स्वामी प्राप्त करने के लिये (त्वा सुनवै) तेरा सवन, पूजन करती हूँ ।

असौ य एपि वीरको गृहङ्गृहं वि चाकशत् ।

इमं जम्भसुतं पिव धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम् ॥२॥

भा०—(असौ) वह दूर देश का (यः) जो (वीरकः) वीर्य युक्त पुरुष (एपि) प्राप्त होता है वह तू (गृहं-गृहं) प्रत्येक गृह को (विचाकशत्) प्रकाशित करता है । हे विद्वन् ! तू (इमं) इस (जम्भसुतं) जन्म से ही दीप्तियुक्त वा जाया, स्त्री और उसके भरणकर्ता पति दोनों से उत्पन्न (धानावन्तं) आधान संस्कार से युक्त (करम्भिणम्) क्रियाकुशल, शौर्ययुक्त और (अपूपवन्तं) गृह से दूर और गुरु आचार्य आदि के समीप जाने वाले (उक्थिनं) उत्तम बालक का (पिव) पालन कर ।

करोतेरम्बच् प्रत्ययः ( उणा० )

आ चन त्वा चिकित्सामोऽधि चन त्वा नेमसि ।

शनैरिव शनकैरिवेन्द्रायेन्दो परि खव ॥ ३ ॥

भा०—हे पुरुष (त्वा आ चिकित्सामः) हम तुझे जानना चाहते हैं । (त्वा चन न अधि इमसि) हम तुझे अभी नहीं पहचान रहे हैं । हे (इन्दो) गुरु के समीप से नवागत सौम्य ! ऐश्वर्यवान् तेजस्विन् युवक ! तू (शनैः इव शनकैः इव) शनैः शनैः (इन्द्राय) स्वामी यां पति पद प्राप्त करने के लिये अधिक भागे बढ़, परिचित हो ।

जिस प्रकार बालक को आचार्य मातावत् अपने गर्भ में रखता और स्वीकार करता है उसी प्रकार प्रथम माता भी 'इन्दु या सोम' अर्थात् द्रुत

वीर्य को अपने गर्भ में धारण करती है। वह भी 'इन्द्र' अर्थात् अपने पति के ही निमित्त उसे धारण करती है। वह भी गर्भाशय में शनैः शनैः परिस्त्रवण करता कमल तक पहुँचता है। यह आशय भी मन्त्र में उपमित रूप में निहित है। इसी मन्त्र पर शाब्दायन ब्राह्मण का वचन है—“सोमपीथ इह वा अस्य भवति य एवं विद्वान् स्त्रियमुपजिघ्रतीति।”

कुविच्छकत्कुवित्करत्कुविज्ञो वस्यसुस्करत् ।

कुवित्पतिद्विषो यतीरिन्द्रेण सङ्गमामहै ॥ ४ ॥

भा०—वह पुरुष जो विवाह करना चाहता है ( कुवित् शकत् ) स्वयं भी बहुत समर्थ हो, हमें भी बहुत समर्थ करे वह स्वयं भी ( कुवित् करत् ) बहुत से कार्य करने में समर्थ हो। और वह ( नः ) हमें ( कुवित् ) बहुत प्रकार से ( वस्यसः करत् ) उत्तम धनादि ऐश्वर्य से सम्पन्न करे। ( कुवित् ) बहुतसी ( पतिद्विषः ) बन्धु भादि पालक जनों से प्रीति न करती हुई हम स्त्रियां ( यतीः ) घरों से पृथक् होकर ( इन्द्रेण ) ऐश्वर्यवान्, अन्न देने में समर्थ पुरुष से ही ( संग-मामहै ) संगत, सम्बद्ध हो जाती हैं इसलिये स्त्रियों के साथ विवाह करने वाले को चाहिये कि वह अपनी पत्नी को अधिक समर्थ करे, स्वयं भी श्रम-शील हो, स्त्रियों को उत्तम वस्त्र-आभूषणादि से भी सन्तुष्ट करे जिससे वह अपने पालक जन की निर्धनता से खिन्न होकर द्रव्यवानों के प्रलोभन में न जावें।

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा ।

पूज्या भूपयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।

तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।

भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च । मनु०अ०३।श्लो०५५, ५६, ५६ ॥

इमानि त्रीणि विष्टया तानीन्द्र वि रोहय ।

शिरस्तुतस्योर्वरामादिदं सु उपोदरे ॥ ५ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् पुरुष ! स्वामिन् (इमानि) ये (त्रीणि) तीनों पदार्थ (वि-तपा) संताप से रहित या अपक्व हों, (तानि) उन तीनों को तू ( वि रोहय ) विशेष रूप से उन्नत एवं वृद्धियुक्त, सफल होने दे, (१) ( ततस्य शिरः ) पिता के शिर को ऊंचा कर । अर्थात् विवाह करने वाले को प्रथम अपने वा कन्या के मातापिता के शिर पर के भार को कम करना, उस की चिन्ता को दूर करने का यत्न करना चाहिये जिस से वह कन्या को ले वा देकर भी पश्चात्ताप न करे।(२)(उर्वराम् वि रोहय)जिस प्रकार 'इन्द्र', सूर्य या मेघ उर्वरा भूमि पर बरस कर उसे अन्नादि से सम्पन्न करता है इसी प्रकार विवाहित युवक को चाहिये कि उर्वरा कन्या के साथ विवाह करके सन्तान उत्पन्न करे । (३)(आत् इदं मे उप-उदरे) और यह जो मुझ कन्या के उदर या पेट के समीप अंग या पेट में स्थित बीज गर्भ रूप से विद्यमान हो । हे (इन्द्र) वपन योग्य भूमि रूप स्त्री के गर्भ में इरा अर्थात् अन्नवत् बीज आधान करने हारे पुरुष ! तू उस को भी ( वि रोहय ) विशेष रूप से पुष्ट कर, सन्तान को पोषित कर, उस को अधबीच में नष्ट न होने दे ।  
 असौ च या न उर्वरादिमां तन्वंमम ।

अथो ततस्य यच्छिरः सर्वा ता रोमशा कृधि ॥ ६ ॥

भा०—( असौ च ) और वह ( या ) जो ( नः ) हम में से ( उर्वरा ) उत्तम अन्न-उत्पादक भूमिवत् सन्तान उत्पादक नारी हो उस को ( रोमशा कृधि ) पूर्ण यौवनचिह्नों से युक्त होने दे ! ( मम ) और मेरे ( इमां तन्वं ) इस शरीर को ( रोमशा ) रोमाञ्चित, पुलकित, पूर्ण वा पुष्टांग युक्त ( कृधि ) कर । ( अथो ) और ( ततस्य ) पिता का ( यत् शिरः ) जो शिर इस समय चिन्ताग्रस्त, उदास है उस को ( रोमशं कृधि ) रोमाञ्चित, पुलकित, चिन्तारहित कर ।

अथवा ( ततस्य शिरः ) सन्तानोत्पादक वर के शिर अर्थात् मुख को भी ( रोमशं कृधि ) मूँछ दाढ़ी वाला वा पूर्णायु होने दे । विवाहेंच्छुक पुरुष भी युवा हो । स्त्री भी युवती और उर्वरा हो ।

खे रथस्य खेऽनसः खे युगस्य शतक्रतो ।

अपालामिन्द्रं त्रिष्वपुत्व्यकृणोः सूर्यत्वचम् ॥ ७ ॥ १४ ॥

भा०—हे ( शतक्रतो ) अपरित ज्ञान और कर्म सामर्थ्य वाले ! तू ( रथस्य खे ) रथ के अवकाश में, फिर ( अनसः खे ) शकट के अवकाश में और ( युगस्य खे ) युग नामक यान के मध्य में इस प्रकार क्रम से ( अपालां ) अप्राप्तपति, कुमारी कन्या को ( त्रिः पूव्यी ) तीन प्रकार से लाकर ( सूर्यत्वचम् अकृणोः ) सूर्य के समान उज्ज्वल रंग-विरंगे वस्त्रों से आच्छादित कर ।

### सूक्त-समीक्षा

इस सूक्त में कई समस्याएं हैं—(मन्त्र १ म० ) 'अपाला' वह कन्या है जिसको पालक पति नहीं मिला इस प्रकार प्रत्येक कुमारी कन्या 'अपाला' है । इसी प्रकार ब्रह्मचारी युवा 'सोम' है । इसका स्पष्टीकरण अथर्व वेद में का० १-सू० ११ में देखो । 'सुता' वह कन्या है जो रजस्वला होकर स्नान कर लेती है । अथवा गुरुगृह में स्नातिका हो । इसी प्रकार 'सोम' शब्द वीर्यवान् पुरुष वा विद्या और व्रत द्वारा स्नातक दोनों अर्थों को कहता है ।

'विदत्'—कन्या जब पति को प्राप्त करती है वह 'पति का वेदन' करती है । 'विदत्' पद उसी प्रकार के विवाह द्वारा पति के वेदन को बतलाता है । (अस्तं) 'अस्त' गृह-आश्रम का वाचक है । उसको धारण करती कन्या पुरुष का सवन करे, आदर करे । क्यों ? उसको अपना स्वामी और अपना परम शक्तिमान् रक्षक बनाने के लिये । अर्थात् 'इन्द्र' और 'शक्र' ये दोनों 'पति' के पद की योग्यता को बतलाते हैं ।

( मं० २ ) उसी पुरुष को 'वीरक' कहा है । वही गृह २ को उज्ज्वल करता हुआ प्राप्त होता है । अर्थात् वही पुत्र होकर कुलदीपकवत् प्राप्त होता है । आगे कन्या पति को उसका कर्त्तव्य बतलाती है कि वह दोनों से उत्पन्न पुत्र का पालन करे ।

'जम्भ-सुत'—जाया च पतिश्च जम्पती । जायतेऽस्यां, जनयति इति वा जाया, विभक्तिं इति भः उभौ जम्भौ । ताभ्यामुत्पन्नो जम्भसुतः तं । ( धानवन्तं ) धानम् आधानं, गर्भाधानसंस्कारवन्तं । स्वयं विधिवद् आहितम् । 'करम्भिणं'—करस्त्रः, करम्भः । करोते रम्भच् प्रत्ययः । क्रियावान् कर्मकुशलः । ( अपूपवन्तं ) अप दूरे आचार्यगृहे उपवन्तं उपवीतवन्तं । मध्यमपदलोपः । 'उक्थिनं'—उक्थो वेदो गुरुपदेशो वा तद्वन्तम् ।

( मं० ३ ) पहले दोनों अपरिचित होते हैं वे दोनों परिचय प्राप्त करें । शनैः २ कन्या का पुरुष और पुरुष का कन्या परिचय प्राप्त करे फिर वे पति-पत्नी होने योग्य हैं । 'इन्दुः'—नव स्नातक कन्या के पति प्रेमाद्ग हो तो उस दशा में वह 'इन्दु' है, ऐश्वर्यवान् होने से भी 'इन्दु' है। परिचित होकर बाद में वह उसका पति अर्थात् 'इन्द्र' होने के लिये आवे ।

( मन्त्र ४ ) विवाहेच्छुक वर शक्तिमान् क्रियाकुशल हो, जो वधु को भी पर्याप्त वस्त्रालंकार दे सके । जिस की शक्ति, कमाई और धन-सम्पदा से आकृष्ट होकर कन्या अपने पालक माता पिता का मोह छोड़ 'इन्द्र' अर्थात् पति से संगत हो, उसी से दिल मिलाकर रहे ।

(पति-द्विपः)—यहां पति शब्द लौकिक पति का वाचक नहीं, प्रत्युत सामान्य प्रालक (Gardian) का वाचक है । वह सब बन्धु बान्धवों के प्रेम या मोह को त्याग कर भी पति के साथ हो लेती है । ऐसी दशा में यदि माता पितादि बाधक होते हैं तो वह उनके प्रति प्रेम, त्याग देती है और वर के साथ ही प्रेम बांधती है । वही 'अप्रीति' यहां 'द्विप' पद

का वास्तविक अर्थ है। 'द्विष् अप्रीतौ' द्विष् का अर्थ अप्रीति है। परन्तु वैर अर्थ में द्वेष पद रूढ़ हो गया है।

( मन्त्र ५ ) विष्टपा = वि-तपा । तप रहित या संतापरहित । तपरहित अपरिपक्व 'ततस्य शिरः' यहां 'तत' वा 'तात' शब्द प्रिय अर्थ में भी हैं। इसी से। 'पिता' 'पुत्र' दोनों के लिये भी प्रयुक्त होता रहा है। अथवा तनोति सन्ततिम् इति ततः। जो सन्तान उत्पन्न करे वह 'तत' है। इससे यहां प्रियपति का वाचक होकर वरने योग्य पुरुष के लिये कहा है। शिर शब्द मुख के लिये उपलक्षण है, उस का मूँछरहित मुख न होवे, विवाहेच्छुक के प्रति कन्या की तरफ से यह १ म शर्त्त है कि वह सम्बन्ध करने के पूर्व अपने मुख पर बाल आने दे, वेद में 'खलति' आदि शब्द नहीं हैं, अतः पिता का गंजा शिर अर्थ करना असंगत है। २सरी शर्त्त है 'उर्वरा' कन्या जिसमें अभी गर्भ ग्रहण की शक्ति नहीं आई है, उसे उस योग्य अर्थात् 'उर्वरा' होने दे। ( उर्वरा = उरु-वरा विशालवराङ्गदेशा । नितम्बिनीत्यर्थः ) अर्थात् स्त्री का नितम्ब भाग अच्छा पुष्ट हो। ३सरी शर्त्त है वधू के उदर के समीप के भाग में भी यौवन चिन्हरूप रोम ( Pubes ) उत्पन्न हो जावें। अंग्रेज़ी भाषा में स्त्री की यौवन दशा को 'Puberty' कहा जाता है। उन रोमों से ही यौवन की दशा को बतलाने का प्रकार वेद से लिया है।

अथवा—विवाह में बंधने वाली समझदार कन्या वर से तीन याचना करे, तीनों बातें 'विष्टप' दुःखरहित हों। ( १ ) ( ततस्य शिरः ) पिता का शिर संताप रहित हो, कन्या के विवाह के कारण पिता का शिर ऋणादि से ग्रस्त न हो, वह चिन्तातुर न हो, बहुत ऋणादि ग्रस्त होने या आर्थिक आघात लगने को भी 'सिर गंजा होना' चांद पर जूते लगाना आदि भावों से कहा जाता है। वह आशय वाद के कथाकारों ने व्यङ्ग्य में ले लिया प्रतीत होता है। ( २ ) 'उर्वरा' यदि पिता की भूमि उर्वरा नहीं

अर्थात् उस के गोत्र में कोई पुत्र नहीं तो अभ्रातृमती कन्या के पेट से उत्पन्न नाती ही उस के वंश का चलाने वाला हो। (मनु का पुत्र-पुत्रिका-विधान) (३) 'मे उपोदरे' मेरे उदर के पास गर्भाशय में रहे पुत्र का विशेष पालन करना पति का कर्त्तव्य हो अर्थात् जो कन्या का हाथ पकड़े उसे उसके गर्भस्थ सन्तान को पालना होगा, कन्या के माता पिता को नहीं। ऐसा बन्धन न हो तो बाद में पुरुषों में विलासिता और बढ़े। विवाहित स्त्रियां कष्ट में पड़ जावें और गर्भहत्याएं खूब हों। जहां ऐसा धार्मिक या नैतिक बन्धन नहीं वहां गर्भपात बहुत होते हैं।

(मन्त्र ६) ५ वें मन्त्र में कही बातों को ही पुनः कहा है, वे अत्यन्त आवश्यक होने से उन पर बल दिया गया है।

(मन्त्र ७) 'रथस्य खे', 'अनसः खे', 'युगस्य खे'—यहां रथ, अनस, और युग ये तीन प्रकार के यानों के नाम हैं। वेगवान् यान रथ है, शकट या बैलगाड़ी अनस है और इन के साहचर्य में युग भी अवश्यः कोई रथ है। पाणिनि ने भी 'युग्यं च पत्रे' रथ-या वाहनार्थ में युग्य-पद-निपातन से साधा है। कदाचित् जिस में स्त्री पुरुष की जोड़ी ही बैठ सके वह रथ 'युग' कहाता हो। 'ख' का अर्थ छिद्र यहां नहीं। यहां 'ख' का अर्थ अवकाश भाग है। प्रथम पितृगृह से विदा होते समय कन्या रथ में चढ़े, फिर लम्बा रास्ता बैलगाड़ी में और पति-गृह के समीप आकर स्वागत पूर्वक तीसरे धान 'युग' में चढ़े। इस स्वागत के अवसर पर वधू को रंगा हुआ उज्ज्वल वस्त्र पहन कर ही बैठना होता था, इस प्रकार यान द्वारा वधू का आगमन इन्द्र द्वारा कुमारी कन्या का त्रिःपवन करना है।

अथवा—पुरुष स्त्री की तीन प्रकार की परीक्षा ले, तीनों में शुचि पवित्र अर्थात् निर्दोष हो तो ग्रहण करे। 'रथस्य खे' रमण योग्य इन्द्रिय के छिद्र, वे पवित्र हों उन में रोग न हो गुह्यांगों के रोग सिफिलिस, सुजाक, प्रमेह, प्रदर सोमरोगादि न हो, (२) 'अनसः खे'



अन प्राणधारणे धातुः । प्राण-ग्रहण के छिद्र नाक, मुंह, फेफड़ा, उन में पीनस रोग, मुखपाक, वैरस्य और भ्रष्ट रोग की फुन्सियां और फेफड़ों में राजयक्ष्मा आदि न हो, ( ३ ) 'युगस्य खे' शरीर में जो युग अर्थात् जोड़ा जोड़ा इन्द्रिय हैं उन के छिद्रों में दोष, जैसे नाक दो हैं, उन में गन्धादि न होना या दुर्गन्ध होना या छोटी बड़ी टेढ़ी नाक न होना, आंखे दो हैं उन की विकृति न हो, काणी या छोटी, बड़ी, न हो, मुख के जवाड़े, हाथ पैर आदि विकृत लंगड़े लूले न हों । इस प्रकार तीनों में कन्या को पवित्र, शुचि जानकर वह पुरुष उसको सूर्य के समान उज्ज्वल, चमचमाते वस्त्र देता है मानो उज्ज्वल त्वचा अर्थात् आच्छादन वाला करता है ।

'अपाला' अत्रिसुता कहाती है । उसका तात्पर्य यह है कि स्मृतियों में आत्रेयी पद रजस्वलार्थ में रूढ़ है । वस्तुतः 'अत्रि' ही आत्रेयी है । स्वार्थ में तद्धित है । जो प्रथम रजस्वला होकर जिस के वर प्राप्त्यर्थ तीन वर्ष व्यतीत न हुए हों वह 'अत्रि' है 'नवयौवना' रजोधर्म युक्त ।

## [ ६२ ]

श्रुतकक्षः सुकक्षो वा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ विराडनुष्टुप्  
२, ४, ८—१२, २२, २५—२७, ३० निचृद् गायत्री । ३, ७, ३१,  
३३ पादनिचृद् गायत्री । ५ आर्ची स्वराड् गायत्री । ६, १३—१५, २८  
विराड् गायत्री । १६—२१, २३, २४, २६, ३२ गायत्री ॥ त्रयस्त्रिंशदृचं सूक्तम् ॥

पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत ।

विश्वासाहं शतक्रतुं मंहिष्ठं चर्षणीनाम् ॥ १ ॥

भा०—आप लोग ( वः ) आप के ( अन्धसः पान्तम् ) खाद्य पदार्थों के रक्षक ( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान् की ( अभि प्र गायत ) अच्छी प्रकार स्तुति करो । और ( विश्व-साहं ) सब को जीतने वाले, ( शत-क्रतुं ) सैकड़ों

कर्मों वाले, ( चर्पणीनां ) मनुष्यों के बीच ( मंहिष्ठं ) सब से अधिक दानी पुरुष की ( अभि प्रगायत ) अच्छी प्रकार स्तुति करो ।

पुरुहूतं पुरुष्टुतं गाथान्यं॑ सनश्रुतम् ।

इन्द्र इति॑ ब्रवीतन ॥ २ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! ( पुरुहूतं ) बहुतों से पुकारने योग्य, बहुतों से स्वीकृत ( पुरुस्तुतं ) बहुतों से प्रस्तुत, प्रशंसित ( गाथान्यं ) गुण गान करने योग्य, वा 'गाथा' वेदवाणी में प्रसिद्ध, ( सनश्रुतम् ) सनातन काल से श्रवण योग्य, वा सनातन ज्ञान वेद का बहुश्रुत विद्वान् वा सन अर्थात् दान के कारण प्रसिद्ध पुरुष को ( इन्द्रः इति ब्रवीतन ) 'इन्द्र' इस प्रकार कहो उसका नाम 'इन्द्र' रखो ।

इन्द्र इन्नो महानां॑ दाता वाजानां॑ नृतुः । सहाँ अभिज्ञु॑वा यमत् ३

भा०—( इन्द्रः इत् ) वह परम ऐश्वर्यवान् ही ( नः महानां ) बड़े पूज्य गुणों का और ( वाजानां ) ऐश्वर्यों वा, ज्ञानों का ( दाता ) देने वाला, और ( महान् नृतुः ) बड़ा भारी नेता, संब्वालक है वह (अभिज्ञु) उत्तम ज्ञानसम्पन्न होकर ( नः आ यमत् ) हमें सद् व्यवस्था में रखे । अथवा वह ( अभिज्ञु ) आगे गोडे किये, विनीत हमें प्राप्त हो ।

अपादु॑ शिष्यन्धसः॑ सुदक्षस्य॑ प्रहोषिणः॑ ।

इन्द्रोरिन्द्रो॑ यवाशिरः॑ ॥ ४ ॥

भा०—( शिषी ) सुकुट धारण करने हारा, मुख-नासिकादि में सुन्दर, ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् पुरुष ( सुदक्षस्य ) उत्तम ज्ञान और बल से युक्त ( प्र-होषिणः ) उत्तम रीति से बलादि देने वाले, ( यवाशिरः ) यवादि अन्नों से मिलाकर पकाये, ( इन्द्रोः ) दीप्ति-तेजोदायक ( अन्धसः ) स्वादु अन्न को ( अपात् ) पान करे और उसकी रक्षा करे । इसी प्रकार वह ( सुदक्षस्य ) उत्तम बलशाली ( प्र-होषिणः ) उत्तम दानी ( इन्द्रोः )

आर्द्रं हृदय, दयालु ( यवाशिरः ) शत्रुनाशक जनों के प्रमुख ( अन्धसः )  
अन्नादि के भोक्ता, जन को ( अपाद्-उ ) वह ऐश्वर्यवान् पालन करे ।

तम्बभि प्रार्चतेन्द्रं सोमस्य पीतये ।

तदिद्धर्घस्य वर्धनम् ॥ ५ ॥ १५ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! आप लोग ( सोमस्य पीतये ) ऐश्वर्य अन्नादि के  
पान और पालन या रक्षा के निमित्त आप ( तम् इन्द्रम् अभि प्रार्चत )  
उसी ऐश्वर्यवान् की स्तुति करो, ( तत् इत् हि अस्य वर्धनम् ) वह ही  
उस को बढ़ाने वाला है । इति पञ्चदशो वर्गः ॥

अस्य पीत्वा मदानां देवो देवस्यौजसा विश्वाभि भुवना भुवत् ष

भा०—(मदानां देवस्य) हर्ष, वृत्ति और सुख के देने वाले (अस्य)  
इस उत्तम अन्न, प्रजा जन व जगत् का ( पीत्वा ) पान, उपभोग और  
पालन करके ( देवः ) वह तेजस्वी पुरुष स्वामी ( ओजसा ) पराक्रम से  
( विश्वा भुवना अभि भुवत् ) समस्त लोकों को अपने वश करता है ।

त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीर्ण्वायतम् । आ च्यावयस्युतये ७

भा०—हे विद्वन् ! ( त्यम् उ ) उस ही ( सत्रासाहं ) समवाय और  
सत्य के बल से सब को पराजित करने वाले ( विश्वासु गीर्ण्व ) समस्त  
वाणियों वा विद्याओं में ( आयतम् ) प्रसिद्ध, कुशल, व्यापक पुरुष को  
( उतये ) रक्षा, ज्ञान-प्राप्ति आदि के निमित्त ( वः आच्यावयसि ) आप  
लोगों को प्राप्त करो ।

युध्मं सन्तमन्वर्षाणि सोमपामनपच्युतम् ।

नरमवार्यक्रतुम् ॥ ८ ॥

भा०—( युध्मं ) युद्धकुशल दुष्टों को ताड़ने हारे, ( सन्तम् ) सत्-  
स्वरूप, ( अनवर्षाणि ) अद्वितीय, ( सोमपाम् ) जगत् के पालक, ( अनप-  
च्युतम् ) अविनाशी, ध्रुव, स्थिर, अपने स्वरूप या स्थान से च्युत न होने  
वाले, ( अवार्य-क्रतुम् ) अन्यो से न हटाये जाने योग्य, दृढ़ पराक्रम वाले,

वा अकाव्य युक्तिमान् ( नरम् ) सर्वं नायक पुरुष को हे विद्वन् ! तू प्राप्त करा ।

शिक्षां ए इन्द्र राय आ पुरु विद्वान् ऋचीषम ।

अवा नः पार्ये धने ॥ ९ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( ऋचीषम ) यथार्थ गुण स्तुति वाले ! तू ( नः ) हमें ( पुरु रायः शिक्ष ) बहुत धन प्रदान कर । तू ( विद्वान् ) ज्ञानवान् होकर ( नः ) हमें ( पार्ये धने ) पालन योग्य धन, वा शत्रुओं के धन के निमित्त वा संग्राम में ( अव ) रक्षा कर, वहाँ तक पहुँचा ।

अतश्चिदिन्द्र ए उपा याहि शतवाजया ।

इषा सहस्रवाजया ॥ १० ॥ १६ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( अतः ) इसी कारण ( नः ) हमें तू ( शत-वाजया सहस्र-वाजया ) सैकड़ों, सहस्रों बल, ज्ञान, अन्न वेगादि से युक्त ( इषा ) इच्छा शक्ति, प्रेरणा और अन्न, सेनादि के साथ ( उप-आ याहि ) प्राप्त हो । इति षोडशो वर्गः ॥

अयाम धीवतो धियोऽर्वद्भिः शक्र गोदरे ।

जयेम पृत्सु वज्रिवः ॥ ११ ॥

भा०—हे ( शक्र ) शक्तिशालिन् ! अन्यों को शक्ति देने हारे ! हम ( धीवतः ) कर्म और ज्ञानवान् पुरुष के ( धियः ) कर्मों और ज्ञानों को ( अयाम ) प्राप्त करें । हे ( गो-दरे ) गौ भूमि के विदारण-कार्य में कुशल कृपि करने वाले ! हे ( गो-दरे ) वाणी के मर्मों को खोल कर बतलाने हारे, वा भूमि या वाणी के धारक ! हे ( वज्रिवः ) बलशालिन् शस्त्रधर ! हम ( अर्वद्भिः ) अश्वों, वीर सैनिकों द्वारा ( पृत्सु जयेम ) संग्रामों में विजय लाभ करें ।

व्यमु त्वा शतक्रतो गावो न यवसेष्वाम् । उक्थेषु रणायामसि १२

भा०—हे (शत-ऋतो) अपरिमित ज्ञान और कर्म वाले ! (वयम् उ) हम ( त्वा ) तुझे ( उक्थेषु ) उत्तम वचनों से (यवसेषु गावः न) भुस आदि के निमित्त गौ के समान ( त्वा रणयामः ) तुझे प्रसन्न करते हैं ।

विश्वा हि मर्त्यत्वानानुकामा शतऋतो ।

अगन्म वज्रिन्नाशसः ॥ १३ ॥

भा०—हे ( शत-ऋतो ) अमित ज्ञानवन् ! अभित शक्तिशालिन् ! हे ( वज्रिन् ) बल वीर्यवन् ! शस्त्रबल के स्वामिन् ! हम ( विश्वा हि ) समस्त ( मर्त्यत्वना ) मनुष्योचित ( अनुकामा ) कामनाओं और ( आशसः ) आशाओं को ( अगन्म ) प्राप्त करें ।

त्वे सु पुत्र शवसोऽवृत्रन्कामकातयः ।

न त्वामिन्द्रार्ति रिच्यते ॥ १४ ॥

भा०—( शवसः पुत्र ) बल के द्वारा बहुतों के रक्षक ! ( काम-कातयः ) अपने नाना अभिलाषाओं को कहने वाले लोग ( त्वे सु अवृत्रन् ) तेरे अधीन सुख से रहते हैं । हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( त्वाम् न अति-रिच्यते ) तुझ से कोई बढ़कर नहीं है ।

स नो वृषन्त्सनिष्ठया सं घोरया द्रवित्त्वा ।

धियाविद्धि पुरन्ध्या ॥ १५ ॥ १७ ॥

भा०—हे ( वृषन् ) बलशालिन् ! उत्तम प्रबन्धक ! ( सः ) वह तू ( सनिष्ठया ) उत्तम विभाजक, दानशील, ( घोरया ) शत्रु को भय देने वाली, ( द्रवित्त्वा ) वेग से जाने वाली ( पुरन्ध्या ) बहुतों की पालक ( धिया ) बुद्धि और क्रिया वा नीति से ( नः अविद्धि ) हमारा पालन कर । इति सप्तदशो वर्गः ॥

यस्ते नूनं शतऋतविन्द्रं द्युमिनतमो मदेः ।

तेन नूनं मदे मदेः ॥ १६ ॥

भा०—हे ( शत-ऋतो ) अपरिमित बलशालिन् ! हे ( इन्द्र ) ऐश्व-

र्यवन् ! ( नूनं ) निश्चय ही ( ते ) तेरा ( यः ) जो ( द्युग्नि-तमः ) अति  
यशो-जनक ( मदः ) हर्ष है ( तेन ) उस से ( मदे ) सब को वृक्ष प्रसन्न  
हर्षित करने में तू ( मदेः ) स्वयं हर्षित हो ।

यस्ते चित्रश्रवस्तमो य इन्द्र वृत्रहन्तमः ।

य ओजोदातमा मदः ॥ १७ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( यः ) जो ( ते ) तेरा ( चित्र-श्र-  
वस्तमः ) आश्चर्यकारक श्रवण करने योग्य अद्भुत और ( यः वृत्रहन्तमः )  
शत्रुओं को खूब दण्डित करने वाला और ( यः ओजो-दातमः ) पराक्रम  
को देने वाला ( मदः ) आनन्द वा हर्ष है तू उससे हमें भी सुखी कर ।

विद्महि यस्ते अद्रिवस्त्वादत्तः सत्य सोमपाः ।

विश्वासु दस्म कृष्टिषु ॥ १८ ॥

भा०—हे ( अद्रिवः ) मेघवत् उदार जनों और पापाणवत् शत्रुनाशक  
जनों के स्वामिन् ! हे ( सत्य ) न्यायनिष्ठ ! हे ( दस्म ) शत्रुनाशन !  
हे ( सोमपाः ) प्रजावत् ऐश्वर्य के पालक ! भोक्ता ! अन्नोषधि-के पान  
करनेहारे ! ( यः त्वादत्तः ) जो तेरे द्वारा दिया हुआ ( विश्वासु कृष्टिषु )  
समस्त मनुष्यों में ऐश्वर्य है हम ( ते विद्महि ) अवश्य उसे तेरा ही जानें ।

इन्द्राय मद्दने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः ।

अर्कमर्चन्तु कारवः ॥ १९ ॥

भा०—( मद्दने ) हर्ष से युक्त ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान् स्वामी के लिये  
( नः गिरः सुतं परि स्तोभन्तु ) हमारी वाणी उसके ऐश्वर्य की स्तुति करे ।  
और ( कारवः ) विद्वान् नागमी लोग ( अर्कम् अर्चन्तु ) उस पूज्य जन की  
अर्चना करें ।

यस्मिन्विश्वा अधि श्रियो रणान्ति सप्त संसदः ।

इन्द्रं सुते हवामहे ॥ २० ॥ १८ ॥

भा०—( यस्मिन् अधि ) जिसके आश्रय ( विश्वाः श्रियः रणान्ति )

सब सम्पदायें वा आश्रित प्रजाएं शोभा पातीं और सुख प्राप्त करती हैं और जिसके अधीन ( सप्त संसदः ) साथ बैठने वाले सात सचिव ( रणन्ति ) उसको उत्तम ज्ञानोपदेश करते हैं उस ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् को ( सुते ) अभिषेक युक्त राज्य पर आह्वान करते हैं । अध्यात्म में ( सप्त संसदः ) सात प्राणगण । इत्यष्टादशो वर्गः ॥

त्रिक॑द्रुके॒षु चेत॑नं दे॒वासी॑ यु॒क्षम॑त्नत तमि॒द्वर्ध॑न्तु नो गि॒रः ॥२१॥

भा०—(त्रि-ऋद्रुकेषु) तीनों लोकों में (चेतनं यज्ञम्) सबको चेतना देने वाले पूज्य पुरुष को (देवासः अन्नत) विद्वान् गण, आत्मा को इन्द्रियों के समान प्राप्त करते हैं, ( तम् इत् नः गिरः वर्धन्तु ) उसको ही हमारी वाणियां बढ़ाती हैं, उसी का गुण गान करती हैं ।

आ त्वा॑ विश॒न्तिव॑न्द॒वः समु॑द्रमि॒व सि॒न्धवः॑ ।

न त्वा॑मिन्द्रा॒ति रि॒च्यते ॥ २२ ॥

भा०—(समुद्रम् इव सिन्धवः) नदियां जिस प्रकार समुद्र में प्रवेश करती हैं उसी प्रकार ( इन्द्रवः त्वा आविशन्तु ) समस्त ऐश्वर्य और विद्वान् जीवगण प्रभो ! तुझमें प्रवेश करें । हे ( इन्द्र न त्वाम् अति रिच्यते ) ऐश्वर्यवन् ! तुझसे कोई बढ़ कर नहीं है ।

वि॒व्यक॑थं म॒हिना॑ वृ॒पन्भ॑क्षं सोम॑स्य जागृ॒वे ।

य इन्द्र॑ ज॒ठरे॑षु ते ॥ २३ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( यः ) जो तेरे ( जठरेषु ) उदरों में, तेरे अधीन है, हे ( जागृवे ) जागरणशील ! हे ( वृपन् ) बलशालिन् ! तू उस ( सोमस्य भक्षं ) महान् ऐश्वर्य के सेवनीय अंश को ( महिना ) अपने महान् सामर्थ्य से ( विव्यकथ ) व्याप्त है ।

अ॒रं त इन्द्र॑ कु॒क्षये॑ सोमो॑ भवतु वृ॒त्रह॑न् ।

अ॒रं धाम॑भ्य॒ इन्द्र॑वः ॥ २४ ॥

भा०—हे ( वृत्र-हन् ) पाप के नाशक ! हे ( इन्द्र ) शत्रुहन्तः !

( सोमः ) ऐश्वर्यं ( ते कुक्षये अरं भवतु ) तेरे कोश के लिये बहुत हो ।  
( इन्द्रवः धामभ्यः अरं भवन्तु ) ऐश्वर्यं और वेगवान् सैन्य गण तेरे तेजों की वृद्धि के लिये बहुत हों ।

अरुमश्वाय गायति श्रुतकक्षो अरं गवे ।

अरुमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ २५ ॥

भा०—( श्रुत-कक्षः ) श्रुत, वेद को अवगाहन करने वाला, वा कक्षा अर्थात् वेदवाणी का श्रवण करने वाला विद्वान् जन, ( अश्वाय गवे धाम्ने ) उसके अश्व, गौ और तेज की ( अरं अरं गायति ) खूब खूब स्तुति करता है अर्थात् उस प्रभु का बल, वाणी और तेज बहुत है ।

अरं हि ष्मा सुतेषु णः सोमेष्विन्द्र भूपसि ।

अरं ते शक्र दावने ॥ २६ ॥ १९ ॥

भा०—( नः सुतेषु सोमेषु ) हमारे उत्पन्न ऐश्वर्यों के आधार पर तू ही ( अरं भूपसि हि ष्म ) बहुत पर्याप्त समर्थ हो । हे ( शक्र ) शक्तिशालिन् ! ( ते दावने अरम् ) तुझ दाता के लिये भी ऐश्वर्य बहुत अधिक-प्राप्त हों । इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

पराकात्ताच्चिदद्विषस्त्वां नक्षन्त नो गिरः ।

अरं गमाम ते वयम् ॥ २७ ॥

भा०—( पराकात्तात् चित् ) दूर से भी दूर से हे ( अद्विवः ) शक्तिमन् ! ( नः गिरः त्वां नक्षन्त ) हमारी वाणियां तुझ तक पहुंचती हैं । ( वयम् ते अरं गमाम ) हम तुझ से बहुत कुछ प्राप्त करें ।

एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः ।

एवा ते राध्यं मनः ॥ २८ ॥

भा०—तू ( वीर-युः एव हि असि ) वीरों को चाहने वाला है । हे ( शूर ) शूरवीर ! ( उत त्वं स्थिरः एव हि असि ) और तू स्थिर ही है । ( ते मनः एव राध्यं ) तुझे मन को भी वश करना चाहिये ।



ए॒वा रा॒तिस्तु॑वी॒मघ॑ विश्वे॑भिर्घायि धा॒तृभिः॑ ।

अ॒र्घा चिदिन्द्र॑ मे स॒चा ॥ २९ ॥

भा०—हे ( तुवी-मघ ) बहुत धन के स्वामिन् ! ( रातिः एव ) तेरा दान ही ( विश्वेभिः धातृभिः घायि ) सब पोषक जन धारण करते हैं । हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( अधचित् मे सचा ) और तू ही मेरा सहायक है ।

मो षु ब्र॒ह्मे व॑ तन्द्र॒युर्भुवो॑ वा॒जानां॑ पते ।

मत्स्वा॑ सु॒तस्य॑ गो॒मतः॑ ॥ ३० ॥

भा०—हे ( वाजानां पते ) ज्ञानों, ऐश्वर्यों, बलों, और सेनाओं के पालक ! हे ज्ञानों के पालक ! ( ब्रह्मा इव ) चतुर्वेदवित् ब्राह्मण विद्वान् यज्ञ के ब्रह्मा के समान तू ( तन्द्रयुः मो सु भुवः ) आलस्य से युक्त मत हो । तू ( गोमतः सुतस्य ) गो दुग्ध से युक्त अन्नादि से ( मत्स्व ) वृत्त हो ।

मा न॑ इन्द्रा॒भ्यादि॑शः॒ सूरौ॑ अ॒क्रुष्वा॑ य॒मन् ।

त्वा यु॒जा वने॑म॒ तत् ॥ ३१ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे शत्रुहन्तः ! ( नः ) हमें ( आदिशः ) आदेशा शासक और ( सूरः ) विचरणशील तेजस्वी लोग ( अक्षुषु ) रात्रिकाल में ( मा आयमन् ) मत बांधें । ( त्वा युजा ) तुझ सहायक से हम ( तत् वनेम ) उन दुष्ट जनों का नाश करें ।

त्वयेदिन्द्र॑ यु॒जा व॒यं प्रति॑ ब्रुवी॒महि॑ स्पृ॒धः ।

त्वस्म॑स्माकं॒ तव॑ स्मसि ॥ ३२ ॥

भा०—( त्वया इत् युजा ) तुझ सहायक से ही ( वयं ) हम ( स्पृधः ) स्पर्धा करने वालों का ( प्रति ब्रुवीमहि ) प्रति वचन वा उत्तर दे सकें । हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! विद्वन् ! ( त्वम् अस्माकम् ) तू हमारा है और हम ( तव स्मसि ) तेरे हैं ।

त्वामिद्धि॑ त्वा॒यवो॑ऽनु॒नोनु॑वत॒श्चरान्॑ ।

सखा॑य इन्द्र॒कारवः॑ ॥ ३३ ॥ २० ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (कारवः) स्तुतिकर्ता (सखायः) मित्रगण (त्वायवः) तुझे ही चाहते हुए, और (त्वाम् इत् हि अनु नो नुवतः) तुझे ही प्रतिदिन स्तुति करते हुए (चरान्) व्रताचरण करें । इति विंशो वर्गः ॥

[ ६३ ]

सुकक्ष ऋषिः ॥ १—३३ इन्द्रः । ३४ इन्द्र ऋभवश्च देवताः ॥ छन्दः—

१, २४, ३३ विराड् गायत्री । २—४, १०, ११, १३, १५, १६, १८, २१, २३, २७—३१ निचृद् गायत्री । ५—६, १२, १४, १७, २०, २२, २५, २६, ३२, ३४ गायत्री । १६ पादनिचृद् गायत्री ॥

उद्धेदमि श्रुतामघं वृषमं नर्यापसम् । अस्तारमेषि सूर्य ॥ १ ॥

भा०—हे (सूर्य) सूर्यवत् तेजस्विन् ! तू (श्रुत-मघं) उत्तम धन-में प्रसिद्ध, (वृषमं) बलवान् (नर्यापसं) मनुष्यों के हितकारी कार्य-करने वाले, (अस्तारम्) शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले मनुष्य को तू (व-इत् उत् एषि) प्राप्त होकर अवश्य उदय को प्राप्त हो ।

नव यो नवतिं पुरो विभेदं बाहोजसा । अहिं च वृत्रहावधीत् २

भा०—(यः) जो (बाहोजसा) बाहु के पराक्रम से (नव-नवतिं) ९९ (पुरः) प्रकोटों को (विभेद) तोड़ने में समर्थ है वह (वृत्र-हा) शत्रुनाशक राजा (अहिं च अवधीत्) सूर्य को मेघ के समान सन्मुख भाये शत्रु को नाश करे ।

स न इन्द्रः शिवः सखाश्वावद्गोमृद्यवमत् ।

उरुधारेव दोहते ॥ ३ ॥

भा०—(सः) वह (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् (शिवः) कल्याणकारक, सब में व्यापक, सब सुखों का दाता, (सखा) सब का मित्रवत् प्रिय (अश्वावत् गोमृत्, यवमत्,) अश्व, गौ, और यव से सम्पन्न (उरु-धारा इव) बहुतों की पोषक भूमि, वा बहुत धारा वाली गौ के समान,

चा बड़ी विशाल वेद वाणी के समान ( दोहते ) हमें सुख ज्ञानादि प्रदान करे ।

यद्द्य कच्च वृत्रहृद्गा अभि सूर्य । सर्वं तदिन्द्र ते वशे ॥ ४ ॥

भा०—हे (वृत्रहन्) विघ्नों के नाशक ! (अथ यत् कत् च अभि उत् अगाः ) जिस किसी को भी लक्ष्य कर तू आज वा कभी उठ खड़े होने में समर्थ है वह जब चाहे, तू किसी भी पदार्थ को उत्तम रीति से प्राप्त कर सकता है । ( तत् सर्वं ते वशे ) वह सब कुछ तेरे ही वश में है ।

यद्वा प्रवृद्ध सत्पते न मरु इति मन्यसे ।

उतो तत्सत्यमित्तव ॥ ५ ॥ २१ ॥

भा०—हे (सत्-पते) सज्जनों एवं सत् अर्थात् नित्य पदार्थों के पालक स्वामिन् ! हे ( प्रवृद्ध ) महान् ! ( यद् वा न मरु इति मन्यसे ) जो तू समझता है कि मैं कभी नहीं मर सकता सो ( तत् ) वह समझना ( तव सत्यम् इत् ) तेरा सत्य ही है । तू भविनाशी, अमृत, अजर, नित्य आत्मा है । इत्येकविंशो वर्गः ॥

ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे ।

सर्वास्ताँ इन्द्र गच्छसि ॥ ६ ॥

भा०—( ये ) जो ( परावति ) दूर देश में और ये ( अर्वावति ) समीप देश में भी ( सोमासः ) अन्न, ओषधि वर्ग, रत्नादि ऐश्वर्य ( सुन्विरे ) उत्पन्न हों, हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( तान् सर्वान् गच्छसि ) उन सब को प्राप्त कर ( २ ) पास और दूर के सब उत्पन्न वालकों को आचाय पढ़ावे । ( ३ ) पास दूर सब जीव वा लोकगण प्रभु को प्राप्त हैं ।

तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे ।

स वृषा वृषभो भुवत् ॥ ७ ॥

भा०—( तम् इन्द्रम् ) उस शत्रुहन्ता, सूर्यवत् तेजस्वी को हम ( वृत्राय हन्तवे ) बड़े भारी, बढ़ते शत्रु वा वृष; नाश करने के

लिये ( वाजयामसि ) अधिक बलवान् करते हैं । ( सः वृषाः ) वह बल-  
वान् पुरुष ही ( वृषभः भुवत् ) सब सुखों, ऐश्वर्यों का दाता सर्वश्रेष्ठ है ।

इन्द्रः स दामने कृत ओजिष्ठः स मदे हितः ।

द्युम्नी श्लोकी स सोम्यः ॥ ८ ॥

भा०—(इन्द्रः) वह ऐश्वर्यवान् शत्रुहन्ता, तेजस्वी पुरुष (ओजिष्ठः)  
सब से अधिक पराक्रमशाली होकर ही ( दामने कृतः ) सब को भृति-  
वृत्ति देने और प्रजा को दमन करने के कार्य पर नियुक्त होता है । ( सः  
मदे हितः ) वही सब को हर्षित करने के लिये स्थापित है, वह ( द्युम्नी )  
यशस्वी, वह (श्लोकी) कीर्तिवान्, ( सः सोम्यः ) वह सोम अर्थात् अन्न,  
जल, ऐश्वर्यादि से सत्कार करने योग्य है ।

गिरा वज्रो न सम्भृतः सर्वलो अनपच्युतः ।

ववक्ष ऋष्वो अस्तृतः ॥ ९ ॥

भा०—( वज्रः न ) शत्रु के समान अति तीक्ष्ण ( गिरा सम्भृतः )  
वाणी द्वारा अच्छी प्रकार धारित, एवं ( स-बलः ) बलशाली, ( अन-  
पच्युतः ) शत्रुओं से अपराजित, ( अस्तृतः ) अबाधित, ( ऋक्षः ) महान्  
( ववक्ष ) समस्त ऐश्वर्य पद को धारण करता है । ( २ ) प्रभु ( अनप  
च्युतः ) अप्राप्य, अवाङ्मनसगोचर है । वह ( ववक्ष ) समस्त जगत् को  
धारण कर रहा है ।

दुर्गे चिन्नः सुगं कृधि गृणान इन्द्र गिर्वणः ।

त्वं च मघवन्वशः ॥ १० ॥ २२ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( गिर्वणः ) वाणी द्वारा सेवनीय !  
हे विद्वन् ! तू ( गृणानः ) स्तुति किया जाता हुआ, वा हमें उपदेश  
करता हुआ हे विद्वन् ! ( नः ) हमारे लिये ( दुर्गे ) दुर्गम स्थान में  
भी ( सुगं कृधि ) सुगम मार्ग कर । हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! ( त्वं च  
नः वशः ) और तू सदा हमें प्रेम से चाह और हमें अपने वश में रख ।  
इति द्वाविंशो वर्गः ॥

यस्य ते नू चिदादिशं न मिनन्ति स्वरराज्यम् ।

न देवो नाध्रिगुर्जनः ॥ ११ ॥

भा०—( यस्य ते ) जिस तेरे ( आदिशं ) आदेश को और ( स्वराज्यम् ) तेरे अपने राज्य को ( नूचित् ) भी ( न मिनन्ति ) कोई भंग नहीं करते । ( न देवः ) न सूर्यवत् तेजस्वी और ( न अध्रिगुः जनः ) न वे रोक जाने वाला, पराक्रमी ही तेरे आदेश को भंग करता है ।

अर्धा ते अप्रतिष्कृतं देवी शुष्मं सपर्यतः । उभे सुशिप्र रोदसी १२ ।

भा०—( अध ) और हे ( सुशिप्र ) उत्तम बलशालिन् तेजस्विन् ! ( उभे रोदसी ) दोनों सूर्य पृथ्वीवत्, प्रबल निर्बल वा स्व, पर सेनाएं, ( देवीः ) विजयेच्छुक होकर भी ( ते ) तेरे ( अप्रतिष्कृतं ) अनुपम, ( शुष्मं ) बल की ( सपर्यतः ) सेवा, आदर करती हैं । ( २ ) उस परमेश्वर के बल की यह आकाश और पृथिवी दोनों सेवा करती हैं ।

त्वमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च । परुष्णीषु रुशत्पयः १३

भा०—( कृष्णासु ) काली ( रोहिणीषु च ) और रक्त वर्ण की ( परुष्णीषु ) गौओं में ( त्वम् एतत् रुशत् पयः आधारयः ) तू ही इस चमकते दूध को धारण कराता है । अथवा—हे प्रभो ! तू ( कृष्णासु ) कृषि करने योग्य भूमियों में ( रुशत् पयः ) चमकता लहलाता अन्न, ( रोहिणीषु ) उगने वाली ओषधि में तेजोयुक्त तीक्ष्ण रस और ( परुष्णीषु ) कुटिलगामिनी नदियों में जल वा, पर्व २ पर उष्ण देह की नाडियों द्वारा उज्ज्वल रुधिर को तू ही वृष्टि द्वारा सूर्यवत् धारण कराता है ।

वि यदहेरधं त्विषो विश्वे देवासो अक्रमुः ।

विदन्मृगस्य तां अमः ॥ १४ ॥

भा०—( अध ) और ( यद् ) जब ( विश्वे देवासः ) सब विद्वान्, तेजस्वी लोग ( अहेः त्विषः ) मेघ की विद्युत् कान्तियों वा ( अहेः त्विषः ) सूर्य की कान्तियों के सदृश ( अहेः त्विषः ) आगे बढ़ते वीर के तेजों को

( अक्रमुः ) प्राप्त करते हैं अब ( तान् ) उनको ( मृगस्य ) सिंह के समान वीर वा अति शुद्ध तेजस्वी प्रभु का ( अमः ) बल ( विदत् ) प्राप्त होता है ।

आदु मे निवरो भुवद्वृत्रहादिष्ट पौंस्यम् ।

अजातशत्रुरस्तृतः ॥ १५ ॥ २३ ॥

भा०—( भात् उ ) अनन्तर ही वह ( मे निवरः ) मुझ प्रजागण के समस्त कष्टों का निवारण करने वाला, ( भुवत् ) होता है । वह ( वृत्रहा ) दुष्टों का नाशक वीर, मेघों के छेदक भेदक विद्युत् वा सूर्य के समान ( पौंस्यम् अदिष्ट ) बल पराक्रम को करता है । ( अजात-शत्रुः अस्तृतः ) तब उस का कोई शत्रु नहीं रहता और फिर वह विनष्ट नहीं होता । ( २ ) प्रभु परमेश्वर सब कष्टों का निवारक, दुष्टनाशक है, वह हमें बल दे । उस का कोई शत्रु नहीं, वह अविनाशी है । इति त्रयोविंशो वर्गः ॥

श्रुतं वो वृत्रहन्तमम्प्र शर्धं चर्षणीनाम् ।

आ शुपे राधसे महे ॥ १६ ॥

भा०—( वः ) आप लोगों में से आपके ( वृत्र-हन्तमम् ) सब विघ्नों के नाशक ( चर्षणीनां ) मनुष्यों में ( श्रुतं ) प्रसिद्ध ( शर्धं ) बलवान् पुरुष को ( शुपे ) शत्रुओं के शोषण और ( महे राधसे ) बड़े भारी धन प्राप्त करने के लिये ( प्र आ ) अच्छी प्रकार प्राप्त करो ।

अथा धिया च गव्यया पुरुणाम्पुरुष्टुत ।

यत्सोमे सोम आभवः ॥ १७ ॥

भा०—हे ( पुरु-नामन् ) बहुत से नामों वाले ! बहुतों को नमाने हारे ! हे ( पुरु-स्तुत ) बहुतों से स्तुति करने योग्य ! ( यत् ) जो तू ( सोमे-सोमे ) प्रत्येक 'सोम', ऐश्वर्य प्रत्येक जीव और प्रत्येक बल पर ( आभवः ) सामर्थ्यवान् है उस-तुझे हम ( अथाः ) इस ( गव्यया धिया

च ) वाणी से युक्त क्रिया द्वारा तेरी सेवा करते हैं । अर्थात् जैसी तेरी आज्ञा हो वा जैसी हमारी वाणी हो तदनुसार हम कार्य पूरा करें ।

बोधिनमना इदस्तु नो वृत्रहा भूर्यासुतिः ।

शृणोतु शक्र आशिपम् ॥ १८ ॥

भा०—( वृत्र-हा ) शत्रुओं और विघ्नों का नाशक ( शक्रः ) शक्ति-शाली पुरुष ( नः ) हमारे बीच ( बोधित्-मनाः ) ज्ञान से युक्त चित्त वाला, और ( भूरि-आसुतिः ) बहुत से अन्नों का स्वामी ( इत् अस्तु ) हो । वह ( नः आशिपम् ) हमारी कामना और प्रार्थना को ( शृणोतु ) श्रवण करे ।

कया त्वन्न ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन् ।

कया स्तोतृभ्य आ भर ॥ १९ ॥

भा०—हे ( वृषन् ) बलशालिन् ! तू ( नः कया ऊत्या ) हमें किस प्रकार की रक्षण-नीति से ( प्र मन्दसे ) पालन करके अधिक हर्षित होता है ? और ( कया ) किस नीति से ( स्तोतृभ्यः आ भर ) विद्वानों का सुख प्राप्त कराता है ?

कस्य वृषा सुते सचा नियुत्वान्वृषभो रणत् ।

वृत्रहा सोमपीतये ॥ २० ॥ २४ ॥

भा०—( नियुत्वान् ) अश्व सैन्यों का स्वामी, ( वृषभः ) बलवान् ( वृत्र-हा ) शत्रुहन्ता, ( वृषा ) उत्तम प्रबन्धकर्ता, ( कस्य सुते ) किस के ऐश्वर्य पर ( सचा ) और किस के सहयोग में ( सोम-पीतये ) ऐश्वर्य के प्राप्ति और रक्षा के कार्य में ( रणत् ) रण करे और आनन्द लाभ करे । इति चतुर्विंशो वर्गः ॥

अभी पु णस्त्वं रयि मन्दसानः सहस्त्रिणम् ।

प्रयन्ता वीधि दाशुषे ॥ २१ ॥

भा०—( त्वं नः ) तू हमें ( मन्दसानः ) अति हर्षित होकर ( सह-

स्त्रिणं रयिम् ) सहस्रों का धन ( अभि सु ) अच्छी प्रकार आदरपूर्वक  
( प्रयन्ता ) प्रदान करने हारा हो और तू ( दाशुपे ) दानशील के हित को  
भी ( अभि सु बोधि ) अच्छी प्रकार जान ।

पत्नीवन्तः सुता इम उशन्तो यन्ति व्रीतये ।

अपां जग्मिर्निचुम्पुणः ॥ २२ ॥

भा०—( अपां जग्मिः ) जिस प्रकार समुद्र में समस्त नदी, जल-  
धाराएं आकर मिलती हैं, वह जलधाराओं के प्राप्त होने का एकमात्र  
आधार है और जिस प्रकार वह समुद्र ही ( निचुम्पुणः ) जलों को अपने  
भीतर लेकर ही पूर्ण होता है, उसी प्रकार राजा भी ( अपां जग्मिः ) सब  
आप्त प्रजाओं का शरण जाने योग्य और ( निचुम्पुणः ) समुद्रवत् उन  
से ही करादि लेकर तृप्त या पूर्ण होने वाला है । हे राजन् ! ( पत्नीवन्तः )  
पालनकारिणी शक्ति या नीति से वा पत्नीयुक्त वाले गृहस्थ जन और  
( सुताः ) अभिषिक्त वा पुत्रवत् प्रजा रूप ( इमे ) ये ( उशन्तः )  
धनादि कामनावान् जन, ( व्रीतये ) रक्षा प्राप्त करने के लिये ( यन्ति ) तुझे  
प्राप्त होते हैं । ( २ ) इसी प्रकार परमेश्वर समुद्रवत् ( अपां जग्मिः )  
समस्त जीवों का एकमात्र प्राप्तव्य है, वह पूर्ण है, वह सब विश्व को अपने  
भीतर लेकर भी पूर्ण है । ये उत्पन्न जीव उस पालक शक्ति से युक्त  
होकर भी सुख कामना से युक्त होकर रक्षार्थ भगवान् की शरण जाते हैं ।

इष्टा होत्रा असृक्षतेन्द्रं वृधासो अध्वरे ।

अच्छावभृथमोजसा ॥ २३ ॥

भा०—( ओजसा ) बल पराक्रम और शौर्य से ( अवभृथम् ) पूर्ण  
( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान्, शत्रुहन्ता पुरुष को ( अध्वरे ) हिंसारहित प्रजा  
पालन के कार्य में ( इष्टाः ) एकत्र संगत होकर ( होत्राः ) अधिकार देने  
वाले ( वृधासः ) उस के पद, बलादि के बढ़ाने वाले सहयोगी जन ही  
( अच्छ ) सब के समक्ष ( असृक्षतः ) इसे अपना प्रभु बनाते हैं ।



इह त्या सध्रमाद्या हरी हिरण्यकेश्या ।

वोद्दामाभि प्रयोहितम् ॥ २४ ॥

भा०—( इह ) इस राष्ट्र में ( त्या ) वे दोनों ( सध्र-माद्या ) एक साथ आनन्द लाभ करने वाले, उस के हर्ष में हर्षित, ( हिरण्य-केश्या ) सुवर्ण के समान प्रदीप्त तेज को केशोंवत् धारण करने वाले, तेजस्वी ( हरी ) अश्वों के तुल्य अग्रगामी स्त्री पुरुष वा दो नेता जन ( हितम् प्रयः ) हितकारक गन्तव्य मार्ग की ओर ( अभि वोद्दाम् ) ले जावें ।

तुभ्यं सोमाः सुता इमे स्तीर्णं वृहिर्विभावसो ।

स्तोतृभ्य इन्द्रमा वह ॥ २५ ॥ २५ ॥

भा०—हे ( विभावसो ) विशेष दीप्ति से युक्त ऐश्वर्य के स्वामिन् ! ( इमे सुताः सोमाः ) ये उत्पन्न प्रजा जन और ऐश्वर्यवान् शासकगण ( तुभ्यम् ) तेरे ही हितार्थ हैं और ( वृहिः ) यह बृहत् राष्ट्र वा उत्तम आसन भी ( तुभ्यम् ) तेरे लिये ही ( स्तीर्णम् ) विस्तृत है । तू ( स्तोतृभ्यः ) विद्वानों के लिये ( इन्द्रम् आ वह ) ऐश्वर्य को प्राप्त करा, उन को प्रदान कर । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥

आ ते दक्षं वि रोचना दधद्रत्ना वि दाशुपे ।

स्तोतृभ्य इन्द्रमर्चत ॥ २६ ॥

भा०—( दाशुपे ते ) दानशील तेरा ही ( दक्षं ) तेज, बल, प्रताप और ज्ञानसामर्थ्य ( आ ) सब ओर है । वह इन्द्र, ऐश्वर्यवान् ( रोचना रत्ना विदधत् ) रुचिकर, तेजोयुक्त नाना-उत्तम रत्न, धन, ऐश्वर्य ( स्तोतृभ्यः ) विद्वानों को विशेष रूप से देता वा उनके लिये स्वयं धारण कराता है । आप लोग हे विद्वानो ! उसी ( इन्द्रम् अर्चत ) ऐश्वर्यवान् पुरुष की स्तुति करो ।

आ ते दधामीन्द्रियमुक्था विश्वा शतक्रतो ।

स्तोतृभ्य इन्द्र मृळय ॥ २७ ॥

भा०—हे ( शत-क्रतो ) अपरिमित बल और ज्ञान से सम्पन्न स्वामिन् !

मैं ( ते ) तेरे लिये ( विश्वा उक्था ) समस्त स्तुति वचन और समस्त ( इन्द्रियम् ) राजादि से सेवनीय ऐश्वर्य ( आदधामि ) रखता हूँ तुझे ही समापत करता हूँ । हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! तू ( स्तोतृभ्यः मृडय ) विद्वान् स्तोता, गुण प्रशंसकों को सुखी कर ।

भद्रम्भद्रं न आ भरेषसूर्जं शतक्रतो । यदिन्द्र मृळयासि नः २८

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( यत् ) जो तू ( नः मृडयासि ) हमें सुखी करता है, वह तू हे ( शत-क्रतो ) अपरिमित बलशालिन् ! ( नः भद्रं-भद्रम् ) हमें अतिसुखकारक, ( इषम् ऊर्जम् ) अन्न और रस, बल, आदि ( आ भर ) प्राप्त करा ।

स नो विश्वान्या भर सुवितानि शतक्रतो ।

यदिन्द्र मृळयासि नः ॥ २९ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( यत् नः मृडयासि ) जो तू हमें सुखी करता है । हे ( शत-क्रतो ) अपरिमित ज्ञानवान् ! ( सः ) वह तू ( विश्वानि सुवितानि ) समस्त प्रकार के सुखजनक पुण्य पदार्थ वा साधन ( आ भर ) प्राप्त करा । 'सुवितानि' सुख प्राप्ति के साधन, उत्तम आचरण, इस के विपरीत 'दुरितानि' दुःखदायी बुरे काम, २९, ३० मन्त्रों के साथ "विश्वानि देव सवित०" इस मन्त्र की तुलना करो ।

त्वामिद्वृत्रहन्तम सुतावन्तो हवामहे ।

यदिन्द्र मृळयासि नः ॥ ३० ॥ २६ ॥

भा०—( यत् ) जो तू हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ( नः मृडयासि ) हमें सुखी करता है, हे ( वृत्रहन्तम् ) दुष्ट पुरुषों को अच्छी प्रकार दण्ड देने हारे ! ( सुतावन्तः ) ऐश्वर्यवान् हम लोग । ( त्वाम् इत् हवामहे ) तुझे ही रक्षार्थ प्रार्थना करते हैं । इति षड्विंशो वर्गः ॥

उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानाम्पते ।

उप नो हरिभिः सुतम् ॥ ३१ ॥

भा०—हे ( मदानां पते ) हर्षजनक और तृप्तिजनक, ऐश्वर्यों और अन्नों के पालक स्वामिन् ! तू ( हरिभिः ) विद्वान् प्रजास्य मनुष्यों के द्वारा ( नः ) हमारे बीच ( सुतं उप याहि ) अभिषेक या ऐश्वर्य पद को प्राप्त हो और ( नः हरिभिः सुतम् उप याहि ) हमारे जनों के साहाय्य से ही उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त कर ।

द्वि० ता यो वृत्रहन्तमो वि० द इन्द्रः शतक्रतुः ।

उप० नो हरिभिः सुतम् ॥ ३२ ॥

भा०—( यः ) जो ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्, शत्रुहन्ता राजा ( वृत्रहन्तमः ) दुष्ट पुरुषों को अति अधिक दण्ड देने और विनाश करने हारा, और ( शत-क्रतुः ) अपरिमित बलशाली इस प्रकार ( द्वि० ता ) दो प्रकार का जाना जाता है, वह ( हरिभिः ) विद्वान् पुरुषों और अश्वदि सैन्य गणों सहित ( नः सुतम् ) हमारे ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र को ( उप ) प्राप्त हो ।

त्वं हि वृत्रहन्त्रेषां पाता सोमानामसि ।

उप० नो हरिभिः सुतम् ॥ ६३ ॥

भा०—हे ( वृत्रहन् ) दुष्टों के नाशक ! ( त्वं हि ) तू निश्चय करके ( एषां ) इन ( सोमानां पाता असि ) ऐश्वर्यों और प्रजा जनों का पालक है । तू ( नः सुतं हरिभिः उप याहि ) हमारे इस ऐश्वर्य युक्त राष्ट्र को विद्वान् जनों और वीर पुरुषों सहित प्राप्त हो ।

इन्द्र० इ० षे द० दातु न ऋभुक्षणा० मृभुं रयिम् ।

वा० जी द० दातु वाजिनम् ॥ ३४ ॥ २७ ॥ ९ ॥

भा०—( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्, शत्रुहन्ता राजा वा सेनापति ( नः ) हमें ( इ० षे ) अन्न और बल सेना आदि प्राप्त करने के लिये ( ऋभुक्षणां ) सत्य ज्ञान से चमकने और 'ऋभु' उत्तम शिल्पी जनों को बसाने वाले महान् ( ऋभुं ) ज्ञान, सत्यादि से युक्त ( रयिम् ) ऐश्वर्य ( नः ददातु ) हमें दे । ( वाजी ) वह बलवान्, वेगवान् पुरुष ( नः ) हमें ( वाजिनम् )

बलवान् सैन्य, और अश्वदि सैन्य ( ददातु ) प्रदान करे । इति सप्तविंशो वर्गः ॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥

[ ६४ ]

विन्दुः पूतदक्षो वा ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः—१, २, ८ विराड् गायत्री । ३, ५, ७, ९ गायत्री । ४, ६, १०—१२ निचृद् गायत्री ॥

गौर्धयति मरुतां श्रवस्युर्माता मृधोनाम् । युक्ता वह्नी रथानाम् १

भा०—जत्र ( रथानाम् ) वेग से जाने वाले, बलवान् रथादि सैन्यों वा महारथी जनों के ( वह्नी युक्ता ) घोड़े वा बैल, युद्धरथ वा अन्न करादि-संग्रहार्थ युद्धार्थ जुत जाते हैं, तत्र ( मृधोनां मरुताम् ) ऐश्वर्यवान् मनुष्यों की ( माता ) माता के समान पूज्य ( श्रवस्युः ) श्रवस्यु, अर्थात् अन्न बल और कीर्त्ति-प्रद होकर पृथिवी ( गौः धयति ) गौ के समान सब को अन्न प्रदान करती है ।

यस्या देवा उपस्थे व्रता विश्वे धारयन्ते ।

सूर्यामासा दृशे कम् ॥ २ ॥

भा०—( यस्याः ) जिस की ( उपस्थे ) गोद में, ( विश्वे देवाः ) सब मनुष्य ( व्रता धारयन्ते ) नाना कर्म, व्रत और नाना अन्न भी धारण करते, प्राप्त करते हैं, उसी के आश्रय पर (सूर्यामासा) सूर्य और चन्द्र दोनों ही ( दृशे ) प्रकाश द्वारा दर्शन कराने के लिये, उस के समीप विद्यमान रहते हैं ।

तत्सु नो विश्वे ऋर्य आ सदा गृणन्ति कारवः ।

मरुतः सोमपीतये ॥ ३ ॥

भा०—( विश्वे कारवः ) सब कर्मकुशल ( मरुतः ) बलवान् मनुष्य एवं व्यापारी जन, ( सोमपीतये ) स्वयं भी अन्नवत् ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये, ( सदा ) सदैव ( तत् नः सु ऋर्यः ) वह हमारा उत्तम

पूज्य स्वामी है । इस प्रकार ( आ गृणन्ति ) कहते और उस की स्तुति करते हैं ।

अस्ति सोमो अयं सुतः पिवन्त्यस्य मरुतः ।

उत स्वराजो अश्विना ॥ ४ ॥

भा०—( अयं सोमः सुतः अस्ति ) यह ऐश्वर्य उत्पन्न है, ( अस्य मरुतः पिवन्ति ) इस का बलवान् पुरुष और प्रजागण उपभोग करते हैं और ( उत अस्य स्वराजः ) इस का स्वयं दीप्तियुक्त तेजस्वी लोग उपभोग करते हैं और ( अश्विना ) जितेन्द्रिय लोग इस का उपभोग करते हैं । ( २ ) यह अभिषिक्त जन पुत्रवत् सोम हैं इस का बलवान् तेजस्वी और माता पिता, स्त्री पुरुष आदि सब ( पिवन्ति ) पालन करें ।

पिवन्ति मित्रो अर्यमा तना पूतस्य वरुणः ।

त्रिप्रथस्थस्य जावतः ॥ ५ ॥

भा०—( तना पूतस्य ) विस्तृत ऐश्वर्य वा यज्ञ से पवित्र, ( त्रि-स-धस्थस्य ) तीनों स्थानों पर विराजमान (जावतः) जाया के तुल्य प्रजा या भूमि से युक्त राष्ट्र का ( मित्रः ) स्नेही जन, ( अर्यमा ) शत्रुओं का नियन्ता और ( वरुणः ) संकटनिवारक जन ( पिवन्ति ) उपभोग और पालन करते हैं ।

उतो न्वस्य जोपमाँ इन्द्रः सुतस्य गोमतः ।

प्रातर्होतेव मत्सति ॥ ६ ॥ २८ ॥

भा०—( उतो नु ) और ( अस्य गोमतः सुतस्य ) इस भूमि से युक्त, ऐश्वर्य के साथ ( जोपम् ) प्रेम करके ( इन्द्रः ) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष ( प्रातः ) प्रातःकाल में ( होता इव ) आहुति दाता विद्वान् के समान ( मत्सति ) बड़ा आनन्द अनुभव करता है ।

कदत्विपन्त सुर्यास्तिर आप इव चिधः ।

अर्पन्ति पूतदक्षसः ॥ ७ ॥

भा०—(सूरयः आप इव तिरः) सूर्य की किरणों जिस प्रकार मेघस्थ जलों को छिन्न भिन्न कर फिर चमकते हैं उसी प्रकार (पूत-दक्षसः) पवित्र ज्ञान और कर्म वाले, (त्विधः) दुष्ट हिंसक अन्तःशत्रु-सैन्यों को (तिरः) दूर करके, (सूरयः) विद्वान् तेजस्वी जन (कत् अतिवपन्त) कितना चमकते हैं और (कत् अर्पन्ति) कितना और कैसे आगे बढ़ते हैं यह दर्शनीय है।

कद्धो अद्य सहानां देवानामवो वृणे ।

त्मना च दस्मवर्चसाम् ॥ ८ ॥

भा०—(त्मना च) अपने आत्मसामर्थ्य से (दस्म-वर्चसाम्) दर्शनीय और शत्रुनाशक तेज वाले, (महानां देवानां) पूज्य विद्वानों और (वः) आप विजिगीषु जनों के (अवः) रक्षा वा प्रीति को मैं (कत् वृणे) किस प्रकार प्राप्त करूं, यह बतलाइये।

आ ये विश्वा पार्थिवानि पप्रथन्नोचना दिवः ।

मरुतः सोमपीतये ॥ ९ ॥

भा०—(ये मरुतः) जो बलवान् मनुष्य (सोम-पीतये) ऐश्वर्य के पालन और प्राप्ति के लिये (दिवः) आकाश या भूमि के (विश्वा) समस्त (पार्थिवानि रोचना) पृथिवी पर विद्यमान रुचिकर पदार्थों को (पप्रथन्) विस्तारित करते हैं—

त्यान्नु पूतदक्षसो दिवो वो मरुतो हुवे ।

अस्य सोमस्य पीतये ॥ १० ॥

भा०—(अस्य सोमस्य पीतये) इस ऐश्वर्य की रक्षा के लिये मैं (पूत-दक्षसः) पवित्र कर्म वाले, आचारवान् (मरुतः) बलवान् (त्यान्) उन पुरुषों को (दिवः) उन की इच्छाओं के अनुसार (हुवे) स्वीकार करता हूँ।

त्यान्नु ये वि रोदसी तस्तभुर्मरुतो हुवे ।

अस्य सोमस्य पीतये ॥ ११ ॥

भा०—( ये मरुतः ) जो वीर पुरुष ( रोदसी तस्तभुः ) आकाश पृथिवी के समान स्वपक्ष और परपक्ष वा स्त्री-पुरुष, शास्य-शासक दोनों वर्गों को ( वितस्तभुः ) विशेष रूप से थामते या वश करते हैं । उन को मैं ( अस्य सोमस्य पीतये ) इस ऐश्वर्य के पालन के लिये बुलाता और स्वीकार करता हूँ ।

त्यं नु मारुतं ग॒णं गिरि॑ष्ठां वृ॒षणं॑ हुवे ।

अ॒स्य सोम॑स्य पी॒तये॑ ॥ १२ ॥ २९ ॥

भा०—और ( अस्य सोमस्य पीतये ) इस राज्य-ऐश्वर्य के पालन के लिये मैं ( त्यं नु ) उस ( गिरिष्ठां ) वाणी में स्थित वा कुशल ( वृषणं ) ज्ञानादि की वर्षा करने वाले वा बलवान् ( मारुतं गणं ) मनुष्यों के समूह को ( हुवे ) बुलाता हूँ । इत्येकोनत्रिंशो वर्गः ॥

( ६५ )

तिरश्ची ऋषिः ॥ इन्द्रा देवता ॥ छन्दः—१-४, ६, ७ विराडनुष्टुप् । ५, ६

अनुष्टुप् । ८ निचृदनुष्टुप् ॥

आ त्वा गिरो रथी॑रिवास्थुः सु॒तेपु॑ गिर्वणः ।

अभि॑ त्वा सम॑नूपतेन्द्र॑ वत्सं न मा॒तरः॑ ॥ १ ॥

भा०—( मातरः वत्सं न ) माताएं जिस प्रकार अपने बच्चे को लक्ष्य कर ( सम् अनूपत ) अच्छी प्रकार उस की गुणस्तुति किया करती हैं उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! हे ( गिर्वणः ) वाणियों को स्वीकार और वाणियों द्वारा स्तवन करने हारे ! ( गिरः ) उत्तम विद्वान् स्तुति-कर्त्ता जन ( त्वा अभि सम् अनूपत ) तुझे लक्ष्यकर तेरी ही स्तुति करते हैं । ( रथीः इव ) रथवान् क्षिप्रगामी पुरुष के समान ( सुतेपु ) ऐश्वर्यों वा अन्नादि के प्राप्तयर्थ ( त्वा ) तेरी ओर ही ( गिरः ) सब विद्वान् एवं सब वाणियां ( आ अस्थुः ) आ रही हैं ।

आ त्वा शुक्रा अचुच्यवुः सुतास इन्द्र गिर्वणः ।

पिवा त्वस्यान्धस इन्द्र विश्वासु ते हितम् ॥ २ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( गिर्वणः ) वाणी द्वारा स्तुति करने योग्य ! हे हमारी वाणियों को हर्षपूर्वक स्वीकार करनेवाले ! (शुक्राः सुतासः) शुद्ध, कान्तियुक्त, तेजस्वी, पदाभिषिक्त जन (त्वा आ अचुच्यवुः) तुझे सब ओर से प्राप्त हों । हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ( ते ) तेरे योग्य (विश्वासु हितम्) समस्त प्रजाओं में नियत भाग है । तू (अस्य अन्धसः) उस खाने योग्य पदार्थ का ( पिबतु ) उपभोग कर ।

पिवा सोमं मदाय कमिन्द्र श्येनाभृतं सुतम् ।

त्वं हि शश्वतीनां पती राजा विशामसि ॥ ३ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( त्वं ) तू ( हि ) निश्चय से, ( शश्वतीनां विशाम् ) बहुत सी प्रजाओं का ( पतिः असि ) पालक, स्वामी है । तू ( मदाय ) सुख, वृत्ति और आनन्द के लिये ( श्येनाभृतं सुतं ) श्येन के समान शत्रु पर आक्रमण करने वाले वा प्रशंसनीय आचार चरित्रवान् पुरुषों से प्राप्त किये हुए धन वा प्रदत्त सुखजनक, ( सोमं ) ज्ञान वा ऐश्वर्य को ( पिब ) प्राप्त कर ।

श्रुधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति ।

सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूर्धि म्हाँ असि ॥ ४ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( यः त्वा ) जो तेरी ( सपर्यति ) सेवा करता है उस ( तिरश्च्याः ) समीप प्राप्त शरणागत की ( हवं श्रुधि ) पुकार को तू सुन । और तू ( महान् असि ) महान् है । तू ( सुवीर्यस्य ) उत्तम बलयुक्त ( गोमतः ) गवादि सम्पन्न, भूमि आदि वाले ( रायः ) धन को हमें ( पूर्धि ) पूर्ण कर ।

इन्द्र यस्ते नवीयसीं गिरं मन्द्रामजीजनत् ।

चिकित्विन्मनसं धियं प्रत्नामृतस्य पिप्युषीम् ॥ ५ ॥ ३० ॥



भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् प्रभो ! ( यः ) जो ( ते ) तेरी ( नवी-  
यसीं ) अति स्तुतियोग्य, ( मन्द्राम् ) हर्षजनक ( गिरम् अजीजनत् )  
वाणी को प्रकट करता है और जो तेरे लिये ( चिकित्वित्-मनसं ) विद्वानों  
के मनन करने योग्य, ( प्रत्नां ) अति पुरानी, और ( ऋतस्य पिप्युषीम् )  
सत्य ज्ञान के बढ़ाने वाली ( धियं ) वेदमयी वाणी वा विद्या वा यज्ञ कर्म  
को करता है, तू उसको उत्तम बल, भूमि आदि से युक्त धनं प्रदान कर ।

तमुं ष्टवाम् यं गिर इन्द्रमुक्थानि वावृधुः ।

पुरूर्यस्य पौस्या सिषासन्तो वनामहे ॥ ६ ॥

भा०—( यं ) जिस ( इन्द्रम् ) ऐश्वर्य के स्वामी को ( गिरः  
ववृधुः ) सब वाणियां बढ़ाती हैं हम भी ( तम् उ स्त्वाम ) उसकी स्तुति  
करें । ( अस्य पुरूणि ) उसके बहुत से ( पौस्या ) बलों, ऐश्वर्यों को ( सिषा-  
सन्तः ) प्राप्त करना चाहते हुए ( वनामहे ) हम उसका भजन करते हैं ।

एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना ।

शुद्धैरुक्थैर्वावृध्वासं शुद्ध आशीर्वान्ममत्तु ॥ ७ ॥

भा०—( एतो नु ) हे विद्वान् जनो ! आओ । हम लोग ( शुद्धेन )  
शुद्ध, ( साम्ना ) सामवेद गायन द्वारा ( शुद्धं ) शुद्ध ( इन्द्रम् ) परमे-  
श्वर की ( स्त्वाम ) स्तुति करें । ( शुद्धैः उक्थैः वावृध्वासं ) शुद्ध वचनों  
से बढ़ाने वाले उसको ( शुद्धः आशीर्वान् ) शुद्ध कामना वाला, शुद्ध हृदय  
होकर ही ( ममत्तु ) प्रसन्न करें ।

इन्द्रं शुद्धो न आ गहि शुद्धः शुद्धाभिरुतिभिः ।

शुद्धो रयिं नि धारय शुद्धो ममद्धि सोम्यः ॥ ८ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! तू ( नः ) हमें ( शुद्ध ) शुद्ध  
स्वरूप ( आ गहि ) प्राप्त हो । और तू ( शुद्धाभिः ऊतिभिः ) शुद्ध  
ज्ञानवाणियों, रक्षाओं और प्रीतियों से ( शुद्ध ) शुद्धरूप से ही प्राप्त  
हो । तू ( शुद्धः ) शुद्ध रूप ही ( रयिम् ) बल, वीर्य और ऐश्वर्य को

धारण कर और तू (शुद्धः) शुद्धस्वरूप (सोम्यः) ऐश्वर्यवान् होकर (ममद्धि) आनन्द युक्त हो ।

इन्द्र शुद्धो हि नो रयिं शुद्धो रत्नानि दाशुषे ।

शुद्धो वृत्राणि जिघ्रसे शुद्धो वाजं सिंसाससि ॥ ९ ॥ ३१ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! स्वामिन् ! तू (शुद्धः हि) सदा शुद्ध रूप (नः रयिं सिंसाससि) हमें ऐश्वर्य देना चाहता है । (दाशुषे रत्नानि) दानशील प्रजा जन को नाना सुखजनक पदार्थ प्रदान करता है । और (शुद्धः वृत्राणि जिघ्रसे) शुद्ध पवित्र, निष्पक्षपात होकर ही विघ्नों और दुष्टों को दण्डित करता और (शुद्धः वाजं सिंसाससि) शुद्ध चित्त होकर ही ज्ञान, रत्न, वीर्य और ऐश्वर्य का भोग कर और अन्यो को प्रदान करता है । इत्येकत्रिंशो वर्गः ॥

[ ६६ ]

तिरश्चीर्धुंतानो वा मरुत ऋषिः ॥ देवताः—१-१४, १६-२१ इन्द्रः । १४ मरुतः । १५ इन्द्रावृहस्पती ॥ छन्दः—१, २, ५, १३, १४ निचृत् त्रिष्टुप् । ३, ६, ७, १०, ११, १६ विराट् त्रिष्टुप् । ८, ९, १२ त्रिष्टुप् । १, ५, १८, १९ पादनिचृत् त्रिष्टुप् । ४, १७ पंक्तिः । २० निचृत् पंक्तिः ।

२१ विराट् पंक्तिः ॥ एकविंशत्युचं सूक्तम् ॥

अस्मा उषास आतिरन्त याममिन्द्राय नक्तमुर्याः सुवाचः ।

अस्मा आपो मातरः सप्त तस्थुर्नृभ्यस्तराय सिन्धवः सुपाराः १

भा०—(अस्मै) इस (इन्द्राय) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष के लिये (उषासः) नाना कामनायुक्त प्रजाएं (यामम् आतिरन्त) नियम व्यवस्था वा मर्यादा का पालन करती हैं और वे ही (ऊर्ग्याः) उत्साहित और उत्कण्ठित होकर (नक्तम्) रात्रिकाल में (सुवाचः) उत्तम वाणियां बोलती हैं । (अस्मै) अथवा इस के शासन में रहकर कमनीय कन्याएं (यामं) विवाह करती और (नक्तं सुवाचः आतिरन्त) रात्रि में वे अपने पत्तियों के प्रति

उत्तम वाणी बोलती हैं । ( अस्मै ) इसी के प्रेम में ( मातरः ) माताओं के समान ( सप्त आपः ) सर्पणशील, शरण में प्राप्त प्रजापुं ( तक्षुः ) सदा आज्ञापालनार्थ खड़ी रहती हैं और इसी के शासन में ( सिन्धवः ) बड़े २ महानद ( नृभ्यः तराय ) मनुष्यों के पार उतारने के लिये ( सुपाराः ) सुखपूर्वक पार जाने योग्य होते हैं । राजा के राज्य की महिमा देखो महाभारत शान्तिपर्व में भीष्म का उपदेश । सूर्यवत् प्रभु के शासन में उपा रात्रि आदि सत्र नियमित रूप में आती जाती हैं । नदियां चलती और महानद भी अलंघ्य नहीं रहते ।

अतिविद्धा विथुरेणा चिदस्त्रा त्रिः सप्त सानु संहिता गिरीणाम् ।  
न तद्देवो न मर्त्यस्तुतुर्याद्यानि प्रवृद्धो वृषभश्चकार ॥ २ ॥

भा०—( विथुरेण चित् अस्त्रा ) व्यथादायी आघातकारी और इत-स्ततः प्रक्षेप या सञ्चालन में समर्थ शक्ति द्वारा ( अतिविद्धा ) खूब पीड़ित या ताड़ित होकर ( सप्त त्रिः ) इकीसों तत्व ( गिरीणाम् ) भस्मवत् एक दूसरे को निगल जाने वाले, इधर उधर वा पर्वत मेघादिवत् भारी और ( सानु ) स्वरूप ( संहिता ) एकत्र संबद्ध हो जाते हैं । ( तत् ) उनको ( न देवः ) न कोई अन्य तेजस्वी तत्व ( न मर्त्यः ) न जीव ही ( तुतुर्यात् ) इस प्रकार कर सकता है, ( यानि ) जिन को ( प्रवृद्धः ) बढ़ा, शक्तिशाली और ( वृषभः ) बलवान् प्रभु ( चकार ) कर लेता है । ( २ ) इसी प्रकार अकेला प्रबल राजा २१ सौ राजाओं को प्रबल सैन्य से पराजित करता है, ऐसा अन्य कोई नहीं कर पाता ।

इन्द्रस्य वज्र आयसो निमिश्ल इन्द्रस्य बाहोर्भूयिष्ठमोजः ।

शीर्षनिन्द्रस्य क्रतवो निरेक आसन्नेपन्त श्रुत्या उपाके ॥ ३ ॥

भा०—जिस प्रकार राजा या सेनापति का ( आयसः वज्रः ) लोह का खड्ग होता है और ( निमिश्लः ) खूब कठोर होता है उसी प्रकार ( इन्द्रस्य ) उस महान् ऐश्वर्यवान् प्रभु का ( वज्रः ) बल ( आयसः )

सर्वत्र ब्रह्माण्डों में यत्न अर्थात् सूर्यादि को भ्रमण कराने में समर्थ (निमिष्ठः) और खूब सम्बद्ध होता है, और ( इन्द्रस्य ) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु के (वाहोः) बाहुओं में उसके शासन में भी (भूयिष्ठम् ओजः) बड़ा भारी बल पराक्रम है । ( इन्द्रस्य ) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु के ( शोर्पन् ) शिर में भी ( क्रतवः ) अनेक ज्ञान ( निरेके ) सब से बढ़कर विद्यमान हैं । और ( आसन् ) मुख में विद्यमान वाणियों को भी सुनने के लिये ( उपाके ) अति समीप बहुत से जन ( ईपन्त ) प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार राजा की बाहुओं में खड्ग रूप, बल, शिरःस्थानीय अनेक विद्वान् जन और मुख में श्रवणीय आज्ञाएं हों ।

मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां मन्ये त्वा च्यवनमच्युतानाम् ।  
मन्ये त्वा सत्त्वनामिन्द्र केतुं मन्ये त्वा वृषभं चर्षणीनाम् ॥ ४ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! मैं ( त्वा ) तुझे ( यज्ञियानां यज्ञियं मन्ये ) दानियों में दानी, पूज्यों में पूज्य, सत्संग योग्यों में सर्वश्रेष्ठ करके जानता हूं । और ( अच्युतानां च्यवनम् ) स्वयं गतिरहित जड़ पदार्थों को चलाने वाला जानता हूं । ( सत्त्वनां केतुं मन्ये ) बलशालियों में ध्वजा के समान वा सत्त्वयुक्त चित्त वाले जीवों में ज्ञानप्रद, और ( चर्षणीनां वृषभं त्वा मन्ये ) मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मैं तुझे जानता हूं ।

आ यद्वज्रं वाहोरिन्द्र धत्से मदच्युतमहये हन्त्वा उ । प्र पर्वता  
अनवन्त प्र गावः प्र ब्रह्माणो अभिनक्षन्त इन्द्रम् ॥ ५ ॥ ३२ ॥

भा०—( यद् ) जब हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् शत्रुहन् ! तू (वाहोः) बाहुओं में ( अहये ) अभिमुख आये शत्रु को ( हन्त्वा ) नाश करने के लिये ( मदच्युतं वज्रं ) शत्रुओं के मद को दूर करने वाले प्रजा के ( मदच्युतं ) हर्ष प्रापक बल वीर्य को ( धत्से ) धारण करता है तब ( पर्वताः ) भेधवत् पालन शक्ति से युक्त शासक जन, और ( गावः ) भूमिवासी समस्त प्रजाएं ( प्र अनवन्त ) खूब हर्ष ध्वनि करते हैं । और ( अभि-

नक्षन्तः ब्रह्माणः) प्राप्त होते हुए विद्वान् जन (इन्द्रम् प्र अनवन्त) ऐश्वर्यवान् शत्रुहन्ता की स्तुति करते हैं । इति द्वात्रिंशो वर्गः ॥

तमुं प्रवासु य इमा जजान विश्वा जातान्यवराण्यस्मात् ।

इन्द्रेण मित्रं दिधिपेम गीर्भिरुपो नमोभिर्वृषभं विशेम ॥ ६ ॥

भा०—(तम् उ स्त्वाम) उसी की स्तुति करें ( यः इमा ) जो इन ( अस्मात् ) उससे ( अवराणि ) पीछे ( विश्वा जातानि ) उत्पन्न, समस्त पदार्थों को जजान उत्पन्न करता है हम लोग ( इन्द्रेण ) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु के साथ ( मित्रं दिधिपेम ) मित्र भाव रखें । ( नमोभिः गीर्भिः ) नमस्कार युक्त विनीत वचनों से हम उस ( वृषभं ) सब सुखों के देने वाले को ( उपो विशेम ) प्राप्त होवें, उसकी उपासना करें ।

वृत्रस्य त्वा श्वसथादीपमाणा विश्वे देवा अजहुर्ये सखायः ।

मरुद्भिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेमा विश्वाः पृतना जयासि ॥ ७ ॥

भा०—जैसे ( वृत्रस्य श्वसथात् ईपमाणाः विश्वे देवाः सखायः अजहुः ) बढ़ते शत्रु के श्वासमात्र से भी भय खाते हुए सब मित्र मनुष्य भी राजा को छोड़ देते हैं उसी प्रकार हे प्रभो ! ( विश्वे देवाः ) समस्त जीवगण, ( सखायः ) तेरे मित्र समान आख्या वाले आत्मा होकर भी ( वृत्रस्य ) आवरणकारी देह के ( श्वसथात् ईपमाणाः ) श्वास-प्रश्वास द्वारा गति करते हुए ( त्वा अजहुः ) तुझे भूल जाते हैं हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( ते मरुद्भिः सख्यम् अस्तु ) जीवगण से तेरा सदा सख्य, मित्रभाव रहे । ( अथ ) और तू ( इमा विश्वाः पृतनाः जयासि ) इन सब प्रजाओं को अपने वश कर । त्रिः षष्टिस्त्वा मरुतो वावृधाना उस्त्रा इव राशयो यज्ञियासः ।

उप त्वेमः कृधि नो भाग्धेयं शुष्मं त एना हविषा विधेम ॥ ८ ॥

भा०—( त्रिः षष्टिः मरुतः ) ६३ प्रकार के मनुष्य गण और देह में प्राण गण ( वावृधानाः ) बढ़ते हुए ( उस्त्राः इव ) सूर्य की किरणों वा गौवों के समान ( राशयः ) संघ होकर ( यज्ञियासः ) आदर पाने योग्य

हैं। वे हम (त्वा उप इमः) तुझे प्राप्त होते हैं। ( नः भाग-धेयं कृधि ) हमारा भी भाग नियत कर। हम ( ते शुष्मं ) तेरे शोषक बल को ( एना हविषा ) इस प्रकार के अन्नादि, कर और उपाय से ( विधेम ) बनावें। त्रिःपष्टि गणों का परि-संख्यान यजुर्वेद अ० २२ में देखो।

तिग्ममायुधं मरुतामनीकं कस्तं इन्द्र प्रति वज्रं दधर्ष ।

अनायुधासो असुरा अदेवाश्चक्रेण ताँ अप वप ऋजीपिन् ॥१॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( तिग्मम् आयुधम् ) शत्रु पर प्रहार करने के तीक्ष्ण साधन, ( मरुताम् अनीकम् ) वीर पुरुषों की सेना रूप ( ते वज्रं ) तेरे महान् बलको ( कः प्रति दधर्ष ) कौन पराजित कर सकता है। ( असुराः ) बड़े बलशाली लोग भी ( अनायुधासः ) आयुधों से रहित और ( अदेवाः ) अतेजस्वी हों, ( तान् ) उन को हे ( ऋजीपिन् ) शत्रुभर्जक सेनाओं के स्वामिन् ! तू ( अप वप ) दूर ही खण्डित कर डाल। मह उग्राय तवसे सुवृक्तिं प्रेरय शिवतमाय पश्वः ।

गिर्वाहसे गिर इन्द्राय पूर्वाधेहि तन्वे कुवित् वेदत् ॥१०॥३३॥

भा०—( महे उग्राय ) बड़े बलवान् ( तवसे ) शक्तिशाली, ( शिव-तमाय ) अतिसुखदायक ( पश्वः च शिवतमाय ) समस्त पशु तक का कल्याण करने वाले ( गिर्वाहसे ) वाणियों और स्तुतियों को स्वीकार करने वाले ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान् प्रभु के लिये ( अङ्ग ) हे विद्वन् ! तू ( सुवृक्तिं प्रेरय ) उत्तम स्तुति कर। हे विद्वन् ! तू उसी के लिये ( पूर्वाः गिरः धेहि ) पूर्व की नित्य वाणियों को धारण कर। वही ( तन्वे ) हमारे शरीर और बृहत् राष्ट्र के लिये ( कुवित् वेदत् ) बहुत सुखैश्वर्य प्रदान करता है। इति त्रयस्त्रिंशो वर्गः ॥

उक्थवाहसे विभ्वे मनीषां द्रुणा न पारमीरय नदीनाम् ।

नि स्पृश धिया तन्वि श्रुतस्य जुष्टतरस्य कुवित् वेदत् ॥ १ ॥

भा०—(उक्थ-वाहसे विभ्वे) उत्तम स्तुति-वचनों को स्वीकार करने वाले विभु, महान् उस परमेश्वर के लिये ( मनीषां ) अपने चित्त, बुद्धि को प्रेरित कर । हे प्रभो ! तू ( द्रुणा न नदीनाम् ) नदियों के पार नौका के समान हमें ( पारम् ईरय ) पार ले चल । हे विद्वन् ! ( जुष्टतरस्य श्रुतस्य ) अति सेवनीय श्रवण योग्य ज्ञान को ( तन्वि ) अपने पुत्र में धनवत् ( निस्पृश ) प्रदान कर । वह प्रभु ( अङ्ग ) हे मनुष्य ! ( कुवित् वेदत् ) बहुत कुछ प्रदान करता है ।

तद्विविद्धि यत्त इन्द्रो जुजोपत्स्तुहि सुष्टुतिं नमसा विवास ।

उप भूप जरितर्मा रुवण्यः श्रावया वाचं कुविदङ्ग वेदत् ॥१२॥

भा०—( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् एवं ऐश्वर्य का देने वाला स्वामी ( यत् जुजोपत् ) जिस को प्रेम करे तू ( तत् विविद्धि ) उसी पदार्थ को प्राप्त करा । तू उस को ( सु-स्तुतिं स्तुहि ) उत्तम स्तुति कर । ( नमसा ) अति विनय से ( विवास ) उस की सेवा कर । हे (जरितः) विद्वन् ! स्तुतिकर्ता ! तू ( उप भूप ) सदा उस के समीप रह । और ( मा रुवण्यः ) कभी रो मत, गुणगुना मत । तू अपनी ( वाचं ) स्पष्ट वाणी को ( श्रावय ) उसे सुना दे और ( अङ्ग कुविद् वेदत् ) हे मनुष्य वह तुझे बहुत २ ऐश्वर्य देने वाला है ।

अव द्रप्सो अंशुमतीमनिष्टदियानः कृष्णो दशभिः सहस्रैः ।

श्रावत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नेहितीर्नृमणा अधत्त ॥१३॥

भा०—( द्रप्सः ) वेग से प्रयाण करने में समर्थ, ( कृष्णः ) प्रजा को कर्षण करने वाला, ( दशभिः सहस्रैः ) दस सहस्र सैन्यों सहित ( अंशुमतीम् ) अन्न वाली भूमि पर ( अतिष्ठत् ) स्थिर हो तो भी ( शच्या धमन्तम् ) अपनी शक्ति से प्रजा को पीड़ित करने वाले दुष्ट शत्रु को ( इन्द्रः ) ऐश्वर्य युक्त उत्तम राजा ( शच्या आवत् ) अपनी शक्ति से आक्रमण करे और वध करे और ( नृमणाः ) मनुष्यों के हित

में चित्त देकर वह ( स्नेहितीः ) हिंसक सेनाओं को ( अप अधत्त ) दूर करे । अध्यात्म में ( सहस्रैः दशभिः ) बलवान् दश प्राणों से युक्त होकर ( कृष्णः ) कर्त्ता जीव ( द्रप्सः ) देह से देहान्तर में जाने वाला होकर ( अंशुमतीम् ) सूक्ष्म प्राणों से युक्त लिंग देह को धारण करता हुआ वह ( इयानः ) देह से देहान्तर में जाता है । और ( शच्या धमन्तम् तम् इन्द्रः आवत् ) वाणी से प्रार्थना करने वाले जीव की परमेश्वर रक्षा करता है । उस की ( स्नेहितीः ) नाशकारिणी दुर्वासनाओं वा मोहमयी दुष्ट वृत्तियों को वह ( अप अधत्त ) दूर कर देता है ।

द्रप्समपश्यं विपुणे चरन्तमुपह्वरे नद्यो अंशुमत्याः ।

नभो न कृष्णमवतस्थिवांसमिष्यामि वो वृषणो युध्यताजौ १४

भा०—सेनापति सैन्यगण से कहे—मैं ( अंशुमत्याः नद्यः ) कर देने वाली, समृद्ध प्रजा के ( उपह्वरे ) समीप में ( विपुणे चरन्तं ) विस्तृत मैदान में विचरते ( द्रप्सम् ) द्रुतगामी शत्रु को ( अपश्यम् ) देखता हूँ, और इसी प्रकार ( अवतस्थिवांसम् ) आसन पर बैठे हुए ( कृष्णम् ) प्रजा के पीड़क जन को ( नभः ) आकाश में मेघवत् व्यापक जानता हूँ । हे ( वृषण ) बलवान् पुरुषो ! मैं ( इष्यामि ) चाहता हूँ कि ( वः ) आप लोग ( आजौ युध्यत ) संग्राम में शत्रु से युद्ध करो, मारो । अध्यात्म में पूर्वोक्त अंशुमती नदी लिङ्ग-देह उसके भीतर 'द्रप्स' अर्थात् द्रुत वेग से जाने वाला जीवात्मा ( विपुणे चरन्तम् ) सब तरफ जाने में समर्थ होता है । जब वह स्थिर होता है तब ( नभः न कृष्णम् ) आकाशवत् वा वायुवत् निष्प्रभ वा आदित्यवत् तेजःस्वरूप होता है । हे ( वृषणः ) बलशाली साधक जनो ! आप लोग ( आजौ ) उस को प्राप्त करने के लिये ( युध्यत ) बाधक कारणों से अवश्य संग्राम करो ।

अथ द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थेऽधारयत्तन्वं तित्विषाणः ।

विशो अदेवीरभ्या चरन्तीवृहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे १५।३४



भा०—(द्रुप्तः) वेग से जाने वाला शत्रु (अंशुमत्याः उपस्थे) समृद्ध प्रजा के समीप, (तिविपाणः) अति तेजस्वी होकर (तन्वं अधारयत्) विस्तृत शक्ति को धारण करता है, उस समय (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् शत्रुहन्ता राजा (युजा बृहस्पतिना) सहायक, बड़ी सेना के पालक सेनापति के सहाय से, (अदेवीः) अकरप्रद, (अभि आचरन्तीः) विपरीत आक्रमण करने वाली (विशः) प्रजाओं को (ससहे) पराजित करे। इति चतुस्त्रिंशो वर्गः ॥

त्वं ह त्वत्सप्तभ्यो जायमानोऽशत्रुभ्यो अभवः शत्रुरिन्द्र ।

गुह्ले द्यावापृथिवी अन्वविन्दो विभुमद्भ्यो भुवनेभ्यो रणं धाः १६

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् (त्यत् त्वं) वह तू (जायमानः) प्रकट होकर ही (अशत्रुभ्यः सप्तभ्यः) शत्रुरहित स्वयं विचरने वालों का (शत्रुः अभवः) नाश करने में समर्थ हो। (गूढे द्यावापृथिवी) संवृत, सुरक्षित, आकाश पृथिवीवत् शासक-शास्य दोनों को (अनु अविन्दः) अपने अनुकूल करके वश कर। और (विभुमद्भ्यः भुवनेभ्यः) बड़े ऐश्वर्य से युक्त देशों को प्राप्त करने के लिये (रणं धाः) रण कर। (२) अध्यात्म में इन्द्र आत्मा, सप्त प्राणों का शासन करने वाला विभाजक है, वह सुगुप्त द्यौ पृथिवी, प्रभु प्रकृति का ज्ञान करे, और महान् सुखमय लोकों का (रणं) सुख भी प्राप्त करे।

त्वं ह त्वदप्रतिमानमोजो वज्रेण वज्रिन्धृपितो जघन्थ ।

त्वं शुष्णस्यावातिरो वधत्रैस्त्वं गा इन्द्र शच्येदविन्दः ॥ १७ ॥

भा०—हे (वज्रिन्) बलशालिन् ! (त्वं ह) तू ही (वज्रेण) अपने शस्त्रबल से (धृपितः) शत्रु को पराजय करने में समर्थ हो कर (अप्रतिमानम् यत् भोजः) उस निरुपम शत्रु के दल को (जघन्थ) विनाश कर अथवा (हन्तिर्गत्यर्थः। त्यत् अप्रतिमानम् भोजः जघन्थ) तू निरुपम, सर्वोपरि पराक्रम को प्राप्त कर। (त्वं) तू (वधत्रैः) वध करने के

साधनों से (शुष्णस्य अवातिरः) प्रजा के शोषक दुष्ट का नाश कर । और ( त्वं ) तू हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( शच्या इत् ) शक्ति और आज्ञा के बल से ही ( गाः अविन्दः ) सब भूमियों को अपने अधीन कर ।

त्वं ह त्वद्वृषभ चर्षणीनाङ्घ्रिनो वृत्राणां तविषो वभूथ ।

त्वं सिन्धूरसृजस्तस्तभानान् त्वम्पो अजयो दासपत्नीः ॥१८॥

भा०—हे ऐश्वर्यवान् ! हे ( चर्षणीनां वृषभ ) प्रजा वा लोकद्रष्टाओं के बीच में सर्वश्रेष्ठ ! ( त्वं ह ) तू अवश्य ( तविषः ) बलवान् हो कर ( वृत्राणां ) दुष्टों और विघ्नों का ( घनः ) दण्ड देने और नाश करने वाला ( अभवः ) हो । और ( त्वं ) तू ( तस्तभानान् ) शत्रु का नाश करने वाले ( सिन्धून् ) वेग से जाने वाले वीरों और तट आदिके नाशक महानदों को भी ( असृजः ) सञ्चालित कर । और ( त्वम् ) तू ( दासपत्नीः ) प्रजा के नाशक शत्रु के आधिपत्य में विद्यमान ( अपः ) भूमियों सेनाओं और प्रजाओं को भी ( अजयः ) जीत ।

स सुक्रतु रणिता यः सुतेष्वनुत्तमन्युर्यो अहेव रेवान् ।

य एक इन्नर्यपांसि कर्ता स वृत्रहा प्रतीद्वन्यमाहुः ॥ १९ ॥

भा०—( सः सुक्रतुः ) वह उत्तम ज्ञान और कर्म सामर्थ्यवान् है । ( यः ) जो ( सुतेषु ) उत्पन्न पदार्थों और ऐश्वर्यादि अभिषेक कर्मों में ( रणिता ) रमने हारा और रणकुशल है । ( यः ) जो ( अहा इव रेवान् ) दिन वा सूर्य के समान तेज और बल से युक्त, धनाधिपति, और ( अनुत्तमन्युः ) अप्रतिहत, अपराजित बल वाला, ( यः एक इत् ) जो अकेला ही ( नरि अपांसि कर्ता ) नायक पद पर रह कर भी नाना कर्मों को करने हारा है ( सः ) वह ( वृत्रहा ) शत्रु और विघ्नों का नाशक पुरुष हो, उस को ही ( अन्यं प्रति इत् आहुः ) शत्रु के प्रति प्रबल करके जानते और कहते हैं ।

स वृत्रहेन्द्रश्चर्पणीधृत्तं सुप्रुत्या हव्यं हुवेम ।

स प्राविता मघवा नोऽधिवक्ता स वाजस्य श्रवस्यस्य दाता २०

भा०—(सः वृत्रहा) वह दुष्टनाशक पुरुष ही (चर्पणीधृत्) मनुष्यों को धारण करता है । (तं हव्यम्) उस स्तुत्य पुरुष को हम (सु-स्तुत्या) उत्तम गुण स्तवन द्वारा (हुवेम) प्राप्त करें । (सः) वह (मघवा) ऐश्वर्यवान् (नः प्राविता) हमारा उत्तम रक्षक हो और (सः) वह (नः अधिवक्ता) हमारा अध्यक्ष, शासक और (सः वाजस्य श्रवस्यस्य दाता) कीर्त्ति, अन्नादिप्रद, ऐश्वर्य बल, और ज्ञान का दाता है ।

स वृत्रहेन्द्र ऋभुक्षाः सद्यो जज्ञानो हव्यो वभूव । कुरवन्नपांसि  
नर्या पुरूणि सोमो न पीतो हव्यः सखिम्यः ॥ २१ ॥ ३५ ॥

भा०—(सः) वह (वृत्र-हा) दुष्टों और विघ्नों का नाशक, (ऋभु-क्षाः) बल और गुणों से महान्, वा सत्य से दीप्तियुक्त, विद्वान्, तेजस्वी, शिल्पी आदि जन को आश्रय देने वाला, (जज्ञानः) प्रकट होकर (सद्यः हव्यः वभूव) शीघ्र ही स्तुत्य, उपादेय हो जाता है । वह (पुरूणि नर्या अपांसि कृण्वन्) नायक योग्य वा प्रजाजन के हितार्थ बहुत से कर्मों को करता हुआ (पीतः सोमः न) पान वा पालन योग्य सोम-रस, ऐश्वर्य वा पुत्रादि के समान ही (सखिभ्यः हव्यः) मित्रों के लिये स्तुत्य हो जाता है ।

इस सूक्त में परमेश्वर के सृष्टि रचनाविषयक निदर्शन आत्मा का शरीरग्रहण, रचना और वशीकरण, योग-साधनादि का भी निर्देश है । इति पञ्चत्रिंशो वर्गः ॥

[ ६७ ]

रेभः काश्यप ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ११ विराड् बृहती । २, ६, ६, १२ निचृद् बृहती । ४, ५, ८ बृहती । ३ मुरिगनुष्टुप् । ७ अनुष्टुप् । १० मुरिगजगती । १३ अतिजगती । १५ ककुम्भती जगती । १४ विराट्

त्रिष्टुप् ॥ पञ्चदशर्चं सूक्तम् ॥

या इन्द्र भुज आभरः स्वर्वाँ असुरेभ्यः ।

स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वर्धय ये च त्वे वृक्त्वर्हिषः ॥ १ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( स्वर्वान् ) आदित्य के समान तेजस्वी पुरुषों का स्वामी होकर ( असुरेभ्यः ) प्राण वाले जीवों के हितार्थ ( याः भुजः आभर ) जिन योग्य पदार्थों को प्रदान करता है, ( अस्य ) इस धन से तू ( स्तोतारम् इत् ) स्तुतिकर्त्ता विद्वान् को ही हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! ( वर्धय ) बढ़ा और उन को भी बढ़ा ( ये च तव ) जो तेरे लिये ( वृक्त्वर्हिषः ) उत्तम आसन विछाते हैं या तेरे अधीन रहकर शत्रु को कुश-तृणवत् छेदन करते हैं ।

यमिन्द्र दधिपे त्वमश्वं गां भागमव्ययम् ।

यजमाने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन् तं धेहि मा पणौ ॥ २ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( त्वं ) तू ( यम् अश्वम् ) जिस अश्व को, ( गां ) भूमि व पशु को और ( अव्ययं भागम् ) अक्षय सैन्य को ( दधिपे ) धारण करता है, ( तं ) उस के ( सुन्वति ) यज्ञ करने वाले और ( दक्षिणावति ) दान दक्षिणा देने वाले ( तस्मिन् यजमाने धेहि ) उस यजमान के निमित्त धर । ( मा पणौ ) धन के व्यवहारी के निमित्त मत दे । राजा विद्वान् याज्ञिकों, यज्ञशील जनों को भूमि, अश्व, गा आदि की सहायता करे और केवल धन बटोरने वालों को दान न दे । य इन्द्र सस्त्यव्रतोऽनुष्वापमदेवयुः ।

स्वैः प एवैर्ममुरत्पोष्यं रयिं सन्नुतर्धेहि तं ततः ॥ ३ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) दुष्टों को दण्ड देने हारे ! ( यः अव्रतः ) जो कर्महीन, व्रतहीन होकर ( सस्ति ) आलस्य में सोता है और जो ( अनु-स्वापं ) निद्रा आलस्य के साथ २ ( अदेवयुः ) अपनी इन्द्रियों को वश में नहीं रखता वा विद्वानों, शुभ गुणों को नहीं चाहता, ( सः ) वह ( स्वैः एवैः ) अपने ही आचरणों से ( पोष्यं रयिं ममुरत् ) पोषण योग्य

जन और ऐश्वर्य का नाश करता है । ( ततः ) उस से हे ऐश्वर्यप्रद ! तू ( तं रथिं ) उस ऐश्वर्य को ( सनुतः धेहि ) कार्य और फल से वञ्चित कर । यच्छक्रासिं परावति यदर्वावति वृत्रहन् ।

अतस्त्वा गीर्भिर्द्युगदिन्द्र केशिभिः सुतावाँ आ विवासति ॥४॥

भा०—हे ( शक्र ) शक्तिशालिन् ! हे ( वृत्रहन् ) शत्रु के नाशक ! ( यत् ) जो तू ( परावति ) दूर और ( अर्वावति ) समीप देश में भी ( असि ) होता है तो भी हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यप्रद ! ( अतः ) इस अपने स्थान से ही, ( सुतवान् ) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त होकर तेरा प्रतिनिधि ( द्युगत् केशिभिः ) भूमि पर जाने वाले अश्वों और तेजस्वी पुरुषों द्वारा ( त्वा आ विवासति ) तेरी ही परिचर्या करता है ।

यद्वासिं रोचने दिवः समुद्रस्याधि विष्टपि ।

यत्पार्थिवे सद्ने वृत्रहन्तम् यदन्तरिक्षे आ गहि ॥ ५ ॥ ३६ ॥

भा०—( यद् वा ) तू चाहे ( दिवः रोचने ) भूमि के किसी अति रुचिकर देश में भी ( असि ) हो, चाहे तू ( समुद्रस्य अधि विष्टपि ) वा समुद्र के किसी निस्ताप प्रदेश में भी हो, चाहे तू ( यत् पार्थिवे सद्ने ) या पृथिवी के किसी गृह में वा ( यत् अन्तरिक्षे ) वा अन्तरिक्ष में भी हो तो भी हे ( वृत्रहन्तम् ) विघ्नों के नाशक स्वामिन् ! तू ( आ गहि ) हमें प्राप्त हो । ( २ ) परमेश्वर सूर्य, समुद्र, पृथिवी, अन्तरिक्ष आदि में सर्वत्र व्यापक है । वह हमें सर्वत्र प्राप्त हो । इति षट्त्रिंशो वर्गः ॥

स नः सोमेषु सोमपाः सुतेषु शवसस्पते ।

मादयस्व राधसा सुनृतावतेन्द्र राया परीणसा ॥ ६ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यप्रद ! हे ( शवसः पते ) बल के पालक ! हे ( सोमपाः ) ऐश्वर्य के पालक ! तू ( सोमेषु सुतेषु ) ऐश्वर्यों के उत्पन्न होने पर ( नः ) हमें ( सुनृतावता ) अन्न और उत्तम वचन से युक्त

( राधसः ) दान योग्य धन से और ( परीणसा ) बहुत से ( राया ) ऐश्वर्य से ( मादयस्व ) प्रसन्न, सुखी, वृत्त कर ।

मा न इन्द्र परा वृणाग्भवा नः सधमाद्यः ।

त्वं न ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न इन्द्र परा वृणक् ॥ ७ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यप्रद ! राजन् ! प्रभो ! तू ( नः ) हमें ( मा परा वृणक् ) मत परित्याग कर । तू ( नः सधमाद्यः भवः ) हमारे साथ आनन्द युक्त हो । ( त्वं नः ऊती ) तू ही हमारी रक्षा है । ( त्वम् इत् नः आप्यं ) तू ही हमारा बन्धु है । अर्थात् तू ही हमारा रक्षक, तू ही हमारा बन्धु है । अतः हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् विभो ! तू ( नः मा परा वृणक् ) हमें मत छोड़ ।

अस्मे इन्द्र सचा सुते नि पदा पीतये मधु ।

कृधी जरित्रे मधवन्नवो महद्स्मे इन्द्र सचा सुते ॥ ८ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( मधु पीतये ) मधुर अन्नादि के उपभोग के लिये ( अस्मे सुते ) हमारे द्वारा अभिषिक्त पद पर तू ( नि सद ) विराज । हे ( मधवन् ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( जरित्रे ) स्तोता विद्वान् उपदेष्टा के हितार्थ ( अस्मे सुते सचा ) हमारे ऐश्वर्य पर स्थिर रहकर ( महत् भवः कृधि ) बड़ी भारी रक्षा कर ।

न त्वा देवास आशत न मर्त्यासो अद्रिवः ।

विश्वा ज्ञातानि शर्वसाभिभूरसि न त्वा देवास आशत ॥ ९ ॥

भा०—हे ( अद्रिवः ) शक्तिशालिन् ! ( त्वा देवासः न आशत ) तुझे विद्वान् गण वा इन्द्रिय गण भी नहीं पा सकते । और ( न मर्त्यासः ) न साधारण मनुष्य, मरणशील प्राणी ही तुझे पा सकते हैं । तू ( शवसा ) बल से ( विश्वा ज्ञातानि ) समस्त उत्पन्न पदार्थों को भी ( अभिभूः असि ) वश किये हैं । इसलिये भी ( त्वा देवासः न आशत ) तुझे दिव्य पदार्थ सूर्यादि, एवं विद्वान् और नाना कामना करने हारे जन भी नहीं पा सकते ।

विश्वान् पृतना अभिभूतरं नरं सज्जूस्ततत्तुरिन्द्रं जजनुश्च राजसे।  
क्रत्वा वरिष्ठं वरं आमुरिमुतोग्रमोजिष्ठं तवसं तरस्विनम् १०।३७

भा०—( विश्वाः पृतनाः ) समस्त मनुष्य, ( अभिभूतरं नरं ) शत्रु को खूब पराजय करने वाले नायक ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् पुरुष को ( सजूः ) परस्पर प्रेमपूर्वक मिलकर ( राजसे जजनुः ) राज्य करने के लिये प्रधान पद पर स्थापित करते हैं और वे ( क्रत्वा वरिष्ठं ) ज्ञान और कर्म से श्रेष्ठ ( आ-मुरिम् ) शत्रुओं के नाश करने वाले, ( उग्रम् ) भयंकर, ( ओजिष्ठं ) अति पराक्रमी, ( तरस्विनं ) बलवान्, वेगवान्, ( तवसं ) शक्तिशाली, पुरुष को ( इन्द्रम् जजनुः ) सूर्यवत् तेजस्वी और ऐश्वर्यवान् राजा रूप से नियुक्त करें । इति सप्तविंशो वर्गः ॥

सर्मा रेभासा अस्वरन्निन्द्रं सोमस्य पीतये।

स्वर्पतिं यदी वृधे धृतव्रतो ह्योजसा समूतिभिः ॥ ११ ॥

भा०—(रेभासः) उत्तम स्तुतिकर्ता, उपदेशा जन (सोमस्य पीतये) ऐश्वर्य वा जगत् के पालन के लिये ( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान् ( स्वः-पतिम् ) सब सुखों के स्वामी को ( ईम् ) सब ओर से, सब प्रकार से ( सम् अस्वरन् ) मिलकर स्तुति, प्रार्थना करें और ( यत् ईं वृधे सम् अस्वरन् ) जब वे इसको अपनी वृद्धि के लिये प्रार्थना करें तब वह ( ऊतिभिः ) अपने रक्षा-साधनों और ( ओजसा ) बल पराक्रम से ( धृत-व्रतः ) व्रतों, कर्मों और नियमों को धारण करने वाला हो और उन को ( सम् अस्वरन् ) अच्छी प्रकार शासन करे । ( २ ) परमेश्वर अपनी शक्तियों से जगत् के सब नियमों को धारता है, सब अपनी वृद्धि और जगत् के पालनार्थ उस की स्तुति करें ।

नेमिं नमन्ति चक्षसा मेपं विप्रा अभिस्वरा।

सुदीतयो वा श्द्रुहोऽपि कर्णे तरस्विनः समूक्वभिः ॥ १२ ॥

भा०—( विप्राः ) विद्वान् पुरुष ( नेमिम् ) शत्रुओं के नमाने वाले

बलवान् ( मेपं ) समस्त सुखों के दाता, राजा को ( चक्षसा ) दर्शन कर  
( अभि-स्वरा ) उत्तम स्वर से ( नमन्ति ) उस का आदर करते हैं । हे  
विद्वान् लोगो ! आप लोग भी ( सु-दीतयः ) उत्तम दीप्ति युक्त ( अद्बुहः )  
द्रोह, परस्पर द्वेष, कलह से रहित और ( कर्णे तरस्विनः ) करने योग्य  
कर्त्तव्य कर्म में शीघ्रता करने वाले, अनालसी होकर ( ऋक्भिः ) उत्तम  
ऋचाओं से उस स्वामी की ( सं ) मिलकर स्तुति करो ।

तमिन्द्रं जोहवीमि मधवानमुग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कृतं शवांसि ।  
मंहिष्ठो गीर्भिरा च यज्ञियो ववर्तडाये नो विश्वा सुपथा कृणोतु  
वज्री ॥ १३ ॥

भा०—मैं ( तम् ) इस ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् ( मधवानम् ) उत्तम-  
धनों के स्वामी ( उग्रम् ) बलवान्, ( सत्रा शवांसि ) सच्चे बलों को-  
( दधानम् ) धारण करने वाले ( अप्रतिष्कृतं ) जिस के किये को कोई  
मेट न सके, जिस के बल को कोई रोकने वाला नहीं उस को ( जोहवीमि )  
बुलाता हूँ, उसी से प्रार्थना करूँ । वही ( मंहिष्ठः ) सब से बड़ा दानी  
( यज्ञियः च ) और पूज्य है । वह ( गीर्भिः आववर्त्तत् ) उत्तम वाणियों  
से शासन करता है । वह ( वज्री ) बलवान्, वीर्यवान्, शक्तिमान् स्वामी,  
( राये ) ऐश्वर्य के प्राप्त करने के लिये ( विश्वा ) सब प्रकार के ( सुपथा )  
उत्तम मार्ग ( कृणोतु ) करे ।

त्वं पुरं इन्द्र चिकिदेना व्योजसां शविष्ठ शक्र नाशयध्वै ।

त्वद्विश्वानि भुवनानि वज्रिन्धावा रेजेते पृथिवी च भीषा ॥१४॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! हे ( शविष्ठ ) सब से अधिक-  
शक्तिमान् ! हे ( शक्र ) शक्ति के देने हारे ! तू ( भोजसा ) अपने बल  
पराक्रम से ( पुरः नाशयध्वै चिकित् ) शत्रुओं नगरियों, गदियों को विनाश  
करना भली प्रकार जान । हे ( वज्रिन् ) वीर्यवान् ! ( विश्वानि भुवनां



घावा पृथिवी च ) समस्त भुवन, सूर्य और पृथिवी सब ( त्वद् भीपारेजे-  
ते ) तेरे भय से चल रहे हैं ।

तन्मिं ऋतमिन्द्र शूर चित्र पात्वपो न वज्रिन्दुरितातिं पर्षिभूरि ।  
कदा न इन्द्र राय आ दशस्ये विश्वप्स्यस्य स्पृहयाय्यस्य राजन्  
॥ १५ ॥ ३८ ॥ ६ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यप्रद ! ( तत् ऋतम् ) वह सत्य ज्ञान  
( मे पातु ) मेरी रक्षा करे । हे ( चित्र ) पूज्य ! हे अद्भुत गुण कर्म  
स्वभाव ! हे ( वज्रिन् ) बलवन् ! ( अपः न ) जलों के समान तू  
( भूरि दुरिता भति पर्षि ) बहुत से दुःखों और पापों से पारकर । हे  
( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( विश्वप्स्यस्य ) सब प्रकार के ( स्पृहयाय्यस्य )  
चाहने योग्य ( रायः ) धन का हे ( राजन् ) तेजस्विन् ! तू ( नः कदा  
आ दशस्ये ) हमें कब प्रदान करेगा । इत्यष्टान्निशो वर्गः ॥

इति षष्ठोऽध्यायः ।

अथ सप्तमोऽध्यायः

[ ६८ ]

ऋमेध ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ५ उष्णिक् । २, ६ ककुम्मती  
उष्णिक् । ३, ७, ८, १०—१२. विराडुष्णिक् । ४ पादनिचृदुष्णिक् ।  
६ निचृदुष्णिक् ॥ द्वादशर्च सूक्तम् ॥

इन्द्राय सामं गायतु विप्राय बृहते बृहत् ।

धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ १ ॥

भा०—( बृहते ) महान् ( विप्राय ) मेधावी, ( धर्म-कृते ) समस्त  
धर्मों के धारण करने वाले, प्रबन्धों को करने वाले, ( विपश्चिते ) विद्वान्,

( पनस्यवे ) स्तुति चाहने वाले, वा वाणी और सद्व्यवहारों के पालक  
( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान् प्रभु के निमित्त ( बृहत् साम ) बृहत् साम का  
( गायत ) गान करो ।

त्वमिन्द्राभिभूरसि त्वं सूर्यमरोचयः ।

विश्वकर्मा विश्वदेवो महान् असि ॥ २ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( त्वम् ) तू ( अभिभूः असि )  
सर्वत्र विद्यमान है ( त्वम् सूर्यम् अरोचयः ) तू सूर्य को प्रकाशित करता  
है । तू ( विश्व-कर्मा ) समस्त जगत् का बनाने वाला, और ( विश्व-देवः )  
सब देवों का देव, सब का दाता, सब का प्रकाशक और ( महान् असि )  
सब से बड़ा है ।

विभ्राजज्ज्योतिषा स्वर्गच्छो रोचनं दिवः ।

देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥ ३ ॥

भा०—तू ( ज्योतिषा ) तेज से ( स्वः विभ्राजन् ) समस्त विश्व को  
प्रकाशित करता हुआ ( दिवः ) सूर्य और आकाशस्थ समस्त प्रकाशमान  
पिण्डों को भी ( रोचनं ) तेज ( आगच्छः ) प्राप्त कराता है । हे ( इन्द्र )  
ऐश्वर्यवान् ! ( देवाः ) सब देदीप्यमान लोक और सब विद्वान् हे ( इन्द्र )  
देदीप्यमान ! ( ते सख्याय ) तेरे मित्र भाव के लिये ( येमिरे ) अपने  
को नियम-बन्धन में बांधते हैं, तेरी आज्ञा का पालन करते हैं ।

एन्द्र नो गधि प्रियः सत्राजिदगोह्यः ।

गिरिर्न विश्वतस्पृथुः पतिर्दिवः ॥ ४ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! तू ( नः प्रियः ) हमारा प्रिय, ( सत्रा-  
जित् ) सत्य बल से सबको विजय करने वाला, ( अगोह्यः ) अगोप्य,  
सर्वत्र प्रकाशित, ( गिरिः ) मेघ वा पर्वत के समान ( विश्वतः पृथुः ) सब  
से बड़ा ( दिवः पतिः ) सूर्यादि तेजस्वी जगत् का और हमारी कामनाओं  
का भी स्वामी, पालक है । तू ( नः आ गधि ) हमें प्राप्त हो ।

अभि हि सत्य सोमपा उभे वभूथ रोदसी ।

इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पतिर्दिवः ॥ ५ ॥

भा०—हे ( सत्य ) सत्यस्वरूप ! ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( उभे रोदसी ) आकाश और पृथिवी दोनों पर ( अभि वभूथ ) वश करता है । तू ( सुन्वतः वृधः ) उपासक का बढ़ाने वाला, ( दिवः पतिः ) कामनाओं और तेजों का स्वामी है ।

त्वं हि शश्वतीनामिन्द्रं दूर्ता पुरामसि ।

हन्ता दस्योर्मनोर्वृधः पतिर्दिवः ॥ ६ ॥ १ ॥

भा०—( त्वं ) तू अवश्य ( शश्वतीनां पुराम् ) बहुत सी, अनादि काल से बनी ( पुराम् ) नगरियों का ( दूर्ता असि ) तोड़ने हारा है । तू ( दस्योः हन्ता ) दुष्टों को दण्ड देने वाला और ( मनोः वृधः ) उपासक का बढ़ाने वाला और उसका ( दिवः पतिः ) कामनाओं का पालक, वा ( दिवः पतिः ) भूमि और आकाशादि का भी पालक है । इति प्रथमो वर्गः ॥

अथा हीन्द्रं गिर्वणः उप त्वा कामान्महः संसृज्महे ।

उदेव यन्त उदमिः ॥ ७ ॥

भा०—हे ( गिर्वणः ) वाणी द्वारा उपास्य ! स्तुत्य ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( अध हि ) और हम ( त्वा उप ) तेरे ही समीप रह कर ( महः कामान् ) बड़ी २ अभिलाषाओं को ( संसृज्महे ) पूर्ण करें ( उदा इव यन्तः उदमिः ) जिस प्रकार नदी समुद्रादि से जाते हुए यात्री जल से ही अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं उसी प्रकार तुझ से उन्नत होकर हम तेरे द्वारा ही सब अभिलाषाएं पूर्ण कर लिया करें ।

वार्यं त्वा यद्याभिर्घन्ति शूर ब्रह्माणि ।

वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥ ८ ॥

भा०—हे ( शूर ) शूरवीर ! ( वाः न ) जल जिस प्रकार

( गव्याभिः ) नदियों द्वारा समुद्र को बढ़ाते हैं उसी प्रकार हे ( अद्रिवः ) शक्तिशालिन् ( ब्रह्माणि ) नाना ऐश्वर्य और स्तुतिवचन ( दिवे दिवे ) प्रति दिन ( वावृध्वांसं ) बढ़ते हुए ( त्वा वर्धन्ति ) तुझे बढ़ाते हैं ।

युञ्जन्ति हरी इपिरस्य गाथयोरौ रथ उरुयुगे ।

इन्द्रवाहा वचोयुजा ॥ ९ ॥

भा०—( इपिरस्य ) बड़ी इच्छा वाले राजा के ( उरुयुगे ) बड़े जुए वाले, ( उरौ रथे ) बड़े रथ में जिस प्रकार विद्वान् जन ( इन्द्र-वाहा ) ऐश्वर्य प्राप्ति कराने वाले, ( वचोयुजा ) वाणी मात्र से जुड़ने वाले ( हरी युञ्जन्ति ) दो भश्यों को नियुक्त करते हैं उसी प्रकार ( गाथया ) गान करने योग्य स्तुति और गाथा अर्थात् वेद वाणी द्वारा ( इपिरस्य ) सब के सञ्चालक, प्रवर्त्तक उस के ( उरौ ) विशाल ( उरु-युगे रथे ) महान् योजनावान् रमणीय रूप में विद्वान् जन, ( वचः-युजा ) वाणीमात्र से उस में योग देने वाले ( इन्द्र-वाहा ) इन्द्र आत्मा को धारण करने वाले ( हरी ) स्त्री पुरुषों को वा ( हरी ) गतिमान् आत्मा और मन को ( युञ्जन्ति ) योग द्वारा समाहित करते हैं ।

त्वं न इन्द्रा भरुँ ओजो नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे ।

आ वीरं पृतनापहम् ॥ १० ॥

भा०—हे ( शत-क्रतो ) अपरिमित ज्ञानवन् ! हे ( विचर्षणे ) समस्त विश्व को देखने हारे ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( त्वं नः ओजः नृम्णं आ भर ) तू हमें बल, पराक्रम और ऐश्वर्य प्रदान कर । और ( पृतना-सहं वीरं आ भर ) संग्राम विजयी वीर को प्राप्त करा ।

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो वभूविथ ।

अधा ते सुम्नमीमहे ॥ ११ ॥

भा०—हे ( वसो ) सब के पिता, सबको बसाने हारे, सब में व्यापक ! हे ( शत-क्रतो ) अपरिमित ज्ञान और कर्मों वाले ! ( त्वं हि नः पिता ) तू

निश्चय से हमारा पिता और ( त्वं माता बभूविथ ) तू ही हमारी माता होती है । ( भध ) इसी कारण हम ( ते, सुन्नम् ईमहे ) तेरे से सुख की याचना करते हैं ।

त्वां शुष्मिन्पुरुहूत वाजयन्तमुप ब्रुवे शतक्रतो ।

स नो रास्व सुवीर्यम् ॥ १२ ॥ २ ॥

भा०—हे ( शुष्मिन् ) बलशालिन् ! हे ( शतक्रतो ) अपरिमित कर्म-सामर्थ्य से सम्पन्न ! हे ( पुरुहूत ) बहुतां से प्रेमपूर्वक बुलाये गये ! ( वाजयन्तं त्वां ) बड़े ऐश्वर्य और ज्ञान प्रदान की कामना करने वाले तुझ से मैं प्रार्थना करता हूँ, ( सः ) वह तू ( नः सुवीर्यम् रास्व ) हमें उत्तम बल, वीर्य प्रदान कर । इति द्वितीयो वर्गः ॥

[ ६६ ]

नृमेध ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ आचीं स्वराड् वृहती ॥ २ वृहती । ३, ७ निचृद् वृहती । ५ पादानिचृद् वृहती । ४, ६, ८ पांक्तिः ॥ अष्टर्च सूक्तम् ॥

त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्वजिन्भूर्णयः ।

स इन्द्र स्तोमवाहसामिह श्रुध्युप स्वसरमा गहि ॥ १ ॥

भा०—हे ( वज्रिन् ) शक्तिशालिन् ! ( भूर्णयः ) प्रजाओं के उत्तम पालनकर्ता ( नरः ) नायक जन ( इदा ह्यः ) अब तव, पूर्ववत् अब और आगे भी, ( त्वाम् अपीप्यन् ) तुझे ही बढ़ावें । ( सः ) वह ( स्तोमवाह-साम् ) स्तुति धारण करने वालों की प्रार्थना को ( इह श्रुधि ) इस अवसर में श्रवण कर और ( स्वसरम् उप आ गहि ) गृहवत् राष्ट्र को तू प्राप्त हो । ( २ ) परमेश्वर, सबकी प्रार्थना श्रवण करता है और ( स्वसरम् ) अपने से व्याप्त विश्व को प्राप्त है ।

मत्स्वा सुशिप्र हरिब्रस्तदीमहे त्वे आ भूपन्ति वेधसः ।

तव श्रवांभ्युपमान्युक्थ्या सुतोष्विन्द्र गिर्वणः ॥ २ ॥

भा०—हे ( हरिवः ) मनुष्यों के स्वामिन् ! ( त्वे ) तेरे अधीन, तेरे आश्रय ( वेधसः आ भूपन्ति ) विद्वान् कर्ता जन सब ओर से आकर रहते हैं, ( त्व ईमहे ) इसी से हम भी तेरी याचना करते हैं। हे ( सुशिप्र ) सुमुख ! हे सोम्य ! तू ( मत्स्व ) आनन्द लाभ कर और सबको सुखी कर। हे ( गिर्वणः ) वाणियों से स्तवन करने योग्य ! ( सुतेषु ) उत्पन्न पदार्थों और ऐश्वर्यों में ( तव ) तेरे ( उक्थ्या उपमानि ) प्रसंसीय, उपमा योग्य, ( श्रवांसि ) यश और श्रवणयोग्य ज्ञान और कर्म हैं।

श्रायन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत ।

वसूनि जाते जनमान् ओजसा प्रति भागं न दीधिम ॥ ३ ॥

भा०—हे प्रजास्थ जनो ! ( श्रायन्तः ) आश्रय लेते हुए आप लोग आश्रित जनों के समान ही ( सूर्यम् ) सूर्य के समान तेजस्वी, ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यवान् प्रभु के ( विश्वा वसूनि ) सब प्रकार के ऐश्वर्यों को ( भक्षत ) सेवन करो, वा परस्पर विभक्त कर लिया करो। और ( जाते ) उत्पन्न और ( जनमाने ) आगे उत्पन्न होने वाले ऐश्वर्य में भी हम लोग ( ओजसा ) अपने बल पराक्रम के द्वारा ( भागं ) अपने प्राप्य अंश को ( प्रति दीधिम ) प्रत्येक व्यक्ति अपना २ ग्रहण करें।

मा गृधः कस्य स्विद्धतम् । यजु० अ० ४० ॥

अनर्शरतिं वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः ।

सो अस्य कामं विधत्तो न रोषति मनो दानाय चोदयन् ॥ ४ ॥

भा०—हे मनुष्य ! तू ( अनर्श-रतिम् ) निष्पाप, सात्विक, पवित्र दान देने वाले, ( वसु-दाम् ) ऐश्वर्य के दाता प्रभु की ( उप स्तुहि ) उपासना और प्रार्थना किया कर। क्योंकि ( इन्द्रस्य रातयः ) ऐश्वर्यवान् के सब दान ( भद्राः ) सुखदायक और कल्याणकारक हैं। ( सः ) वह ( विधत्तः अस्य ) परिचर्या करने वाले इस भक्त के ( कामं न रोषति ) अभिलाषा

को नष्ट नहीं करता, प्रत्युत ( दानाय मनः चोदयन् ) दान देने के लिये ही मन वा उत्तम ज्ञान की प्रेरणा किया करता है ।

त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृधः ।

अशस्तिहा जनिता विश्वतूरसि त्वं तूर्य तरुष्यतः ॥ ५ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( त्वम् ) तू ( प्रतूर्तिषु ) संग्रामों की ( विश्वाः वृधः ) सब स्पर्धालु पर-सेनाओं को ( अभि असि ) पराजित करने में समर्थ होता है । तू (अशस्ति-हा) निन्द्रकों का नाशक, (जनिता) सबका पितावत् जनक ( विश्वतूः असि ) सब शत्रुवर्ग का नाशक वा समस्त विश्व का चालक है । ( त्वं ) तू ( तरुष्यतः ) हिंसक, पीड़कों को ( तूर्य ) विनष्ट कर ।

अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातरा ।

विश्वाम्ते स्पृधः श्रथयन्त मन्यवे वृत्रं यद्रिन्द्र तूर्वसि ॥ ६ ॥

भा०—( मातरा शिशुं न) माता पिता जिस प्रकार शिशु के समीप प्रेमपूर्वक प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ( ते ) तेरे ( तुरयन्तं शुष्मम् अनु ) दुष्टनाशक एवं संचालक बल के पीछे २ आकृष्ट होकर (क्षोणी) आकाश-भूमि गत सब पदार्थ उसके पीछे चलते हैं । ( ते मन्यवे ) तेरे क्रोध के आगे ( विश्वाः स्पृधः ) समस्त स्पर्धाकारी अहंकारी भी ( श्रथयन्त ) शिथिल हो जाते हैं ( यद् इन्द्र ) जब तू हे शत्रुनाशक ! ( वृत्रं ) दुष्ट, बाधक को ( तूर्वसि ) नाश करने को तैयार होता है ।

इत ऊती वो अजरं प्रहेतारमप्रहितम् ।

आशुञ्जैतारं हेतारं रथीतममर्तूतं तुग्न्वावृधम् ॥ ७ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! आप लोग ( अजरम् ) अविनाशी ( प्र-हेतारं ) सबके प्रेरक, शत्रुओं के नाशक, और ( अप्र-हितम् ) स्वयं किसी से भी प्रेरित न होने वाले, ( आशुम् ) वेगवान्, व्यापक, ( जेतारं ) सर्वविजयी,

( हेतारं ) दुष्टों के नाशक, ( रथि-तमम् ) रथ वालों में सर्वोत्तम, विश्व-  
मात्र में महारथी के तुल्य, ( अतूर्तम् ) अहिंसित, अवाधित, ( तुद्य-वृधम् )  
दुष्टों के नाश करने की शक्ति को बढ़ाने वाले, परमेश्वर को आप लोग  
( उक्ती ) अति प्रेमपूर्वक ( इतः ) आगे करो ।

इष्कर्तारमनिष्कृतं सहस्कृतं शतमूर्तिं शतक्रतुम् ।

समानमिन्द्रमवसे हवामहे वसवानं वसूजुवम् ॥ ८ ॥ ३ ॥

भा०—( इष्कर्तारम् ) सबके संचालक, ( अनिष्कृतं ) अन्यों से  
अप्रेरित, ( सहस्कृतम् ) सब बलों के उत्पादक, ( शतम्-उक्तिं ) अपरिमित  
रक्षा साधनों से युक्त ( शत-क्रतुम् ) अपरिमित प्रज्ञावाले, ( समानं )  
सबके प्रति समान, ( वसवानं ) सबको आच्छादित करने वाले, ( वसू-  
जुवम् ) सब जीवों, ऐश्वर्यों और लोकों के प्रेरक, दाता, ( इन्द्रम् )  
ऐश्वर्यवान् प्रभु को हम ( अवसे ) अपनी रक्षार्थ ( हवामहे ) प्रार्थना  
किया करें । इति तृतीयो वर्गः ॥

[ १०० ]

नेमो भागवतः । ४, ५ इन्द्र ऋषिः ॥ देवताः—१—६, १२ इन्द्रः । १०,  
११ वाक् ॥ छन्दः—१, ४ पादानिचृत् त्रिष्टुप् । २, ११ निचृत् त्रिष्टुप् ।  
३, ५, १२ त्रिष्टुप् । १० विराट् त्रिष्टुप् । ६ निचृत्जगती । ७, ८  
अनुष्टुप् । ९ निचृदनुष्टुप् ॥ द्वादशर्चं सूक्तम् ॥

अयं त एमि तन्वा पुरस्ताद्विश्वे देवा अभि मा यन्ति पश्चात् ।  
यदा मह्यं दीर्घरो भागमिन्द्रादिन्मया कण्वो वीर्याणि ॥ १ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् ! ( ते पुरस्तात् ) तेरे आगे ( अयं )  
यह मैं ( तन्वा ऐमि ) अपने देहसहित आता हूँ । और इसी प्रकार  
( मा पश्चात् ) मेरे पीछे ( विश्वे देवाः ) समस्त कामनावान् जीवगण, सुक्ष  
इन्द्रादि के समान ( त्वा पुरस्तात् अभियन्ति ) तेरे समक्ष आते हैं । तू



( यदा ) जब ( मह्यं भागम् दीधरः ) मेरे लिये सेवन करने योग्य अंश कर्मफल वा ग्राह्य विषय को रखता है, बनाता है, ( आत् इत् ) अनन्तर ही ( मया ) मुझ द्वारा ( वीर्याणि कृणवः ) नाना बलयुक्त कार्य करता है । जिस प्रकार स्वामी अधीनस्थ भृत्य जन के लिये उसका वेतनादि अंश प्रथम नियत कर देता है और उससे बड़े र, भारी काम भी करा लेता है उसी प्रकार परमेश्वर की व्यवस्था में भी सुकृतों के नाना उत्तम फल प्राप्त होने नियत हैं । उनको लक्ष्य कर जीव द्वारा नाना आश्चर्यजनक कर्म होते हैं ।

दधामि ते मधुनो भक्षमग्रे हितस्ते भागः सुतो अस्तु सोमः ।  
असश्च त्वं दक्षिणतः सखा मेऽधा वृत्राणि जघनाव भूरि॥३॥

भा०—हे ऐश्वर्यवान् ! ( ते ) तेरे दिये ( मधुनः भक्षम् ) मधुर अन्न के भोग्य फल को मैं ( अग्रे दधामि ) सदा अपने आगे लक्ष्य रूप से रखता हूँ । और ( ते भागः ) तेरा भाग ( सुतः सोमः ते हितः अस्तु ) यह उत्पादित ऐश्वर्य सब तेरा ही दिया, तेरे ही अर्पण हो । और तू ( च मे ) यदि मेरा ( दक्षिणतः सखा असः ) दायें ओर, सबसे बड़ा, प्रबल सखा, हो ( अथ ) तो तू और मैं दोनों मिलकर ( भूरि वृत्राणि ) बहुत से विघ्नों को ( जघनाव ) विनाश करें ।

‘व’ अत्र चण् इति णितः प्रयोगश्चेदर्थे वर्त्तते । ‘निपातर्यथदिहन्तकुविच्चे च्छेणकश्चिदयत्रयुक्तम्’ इति तिङो निघाताभावः ॥ ईश्वर ही सबसे बड़ा सहायक है, उसके बिना विघ्नों का नाश असम्भव है ।

प्र सु स्तोमं भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति ।  
नेन्द्रो अस्तीति नेम उ त्व आह क ई ददर्श कमभिष्टवाम ॥३॥

भा०—हे मनुष्यो ! ( वाजयन्तः ) ज्ञान, ऐश्वर्य, और बल की कामना करते हुए आप लोग अब ( इन्द्राय ) उस ऐश्वर्यवान् की उपासनाार्थ ( स्तोमं प्र सु भरत ) स्तुतियों का अच्छी प्रकार प्रयोग करो । ( यदि सत्यं )

यदि संदेह है कि वह सत्य है तो जानो वह (सत्यम् अस्ति) अवश्य सत्य है ।  
 क्यों कि (उ त्वः नेमः) कोई २ मनुष्य (न इन्द्रः अस्ति इति आह) ऐश्वर्य-  
 वान् विघ्ननाशक प्रभु नहीं है ऐसा भी कहता है । (कः ईं ददर्श) उसको  
 कौन देखता है ? फिर हम ( कम् अभि स्तवाम ) किसकी स्तुति करें ?  
 अयमस्मि जरितः पश्य मेह विश्वा जातान्यभ्यस्मि महा ।  
 ऋतस्य मा प्रदिशो वर्धयन्त्यादर्दिरो भुवना दर्दरीमि ॥ ४ ॥

भा०—इस प्रकार संदिग्ध हृदय वाले स्तोताजन के प्रति साक्षात्  
 प्रभु का वचन सन्देह निवृत्त्यर्थ इस प्रकार है—हे (जरितः) स्तुतिकर्त्तः!  
 ( अयम् अस्मि ) मैं यह हूँ । ( पश्य मा इह ) मुझे तू यहाँ इस जगत्  
 में इस रूप में देख । मैं ( महा ) महान् सामर्थ्य से ( विश्वा जातानि  
 अभि अस्मि) समस्त पदार्थों को अपने वश किये हूँ । (ऋतस्य) सत्य ज्ञान  
 के (प्र-दिशः) उत्तम कोटि के दिखाने वा उपदेश करने वाले शास्ता गुरुजन  
 ( मा वर्धयन्ति) मुझे ही बढ़ाते, मेरी ही महिमा का विस्तार करते हैं ।  
 मैं ही ( आदर्दिः ) सबको छिन्न भिन्न करने वाला हूँ । ( भुवना) समस्त  
 उत्पन्न लोकों को भी ( दर्दरीमि ) प्रलय रूप से परमाणु २, छिन्न भिन्न  
 करता हूँ । जब तक जीव अर्थात् देह का नायक 'नेम' देह के सुखों में मग्न  
 रहता है तब वह प्रभु को भूल जाता है । पर जब वह संकट या दुःखदशा  
 में अपनी चलती नहीं देखता और बन्धु बान्धवों और अपने २ देह का  
 भी नाश होता देखता है तब वह प्रभु की महती सत्ता को अनुभव करता है ।  
 आ यन्मा वेना अरुहन् ऋतस्यँ एकमासीनि ह्यृतस्यँ पृष्ठे ।

मनश्चिन्मे हृद् आ प्रत्यवोच्चदचिक्रदञ्छिमन्तः सखायः ॥ ५ ॥

भा०—( ह्यृतस्य ) इस अति सुन्दर ( ऋतस्य ) गतिमान्  
 सत् कारणरूप प्रकृतिरूप तत्त्व के (पृष्ठे) पीठ पर (आसीनि) विराजे हुए  
 ( एकम् ) एक अद्वितीय ( मा ) मुझे ( वेनाः ) चाहने वाले विद्वान्  
 जन ( मा अरुहन् ) मुझ तक पहुंचते हैं, तब ( मनः ) उन

का मननशील अन्तःकरण ही ( मे हृदे आ प्रति अवोचत् ) मेरे हृदय को प्राप्त करने के लिये आदरपूर्वक मेरे प्रति कहता है या मुझ हृदयस्थ सुहृद् के लिये वचन-प्रतिवचन किया करता है और वे ( सखायः ) मेरे मित्र होकर ( अन्तः शिशुम् ) भीतर अन्तःकरण में व्यापक मुझ को लक्ष्य करके ( अचिक्रदन् ) स्तुति किया करते हैं ।

अथवा—वे ( शिशु-मन्तः सखायः मे अचिक्रदन् ) भीतर सुतवत् विद्यमान् मुझ व्यापक से युक्त होकर मुझे पुकारा करते हैं । जैसे कोई गोद में बच्चा लेकर उसी से घण्टों विनोद से बात किया करते हैं ठीक उसी प्रकार प्रभु को हृदय में सूक्ष्म रूप से विद्यमान अनुभव करके भक्त उसी के प्रति नाना वचन-प्रतिवचन कहा करते हैं ।

विश्वेत्ता ते सर्वनेपु प्रवाच्या या च्चकर्थं मघवन्निन्द्र सुन्वते ।

पारावतं यत्पुरुसम्भृतं वस्वपावृणोः शरभाय ऋषिवन्धवे ॥६।४॥

भा०—हे ( मघवन् ) पूजित धनयुक्त ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यप्रद ! हे तेजःस्वरूप ! सर्वद्रष्टः ! ( सर्वनेपु ) उपासना, स्तुति आदि के अवसरों में, या ( सर्वनेपु ) निर्माण किये लोकों में, ( या ) जो ( प्र-वाच्या ) उत्तम रूप से वर्णन करने योग्य ( ता ) उन नाना ( विश्वा ) संमस्त कार्यों को ( च्चकर्थं ) करता है और उन को तू ( सुन्वते ) अपने उपासक के लिये ( अप अवृणोः ) स्पष्ट खोल देता है । और ( यत् ) जो ( पारावतम् ) परम रक्षा-स्थान, मोक्षमय लोक का ( वसु ) परमैश्वर्य ( पुरु-सम्भृतम् ) बहुत एकत्र है उस को भी ( ऋषि-बन्धवे शरभाय ) जगत्द्रष्टा के बन्धुस्वरूप एवं उस को प्राप्त होने वाले भक्त के सुखार्थ ( अप अवृणोः ) खोल देता है ।

प्र नूनं धावता पृथक् नेह यो वो अवावरीत् ।

निषीं वृत्रस्य मर्मणि वज्रमिन्द्रो अपीपतत् ॥ ७॥

भा०—हे विद्वान् उपासक जीवो ! ( नूनं ) तुम अवश्य निश्चयपूर्वक बहुत शीघ्र ( प्र पृथक् धावत ) उत्तम मार्ग पर पृथक्, स्वतन्त्र होकर चलो

और अपने आप को खूब स्वच्छ करो । ( यः ) जो परमेश्वर ( इत् ) इस जगत् में ( वः ) आप लोगों को ( न अवावरीत् ) नहीं रोकता वह ही ( सीम् ) सब प्रकार से ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् प्रभु ( वृत्रस्य ) तुम्हें रोकने वाले, विघ्नकारी अज्ञान के ( मर्मणि ) मर्म पर या मूल भाग पर ( वज्रम् ) ज्ञान रूप वज्र को ( नि अपीपतत् ) गिराता है और उसका नाश करता है ।

मनोजिवा अयमान आयसीमतरत्पुरम् ।

दिवं सुपर्णो गत्वाय सोमं वज्रिण आभरत् ॥ ८ ॥

भा०—( मनोजिवा ) मन के वेग वाला वा उत्तम ज्ञान, संकल्प के वेग से युक्त ( अयमानः ) आगे बढ़ता हुआ आत्मा ( आयसीम् ) लोहे की बनी ( पुरम् ) प्रकोट के समान प्राणों से बनी इस पञ्चकोशमय देह पुरी को ( अतरत् ) पार कर जाता है । ज्ञान के बल से ज्ञानी देहबन्धन से मुक्त हो जाता है । वह ( सुपर्णः ) उत्तम ज्ञानी आत्मा ( दिवं गत्वाय ) तेजःस्वरूप प्रभु को प्राप्त होकर ( वज्रिणे सोमम् ) सर्वशक्तिमान् प्रभु के सर्वप्रेरक बल, आनन्द को ( आभरत् ) प्राप्त करता है । 'वज्रिणे' इति पठ्यर्थे चतुर्थी ।

समुद्रे अन्तः शयत उद्ना वज्रो अभिवृतः ।

भरन्त्यस्मै संयतः पुरः प्रस्रवणा वलिम् ॥ ९ ॥

भा०—जिस प्रकार ( वज्रः ) विद्युत् रूप बल, ( उद्ना अभीवृतः ) जल से आवृत, जल में छिपा, ( समुद्रे अन्तः शैते ) समुद्र के भीतर व्याप रहा है ( अस्मै वलिम् ) उस बलशाली विद्युत् के बल को ( संयतः ) अच्छी प्रकार नियमित ( प्रस्रवणाः ) बहती जल-धाराएं ( पुरः भरन्ति ) पूर्व ही धारण किये रहती हैं । इसी प्रकार ( वज्रः ) अज्ञान का निवारक ज्ञान का प्रकाश और बल ( उद्ना ) उत्तम रीति से ( अभीवृतः ) सर्वत्र विद्यमान ( अन्तः समुद्रे ) समुद्रवत् व्यापक, आनन्दमय प्रभु में

( शयते ) व्यापक है । ( पुरःप्रसन्नवणाः ) आगे उत्तम रीति से जाने वाले, विनीत जन ( सं-यतः ) संयम से रहते हुए, ( अस्मै ) उस प्रभु के ( वलिम् ) वलयुक्त ज्ञान को ( भरन्ति ) धारण करते हैं ।

यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्रीं देवानां निपसादं मन्द्रा ।

चतस्र ऊर्जं दुदुहे पर्यासि क्वं स्वित्स्याः परमं जगाम ॥ १० ॥

भा०—( यत् ) जो ( वाक् ) वाणी ( राष्ट्री ) तेजस्विनी प्रभुशक्ति के समान ( मन्द्रा ) अति सुखप्रद, सबको प्रसन्न करने वाली, ( देवानां ) विद्वानों और सब भूतों के बीच में ( अविचेतनानि ) अविज्ञेय, निगूढ़ तत्वों को ( वदन्ती ) कहती या प्रकाश करती हुई ( देवानां मध्ये नि-स-साद ) विद्वानों के बीच विराजती है । वह ( चतस्रः ) चारों दिशाओं, चारों आश्रमों, चारों वर्णों की प्रजाओं के प्रति ( पर्यासि ) मेघस्थ विद्युत् जैसे जलों को प्रदान करती है वैसे ही नाना ज्ञानों को ( दुदुहे ) प्रदान करती है, और ( ऊर्जं दुदुहे ) जैसे भूमि अन्न को उत्पन्न करती है वैसे वह भी बल को पूर्ण करती है । ( अस्याः ) इस वेदमयी वाणी का ( परमं ) परम रूप ( क्वं स्वित् जगाम ) कहां विद्यमान है यह नहीं ज्ञात होता ।

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति ।

सा नो मन्द्रेपमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुष सुष्टुतैतु ॥ ११ ॥

भा०—( देवम् ) अर्थों का प्रकाश करने वाली ( वाचम् ) वाणी को ( देवाः ) विद्वान् जन ( अजनयन्त ) प्रकट करते हैं और ( तां ) उसको ( विश्व-रूपाः ) सब प्रकार के ( पशवः ) ज्ञानद्रष्टा जीवगण, ( वदन्ति ) व्यक्त और अव्यक्त रूप से बोलते हैं । ( सा ) वह ( मन्द्रा ) सुखदायिनी ( धेनुः ) गौ के समान ( इपम् ऊर्जं दुहाना ) मध्यम लोक अन्तरिक्ष में मेघस्थ विद्युत् के तुल्य अन्न, जलवत्, प्रेरणा और सम्पदा प्रदान करती हुई ( वाक् ) वाणी ( सु-स्तुता ) उत्तम रीति से उपदेश की जाकर ( अस्मान् आ एतु ) हमें प्राप्त हो ।

सखे विष्णो वितरं वि क्रमस्व द्यौर्देहि लोकं वज्राय विष्कभे ।  
हनाव वृत्रं रिणचाव सिन्धुनिन्द्रस्य यन्तु प्रसवे विसृष्टाः १२।५

भा०—हे ( विष्णो ) व्योपक शक्तिशालिन् ! ( सखे ) मित्र ! तू ( वितरं विक्रमस्व ) खूब वायु के समान विक्रम कर । हे ( द्यौः ) पृथिवी हे मूर्धन्य राजसभे ! ( वज्राय विष्कभे ) वज्र, शस्त्र-बल, सैन्यादि के विशेष रूप से छावनी बनाकर बैठने के लिये ( लोकं देहि ) स्थान प्रदान कर । हम दोनों मिलकर ( वृत्रं हनाव ) बढ़ते शत्रु का मेघ को वायु-विद्युत्त्वत् नाश करें । और ( सिन्धून् रिणचाव ) मेघस्थ जलों के तुल्य शत्रु को वा अपने ही तीव्रगामी सैन्य पंक्तियों को स्वतन्त्र रूप से जाने दें । वे ( इन्द्रस्य प्रसवे ) सेनापति के शासन में ( विसृष्टाः ) विशेषरूप से गति करते हुए ( यन्तु ) जावें । इति पञ्चमो वर्गः ॥

[ १०१ ]

जमदग्निर्भागीव ऋषिः ॥ देवताः—१—५ मित्रावरुणौ । ५, ६ आदित्याः । ७, ८ आशिनौ । ९, १० वायुः । ११, १२ सूर्यः । १३ उषाः सूर्यप्रभा वा । १४ पवमानः । १५, १६ गौः ॥ छन्दः—१ निचृद् बृहती । ६, ७, ९, ११ विराड् बृहती । १२ मुरिग्वृहती । १० स्वराड् बृहती । ५ आर्ची स्वराड् बृहती । १३ आर्ची बृहती । २, ४, ८ पंक्तिः । ३ गायत्री । १४ पादनिचृत् त्रिष्टुप् । १५ त्रिष्टुप् । १६ विराट् त्रिष्टुप् ॥ षोडशर्चं सूक्तम् ॥

ऋधगित्था स मर्त्यः शशमे देवतातये ।

यो नूनं मित्रावरुणावभिष्टय आचक्रे हव्यदातये ॥ १ ॥

भा०—( यः ) जो ( नूनं ) शीघ्र ही ( मित्रावरुणौ ) मित्र और वरुण, प्राण और भपान दोनों को ( अभिष्टये ) अभिमत फल प्राप्त करने और ( हव्य-दातये ) उत्तम अन्न ग्रहण के लिये ( आचक्रे ) अपने अनुकूल कर लेता है, ( सः मर्त्यः ) वह मनुष्य ( देव-तातये ) इन्द्रिय गण को

वश करने के लिये ( ऋधक् इत्था ) सचमुच इस प्रकार से ( शशमे ) शम की साधना करता है ।

इसी प्रकार जो व्यक्ति यज्ञ द्वारा मित्र, वायु और वरुण, जल इन को अपने अनुकूल कर स्वास्थ्यप्रद और अन्नप्रद कर लेता है ( देव-तातये ) सब मनुष्यों के लिये जगत् में शान्ति उत्पन्न करता है, वह उत्तम कृपि से अन्न भी उत्पन्न कर लेता है ।

वर्षिष्ठक्षत्रा उरुचक्षसा नरा राजाना दीर्घश्रुत्तमा ।

ता बाहुता न दंसना रथर्यतः साकं सूर्यस्य रश्मिभिः ॥ २ ॥

भा०—वे दोनों मित्र और वरुण, (वर्षिष्ठ-क्षत्रा) अति बलशाली, प्रचुर वर्षा लाने वाले वीर्य जलादि से युक्त ( उरु-चक्षसा ) विशाल दर्शन वाले ( नरा ) उत्तम दो नायकों के तुल्य ( राजाना ) तेजस्वी, ( दीर्घ-श्रुत्तमा ) बहुश्रुत हैं । ( ता ) वे दोनों ( बाहुता न ) दो बाहुओं के समान ( दंसना ) नाना कर्म ( रथर्यतः ) करते हैं । उसी प्रकार वायु और मेघ दोनों मित्र और वरुण हैं । वे ( वर्षिष्ठ-क्षत्रा ) दोनों प्रचुर वर्षा लाने वाले बल और जल से युक्त, ( उरु-चक्षसा ) बहुत रूपों में दीखने वाले, ( नरा ) उत्तम सुख प्राप्त कराने वाले ( राजाना ) विद्युद् आदि से प्रदीप्त ( दीर्घश्रुत्तमा ) दूर से ही गर्जन रूप में सुनाई देने वाले हैं, वे मानो ( बाहुता न ) प्रजापति की दो बाहुओं के समान ( सूर्यस्य रश्मिभिः साकं ) सूर्य की किरणों के साथ ( दंसना रथर्यतः ) बहुत से कर्म करते हैं । उन दोनों से वृष्टि, अन्नोत्पत्ति और ऋतु परिवर्तन आदि होते हैं ।

राष्ट्र में वे दोनों अधिकारी न्याय-शासन और सैन्य-विभाग हैं । वे सूर्यवत् तेजस्वी राजा के रश्मिरूप मर्यादा, कानूनों वा प्रणिधियों, गुप्त-चरों के द्वारा वा तेजस्वी आदि गुणों से बहुत से कार्य सम्पादन करते हैं ।

सूर्य रश्मियों की प्रणिधियों से तुल्यता—

न तस्य मण्डले राज्ञो न्यस्तप्रणिधिदीधितेः ।

अदृष्टमभवत् किञ्चित् व्यभ्रस्येव विवस्वतः ॥ ४८ ॥

रश्मियों की गुणों से उपमा जैसे—

इन्दोरगतयः पद्मे सूर्यस्य कुमुदेषुशवः ।

गुणास्तस्य विपक्षेपि गुणिनो लेभिरेऽन्तरम् ॥ ७५ ॥

( रघु० १७ )

प्र यो वां मित्रावरुणा जिरो दूतो अद्रवत् ।

अयःशीर्षा मदेरघुः ॥ ३ ॥

भा०—हे ( मित्रा-वरुणा ) मित्र अर्थात् दिनवत् प्रजा के प्राणों के रक्षक और अर्थात् रात्रिवत् सब को सुख देने वाले राजा शासकादि जनो ! ( यः ) जो ( वां ) तुम दोनों का ( अजिरः ) वेग से जाने वाला, ( दूतः ) दूत ( प्र ) अद्रवत् ) देश देशान्तर जाता हो वह ( अयः-शीर्षा ) लोहे के शिर वाला, दृढ़ विचार और ( मदे रघुः ) हर्षादि से प्रफुल्लगति हो । शिर लोहे का हो अर्थात् उस के विचार दृढ़ और रहस्यों के छिपाने में कठोर हों । अथवा—( अयः ते शीर्षा ) उस के शिर पर स्वर्णीय मुकुट या पद का चिन्ह आदि हो ।

न यः संपृच्छे न पुनर्हवीतये न संवादाय रमते ।

तस्मान्नो अद्य समृतेरुप्यतं बाहुभ्यां न उरुप्यतम् ॥४॥

भा०—( यः ) जो ( संपृच्छे न रमते ) अच्छी प्रकार प्रश्न पूछने पर भी प्रसन्नतापूर्वक उत्तर नहीं देता, ( न पुनः हवीतये रमते ) न बुलाने पर ही प्रसन्न होता है और ( न सं-वादाय रमते ) न परस्पर संवाद के लिये ही हर्षपूर्वक अनुमति देता है, ( तस्मात् सम-ऋतेः ) उस शत्रु के साथ संग्राम से ( नः अद्य उरुप्यतम् ) हमारी आज रक्षा करो और ( बाहु-भ्यां नः उरुप्यतम् ) उस के बाहुओं से हमें बचाओ ।

प्र मित्राय प्रार्यम्णे संच्छथ्यमृतावसो ।

वृश्थ्यं वरुणे छन्धं वचः स्तोत्रं राजसु गायत ॥५ ॥६॥



भा०—हे ( ऋत-वसो ) सत्य के धनी ! तू ( मित्राय ) स्नेही जन, ( अर्यम्णे ) शत्रुओं के नियन्ता और ( वरुणे ) श्रेष्ठ जन के लिये ( सच-ध्यम् ) सेवायोग्य, आदरणीय, मेल मिलाप के और ( वरुध्यम् ) दुःख-वारक तथा ( छन्द्यं ) चित्तवृत्ति के अनुकूल ( वचः ) वचन का ( प्र ) प्रयोग कर । और हे ( मनुष्यो ) आप लोग ( राजसु ) राजा, तेजस्वी जनों में उक्त प्रकार के ( स्तोत्रं ) स्तुति वचन का ( गायत ) गान करो ।  
ते हिंन्विरे अरुण जेन्यं वस्वेकं पुत्रं तिसृणाम् ।

ते धामान्यमृता मर्त्यानामदग्धा अभि चक्षते ॥ ६ ॥

भा०—( ते ) वे ( अरुणं ) तेजस्वी, अमित वीर्यवान्, ( जेन्यं ) विजयशील ( वसु ) सब को सुखपूर्वक वसाने वाले, ( तिसृणां ) तीनों लोकों के एक अद्वितीय सूर्य के समान उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तीनों प्रकार की प्रजाओं के बीच ( एकं ) एक अद्वितीय ( पुत्रं ) बहुतों के रक्षक को ( हिंन्विरे ) बढ़ावें । ( ते ) वे ( अमृताः ) कभी नाश न होने वाले, ( अदग्धाः ) किसी से भी न मारे जाकर ( मर्त्यानां धामानि ) मनुष्यों के सब स्थानों का ( अभि चक्षते ) निरीक्षण करते हैं ।

आ मे वचांस्युद्यता द्युमत्तमानि कर्त्वा ।

उभा यातं नासत्या सजोपसा प्रति हव्यानि वीतये ॥ ७ ॥

भा०—हे ( नासत्या ) प्रमुख, असत्याचरण न करने वाले स्त्री-पुरुषो ! आप दोनों ( मे ) मेरे ( उद्यता ) उपस्थित ( द्युमत्तमानि ) ज्ञानप्रकाश से युक्त ( कर्त्ता ) कार्य रूप से करने योग्य ( वचांसि ) वचनों को ( आयातम् ) प्राप्त करो । और ( उभा सजोपसा ) दोनों प्रेम से युक्त होकर ( हव्यानि वीतये प्रति यातम् ) उत्तम भन्न खाने के लिये लौट जाया करो । विद्वानों के उत्तम २ व्याख्यानादि सुनने के लिये स्त्री पुरुष वा शिष्य शिष्या जन विद्वानों के पास आया करें और भोजनार्थ पुनः घरों या आश्रमों पर चले जाया करें ।

रातिं यद्वामरक्षसं हवामहे युवाभ्यां वाजिनीवसू ।

प्राचीं होत्रां प्रतिरन्तावितं नरा गृणाना जमदग्निना ॥ ८ ॥

भा०—हे ( वाजिनी-वसू ) अन्न, बल आदि से युक्त कृषि सैन्यादि कार्यों से धनी सम्पन्न जनो ! ( युवाभ्याम् ) तुम दोनों के हम ( अरक्षसं ) दुष्ट पुरुषों से रहित ( रातिम् ) अविघ्नित दान राशि की ( वाम् हवामहे ) आप दोनों से याचना करते हैं । आप दोनों ( नरा ) उत्तम नर नारी, ( जमदग्निना वृणाना ) प्रज्वलित अग्नि वाले विद्वान् आचार्य द्वारा उपदेश युक्त होकर ( प्राचीं होत्रां ) प्राक्तनी, प्रकृष्ट ज्ञान और आदर से युक्त वेद वाणी को ( प्रतिरन्तौ ) बढ़ाते हुए ( इतं ) आओ ।

आ नो यज्ञं दिविस्पृशं वायो याहि सुमन्मभिः ।

अन्तः पवित्रं उपरि श्रीणानोऽयं शुक्रो अयामि ते ॥ ९ ॥

भा०—हे ( वायो ) ज्ञानवन् ! बलवन् ! विद्वन् ! तू ( नः ) हमारे ( दिवि-स्पृशं ) मनःकामनागत, वा ज्ञान सम्बन्धी, ( यज्ञं ) परस्पर के सत्संग को ( सुमन्मभिः ) उत्तम ज्ञानों सहित ( आ याहि ) प्राप्त हो । ( अयं ) यह मैं ( पवित्रे उपरि श्रीणानः ) पवित्र व्रत पर आश्रय लेता हुआ ( शुक्रः ) शुद्ध आचारवान् होकर ( ते अन्तः अयामि ) तेरे अन्तःकरण में स्थान प्राप्त करूं । वा ( ते अन्तः अयामि ) तेरे अन्तःकरण को बांधता हूं ।

वेत्यध्वर्युः पथिभी रजिष्ठैः प्रति हव्यानि वीतये ।

अर्धा नियुत्व उभयस्य नः पिव शुचिं सोमं गवाशिरम् १०।७.

भा०—हे ( नियुत्वः ) नियुक्त शिष्यों के स्वामिन् गुरो ! ( अध्वर्युः ) अपने अविनाश या रक्षा की कामना करता हुआ शिष्य ( रजिष्ठैः ) अति तेजस्वी ( पथिभिः ) सन्मार्गों से ( हव्यानि ) ग्रहण करने योग्य ज्ञानों को ( वीतये ) प्राप्त करने के लिये ( प्रति वेति ) तुझे प्राप्त होता है ।

तू ( नः ) हममें से ( उभयस्य ) दोनों की ( पिव ) पालना कर । ( शुचि ) शुद्ध, व्रतचारी और ( गवाशिरं सोमम् ) गौ, वाणी के ऊपर विद्याभ्यासी दोनों प्रकार के शिष्यों की पालना कर । ( २ ) इसी प्रकार ( अध्वर्युः ) अहिंसा व्रत का इच्छुक जन अन्नों को भोग करने के लिये उत्तम २ मार्गों से जीवन व्यतीत करे । वह शुद्ध अन्नादि, वनस्पति और ( गवाशिरम् ) गौ आदि के दुग्ध और भूमिस्थ कन्द आदि फल का भोग करे इस प्रकार वनस्थ का धर्म पालन करे । इति सप्तमो वगः ॥

वरमहाँ असि सूर्यं वळादित्य महाँ असि ।

महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महाँ असि ॥ ११ ॥

भा०—हे ( सूर्य ) समस्त जगत् के उत्पादक, सूर्यवत् प्रकाशक और सब्बालक ! तू ( वट् महान् असि ) सचमुच महान् है । हे ( आदित्य ) सब को अपने वश में लेने हारे । तू ( वट् महान् असि ) सचमुच महान् है । ( ते महः सतः ) तुझ महान् सत्स्वरूप का ( महिमा पनस्यते ) बड़ा भारी महान् समर्थ्य वर्णन किया जाता है । हे ( देव ) सब सुखों के दातः ! तू ( अद्धा महान् असि ) सचमुच महान् है ।

वट् सूर्यं श्रवसा महाँ असि सत्रा देव महाँ असि ।

महा देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम् ॥ १२ ॥

भा०—हे ( सूर्यवत् ) तेजस्विन् ! सर्वप्रकाशक सूर्य ! परमेश्वर ! तू ( वट् ) सत्य ही ( श्रवसा महान् असि ) अपने ज्ञान, और यश से महान् है । हे ( देव ) प्रकाशस्वरूप तू ( सत्रा ) सत्य के बल से ( महान् असि ) महान् है । तू ( महना ) अपने महान् सामर्थ्य से ( असुर्यः ) प्राणों में रमण करने वाले जीवों का हितकारी, बलवानों में सब से बड़ा चलशाली, ( पुरोहितः ) सब के समक्ष साक्षिवत् विराजमान है । तू ( विभु ) सर्वव्यापक, ( अदाभ्यम् ) कभी नाश न होने वाला ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप है ।

इयं या नीच्यर्किणी रूपा रोहिण्या कृता ।

चित्रेव प्रत्यदर्श्यायत्यन्तर्दशसु बाहुषु ॥ १३ ॥

भा०—( इयं ) यह ( या ) जो ( नीची ) नीचे की ओर मुख किये, विनयशील कन्या के समान नीचे की ओर झुकी, ( आकणी ) स्तुति से युक्त, वा अर्क, मन्त्रादि को जानने वाली अर्किणी, सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष की ( रूपा ) रूपवती ( रोहिण्या ) सूर्य की कान्ति के समान उज्ज्वल ( कृता ) उत्तम अलंकारों से सुसज्जित, ( चित्रा इव ) अद्भुत रूप वाली के समान ( दशसु बाहुषु ) दशों दिशाओं में ( बाहुषु ) बाहुओं के बल पर ( आयती ) विस्तृत राजशक्ति है वह ( प्रति अदर्शि ) सब को उत्तम रीति से दीखे ।

प्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयुर्न्या अर्कमभितो विविश्रे ।

बृहद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित आ विवेश ॥ १४ ॥

भा०—( तिस्रः प्रजाः ) तीनों प्रकार की प्रजाएं ( अति-आयम् ) सब को अतिक्रमण करके विराजमान प्रभु को ही ( ईयुः ) प्राप्त होती हैं । अथवा—तीन प्रजाएं ( अत्यायम् ईयुः ) अतिक्रमण कर गति करती हैं जैसे—पक्षी गण, भूमि को छोड़कर आकाश से विचरते हैं वे तीन प्रकार के हैं, जैसे—गव, वगध और चेरपाद । और ( अन्याः ) दूसरी प्रजाएं ( अर्कम् अभितः ) सूर्यवत् अन्न का आश्रय लेकर ( विविश्रे ) स्थित हैं ! ( भुवनेषु अन्तः ) लोक में ( बृहत् पवमानः ) बड़ा भारी परम पावन, प्रभु ( तस्थौ ) विराजता है, वह ही ( हरितः अविवेश ) सब दिशाओं में वायुवत् व्यापक है ।

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः ।

प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट ॥ १५ ॥

भा०—( रुद्राणां माता ) दुष्टों को रूढ़ाने वाले वीर पुरुषों को दूध

पिलाकर पुष्ट करने वाली, रोगों को नाश करने वाले घृत, दुग्ध आदि पदार्थों की उत्पन्न करने वाली माता यह गौ है; और वीरों की उत्पादक और रोग नाशक ओषधियों की उत्पादक जननी यह गौ भूमि है, दुष्ट दलनकारी वीरों और प्राण युक्त जीवों की माता यह कन्यारूप मातृ शक्ति गौ है। वह ( वसूनां दुहिता ) राष्ट्र में वा जगत् में वसे समस्त जीवों को सब सुखों की देने वाली, ( आदित्यानां स्वसा ) दान-आदान करने वाले व्यापारी वैश्य जनों की ( सु-असा ) सर्व सुखदात्री, भगिनी के समान है और ( अमृतस्य नाभिः ) अमृत दीर्घ जीवन को देने वाली, मानो आश्रय है। मैं ( चिकितुषे ) इन समस्त तथ्यों को जानने वाले को ( नु प्रवोचं ) अवश्य यह बलपूर्वक कहता हूँ कि ऐसी (अनागां गाम्) अपराध रहित गौ को और ( अदितिम् ) भूमिवत् माता-पितावत्, पुत्र-पुत्रिवत् गौ का ( मा वधिष्ट ) कभी हनन मत करा। वेद की यह ऐसी प्रबल अहिंसा प्रतिपादक अपील है जिस को सुनकर घोर हिंसक भी गौ पर उठाये हाथ को खींच ले।  
 च्चाविद् वाचमुदीरयन्तीं विश्वाभिधीभिर्हृतिष्ठमानाम् ।

देवीं देवेभ्यः पर्येयुषीं गामा मावृक्त मर्त्यो दभ्रचेताः ॥१६॥ ८॥

भा०—(वचः-विदम्) वचन, परिभाषण, परस्पर वातचीत का ज्ञान कराने वाली, (वाचम् उदीरयन्तीम्) वाणी को उन्नत करने वाली, (विश्वा-भिः धीभिः) समस्त कर्मों सहित ( उपतिष्ठमानाम् ) उपस्थित होती हुई ( देवेभ्यः मा परि एयुषीम् ) विद्वान् जनों से मुझ को प्राप्त होने वाली ( देवीं गाम् ) ज्ञान का प्रकाश देने वाली, ज्ञानमयी 'गौ' वाणी को ( दभ्र-चेताः ) अल्प चित्त वाला, अल्पज्ञानी ( मर्त्यः ) मनुष्य ( परि आ अवृक्त ) परित्याग किया करता है। और विशाल चित्त वाला बहुज्ञ पुरुष उस वेदवाणी का आश्रय लेता और ज्ञानरस का दोहन किया करता है। अथवा—(देवेभ्यः एयुषीं गां मा परि आ-अवृक्त) सब मनुष्यों के हितार्थ प्राप्त गौ को मत मारो। इत्यष्टमो वर्गः ॥

[ १०२ ]

प्रयोगो भार्गवोऽग्निर्वा पावको वार्हस्पत्यः । अथवाग्नी गृहपतियविष्टौ सहसः  
सुतौ । तयोर्वाग्यतर ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः—१, ३—५, ८, ९,  
१४, १५, २०—२२ निचृद् गायत्री । २, ६, १२, १३, १६ गायत्री ।  
७, ११, १७, १८ विराड् गायत्री । १०, १८ पादनिचृद् गायत्री ॥

त्वमग्ने वृहद्वयो दधासि देव दाशुषे । क्विर्गृहपतिर्युवा ॥ १ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) विद्वन् ! तेजस्विन् ! सर्वप्रकाशक ! हे ( देव )  
दानशील ! ( दाशुषे ) देने वाले को ( त्वम् ) तू ( वृहत् वयः )  
बहुत बड़ी आयु, प्रचुर अन्न और बहुत सा ज्ञान ( दधासि ) प्रदान  
करता है । तू ( कविः ) क्रान्तदर्शी, ( गृहपतिः ) गृह का स्वामी और  
( युवा ) बलवान् है ।

स न ईळानया सह देवाँ अग्ने दुवस्युवा । चिकिद्विभान्वा वह २

भा०—हे ( विभानो ) विशेष कान्तियुक्त ! तू ( चिकित् ) ज्ञानवान्  
है । ( नः ) हमें ( अनया इडा ) इस स्तुति वा उत्तम इच्छा, ( दुवस्युवा )  
परिचर्या, सेवा-शुश्रूषा के ( सह ) साथ २ ( देवान् आ वह ) शुभ गुणों  
और दानी, ज्ञानी, उत्तम विद्वान् जनों को हमें प्राप्त करा ।

त्वया ह स्विद्युजा वयं चोदिष्टेन यविष्ठय ।

अभि ष्मो वाजसातये ॥ ३ ॥

भा०—हे ( यविष्ठय ) अति बलशालिन् ! ( त्वया युजा स्विन् )  
तुझ सहयोगी के साथ ही ( वयम् ) हम ( वाज-सातये ) ज्ञान, बल,  
ऐश्वर्यादि प्राप्त करने के लिये ( अभि स्मः ) सबको वश करें । ( २ ) अग्नि,  
सूर्य द्वारा 'वाज' अर्थात् अन्न प्राप्त होता है, अग्नि विद्युत् द्वारा बल, वेग  
और ऐश्वर्य भी प्राप्त होते हैं ।

श्रौर्वभृगुवच्छुचिमपनवानवदा हुवे । अग्निं समुद्रवाससम् ॥४॥

भा०—( समुद्र-वाससम् ) समुद्र को वद्य के समान धारण करने वाले ( और्व-भृगुवत् ) भूमि के भीतर सब पदार्थों को भर्जन करने वा परिपाक करने वाले तेज से युक्त और ( शुचिम् ) शुद्ध, पवित्र ( अमवानवत् ) जल के जाल से युक्त ( अग्निम् ) अग्नि के तुल्य बलवान् में भी ( समुद्र-वाससम् ) महान् अन्तरिक्ष में व्यापक प्रभुरूप ( अग्निं ) अग्नि, ज्ञानमय तेजस्वी को ( और्व-भृगुवत् ) भूमि के समस्त पदार्थों को संतप्त करने और परिपाक करने के सामर्थ्य से युक्त सूर्यवत् ( शुचिम् ) शुद्ध-पवित्र और ( अमवानवत् ) सुख प्राप्त करने के समस्त साधनों वाले सामर्थ्य से युक्त उस प्रभु को (आ हुवे) आदरपूर्वक बुलाता हूं । उसी की प्रार्थना करता हूं ।

‘अमवानवत्’—अम इति रूप नाम, अपत्यनाम, पदनाम च । आपः कर्माख्यायां ह्रस्वो नुट् च वा । अमः । अपः । आपः । उणादि० ॥ आप्यते सुखं येन तत् अमः, अपत्यं सुकर्म वा ।

अथवा—( १ ) अग्नि कैसा है ( और्व-भृगुवत् ) भूमि के समान अर्थात् जो उसमें पड़ता निमग्न हो जाता है इसी प्रकार प्रभु और विद्वान् भी है जो उसके पास हो वह उसमें ही निमग्न होता है ।

( २ ) ( अमवानवत् ) अग्नि कैसा ? रूप जाल से युक्त, तेजोरूप, विद्वान् । गृहपति कैसा ? अपत्य-पुत्र, शिष्यादि गण से युक्त, सुखद वा सुकर्मों से युक्त । पुण्यवान् प्रभु कैसा ? सुखप्रद ऐश्वर्यों से युक्त, वा जीवादि पुत्रों से युक्त ।

हुवे व्रातस्वनं कृचिं पर्जन्यक्रन्दं सहः ।

अग्निं समुद्रवाससम् ॥ ५ ॥ ९ ॥

भा०—( समुद्र-वाससम् अग्निम् ) [समुद्र के गर्भ में विद्यमान

भाग ( वातस्वनः पर्जन्य-क्रन्धं ) जिस प्रकार प्रचण्ड वात वा शब्दकारी मेघ के समान गर्जन करने वाला होता है उसी प्रकार (समुद्र-वाससम्) महान् आकाश में व्यापक, ( वात-स्वनं ) प्राण, वायु आदि द्वारा समस्त जीवों को प्राण देने वाले ( कविः ) क्रान्तदर्शी, ( पर्जन्य-क्रन्धं ) सब मेघों को भी गर्जन कराने वाले विद्युत् के समान वा सबका उत्पादक पिता कहाने योग्य, सब रसों और बलों का आश्रय कहाने योग्य ( सहः ) सब कुछ सहने वाले, सब के वशयिता, ( कविः ) विद्वान् क्रान्तदर्शी अन्तर्यामी प्रभु को ( हुवे ) स्मरण करता हूँ ।

(पर्जन्य-क्रन्धं) पर्जन्यः जनयिता वा प्रार्जयिता वा रसानाम् । निरुक्त० ॥  
विद्वान्, वक्ता भी वात और मेघ के समान गंभीर ध्वनि वाले वा मेघ के समान भोजनादि से तृप्तिदायक, शत्रुओं के जेता कहाने योग्य हो ।  
इति नवमो वर्गः ॥

आ सवँ सवितुर्यथा भगस्येव भुजिं हुवे । अग्निं समुद्रवाससम् ६

भा०—(सवितुः सवं यथा) सूर्य के प्रकाश के तुल्य सत्य का प्रकाश करने वाले और ( भगस्य इव भुजिं ) ऐश्वर्य के भोक्ता या पालक राजा के समान तेजस्वी, ( समुद्र-वाससं अग्निं ) बड़वानल के समान विशाल आकाश में व्यापक वा जगत् भर को समुद्रवत् आच्छादित करने वाले ( अग्निम् ) तेजोमय परमेश्वर की ( हुवे ) स्तुति करता हूँ । इसी प्रकार राजा वा विद्वान् 'समुद्रवासाः' अर्थात् समुद्र के समान प्रजाओं का आच्छादित करने वाला रक्षक होता है ।

अग्निं वो वृधन्तमध्वराणां पुरुतमम् ।

अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ ७ ॥

भा०—( वः वृधन्तम् ) आप सब मनुष्यों को बढ़ाने वाले, ( अध्वराणां ) यज्ञों, अविनाशी पदार्थों के बीच में ( पुरु-तमम् ) सबसे बड़े पालक पोषक, ( अग्निं ) प्रकाशस्वरूप को मैं ( हुवे ) पुकारता हूँ ( नप्त्रे )



सबको अपने साथ प्रेम से बांधने वाले और ( सहस्वते ) बलवान् प्रभु को प्राप्त करने के लिये मैं ( अच्छ हुवे ) साक्षात् उस की स्तुति करता हूं ।

अयं यथा न आभुवत्त्वष्टां रूपेव तदया ।

अस्य क्रत्वा यशस्वतः ॥ ८ ॥

भा०—( त्वष्टा तक्ष्या रूपा इव आभुवत् ) बढ़ई जिस प्रकार छील छाल कर बनाने योग्य पदार्थों को बनाने में समर्थ होता है उसी प्रकार (अयं) यह प्रभु भी ( त्वष्टा ) सब जगत् का बनाने वाला, तेजस्वी ( नः आभुवत् ) हमें भी बनाता है । ( अस्य यशस्वतः क्रत्वा ) इसी बल, कीर्ति वाले प्रभु के ज्ञान और कर्मसामर्थ्य से हम भी बलयुक्त, ज्ञानवान् यशस्वी हों ।

अयं विश्वा अभि श्रियोऽग्निदेवेषु पत्यते ।

आ वाजैरुप नो गमत् ॥ ९ ॥

भा०—( अयं ) यह ( अग्निः ) अग्नि जिस प्रकार ( देवेषु ) सब भूतों के बीच में ( श्रियः अभि पत्यते ) समस्त शोभाओं, कान्तियों को धारण करता है उसी प्रकार यह ( अग्निः ) ज्ञानी, नायक, स्वामी, प्रभु ( विश्वाः श्रियः ) समस्त आश्रय लेने वालों का ( अभि पत्यते ) साक्षात् पालक होता है, और ( देवेषु ) सब दिव्य पदार्थों वा दाताओं में भी सबसे अधिक ऐश्वर्यवान् होता है । वह ( वाजैः ) बलों, ज्ञानों, अन्नों, और ऐश्वर्यों सहित ( उप गमत् ) हमें प्राप्त हो ।

विश्वेषामिह स्तुहि होतृणां यशस्तमम् ।

अग्निं यज्ञेषु पूर्व्यम् ॥ १० ॥ १० ॥

भा०—( विश्वेषाम् होतृणाम् ) सब दाताओं में से ( यशस्तमं ) सबसे अधिक यशस्वी, ( पूर्व्यम् ) सबसे पूर्व विद्यमान, सबसे पूर्ण, प्रभु की, ( इह यज्ञेषु ) यहां यज्ञों, सत्संगों में ( स्तुहि ) स्तुति कर । इति दशमो वर्गः ॥

शीरं पावकशोचिषं ज्येष्ठो यो दमेष्वा । दीदाय दीर्घश्रुत्तमः ११

भा०—( यः ) जो ( दीर्घश्रुत्-तमः ) दीर्घ काल तक गुरु-मुखों से खूब श्रवण करने योग्य, ( ज्येष्ठः ) सबसे बड़ा, प्रशंसनीय, ( दमेपु ) सब घरों में दीपक के समान, ( आ दीदाय ) सर्वत्र प्रकाशमान है, सब भुवनों में प्रकाश करता है, उस ( शीरं ) सर्वव्यापक ( पावक-शोचिषं ) अग्नि के समान पवित्रकारक ज्योति वाले प्रभु की यज्ञादि में स्तुति कर ।

तमर्वन्तं न सानसिं गृणीहि विप्र शुष्मिणम् ।

मित्रं न यातयज्जनम् ॥ १२ ॥

भा०—हे ( विप्र ) बुद्धिमान् मनुष्य ! तू ( तम् ) उस ( अर्वन्तम् ) अश्व के समान ( सानसिम् ) जीवन मार्ग के परम सुखदायक, ( शुष्मिणम् ) उत्तम बलों से युक्त, ( मित्रं ) मित्र के समान ( यातयत्-जनम् ) समस्त मनुष्यों को प्रेम से प्रयत्न, उद्योग कराने वाले प्रभु की ( गृणीहि ) स्तुति कर ।

उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीर्हविष्कृतः ।

वायोरनीके अस्थिरन् ॥ १३ ॥

भा०—( हविष्कृतः ) हवि, चरु आदि देने वाले अज्ञशील पुरुष की ( गिरः ) वाणियां ( त्वा देदिशतीः ) तेरा वर्णन करती हुई ( जामयः ) बन्धु भगिनियों के समान ( वायोः अनीके ) वायु के समीप अश्रिवत्, प्राणों के बल पर ( त्वा अस्थिरन् ) तुझको हृदय में स्थिर भाव से जागृत कर देती हैं । भगवत्-स्तुतियां ही परमेश्वर के भाव को हृदय में दृढ़ करती हैं ।

यस्य त्रिधात्ववृतं वहिस्तस्थावसन्दिनम् ।

आपश्चिन्नि दधा पदम् ॥ १४ ॥

भा—जिस प्रकार अग्नि तत्व के लिये ( त्रिधातु बर्हिः ) तीनों प्रकार

के लोक आश्रय है, उसी प्रकार (त्रिधातु) तीनों प्रकार के (अवृत्त) क्रिया-रहित (वर्हिः) लोक ( असंदिनम् ) असम्बद्ध होकर (यस्य) जिसके आश्रय पर क्रियावान् और सम्बद्ध हैं और जिसमें ( आपः चित् ) समस्त प्रकृति आदि पदार्थ और जीवगण, प्रजावत् ( पदं नि दध ) स्थिति प्राप्त करते हैं उसको तू हृदय में स्थान दे ।

पदं देवस्य मीह्लुषोऽनाधृष्टाभिरुतिभिः ।

भद्रा सूर्य इवोपदृक् ॥ १५ ॥ ११ ॥

भा०—( मीह्लुषः देवस्य ) सब सुखों के वर्षक, सब सुखों के दाता, सब ज्ञानों और लोकों के प्रकाशक प्रभु का ( पदं ) स्वरूप ( अनाधृष्टाभिः ऊतिभिः ) किसी से न पराजित होने वाली रक्षाकारिणी सेनाओं से राजा के पद के समान, अधर्पणीय शक्तियों से युक्त है । वह स्वयं भी (सूर्यः इव) सूर्य के समान ( भद्रा ) कल्याणकारक ( उपदृक् ) समीप स्थित देखने वाली चक्षु के समान सर्व ज्ञान का प्रकाशक है । इत्येकादशो वर्गः ॥

अग्ने घृतस्य धीतिभिस्तेपानो देव शोचिपा ।

आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥ १६ ॥

भा०—जिस प्रकार सूर्य ( घृतस्य धीतिभिः ) तेज की धारण शक्तियों ( देवान् ) किरणों को धारण करता और (तेपानः) तपता है और जिस प्रकार घृत की आहुतियों से अग्नि (देवान्) सुगन्ध दान आदि गुणों को धारण करता है उसी प्रकार हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! हे ( देव ) ज्ञान आदि के दाता ! (तेपानः) तप करता हुआ तू ( शोचिपा ) तेज से (घृतस्य धीतिभिः) ज्ञान की वाणियों द्वारा ( देवान् ) ज्ञान के इच्छुक शिष्य जनों के प्रति ( आ वक्षि ) ज्ञान करा प्रवचन कर और ( यक्षि च ) उनको ज्ञान का दान दे, उनसे सत्संग कर ।

तं त्वाजनन्त मातरः कविं देवासो अङ्गिरः ।

हव्यवाहममर्त्यम् ॥ १७ ॥

भा०—( तं त्वा ) उस तुझ को ( मातरः देवासः ) विद्वान् जन माता के तुल्य ( कविं अजनन्त ) कविवत् क्रन्तदर्शी रूप से प्रकट करते हैं । और ( हव्यवाहं ) ग्राह्य ज्ञान-वचनों को धारण करने वाले ( अमर्त्यम् ) अमरणशील तुझ को वे ( मातरः अजनन्त ) माता के समान उत्पन्न करते हैं ।

प्रचेतसं त्वा कुवेऽग्ने दूतं वरेण्यम् ।

हव्यवाहं निषेदिरे ॥ १८ ॥

भा०—हे ( कवे ) दीर्घदर्शन, उपदेष्टा ! हे ( अग्ने ) ज्ञानवन् ! ( प्रचेतसं ) उत्तम ज्ञान वाले, ( दूतं ) उत्तम ज्ञान देने वाले ( वरेण्यम् ) श्रेष्ठ ( हव्यवाहं ) उत्तम वचन श्रवण करने वाले ( त्वा ) तुझ को आदर-पूर्वक निषेदिरे आसन पर बैठाते हैं ।

नहि मे अस्त्यञ्ज्या न स्वधितिर्वनन्वति ।

अथैतादृग्भरामि ते ॥ १९ ॥

भा०—( मे अञ्ज्या नहि अस्ति ) मेरे पास में, कभी न मारने योग्य अञ्ज्या गौ भी नहीं, और ( न ) नहीं ( स्वधितिः ) कुल्हाड़ी काण्ड ( वनन्वति ) काटती है, तो भी ( एतादृग् ) ऐसा ( ते ) तेरे निमित्त ( भरामि ) लाया हूँ । तू इसे ही स्वीकार कर । अर्थात् हे पूज्यवर ! न तो मेरे पास दुग्ध देने वाली यज्ञ करने को गौ है, न काष्ठों को काटने की कुल्हाड़ी है, मैं यज्ञ के स्थूल साधन उपस्थित नहीं कर सकता तो भी भगवन् ! भावनामय यज्ञ के साधन उपस्थित हैं यह चित्तिशक्ति अविनाशिनी होने से 'अञ्ज्या' और यही 'स्व' आत्म रूप से धारण करने योग्य 'स्वधिति' है । यही तेरे प्रति उपहार रूप मैं देता हूँ । इसी से तू प्रसन्न हो ।

यदग्ने कान्ति कानि चिदा ते दारुणि दध्मसि ।  
ता जुषस्व यविष्ठ्य ॥ २० ॥

भा०—हे (अग्ने) तेजस्विन् (यत्) जो हम (कानि कानिचित्) कई २ प्रकार के (दारुणि) नाना काण्ड (आदध्मसि) आधान करते हैं हे (यविष्ठ्य) सर्वशक्तिमन् ! तू (ता) उन २ को (जुषस्व) स्वीकार कर । जैसे अग्नि परशु से काटी हुई, छोटी २ समिधाओं को सुगमता से जला देता है उसी प्रकार विद्वान् आचार्य भी गर्भाधान आदि संस्कारों से संस्कृत आत्माओं को सहज ही ज्ञानवान् कर देता है, परन्तु यहां उसके पास सभी प्रकार के (‘दारु’ = धारु अर्थात् वत्स) वालक आवेंगे उनको विद्वान् गुरु प्रेमपूर्वक स्वीकार कर विद्या से उज्ज्वल करे ।

यदत्त्युपजिह्विका यद्वन्नो अतिसर्पति ।  
सर्वं तदस्तु ते घृतम् ॥ २१ ॥

भा०—(यद् उपजिह्विका अत्ति) जिस को दीमक खा जाती है और (यद् वन्नः अति सर्पति) जिसको बल्मीक लग जाता है वह काण्ड भी अग्नि में पड़कर (घृतम् अस्तु) चमकने लगने लगता है उसी प्रकार हे विद्वन् ! (यत्) जिस बालक को (उपजिह्विका) जीभ की चञ्चल प्रकृति (अत्ति) लग जाती है और (यद् वन्नः) वमनशील होकर जो पढ़े ग्रन्थ भूल जाय, ऐसा विद्यार्थी (अतिसर्पति) बहुत अवारा घूमता है (तत् सर्वं) वह सब भी (ते) तेरे समीप आकर तेरे लिये (घृतम् अस्तु) घृत के समान ज्ञान दीप्ति का साधन हो जाता है । (२) अथवा—हे प्रभो ! जो भी (उप-जिह्विका) वाणी प्राप्त कर लेती है, और जो (वन्नः) मन में आये ज्ञान को उगल देने वाला, अन्यो को उपदेष्टा जन तेरे पास आ जाता है वह सब तेरी ज्ञानदीप्ति वा स्नेह का पात्र हो ।

अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत् मर्त्यः ।

अग्निमीधे त्रिवस्वभिः ॥ २२ ॥ १२ ॥

भा०—( अग्निम् इन्धानः मर्त्यः ) अग्नि को प्रज्वलित करता हुआ मनुष्य ( मनसा धियं सचेत ) मन से वा ज्ञान से ( धियं ) बुद्धि वा कर्म को युक्त करे । इसी प्रकार मनुष्य ( विवस्वभिः ) विद्वानों द्वारा भी ( अग्निम् इधे ) उस ज्ञानवान् प्रभु को अपने हृदय में प्रज्वलित करे । इति द्वादशो वगः ॥

[ १०३ ]

सोमरिः कायव ऋषिः ॥ १—१३ अग्निः । १४ अग्निर्मरुतश्च देवताः ॥  
छन्दः—१, ३, १३, विराड् बृहती । २ निचृद् बृहती । ४ बृहती । ६ आर्ची  
स्वराड् बृहती । ७, ९ स्वराड् बृहती । ९ पंक्तिः । ११ निचृत् पंक्तिः ।  
१० आर्ची भुरिग् गायत्री । ८ निचृद्दृष्णिक् । १२ विराड्दृष्णिक् ॥

अदर्शिं गातुवित्तमो यस्मिन्व्रतान्यादधुः ।

उपोषु जातमार्यस्य वर्धनमग्निं नक्षन्त नो गिरः ॥ १ ॥

भा०—( गातुवित्-तमः ) मार्ग, वाणी, ज्ञान आदि को जानने और अन्यो को जनाने हारा, भूमि को सूर्यवत् वेद वाणी का भली प्रकार प्रकाशित करने वाला प्रभु, गुरु ( अदर्शि ) सब को दर्शन करने योग्य है । ( यस्मिन् ) जिस के आश्रय या अधीन रहकर सब ( व्रतानि आदधुः ) व्रतों को धारण करते हैं । ( आर्यस्य वर्धनम् ) श्रेष्ठ जनों को बढ़ाने वाले ( जातम् ) सब को प्रकट, विदित, प्रसिद्ध ( अग्निम् ) पूज्य, तेजस्वी, ज्ञाता, ज्ञापक प्रभु, सर्व गुरु को ( नः गिरः उपो सु नक्षन्त ) हमारी स्तुति वाणियां अच्छी प्रकार प्राप्त हों ।

प्र दैवोदासो अग्निर्देवाँ अचछ्वा न मुज्मना ।

अनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य सानवि ॥२॥

भा०—(दैवः-दासः = दिवः-दासः) तेज वा प्रकाश देने वाले सूर्य की

( अग्निः ) अग्नि ( देवान् ) अपने किरणों-वा प्रकाशों-कां ( मातरं पृथिवीं अनु ) सब जननी माता पृथिवी की ( अच्छ ) ओर ( मज्जना न प्र वावृते ) मानो बड़े बल से भेजता है, और ( पृथिवी मातरम् अनु ) उत्पादक माता भूमि के रचनादि के अनुसार ( वि वावृते ) उस में विविध कार्य करता है । वह पत्रों को हरा, पुष्पों का नाना रंगों का, जड़ों को स्थूल दृढ़ इत्यादि जंगम स्थावरादि संसार को अद्भुत प्रकार से परिणत करता, नाना ऋतु आदि को प्रवृत्त कराता है । वह स्वयं ( नाकस्य सानवि ) आकाश के उच्च भाग पर ( तस्थौ ) स्थिर रहता है । उसी प्रकार वह सर्वज्ञ प्रभु भी ( नाकस्य सानवि ) सुख आनन्दमय दशा में स्थिर है, तो भी मातृवत् जननी विस्तृत प्रकृति को बहुत भारी बल से नहीं चलाता प्रत्युत बड़े अनायास ही उस में ( प्र वावृते ) प्रथम स्पन्द उत्पन्न करता है और ( अनु वि वावृते ) अनन्तर उसी प्रकृति को विविध रूपों में बनाकर जगत् रूप से बदल देता है । यही उसका वास्तविक 'विवर्त्त' है । ! न कि नवीन-वेदान्तसम्मत ब्रह्म का ही विकार । वह अग्नि परमेश्वर 'दैवोदासः' है ( दिवः सूर्यादयो दासा इव यस्य ) समस्त सूर्य आदि लोक उस के दास के समान हैं ।

यस्माद्रेजन्त कृष्टयश्चर्कृत्यानि कृण्वतः ।

सहस्रसां मेधसाताविव त्मनाग्निं धीभिः संपर्यत ॥ ३ ॥

भा०—( चर्कृत्यानि कृण्वतः यस्मात् ) अपने अवश्य कर्त्तव्य, सर्ग, स्थिति, प्रलय वा मृत्यु आदि नाना कर्मों के सम्पादन करते हुए जिस से ( कृष्टयः ) समस्त मनुष्य मानो अपने देह में कर्म बीज की कृषि करते और कर्मफल का संचय और उपभोग करते हुए समस्त जीव गण ( रेजन्ते ) भ्रमपूर्वक कांपते और सञ्चालित होते हैं मानो उस ( मेधसातौ इव ) पवित्र अन्नवत् अवश्य प्राण्य फल प्राप्त करने के काल में ( सहस्रसां ) एक सत् बीज का सहस्रों गुणा फल देने वाले ( अग्नि ) उस परम ज्ञानी

पूज्य प्रभु की ( धीभिः सपर्यत ) उत्तम कर्मों और ज्ञानों, स्तुतियों से शुश्रूषा किया करो ।

प्र यं राये निनीपसि मर्तो यस्ते वसो दाशत् ।

स वीरं धत्ते अग्र उक्थशंसिनं त्मना सहस्रपोपिणम् ॥ ४ ॥

भा०—हे ( वसो ) सब जगत् के रक्षक, आच्छादक, सब में बसने वाले सर्वव्यापक ! ( यं ) जिस को तू ( राये निनीपसि ) ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये सन्मार्ग से ले जाता है, और ( यः मर्तः ते दाशत् ) जो देहधारी मरणशील जीव अपने को तुझे सौंप देता है, हे ( अग्ने ) सर्वज्ञ ! सब के अग्रनायक ! मार्गप्रकाशक ज्योतिर्मय ! ( सः ) वह ( त्मना ) अपने आप, ( उक्थ-शंसिनम् ) उत्तम वेद वचनों के वक्ता ( सहस्र-पोपिणं ) सहस्रों के पोपक ( वीरं ) वीर पुत्र, एवं विविध विद्योपदेष्टा, तुम को ( धत्ते ) अपने हृदय से धारण करता है ।

स दृढहे चिदभि तृणन्ति वाजमर्वता स धत्ते अक्षिति श्रवः ।  
त्वे देवत्रा सदा पुरुवसो विश्वा वामानि धीमहि ॥ ५ ॥ १३ ॥

भा०—( सः ) वही पुरुष जो अपने आप को तुझ पर वार देता है, ( दृढे चित् ) दृढ़ शत्रु पर भी वाजं ( अर्वता ) अपने बल से ( अभि वाजं ) संग्राम में ( तृणन्ति ) शत्रु का नाश करता है, ( सः अक्षिति श्रवः धत्ते ) वह अक्षय यश, ऐश्वर्य अन्न, ज्ञान धारण करता है । हे ( पुरु-वसो ) बहुत से धन के स्वामिन् ! ( त्वं देवत्रा ) तुझ परम दानी के आश्रय हम भी ( विश्वा वामानि धीमहि ) समस्त उत्तम २ धन प्राप्त करें ।

यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम् ।

मघोर्न पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमां यन्त्यग्रये ॥ ६ ॥

भा०—( यः ) जो ( विश्वा वसु दयते ) समस्त जीव गणों की



रक्षा करता है, जो समस्त प्राणिसमूह पर दया कृपा करता, और उन को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करता है। वह (होता) सब से बड़ा दानी, (जनानां आनन्दः) उत्पन्न जनों को आनन्द देने वाला है। (अस्मै अग्नये) उस ज्ञानमय, पूज्य के लिये (मघोः पात्रा न प्रथमानि) अन्न जल या मधुर पदार्थ से पूर्ण पात्रों के समान सर्वश्रेष्ठ (स्तोमाः प्रयन्ति) उत्तम स्तुति, मन्त्र वदे आदर पूर्वक हृदय से बाहर आते हैं।

अश्वं न गीर्भो रथ्यं सुदानवो मर्मृज्यन्ते देवयवः ।

उभे तोके तनये दस्म विशपते पर्षि राधो मघोनाम् ॥ ७ ॥

भा०—(रथ्यम् अश्वम्) रथ योष्य उत्तम अश्व के समान देह के, भोक्ता आत्मा को (सुदानवः) उत्तम दानशील, (देवयवः) देव, प्रभु के उपासक, परमेश्वर को चाहने वाले लोग (मर्मृज्यन्ते) सदा स्वच्छ करते रहते हैं, उस को अपने हृदय में चमकाते रहते हैं। हे (विशपते) समस्त प्रजाओं के पालक ! (हे दस्म) दर्शनीय ! दरिद्रादि कष्टों के काटने हारे ! (उभे तोके तनये) दोनों, पुत्र पौत्रादि के पालनार्थ (मघोनां राधः पर्षि) धनवानों का धन प्रदान कर।

प्र मंहिष्ठाय गायत ऋतावने वृहते शुक्रशोचिषे ।

उपस्तुतासो अग्नये ॥ ८ ॥

भा०—हे (उप-स्तुतासः) उपासक स्तुतिकर्ता जनो ! आप लोग (मंहिष्ठाय) अति दानशील, (वृहते) महान् (शुक्र-शोचिषे) शुद्ध तेजःस्वरूप (अग्नये) ज्ञानवान् सर्वपूज्य सर्वव्यापक (ऋतावने) सत्य ज्ञानमय प्रभु की (प्र गायत) उत्तम स्तुति करो।

आ वसते मघवा वीरवृधशः समिद्धो द्युमन्याहुतः ।

कुचिन्नो अस्य सुमतिर्नवीयस्यच्छा वाजेभिरागमत् ॥ ९ ॥

भा०—( मघवा ) पूजित ऐश्वर्य युक्त, ( द्युम्नी ) तेजस्वी, प्रभु ( आहुतः ) आदरपूर्वक प्रार्थित और ( समिद्धः ) हृदय में सुप्रकाशित होकर ( वीरवत् यशः आ वंसतेः ) पुत्रोंसे युक्त अन्न, यश आदि सब प्रकार से प्रदान करता है । ( अस्य कुवित् सुमतिः ) इस की बहुत उत्तम मति ( नवीयसी ) उत्तम उपदेशदात्री, ( वाजेभिः ) उत्तम जानों सहित ( नः अच्छ आगमत् ) हमें भली प्रकार प्राप्त हो ।

प्रेष्टुमु प्रियाणां स्तुह्यासावार्तिथिम् ।

अग्निं रथानां यमम् ॥ १० ॥ १४ ॥

भा०—हे ( आसाव ) आदरपूर्वक [स्तुति करने हारे, अग्नि आदि के उत्पन्न करने में समर्थ ज्ञानवन् ! तू ( प्रियाणां प्रेष्ठम् ) प्रियों में सर्व प्रिय, ( अतिथिम् ) सब से ऊपर विद्यमान, सर्वपूज्य, ( रथानाम् यमम् ) रथों के नियामक विद्युत् के समान सब देहों में वा सूर्यादि लोकों के नियन्ता ( अग्निं ) तेजस्वी संब्रालक आत्मा की ( स्तुहि ) स्तुति, उपदेश कर ।

उदिता यो निदिता वेदिता वस्वा यज्ञियो ववर्तति ।

दुष्टरा यस्य प्रवणे नोर्मयो धिया वाजं सिपासतः ॥ ११ ॥

भा०—( यः ) जो ( यज्ञियः ) पूजने योग्य स्वामी, ( उदिता ) उन्नत और ( निदिता ) निन्दित अच्छे और बुरे सब का ( वेदिता ) ज्ञान कराने वाला होकर, ( वसु आववर्तति ) नाना ऐश्वर्य सर्वत्र प्रदान करता है, वा प्राणि जन को चलाता है । ( धिया ) ज्ञानपूर्वक, कर्मानुसार ( वाजं सिपासतः ) ऐश्वर्य, ज्ञान बल वेगादि को सब में विभक्त करने वाले ( यस्य ) जिस के ( ऊर्मयः ) शासन ( प्रवणे उर्मयः न ) नीचे की ओर जाते हुए बृहत् जल व रंगों के ( दुष्टराः ) अपार हैं, उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता ।

मा नो हृणीतामतिथिर्वसुरग्निः पुरुप्रशस्त एषः ।

यः सुहोता स्वध्वरः ॥ १२ ॥

भा०—( यः ) जो ( सु-होता ) सुख देने वाला, उत्तम दानी, ( सु अध्वरः ) उत्तम मार्गप्रद, हिंसा से रहित दयालु है, वह ( अतिथिः ) सर्वोपरि पूज्य ( वसुः ) सब में बसा, ( अग्निः ) ज्ञानी, सर्वप्रकाशक, सन्मार्ग में प्रवर्तक है ( एषः ) वह ( पुरु-प्रशस्तः ) बहुत ही स्तुति करने योग्य सर्वश्रेष्ठ है ।।

मोते रिपुन्ये अच्छोक्तिभिर्वसोऽग्ने केभिश्चिदेवैः ।

कीरिश्चिद्धि त्वमीदृ दूत्याय रातहव्यः स्वध्वरः ॥ १३ ॥

भा०—हे ( वसो ) सब में बसे ! सब को वसाने हारे ! ( अग्ने ) ज्ञान के प्रकाशक ! ( ये ) जो ( अच्छोक्तिभिः ) उत्तम वचनों और ( केभिः-चित् एवैः ) किसी प्रकार के भी उत्तम साधनों से ( त्वाम् ) तेरी उपासना करते हैं ( ते मो रिपन् ) वे कभी पीड़ित नहीं होते । ( कीरिः चित् हि ) उत्तम स्तुति करने हारा ही ( दूत्याय ) तेरे स्तुति कर्म के लिये ( रात-हव्यः सु-अध्वरः ) अन्नादि चरु देता और उत्तम यज्ञ करता हुआ ( त्वाम् ईडे ) तेरी उपासना किया करता है ।

आग्ने याहि मरुत्सखा रुद्रेभिः सोमपीतये ।

सोमर्या उप सुष्टुतिं मादयस्व स्वर्णरे ॥ १४ ॥ १५ ॥ १० ॥ ८ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) सर्वज्ञ ! सर्वपूज्य ! तू ( मरुत्सखा ) विद्वान् जनों का मित्र होकर ( रुद्रेभिः ) दुष्टों को रूलाने वाले और समस्त प्रजाओं के दुःखों को दूर करने वाले, वायु जलादि पदार्थों द्वारा ( सोम-पीतये ) उत्तम आनन्द रस, अन्न, ऐश्वर्यादि कर्म फलों का उपभोग पानादि कराने वा उत्पन्न जगत् का पालन करने के लिये ( आ याहि ) तू हमें प्राप्त

हो और ( सोभर्याः ) उत्तम पूजा-अर्चना करने वाले जन की (स्वः-नरे)  
सब के नायक तुझ में प्रयुक्त ( सु-स्तुतिं ) उत्तम स्तुति को श्रवण कर ।  
(उप मादयस्व) स्वयं प्रसन्न हो, सब को प्रसन्न कर ।

प्रसीद देवेश जगन्निवास । गीता ॥

इति पञ्चदशो वर्गः ॥ इत्यष्टमे मण्डले दशमोऽनुवाकः ॥

॥ इति प्रागाथमष्टमं मण्डलं समाप्तम् ॥

इति श्री-विद्यालङ्कार-मीमांसातीर्थ-विरुदोपशोभित-श्रीपण्डित जयदेवशर्मणा  
विरचिते ऋग्वेदाऽऽलोकभाष्येऽष्टमं मण्डलं समाप्तम् ॥

